

सुप्त-पिटकका

मज्झिम-निकाय

[बुद्ध-वचनसमूह-१]

अनुवादक

त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन

प्रकाशक

महाबोधि सभा

भारनाथ (वाराणसी)

प्रथम संस्करण
१५००

बुद्धाब्द २४७७
१९३३ ई०

मूल्य
₹ २

प्रकाशक
ब्रह्मचारी देवप्रिय, बी० ए०
प्रधान-मंत्री, महाबोधि सभा
सारनाथ (बनारस)



मुद्रक
महेन्द्रनाथ पाण्डेय
इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, प्रयाग

समर्पण

भारतमें बुद्ध-धर्मके पुनरुद्धारक, निर्भीकता और
दृढ़ संकल्पकी साकार मूर्ति, लोकान्तरगत
भिन्नु श्री देवमित्र धर्मपालकी
दृश्य-स्मृतिमें ।

प्रकाशकीय निवेदन

हिन्दी पाठकोंके सन्मुख, महाबोधि ग्रंथमालाके द्वितीय पुष्पके रूपमें, मज्जिम-निकायके हिन्दी अनुवादको लेकर उपस्थित होनेमें हमें बहुत आनन्द था रहा है। हमने अगले चार वर्षोंमें त्रिपिटकके कितने ही प्रधान ग्रंथोंका हिन्दी अनुवाद छापना निश्चय कर लिया है। इसी साइजके लगभग १००० पृष्ठके प्रति वर्ष निकला करेंगे। हम अपना कर्तव्य पालन करनेके लिये तैयार हैं; किन्तु इस महान् कार्यकी पूर्तिके लिये हमें हिन्दी प्रेमियोंकी सहानुभूति और सहायताकी पूरी आवश्यकता है। मूल त्रिपिटकके अनुवाद हिन्दी भाषाकी स्थायी सम्पत्ति होगी। इस कार्यमें आप दो प्रकारसे हमारी सहायता कर सकते हैं; (१) एक तो आठ आना भेजकर आप स्थायी ग्राहक बन जायें, इससे हमारी उत्साह-वृद्धि भी होगी; और आपको पुस्तक पौने मूल्यमें मिलेगी और (२) हमसे, हमारे राजा-महाराज और लक्ष्मीपात्र द्रव्यसे हमारी सहायता करें। इस बार जल्दीके कारण यद्यपि दान संग्रहमें हम अधिक प्रयत्न न कर सके, तो भी हिन्दी-भाषा-भाषियोंके कानों तक, उनके स्वजन भगवान् बुद्धकी अमर-वाणीको पहुँचानेमें हमें निम्न दानियोंने सहायता प्रदान की है—

सेठ युगलकिशोर विदला	५००)
डाक्टर फैलापानाय काटजू (प्रयाग)	२००)
महाराजा छत्रपुर	१००)
श्री जोसेफ फ्लेस् (लंका)	१००)
श्री सर्वानन्द धरआ (चटगाँव)	१००)
डाक्टर A. L. नायर (यम्पई)	१००)

चिनम्र—

(ब्रह्मचारी) देवप्रिय
प्रधान-मंत्री, महाबोधि समा
सारनाथ (धनारस)

प्राक्-कथन

(१)

त्रिपिटक (पाली) के हिन्दी अनुवादके साथ त्रिपिटक कालीन इतिहास, भूगोल, सामाजिक रीति-रिवाज तथा इगो तरहकी और बातोंपर कुछ लिखना आवश्यक है; किन्तु इस विषय पर प्रत्येक पुस्तकमें अलग अलग लिखनेमें अपूर्णता रहेगी, इसीलिये मैं इसपर कुछ विशेष तौरसे लिखनेको आगेके लिये छोड़ता हूँ । यहाँ इतनाही कहना है ।—

बुद्धकी पर्यटन भूमि । बुद्ध भारतके किन किन स्थानोंमें पहुँचे थे, इसका ज्ञान हमें प्रत्येक सूत्रके आरम्भमें भाये—“एक समय भगवान्... (स्थान)में “विहार करते थे”—वाक्यमें मिल सकता है । सारे त्रिपिटकके सूत्रोंकी इस दृष्टिसे छानबीन करनेसे मालूम होता है, कि वह पश्चिम में यमुनाके पार नहीं गये । यदि गये भी होंगे, तो मथुरा तक ही । मथुरामें भगवान्का किया उपदेश कोई नहीं मिलता । लेकिन एक बार उन्हें हम मथुरा और वेरंजा^१ के रास्ते पर जाते पाते हैं, हमें यह भी मालूम है, कि वेरंजा नगर उस रास्ते पर था, जो पश्चिमसे वेरंजा—खोरथ्य—संनस्थ—कशौजको जाता था । कुछ देशके कम्मासदम्म^२ और धुल्लकोट्टित^३ (राजधानी) कस्बोंमें बुद्ध गये थे । किन्तु यह नगर यमुना और गंगाके बीच वाले प्रदेश (वर्तमान मेरठ, मुजफ्फरनगर-महारन-पुरके जिलों)में ही कहीं थे । उस पार जानेपर इन्द्रप्रस्थ जरूर पड़ता । पूर्वमें बुद्ध कजंगलामें^४ गये थे, और सम्भवतः यही उनके जानेका अन्तिम स्थान था । कजंगलाकी देशान्तर रेखाहीमें फर्ही पर कोनी गंगामें मिलती थी । कोसीके पश्चिम तथा गंगाके उत्तरमें अंगुत्तराप प्रदेश था । मापाकी दृष्टिसे आजकी तरह तय भी वह अंगका ही अंग था । अंगुत्तरापके आपण कस्बेमें बुद्धका जाना हमें मालूम है, और हम यह भी जानते हैं, कि वहाँ मगध-राज विजसार^५ का शासन था । अंगुत्तरापके पूर्वी सीमा तक पहुँचने पर भी, वह कोसीके पूर्व तो कदापि गये नहीं मालूम होते । दक्षिण दिशामें—द्राणार्ण (पश्चिमी बुन्देलखंड)में उनके जानेका पता नहीं मिलता । चेदीमें भी अधिकसे अधिक विष्य और गंगाके बीचके ही स्थानोंमें गये होंगे । भर्ग (दक्षिणी मिर्जापुर, धनारम जिलों)में जाना तो स्पष्ट ही है, किन्तु यहाँ भी वह विष्याटवी और उसके दक्षिण नहीं जा सके थे । विहार प्रान्तमें उनकी विचरण भूमिकी सीमा शाहाबाद और गया जिलोंको लेने, कुछ ही दूर तक हज़ारीबाग और संयाल-पर्वनाके जिलोंमें घुसी थी । बुद्धकी-विचरण भूमि पाली साहित्यमें मध्यमण्डलके नामसे प्रसिद्ध है ।

मध्यमंडलके शासक—कोसल-राज्य । विस्तार और प्रभावमें भी यह उस समय सबसे बड़ी शक्ति थी । अंगुलिमाल-सुत्त (पृष्ठ ३५४)से मालूम होता है, कि वैशालीके लिच्छवि और

^१ बुद्धचर्या, पृष्ठ १३७, १४४ । ^२ पृष्ठ ३५ । ^३ पृष्ठ ३३० । ^४ पृष्ठ ३४४ । ^५ पृष्ठ ३८२ ।

मगधराज अजातशत्रु इसके पड़ोसी प्रतिद्वन्दी थे। हम जानते हैं, कि कोसलके पूर्वमें शाक्य (मेतल्लप, सामगाम, कपिलवस्तु), कोलिय (देवदह), और मल्ल (कुसीनारा, पावा, अनूपिया)के प्रजातन्त्र थे। सम्भवतः शाक्य और कोलिय प्रजातन्त्र भी नौ मल्लोंमें हीसे थे। लिच्छवियोंको पड़ोसी प्रतिद्वन्दी बनानेसे, यह भी सिद्ध होता है, कि मल्ल प्रजातंत्र कोसल-राज्यके प्रभावके अन्तर्गत थे। इस बातकी पुष्टि हमें कुसीनारा निवासी बन्धुमल्ल^१ के कोसलके सेनापति जैसे महत्वपूर्ण पदपर प्रतिष्ठित होनेसे भी होती है। शाक्योंके ऊपर कोसलका कितना अधिकार था, यह कोसलराजके साधारण सैरके तौरपर बिना किसी विशेष तय्यारीके नगरकसे शाक्योंके मेतल्लप कस्बेमें चले जानेसे मालूम होता है। दक्षिणमें कोसल राज्यकी सीमा काशी देश होते गंगा तक पहुँचती थी। काशियोंकी राष्ट्रीयताको सन्तुष्ट रखनेके लिये स्वयं प्रसेनजित्का छोटा भाई नाम मात्रका “काशिराज”^२ वन वाराणसीमें वैसे ही रहता था; जैसे मगधोंके हाथमें चले जानेपर भी कोई अंग-राज^३ सम्भवतः चम्पामें रहता था। पश्चिममें कोसल-राज्यकी सीमा पाली त्रिपिटकसे निश्चित नहीं की जा सकती। उत्तर पंचालके किसी नगर में बुद्धका जाना नहीं मिलता। लखनऊ कमिश्नरीके उत्तरी जिले और रुहेलखंडमें बहुत घने जंगल जरूर थे; तो भी वहाँ मनुष्योंकी वस्ती विलकुल नहीं थी यह हो नहीं सकता। वल्कि थोड़ा संवलले कारवाँ (= सार्थ)के साथ चले जीवकका, तक्षशिलासे राजगृह जाते वक्त साकेत^४ (अयोध्या)में पहुँचना तो बतलाता है, कि इसी प्रदेशसे होकर उत्तरी भारतका एक महान् वर्णिक-पथ जाता था, और इसी लिये इस रास्ते पर कुछ व्यापारिक नगरोंका होना भी आवश्यक था। उत्तरी पंचालमें किसी राज-शक्तिका नाम न आनेसे जान पड़ता है, यह कोसलोंके आधीन था, और इसी लिये गंगा ही कोसलकी पश्चिम-सीमा रही होगी। कोसल-राज्य अपने प्रभावान्तः-पाती प्रजातंत्रोंको लिये गंगा, मही (वर्तमान गंडक) और हिमालयसे घिरा मालूम होता है।

कोसल राज-परिवारमें माल्लिका पटरानी थी। वासुदेवकीत्याको प्रसेनजित्ने शाक्योंसे घनिष्टता पैदा करनेके लिये व्याहा था^५, इसीसे सेनापति विडूढभ पैदा हुआ था। विडूढभ द्वारा पिताका पदच्युत होना अट्कथा^६ से मालूम है, और यह भी मालूम है, कि कैसे शाक्योंका सर्वनाश करके लौटते वक्त अचिरवती (= रापती)की आकस्मिक यादमें वह भी ससैन्य डूब मरा। प्रसेनजित्की एक मात्र कन्या वजिरी थी^७ जिसका व्याह अजातशत्रुसे हुआ। विडूढभके याद कोसल-राज्य पर अजातशत्रुका अधिकार हो जाना स्वाभाविक था।

मगध-राज्य। कोसल-राज प्रसेनजित्^८ और वत्सरराज उदयनकी भाँति मगध-राज विंबसार भी बुद्धका समवयस्क था। अंगुत्तराप (= मागलपुर सुंगेर जिलोंका गंगासे उत्तरीय भाग) विंबसारके अधीन था। पूर्व और दक्षिणकी सीमापर इसके कोई वैसे प्रभावशाली राज्य न थे। अजातशत्रुके शासनकालमें मगधकी तीन प्रतिद्वन्दी शक्तियाँ थीं—कोसल राज्यके बारेमें हम कह चुके हैं, जो विस्तृत और चिरप्रतिष्ठित होते भी अवनतिकी ओर जा रहा था। लिच्छवि प्रजातंत्रकी शक्ति-शालिताका पता तो इसीसे मिलता है, कि उसके सैनिक गंगा पार हो, मगधके भीतर पाटलिग्राम (पटना) में महीनों छावनी ढाले बैठे रहते थे^९। अजातशत्रु और लिच्छवियोंकी सीमापर हिमालयसे व्यापा-

^१ पृष्ठ ४७३-७५।

^२ बुद्धचर्या, पृष्ठ ३०७।

^३ पृष्ठ ३९३।

^४ बुद्धचर्या, पृष्ठ २९९।

^५ बुद्धचर्या, पृष्ठ ४०१, ४७५।

^६ बुद्धचर्या, पृष्ठ ४७५-७६।

^७ वही पृष्ठ ४४०।

^८ वही पृष्ठ ४७७-८०।

^९ बुद्धचर्या, पृष्ठ ५२७।

रियोंका कोई मार्ग^१ जाता था, जिसकी दृष्टीके लिये दोनों शक्तियोंमें बहुत वैमनस्य^२ था। सीमांत प्रदेश अंगुत्तराप और विदेहकी संधि पर मालूम होता है। इससे यह भी मालूम होता है कि पुराने विदेहके एक भागका नाम विदेह होने पर भी वह लिच्छवियोंके प्रजातंत्र के अन्तर्गत था। मगधका दूसरा प्रतिद्वन्दी अवन्तिराज प्रद्योत था, जो एक धार स्वयं राजगृह पर चढ़ाई करना चाहता था; जिसके लिये मगधका प्रधानमंत्री वर्षकार सेनापति उपमन्दके साथ राजगृहकी मोर्चाबन्दी^३ करवा रहा था। प्रद्योतके राज्यकी सीमा मगधसे सीधी कहाँ मिलती थी, इसे ठीकसे नहीं कहा जा सकता। यदि पलामू—राँची जिलोंके दुर्गम जंगलोंमें मिलती हो, तो निर्जन होनेसे उसका उतना महत्त्व न था। अधिकतर संभव मालूम होता है, यह संघर्ष गङ्गा उपत्यकाके लिये ही था। प्रद्योतके दामाद वत्सराजकी प्रद्योतसे घनिष्टता होनी स्वाभाविक थी। प्रद्योतका दौहित्र घोधि राजकुमार मगधके ही लिये, सुंसुमारगिरि (सुमार)में ठठा हुआ था। इन प्रकार प्रद्योत इधरसे आक्रमण कर सकता था। उस समय अवन्ती और मगधकी शक्तियाँ ही सारे उत्तरी भारतकी प्रधानताके लिये उद्योग कर रही थीं। वज्जियों और फौलदेके दातिपूर्ण विजयने अजातशत्रुके पल्लेको भारी कर दिया और इस प्रकार उज्जयिनीकी जगह पाटलिपुत्रको प्रथम भारतीय साम्राज्यकी राजधानी बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ।

लिच्छवि-प्रजातंत्र। कोसल और मगधकी शक्तियोंसे घिरा यह पराक्रमी प्रजातंत्र बिल्कुल स्वतंत्र था। इसके उरके मारे मगधराज पाटलिग्राममें सुदृढ़ दुर्ग बनवानेके लिये मजबूर हुये^४। कोसलराजको भी इनकी चिन्ता कम न थी^५। इसकी राजधानी वैशाली ग्रीसकी एथेन्स थी; जिसकी नागरिकताका अनुकरण मगधकी राजधानी (राजगृह) तक करती थी। इसके लिये मगध मेसेदोनिया और अजातशत्रु फिलिप् था। फिलिप् और ग्रीस-प्रजातंत्रोंकी कश्मकश्मका नाटक भारतमें एक प्रताण्डी पूर्व लिच्छवियों और अजातशत्रुके बीच अभिनीत हुआ था। उस समयकी ऐतिहासिक सान्द्रो यद्यपि बहुत थोड़ी मिलती है; तो भी उससे इस गौरवशाली प्रजातंत्रके इतिहासका एक अच्छा रूप खड़ा किया जा सकता है। खेद है, कि अभी तक इस तरह अभिज्ञोंका ध्यान उतना नहीं गया। कुछ पंक्तियोंमें इसके बारेमें लिखना मैं अन्याय समझता हूँ, इसलिये इसे आगेके लिये छोड़ता हूँ।

वत्स-राज्य। पूर्व और दक्षिणमें इसके मगध और अवन्तीकी शक्तियाँ थीं। वत्सके अतिरिक्त मगध और चेदी देशोंका कुछ भाग इसके आधीन था। इसके पश्चिममें दक्षिण पंचाल था, जो संभवतः वत्सहीके आधीन था। पंचालको वत्सके आधीन मान लेने पर, पश्चिममें इसके दो छोटे पड़ोसी राजा दिखाई पड़ते हैं।—एक तो सूरसेनका राजा माधुर अवन्ती-पुत्र—जो उदयनकी रानी वामघदत्ता या घोधि राजकुमारकी माताकी पहिनका पुत्र तथा प्रद्योतका दौहित्र था। सम्भवतः यह माधुर राजा भी प्रद्योतके प्रभावके अन्तर्गत था। उत्तरमें धुल्लकोट्टिकका राजा कौरव्य^६ था, जो बुद्धके समय बहुत बड़ा हो चुका था^७; यह कौरव्य कोई कुरुवंशीय ही राजा रहा होगा, जिस वंशका ही प्रधान पुरुष उस समय वत्सराज उदयन था। इससे यदि (पूर्व) कुरु-वत्सके प्रभावके अन्तर्गत रहा हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। और फिर सूरसेनका भी, कमसे कम प्रद्योतके प्रभावके पहिले, वत्ससे अछूता रहना सम्भव नहीं। जान पड़ता है, कोसलकी भाँति ही

^१ सम्भवतः जयनगर (दर्भगा) से धनकुटा जानेवाला मार्ग होगा।

^२ बुद्धचर्या पृष्ठ ५२०।

^३ पृष्ठ ४५५, ४५७।

^४ बुद्धचर्या पृष्ठ ५२७।

^५ पृष्ठ ३४५।

^६ पृष्ठ ३३४।

^७ पृष्ठ ३३५।

वत्स-राज्य भी बहुत विशाल था, और उसीकी भाँति यह भी अपने रँगीले राजाके स्वभाव, तथा प्रद्योतकी प्रतिद्वन्दिताका शिकार हो रहा था। जान पड़ता है, दूसरी पीढ़ीमें वत्स वैसे ही अवंतीका घास बन गया, जैसे कोसल मगधका; और फिर विखरी प्रतिद्वन्दिता अवंती और मगध दो ही महाशक्तियोंमें केन्द्रित हो गई।

(२)

मज्झिम-निकायके १५२ सुत्तन्त तीन पण्णासकों (= पचासों)में विभक्त हैं। हाँ, तृतीय या उपरि-पण्णासकमें ५० की जगह ५२ सुत्तन्त हैं। प्रत्येक पण्णासकमें दस दस सुत्तन्तोंके पाँच वर्ग हैं; उपरि-पण्णासकका चौथा (विभंग-) वर्ग इसका अपवाद है, जिसमें कि १२ सुत्तन्त हैं। वर्गों (= वर्गों)के नामोंमें कोई कोई तो किसी सुत्तन्तके नामके कारण हैं, जैसे मूल-परि-याय-वर्ग...; कोई कोई वर्णित विषयके कारण जैसे सत्थायतन-वर्ग; कोई कोई सूत्रमें अधिकतर सम्बोधित व्यक्तिकी श्रेणी पर हैं; जैसे—परिव्वाजक-वर्गमें परिव्राजक सम्बोधित किये गये हैं, राजवर्गमें राजा और राजकुमार, ब्राह्मण-वर्गमें ब्राह्मण, गृहपति-वर्गमें गृहपति (= वैश्य)।

भगवान् बुद्ध अपने उपदेशोंमें कितने ही सुन्दर दृष्टान्त या उपमायें दिया करते थे; हमने अन्तमें इनकी एक पृथक् सूची लगा दी है।

मज्झिम-निकाय सुत्तन्त (= सूत्र) बुद्धके ही कहे हुये हैं; लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें बुद्धके शिष्य सारिपुत्त महाकात्यायन आदिने कहे। माधुरिय-सुत्तन्त, घोटमुख-सुत्तन्तकी भाँति भगवान्के निर्वाणके बादके भी कुछ सुत्तन्त हैं।

(३)

धम्मपदके प्रकाशनके वक्त मैंने लिखा था, कि मज्झिम-निकायका हिन्दी अनुवाद इसी सन्में पाठकोंकी सेवामें पहुँच जायेगा। यद्यपि इसके विषयमें मुझे सन्देह उतना नहीं हो रहा था, जितना कि परिस्थितियाँ प्रकट कर रही थीं। लिखने पढ़नेकी आसानीके लिये ही अबकी गर्भियोंमें मैं लदाख गया। पहिले आशा रखता था, कि साथमें किसी लिखनेवालेको ले जाऊँगा। किन्तु वैसा प्रबंध न हो सका। मैं २५ जूनको लेह (लदाख) पहुँचा, और १६ सितम्बर तकके समयमें दो चार ही दिन इधर उधर गया। यदि सिर्फ मज्झिम-निकायका अनुवाद होता, तो समय काफी था; किन्तु वहाँके बौद्धोंकी दयनीय अवस्था तथा कुछ बंधुओंके आग्रहने मुझे वहाँके लड़कोंके लिये तिब्बती भाषाकी चार पुस्तकें लिखने पर मजबूर किया। उधर कुछ और मित्रोंकी प्रेरणाने 'तिब्बत में बौद्ध-धर्मका इतिहास' को संक्षेपसे लिखवाया। अपनी तिब्बती और युरोप-यात्राओंको भी वहीं समाप्त करनी पड़ी। यह निश्चय ही है, कि इतने कामोंके लिये उतना समय पर्याप्त न था। एक दो बार तो मैंने अपने मित्रोंको लिख भी दिया कि शायद मैं आधे ही ग्रंथको लदाखमें समाप्त कर सकूँगा।

अनुवादमें समय इस प्रकार लगा—

जुलाई	५—१५	१—२६ सुत्तन्त
अगस्त	२१—३१	३८—९८ सुत्तन्त
सितम्बर	१—२, ४—९, ११—१४	९९—१५२ सुत्तन्त
नवंबर	४—७	२७—३७ सुत्तन्त

लदाखमें अनुवाद करते वक्त मालूम हुआ, कि मेरी पाली प्रतिमें ११ सुत्तन्त (= सूत्र) गुप्त हैं, इसीलिये उनका अनुवाद लौटकर प्रयागमें हुआ। इस प्रकार यह सारा ग्रंथ ३८ दिनोंमें

अनुवादित हुआ। जल्दीके लिये अफसोस करनेकी आवश्यकता नहीं, जब कि मैं जानता हूँ, कि कामकी अधिशुनाके कारण, दूसरा कोई उपाय ही नहीं; अथवा एक अनिश्चित समयके लिये इस कामकी स्थगित कर रखना पड़ता।

त्रिपिटक-शास्त्र-मयमें मज्झिम निकायका स्थान सर्वोच्च है। त्रिद्वान् लोग इसीके धारमें कहते हैं, कि यदि सारा त्रिपिटक और चौद-नाहित्य नष्ट हो जाये, तर्हि मज्झिम-निकाय ही बचा रहे; तो भी इसकी मददसे हमें पुनरुत्थी स्थिति, उनके दर्शन और अन्य शिक्षाओंके तरफको समझनेमें कठिनाई न होगी। इसी कारणसे "पुनरुत्थी" और "धम्मपद"के पाठ मैंने इसमें हाथ लगाया।

अनुवाद करनेमें तार्किक भाषा जार्जोंका भी पूरा ख्याल रखा गया है, इसीलिये भाषा कुछ कठिनकी हो गई है; किन्तु, अनुवादमें पुरातत्वशास्त्रियों, भाषा-तत्त्वज्ञों तथा दूसरे अन्वेषकोंके लिये भी उपयोगी बननेके लिये धैर्य करना अनिवार्य था। जार्जोंका एक प्रिल्लुत कोश मैंने ग्रंथके अन्तमें दे दिया है, और गाल गालपर कोष्ठमें भी सरल पर्याय देता गया हूँ। पाठकोंको कठिनाई मानना होगी, कुछ चौद दर्शनिय परिभाषाओंके कारण। किन्तु, संक्षेप और स्पष्ट होनेके लिये परिभाषित जार्जोंका प्रयोग करना ही पड़ेगा। पहिले पुनरुत्थीको भी मैंने (०) चिह्न देकर हटा दिया है, इनसे भी वही वही गूढ़ दिखन होगी, किन्तु उनके लिये मैं फुटनोटमें संकेत भी करता गया हूँ। यदि सभी पाठक प्रत्येक जार्ज के समझनेका धाम्य न करेंगे, तो आशा है, वह अनुवादकी मन्त्रोप-जनक पाठोंमें। यह अन्तिम अनुवाद तो है नहीं, यदि हमने अवश्यके अनुवादकोंके काममें सहायता पढ़ेंगी, तो यह भी हमकी एक उपयोगिता होगी।

त्रिपिटकके कुछ अर्थोंकी पालीमें अनुवाद करनेकी बात मैंने "धम्मपद"के छपते वक्त लिखी थी। मैंने अपने चार वर्षोंके प्रयासोंको इस प्रकार हिन्दी-अनुवाद-कार्यमें लगानेका निश्चय किया है—

पाणिनीय + महाभारत + शुद्धभाषा (विनय-पिटक)	१९३४ ई०
दीर्घ-निकाय	१९३५ "
संयुक्त-निकाय	१९३६ "
सुत्तनिपात + उदान + मिट्ठिन्द पण्ड	१९३७ "

अपने स्पष्ट समझधारी महन्त आनन्द फॉमल्यायन, तथा शीघ्र ही लघु सप्रसन्नचारी बनने वाले एन दूसरे तरफसे आशा रखता हूँ, कि इन्हीं चार वर्षोंमें वह सम्पूर्ण जातकोंका भी हिन्दी अनुवाद कर लेंगे। यदि ऐसा हुआ, तो मूल चौद-नाहित्यके अनुवादमें हिन्दीका स्थान भारतीय भाषाओंमें ही प्रथम नहीं हो जायेगा; बल्कि हमारी मातृभाषा युरोपीय भाषाओंसे टकर लेने लगेगी।

पुनरुत्थीके भाषा मज्झ-मंडल (= प्राचीन मध्यदेश) का एक मानचित्र भी दे दिया गया है, जिससे तत्कालीन भूगोलके समझनेमें आसानी होगी। ध्यानसे खींचनेपर भी जनपदों और राज्यों की सीमायें कितनी ही जगह गलत हो सकती हैं।

"धम्मपद"के अनुवादको समाप्त करते समय मैंने श्रद्धेय मिश्र देवमित्र धर्मपालसे कहा था—मैंने अपनी प्रथम पुस्तक पुनरुत्थी अपने पिताको समर्पित की, दूसरी अपने उपाध्यायको; और अब यह तीसरी मैं आपको समर्पित करूँगा। उन्होंने कहा—काम होना चाहिये, अपने लिये समर्पणको मैं घेवार समझता हूँ। घे-कार हो, चाहे स-कार, अब वह बेकारका शब्द ही कय उन पतले आँठोंमें गुननेको मिलेगा !!

अनुवादका काम तो मेरे हाथका था, चाहे रातको तीन पजता, चाहे चार, उसे मैं पूरा कर

सकता था; किन्तु १९३३ ई० के भीतर छाप देनेकी समस्या आसान न थी। महायोधि समाके प्रधान मंत्री ब्रह्मचारी देवप्रियने कई आर्थिक अड़चनोंके रहते भी छापना स्वीकार कर, उस कठिनाईको हल कर दिया। दूसरी कठिनाई थी एक मासके अल्प समयमें प्रायः आठ सौ पृष्ठोंकी सारी पुस्तकको छाप कर निकाल देना। जिस कठिनाईको दूर करनेके लिये ला-जर्नल-प्रेसके मैनेजर पंडित कृष्णप्रसाद द्र, तथा पंडित सीताराम गुंठे, पं० महेन्द्रनाथ पांडेय, श्री राजनाथ और श्री बच्चूलाल विशेषतया धन्यवादके पात्र हैं। पंडित उदयनारायण त्रिपाठी, साहित्य-रत्न, M. A. और उनकी दारागंजकी शिष्य-मंडली तथा बाबू बलदेवसिंह, “विशारद” यदि प्रूफ देखनेमें सहायता न करते, तो काम बहुत कठिन हो जाता। इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

यदि पाठकोंकी सहायता प्राप्त होगी; तो आशा है अगले संस्करणमें ग्रंथकी बहुतसी त्रुटियाँ दूर हो जायेंगी।

प्रयाग }
१५—१२—३३ }

राहुल सांकृत्यायन

भूमिका

बुद्धके मूल सिद्धान्त^१

बुद्धके उपदेशोंके समझनेमें सहायता मिलेगी, यदि पाठक बुद्धके इन मूल चार सिद्धान्तों—तीन अनवीकारात्मक और एक स्वीकारात्मक—को पहले जान लें। ये चार सिद्धान्त ये हैं—

(१) ईश्वरको नहीं मानना; अन्यथा 'मनुष्य स्वयं अपना भालिक है'—इस सिद्धान्तका विरोध होगा।

(२) धागाको नित्य नहीं मानना; अन्यथा नित्य एक रम माननेपर उसकी परिशुद्धि और शुद्धि के लिए गुंजाइश नहीं रहेगी।

(३) किसी ग्रन्थको स्वतः प्रमाण नहीं मानना; अन्यथा बुद्धि और अनुभवकी प्रासांगिकता जाली रहेगी।

(४) जीवन-प्रवाहको इन्हीं द्वारों तक परिमित न मानना; अन्यथा जीवन और उसकी विविधताएँ, बार्धपरण नियमने उत्पन्न न होकर, सिर्फ आकस्मिक घटनाएँ रह जायँगी।

यौद्ध धर्ममें चार धारें सर्वमान्य हैं। इन चार धारोंपर हम यहाँ अलग विचार करते हैं।

(१) ईश्वरको न मानना

ईश्वरवादी धरते हैं—“चूँकि हर एक कार्यका कारण होता है, इसलिये संसारका भी कोई कारण होना चाहिए; और यह कारण ईश्वर है—लेकिन प्रश्न किया जा सकता है—ईश्वर किस प्रकारका कारण है ? क्या उपादान-कारण, जैसे घड़ेका कारण मिट्टी; कुंडलका सुवर्ण ? यदि ईश्वर जगत्का उपादान-कारण है, तो जगत् ईश्वरका रूपान्तर है। फिर संसारमें जो भी बुराई-भलाई, सुख-दुःख, दया-श्रुता देवी जाती है, वह सभी ईश्वरसे और ईश्वरमें है। फिर तो ईश्वर सुखमयकी अपेक्षा दुःखमय अधिक है, क्योंकि दुनियामें दुःखका पलड़ा भारी है। ईश्वर दयालुकी अपेक्षा क्रूर अधिक है, क्योंकि दुनियामें चारों तरफ क्रूरताका राज्य है। यदि धनरूपतिको जीवधारी न भी माना जाय, तो भी सूक्ष्मवीक्षणसे द्रष्टव्य फीटाणुओंसे लेकर कीड़े-मकोड़े, पक्षी, मछली, साँप, छिपकली, गोदूद, भेड़िया, सिंह-व्याघ्र, सम्य-असम्य मनुष्य—सभी एक-दूसरेके जीवनके ग्राहक हैं। प्यानने देखनेपर दय्य-अदय्य, मारा ही जगत् एक रोमांचकारी युद्धक्षेत्र है, जिसमें निर्बल प्राणी

^१ यह पहिले १९३२ ई० के “विशाल-भारत” में लेख-रूपसे निकला था।

सबलोकें प्राप्त धन रहे हैं। पुनर्जन्म न माननेवाले धर्मोंको तो इसे बिना आनाकानीके स्वीकार करना पड़ेगा। पुनर्जन्मवादी कह सकते हैं कि सभी सुखीयतें पूर्वके कर्मोंके फल हैं, लेकिन यह भी चिन्त्य है। अच्छे-बुरे कर्मोंकी जवाबदेही जानकारको ही हो सकती है। पागल या नशेमें घेहोश या अघोष घालकको दूसरेकी हत्याका दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इससे इनकार किसको हो सकता है कि मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणी—जो अपने अच्छे-बुरे कर्मोंके जाननेकी समझ नहीं रखते, और जिनका जीवन दूसरोंकी हत्यापर ही निर्भर है—अपने कर्मोंके जिम्मेवार नहीं हो सकते? मनुष्योंमें भी घालक, पागल आदि अलग कर देनेपर दायित्व रखनेवालोंकी संख्या बहुत कम रह जायगी। यदि दुनियामें जवाबदेह आदमियोंकी संख्या डेढ़ अरब मान ली जाय, तो फल भोगनेवाले इतने कहाँसे आयेंगे, जिनकी संख्या अपार है। डेढ़ अरबसे अधिक तो कष्टुये ही होंगे, जो आदमीसे अधिक दीर्घजीवी हैं, और कीटाणुओं तथा हाथी, ह्वेल आदि जैसे विशालकाय जन्तुओंके धारेमें कहना ही क्या?

उपादान-कारण है, तो निर्विकार कैसे हो सकता है? यदि ईश्वरको निमित्त-कारण माना जाय, अर्थात् वह जगत्को वैसे ही बनाता है, जैसे कुम्हार घड़ेको, सुनार कुंदलको, तो प्रश्न होगा, क्या वह बिना किसी उपादान-कारणके जगत्को बनाता है, या उपादान-कारणसे? यदि बिना उपादान-कारणके, तो अभावसे भावकी उत्पत्ति माननी होगी, और कार्य-कारणका सिद्धान्त ही गिर जायगा, तब फिर जगत्को देखकर उसके कारण ईश्वरके माननेकी ज़रूरत क्या? यदि इन्द्रजालकी तरह उसने जगत्को बिना कारण मायामय उत्पन्न किया है, तो प्रत्यक्षके मायामय होनेपर ईश्वरके होनेका अनुमान ही किस सामग्रीके बलपर होगा? यदि उपादान-कारणसे बनाता है, तो कुम्हारकी भाँति जगत्से अलग रहकर बनाता है, या उसमें व्याप्त होकर? अलग रहनेपर वह सर्वव्यापक नहीं रहेगा, और सृष्टि करनेके लिए उसे दूसरे-सहायकों और साधनोंपर निर्भर होना पड़ेगा। विद्युत्कणोंसे भी सूक्ष्म नवकणों (Neutrons) तक पहुँचने और उनके मिश्रणसे क्रमशः स्थूलतर चीज़ोंके बनानेके लिए वह कौनसा हथियार, सुनारकी सँढासीकी तरह, प्रयोग करेगा? और फिर सर्वशक्तिमान् कैसे रहेगा? यदि उसे उपादान-कारणमें सर्वव्यापक मान लिया जाय, तो भी उपादान-कारणके बिना उत्पादन-करनेमें अक्षम होनेपर सर्वशक्तिमान् नहीं। ऐसी अवस्थामें अपवित्रता, क्रूरता आदि बुराइयोंका स्रोत होनेका भी वह दोषी होगा।

इस प्रकार न वह उपादान-कारण हो सकता है, न निमित्त-कारण। जगत्का कोई आदि-कारण होना ही चाहिए, यह कोई ज़रूरी नहीं। यदि 'उसका कारण कौन, उसका कारण कौन?'—पूछनेपर जगत्की किसी सूक्ष्मतम वस्तु या उसकी विशेष शक्तिपर नहीं रुकने दिया जाय, तो ईश्वर तक ही क्यों रुका जाय? क्यों न ईश्वरका भी कोई दूसरा कारण माना जाय? इस प्रकार ईश्वरका आदिकारण मानना युक्तियुक्त नहीं।

कर्ता-धर्ता ईश्वर होनेपर, मनुष्य उसके हाथकी कठपुतली है, फिर वह किसी अच्छे-बुरे कामके लिए जवाबदेह नहीं हो सकता। फिर दुनियामें उसका सताया जाना क्या ईश्वरकी दया-लुताका घोटक है?

ईश्वर सृष्टिकर्ता है, यह मानना भी ठीक नहीं। यदि सृष्टि अनादि है, तो उसको किसी कर्ताकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कर्ता होनेके लिए उसे कार्यसे पहले उपस्थित रहना चाहिए। यदि सृष्टि सादि है, तो करोड़ दो करोड़, खरब दो खरब वर्ष नहीं, अचिन्त्य अनन्त वर्षोंसे लेकर सृष्टि उत्पन्न होनेके समय तक उस क्रिया-रहित ईश्वरके होनेका प्रमाण क्या? क्रिया ही तो उसके अस्तित्वमें प्रमाण हो सकती है?

साफ़ इनकार कर देंगे कि 'यह मेरा विचार नहीं है, न मेरा विचार कभी ऐसा था।' वस्तुतः आपका ऐसा कहना ठीक भी है, क्योंकि आपके पिछले दस वर्षके अनुभवोंने आपको बदल दिया है।

आप कह सकते हैं—मन बदलता है, आत्मा थोड़े ही बदलता है। हमारा कहना है, मनसे परे आत्मा कोई चीज़ नहीं। चित्त, विज्ञान, आत्मा—एक ही चीज़ हैं। जिस प्रकार चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा और त्वक् इन्द्रियोंको हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वैसे मनको नहीं। हमें मनकी सत्ता क्यों स्वीकार करनी पडती है? आँखें झमली देखती हैं, और जिह्वासे पानी टपकने लगता है। नाक दुर्गन्ध सूँघती है, और हाथ नाकपर पहुँच जाता है। आप देखते हैं, आँख और जिह्वा एक नहीं हैं, न वे एक दूसरेसे मिली हुई हैं। इसलिए इन दोनोंको मिलानेके लिए एक तीसरी इन्द्रिय चाहिए, और वह मन है। पाँचों ही इन्द्रियाँ अपने-अपने ज्ञानको जहाँ पहुँचाती हैं, और जहाँसे शरीरके भिन्न भिन्न अंगोंको गतिका अनुशासन मिलता है, वह मन है। वही ग्रहण, चिन्तन और निर्णय करता है। वह ग्रहण आदि कैसे करता है? फ़ौजके कमाण्डरकी तरह अलग बैठ कर नहीं, वल्कि जैसे पाँच द्यूवोंमें लाल, पीले, हरे, नीले, काले रंगका चूर्ण पड़ा हुआ हो, और नीचे एक ऐसी काँचकी नलीसे पानी वह रहा हो, जिसमें पाँचों द्यूवोंके झुँह मिले हुए हों, और द्यूवोंका झुँह बारी बारीसे खुल रहा हो। जिस समय जो रंग पानीपर पड़ेगा, पानी उसी रंगका हो जायगा। इसी तरह जब आँख काले साँपकी ओर लगती है, तो काले साँपका हमें दर्शन होता है। फिर यह ज्ञान तुरन्त मनमें पहुँचता है। उस क्षणका मन, जो अपने कारणभूत पुराने मनोंके अनुभवोंका बीज अपनेमें रखता है, इस नये ज्ञानरूपी चूर्णके गिरनेसे तदाकार हो, मयके रंगमें रँग जाता है। यदि एक क्षण ही साँपको देख हमें रुक जाना हो, तो भी हिला कर छोड़ दिये पहियेकी भाँति कई क्षण तक एक-एकके बाद उत्पन्न होनेवाला मन उस रंगमें रँग जायगा; यद्यपि हर द्वितीय क्षणके मनपर उसका असर फीका पड़ता जायगा। और यदि साँप कई क्षणों तक दिखाई देता रहा, और आपकी तरफ़ भी आता रहा, तो क्षण-क्षण उत्पन्न होनेवाले मनपर मयका संचार अधिक होता जायगा। जो बात मयप्रद विषयोंके बारेमें है, वही प्रीतिप्रद तथा दूसरे विषयोंके बारेमें भी समझनी चाहिए।

अस्तु, उक्त कारणसे चक्षु आदि इन्द्रियोंके अतिरिक्त हमें उनके संयोजक एक भीतरी इन्द्रियको माननेकी ज़रूरत पड़ती है, जिसे मन कहते हैं। इससे परे आत्माकी क्या आवश्यकता? यदि कहें कि पुराने अनुभवोंको स्मृतिके रूपमें रखनेके लिए, क्योंकि मन तो क्षणिक है (यद्यपि यह बात वे नहीं कह सकते, जिनके मतसे मन क्षणिक नहीं), तो हम कहेंगे—मन क्षणिक है, किन्तु वह अपने परवर्ती मनका कारण भी है। आनुवंशिक नियमके अनुसार जैसे माता-पिताकी बहुतसी बातें पुत्र-पौत्रमें आती हैं, उसी प्रकार पूर्व मन अपने अनुभवोंका बीज या संस्कार पिछले मनके लिए बरासतमें छोड़ जाता है, और वही स्मृतिका कारण है। वस्तुतः संस्कारका ठप्पा तो क्षणिक वस्तुपर ही लग सकता है। आत्माको यदि कूटस्थ नित्य मानें, तो वह अनन्तकाल तक एक रस रहनेवाला होगा। मला, सदाके लिए एक रस रहनेवाले आत्मापर अनुभवोंका ठप्पा कैसे पड़ सकता है? यदि पड़ सकता है, तो ठप्पा पड़ते ही उसका रूप-परिवर्तन हो जायगा। आत्मा कोई जड़ पदार्थ नहीं है, जिसके सिर्फ़ बाह्य अवयवपर ही लाल्छन लगेगा। वह तो चेतनमय है, इसलिए ऐसी अवस्थामें इन्द्रिय-जनित ज्ञान उसमें सर्वत्र प्रविष्ट हो जायगा। फिर वह राग, द्वेष, मोह—नाना प्रकारोंमेंसे किसी एक रूपवाला हो जायगा। तब फिर वह वही आत्मा नहीं हो सकता, जो ठप्पा लगनेसे पहले था। अतएव वह एक रस भी नहीं हो सकता। फिर आत्मा नित्य है कैसे? यदि थोड़ी देरके लिये मान भी लें कि ठप्पा लगता है, तो वह अभौतिक संस्कार भी नित्य आत्मा

में समस्त अतिव्यक्त हो जायगा । तब फिर सुख या सुनिश्ची आशा ईश्वर की जा सकती है ?

यदि कहें—कोई नित्य आत्मा नहीं है, तो समस्त धार्मिक होनेमें, शरीरके नष्ट हो जानेपर अपने-पुत्रे कर्मोंका विपाक कैसे होगा ? यहाँ पहले यह समझ लें कि धर्म विपाक कैसे मानते हैं । वे यह नहीं मानते कि हम जो कर्म करते-पुत्रे काम करते हैं, उसे शिष्टकेके लिए ईश्वरने हमारे पीछे हम लेखक बना रखे हैं । हम अपने या कर्म जैसे भी काश्चित्त-वाचित्त कर्म करते हैं, सभी कर्मोंका बदला हमारे मन में । हमारे श्रेयशुभ काम करनेके लिए अपनी श्रेयशुभ प्रवृत्ता पड़ता है, शमयुक्त काम करनेके लिए अपनी शमयुक्त प्रवृत्ता पड़ता है । मनकी उग्र प्रवृत्ताकी, उग्र प्रवृत्ती गैज तक तक जारी जाती है, कुछ तक वह अपने या शिष्टकी प्रवृत्ती का कर टकरानेमें नष्ट नहीं हो जाती । आत्मी एक दिनों में ही नहीं बन जाता । आधारेतन करनेवाले शत्रुवादी भी धीरे-धीरे अपने अपने कर्मोंका बदला करमा पड़ता है, फिर सुनिश्ची तो प्राप्त हो गया ? जब किसी अग्रहाय, निर-समस्त अतिव्यक्तकी पीने-पुत्रे कर्मोंका मन प्रभावित हुए बिना नहीं रहता (यद्यपि यह दूसरी दिशामें—कर्मोंका जो), तो स्वयं आत्मीयता मन मूलत हुए बिना कैसे रह सकता है ? सुनिश्ची मन तो काम करते हैं, उग्रता शमय शकाल अपर पड़ता है । जिनका ही मन पड़ा होता जाता है, उग्रता ही उग्रमें मूलत आध्यात्मिक विमलन और शिष्टावली योग्यता कम होती जाती है ।

अपने-पुत्रे कर्मोंका मन और आत्मीयता नष्ट है । यदि धरती शक्ति अधिक रही, पक्षकी काम, तो अन्तका पक्षका जारी रहेगा । यह हिंसाय मनकी धन-धनकी प्रवृत्तमें न्यून होगा रहना है । यहाँ हिंसाकरता शीघ्र नहीं, शमयों, दिनोंके बाद नहीं, यदि सुनिश्ची-शमयुक्त होता रहता है । अन्तका पक्ष है, अपने पिताके अपने-पुत्रे कर्मोंका पूर्ण योग । दूसरे धन उत्पन्न होनेवाले कर्मोंके बदलाय कर्म अपने-पुत्रे कर्मोंके प्रवृत्तमें मिलती है । यह प्रवृत्तका मिलनिला हमारे कर्मोंके, कर्मोंके बाद रहता है—इसे समझनेमें अन्तका नहीं होगी । लेकिन सुदकी नित्य के अन्तका यह मिलनिला अपनेमें रहने भी था, और अन्तके बाद भी रहेगा । अपने पिताके अन्तकाके कर्म हुए कर्मकी प्रवृत्ता, अन्तकाके लिए यह वह इन शरीरकी टोड़नेके लिए तैयार रहता है, यह मन शीघ्र-अन्तका ही जा सकती है, तो वह अपने नारायिके नहारे नीचे पड़नी चली जाती है, तो वह नीचे काय भा कर एक जाती हो । उन दोनोंके दूसरी और एक ऐसी दूसरी चला है, उनके आध्यात्मिक प्रवृत्त पुत्रका-शक्ति है, तो यह अन्त इन धारकों नष्ट नाशमें टाल-केके लिए समर्थ होगी । हमें अन्तका अन्तके समस्त चित्त-प्रवाह अपनी संस्कार-शक्तिके साथ इस शीघ्रके शीघ्र कर रही रहती है । यह शीघ्र-शक्तिके पुत्रका समस्त धर्मवाले समीपतम शरीरमें शीघ्र कर फिर उग्रकी यही प्रवृत्ती शरीरवाले पुत्र कर देता है । यही प्रम तब तक जारी रहता है, जब तक अन्तके धरमें यह अन्तकि शिष्टावली तो, निराणको नहीं प्राप्त हो जाती । इस प्रकार धर्म, कर्म-पक्ष और अन्तका होता है ।

शरीरकी शक्ति अपनेमें बहुतसे शीघ्र होते हैं । यदि आप उसे नित्य मानते हैं, तो उसे शिष्टका अन्त ही नहीं, अन्तका भी मानना होगा । फिर सामीय धर्मोंमें भी तो, यहाँ पुनर्जन्म नहीं मानते, यह मानना होगा कि शीघ्र अन्त-पक्ष पर्य नहीं, यदि अन्तकि कालमें आज तक सुपचाय शिष्टावली पड़ा रहा । अब पूरा, पचाय, या शीघ्र पर्य तकके लिए, बिना किसी पूर्ण कर्मके, इस दुनियामें अन्तका या शीघ्रान्, अन्तकागी या अन्तका, अन्तका या प्रतिभाशाली मन पर उत्पन्न होगी है, और अन्तके बाद फिर अन्तकाल तकके लिए अपने कुछ पर्यके पुत्रे-भले कर्मोंके कारण स्वयं या अन्तके काल दिया जायगा । क्या हम शरीरकी नित्यता सुनिश्ची माननी जा सकती है ? जो लोग पुनर्जन्म भी मानते हैं, और शमय-शमय आत्माको नित्य भी, उनकी ये दोनों बातें परस्पर

विरोधी हैं। जब वह नित्य है, तो कूटस्थ भी है, अर्थात् सदा एक-रस रहेगा; फिर ऐसी एक-रस वस्तुको यदि परिशुद्ध मानते हैं, तो वह जन्म-मरण के फेरमें कैसे पड़ सकती है? यदि अशुद्ध है, तो स्वभावतः अशुद्ध होनेसे उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? नित्य कूटस्थ होनेपर संस्कारकी छाप उसपर नहीं पड़ सकती, यह हम पहले कह चुके हैं। यदि छापके लिए मनको मानते हैं, तो आत्माको माननेकी ज़रूरत ही क्या रह जाती है?

प्रश्न हो सकता है कि यदि मन तथा आत्मा एक है, और वह क्षणिक है, तो अनेकतामें—'मैं पहले था, मैं अब हूँ'—ऐसी एकताका मान क्यों होता है? इसका उत्तर है कि समुदायमें एकत्वकी बुद्धि दुनियाका यह सार्वभौमिक नियम है। हम संसारकी जिस किसी चीज़को ले लें, सभी हजारों अणुओंसे बनी हैं, जिनके बीच काफ़ी अन्तर है। यह बात लोहे, प्लेटिनम, हीरे—सभी ठोस-से-ठोस वस्तुकी है। यदि हमारी दृष्टि उतनी सूक्ष्म होती, तो हम उन्हें ऐसे ही अलग-अलग देखते, जैसे पास जानेपर जंगलके वृक्ष। इस प्रकार दुनियाके सभी दृश्य पदार्थोंके मूलमें अनेकता होनेपर भी एकताका व्यवहार किया जाता है। अनगिनत टुकड़ोंके बने हुए शरीरको हम एक शरीर कहते हैं। अनेक वृक्षोंके बने जंगलको एक जंगल कहते हैं। अनेक तारोंके झुरमुटको एक तारा कहते हैं। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है। जहाँ शरीर, वन, तारोंमें अंश और अंश एक कालमें और एक देशमें मौजूद रहते हैं, वहाँ मन प्रति क्षण एकके बाद एक उत्पन्न होता रहता है। इसके लिए अच्छा उदाहरण बनेठी, चलते वायुयानका पंखा, या चलती बिजलीका पंखा ले सकते हैं। बनेठीकी रोशनी, या पंखेका पंख जल्दी-जल्दी इतने सूक्ष्म कालमें एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुँचता है कि हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते, और काल एक स्वतन्त्र मान वन उसे चक्रके रूपमें ला रखता है। इसी प्रकार मन भी इतना शीघ्र अपनी जगहपर दूसरे मनको उपस्थित कर रहा है कि बीचके अन्तरको हम नहीं ग्रहण कर पाते, और हमें चक्रकी एकताका मान होने लगता है। नदीकी धाराको भी तो आप एक कहते हैं, किन्तु क्या वह जल हज़ारों बिन्दुओंसे, और बिन्दु अगणित उद्भजन, ओपजनके परमाणुओंसे, और परमाणु अनेक धनऋण विद्युत्कणोंसे (जिनके भीतर चक्कर काटनेके लिए काफ़ी अन्तर है), और फिर सूक्ष्मतम अनेकों न्यूट्रॉनोंसे नहीं बने हैं? वस्तुतः संसारमें सभी जगह समुदायहीको एक कहा जा रहा है। जब हमारी भाषाका यह एक सार्वभौमिक प्रयोग है, तब क्षणिक मनकी सन्तति (= प्रवाह)को साधारण दृष्टिसे हम एक कहने लगे, तो आश्चर्य क्या है? आश्चर्य तो यह है कि सारी दुनियामें एक कही जानेवाली चीज़ोंको समूहित देखते हुए भी पृथक्ते हैं—समूहित है, तो आत्मा क्यों एक मालूम होती है? सवाल हो सकता है—जब आत्मा क्षणिक है, दूसरे क्षण वह रहता ही नहीं, तो उसकी पूर्णता और परिशुद्धि कैसे? उत्तर यह है कि हम मनको क्षणिक मानते हुए भी मनकी सन्ततिको क्षणिक नहीं मानते। गंगाका पानी, उसका आधार, दोनों कूल और बालू सभी बराबर बदल रहे हैं, तो भी सबका प्रवाह बना रहता है, जिसे हम एक मान गंगा कहते हैं। इसी चित्त-सन्ततिकी परिशुद्धि और पूर्णता करनी होती है। जितनी ही चित्त-सन्तति राग, द्वेष, मोहके मलोंसे मुक्त होती है, उतना ही उस पुरुषके कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म परिशुद्ध होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अपने-परायेका उपकार करनेमें समर्थ होता है। जब उसमें राग-द्वेषका गंध नहीं रह जाता, तो व्यक्तिगत स्वार्थके केन्द्रपर केन्द्रित तृष्णा क्रमशः परिवार, ग्राम, देश, भूखंडल, प्राणिमात्रके स्वार्थको अपना बना, अपनी परिधिको अनन्त तक पहुँचा देती है। उस वक्त अनन्त परिधिवाली वह तृष्णा बन्धन-रहित हो तृष्णा ही नहीं रह जाती, उस पुरुषके लिए निर्वाणका मार्ग उन्मुक्त हो जाता है, और वह दुःखके फंदेसे छूट जाता है। मुक्ति तक पहुँचनेके लिए पुरुषको निजी स्वार्थकी सीमा पार कर लोकहितार्थ सब कुछ

नैतिक व्यवहारोंके परिपोषक होते हैं। सहस्राब्दियों वाद वह बातें मरी हुई रहती हैं, तो भी वह मरे सुर्वेको गले मड़ना चाहते हैं। सेन्टपालके समय स्त्रियोंका सिर ढकना उस समयके फैशनके अनुसार अच्छा समझा जाता हो, किन्तु उस लिखावटके कारण आज युरोपकी स्त्रियोंको गिरजेमें और न्यायालयसे कसम खाते वक्त टोपी लगानेपर मजबूर क्यों किया जाय, जब कि दूसरी जगह समाज उसकी आवश्यकता नहीं समझता है ?

ग्रन्थके स्वतः प्रमाण होनेके लिए उसके कर्ताको सर्वज्ञ मानना पड़ेगा—सर्वज्ञ भी सभी देश, सभी काल, सभी वस्तुके सम्बन्धमें। फिर यदि कोई सर्वज्ञ हमारे पैदा होनेसे हजार वर्ष पूर्व हमारे द्वारा किये जानेवाले अच्छे-बुरे सभी कर्मोंको जानता था, तब तो हम आज वैसा करनेपर मजबूर हैं, अन्यथा उसकी सर्वज्ञता झूठ हो जायगी। फिर मनुष्य ऐसे सर्वज्ञके हाथमें क्या कठपुतली मात्र नहीं है ? फिर कठपुतलीको अपने लिये अच्छा-बुरा काम चुनने और करनेका क्या अधिकार ? और तब ऐसे धर्म उसके ग्रन्थ और उसमें कही गई शिक्षाओंका प्रयोजन क्या ?

परिशुद्ध और मुक्त बननेके लिए कर्म करनेमें मनुष्यका स्वतन्त्र होना ज़रूरी है। कर्म करनेकी स्वतन्त्रताके लिए बुद्धिका स्वतन्त्र होना ज़रूरी है। बुद्धि-स्वातंत्र्यके लिए किसी ग्रन्थको परतन्त्रताका न होना आवश्यक है। वस्तुतः किसी ग्रन्थकी प्रामाणिकता उसके बुद्धिपूर्वक होनेपर निर्भर है, न की बुद्धिकी प्रामाणिकता ग्रन्थपर।

उक्त तीन अस्वीकारात्मक बातें हैं, जिन्हें बुद्ध-धर्म मानता है।

(४) जीवन-प्रवाहको इस शरीरके पूर्व और पश्चात् भी मानना

वच्चेकी उत्पत्तिके साथ उसके जीवनका आरम्भ होता है। वच्चा क्या है ? शरीर और मनका समुदाय। शरीर भी कोई एक इकाई नहीं है, बल्कि एक कालमें भी असंख्य अणुओंका समुदाय। यह अणु हर क्षण बदल रहे हैं, और उनकी जगह उनके समान दूसरे अणु उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार क्षण-क्षण शरीरमें परिवर्तन हो रहा है। वर्षों बाद वस्तुतः वही शरीर नहीं रहता, किन्तु परिवर्तन सदृश परमाणुओं द्वारा होता है, इसलिए हम कहते हैं—वह वही है। जो बात यहाँ शरीरकी है, वही मनपर भी लागू होती है, फ़र्क यही है कि मन सूक्ष्म है, उसका परिवर्तन भी सूक्ष्म है, और पूर्वापर रूपोंका भेद भी सूक्ष्म है, इसलिए उस भेदका समझना दुष्कर है। आत्मा और मन एक ही हैं, और आत्मा क्षण-क्षण बदल रहा है, यह हम दूसरी जगह कह आये हैं।

शरीर और मन (= आत्मा) दोनों बदल रहे हैं। किसी क्षणके बालकके जीवनको ले लीजिए, वह अपने पूर्वके जीवनांशके प्रभावसे प्रभावित मिलेगा। क ख सीखनेसे लेकर वीचकी श्रेणियोंमें होता हुआ जब वह एम० ए० पास हो जाता है, उसके मनकी सभी परवर्ती अवस्था उसकी पूर्ववर्ती अवस्थाका परिणाम है। वहाँ हम किसी विचली एक कड़ीको छोड़ नहीं सकते। बिना मैट्रिकसे गुजरे कैसे कोई एफ० ए० में पहुँच सकता है ? इस प्रकार कार्य-कारण-श्रृंखला जन्मसे मरण तक अटूट दिखाई पडती है। प्रश्न है, जब जीवन इतने लम्बे समय तक कार्य-कारण-सम्बन्धपर अवलम्बित मालूम होता है और वहाँ कोई स्थिति आकस्मिक नहीं मिलती, तो जीवनके आरम्भमें उसमें कार्य-कारण नियमको अस्वीकार कर क्या हम उसे आकस्मिक नहीं मान रहे हैं ? आकस्मिकता कोई सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि उसमें कार्य-कारणके नियमोंसे ही इनकार कर देना होता है, जिसके बिना कोई बात सिद्ध नहीं की जा सकती। यदि कहें—माता-पिताका शरीर जैसे अपने अनुरूप पुत्रके शरीरको जन्म देता है, वैसे ही उनका मन तदनु रूप पुत्रके मनको जन्म देता है, तो कुछ हद तक ठीक होनेपर भी यह बात सर्वांशमें ठीक नहीं जँचती। यदि ऐसा होता, तो मन्दबुद्धि माता-पिताओंकी प्रतिभाशाली पुत्र, ऐसे ही प्रतिभाशाली माता-पिताओंको

मन्दबुद्धि पुत्र न उत्पन्न होते। पंडितकी सन्तान मूर्ख बहुधा देखी जाती है। ये दिक्ते हट जाती हैं, यदि हम जीवन-प्रवाहको इस शरीरके पहलेसे मान लें। फिर तो हम कह सकते हैं, हर एक पूर्व जीवन परवर्ती जीवनको निर्माण करता है। जिस प्रकार खानसे निकला लोहा, पिघलाकर बना कच्चा लोहा और अनेकों बार ठंडा और गरम करके बना फौलाद तीनों ही लोहे हैं, तो भी उनमें संस्कारकी मात्रा जैसी कम-ज्यादा है, उसीके अनुसार हम उन्हें कम-अधिक संस्कृत पाते हैं। प्रतिभाशाली बालककी बुद्धि फौलादकी तरह पहलेके चिर-अभ्याससे सुसंस्कृत है। मानसिक अभ्यासका यद्यपि स्मृतिके रूपमें सर्वथा उपस्थित रहना अत्यावश्यक नहीं है, परन्तु तदनुसार न्यूनाधिक संस्कृत होना तो बहुत जरूरी है। इस जन्ममें भी कालेज छोड़नेके बाद, कुछ ही वर्षोंमें पाठ्य-पुस्तकोंके रटे हुए बहुतसे नियम, सूत्र भूल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे अध्ययनका परिश्रम व्यर्थ जाता है। ताजे घड़ेमें कुछ दिन रखकर निकाल लिये गये घोड़ी भाँति, भूल जानेपर भी जो विद्याध्ययन-संस्कार मनके भीतर समा गया रहता है, वही शिक्षाका फल है। कालेज छोड़े वर्षों हो जाने, एवं पढ़ी बातोंको भूल जानेपर भी, जैसे मनुष्यकी मानसिक संस्कृति उसके पूर्वके विद्याभ्यासको प्रमाणित करती है; उसी प्रकार गैरावमें झलकनेवाले प्रतिभाको क्यों न पूर्वके अभ्यासका परिणाम माना जाय? वस्तुतः अनुवंशिकता और वातावरण मानसिक शक्तिके जितने अंशके कारण नहीं हैं—और ऐसे अंश काफी हैं (मेधाविता-मन्दबुद्धिता, भद्रता-नृशंसता आदि कितने ही अपैतृक गुण मनुष्यमें अकसर दिखाई पड़ते हैं) उनका कारण इससे पूर्वके जीवन-प्रवाहमें हूँदना पड़ेगा। एक तरुण बच्ची तपस्यासे अध्ययन कर जिस समय उत्तम श्रेणीमें एम०ए० पास करता है, उसी समय अपने परिश्रमका पारितोषिक पाये बिना उसका यह जीवन समाप्त हो जाता है; उसके इस परिश्रमको शरीरके साथ बिनष्ट हो गया माननेकी अपेक्षा क्या यह अच्छा नहीं है कि उसे प्रतिभाशाली शिक्षके साथ जोड़ दिया जाय? अपंडित माता-पिताके असाधारण गणितज्ञ, संगीतज्ञ शिक्षु देखे गये हैं। उक्त क्रमसे विचारनेपर हमें मालूम होता है कि हमारा इस शरीरका जीवन-प्रवाह एक सुदीर्घ जीवन-प्रवाहका छोटासा धोचका अंश है, जिसका पूर्वकालीन प्रवाह चिरकालसे आ रहा है, और परकालीन भी चिरकाल तक रहेगा। चिरकाल ही हम कह सकते हैं, क्योंकि अनन्तकाल कहनेपर अनन्तकालसे संचित राशिमें कुछ वर्षोंका संचित संस्कार कोई विशेष प्रभाव नहीं रख सकता, जैसे खारे समुद्रमें एक छोटीसी मिश्रीकी डली। जीवनमें हम प्रभाव होता देखते हैं, और व्यक्ति और समाज बेहतर बननेकी इच्छा रखकर तभी प्रयत्न कर सकते हैं, यदि जीवनकी संस्कृतिको अनन्तकालसे प्रयत्नका नहीं, बल्कि एक परिमित कालके प्रयत्नका परिणाम मान लें। वस्तुतः अनन्तकाल और अकाल दोनों ही मिश्र-मिश्र मानसिक संस्कृतियोंके भेदको आकस्मिक बना देते हैं। जीवन-प्रवाह इस शरीरसे पूर्वसे आ रहा है, और पीछे भी रहेगा, तो भी अनादि और अनन्त नहीं है। इसका आरम्भ तृष्णा या स्वार्थपरतासे है, और तृष्णाके क्षयके साथ इसका क्षय हो जाता है।

जीवन-प्रवाहको इस शरीरसे पूर्व और पश्चात् काल भी माननेपर हम निकम्मे-से-निकम्मे आदमीको भी बेहतर बननेकी आशा दिला सकते हैं। किसी ऊँचे आदर्शके लिए, लोक, समाज या दूसरे व्यक्तिके उत्कर्षके लिए, तभी अपने इस जीवनका उत्सर्ग तक कर देनेवाले पुरुषोंकी पर्याप्त संख्या मिल सकती है। तभी मनुष्य अपने अच्छे-बुरे कर्मोंके दायित्वको पूरी तरह समझकर दूसरेके अपकारसे अपनेको रोकनेके लिए तैयार हो सकता है। समाजके हितके लिए व्यक्तियोंका आत्म-यत्नदानके लिए तैयार रहना एवं समाजके अपकार करनेसे व्यक्तियोंका आत्म-निग्रह ये दोनों बातें लोकको बेहतर बनानेके लिए अनिवार्यतया आवश्यक हैं। लोकोन्नति वस्तुतः इन्हीं दो

बातोंपर निर्भर है। इसी शरीरको आदिम और अन्तिम मान लेनेपर उन दोनों बातोंके लिए आदमीको प्रेरक वस्तुका अत्यन्ताभाव यदि नहीं, तो इतना अभाव ज़रूर हो जायगा, जिससे ऊपर बढ़नेकी गति रुक जायगी, और फलतः पीछेकी ओर गिरावट आरम्भ हो जायगी।

बुद्धकी शिक्षा और दर्शन इन चार सिद्धान्तोंपर अवलम्बित हैं। पहले तीनों सिद्धान्त बौद्धधर्मको दुनियाके अन्य धर्मोंसे पृथक् करते हैं। ये तीनों सिद्धान्त जड़वाद और बुद्ध-धर्ममें समान हैं, किन्तु चौथी बात, अर्थात् जीवन-प्रवाहको इसी शरीर तक परिसीमित न मानना, इसे जड़वादसे पृथक् करता है, और साथ ही व्यक्तिके लिए भविष्यको आशामय बनानेका यह एक सुंदर उपाय है, जिसके बिना किसी आदर्शवादका कार्यरूपमें परिणत होना दुष्कर है।

चारों सिद्धान्तोंमें पहले तीन, तीन बड़ी परतन्त्रताओंसे मनुष्यको मुक्त कराते हैं। चौथा आशामय भविष्यका सन्देश देता है और शील-सदाचारके लिए नींव बनता है। चारोंका जिसमें एकत्र सम्मेलन है, वही बुद्ध-धर्म है।

राहुल सांकृत्यायन

सुत्तन्त(= सूत्र)-सूची

नाम	विषय	पृष्ठ
१-मूल-परिणासक		१-२०१
१ (१) मूल-परियाय-वग्ग		३-४०
१ (१) मूलपरियाय-सुत्तन्त	अज्ञानियोंकी दृष्टि	३
२ (२) सव्वासव	चित्त-मलका शमन । अनात्मवाद ।	६
३ (३) धम्मदायाद	धर्मके वारिस बनो, वित्तके नहीं । मध्यम मार्ग ।	१०
४ (४) मयभेरव	मय-भूत । संमोहन । विद्यार्थे ।	१३
५ (५) अनङ्गण	चित्त-मलवाले चार व्यक्ति । भिक्षुपनका ध्येय ।	१७
६ (६) आर्कखेय्य	भिक्षु-नियमोंका ग्रहण । ध्यान । प्रज्ञा । भवसागरके बंघन ।	२२
७ (७) वत्थ	चित्त-मलोंका दुष्परिणाम । उपक्लेश । मैत्री आदि भावनायें । तीर्थ स्नान व्यर्थ ।	२४
८ (८) सल्लेख	यथार्थ तप	२७
९ (९) सम्मादिट्ठि	पुण्य, पाप अष्टांगिक मार्ग । प्रतीत्य-समुत्पाद ।	३०
१० (१०) सतिपट्टान	काय, मन आदिकी भावनायें । बोधिलाभके ढंग । आर्यसत्य ।	३५
२ (२) सीहनाद-वग्ग		४१-७८
११ (१) चूल-सीहनाद	उपादान या आसक्तिका त्याग । निदान या प्रतीत्य- समुत्पाद ।	४१
१२ (२) महा-सीहनाद	बुद्ध-जीवनी (तपस्थायें । अवैलक-व्रत । आहार- शुद्धि) ।	४४
१३ (३) महा-दुक्खकखन्ध	भोगोंके दुष्परिणाम । राज-दंड ।	५३
१४ (४) चूल-दुक्खकखन्ध	भोगोंके दुष्परिणाम । भोगोंके कारण दुष्कर्म । सुखसे सुख अप्राप्य-मतवाद ।	५७
१५ (५) अनुमान	दुर्वचनके कारण और उनके हटानेके उपाय ।	६१
१६ (६) चेतोखिल	चित्तके काँटे । ऋद्धियाँ ।	६५
१७ (७) वनपत्थ	कैसा अरण्य-वास करना चाहिये ?	६८
१८ (८) मधु-पिंडिक	विषयोंके स्पर्श, उत्पत्ति और परित्याग ।	७०

नाम	विषय	पृष्ठ
१९ (९) द्वेषावितक	चित्तमलोका शमन । ध्यान । अष्टांगिक मार्ग ।	७४
२० (१०) वितक-संठान	राग-द्वेष-मोहके हटानेका उपाय ।	७७
३ (३) औपम्म-वग्ग		७९-१२६
२१ (१) ककचूपम	आरेसे चीरे जाने पर भी शांत रहना, शांति है ।	७९
२२ (२) अलगदूदूपम	साँप पकड़नेकी सावधानी उपदेश ग्रहणमें भी अपेक्षित है । अनात्मवाद ।	८४
२३ (३) वम्मिक	पुरुषकी निर्वाण-प्राप्तिमें बाधायें	९२
२४ (४) रथविनीत	ब्रह्मचर्यके गौण और मुख्य उद्देश्य । विशुद्धियाँ ।	९४
२५ (५) निवाप	संसारके शिकार होनेसे बचनेका उपाय ।	९८
२६ (६) पासराति	बुद्ध-जीवनी (गृहत्यागसे धर्म-चक्र प्रवर्तन तक) ।	१०२
२७ (७) चूल-हत्थिपदोपम	यथार्थ गुरु और उसकी मोक्षोपयोगिनी शिक्षायें ।	१११
२८ (८) महा-हत्थिपदोपम	उपादान-स्कंधोंसे युक्ति । प्रतीत्य-समुत्पाद ।	११७
२९ (९) महा-सारोपम	मिक्षु-जीवनका वास्तविक उद्देश्य ।	१२१
३० (१०) चूल-सारोपम	" "	१२४
४ (४) महा-यमक-वग्ग ।		१२७-६७
३१ (१) चूल-गोसिंग	अनुरुद्ध आदिकी सिद्धाई ।	१२७
३२ (२) महा-गोसिंग	कैसे पुरुषसे तपोभूमि शोभित होती है ?	१३०
३३ (३) महा-गोपालक	बुद्ध-धर्ममें सफलीभूत होनेके लिये आवश्यक ग्यारह बातें ।	१३३
३४ (४) चूल-गोपालक	सुसुक्ष्मोंकी श्रेणियाँ ।	१३६
३५ (५) चूल-सत्चक	आत्मवाद-खंडन, अनात्मवाद-मंडन ।	१३८
३६ (६) महा-सत्चक	कायाकी साधना नहीं, मनकी साधना ।	१४४
३७ (७) चूल-तण्हा-संखय	तृष्णाके क्षयका उपाय ।	१४८
३८ (८) महा-तण्हा-संखय	" (अनात्मवाद, धर्म वेदेकी माँति पार होनेके लिये है, पकड़ रखनेके लिये नहीं है । प्रतीत्य-समुत्पाद । जीवन-प्रवाह—गर्भ, धाल्य, यौवन, संन्यास, शील-समाधि) ।	१५१
३९ (९) महा-अस्सपुर	श्रमण-ब्राह्मण बननेका ढंग ।	१६१
४० (१०) चूल-अस्सपुर	" "	१६५
५ (५) चूल-यमक-वग्ग ।		१६८-२०१
४१ (१) सालेय्य	काय-वचन-मनके सदाचार और दुराचार से सुगति, दुर्गति ।	१६८
४२ (२) वेरंजक	" "	१७२
४३ (३) महावेदल	प्रज्ञाहीन, प्रज्ञावान् । प्रज्ञा, विज्ञान । वेदना, संज्ञा, शील, समाधि, प्रज्ञा, आयु, उष्मा और विज्ञान ।	१७३

	नाम	विषय	पृष्ठ
४४	(४) चूल-वेदह	आत्मवाद त्याज्य । उपादान-संघ । अष्टांगिक- मार्ग । संज्ञावेदित-निरोध । स्पर्श, वेदना, अनुशय ।	१७९
४५	(५) चूल-धम्म समादान	चार प्रकारके धर्मानुयायी ।	१८४
४६	(६) महाधम्म-समादान	धर्मानुयायियोंके भेद ।	१८६
४७	(७) वीमंसक	गुरूकी परीक्षा ।	१८९
४८	(८) कोसंबिय	भेल जोलके लिये उपयोगी छः बातें ।	१९१
४९	(९) ब्रह्म-निर्मतनिक	बुद्धद्वारा सृष्टिकर्ता ईश्वर ब्रह्माका अपमान ।	१९४
५०	(१०) मार-तज्जनीय	मान-अपमानका त्याग (= ऋकसंघ बुद्धका उपदेश) । महामौद्गल्यायनका मारको फटकारना	१९८

२—मज्झिम-परयासक

	६ (१) गहपाति-वग्ग ।		२०५-४४
५१	(१) कन्दरक	स्मृति-प्रस्थान । आत्मंतप आदि चार पुरुष ।	२०५
५२	(२) अट्टक नागर	ग्यारह अमृत द्वार (ध्यान)	२०८
५३	(३) सेख	सदाचार, इन्द्रिय संयम । परिमित भोजन । जागरण । सद्धर्म । ध्यान ।	२१०
५४	(४) पोतलिय	व्यवहार (= संसारके जंजाल)के उच्छेदके उपाय ।	२१४
५५	(५) जीवक	मांस-भोजनमें नियम	२२०
५६	(६) उपालि	मन ही प्रधान, काया और वचन गौण ।	२२२
५७	(७) कुक्कुर-वतिक	निरर्थक व्रत । चार प्रकारके कर्म	२३१
५८	(८) अमय राजकुमार	लामदायक अप्रिय सत्यको भी बोलना चाहिये ।	२३४
५९	(९) बहुवेदनीय	नीर-क्षीरसा भेल-जोल । संज्ञा वेदित-निरोध ।	२३७
६०	(१०) अपण्णक	द्विविधा-रहित धर्म । अक्रियवाद आदि मत-वाद । आत्मंतप आदि चार पुरुष ।	२३९
	७ (२) भिक्षु-वग्ग		२४५-७८
६१	(१) अभ्यलट्टिक-राहुलोवाद	मिथ्या मापणकी निन्दा	२४५
६२	(२) महाराहुलोवाद	प्राणायाम । कायिक भावना । मैत्री आदि भावनायें ।	२४८
६३	(३) चूल-मालुंक्क	बुद्धने क्यों कुछ बातोंको न व्याख्येय, और कुछ को व्याख्येय कहा ।	२५१
६४	(४) महाराहुलोवाद	संसारके बंधन और उनसे मुक्ति ।	२५४
६५	(५) मद्दालि	नियमित जीवनकी उपयोगिता । क्रमशः शिक्षा ।	२५७
६६	(६) लकुटिकोपम	छोटो बात भी भारी हानि पहुँचा सकती है ।	२६२
६७	(७) चातुस	भिक्षुपनके चार विघ्न ।	२६७
६८	(८) नलकपान	मुमुक्षुके कर्तव्य ।	२७१
६९	(९) गुलिस्सानि	अरण्य-वास व्यर्थ, यदि संयम नहीं ।	२७३

	नाम	विषय	पृष्ठ
७०	(१०) क्रीडागिरि ८ (३) परिव्रानक-वग्ग	संयम । सात प्रकारके पुरुष । लोमी गुरु	२७५ २७९-३२४
७१	(१) तेविज्ज-वच्छगोत्त	बुद्ध अपनेको सर्वज्ञ नहीं मानते । तीन विद्यार्थे । सुगतिके उपाय ।	२७९
७२	(२) अग्नि-वच्छगोत्त	मतवादोंका बंधन । १० अ-न्याख्येय । आगके बुझने जैसा निर्वाण ।	२८१
७३	(३) महा-वच्छगोत्त	निर्वाणगामी मार्ग और निर्वाण प्राप्तिका उपाय ।	२८४
७४	(४) दीघनख	मत-वादोंका दुराग्रह । काया अपनी नहीं । सभी अनुभव अनित्य ।	२८९
७५	(५) भागन्दि्य	इन्द्रिय-संयम । ऊपर जानेपर नीचेका सुख फीका ।	२९२
७६	(६) सन्दक	व्यर्थ और असन्तोषकर संन्यास । अ-क्रियावाद आदि मत । विद्यार्थे । अर्हत्का ज्ञान ।	२९९
७७	(७) महा-सकुलुदायि	उपदेशमें वास्तविक श्रद्धा कैसे होती है ? बुद्धपद के उपयोगी धर्म ।	३०५
७८	(८) समण-मंडिक	सुकर्मी पुरुष ।	३१४
७९	(९) चूल-सकुलुदायि	जैनोंका सिद्धान्त । परिव्राजकोंका सिद्धान्त । सुखमय लोकका मार्ग ।	३१८
८०	(१०) वेखणस ९ (४) राज-वग्ग	परिव्राजकोंका सिद्धान्त । पूर्वान्त, अपरान्तके सिद्धान्त ।	३२३ ३२५-७२
८१	(१) घटिकार	त्याग-मय गृहस्थ-जीवन ।	३२५
८२	(२) रट्टपाल	त्याग-मय मिश्र-जीवन । भोगोंकी असारता ।	३३०
८३	(३) मत्वादेव	कल्याण-मार्ग ।	३३८
८४	(५) माधुरिय	वर्ण-व्यवस्था (= जातिवाद)का खंडन ।	३४०
८५	(५) बोधि राजकुमार	बुद्ध-जीवनी (गृहत्यागसे बुद्धत्व-प्राप्ति तक) ।	३४४
८६	(६) अंगुलिमाल	अंगुलिमालका जीवन-परिवर्तन (सवेरेका मूला शामको रास्ते पर) ।	३५३
८७	(७) पिय-जातिक	अर्थोंसे शोक, दुःखकी उत्पत्ति ।	३५८
८८	(८) वाहीतिय	बुद्ध निन्दित कर्म नहीं कर सकते ।	३६१
८९	(९) धम्मचेतिय	भोगोंके दुष्परिणाम । बुद्धकी प्रज्ञा ।	३६४
९०	(१०) कण्णत्यलक १० (५) ब्राह्मण-वग्ग	सर्वज्ञता असंभव । वर्ण-व्यवस्था-खंडन । देव, ब्रह्मा ।	३६८ ३७३-४२३
९१	(१) ब्रह्मायु	महापुरुष-लक्षण । बुद्धका रूप, गमन, घरमें प्रवेश, भोजनका ढंग । ब्राह्मण, वेदगू आदिकी व्याख्या	३७३
९२	(२) सेल	बुद्धके गुण । सेल ब्राह्मणका संन्यास ।	३८१
९३	(३) अस्सलायण	वर्ण-व्यवस्थाका खंडन ।	३८६

	नाम	विषय	पृष्ठ
४	(४) घोटसुख	आत्मंतप आदि चार पुरुष ।	३९१
५	(५) चंकि	बुद्धके गुण । ब्राह्मणोंके वेद और ऋषि । सत्यकी रक्षा और प्राप्ति ।	३९४
६	(६) फासुकारि	वर्ण-व्यवस्थाका खंडन ।	४००
७	(७) धानंजानि	अपना अधना किया अपने अपने साथ ।	४०४
८	(८) वासेट्ट	वर्ण-व्यवस्थाका खंडन ।	४०९
९	(९) सुभ	गृहस्थ और संन्यासकी तुलना । ब्रह्मलोकका मार्ग ।	४१४
१०	(१०) संगारव	बुद्धकी तपश्चर्या ।	४२१

३-उपरि-पर्यासक ।

४२५-६०९

	११ (१) देवदह-वग्ग		४२७-६५
०१	(१) देवदह	कायिक तपस्याकी निस्सारता । मानस तप ही लाभ-प्रद । भिक्षु-आश्रमका सुख ।	४२७
०२	(२) पंचत्तय	आत्मवाद आदि नाना मतवाद ।	४३३
०३	(३) किन्ति	मेल-जोलका ढङ्ग ।	४३८
०४	(४) सामगाम	बुद्धके मूल उपदेश । संघमें विवाद होनेका कारण । सात प्रकारके फैसले । मेल-जोलका ढङ्ग	४४१
०५	(५) सुनक्खत्त	ध्यान । चित्त-संयम ।	४४५
०६	(६) आनंजसम्पाय	भोग निस्सार हैं ।	४४९
०७	(७) गणक-भोगलान	क्रमशः धर्ममें प्रगति ।	४५२
०८	(८) गोपक-भोगलान	बुद्धके वाद भिक्षुओंका मार्ग-देष्टा	४५५
०९	(९) महा-पुण्णम	इकंघ । आत्म-वाद-खंडन	४६०
१०	(१०) चूल-पुण्णम	सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष	४६३
	१२ (२) अनुपद-वग्ग		४६६-५००
१११	(१) अनुपद	सारिपुत्रके गुण—प्रज्ञा, समाधि आदि	४६६
११२	(२) छव्विसोघन	अर्हत्की पहिचान	४६९
११३	(३) सप्पुरिस-धम्म	सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष	४७१
११४	(४) सेवितव्व-नसेवितव्व	सेवनीय, अ-सेवनीय	४७५
११५	(५) बहुधानुक	धातुर्ये । दृष्टि-प्राप्त पुरुष । स्थान-अस्थानका जानकार	४७९
११६	(६) इसिगिलि	ऋषिगिरिके प्रत्येकबुद्ध	४८३
११७	(७) महा-चत्तारीसक	ठीक समाधि आदि	४८६
११८	(८) आनापान सति	प्राणायाम । ध्यान	४९०
११९	(९) कायगता सति	कायायोग	४९४
१२०	(१०) संखारुप्पति	पुण्य-संस्कारोंका विपाक	४९८
	१३ (३) सुब्जता-वग्ग		५०१-५४२
१२१	(१) चूल-सुब्जता	चित्तकी शून्यताका योग ।	५०१
१२२	(२) महा-सुब्जता	” ”	५०४

नाम	विषय	पृष्ठ
१२३ (३) अच्छरिय धम्म	बुद्ध कहाँ और कैसे उत्पन्न होते हैं ?	५०९
१२४ (४) वक्कुल	वक्कुलका त्यागसमय भिक्षु-जीवन ।	५१२
१२५ (५) दन्त भूमि	चित्तकी एकाग्रता । संयमकी शिक्षा ।	५१५
१२६ (६) भूमिज	उचित रीतिसे पालन किया ब्रह्मचर्यही सफल होता है ।	५२०
१२७ (७) अनुल्ल	भावना-योग (अ-प्रमाणा चेतो-विमुक्ति) ।	५२३
१२८ (८) उपक्किलेस	कलहका कारण और चिकित्सा । योग-युक्तियाँ ।	५२७
१२९ (९) बाल-भंडित	नरक । पापी मूर्खके कर्म । स्वर्ग । चक्रवर्ती राजा ।	५३२
१३० (१०) देवदूत	नरक वर्णन ।	५३९
१४ (४) विभंग-वग्ग		५४३-५८१
१३१ (१) महेकरत्त	भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें लगे ।	५४३
१३२ (२) आनन्द-भहेकरत्त	"	५४५
१३३ (३) महाकच्चायन-भहेकरत्त	" (सविस्तर)	५४६
१३४ (४) लोमसकंगिय-भहेकरत्त	"	५५०
१३५ (५) चूल-कम्मविभंग	कर्मोंका फल	५५२
१३६ (६) महा-कम्मविभंग	"	५५५
१३७ (७) सत्थायतन-विभंग	आयतन । कामना और निष्कामना । स्मृति-प्रस्थान	५६०
१३८ (८) उद्देस-विभंग	इन्द्रिय-संयम । ध्यान । अ-परिग्रह ।	५६४
१३९ (९) अरण-विभंग	सुसुक्ष्मकी चर्या ।	५६७
१४० (१०) धातु-विभंग	धातुओंका विभाग । मनकी साधना ।	५७२
१४१ (११) सच्च-विभंग	चार आर्य-सत्य ।	५७८
१४२ (१२) दक्खिणा-विभंग	संघ, व्यक्तिसे ऊपर है ।	५७९
१५ (५) सत्थायतन-वग्ग		५८२-६०९
१४३ (१) अनाथ-पिंडिकोवाद	अनाथ-पिंडिककी मृत्यु । अनासक्ति योग ।	५८२
१४४ (२) छन्नोवाद	अनात्म-वाद । छन्नकी आत्म-हत्या ।	५८५
१४५ (३) पुण्णोवाद	धर्म-प्रचारककी सहिष्णुता और त्याग ।	५८८
१४६ (४) नन्दकोवाद	अनात्म-वाद । बोध्यंग ।	५९०
१४७ (५) चूल राहुलोवाद	अनात्म-वाद ।	५९५
१४८ (६) छ-छक्क	इन्द्रिय, विषय, विज्ञान और तीनोंका समागम । अनात्मवाद (सविस्तर) ।	५९७
१४९ (७) महा-सत्थायतन	तृष्णा और दुःख ।	६०१
१५० (८) नगर-विन्देय्य	सत्कारके पात्र ।	६०३
१५१ (९) पिंडपात-पारिसुद्धि	विषयोंका त्याग । स्मृति-प्रस्थान आदि भावनायें ।	६०५
१५२ (१०) इन्द्रियभावना	इन्द्रिय-संयम ।	६०७

सुत्तन्त-(= सूत्र) अनुक्रमणी

	संख्या		संख्या
अंगुलिमाल सुत्तन्त	८६	कायगता सति	११९
अच्छरिय-धम्म	१२३	किंति	१०३
अट्टक नागर	५२	कीटागिरि	७०
अनंगण	५	कुङ्कुरवतिय	५७
अनाथपिण्डिकोवाद	१४३	कोसंबक	४८
अनुपद	१११	गुलिस्सानि	६९
अनुमान	१५	गोपालक । चूल-	३४
अनुसुद्ध	१२७	” । महा-	३३
अपण्णक	६०	गोसिंग । चूल-	३१
अभयराजकुमार	५८	” । महा-	३२
अरणविभंग	१३९	घटिकार	८१
अलगह	२२	घोटमुख	९४
अस्सपुर । चूल-	४०	च्चंकि	९५
” । महा-	३९	घत्तारीसक । महा-	११७
अस्सलायण	९३	चातुम	६७
आरुंखेय्य	६	चेतोखिल	१६
आनंजसप्पाय	१०६	छच्छक्कक	१४६
थानापानसत्ति	११८	छन्नोवाद	१४४
इन्द्रियभावना	१५२	छव्विसोधन	११२
इसिगिलि	११६	जोवक	५५
उद्देसविंग	१३८	तण्हासंखय । चूल-	३७
उपक्किलेस	१२८	” । महा-	३८
उपालि	५६	दक्खिणाविभंग	१४२
ककचूपम	२१	दन्तभूमि	१२५
कण्णत्थलक	९०	दोधनख	७४
कन्दरक	५१	दुक्खक्खंघ । चूल-	१४
कम्मविभंग । चूल-	१३५	” । महा-	१३
” । महा-	१३६	देवदह	१०१

	संख्या		संख्या
देवदूत	१३०	मधुर्पिडिक	१८
द्वेधावितक्क	१९	मागंदिय	७५
धम्मचेतिय	८९	माधुरिय	८४
धम्मदायाद	३	मार-तज्जनिय	५०
धम्मसमादान । चूल-	४५	मालुंक्य । चूल-	६३
” । महा-	४६	” । महा-	६४
धातुविभंग	१४०	मूलपरियाय	१
धानंजानि	९७	मोगलान । गणक-	१०७
नगर विंदेय्य	१५०	” । गोपक-	१०८
नन्दकोवाद	१४६	रट्टपाल	८२
नलकपान	६८	रथविनीत	२४
निवाप	२५	राहुलोवाद	१४७
पंचत्तय	१०२	” । अंधलट्टिका-	६१
पासरासि	२६	” । महा-	६२
पिंडपात-पारिसुद्धि	१५१	लकुटिकोपस	६६
पियजातिक	८७	वच्छगोत्त । अग्गि-	७२
पुण्णम । चूल-	११०	” । तेविज्ज	७१
” । महा-	१०९	” । महा-	७३
पुण्णोवाद	१४५	वत्थ	७
पोतलिय	५४	वनपत्थ	१७
फासुकारि	९६	वम्मिक	२३
वक्कुल	१२४	वासेट्ट	९८
वहुधातुक	११५	वितक्कसंठान	२०
वहुवेदनीय	५९	वीमंसक	४७
वाल-पंडित	१२९	वेखणस	८०
वाहीतिय	८८	वेदछ । चूल-	४४
वोधिराजकुमार	८५	” । महा-	४३
ब्रह्मनिभंतणिक	४९	वेरंजक	४२
ब्रह्मायु	९१	सकुलुदायि । चूल-	७९
भद्दालि	६५	” । महा-	७७
भट्टेकरत्त	१३१	संखारुपपति	१२०
” । आनन्द-	१३२	संगारव	१००
” । महाकच्चायन-	१३३	सच्चक । चूल—	३५
” । लोमसकंशिय-	१३४	” । महा—	३६
भयभेरव	४	सच्चविभंग	१४१
भूमिज	१२६	सत्तिपट्टान	१०
मखादेव	८३	संदक	७६

	संख्या		संख्या
सप्पुरिस-धम्म	११३	" । महा—	१२
सव्यासव	२	सुब्जता । चूल—	१२१
सप्तममंडिक	७८	" । महा—	१२२
सम्मादिट्टि	९	सुनक्खत्त	१०५
सल्लेख	८	सुभ	९९
सळायतनविभंग	१३७	सुभ (= चूलकम्मविभंग)	१३५
सळायतनिक । महा—	१४९	सेख	५३
सामगाम	१०४	सेल	९२
सारोपम चूल—	३०	सेवितव्व- न सेवितव्व	११४
„ । महा—	२९	हत्थिपदोपम (चूल—	२७
सालेय्यक	४१	" । महा—	२८
सीहनाद । चूल—	११		

वर्ग-अनुक्रमणी


	संख्या		संख्या
अनुपद	१२ (३१२)	यसक । चूल—	५ (११५)
ओपम्म	३ (११३)	” महा—	४ (११४)
गहपति	६ (२११)	राज	९ (२१४)
देवदह	११ (३११)	विभंग	१४ (३१४)
परिव्वाजक	८ (२१३)	सलायतन	१५ (३१५)
ब्राह्मण	१० (२१५)	सीहनाद	२ (११२)
मिक्खु	७ (२१२)	सुब्जता	१३ (३१३)
मूलपरियाय	१ (१११)		

विषय-सूची

१—प्राक्-कथन	छ—ठ
२—भूमिका	ड—फ
३—सुत्तन्त-सूची	ब—ल
४—सुत्तन्त-अनुक्रमणी	व—ष
५—वर्ग-अनुक्रमणी	स
६—मान-चित्र	ह
७—ग्रंथानुवाद	१—६०९
८—उपमा-अनुक्रमणी	६११—६१३
९—नाम-अनुक्रमणी	६१४—६२६
१०—शब्द-अनुक्रमणी	६२७—

बुद्धकालीन ५००ई०पू०


भारत का मध्य मंडल



८६°

८६°

२६°



मूल-पर्यासक

[प्रथम-पंचाशक १-५० सूत्र]

मज्झिम-निकाय

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स

१-मूलपरियाय-सुत्तन्त (११११)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् उक्कट्टाके सुभगवनमें सालराजके नीचे विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! सारे धर्मोंके मूल नामक (= मूलपरियाय) (उपदेश) को तुम्हें उपदेशता हूँ। उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें (धारण) करो, कहता हूँ।”

“हाँ, भन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! आर्योंके दर्शनसे वंचित, आर्यधर्मसे अपरिचित, आर्यधर्ममें अविनीत (= न पहुँचे); सत्पुरुषों के दर्शनसे वंचित, सत्पुरुषोंके धर्मसे अपरिचित, सत्पुरुषोंके धर्ममें अविनीत; अश्रुतवान् (= अज्ञ), पृथग्जन (= अनाडी) पृथ्वीको पृथ्वीके तौर पर समझता है, पृथ्वीको पृथ्वीके तौरपर समझकर पृथ्वी मानता है, पृथिवी-द्वारा मानता है, पृथिवीसे मानता है, पृथ्वी मेरी है—मानता है, पृथ्वीका अभिनन्दन करता है। सो किसलिये ?—उसे ठीकसे मालूम नहीं है—कहूँगा। पानीको पानीके तौरपर समझता है ०^१। तेजको तेजके तौरपर समझता है ०। वायुको वायुके तौरपर समझता है ०। भूतों (= भूत-प्रेतों)को भूतके तौरपर समझता है ०। देवताओंको देवताके तौरपर समझता है ०। प्रजापतिको प्रजापतिके तौरपर समझता है ०। ब्रह्माको ब्रह्माके तौरपर समझता है ०। आभास्वर (देवताओं)को आभास्वरके तौरपर समझता है ०। सुभकिण्ह (= शुभकृत्स्न देवताओं)को, सुभकिण्हके तौरपर समझता है ०। वेहप्फल (= वृहत्फल देवताओं)को वेहप्फलके तौरपर समझता है ०। अभिभू (देवता)को अभिभूके तौरपर समझता है ०। आकासानंचायतन (= अनन्त आकाशके निवासी देवताओं)को आकासानंचायतनके तौरपर समझता है ०। विञ्जाणंचायतन (= अनन्त विज्ञान जिनका घर है, उन देवताओं)को विञ्जाणंचायतनके तौरपर समझता है ०। आर्किच्चञ्जायतन (= जिनका आयतन कुछ नहीं है, उन देवताओं)को आर्किच्चञ्जायतनके तौरपर समझता है ०। नेवसञ्जानासञ्जायतन [= जिनको न संज्ञा (= होश) है, न असंज्ञा, उन देवताओं]को नेवसञ्जायतनके तौरपर समझता है ०। दृष्ट (= देखे)को दृष्टके तौरपर समझता है ०। श्रुत (= सुने)को श्रुतके तौरपर समझता है ०। स्मृत (= यादमें आये)को स्मृतके तौरपर समझता है ०। विज्ञात

^१ जहाँ (०) चिन्ह हो, वहाँ पहिले आये वाक्यसमूहको दुहराना चाहिये।

(= जाने गये)को विज्ञातके तौरपर समझता है ० । एकस्व (= अकेलेपन)को एकस्वके तौरपर समझता है ० । नानास्व (= अनेकपन)को नानास्वके तौरपर समझता है ० । सर्व (= सारे)को सर्वके तौरपर समझता है ० । निर्वाणको निर्वाणके तौरपर समझता है, निर्वाणको निर्वाणके तौरपर समझकर निर्वाणको मानता है, निर्वाणद्वारा मानता है, निर्वाणसे मानता है, निर्वाण मेरा है—मानता है, निर्वाणको अभिनन्दन करता है । सो किसलिये ?—उसे ठीकसे मालूम नहीं है—कहूँगा ।

अश्रुतवान् पृथग्जनके द्वारा प्रथम भूमिपरिच्छेद ।

“भिक्षुओ ! वह भिक्षु भी, जोकि स्वेख (= शैक्ष्य^१ = जिसको अभी सीखना बाकी है) पहुँचे-हुये-मनवाला नहीं है, सर्वोत्तम योगक्षेम (= कल्याणकारी पद)की चाहमें विहरता है; वह भी पृथ्वीको पृथ्वीके तौरपर समझता है; पृथ्वीको पृथ्वीके तौरपर समझकर या तो पृथ्वी मानता है, या पृथ्वीद्वारा मानता है, या पृथ्वीसे मानता है, या पृथ्वी मेरी है—ऐसा मानता है, या पृथ्वीका अभिनन्दन करता है । सो किसलिये ?—(अभी) उसे ठीकसे मालूम करना है—कहूँगा । पानीको ० । तेजको ० । वायुको ० । भूतोंको ० । देवताओंको ० । प्रजापतिको ० । ब्रह्माको ० । आभास्वरोंको ० । शुभकृत्स्नोंको ० । बृहत्फलोंको ० । अभिभूको ० । आकासानंचायतनको ० । विज्ञानंचायतनको ० । आर्किचञ्जायतनको ० । नेवसञ्जानासञ्जायतनको ० । दृष्ट ० । श्रुत ० । स्मृत ० । विज्ञात ० । एकस्व ० । नानास्व ० । सर्व ० । निर्वाण ० ।

शैक्ष्यके द्वारा द्वितीय भूमिपरिच्छेद ।

“भिक्षुओ ! वह भिक्षु भी, जोकि अर्हत् है, क्षीणास्रव (= राग आदिसे मुक्त), (ब्रह्मचर्य-) वास-समाप्त-कर-चुका, कृतकरणीय, न अवहितभार (= भारको फेंक चुका), सच्चे-पदार्थको-पा चुका, भव (= संसार)के बंधनोंको काट चुका, यथार्थ ज्ञानद्वारा मुक्तहो चुका है; वह भी पृथ्वीको पृथ्वीके तौर पर पहिचानता है; पृथ्वीको पृथ्वीके तौर पर पहिचानकर न पृथ्वीको मानता है, न पृथ्वीद्वारा मानता है, न पृथ्वीसे मानता है, न ‘पृथ्वी मेरी है’—मानता है, न पृथ्वीको अभिनन्दन करता है । सो किस हेतुसे ?—उसे (यह) ठीकसे मालूम है—कहूँगा । पानी ० । तेज ० । ० ।

क्षीणास्रवके द्वारा पहिले प्रकारसे तृतीय भूमिपरिच्छेद ।

“भिक्षुओ । वह भिक्षु भी, जोकि अर्हत क्षीणास्रव है ० ; वह भी पृथ्वीको पृथ्वीके तौर पर पहिचानता है ० पहिचानकर न पृथिवीको मानता है, ० । सो किस हेतुसे ?—रागके नष्ट हो जानेसे, वीतराग होनेसे—कहूँगा । पानी ० । ० ।

क्षीणास्रवके द्वारा द्वितीय प्रकारसे चतुर्थ भूमिपरिच्छेद ।

“भिक्षुओ ! वह भिक्षु भी, जोकि अर्हत् क्षीणास्रव है ० ; वह भी पृथिवीको पृथिवीके तौर पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न पृथिवीको मानता है ० । सो किस वजहसे ?—द्वेषके नष्ट हो जानेसे, वीतद्वेष होनेसे—कहूँगा । पानी ० । ० ।

^१ बौद्ध शास्त्रोंमें मनुष्योंके दो विभाग किये गये हैं । जोकि सन्मार्गपर दृढ़ता पूर्वक आरूढ नहीं हुये हैं, उन्हें पृथग्जन कहते हैं । जो सन्मार्ग पर दृढ़तापूर्वक आरूढ हैं, उन्हें आर्य कहते हैं । आर्योंमें जिन्हें अभी करना और सीखना है, उन्हें शैक्ष्य (= स्रोतआपन्न, सक्रदागामी, अनागामी) कहते हैं, और जो मुक्त, कृतकृत्य हैं, उन्हें अशैक्ष्य या अर्हत् कहते हैं ।

क्षीणास्रवके द्वारा तृतीय प्रकारसे पंचम भूमिपरिच्छेद ।

“भिक्षुओ ! वह भिक्षुभी, जोकि अर्हत् क्षीणास्रव है ० ; वह भी पृथिवीको पृथिवीके तौर पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न पृथिवीको मानता है ० । सो किस वजहसे ?—मोहके नष्ट हो जानेसे , वीतमोह होनेसे—कहूँगा । पानी ० । ० ।

क्षीणास्रव-द्वारा चौथे प्रकारसे षष्ठ भूमिपरिच्छेद ।

“भिक्षुओ ! तथागत^१ अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध (= यथार्थ परमज्ञानी) भी पृथिवीको पृथिवीके तौर पर पहिचानते हैं, ० पहिचानकर न पृथिवीको मानते हैं ० । सो किस वजहसे ? तथागतने ठीकसे जान लिया है—कहूँगा । पानी ० । ० ।

शास्ता (= उपदेष्टा=बुद्ध)-द्वारा पहिले प्रकारसे सप्तम भूमिपरिच्छेद ।

“भिक्षुओ ! तथागत ० भी, ० पहिचानकर न पृथिवीको मानते हैं ० । सो किस वजहसे ? नन्दी (= नृपणा) दुःखका मूल है—ऐसा जानकर, ‘भव (= संसार)में जन्मने वालेको जरा और मरण (अवश्यंभावी) है’ । इसलिये भिक्षुओ ! तथागत सारी ही नृपणाओंके क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जनसे, सर्वोत्तम सम्यक्-संबोधि (= यथार्थ परमज्ञान)के जानकार (= अभिसंबुद्ध=संबुद्ध) हैं—कहता हूँ । पानी ० । ० ।”

शास्ताद्वारा दूसरे प्रकारसे अष्टम भूमिपरिच्छेद ।

—भगवान्ने यह कहा, (किन्तु) उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन नहीं किया ।^१

^१ तथा=जैसे (अन्य बुद्ध संसारमें आये, आते हैं, या आयेंगे, वैसे ही जो), आगत = आया ।

२-सम्बासव-सुत्तन्त (१११२)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथार्पिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! सारे आस्रवों (= सम्बासव)के संवर (= रोक) नामक (उपदेश)को तुम्हें उपदेशता हूँ। उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें (धारण) करो, कहता हूँ ।”

“हाँ मन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! जानते हुये देखते हुये, मैं आस्रवों (= मलों)के क्षय (के वारेमें) कहता हूँ, विना जाने विना देखे नहीं। भिक्षुओ ! क्या जान क्या देख, आस्रवोंका क्षय होता है ?—योनिसोमनसिकार (= ठीकसे मनमें धारण करना), और अयोनिसोमनसिकार (= बेठीकसे मनमें धारण करना)। बेठीकसे मनमें (धारण) करनेसे, न-उत्पन्न आस्रव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न आस्रव बढ़ते हैं। ठीकसे मनमें (धारण) करनेसे, न-उत्पन्न आस्रव उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न आस्रव नष्ट होते हैं ।

“भिक्षुओ ! (१) (कोई कोई) आस्रव दर्शन (= विचार)से प्रहातव्य (= त्यागे जा सकते) हैं; (२) (कोई कोई) संवरसे त्यागे जा सकते हैं; (३) (कोई कोई) आस्रव प्रतिसेवन (= सेवन)से त्यागे जा सकते हैं; (४) (कोई कोई) आस्रव अधिवासन (= स्वीकार) करने से त्यागे जा सकते हैं; (५) (कोई कोई) आस्रव परिवर्जन (= छोड़ने)से त्यागे जा सकते हैं; (६) (कोई कोई) आस्रव विनोदन (= हटाने)से त्यागे जा सकते हैं; (७) (कोई कोई) आस्रव (हैं, जो) भावनासे त्यागे जा सकते हैं ।

१. “भिक्षुओ ! कौनसे आस्रव दर्शनसे प्रहातव्य हैं ?—भिक्षुओ ! अज्ञ, अनादी^० (जन) मनमें (धारण) करने योग्य धर्मों (= पदार्थों)को नहीं जानता, (और) न मनमें न (धारण) करने योग्य धर्मोंको जानता है। वह मनसिकरणीय (= मनमें धारण करने योग्य) धर्मोंको न जान, अ-मनसिकरणीय धर्मोंको न जान; जो धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें मनमें (धारण) करता है, और जो धर्म अमनसिकरणीय हैं, उन्हें मनमें नहीं करता ।

क. भिक्षुओ ! कौनसे धर्म न मनसिकरणीय हैं, जिन्हें कि वह मनमें करता है ?—भिक्षुओ ! (जिन) धर्मोंके मनमें करनेसे उसके (भीतर) अनुत्पन्न काम-आस्रव (= कामना रूपी मल)

उत्पन्न होता है, और उत्पन्न काम-आस्रव बढ़ता है; अनुत्पन्न भव-आस्रव (= जन्मनेकी इच्छा रूपी मल) उत्पन्न होता है, और उत्पन्न भव-आस्रव बढ़ता है; अनुत्पन्न अविद्या-आस्रव (= अज्ञान रूपी मल) उत्पन्न होता है ० । ये धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं, जिनको कि वह मनमें करता है ।

ख. “भिक्षुओ ! कौनसे धर्म मनसिकरणीय हैं; जिनको कि वह मनमें नहीं करता ?— भिक्षुओ ! (जिन) धर्मोंको मनमें करनेसे, उस (मनुष्यके भीतर) अनुत्पन्न काम-आस्रव उत्पन्न नहीं होता, और उत्पन्न नष्ट हो जाता है; अनुत्पन्न भव-आस्रव ० ; अनुत्पन्न अविद्या-आस्रव ० नष्ट हो जाता है ।—ये धर्म मनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनमें नहीं करता ।

ग. “अ-मनसिकरणीय धर्मोंके मनमें करनेसे, (तथा) मनसिकरणीय धर्मोंके मनमें न करनेसे, उस (पुरुषके भीतर) अनुत्पन्न आस्रव उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न आस्रव वृद्धिको प्राप्त होते हैं । वह (पुरुष) इस प्रकार बेठीक तरहसे मनमें (चिन्तन) करता है—(क) क्या मैं अतीतकालमें था ? क्या मैं नहीं था अतीतकालमें ? मैं क्या था अतीतकालमें ? मैं कैसा था अतीतकालमें ? अतीतकालमें मैं क्या होकर क्या हुआ था ? (ख) क्या मैं भविष्यकालमें होऊँगा ? क्या मैं भविष्यकालमें न होऊँगा ? मैं भविष्यकालमें क्या होऊँगा ? मैं भविष्यकालमें कैसा होऊँगा ? मैं भविष्यकालमें क्या होकर क्या होऊँगा ? (ग) भव (इस) वर्तमानकालमें अपने भीतर तर्क-वितर्क करता है—मैं हूँ न ? नहीं हूँ न ? मैं क्या हूँ ? मैं कैसा हूँ ? यह सत्त्व (= प्राणी) कहाँ से आया है ? वह कहाँ जानेवाला होगा ?

—“इस प्रकार बेठीक तौरसे मनमें (धारण) करनेसे छ दृष्टियों (= वादों, मतों)में से कोई एक दृष्टि उसे उत्पन्न होती है—(१) ‘मेरा आत्मा है’, इस प्रकारकी दृष्टि सत्य और दृढ़ (सिद्धान्त)के रूपमें उत्पन्न होती है । या (२) ‘मेरे (भीतर) आत्मा नहीं है’, इस प्रकारकी ० । (३) ‘आत्माको ही आत्मा समझता हूँ,’ ० । (४) ‘आत्माको ही अनात्मा समझता हूँ,’ ० । (५) ‘अनात्माको ही आत्मा समझता हूँ,’ ० । अथवा (६) उसकी दृष्टि (= मत) होती है—‘जो यह मेरा आत्मा अनुभवकर्ता (वेदक), (तथा) अनुभव होने योग्य है, और तहाँ तहाँ (अपने) भले बुरे कर्मोंके विपाकको अनुभव करता है; वह यह मेरा आत्मा नित्य=ध्रुव=शाश्वत, अपरिवर्तन-शील (= अविपरिणामधर्मा) है, अनन्त वर्षों तक वैसा ही रहेगा’ ।

—“भिक्षुओ ! इसे कहते हैं दृष्टि-गत (= मतवाद) दृष्टि-गहन (= दृष्टिका घना जंगल), दृष्टिकी मरुभूमि (= दृष्टिकान्तर), दृष्टिका काँटा (= दृष्टि-विशूक), दृष्टिकी कुदान, दृष्टिका फंदा (= दृष्टि-संयोजन) । भिक्षुओ ! दृष्टिके फंदेमें फँसा अज्ञ अनाडी (पुरुष) जन्म, जरा, मरण, शोक, रोदन-ऋदन, दुःख-दुर्भनस्कृता और हैरानियोंसे नहीं छूटता, दुःखसे परिमुक्त नहीं होता—कहता हूँ ।

“और भिक्षुओ ! जो आर्योंके दर्शनको प्राप्त, आर्यधर्मसे परिचित, आर्यधर्ममें नीत (= प्राप्त) है; सत्पुरुषोंके दर्शनको प्राप्त, सत्पुरुष-धर्मसे परिचित, सत्पुरुष-धर्ममें नीत, बहुश्रुत आर्य-आवक (= सन्मार्ग पर आरूढ़ पुरुष,) है, वह मनसिकरणीय धर्मोंको जानता है, और अ-मनसिकरणीय धर्मोंको (भी) जानता है । वह मनसिकरणीय और अ-मनसिकरणीय धर्मोंको जान, जो धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें मनमें नहीं करता; जो धर्म मनसिकरणीय हैं, उन्हें मनमें करता है ।

क. “भिक्षुओ ! कौनसे धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं...?—भिक्षुओ ! (जिन) धर्मोंके

मनमें करनेसे उस (पुरुषके भीतर) अनुत्पन्न काम-आस्रव उत्पन्न होता है ०^१ । ये धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं, जिनको कि वह मनमें नहीं करता ।

ख. “भिक्षुओ ! कौनसे धर्म मनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनमें करता है ? ०^१ । ये धर्म मनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनमें करता है ।

ग. “अ-मनसिकरणीय धर्मोंको मनमें न करनेसे, (तथा) मनसिकरणीय धर्मोंको मनमें करनेसे, उस (पुरुषके भीतर) न-उत्पन्न आस्रव उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न आस्रव नष्ट होते हैं । (तव) वह यह ठीकसे मनमें (ज्ञान) करता है—यह दुःख है, ... यह दुःख-समुदय (= दुःखका कारण) है, ... यह दुःख-निरोध (= दुःखका विनाश) है, ... यह दुःख-निरोध की ओर लेजानेवाला मार्ग (= प्रतिपद्) है । इस प्रकार मनमें करनेपर उसके तीन संयोजन (= फंदे, बंधन)—(१) सत्कायदृष्टि (= कायाके भीतर एक नित्य आत्माकी सत्ताको मानना), (२) विच्छिकित्सा (= संशय), (३) शीलव्रत-परामर्श (= शील और व्रतका अभिमान)—छूट जाते हैं । —भिक्षुओ ! यह दर्शनसे प्रहातव्य आस्रव कहे जाते हैं ।

२. “भिक्षुओ ! कौनसे संवर (= ढाँकने, संयम करने) द्वारा प्रहातव्य आस्रव हैं ?—भिक्षुओ ! यहाँ (कोई) भिक्षु ठीकसे जान (= प्रतिसंख्यान) कर, चक्षु (= आँख) इन्द्रियमें संयम करके विहरता है । (तव) चक्षु-इन्द्रियमें असंयम करके विहरनेपर, जो पीड़ा और दाह देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते, वह ... संयम करके विहरनेपर उत्पन्न नहीं होते हैं । ० श्रोत्र-इन्द्रिय ० । ० घ्राण-इन्द्रिय ० । ० जिह्वा-इन्द्रिय ० । ० काय-इन्द्रिय ० । ० मन-इन्द्रियमें संयम करके ० पीड़ा और दाह देनेवाले आस्रव ० उत्पन्न नहीं होते ।

“भिक्षुओ ! यह संवर-द्वारा प्रहातव्य आस्रव कहे जाते हैं ।

३. “भिक्षुओ ! कौनसे प्रतिसेवन (= सेवन) द्वारा प्रहातव्य आस्रव हैं ?—(क). भिक्षुओ ! यहाँ (कोई) भिक्षु ठीकसे जानकर (उतना ही) चीवर (= वस्त्र)का सेवन करता है, जितना कि सर्दी-गर्मीकी पीड़ा, और मक्खी-मच्छर-हवा-धूप-सरीसृप (= साँप विच्छू)के आघातके रोकनेके लिये (आवश्यक) है; जितना लाजशर्म ढाँकनेके लिये (आवश्यक) है । (ख). ठीकसे जानकर भिक्षान्न (= पिंडपात) सेवन करता है; क्रीड़ा, मद, मंडन-विभूषणके लिये न करके (उतना ही भिक्षान्न सेवन करता है) जितना कि इस शरीरकी स्थितिके लिये (आवश्यक है); (भूखके) प्रकोपके शमन करने तथा ब्रह्मचर्यमें सहायताके लिये (आवश्यक है) । (यह सौचते हुये—) पुरानी (कर्म-विपाक रूपी) वेदनाओं (= पीड़ाओं)को स्वीकार करूँगा, नई वेदनाओंको न उत्पन्न करूँगा; मेरी (शरीर-)यात्रा निर्दोष होगी, और विहार निर्द्वन्द्व होगा । (ग). ठीकसे जानकर (वैसेही) निवास-गोह (= शयनासन)का सेवन करता है; जोकि सर्दी, गर्मी ०^२ के आघातके रोकनेके लिये (आवश्यक) है । जो ऋतुकी पीड़ाको हटाने और एकांत चिन्तनके लिये (उपयोगी) है । (घ). ठीकसे जानकर रोगीके लिये (उपयुक्त) पथ्य औषधकी वस्तुओंका सेवन करता है, जिससे कि उत्पन्न व्याधियाँ और पीड़ाएँ दूर हो परम निरोगताको प्राप्त हो । भिक्षुओ ! जिसके न सेवन करनेसे दाह और पीड़ा देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, और सेवन करनेसे ... (वह) उत्पन्न नहीं होते; ... वह प्रतिसेवनद्वारा प्रहातव्य आस्रव कहे जाते हैं ।

४. “भिक्षुओ ! कौनसे आस्रव अधिवासन (= स्वीकृति) द्वारा प्रहातव्य हैं ?—भिक्षुओ ! यहाँ (एक) भिक्षु ठीकसे जानकर, सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, मक्खी-मच्छर-हवा-धूप-सरीसृपोंके

आघातको सहनेमें समर्थ होता है; वाणीसे निकले दुर्वचन, तथा शरीरमें उत्पन्न ऐसी दुःखमय, तीव्र, तीक्ष्ण, कटुक, अवाञ्छित, अरुचिकर, प्राणहर पीडाओंको स्वागत करनेवाले स्वभावका होता है। जिनके कि भिक्षुओं ! न अधिवासन (= स्वीकार) करनेसे दाह और पीडा देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, और अधिवासन करनेसे... (वह) उत्पन्न नहीं होते; वह अधिवासन-द्वारा प्रहातव्य आस्रव कहे जाते हैं।

५. "भिक्षुओं ! कौनसे परिवर्जन (बँचने) द्वारा प्रहातव्य आस्रव हैं ?—भिक्षुओं ! यहाँ (एक) भिक्षु ठीकसे जानकर, चण्ड (= क्रूर) हाथीको (दूरसे) बँचता है, चण्ड घोड़े... , चण्ड बैल... , चण्ड कुत्ते... , साँप, खार्ह, काँटेकी धारी, दह, जलप्रपात, चन्दनिका (गड़हा), ओलिंगल (= गड़ही) से (बँचता है)। जैसे अनुचित आसनपर बैठे, जैसे अनुचित विचरण स्थानपर विचरते, जैसे बुरे मित्रोंको सेवन करते (देख) जानकर, सद्रह्यचारी (= एक जैसे द्रतपर आरूढ़ गुरुमाई) बुरे स्थानोंमें चले जायें; ठीकसे जानकर, वैसे अनुचित आसन, वैसे अनुचित विचरण-स्थान, वैसे बुरे मित्रोंके सेवनसे, बँचता है। भिक्षुओं ! जिसके परिवर्जन न करनेसे दाह और पीडा देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, और परिवर्जन करनेसे... (वह) उत्पन्न नहीं होते; भिक्षुओं ! यह परिवर्जन द्वारा प्रहातव्य आस्रव कहे जाते हैं।

६. "भिक्षुओं ! कौनसे विनोदन (= हटाने) द्वारा प्रहातव्य आस्रव हैं ?—भिक्षुओं ! यहाँ (एक) भिक्षु ठीकसे जानकर, उत्पन्न हुये काम-वितर्क (= काम-वासना संबंधी संकल्प-विकल्प) का स्वागत नहीं करता, (उसे) छोड़ता है, हटाता है, अलग करता है, मिटाता है; उत्पन्न हुये व्यापाद-वितर्क (= द्रोहके ख्याल) का; उत्पन्न हुये विहिंसा-वितर्क (= प्रतिहिंसाके ख्याल) का; पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले पापी विचारों (= धर्मों) का। भिक्षुओं ! जिसके न हटानेसे दाह और पीडा देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, और विनोदन करनेसे... (वह) उत्पन्न नहीं होते;... यही (वह) विनोदनद्वारा प्रहातव्य आस्रव कहे जाते हैं।

७. "भिक्षुओं ! कौनसे भावना (= चिंतन, ध्यान) द्वारा प्रहातव्य आस्रव हैं ?—भिक्षुओं ! यहाँ (एक) भिक्षु ठीकसे जानकर, विवेक-युक्त, विराग-युक्त, निरोध-युक्त, मुक्ति-परिणामवाले स्मृति-संबोध्दंगकी भावना करता है; ठीकसे जानकर, ० धर्मवैचय-संबोध्दंगकी ०; ० वीर्य-संबोध्दंगकी ०; ० प्रीति-संबोध्दंगकी ०; ० प्रश्रब्धि-संबोध्दंगकी ०; ० समाधि-संबोध्दंगकी ०; ० उपेक्षा-संबोध्दंगकी ० भावना करता है। भिक्षुओं ! जिसकी भावना न करनेसे ०;... यही (वह) भावनाद्वारा प्रहातव्य आस्रव कहे जाते हैं।

"भिक्षुओं ! जब भिक्षुके दर्शन-द्वारा प्रहातव्य आस्रव दर्शनसे नष्ट होगये, संवर-द्वारा प्रहातव्य संवरसे ०, प्रतिसेवन-द्वारा प्रहातव्य प्रतिसेवनसे ०, अधिवासन-द्वारा प्रहातव्य अधिवासन-से ०, परिवर्जन-द्वारा प्रहातव्य परिवर्जनसे ०, विनोदन-द्वारा प्रहातव्य विनोदनसे ०, भावना-द्वारा प्रहातव्य भावनासे नष्ट होगये; तो भिक्षुओं ! वह भिक्षु सारे आस्रवों (= सव्वासव)के संवरसे युक्त हो विहर रहा है; उसने तृष्णाको छिन्न कर दिया, संयोजन (= बंधन)को मानाऽभिसमय (= अभिमानके दर्शन)से अच्छी तरह हटा दिया; (उसने) दुःखका अन्त कर दिया।"

भगवान्ने यह कहा; सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया।

१ संबोधि=परमज्ञान, उसके लिये उपयोगी अंग, संबोध्दंग। यह सात हैं—स्मृति, धर्मवैचय आदि।

धर्म-वैचय=धर्म-अन्वेषण। वीर्य=उद्योग। प्रीति=सन्तोष। प्रश्रब्धि=शान्ति। समाधि=चित्तको एकाग्रता।

३-धम्मदायाद-सुत्तन्त (१।१।३)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! (तुम) मेरे धर्म-दायाद^१ (= धर्मकी वरासत पाने-वाले) होओ, आमिष-दायाद (= धन-वित्तकी वरासत पानेवाले) मत बनो । तुमपर मेरी अनुकम्पा है । सो क्या ?—(यही कि) मेरे शिष्य धर्मदायाद हों, आमिष-दायाद नहीं । यदि भिक्षुओ ! तुम मेरे आमिषदायाद होगे, धर्मदायाद नहीं; तो तुम लोग भी ताना मारे जाओगे—‘शास्ता(= उपदेष्टा, बुद्ध)के श्रावक (= शिष्य) आमिष-दायाद होकर-विहरते हैं, धर्मदायाद होकर नहीं ।’ मैं भी उसके कारण ताना मारा जाऊँगा—‘शास्ताके श्रावक आमिषदायाद होकर विहरते हैं ।’ यदि भिक्षुओ ! तुम मेरे धर्मदायाद होगे, आमिषदायाद नहीं, तो तुम भी ताना नहीं मारे जाओगे, (और लोग कहेंगे)—‘शास्ताके श्रावक धर्मदायाद होकर विहरते हैं, आमिष-दायाद, होकर नहीं ।’ इससे मैं भी ताना नहीं मारा जाऊँगा, (और लोग कहेंगे)—० । इसलिये भिक्षुओ ! (तुम) मेरे धर्मदायाद होओ ० । तुमपर मेरी अनुकम्पा है । ० ।

“भिक्षुओ ! (मान लो) मैं इस समय भली प्रकार, परिपूर्ण, यथेच्छ, तृप्त्यनुसार भोजन कर चुका हूँ, और मेरे पास अधिक भिक्षान्न वच गया हो । तब भूखकी दुर्बलतासे पीडित दो भिक्षु आवें । उनको मैं यह कहूँ—‘भिक्षुओ ! मैं ० तृप्त्यनुसार भोजन कर चुका हूँ, और मेरे पास ० । यदि इच्छा हो, तो खाओ । अगर तुम न खाओगे, तो मैं अब इसे तृणरहित (स्थान)में डाल दूँगा, या प्राणिरहित ‘जलमें छोड़ दूँगा’ । तब एक भिक्षुके (मनमें) हो—‘भगवान् ० तृप्त्यनुसार भोजन कर चुके हैं, और यह भिक्षान्न अधिक वच गया है । यदि हम न खायेंगे, तो भगवान् इसे तृणरहित ० । किन्तु, भगवान्का यह कहा हुआ है—भिक्षुओ ! मेरे धर्मदायाद होओ ० । और यह भिक्षान्न तो एक आमिष ही है । क्यों न मैं इस भिक्षान्नको विना खाये ही, इस भूखकी दुर्बलताके साथ इस दिन रातको विता दूँ ।’ (ऐसा सोच) वह उस भिक्षान्नको विना खाये, उस भूखकी दुर्बलताके साथ उस दिन-रातको विता दे । और दूसरे भिक्षुके (मनमें) हो—‘भगवान् तृप्त हो भोजन कर चुके हैं । ० । तृणरहित ० । क्यों न मैं इस भिक्षान्नको खाकर, भूखकी दुर्बलताको दूरकर इस दिन रातको विताऊँ ।’ (तब) वह उस भिक्षान्नको खाकर भूखकी दुर्बलता दूरकर उस दिन रातको विताये । तो (उनमें), वह पहिला ही भिक्षु मुझे पूज्यतर और प्रशंस-

^१ दायाद=उत्तराधिकारी ।

नीयतर है। सो किसलिये ?—भिक्षुओ ! वैसा (करना) चिरकाल तक अलोम, सन्तोष, सल्लेख (= तप), सुभरता (= सुगमता) और उद्योगपरायणताके लिये उस भिक्षुको (उपकारी) होगा। इसलिये, भिक्षुओ ! मेरे धर्मदायाद होओ०। तुमपर मेरी अनुकम्पा ०।०।”

भगवान्ने यह कहा। यह कहकर सुगत(= बुद्ध) आसनसे उठकर विहार(= कुटी)के अन्दर चले गये।

तब भगवान्के चले जानेके थोड़ी ही देर बाद, आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“आवुसो,^१ भिक्षुओ !”

“आवुस !” (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—“आवुसो ! किन (कारणों)से श्रावक (= शिष्य) शास्ता (= गुरु)से अलग हो विहरते, विवेक (= एकान्तचिन्तन)की शिक्षा नहीं ग्रहण करते; और किनसे श्रावक शास्तासे अलग हो विहरते विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं ?”

“आवुस ! दूरसे भी इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम आयुष्मान् सारिपुत्रके पास आते हैं। अच्छा हो, आयुष्मान् सारिपुत्र ही इस वचनका अर्थ कहें। आयुष्मान् सारिपुत्र (के मुख)से (उसे) सुनकर भिक्षु धारण करेंगे।”

“तो, आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ !”

“अच्छा, आवुस !” (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—“आवुसो ! यहाँ (कोई) शिष्य, गुरुसे अलग हो विहरते विवेककी शिक्षा नहीं ग्रहण करते, जिन बातों (= धर्मों)को शास्ता (= गुरु)ने छोड़नेको कहा, उन्हें नहीं छोड़ते। जोड़ने-बटोरनेवाले होते हैं। भागनेमें पहिले, और एकान्त-चिन्तनमें जुआ-गिरा देनेवाले होते हैं। इसमें स्थविर (= बृद्ध) भिक्षु तीन कारणोंसे निन्दाके पात्र होते हैं—(१) गुरुसे अलग हो विहरते, शिष्य विवेककी शिक्षा नहीं ग्रहण करते; यह पहिला कारण है, स्थविर भिक्षुओंके निन्दनीय होनेका। (२) जिन बातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें नहीं छोड़ते; यह दूसरा कारण है०। (३) जोड़ने-बटोरनेवाले होते हैं०, यह तीसरा कारण है०।

“आवुसो ! इन तीन कारणोंसे स्थविर भिक्षु निन्दनीय होते हैं। आवुसो ! वहाँ मध्यम (वयस्क) भिक्षु तीन कारणोंसे०। नव (-वयस्क) भिक्षु तीन कारणोंसे निन्दनीय होते हैं—(१) गुरुसे अलग०। इन कारणोंसे आवुसो ! शास्ताके अभावमें विहार करते शिष्य विवेककी शिक्षा ग्रहण नहीं करते।

“आवुसो ! किन कारणोंसे शास्ताके अभावमें विहरते शिष्य विवेककी शिक्षाको ग्रहण करते हैं ?—आवुसो ! यहाँ शास्ताके अभावमें विहरते श्रावक विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं। जिन बातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें छोड़ते हैं। जोड़ने-बटोरनेवाले नहीं होते। भागनेमें जुआ गिरा देनेवाले होते हैं; और एकान्त-चिन्तन (= प्रविवेक)में पहिले होते हैं। यहाँ, आवुसो ! स्थविर भिक्षु तीन बातोंसे प्रकांसनीय होते हैं—(१) शास्ताके अभावमें० शिक्षा ग्रहण करते हैं, यह पहिली बात है, जिससे स्थविर०। (२) जिन बातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें छोड़ते

^१ र्नेह सूचक संबोधन है जो पहिले बड़ेके लिये भी प्रयुक्त किया जाता था, किन्तु बुद्धनिर्वाणके बाद छोटीके लिये ही रह गया।

हैं ०। (३) जोड़ने-बटोरनेवाले नहीं होते ०। आवुसो ! स्थविर भिक्षु इन तीन बातोंसे प्रशंसनीय होते हैं। वहाँ मध्यम (-वयस्क) भिक्षु ०। नव(-वयस्क) भिक्षु तीन बातोंसे प्रशंसनीय होते हैं ०। आवुसो ! इन तीन बातोंसे भिक्षु प्रशंसनीय होते हैं। इन (बातों)से शास्ताके अभावमें विरहते श्रावक विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं।

“आवुसो ! लोभ बुरी (वस्तु) है, और द्वेष बुरी (वस्तु) है। लोभ...और द्वेषके विनाशके लिए आँख देनेवाली, ज्ञान देनेवाली मध्यमा-प्रतिपद् (= बीचका मार्ग) है, जो कि शांति, दिव्यज्ञान, संबोधि (= परमज्ञान) और निर्वाण (के प्राप्त करने)के लिये है। आवुसो ! कौन है वह आँख देनेवाली ० मध्यमा प्रतिपद् (जो कि) ० निर्वाणके लिये है ?—यही आर्यअष्टांगिक-मार्ग; जैसे कि—सम्यग् (= ठीक)-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यग्-वचन, सम्यक्-कर्मन्त (= कार-वार), सम्यग्-आजीव (= रोजी), सम्यग्-व्यायाम (= उद्योग), सम्यक्-स्मृति, और सम्यक्-समाधि। यह है आवुसो ! वह आँख देनेवाली ० मध्यमाप्रतिपद्, (जो कि) ० निर्वाणके लिये है।

“आवुसो ! वहाँ क्रोध बुरी (चीज़) है, और उपनाह (= पाखंड) बुरी चीज है ०; अक्ष (= अमरख) ०; प्रदाश (= पलास=निष्ठुरता) ०; ईर्ष्या ०; मात्सर्य (= कंजूसी) ०; माया (= धोखा देना) ०; शाठ्य (= शठता) ०; थम्भ (= जड़ता) ०; सारम्भ (= हिंसा) ०; मान ०; अतिमान ०; मद ०; प्रमाद (= भूल) बुरी (चीज़) है। मद और प्रमादके विनाशके लिये आँख देनेवाली ० मध्यमा प्रतिपद् है ०। आवुसो कौन है ०।”

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा; (और) सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणका अभिनन्दन किया।

४—भयभेरव-सुत्तन्त (१११४)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतघनमे विहार करते थे ।

तब जानुस्सोणि ब्राह्मण, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जा कर भगवान्से 'यथायोग्य (कुशल प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर जानुस्सोणि ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—

“हे गौतम ! जो यह (सारे) कुल-पुत्र आप गौतमको (नेता) मान, श्रद्धापूर्वक घरसे वेघर हो प्रव्रजित (= संन्यासी) हुये हैं; आप गौतम उनके अग्रगामी हैं, ० बहु-उपकारी हैं, ० उप-देष्टा हैं; यह जनसमुदाय आप गौतमके देखे (मार्ग) का अनुगमन करता है ।”

“ऐसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! जो यह कुल-पुत्र सुद्धे (नेता) मानकर ० ।”

“हे गौतम ! कठिन हैं अरण्य वन-खंड, और सूनी कुटियाँ (= शयनासन); दुष्कर है एकान्त रमण (= प्रविवेक); समाधि न प्राप्त होने पर अभिरमण न करनेवाले भिक्षुके मनको, अकेला पा (यह) वन मानों हर लेते हैं ।”

“ऐसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! कठिन है अरण्य ० । ब्राह्मण ! सम्बोधि (= परमज्ञान) प्राप्त होनेसे पहिले, बुद्ध न होनेके वक्त, जय मैं बोधिसत्त्व^१ (ही था), तो सुद्धे भी ऐसा होता था—‘कठिन हैं अरण्य ० ।

“तब, ब्राह्मण ! मेरे (मनमें) ऐसा हुआ—जो कोई अशुद्ध कायिक कर्मसे युक्त श्रमण (= संन्यासी) ब्राह्मण अरण्य, वनखण्ड, और सूनी कुटियोका सेवन करते हैं; अशुद्ध कायिक कर्मके दोषके कारण, वह आप श्रमण-ब्राह्मण बुरे भय-भेरव (= भय और भीषणता) का आह्वान करते हैं; (लेकिन) मैं तो अशुद्ध कायिक कर्मसे युक्त हो अरण्य ० सेवन नहीं कर रहा हूँ । मेरे कायिक कर्म (= कर्मान्त) परिशुद्ध हैं, जो परिशुद्ध कायिक कर्मवाले आर्य अरण्य ० सेवन करते हैं, मैं उनमेंसे एक हूँ । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस परिशुद्ध कायिक कर्मके भावको देखकर, सुद्धे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक पल्लोम (= उत्साह) हुआ ।

“तब, ब्राह्मण ! मेरे (मनमें) ऐसा हुआ—जो कोई अशुद्ध वाचिक कर्मवाले श्रमण-ब्राह्मण अरण्यमें ० । ० अशुद्ध मानसिक कर्मवाले श्रमण ब्राह्मण ० । ० अशुद्ध आजीविकावाले श्रमण-ब्राह्मण अरण्यमें ० । (लेकिन) मैं तो अशुद्ध आजीविकासे युक्त हो अरण्य ० सेवन नहीं कर रहा हूँ ० । ० । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस परिशुद्ध आजीविका (= रोज़ी) की विद्यमानताको देखकर, सुद्धे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ ।

^१ अपने अनेक जन्मोंके परिश्रमसे पुण्य और ज्ञानका जो इतना सचय कर चुका है, कि आगे चल कर उसका बुद्ध होना निश्चित है ।

“तव, ब्राह्मण ! मेरे (मनमें) ऐसा हुआ—जो श्रमण ब्राह्मण लोभी काम (-वासनाओं) में तीव्र राग रखनेवाले (हो) अरण्यमें ० । (लेकिन) मैं तो लोभी और कामोंमें तीव्र राग रखनेवाला न हो अरण्यमें ० । ० । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस निर्लोभिता (= अन्-अभिध्यालुता) को देख ० ।

“तव, ब्राह्मण ! ० हिंसायुक्त चित्तवाले और मनमें दुष्ट संकल्प रखनेवाले ० । ० ।

“तव, ब्राह्मण ! ० स्त्यान (= शारीरिक आलस्य)—मृद्ध (= मानसिक आलस्य) से प्रेरित हो ० । ० ।

“तव, ब्राह्मण ! ० उद्धत और अशान्त चित्तवाले हो ० । ० ।

“० लोभी, कांक्षावाले और संशयालु (= विचिकित्सी) हो ० । ० । ० ।

“० अपना उत्कर्ष (चाहने)वाले तथा दूसरेको निन्दनेवाले हो ० । ० ।

“० जड़ और भीरु प्रकृतिवाले हो ० । ० ।

“० लाभ, सत्कार और प्रशंसाकी चाहना करते ० । ० ।

“० आलसी उद्योग हीन हो ० । ० ।

“० नष्टस्मृति और सूक्ष्म (= सम्पजान) से वंचित हो ० । ० ।

“० व्यग्र (-चित्त) और विभ्रान्त-चित्त हो ० । ० ।

“० दुष्प्रज्ञ भेद-गूंगे (जैसे) हो ० । ० ।

“ब्राह्मण ! तव मेरे (मनमें) ऐसा हुआ—जो वह सम्मानित (= अभिज्ञात) = अभिलक्षित रातियाँ हैं, (जैसे कि) पक्षकी चतुर्दशी (= अमावास्या), पूर्णमासी (= पंचदशी) और अष्टमीकी रातें; वैसी रातोंमें, जो वह भयप्रद रोमांचकारक आराम-चैत्य^१, वन-चैत्य, वृक्ष-चैत्य हैं, वैसे शयनासनों (= वासस्थानों)में विहार करूँ, शायद तय (कुष्ठ) भय-भेरव देखूँ । तव, ब्राह्मण ! दूसरे समय ० सम्मानित ० रातोंमें ० वैसे शयनासनोंमें विहार करने लगा । तव, ब्राह्मण ! वैसे विहरते (समय) मेरे पास (जब कोई) मृग आता था, या मोर काठ गिरा देता था, या हवा पल्लवोंको फरफराती; तो मेरे (मनमें) होता—जरूर, यह वही भय-भेरव आ रहा है । तव, ब्राह्मण ! मेरे (मनमें) यह होता—क्यों मैं दूसरेमें भयकी आकांक्षासे विहर रहा हूँ ? क्यों न मैं जिस जिस अवस्थामें रहते, जैसे मेरे पास वह भय-भेरव आता है, वैसी वैसी अवस्थामें रहते उस भय-भेरवको हटाऊँ । जब, ब्राह्मण ! टहलते हुये मेरे पास वह भय-भेरव आता, तब मैं ब्राह्मण ! न खड़ा हो जाता, न बैठता, न लेटता; टहलते हुए ही उस भय-भेरवको हटाता । जब ० खड़े हुये रहते मेरे पास वह भय-भेरव आता ० । ० बैठे रहते ० । ० । ० लेटे रहते ० । ० ।

“ब्राह्मण ! कोई कोई ऐसे श्रमण-ब्राह्मण हैं, (जो) रात होनेपर भी (उसे) दिन अनुभव करते हैं, दिन होनेपर भी (उसे) रात अनुभव करते हैं । इसे मैं उन श्रमण-ब्राह्मणोंके लिये संमोह (Hypnotization) का विहार कहता हूँ । मैं तो ब्राह्मण ! रात होने पर (उसे) रात ही अनुभव करता हूँ, और दिन होने पर दिन ० । जिसके बारेमें ब्राह्मण ! यथार्थमें कहते वक्त कहना चाहिये—लोकमें बहुत जनोंके हितार्थ, बहुत जनोंके सुखार्थ, लोकानुकर्पाय, देव-मनुष्योंके अर्थ-हित-सुखके लिये सम्मोह-रहित पुरुष उत्पन्न हुआ है । सो वह यथार्थमें कहते वक्त मेरे लिये ही कहना होगा—लोकमें ० ।

^१ चैत्य=देवताओं भूतोंके चौर, जिनकी पूजा उस समय बहुत प्रचलित थी । मूर्तिके अभावमें लोग इन्हीं चैत्योंकी पूजा करते थे ।

“ब्राह्मण ! मैंने न दबनेवाला वीर्य (= उद्योग) आरम्भ किया था, (उस समय) मेरी अमुषित स्मृति जागृत थी, (मेरा) शान्त काय अव्यग्र (= असारद्ध) था, समाधिनिष्ठचित्त एकाग्र था । (१) सो मैं ब्राह्मण ! कामोंसे रहित बुरी बातों (= अकृशालधर्मों)से रहित, विवेकसे उत्पन्न स-वितर्क और स-विचार प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (२) (फिर) वितर्क और विचारके शान्त होने पर भीतरी शान्त तथा चित्तकी एकाग्रता वाले वितर्करहित विचाररहित प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (३) (फिर) प्रीतिसे विरक्त हो, उपेक्षक वन स्मृति-संप्रजन्य (= होश और अनुभव)से युक्त हो शरीरसे सुख अनुभव करते, जिसे कि आर्य उपेक्षक, स्मृतिमान् सुख-विहारो कहते हैं; उस तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (४) (फिर) सुख और दुःखके परित्यागसे सांमनस्य (= चित्तोल्लास) और दौर्मनस्य (= चित्तसंताप)के पहिले ही अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख-रहित—जिसमें उपेक्षासे स्मृतिकी शुद्धि हो जाती है, उस चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा ।

१ (१) “सो इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध = पर्यवदात, अंगण-रहित = उपक्लेश (= मल)-रहित, मृदुभूत=कार्योपयोगी, स्थिर=अचलता प्राप्त (और) समाधियुक्त हो जाने पर, पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके ज्ञान (= पूर्वनिवासानुस्मृति)के लिये मैंने चित्तको झुकाया । फिर मैं अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा, जैसे कि एक जन्मको भी, दो जन्मको भी, तीन, चार, पाँच, दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, सौ, हजार, सौ हजार.....अनेक संवर्त (= प्रलय) कल्पोंको भी, अनेक विवर्त (= सृष्टि-)कल्पोंको भी, अनेक संवर्त विवर्त-कल्पोंको (भी) स्मरण करने लगा—(तबमैं) अमुक स्थानपर इस नाम...गोत्र...वर्ण...आहारवाला अमुक प्रकारके सुख दुःखको अनुभव करता इतनी आयु तक रहा । वहाँसे च्युत हो अमुक स्थानमें उत्पन्न हुआ । वहाँ भी इस नाम...गोत्र ० । फिर वहाँ से च्युत हो (अब) यहाँ उत्पन्न हुआ—इस प्रकार आकार और बद्देश्यके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा । ब्राह्मण ! इस प्रकार प्रमाद रहित, तत्पर (तथा) आत्मसंयमयुक्त विहरते हुये, रातके पहिले याममें सुझे यह पहली विद्या प्राप्त हुई, अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ ।

(२) “सो इस प्रकार चित्तके समाहित (= एकाग्र), परिशुद्ध=पर्यवदात ०^१ होने पर प्राणियोंके च्युति (= मृत्यु) और उत्पत्तिके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया । सो मैं अ-मानुष, विशुद्ध, दिव्य चक्षुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण-दुर्वर्ण, सुगतिवाले, दुर्गतिवाले प्राणियोंको मरते उत्पन्न होते देखने लगा, कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहिचानने लगा—यह आप प्राणधारी (लोग) कायिक दुराचारसे युक्त, वाचिक दुराचारसे युक्त, मानसिक दुराचारसे युक्त, आयोंके निन्दक, निध्यामत-रखनेवाले, (= मिथ्या-दृष्टि), मिथ्या-दृष्टि (से प्रेरित) कर्मको करनेवाले थे । वह काया छोड़नेपर मरनेके बाद अपाय=दुर्गति, पतन, नर्क (= निरय)में प्राप्त हुये हैं । यह आप प्राणधारी (लोग) कायिक, वाचिक, मानसिक सदाचार (= सुचरित)से युक्त, आयोंके अ-निन्दक सम्यग्-दृष्टिक (= सच्चे सिद्धान्तवाले), सम्यग्-दृष्टि-संबंधी कर्मको करनेवाले (थे); वह काया छोड़नेपर मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोकको प्राप्त हुये हैं । इस प्रकार अ-मानुष, विशुद्ध दिव्य चक्षुसे ० । ब्राह्मण ! ० रातके मध्यम याममें यह सुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुई ० ।

१ यही तीन विद्यायें हैं ।

२ देखो ऊपर ।

(३) “० ० आस्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया । फिर मैंने—‘यह दुःख है’ इसे यथार्थसे जान लिया, ‘यह दुःख-समुदय (=दुःखका कारण) है’ ०, ‘यह दुःख-निरोध है’ ०, ‘यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् है’ इसे यथार्थसे जान लिया । ‘यह आस्रव^१ है’ ०, ‘यह आस्रव-समुदय है’ ०, ‘यह आस्रव-निरोध है’ ०, ‘यह आस्रवनिरोधगामिनी प्रतिपद् है’ ० । सो इस प्रकार देखते, इस प्रकार जानते मेरा चित्त काम (= काम-वासना रूपी)-आस्रवोंसे मुक्त हो गया, ० भव (= जन्म ले लेनेके लोभ रूपी) आस्रवोंसे ०, अ-विद्या-आस्रवोंसे मुक्त हो गया । छूट (= विमुक्त हो) जानेपर ‘छूट गया’ ऐसा ज्ञान हुआ । ‘जन्म खतम होगया, ब्रह्मचर्य पूरा होगया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ करनेके लिये कुछ (शेष) नहीं है’—इसे जान लिया । ब्राह्मण ! ० रातके अन्तिम याममें यह मुझे तीसरी विद्या प्राप्त हुई ० ।

“ब्राह्मण ! शायद तेरे (मनमें) ऐसा हो—‘आज भी श्रमण गौतम अ-वीतराग, अ-वीत द्वेष, अ-वीतमोह है, इसीलिये अरण्य, वनखंड तथा सूनी कुटियाका सेवन करता है’ । ब्राह्मण ! इसे इस प्रकार नहीं देखना चाहिये । ब्राह्मण ! दो बातोंके लिये मैं अरण्य ० सेवन करता हूँ— (१) इसी शरीरमें अपने सुखविहारके ख्यालसे; और (२) आनेवाली जनतापर अनुकम्पाके लिये (जिसमें) मेरा अनुगमनकर वह भी सुफल-भागी हो ।”

“आप गौतम द्वारा आनेवाली जनता अनुकम्पित सी है, जो कि आप गौतम सम्यक् संबुद्धने अनुकम्पाकी । आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य ! भो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा कर दे, ढँकेको उघाड़ दे, भूलेको रास्ता बतला दे, अंधकारमें तेलका प्रदीप रख दे—जिसमें कि आँखवाले रूपको देखें; ऐसेही आप गौतमने अनेक प्रकार (= पर्याय)से धर्मको प्रकाशित किया; यह मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आप गौतम आजसे मुझे अंजलि-वद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”

५-अनङ्गण-सुत्तन्त (१११५)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको संबोधित किया—“आवुसो ! भिक्षुओ !”

“आवुस” — (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—

“आवुसो ! लोकमें चार (प्रकारके) पुग्दल (= व्यक्ति) विद्यमान हैं । कौनसे चार ?—

(१) आवुसो ! एक व्यक्ति अंगण- (= चित्तमल)-सहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है, इसे ठीकसे नहीं जानता । (२) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है, इसे ठीकसे जानता है । (३) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है, इसे ठीकसे नहीं जानता है । (४) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है, इसे ठीकसे जानता है ।

“आवुसो ! इनमेंसे जो वह व्यक्ति अंगणसहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है—इसे ठीकसे नहीं जानता, वह इन अंगणसहित दोनों व्यक्तियोंमें हीन (= नीच) पुरुष कहा जाता है । और आवुसो ! उनमेंसे जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है—इसे ठीकसे जानता है, वह इन अंगण सहित दोनों व्यक्तियोंमें श्रेष्ठपुरुष कहा जाता है । आवुसो ! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगणरहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है—इसे ठीकसे नहीं जानता, वह इन अंगणरहित दोनों व्यक्तियोंमें हीन (= नीच)-पुरुष कहा जाता है । और आवुसो !
० अंगण-रहित होता हुआ, ० इसे ठीकसे जानता है, वह ० श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह कहा—
“आवुस सारिपुत्र ! क्या हेतु है, क्या कारण है, जो अंगण-सहित होते हुये इन दोनों व्यक्तियोंमें एक कहा जाता है हीन पुरुष, और एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष । और आवुस सारिपुत्र ! ० क्या कारण है, जो अंगण-रहित होते हुये उन दोनों व्यक्तियोंमेंसे एक कहा जाता है हीन पुरुष, और एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष ?

“आवुस ! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगणसहित होता भी ० ठीकसे नहीं जानता; उससे आशा होगी, कि वह उस अंगण (= चित्त-मल)के विनाशके लिये न प्रयत्न करेगा, न उद्योग करेगा, न वीर्यारम्भ (= प्रयत्न) करेगा; वह राग-युक्त, द्वेष-युक्त, मोह-युक्त, अंगण-युक्त, मलिन-चित्त ही मृत्युको प्राप्त करेगा । जैसे आवुस ! कांसेकी थाली (= कंसपाती) रज और मलसे लिस (ही) दूकानसे या कसेरेके घरसे लाई जाये, (और) मालिक न उसका उपयोग करे, न पर्यवदापन (= साफ) करे, (तथा) कचरेमें उसे डाल दे । इस प्रकार आवुस ! वह कांसेकी थाली, कालान्तरमें और भी

अधिक कल्टी, मलगृहीत हो जायेगी (न) ?”

“हाँ, आवुस !”

“ऐसेही आवुस ! जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता भी ० ठीकसे नहीं जानता, उससे आशा होगी ०^१ मलिन चित्तही मृत्युको प्राप्त करेगा । आवुस ! उनमें जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता ० ठीकसे जानता है, उससे आशा होगी, कि वह उस अंगणके विनाशके लिये प्रयत्न ०, उद्योग ०, वीर्यारम्भ करेगा; वह राग-रहित, द्वेष-रहित, मोह-रहित, अंगण-रहित निर्मल-चित्त हो मृत्युको प्राप्त होगा । जैसे आवुस ! रज और मलसे लिप्त कांसेकी थाली दूकानसे या कसेरेके घरसे लाई जाये, और मालिक उसका उपयोग करें, साफ करें, और कचरेमें न डालें । इस प्रकार आवुस ! वह कांसेकी थाली कालान्तरमें अधिक परिशुद्ध (तथा अधिक) निर्मल हो जायेगी (न) ?”

“हाँ, आवुस !”

“ऐसेही आवुस ! जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होते ० हुये ठीकसे जानता है, उससे आशा होगी ० निर्मल-चित्त हो मृत्युको प्राप्त होगा । आवुस ! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है—इसे ठीकसे नहीं जानता, उससे उम्मीद होगी, (कि) वह शुभ-निमित्त (= वस्तुके एकतरफा सौन्दर्यकी ओर अधिक झुकाव)को मनमें करेगा, शुभ-निमित्तके मनमें करनेसे उसके चित्तमें राग चिपट जायेगा, (इस प्रकार) वह राग-द्वेष-मोह-सहित, अंगण (= राग, द्वेष, मोह यह तीन चित्त मल)-सहित, (और) मलिन-चित्त (हो) मृत्युको प्राप्त होगा । जैसे, आवुस ! (कोई) परिशुद्ध और निर्मल कांसेकी थाली दूकानसे लाई जाये, उसे मालिक न उपभोग करें, न साफ रखें (वल्कि) कचरेमें डाल दें । इस प्रकार आवुस ! वह कांसेकी थाली कालान्तरमें और भी अधिक कल्टी, मल-गृहीत हो जायेगी (न) ?”

“हाँ, आवुस !”

“ऐसेही आवुस ! ० ० । आवुस ! उनमें जो वह व्यक्ति अंगण-रहित होता उसे ठीकसे जानता है, उससे आशा होगी, (कि) वह शुभ-निमित्तको मनमें न करेगा, शुभ-निमित्तको मनमें न करनेसे, राग उसके चित्तमें न चिपटेगा, (इस प्रकार) वह राग-द्वेष-मोह-रहित, अंगणरहित (एवं) निर्मल-चित्त (रह) मृत्युको प्राप्त होगा । जैसे आवुस ! (कोई) परिशुद्ध और निर्मल कांसेकी थाली दूकानसे ० लाई जाये; (और) मालिक उसका उपयोग करें, साफ रखें, (और उसे) कचरेमें न डालें । इस प्रकार आवुस ! वह कंस-पाती कालान्तरमें और भी अधिक परिशुद्ध और निर्मल हो जायेगी (न) ?”

“हाँ, आवुस !”

“ऐसेही आवुस ! ० ० । आवुस मोग्गलान ! यह हेतु है, यह कारण है, जो अंगण-सहित होते हुये उन दोनों व्यक्तियोंमें ०^१ । यह हेतु है ० जो अंगणरहित होते हुये भी उन दोनों व्यक्तियोंमें ०^१ ।”

“आवुस ! ‘अंगण, अंगण’ कहा जाता है । आवुस ! यह अंगण किस (चीज) का नाम है ?”

“आवुस ! पापकों (= खराबियों), बुराइयों (= अकुशलों) और इच्छाकी परतंत्रताओंका नाम (ही) यह अंगण है ।

(क). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिक्षुके (मनमें) इच्छा उत्पन्न हो—‘मैं, अपराध (= आपत्ति) करूँ, (लेकिन) मेरे वारमें भिक्षु न जानें कि इसने आपत्ति की है ।’ हो सकता है, आवुस ! कि उस भिक्षुके वारमें (दूसरे) भिक्षु जान जायें—‘इसने आपत्ति की है ।’ फिर वह (भिक्षु)—‘(सारे) भिक्षु मेरे वारमें जानते हैं, कि मैंने अपराध किया है’—यह (सोच), कुपित होवे, अप्रतीत (= नाराज) होवे । आवुस ! यह जो कोप है, यह जो अ-प्रत्यय (= नाराजगी) है, दोनों ही अंगण हैं । (ख). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिक्षुके (मनमें) इच्छा उत्पन्न हो—‘मैं अपराध करूँ, (लेकिन) भिक्षु मुझे अकेलेमें दोषी ठहरावें, संघमें नहीं ।’ हो सकता है, आवुस ! कि भिक्षु, उस भिक्षुको संघके बीचमें अपराधी ठहरावें, अकेलेमें नहीं । फिर वह (भिक्षु)—‘भिक्षु मुझे संघके बीच में अपराधी ठहराते हैं, अकेलेमें नहीं’—यह (सोच) कुपित होवे ० । यह जो कोप है ० । (ग). हो सकता है, आवुस ! ०—‘मैं अपराध करूँ, (किन्तु) सप्रतिपुद्गल (= बराबरका व्यक्ति) मुझे दोषी ठहरावे, अ-प्रतिपुद्गल नहीं ।’ ० । (घ). ०—‘शास्ता (= बुद्ध) मुझे ही पूछ पूछ कर भिक्षुओंको धर्मापदेश करें, दूसरे भिक्षुको पूछ पूछ कर भिक्षुओंको धर्मापदेशन करें ।’ हो सकता है, आवुस ! कि शास्ता दूसरे भिक्षुको पूछ पूछ कर भिक्षुओंको धर्मापदेश करें, उस भिक्षुको पूछ पूछ कर नहीं ० । फिर वह (भिक्षु)—‘शास्ता, मुझे पूछ पूछ कर भिक्षुओंको धर्मापदेश नहीं करते, दूसरे भिक्षुको पूछ पूछ कर ० करते हैं’—यह (सोच) कुपित होवे ० । ० । (ङ). ०—‘अहो ! मुझे ही आगे करके भिक्षु गाँवमें भोजनके लिये प्रविष्ट होवें, दूसरे भिक्षुको आगे करके नहीं’ ० । ० । (च). ०—‘अहो ! भोजनके समय मुझे ही अन्न (= प्रथम)-आसन, अन्न-उदक, अन्न-पिंड (= प्रथम परोसा) मिले, दूसरे भिक्षुको नहीं’ ० । ० । (छ). ०—‘अहो ! भोजन समाप्त हो जानेपर, मैं ही (अन्नदाताके दानके पुण्यका) अनुभोदन करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं’ ० । ० । (ज). ०—‘अहो ! मैं ही आराम (= आश्रम) में आये भिक्षुओंको धर्मापदेश करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं’ ० । ० । ०—‘अहो ! मैं ही आराममें आई भिक्षुणियोंको ० । ० । ० आराममें आये उपासकोंको ० । ० । ० आराममें आई उपासिकाओंको धर्मापदेश करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं’ ० । ० । (झ). ०—‘अहो ! भिक्षु मेरा ही सत्कार=गुरुकार, मान और पूजा करें, दूसरेका नहीं’ ० । ० । भिक्षुणियाँ ० उपासक ० । ० । ० उपासिकायें मेरा ही सत्कार ० करें, दूसरेका नहीं’ ० । ० ।

(ञ). ०—‘अहो ! मैं ही उत्तम चीवरों (= वस्त्रों) का पानेवाला होऊँ’ ० ; ‘उत्तम भिक्षुओंका’ ० ; ‘उत्तम वास स्थानोंका’ ० ; ‘रोगियोंके उत्तम पथ्य-औषधकी चीजोंका पानेवाला होऊँ, दूसरा भिक्षु नहीं’ ० । आवुस ! इन्हीं पापकों=बुराइयों (और) इच्छाकी परतंत्रताओंका नाम अंगण है । आवुस ! जिस किसी भिक्षुके यह पापक=बुराइयाँ, इच्छाकी परतंत्रतायें अविनष्ट दिखाई पडती हैं, सुनाई देती हैं; चाहे वह धनवासी, एकान्त कुटी निवासी, भिक्षान्नभोजी (= पिंडपाती), विना-ठहरे-भिक्षाचारी, पासुकूलिक (= फेंके चीथड़ोंको लीकर पहननेवाला), (और) रक्षचीवरधारी ही क्यों न हो, (किन्तु) स-ब्रह्मचारी (= एक व्रतके व्रती) उसका सत्कार=गुरुकार, मान, पूजा नहीं करते । सो किस लिये ?—वह देखते और सुनते हैं, कि उस आयुष्मान् की वह ० बुराइयाँ ० नष्ट नहीं हुई । जैसे आवुस ! एक परिशुद्ध, निर्मल काँसे की थाली दुकान या कसेरेके घरसे लाई गई हो । (फिर) मालिक उसमें मुर्दे साँप, मुर्दे कुत्ते, या मुर्दे मनुष्य (के मांसको) भरकर, दूसरी काँसेकी थालीसे ढाँककर याजार (आपण=दुकान) में रख दें । उसे देखकर लोग कहें—‘अहो ! यह क्या चमचमाता हुआ रक्वा है ?’ फिर उसे उठाकर देखें । उसे देखते ही उनके (मनमें) घृणा, प्रतिकूलता शुरुप्सा उत्पन्न हो जाये । भूखोंको

भी खानेकी इच्छा न हो, पेटभरोंकी तो बात ही क्या ? इसी प्रकार आवुस ! जिस किसी भिक्षुकी वह बुराइयाँ ० नष्ट नहीं हुई ०, तो चाहे वह वनवासी ० ही क्यों न हो, ० । आवुस ! जिस किसी भिक्षुकी वह ० बुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं; तो चाहे वह ग्राममें रहनेवाला, निमंत्रण खाने-वाला, गृहस्थों (के दिये नये) चीवरोंको पहिननेवाला ही क्यों न हो, तोभी स-ब्रह्मचारी उसका सत्कार=पूजा करते हैं । सो किस लिये ?—वह देखते और सुनते हैं, कि इस आयुष्मान्की वह ० बुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं । जैसे, आवुस ! एक स्वच्छ निर्मल काँसेकी थाली दुकान या कसेरेके घरसे लाई गई हो । (फिर) मालिक उसमें साफ किये शालीके चावलको अनेक प्रकारके सूप (= दाल आदि तिर्यन) और व्यंजनके साथ सजाकर एक दूसरी कंसपातीसे ढाँककर बाजारमें रख दें । उसे देखकर लोग कहें—‘अहो ! यह क्या चमचमाता रक्खा है !’ फिर उसे उठाकर खोल कर देखें । उसे देखते ही उनके (मनमें) प्रसन्नता, अनुकूलता और अ-जुगुप्सा उत्पन्न हो जाये । पेटभरोंको भी खानेकी इच्छा हो आये, भूखोंकी तो बात ही क्या ? इसी प्रकार आवुस ! जिस किसी भिक्षुकी वह ० बुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं ० । ० ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् मौद्गल्यायन (= मोग्गलान) ने आयुष्मान् सारिपुत्र (= सारि-पुत्त) को यह कहा—“आवुस सारिपुत्त ! (इसी संबंधमें) मुझे एक उपमा (= दृष्टान्त) सूझ रही है ।”

“उसे कहो, आवुस मौद्गल्यायन !”

“आवुस ! एक समय मैं राजगृह, गिरिच्छजमें विहार कर रहा था । तब मैं पूर्वाह्नके समय (वस्त्र) पहिन, (भिक्षा-) पात्र और चीवर लेकर राजगृहमें भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुआ । उस समय सामिति यानकारपुत्त, रथके (चक्केकी) पुट्टीको गढ़ रहा था, और उसके पास भूत-पूर्व यानकार-वंशिक पंगुपुत्त आजीवक^१ उपस्थित था । तब ० पंगुपुत्त आजीवकके चित्तमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—अहो ! (अच्छा हो जो) यह सामिति यानकार-पुत्त इस पुट्टीके इस बंक (= टेढ़ापन) = इस जिह्व, इस दोपको गढ़ डाले, और इस प्रकार यह पुट्टी (= नेमि) बंक-जिह्व-दोपसे रहित हो, ठीक सारमें प्रतिष्ठित हो जाये । आवुस ! जैसा जैसा ० पंगुपुत्त आजीवकके चित्तमें वितर्क होता था, वैसाही वैसा सामिति यानकारपुत्त उस पुट्टीके बंक ० को गढ़ता था । तब आवुस ! ० पंगुपुत्त आजीवक प्रसन्न चित्त हो बोल उठा—‘हृदयसे (मेरे) हृदय की (बात) को जानकर मानो गढ़ रहा है’ । ऐसे ही आवुस ! जो पुद्गल (= व्यक्ति) अश्रद्धालु हैं, जो (धर्ममें) श्रद्धासे नहीं बल्कि जीविकाके लिये घरसे वेघर वन प्रव्रजित हुये हैं, जोकि शठ, मायावी, पाखंडी (= केटुभी), उद्धत, अभिमानी (= उन्नत), चपल, मुखर, असंयतभाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनकी मात्राको न जाननेवाले, जागरणमें न तत्पर, श्रामण्य (= संन्यासके आदर्श) की पर्वाह न करनेवाले, भिक्षुओं की शिक्षाके प्रति तीव्र आदर न रखनेवाले, जोड़ने घटोरने वाले, भागनेमें अग्रगामी, एकान्त चिन्तनमें धुरा (= जुआ) फेंक देनेवाले, आलसी (= कुसीती), अनुद्योगी, मुषित-स्मृति, वेसमझ, विभ्रान्त-चित्त, दुष्टप्रज्ञ, गूंगे-भेड जैसे (पुरुष) हैं; इस उपदेश द्वारा उनके हृदयको हृदयसे जान कर मानो आयुष्मान् सारिपुत्र गढ़ रहे हैं । और जो कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घरसे वेघर हो प्रव्रजित हुये हैं, जोकि अ-शठ, अ-मायावी, पाखंड-रहित, अनुद्धत, अ-अभिमानी, अ-चपल, अ-मुखर संयत-भाषी, संयत-इन्द्रिय, भोजनकी मात्रा जाननेवाले, जागरणमें तत्पर, श्रामण्यका ख्याल रखनेवाले, शिक्षा के प्रति तीव्र आदर भाव रखने

^१ उस समयके नंगे साधुओंका एक सम्प्रदाय ।

वाले, न जोड़ने यटोरनेवाले, भागनेमें जुआ फेंक देनेवाले, एकान्त-चिन्तन (= प्रविवेक) में अग्रगामी, निरालस, उद्योगी, संयमी (= पहितत्ता), स्मृति-संयुक्त, समझदार, समाहित=एकाग्र-चित्त, प्रज्ञावान्, गूँगे-और-भेड़से नहीं हैं, वह आयुष्मान् सारिपुत्रके इस धर्मोपदेशको सुनकर मानो वचन और मनसे पान कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं। क्या खूब ? (आपने) सत्रहचारियों-को बुराइयोंसे उठाकर भलाइयोंमें स्थापित कर दिया। जैसे, आवुस ! शौकीन अल्पवयस्क तरुण स्त्री या पुरुष शिरसे स्नान कर, कमलकी माला, या जूहीकी माला, या भोगरे (= अतिसुक्तका) की मालाको पा दोनों हाथोंसे उसे ग्रहण कर, (अपने) उत्तम-अंग=शिरपर रखे; इसी प्रकार आवुस ! जो कुल-पुत्र श्रद्धापूर्वक घरसे प्रव्रजित हुये हैं^१ गूँगे—और-भेड़ से नहीं हैं; वह, आयुष्मान् सारिपुत्रके इस धर्मोपदेशको सुनकर मानो वचन और मनसे पानकर रहे हैं ० ।”

इस प्रकार दोनों महानागों (= महावीरों) ने एक दूसरेके सुभाषितका अनुमोदन किया।

^१ देखो ऊपर।

६—आकङ्खेय्य-सुत्तन्त (१।१।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनार्थपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! शील सम्पन्न होकर विहरो; प्रतिमोक्ष-संवर (= सदाचार-नियम रूपी संरक्षण)से संरक्षित हो विहरो; आचार-नोचर (= धर्माचरण)से संयुक्त हो, छोटी सी भी दुराईसे भयखाते शिक्षापदों (= आचार-नियमों)को ग्रहणकर, उनका अभ्यास करो । भिक्षुओ ! यदि भिक्षु चाहता है कि वह सब्रह्मचारी (= गुरुभार्द्) भिक्षुओंका प्रिय = मनाप और सम्मान-भाजन होवे; तो वह शीलोंका पूरा करनेवाला बने, भीतरसे चित्तको शमन करनेमें तत्पर, अखंडित ध्यान (तथा) विषयना (= प्रज्ञा)से युक्त हो, सूने घरोंकी शरण ले ।

“भिक्षुओ ! यदि भिक्षु चाहता है, कि वह चीवर (= वस्त्र), पिंडपात (= भिक्षान्न), शयनासन (= वासस्थान) (और) ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कार (रोगीके पथ्य और औषधकी चीजें) का पाने वाला हो, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ० ।

“भिक्षुओ ! यदि भिक्षु चाहता है, कि जिनके चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कारका मैं उपयोग करता हूँ, उनके वह (दान-)कार्य महाफलवाले=महानृशंसवाले हों, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ० ।

“ ० जो मेरे जातिवाले रक्त-संबंधी मृत-प्रेत (लोकान्तर-प्राप्त) हैं । (और जोकि) प्रसन्न-चित्तसे मेरी थाद करते हैं, उनका वह कर्म महाफल=महानृशंस होवे, तो वह ० ।

“ ० मैं अ-रति (= उचाट)को हरानेवाला हूँ, अ-रति मुझे न हरा सके, उत्पन्न अ-रति को मैं पराजित करके विहरूँ; तो वह ० ।

“ ० मैं भय-भैरवको हरानेवाला हूँ ० ; तो वह ० ।

“ ० इसी जन्ममें सुख-पूर्वक विहार करनेवाला, चित्त-सम्बन्धी चारों ध्यानोंका पूर्णतया विना दिक्कत और कठिनाईके लाभी (= पानेवाला) हूँ; तो वह ० ।

“ ० जो वह रूप (-लोक)^१ से परे आरूप्य (= लोक-संबन्धी) शान्त विमोक्ष (= मुक्ति) हैं, उन्हें मैं कायासे प्राप्त कर विहरूँ; तो वह ० ।

^१ इस संसारसे परे लोक जहाँ तेजोमय प्राणी निवास करते हैं, उससे भी परे अ-रूप-लोक है ।

“० तीनों संयोजनों^१के क्षयसे स्रोत-आपन्न वन पतन-रहित, नियत, संबोधि (= परमज्ञान)-परायण होऊँ; तो वह ० ।

“० तीनों संयोजनोंके क्षयसे, राग-द्वेष-मोहके क्षीण होनेसे सकृदागामी होऊँ, इस लोकमें एक ही धार और आकर दुःखका अन्त करूँ; तो वह ० ।

“० पाँच अवरभागीय संयोजनोंके क्षयसे औपपातिक (= दिव्ययोनि-उत्पन्न) उस (अगले जन्म लेनेवाले) लोकमें निर्वाण प्राप्त करनेवाला होऊँ, उस लोकसे फिर लौटकर (यहाँ) आनेवाला न होऊँ, तो वह ० ।

“० मैं अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुभव करूँ—एक होकर अनेक हो जाऊँ, आविर्भाव, तिरोभाव, दीवार-प्राकार-पर्वतमें निलिप्त हो वैसे ही चलूँ, जैसे आकाशमें पक्षी उड़ते हैं; पृथिवीमें वैसे ही डूबूँ उतराऊँ, जैसे पानीमें; पानी पर (भी) वैसे ही विना भीरो। चलूँ, जैसे पृथिवी पर; आकाशमें आसन मारकर वैसे ही चलूँ, जैसे पक्षी = शकुन; ऐसे महाऋद्धिवाले=महानुभाव इन चाँद और सूर्यको भी हाथसे छूऊँ, परिमार्जन करूँ; (इसी) कायासे ब्रह्मलोकपर्यन्त (सब) को अपने वशमें कर लूँ; तो वह ० ।

“० मैं अ-मानुष विशुद्ध दिव्य श्रोत्र-इन्द्रियसे उभय प्रकारके शब्दोंको सुनूँ—दिव्य (शब्दों)को भी, और मानुष(शब्दों)को भी, दूरवालेको भी और समीप वाले (शब्द)को भी; तो वह ० ।

“० मैं दूसरे सत्त्वों दूसरी व्यक्तियोंके चित्तोंको (अपने) चित्तसे देखकर जानलूँ—सराग चित्त होने पर 'सराग चित्त है'—जान जाऊँ, वीतराग चित्त०, स-द्वेषचित्त०, वीत-द्वेष चित्त०, स-मोह चित्त०, वीत-मोह चित्त०, संक्षिप्त (= एकाग्र)-चित्त०, विक्षिप्त चित्त०, सहद्गत (= विशाल) चित्त०, अ-सहद्गत चित्त०, स-उत्तर (= जिसने बढ़कर भी कोई हो) चित्त०, अनुत्तर (= अनुपम) चित्त०, समाहित चित्त ०, अ-समाहित, चित्त०, विमुक्त चित्त०, अ-विमुक्त चित्त०; तो वह ० ।

“० अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों(= पूर्वजन्मों)को जानूँ, जैसे कि—एक जन्मको भी ०^२; तो वह ० ।

“० मैं अ-मानुष विशुद्ध दिव्य चक्षुसे अच्छे-बुरे, सुवर्ण-दुर्वर्ण०^३ प्राणियोंको ०^३ देखूँ—यह आप प्राणी ०^३; तो वह ० ।

“० मैं आस्रवोंके क्षयसे जो आस्रव-रहित चित्तकी विमुक्ति है, प्रज्ञाद्वारा विमुक्ति (= मुक्ति) है, उसे इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर, विहार करूँ; तो वह ० ।

“भिक्षुओ ! शील^४-सम्पन्न हो विहरो ०^४ ।

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुजोंने भगवान्के भाषणका अनुमोदन किया ।

^१ मानसिक बधन ।

^२ दे०, पृष्ठ, १५ ।

^३ दे०, पृष्ठ, १५, १६ ।

^४ हिंसा आदि आठ पापकर्मोंसे विरत होना । ^५ दे० पृष्ठ २२ ।

७-वत्थ-सुत्तन्त (१११७)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! जैसे कोई थैला कुचैला वस्त्र (= वत्थ) हो, उसे रंगरेज (= रजक) ले जाकर जिसकिसी रंगमें डाले—चाहे नीलमें, चाहे पीतमें, चाहे लोहित (= लाल) में, चाहे मज्जिष्ठ (= मजीठके रंग)में; वह वदरंग ही रहेगा, अशुद्धवर्ण ही रहेगा । सो किस लिये ?—भिक्षुओ ! वस्त्रके अशुद्ध होनेसे । ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके मलिन होनेसे दुर्गति अनि-वार्य है ।

“जैसे, भिक्षुओ ! उजला साफ वस्त्र हो, उसे रंगरेज ले जाकर जिसकिसी ही रंगमें डाले, वह सुरंग निकलेगा, शुद्धवर्ण निकलेगा । सो किस लिये ?—भिक्षुओ ! वस्त्रके शुद्ध होनेके कारण । ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके अन्-उपच्छिष्ट (= निर्मल) होने पर सुगति अनि-वार्य (= लाजिमी) है (= प्रातिकाक्ष्या) ।

“भिक्षुओ ! कौनसे चित्तके उपक्लेश (= मल) हैं ?—(१) अभिध्या = विषम लोभ चित्तका उपक्लेश है; (२) व्यापाद (= द्रोह) ०, (३) क्रोध ०, (४) उपनाह (= पाखंड) ०; (५) ब्रक्ष (= अमरत्न) ०; (६) प्रदाश (= निन्दुरता) ०; (७) ईर्ष्या ०; (८) मात्सर्य (= कंजूसी) ०; (९) माया (= वंचना) ०; (१०) शाद्य ०; (११) स्तम्भ (= जडता) ०; (१२) सारम्भ (= हिंसा) ०; (१३) मान ०; (१४) अतिमान ०, (१५) मद ०; (१६) प्रमाद ० ।

“भिक्षुओ ! जो भिक्षु—‘अभिध्या = विषम लोभ चित्तका उपक्लेश है’—यह जानकर अभि-ध्या ० चित्तके उपक्लेशको त्यागता है । ‘व्यापाद चित्तका उपक्लेश है’—यह जानकर ० । क्रोध ० । उपनाह ० । ब्रक्ष ० । प्रदाश ० । ईर्ष्या ० । मात्सर्य ० । माया ० । शाद्य ० । स्तम्भ ० । सारम्भ ० । मान ० । अतिमान ० । मद ० । प्रमाद ० ।

“भिक्षुओ ! जब भिक्षुने—‘अभिध्या = विषमलोभ चित्तका उपक्लेश है,—यह जानकर चित्तके उपक्लेश अभिध्या ० को त्याग दिया है । व्यापाद ० । क्रोध ० । उपनाह ० । ब्रक्ष ० । प्रदाश ० । ईर्ष्या ० । मात्सर्य ० । माया ० । शाद्य ० । स्तम्भ ० । सारम्भ ० । मान ० । अतिमान ० । मद ० । प्रमाद ० । तो वह बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा (= प्रसाद)से युक्त होता है—‘वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध (= परमज्ञानी), विद्या-और-आचरणसे संपन्न (= परिपूर्ण), सुगत (= सुन्दर गतिको प्राप्त) लोकविद्, पुरुषोंको दमन करने (= सन्मार्गपर लाने)के लिये अनुपम चातुक सवार, देव-मनुष्योंके शास्ता (= उपदेशक) बुद्ध (= ज्ञानी) भगवान् हैं’ । वह

धर्ममें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त होता है—‘भगवान्का धर्म स्वाख्यात (सुन्दररीतिसे कहा गया) है, (वह) सादृष्टिक (= इसी शरीरमें फल देनेवाला), अकालिक (= कालान्तरमें नहीं, सद्यः फलप्रद), एहिपदियक (= यहीं दिखाई देनेवाला), औपनयिक (= निर्वाणके पास लेजानेवाला), विश (पुरुषों)को अपने अपने भीतर (ही) विदित होनेवाला है’ । वह ^१ संघमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त होता है—‘भगवान्का श्रावक (= शिष्य-संघ) सुमार्गारूढ़ (= सुप्रतिपन्न) है, ० क्रतु-प्रतिपन्न (= सरल मार्गपर आरूढ़) है, ० न्याय (मार्ग)-प्रतिपन्न है, ० सामीचि-प्रतिपन्न (= ठीक मार्गपर आरूढ़) है, यह जो चार पुरुष-युगल (= स्रोतआपन्न, सकुदागामी, अनागामी, अर्हत्), आठ पुरुष-पुद्गल (= स्त्री पुरुष भेदसे स्रोत आपन्न आदि आठ) हैं, यही भगवान्का श्रावकसंघ है, (जो कि) आह्वान करने योग्य है, पाहुना बनने योग्य, दक्षिण्य (= दानदेने योग्य), हाथ जोड़ने योग्य, और लोकके लिये पुण्य (वीने)का क्षेत्र है’ ।

“जब उसके वह (मल) त्यक्त, वमित, मोचित, नष्ट, विलजित होते हैं; (और)—‘मैं बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हूँ’—यह (सोचकर) वह अर्थ-वेद (= अर्थज्ञान), धर्मवेद (= धर्म-ज्ञान)को पाता है, (और) धर्मवेद संबंधी प्रमोद (= प्रामोद्य) को पाता है । प्रसुदित (पुरुष)को प्रीति (= संतोष) होती है । प्रीतिमान्की काया शांत होती है, प्रश्रब्धकाय सुख अनुभव करता है । सुखीका चित्त एकाग्र होता है—‘मैं धर्ममें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हूँ’—यह (सोचकर) वह ० । ‘मैं संघमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हूँ’—यह (सोचकर) वह ० । जब उसके वह (मल) त्यक्त ० होते हैं, तो वह अर्थवेद को, धर्म-वेद को पाता है ० । सुखीका चित्त एकाग्र होता है ।

“भिक्षुओ ! वह ऐसे शीलवाला, ऐसे धर्मवाला, ऐसी प्रज्ञावाला, भिक्षु चाहे काली (सुली आदि) चुनकर बने शालीके भातको, अनेक सूप और व्यंजनके साथ खाये, तो भी उसको अन्तराय (= विघ्न) नहीं होगा । भिक्षुओ ! जैसे मैला कुचैला वस्त्र त्यच्छ जलको प्राप्त हो शुद्ध साफ हो जाता है; उल्कासुख (= भट्टीकी घड़िया)में पडकर सोना शुद्ध साफ हो जाता है; ऐसेही भिक्षुओ ! ऐसे शीलवाला, ऐसे धर्मवाला, ऐसी प्रज्ञावाला भिक्षु चाहे ० शालीके भातको ० ।

“वह मैत्री-युक्त चित्तसे एक दिशाको परिपूर्णकर विहरता है, वैसे ही दूसरी दिशाको, वैसे ही तीसरी ०, ० चौथी ० । इस प्रकार ऊपर नीचे आड़े-बेड़े, सबका विचार रखनेवाला, सबके अर्थ, विपुल, महान्, प्रमाणरहित, वैररहित, व्यापार-रहित, मैत्री-युक्त चित्तसे सारे लोकको पूर्ण-कर विहार करता है ।

“वह करुणा-युक्त चित्तसे एक दिशाको ० । मुदिता-युक्त चित्तसे एक दिशाको ० । उपेक्षा-युक्त चित्तसे एक दिशाको ० ।

“वह जानता है कि ‘यह निकृष्ट है’, ‘यह उत्तम (= प्रणीत) है’—इन (लौकिक) संज्ञाओंसे ऊपर निस्सरण (= निकास) है । ऐसा जानते, ऐसा देखते हुये, उसका चित्त काम (वासना रूपी) आस्रवसे मुक्त हो जाता है, भव-आस्रवसे ०, अविद्या-आस्रवसे ० । मुक्त (= छूट) जानेपर, ‘मुक्त होगया हूँ’—यह ज्ञान होता है; और जानता है—जन्म क्षीण होगया, ब्रह्मचर्य-वास समाप्त होगया, करना था सो कर लिया, अब दूसरा यहाँ (कुछ करनेको) नहीं है । भिक्षुओ ! यह भिक्षु स्नान करे बिना ही स्नात (= नहाया) कहा जाता है ।”

^१ यही तीनों वाक्य समूह त्रि-रत्न (= बुद्ध-धर्म-संघ)की अनुसृष्टि (= स्मरण) कही जाती है ।

उस समय सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌के अविदूरमें बैठा था। तब सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मणने भगवान्‌से यह कहा—

“क्या आप गौतम स्नानके लिये वाहुकानदी चलेंगे ?”

“ब्राह्मण ! वाहुकानदीसे क्या (लेना) है ? वाहुकानदी क्या करेगी ?”

“हे गौतम ! वाहुकानदी लोकमान्य (= लोक-संमत) है, वाहुकानदी बहुत जनोद्वारा पवित्र (= पुण्य) मानी जाती है। बहुतसे लोग वाहुकानदीमें (अपने) किये पापोंको बहाते हैं।”

तब भगवान्‌ने सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मणको गाथाओंमें कहा—

“वाहुका, अविकक, गया, और सुन्दरिकामें।

सरस्वती, और प्रयाग तथा वाहुमती नदीमें।

काले कर्माँवाला मूढ चाहे नित्य नहाये, (किन्तु) शुद्ध नहीं होगा।

क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग, और क्या वाहुलिका नदी ?

(वह) पापकर्मी = कृतकिल्बिष दुष्ट नरको नहीं शुद्ध कर सकते।

शुद्ध (नर)के लिये सदाही फल्गू है, शुद्धके लिये सदा ही उपोसथ^१ है।

शुद्ध और शुचिकर्माँके व्रत सदा ही पूरे होते रहते हैं।

ब्राह्मण ! यहीं नहा, सारे प्राणियोंका क्षेम कर।

यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं मारता।

यदि विना दिया नहीं लेता, (और) श्रद्धावान् मत्सर-रहित है।

(तो) गया जाकर क्या करेगा, क्षुद्र जलाशय (= उदपान) भी तेरे लिये गया है।”

ऐसा कहने पर सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मणने भगवान्‌को यह कहा—

“आश्चर्य ! हे गौतम !! आश्चर्य ! हे गौतम !!^२ यह मैं भगवान्‌ गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी। आप गौतमके पास मैं प्रब्रज्या (= संन्यास) पाऊँ, उपसम्पदा^३ पाऊँ।”

सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मणने भगवान्‌के पास प्रब्रज्या, उपसम्पदा पाई। उपसम्पदा पानेके बाद, आयुष्मान् भारद्वाज एकान्तमें प्रमादरहित, उद्योगयुक्त, आत्मनिग्रही हो विहरते, थोड़े ही समयमें जिसके लिये कुलपुत्र घरसे बेघर हो प्रब्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्यके अन्त (= निर्वाण)को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर विहरने लगे। ‘जन्म क्षीण होगया^४ नहीं है’—जान लिया। आयुष्मान् भारद्वाज अर्हत्तोंमेंसे एक हुये।

^१ व्रतका दिन। ^२ देखो पृष्ठ १६। ^३ भिक्षु संघमें प्रवेशकी प्रक्रिया। ^४ देखो पृष्ठ १६।

८—सल्लेख-सुत्तन्त (१।१।८)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनार्थपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तय आयुष्मान् महासुन्द सायंकालमें प्रतिसल्लयन (= ध्यान)से उठकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर आयुष्मान् महासुन्दने भगवान्को यह कहा—

“भन्ते ! जो यह आत्मवाद-संवन्धी या लोकवाद-संवन्धी अनेक प्रकारकी दृष्टियाँ (= दर्शन, मत) दुनियामें उत्पन्न होती हैं, भन्ते ! इस प्रकार (इनके) आदिको ही मनमें (विचार) करनेसे इन दृष्टियोंका प्रहाण (= नाश) होता है, इन दृष्टियोंका परित्याग होता है ? ”

“सुन्द ! जो यह० दृष्टियाँ दुनियामें उत्पन्न होती हैं, (उनको) जहाँ यह दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं, जहाँ यह आश्रय ग्रहण करती हैं, जहाँ पर व्यवहृत होती हैं, (वहाँ)—‘यह मेरा नहीं’, ‘न यह मैं हूँ’, ‘न मेरा यह आत्मा है’—इसे इस प्रकार यथार्थ तौरपर ठीकसे जानकर देखनेपर, इन दृष्टियोंका प्रहाण होता है, इन दृष्टियोंका परित्याग होता है ।

“हो सकता है, सुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु कामोंसे विरहित^१० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरे । उसके (मनमें) ऐसा हो—‘मैं सल्लेख (= तय)के साथ विहर रहा हूँ’ । लेकिन, सुन्द ! आर्य-विनय (= आर्यधर्म)में इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता; आर्यविनयमें इन्हें दृष्टधर्म-सुखविहार (= इसी जन्ममें सुखपूर्वक विहार करना) कहते हैं ।

“हो सकता है, सुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु वितर्क और विचारके शान्त होनेपर ^०१ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरे । उसको ऐसा हो—० । इन्हें आर्यविनयमें दृष्टधर्म-सुखविहार कहते हैं ।

“हो सकता है, सुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु प्रीतिसे विरक्त हो^०१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरे । ० । ० ।

“हो सकता है, सुन्द ! ० ०^१ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरे । ० । इसे आर्यविनयमें दृष्टधर्म-सुखविहार कहते हैं ।

“हो सकता है, सुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु रूप-संज्ञा (= रूपके विचार)को सर्वथा छोड़नेसे, प्रतिघ (= प्रतिहिंसा)की संज्ञाओंके सर्वथा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओंको मनमें न करनेसे, ‘आकाश अनन्त है’—इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरे । उसको ऐसा हो—‘मैं सल्लेखके साथ विहर रहा हूँ’ । लेकिन, सुन्द ! आर्य विनयमें इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता; आर्यविनयमें इन्हें शान्तविहार कहते हैं ।

^१ देखो पृष्ठ १५ ।

“होसकता है, चुन्द ! • आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर ‘विज्ञान अनन्त है’—इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरे । • इन्हें शान्तविहार कहते हैं ।

“• • विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, ‘कुछ नहीं’—इस अकिंचन्य (= न-कुछ-भी-पना) आयतनको प्राप्त हो विहरे । • • ।

“• • अकिंचन्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन (=जहाँ न संज्ञाही हो न असंज्ञा ही) को प्राप्त हो विहरे । • • ।

“किन्तु, चुन्द ! यहाँ सल्लेख (= तप) करना चाहिये—(१) दूसरे हिंसक (= विहिंसक) होंगे, हम यहाँ अहिंसक रहेंगे—यह सल्लेख करना चाहिये । (२) दूसरे प्राण मारनेवाले होंगे, हम यहाँ प्राण मारनेसे विरत रहेंगे—यह सल्लेख करना चाहिये । (३) दूसरे बिना दिया लेनेवाले • । (४) दूसरे अ-ब्रह्मचारी • । (५) दूसरे मृषा (= झूठ)-वादी • । (६) दूसरे पिशुनभाषी (= छुगुलखोर) • । (७) दूसरे परुष (= कठोर)-भाषी • । (८) दूसरे संप्रलापी (= वक्त्रवादी) • । (९) दूसरे अभिध्यालु (= लोभी) • हम यहाँ अनभिध्यालु रहेंगे । (१०) दूसरे व्यापन्न (= हिंसक) चित्त • अव्यापन्न चित्त • । (११) दूसरे मिथ्या-दृष्टि • सम्यग्दृष्टि • । (१२) दूसरे मिथ्या-संकल्प • सम्यक्-संकल्प • । (१३) दूसरे मिथ्याभाषी • सम्यग्-भाषी • । (१४) दूसरे मिथ्या-कर्मान्त (= कायिककर्म) • सम्यक्-कर्मान्त • । (१५) • मिथ्या-आजीव (= अनुचितरीतिसे रोजी कमानेवाले) सम्यग्-आजीव • (१६) • मिथ्या-व्यायाम (= प्रयत्न) • सम्यग् • व्यायाम • । (१७) • मिथ्या (= अयुक्त) स्मृति • सम्यक् स्मृति • । (१८) • मिथ्या-समाधि • सम्यक्-समाधि • । (१९) • मिथ्या-ज्ञानी • सम्यग्-ज्ञानी • । (२०) • मिथ्या-विमुक्ति • सम्यग्-विमुक्ति (= मुक्ति) (२१) • स्त्यान • मृद्ध (= शरीर और मनके आलस्य)-संयुक्त • स्त्यान-मृद्ध-रहित • । (२२) • उद्धत • अनुद्धत • । (२३) • विचिकित्सक (= संशयालु) • विचिकित्सा पारंगत • । (२४) • क्रोधी • अक्रोधी • । (२५) • उपनाही (= पाखंडी) • अनुपनाही • । (२६) • अक्षी (= कीनावाले) • अम्रक्षी • । (२७) • प्रदाशी (= निष्ठुर) • अ-प्रदाशी • । (२८) • ईर्ष्यालु • ईर्ष्यारहित • । (२९) • मत्सरी • अ-मत्सरी • । (३०) • शठ • अ-शठ • । (३१) • मायावी (= वंचक) • अ-मायावी • । (३२) • स्तब्ध (= जड़) • अ-स्तब्ध • । (३३) • अतिमानी (= अभिमानी) • अनतिमानी • । (३४) • दुर्वचा • सुवचा • । (३५) • पाप-मित्र (= बुरोंको दोस्त बनानेवाले) • कल्याण-मित्र • । (३६) • प्रमत्त • अ-प्रमत्त • । (३७) • अश्रद्धालु • श्रद्धालु • । (३८) • निर्लज्ज • लज्जावान् • । (३९) • अनपन्नपी (= उचित भयको भी न माननेवाले) • अपन्नपी • । (४०) • अल्पश्रुत (= अशिक्षित) • बहुश्रुत • । (४१) • कुसीद (= आलसी) • उद्योगी • । (४२) • मूढ़-स्मृति • उपस्थित-स्मृति • । (४३) • दुष्प्रज्ञ • प्रज्ञा-सम्पन्न • । (४४) दूसरे सान्दृष्टि (= ऐहिकलाभ)-परामर्षी (= सोच करनेवाला) आधान-ग्राही (= हठी), दुष्प्रतिनिस्सर्गी (= कठिनाईसे त्याग करनेवाले) होंगे, हम यहाँ अ-सान्दृष्टि-परामर्षी अनाधान-ग्राही सुप्रतिनिस्सर्गी रहेंगे—यह सल्लेख करना चाहिये ।

“चुन्द ! अच्छी बातों (= धर्मों)के विषयमें विचारके उत्पन्न होनेको भी मैं हितकर कहता हूँ, काया और वचनसे (उनके) अनुष्ठानके वारेमें तो कहना ही क्या है ? चुन्द ! (१) दूसरे हिंसक होंगे, और हम अहिंसक रहेंगे—यह विचार उत्पन्न करना चाहिये • । (४४) दूसरे सान्दृष्टि-परामर्षी—यह विचार उत्पन्न करना चाहिये ।

“जैसे; चुन्द ! कोई ! विषम (= कठिन) मार्ग है, और उसके परिक्रमण (= फेर खाने)-

के लिये दूसरा सम-मार्ग हो; जैसे सुन्द ! विषम तीर्थ (= नावका घाट) हो, और उसके परिक्रमण-के लिये दूसरा सम तीर्थ हो; ऐसे ही सुन्द ! (१) हिंसक पुरुष पुद्गल (= व्यक्ति)को अहिंसा परिक्रमणके लिये होती है । ० । (४४) सान्द्रष्टि-परामर्षी आधान-ग्राही दुःप्रतिनिस्सर्गी पुरुषपुद्गलको असान्द्रष्टिता अ-परामर्षिता अनाधान-ग्राहिता सुप्रतिनिस्सर्गिता परिक्रमणके लिये होती है ।

“जैसे सुन्द ! जो कोई भी अकुशल धर्म (= बुरे काम) हैं, वह सभी अधोभाव (= अधोगति)को पहुँचानेवाले हैं; जो कोई भी कुशल धर्म (= अच्छे काम) हैं, वह सभी उपरि-भावको पहुँचानेवाले हैं; वैसे ही सुन्द ! (१) हिंसक पुरुष = पुद्गलको अहिंसा ऊपर पहुँचानेवाली होती है । ० । (४४) सान्द्रष्टिपरामर्षी आघात-ग्राही दुःप्रतिनिस्सर्गी पुरुष = पुद्गलको असान्द्रष्टिता, अ-परामर्षिता अनाधान-ग्राहिता सुप्रतिनिस्सर्गिता ऊपर पहुँचानेवाली होती है ।

“सुन्द ! जो स्वयं गिरा हुआ है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्भव नहीं है; किन्तु, जो सुन्द ! अपने गिरा हुआ नहीं है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्भव है । सुन्द ! जो स्वयं अदान्त (= मनके संयमसे रहित), अ-विनीत, अ-परिनिर्वृत (= निर्वाणको न प्राप्त) है, वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिर्वृत करेगा, यह सम्भव नहीं; किन्तु, जो सुन्द ! स्वयं दान्त, विनीत, परिनिर्वृत है, वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिर्वृत करेगा, यह सम्भव है । ऐसेही सुन्द ! (१) हिंसक पुरुषके लिये अहिंसा परिनिर्वाणके लिये होती है । ० । (४४) सान्द्रष्टि-परामर्षी आधानग्राही दुःप्रतिनिस्सर्गी पुरुष-पुद्गलको असान्द्रष्टिता-अपरामर्षिता अनाधान-ग्राहिता सुप्रतिनिस्सर्गिता परिनिर्वाण(= दुःखविनाश)के लिये होती है ।

“यह मैंने सुन्द ! सल्लेख-पर्याय (= सल्लेख नामक धर्मोपदेश) उपदेशा, चित्तुप्पाद-पर्याय उपदेशा, परिक्रमण-पर्याय उपदेशा, उपरिभाव-पर्याय उपदेशा, परिनिर्वाण-पर्याय उपदेशा ।

“सुन्द ! श्रावकों (= शिष्यों)के हितैषी, अनुकम्पक, शास्ता (= उपदेशक)को अनुकम्पा करके जो करना चाहिये, वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया । सुन्द ! यह वृक्षमूल हैं, यह सूने घर हैं, प्यानरत होवो । सुन्द ! मत प्रमाद (= गफलत) करो, मत पीछे अफसोस करनेवाले बनना—यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन (= उपदेश) है ।”

भगवान् ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् सुन्दने भगवान् के भाषणका अनुमोदन किया ।

(चालीस पदों और पाँच संधियों में (जो) उपदेशा गया । सागरसमान-गभीर (यह) सल्लेख नामक सज्ञान्त है ।)

६—सम्मादिद्धि-सुत्तन्त (१।१।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथर्षिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको संबोधित किया—“आवुसो भिक्षुओ !”

“आवुस !” (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—“आवुसो ! सम्यग्-दृष्टि (= सम्मादिद्धि) सम्यग्दृष्टि कही जाती है, आवुसो ! कैसे आर्यश्रावक (= आर्यधर्मी) सम्यग्दृष्टि (= ठीक सिद्धांतवाला) होता है ? उसकी दृष्टि सीधी, वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान्, (और) इस सद्धर्मको प्राप्त (होता है) ?”

“आवुस ! इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम दूरसे भी आयुष्मान् सारिपुत्रके पास आते हैं । अच्छा हो, आयुष्मान् सारिपुत्र ही इस वचनका अर्थ कहें । आयुष्मान् सारिपुत्र (के मुख)से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।”

“तो आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो कहता हूँ ।”

“अच्छा आवुस !” (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—“जब, आवुसो ! आर्यश्रावक अकुशल (= बुराई)को जानता है, अकुशल-मूलको जानता है; कुशल (= भलाई, पुण्य)को जानता है; कुशलमूलको जानता है; इतनेसे आवुसो ! आर्यश्रावक सम्यग्-दृष्टि होता है । उसकी दृष्टि सीधी (होती है), वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान्, (और) इस सद्धर्मको प्राप्त होता है ।

“क्या है, आवुसो ! अ-कुशल ? क्या है अ-कुशलमूल ? क्या है कुशल ? क्या है कुशल-मूल—? आवुसो ! (१) प्राणातिपात (= हिंसा) अकुशल है; (२) अदत्तादान (= चोरी) अकुशल है; (३) काम (= स्त्री-संसर्ग)में मिथ्याचार (= दुराचार) ०; (४) शृपावाद (= झूठ बोलना) ०; (५) पिशुनवचन (= चुगली) ०; (६) परुषवचन (= कठोर भाषण) ०; (७) संप्रलाप (= वकवाद) ०; (८) अभिष्या (= लालच) ०; (९) व्यापाद (= प्रतिहिंसा) ०; (१०) मिथ्यादृष्टि (= झूठी धारणा) ० ।—यह आवुसो ! अकुशल कहा जाता है । क्या है आवुसो ! अकुशल-मूल ?—(१) लोभ अकुशल-मूल है, (२) द्वेष ० (३) मोह अकुशल-मूल है ।—यह आवुसो ! अकुशल-मूल कहा जाता है । क्या है आवुसो ! कुशल ?—(१) प्राणातिपातसे विरति (= विरत होना) कुशल है; (२) अदत्तादानसे विरति ०; (३) कामोंमें मिथ्याचारसे विरति ०; (४) शृपावादसे विरति ०; (५) पिशुनवचनसे विरति ०; (६) परुष-वचनसे विरति ०; (७) संप्रलापसे विरति ०; (८) अन्-अभिष्या ०; (९) अ-व्यापाद ०; (१०) सम्यग्दृष्टि कुशल है ।—यह आवुसो ! कुशल कहा जाता है । क्या है आवुसो ! कुशलमूल ?—(१) अ-लोभ कुशल-मूल

है; (२) अ-द्वेष ०; (३) अ-मोह कुशल-मूल है।—यह आवुसो ! कुशल-मूल कहा जाता है। जय आवुसो ! आर्यश्रावक इस प्रकार अकुशलको जानता है, इस प्रकार अकुशल-मूलको जानता है। इस प्रकार कुशलको जानता है। इस प्रकार कुशलमूलको जानता है; (तो) वह राग-अनुशय (= ० मल) का परित्यागकर, प्रतिघ (= प्रतिहिंसा) अनुशयको हटाकर, अस्मि (= मैं हूँ) इस दृष्टि-मान (= धारणाके अभिमान)-अनुशयको उन्मूलन कर, अविद्याको नष्ट कर, विद्याको उत्पन्न कर, इसी जन्ममें दुःखोंका अन्त करनेवाला होता है। इतनेसे भी आवुसो ! आर्य-श्रावक सम्यग्दृष्टि होता है ०।

“ठीक आवुस !” (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणका अभिनन्दन कर अनुमोदन कर, आयुष्मान् सारिपुत्रसे आगेका प्रश्न पूछा—“क्या आवुस ! और भी पर्याय (= प्रकार) है, जिलसे कि आर्यश्रावक सम्यग्दृष्टि होता है ० ?”

“है, आवुसो ! जब आवुसो ! आर्यश्रावक आहारको जानता है, आहार-समुदय (= आहारकी उत्पत्ति)को जानता है, आहार-निरोध ०, आहार-निरोध-गामिनी प्रतिपद् (= आहारके विनाशकी ओर ले जानेवाले मार्ग)को जानता है। इतनेसे आवुसो ! आर्यश्रावक सम्यग्दृष्टि होता है ०। क्या है आवुसो ! आहार, क्या है आहार-समुदय, ० आहार-निरोध, ० आहार निरोध गामिनी प्रतिपद् ?—आवुसो ! सत्त्वोंकी स्थिति (और) होने वालोंकी सहायताके लिये भूतों (= प्रणियों)के यह चार आहार हैं। कौनसे चार ?—(१) स्थूल या सूक्ष्म कवलिकार (= ग्रासकरके खाया जानेवाला) आहार, (२) स्पर्श दूसरा (३) मनकी संचेतना (= ख्याल) तीसरा, (४) विज्ञान चौथा। तृष्णाका समुदय (= उत्पत्ति) (ही) आहारका समुदय है। तृष्णाका निरोध आहारका निरोध है। यह आर्य-अष्टांगिक मार्ग आहार-निरोध गामिनी प्रतिपद् है; जैसे कि—(१) सम्यग्दृष्टि (= ठीक धारणा), (२) सम्यक्-संकल्प, (३) सम्यग्-वचन, (४) सम्यक्-कर्मान्त (= कर्म) (५) सम्यग्-आजीव, (६) सम्यग्-व्यायास (= उद्योग), (७) सम्यक्-स्मृति; (८) सम्यक्-समाधि। जब आवुसो ! आर्यश्रावक इस प्रकार आहारको जानता है ०, तो वह सर्वथा रागानुशयका परित्याग कर ०^१ दुःखोंका अन्त करनेवाला होता है। इतने से आवुसो !।

“ठीक आवुस !” यह (कह) उन भिक्षुओंने ०^१ आगेका प्रश्न पूछा—“०^१ ।”

“है, आवुसो ! जब आवुसो ! आर्यश्रावक दुःख को जानता है, दुःख-समुदय (= दुःखकी उत्पत्ति, या कारण)को जानता है, दुःख-निरोधको जानता है, (और) दुःख-निरोधगामिनी प्रतिपद्को जानता है; तब आवुसो ! आर्यश्रावक सम्यग्दृष्टि होता है ०^१। क्या है आवुसो ! दुःख, क्या है दुःख-समुदय, क्या है दुःख-निरोध, क्या है दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपद् ?—जाति (= जन्म) भी दुःख है, जरा भी दुःख, व्याधि भी दुःख, मरण भी दुःख, शोक परिदेव (= रोना-काँदना) दुःख=दौर्मनस्य (= मनःसंताप) उपायास (= परेशानी) भी दुःख है, किसी (चीज)की इच्छा करके उसे न पाना (यह) भी दुःख है; संक्षेपमें पाँचों उपादान (= विषयके तौर पर ग्रहण करने योग्य) स्कन्ध (ही) दुःख हैं। इसे आवुसो ! दुःख कहा जाता है। क्या है आवुसो ! दुःख-समुदय ? यह जो नन्दी उन उन (भोगों)का अभिनन्दन करनेवाली, रागसे संयुक्त, फिर फिर जन्मने की तृष्णा है; जैसे कि—(१) काम (= इंद्रिय-संभोग)की तृष्णा, (२) भव (= जन्मने)की तृष्णा, (३) विभव (= घन)की तृष्णा।—यह आवुसो ! दुःख-समुदय कहा

जाता है। क्या है आवुसो ! दुःख-निरोध ?—जो उस तृष्णाका संपूणतया विराग, निरोध, त्याग=प्रतिनिस्सर्ग, मुक्ति, अनालय (= उसमें लीन न होना) ।—यह कहा जाता है आवुसो ! दुःखनिरोध । क्या है आवुसो ! दुःखनिरोध-गामिनी प्रतिपद् ?—यह आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ० है । (४) जैसे कि (१) सम्यग् दृष्टि ०^१ (८) सम्यक्-समाधि । जब आवुसो ! आर्य-श्रावक इस प्रकार दुःखको जानता है ० । ० । इतनेसे आवुसो ! ० ।

“ठीक, आवुस ! ०^१ ।”

“है, आवुसो ! जब आवुसो ! आर्यश्रावक जरा-मरणको जानता है, ० समुदय ०, ० निरोध ०, ० निरोध गामिनी प्रतिपद्को जानता है, तब आवुसो ! आर्यश्रावक ०^१ । क्या है आवुसो ! जरा-मरण, ० समुदय, ० निरोध, ० निरोध-गामिनी प्रतिपद् ?—जो उन उन प्राणियोंकी उन उन प्राणि-शरीरोंमें जरा (= बुढ़ापा) जीर्णता, खाण्डित्य (= दाँत टूटना), पालित्य (= थाल पकना), वलित्वकता (= झुर्री पड़ना), आयु-क्षय, इन्द्रिय-परिपाक (= विकार) ।—यह कही जाती है आवुसो ! जरा क्या है आवुसो ! मरण ?—जो उन उन प्राणियोंकी उन उन प्राणि-शरीरोंसे च्युति = च्यवन होना, भेद (= वियोग), अन्तर्धान, मृत्यु, मरण=कालक्रिया, स्कन्धोंका विलग होना, कलेवरका निक्षेप (= पतन) ।—यह कहा जाता है आवुसो ! मरण । इस प्रकार यह जरा और यह मरण (दोनों मिलकर) जरा-मरण होते हैं । जाति-समुदय (= जन्मका होना) जरा-मरण-समुदय है, जाति-निरोध (होनेसे), जरा-मरण-निरोध होता है । यही/ आर्य-अष्टांगिक-मार्ग जरा मरण निरोध गामिनी प्रतिपद् है; जैसे कि ०^१ । जब आवुसो ! ०^१ ।”

“ठीक आवुस ! ०^१”

“है, आवुसो ! जब आवुसो ! आर्यश्रावक तृष्णाको जानता है, ० समुदय ०, ० निरोध ०, ० निरोधगामिनी प्रतिपद्को जानता है; तब आवुसो ! आर्यश्रावक ०^१ । क्या है, आवुसो ! तृष्णा, ० समुदय, ० निरोध, ० निरोधगामिनी प्रतिपद् ?—आवुसो ! तृष्णाके यह छः आकार (= काय, = समुदाय) हैं—रूप-तृष्णा, शब्द-तृष्णा, गन्ध-तृष्णा, रस-तृष्णा, स्प्रष्टव्य- (= त्वक्का विषय)-तृष्णा, धर्म (= मनके विषयकी)-तृष्णा । वेदना (= अनुभव, महसूस-करना)-समुदय (ही) तृष्णा-समुदय है, वेदना-निरोध (ही) तृष्णा-निरोध है । यही 'आर्य-अष्टांगिक-मार्ग तृष्णा-निरोध गामिनी प्रतिपद् है; जैसे कि ०^१ । जब आवुसो ! ०^१ ।”

“ठीक, आवुस ! ०^१”

“है, आवुसो ! वेदनाको जानता है, ० समुदय ०, ० निरोध ०, ० निरोध-गामिनी प्रतिपद्को जानता है । तब आवुसो ! आर्यश्रावक ०^१ । क्या है, आवुसो ! वेदना, ० समुदय, ० निरोध, ० निरोध गामिनी प्रतिपद् ?—आवुसो ! वेदनाके यह छ आकार हैं—(१) चक्षुः-संस्पर्शजा (= चक्षुके संयोगसे उत्पन्न) वेदना (= एहसास, अनुभव), (२) श्रोत्र-संस्पर्शजा वेदना, (३) घ्राण-संस्पर्शजा वेदना, (४) जिह्वा-संस्पर्शजा वेदना, (५) काय-संस्पर्शजा वेदना, (६) मनः-संस्पर्शजा वेदना । स्पर्श (= इन्द्रिय और विषयका संयोग)-समुदय (से ही) वेदना-समुदय (होता है), स्पर्श-निरोध से वेदना-निरोध होता है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग-वेदना-निरोध गामिनी प्रतिपद् है, जैसे कि ०^१ । जब आवुसो ०^१ ।

“ठीक आवुस ! ०^१”

“है, आवुसो ! • स्पर्श (= इन्द्रिय और विषयका संयोग)को जानता है, • समुदय, ••। तब आवुसो ! आर्यश्रावक •• । क्या है आवुसो ! स्पर्श, • समुदय, •• ?—आवुसो ! स्पर्शके यह प्रकार (या समुदाय) हैं—(१) चक्षुः-संस्पर्श, (२) श्रोत्र-संस्पर्श, (३) घ्राण-संस्पर्श, (४) जिह्वा-संस्पर्श, (५) काय-संस्पर्श, (६) मनः-संस्पर्श । पङ्-आयतन (= चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय या त्वक् और मन यह छः इन्द्रियाँ)-समुदय (ही) स्पर्श-समुदय है । पढायतन-निरोध (से) स्पर्श-निरोध (होता है) । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग स्पर्श-निरोध-नाभिनी प्रतिपद् है, जैसे कि •• । जब आवुसो •• ।

“ठीक आवुस ! ••”

“है, आवुसो ! • पढायतनको जानता है, • समुदय •• । तब आवुसो ! आर्यश्रावक •• । क्या है आवुसो ! पढायतन, • निरोध, •• ?—आवुसो ! यह छ आयतन (= इन्द्रिय) हैं—(१) चक्षुः-आयतन, (२) श्रोत्र-आयतन, (३) घ्राण-आयतन, (४) जिह्वा-आयतन, (५) काय-आयतन, (६) मन-आयतन । नाम-रूप (= विज्ञान और रूप Mind and matter)-समुदय, पढायतन-समुदय है, नाम-रूप-निरोध (ही) पढायतन-निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग •• । •• ।

“ठीक आवुस ! ••”

“है, आवुसो ! • नाम-रूपको जानता है, • समुदय •• । तब आवुसो ! आर्यश्रावक •• । क्या है आवुसो ! नाम-रूप, • निरोध, •• ?—(१) वेदना (= विषय और इन्द्रियके संयोगसे उत्पन्न मन पर प्रथम प्रभाव), (२) संज्ञा (= वेदनाके अनंतरकी मनकी अवस्था), (३) चेतना (= संज्ञाके अनंतरकी मनकी अवस्था) (४) स्पर्श, मनसिकार (= मनपर संस्कार),—यह आवुसो ! नाम हैं । चार महाभूत और चार महाभूतों को लेकर (बने) रूप, यह आवुसो रूप कहा जाता है । इस प्रकार यह नाम, (और) यह रूप, (दोनों मिलकर) आवुसो ! नाम-रूप कहा जाता है । विज्ञान-समुदय नाम-रूप-समुदय है । विज्ञान-निरोध, नाम-रूप-निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग •• । •• ।

“ठीक आवुस ! ••”

“है, आवुसो ! • विज्ञानको जानता है, • समुदय, •• । तब आवुसो ! आर्यश्रावक •• । क्या है आवुसो ! विज्ञान, • समुदय, •• ?—आवुसो ! यह छ विज्ञानके समुदाय (= काय) हैं—(१) चक्षुः-विज्ञान, (२) श्रोत्र-विज्ञान, (३) घ्राण-विज्ञान, (४) जिह्वा-विज्ञान, (५) काय-विज्ञान, (६) मनो-विज्ञान । संस्कार-समुदय विज्ञान-समुदय है, संस्कार-निरोध विज्ञान-निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग •• । •• ।

“ठीक आवुस ! ••”

“है, आवुसो ! • संस्कारोंको जानता है । • समुदय, •• । तब आवुसो ! आर्य-श्रावक •• । क्या है आवुसो ! संस्कार, (= क्रिया, गति) • समुदय, •• ?—आवुसो ! यह तीन संस्कार हैं—(१) काय-संस्कार, (२) वचन-संस्कार, (३) चित्त-संस्कार-निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग •• । •• ।

“ठीक आवुस ! ••”

“है, आवुसो ! • अविद्याको जानता है, • समुदय, •• । तब आवुसो ! आर्यश्रावक •• ।

क्या है आवुसो अविद्या, ० समुदय, ०० ?—आवुसो ! जो यह दुःखके विषयमें अज्ञान, दुःख समुदयके विषयमें अज्ञान, दुःख-निरोधके विषयमें अज्ञान, दुःख-निरोध-नामिनी प्रतिपदके विषयमें अज्ञान, इसे आवुसो ! अविद्या कहा जाता है । आस्रव-समुदय अविद्या-समुदय है । आस्रव-निरोध अविद्या-निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ०^१ । ०^१ ।

“ठीक आवुस ! ०^१”

“है, आवुसो ! ०-आस्रव (= चित्तमल)को जानता है, ० समुदय, ०० । तव आवुसो ! आर्यश्रावक ०^१ । ऋया है आवुसो ! आस्रव, ० समुदय, ०० ?—आवुसो ! यह तीन आस्रव हैं— (१) काम-आस्रव, (२) भव- (= जन्मनेका) आस्रव, (३) अविद्या-आस्रव । अविद्या-समुदय आस्रव-समुदय है, अविद्या-निरोध आस्रव-निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ०^१ ।

इतनेसे आवुसो ! आर्यश्रावक सम्यग्-दृष्टि होता है, उसकी दृष्टि सीधी (होती है), वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान्, (और) इस सद्धर्मको प्राप्त होता है ।”

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषण-का अभिनन्दन किया ।

१०—सति-पट्टान-सुत्तन्त (११११०)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् कुह^१ (देश)में कुहओंके निगम (=कल्या) कम्मास-दम्ममें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (कह) भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

“भिक्षुओ ! यह जो चार स्मृति-प्रस्थान (= सति-पट्टान) हैं, वह सत्त्वोंके—शोक कष्टकी विशुद्धि के लिए; दुःख = दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, न्याय (= सत्य)की प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्करणके लिये, एकायन (= अकेला) मार्ग है । कौनसे चार ?—भिक्षुओ ! वहाँ (इस धर्ममें) भिक्षु कायामें ^२काय-अनुपश्यी हो, उद्योगशील अनुभव (= संप्रजन्य) ज्ञान-युक्त, स्मृति-मान्, लोक (= संसार या शरीर)में अभिध्या (= लोभ) और दौर्मनस्य (= दुःख)-को हटाकर विहरता है । वेदनाओं (= सुखादि)में ^३वेदानुपश्यी हो ० विहरता है । चित्तमें चित्तानुपश्यी ० । धर्मोंमें धर्मानुपश्यी ० ।

“भिक्षुओ ! कैसे भिक्षु ^४कायामें, कायानुपश्यी हो विहरता है ?—भिक्षुओ ! भिक्षु अरण्यमें, वृक्षके नीचे, या शून्यागारमें, आसन मारकर, शरीरको सीधाकर, स्मृतिको सामने रखकर बैठता है । वह स्मरण रखते साँस छोड़ता है, स्मरण रखते ही साँस लेता है । लम्बी साँस छोड़ते वक्त, ‘लम्बी साँस छोड़ता हूँ’—जानता है । लम्बी साँस लेते वक्त, ‘लम्बी साँस लेता हूँ’—जानता है । छोटी साँस छोड़ते, ‘छोटी साँस छोड़ता हूँ’—जानता है । छोटी साँस लेते ‘छोटी साँस लेता हूँ’—जानता है । सारी कायाको जानते (= अनुभव करते) हुये, साँस छोड़ना सीखता है । सारी कायाको जानते हुये साँस लेना सीखता है । कायाके संस्कार (= गति, क्रिया)को शांत करते साँस छोड़ना सीखता है । कायाके संस्कारको शांत करते साँस लेना सीखता है । जैसे कि—भिक्षुओ ! एक चतुर खरादकार (= भ्रमकार) या खरादकारका अन्तेवासी लम्बे (काष्ठ)को रंगते समय ‘लम्बा रंगता हूँ’—जानता है । छोटेको रंगते समय ‘छोटा रंगता हूँ’—जानता है । ऐसेही भिक्षुओ ! भिक्षु लम्बी साँस छोड़ते ०, लम्बी साँस लेते ०, छोटी साँस छोड़ते ०, छोटी साँस लेते ० जानता है । सारी

^१ कुहके बारेमें देखो बुद्धचर्या पृष्ठ ११८ ।

^२ शरीरको उसके असल स्वरूप केश-नख-मल-मूत्र आदि रूपमें देखनेवाला ‘काये कायानुपश्यी’ कहा जाता है ।

^३ सुःख, दुःख, न दुःख न सुख इन तीन चित्तकी अवस्था रूपी वेदनाओंको जैसा हो वैसा देखनेवाला ‘वेदनामें वेदानुपश्यी ० ।’

^४ यही आनापान (= प्राणायाम) कहलाता है ।

कायाको जानते (= अनुभव करते) हुये साँस छोड़ना सीखता है, ० साँस लेना ० । काय-संस्कारको शांत करते साँस छोड़ना सीखता है; ० साँस लेना ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है । कायाके बाहरी भागमें ० । कायाके भीतरी और बाहरी भागमें कायानुपश्यी विहरता है । कायामें समुदय (= उत्पत्ति) धर्मको देखता विहरता है । कायामें व्यय (= खर्च, विनाश) धर्मको देखता विहरता है । कायामें समुदय-व्यय (= उत्पत्ति-विनाश) धर्मको देखता विहरता है । 'काया है'—यह स्मृति, ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये उपस्थित रहती है । (तृष्णा आदिमें) अ-लज्ज हो विहरता है । लोकमें कुछ भी (मैं, और मेरा करके) नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भी भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें काय बुद्धि रखते विहरता है ।

“^१ फिर भिक्षुओ ! भिक्षु जाते हुये 'जाता हूँ'—जानता है । बैठे हुये 'बैठा हूँ'—जानता है । सोये हुये 'सोया हूँ'—जानता है । जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, वैसेही उसे जानता है । इसी प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है; कायाके बाहरी भागमें कायानुपश्यी विहरता है । कायाके भीतरी और बाहरी भागोंमें कायानुपश्यी विहरता है । कायामें समुदय-(= उत्पत्ति)-धर्म देखता विहरता है, ० व्यय-(= विनाश) धर्म ०, ० समुदय-व्यय-धर्म ० । ० ।

“^२ और भिक्षुओ ! भिक्षु जानते (= अनुभव करते) हुये गमन-आगमन करता है । जानते हुये आलोकन=विलोकन करता है । ० सिकोड़ना फैलाना ० ^३संघाटी, पात्र, चीवरका धारण करता है । जानते हुये आसन, पान, खादन, आस्वादन, करता है । ० पाखाना (= उच्चार), पेशाव (= पस्साव), करता है । चलते, खड़े होते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर करनेवाला होता है । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है । ० ।

“^४ और भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवेसे ऊपर, केश-मस्तकसे नीचे, इस कायाको नाना प्रकारके मलोंसे पूर्ण देखता (= अनुभव करता) है—इस कायामें हैं—केश, रोम, नख, दाँत, त्वक् (= चमड़ा), मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि (के भीतरकी) मज्जा, वृक्क, हृदय (कलेजा), यकृत, झोमक, झीहा (= तिछी), फुफ्फुस, आँत, पतली आँत (= अंत-गुण), उदरस्थ (वस्तुयें), पाखाना, पित्त, कफ, पीव, लोहू, पसीना, मेद (= वर), आँसू, चला (= चर्बी), लार, नासा-मल, ^५लसिका, और मूत्र । जैसे भिक्षुओ ! नाना अनाज शाली, व्रीही (= धान), मूँग, उड़द, तिल, तण्डुलसे दोनों सुखभरी डेहरी (= सुढोली, पुढोली) हो, उसको आँखवाला पुरुष खोलकर देखे—यह शाली हैं, यह व्रीही हैं, यह मूँग हैं, यह उड़द हैं, यह तिल हैं, यह तण्डुल हैं । इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवेके ऊपर केश-मस्तकसे नीचे इस कायाको नाना प्रकारके मलोंसे पूर्ण देखता है—इस कायामें हैं ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है । ० ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु इस ^६कायाको (इसकी) स्थितिके अनुसार (इसकी) रचनाके अनुसार देखता है—इस कायामें हैं—पृथिवी धातु (= पृथिवी महाभूत), आप (= जल)-धातु, तेज (= अग्नि) धातु, वायु-धातु । जैसे कि भिक्षुओ ! दक्ष (= चतुर) गो-घातक था गो-घातकका अन्ते-वासी, गायको मारकर थोड़ी थोड़ी काटकर चौरस्तेपर बैठा हो । ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु इस कायाको स्थितिके अनुसार, रचनाके अनुसार देखता है । ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागको ० ।

^१ यही ईर्या-पथ है । ^२ यही संप्रजन्य है । ^३ भिक्षुओंकी दोहरी चादर । ^४ प्रतिकूल-मनसिकार ।

^५ केहुनी आदि जोड़ोंमें स्थित तरल पदार्थ । ^६ धातु-मनसिकार ।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु एक दिनके भरे, दो दिनके भरे, तीन दिनके भरे, फूले, नीले पड़ गये, पीय-भरे, (मृत)-शरीरको इमशानमें फेंकी देखे । (और उसे) वह इसी (अपनी) कायापर घटावै—यह भी काया इसी धर्म (= स्वभाव)-वाली, ऐसी ही होनेवाली, इससे न बच सकनेवाली है । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग० ।० ।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु कौओंसे खाये जाते, चीन्होंसे खाये जाते, गिद्धोंसे खाये जाते, कुत्तोंसे खाये जाते, नाना प्रकारके जीवोंसे खाये जाते, इमशानमें फेंके (मृत)-शरीरको देखै । वह इसी (अपनी) कायापर घटावै—यह भी काया० ।० ।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु माँस-लोहू-नसोंसे बँधे हड्डी-कंकालवाले शरीरको इमशानमें फेंका देखे ० ।० ।

“० माँस-रहित लोहू-लगे, नसोंसे बँधे ० ।० । ० माँस-लोहू-रहित नसोंसे बँधे ० ।० । ० बंधन-रहित हड्डियोंको दिशा-विदिशामें फेंकी देखे—कहीं हाथकी हड्डी है, ० पैरकी हड्डी ० ० जंघाकी हड्डी ०, ० उरुकी हड्डी ०, ० कमरकी हड्डी ०, ० पीठके काँटे ०, ० खोपड़ी ०; और इसी (अपनी) कायापर घटावे ० ।० ।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु शंखके समान सफेद वर्णके हड्डीवाले शरीरको इमशानमें फेंका देखे ० ।० । ० वर्षों-पुरानी जमाकी हड्डियोंवाले ० ।० । ० सड़ी चूर्ण होगई हड्डियोंवाले ० ।० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु वेदनाओंमें वेदानुपश्यी (हो) विहरता है ?—भिक्षुओ ! भिक्षु सुख-वेदनाको अनुभव करते ‘सुख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ’—जानता है । दुःख-वेदनाको अनुभव करते ‘दुःख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ’—जानता है । अदुःख-असुख वेदनाको अनुभव करते ‘अदुःख-असुख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ’—जानता है । स-आमिष (= भोग-पदार्थ-सहित) सुख-वेदनाको अनुभव करते ० । निर्-आमिष सुख-वेदना ० । स-आमिष दुःख-वेदना ० । निर्-आमिष दुःख-वेदना ० । स-आमिष अदुःख-असुख-वेदना ० । निर्-आमिष अदुःख-असुख-वेदना ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ० ।० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु चित्तमें चित्तानुपश्यी हो विहरता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु स-राग चित्तको ‘स-राग चित्त है’—जानता है । विराग (= राग-रहित) चित्तको ‘विराग चित्त है’—जानता है । स-द्वेष चित्तको ‘सद्वेष चित्त है’—जानता है । वीत-द्वेष (= द्वेष-रहित) चित्तको ‘वीत-द्वेष चित्त है’—जानता है । स-मोह चित्तको ० । वीत-मोह चित्तको ० । संक्षिप्त चित्तको ० । विक्षिप्त चित्तको ० । महद्-गत (= महापरिमाण) चित्तको ० । अ-महद्गत चित्तको ० । स-उत्तर ० । अन्-उत्तर (= उत्तम) ० । समाहित (= एकाग्र) ० । अ-समाहित ० । विमुक्त ० । अ-विमुक्त ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ० ।० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है ?—भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच नीवरण धर्मोंमें धर्मानुपश्यी (हो) विहरता है । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच नीवरण धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी काम-च्छन्द (= कामुकता)को ‘मेरेमें भीतरी काम-च्छन्द विद्यमान है’—जानता है । अ-विद्यमान भीतरी काम-च्छन्दको ‘मेरेमें भीतरी काम-च्छन्द नहीं विद्यमान है’—जानता है । अन्-उत्पन्न काम-च्छन्दकी जैसे

१ इमशान ।

२ चौदह (२) कायानुपश्यना समाप्त ।

३ (२) वेदानुपश्यना ।

४ (३) चित्तानुपश्यना ।

५ (४) धर्मानुपश्यना ।

६ पाँच नीवरण—काम-च्छन्द, व्यापाद,

उत्पत्ति होती है, उसे जानता है। जैसे उत्पन्न हुये कामच्छन्दका प्रहाण (= विनाश) होता है, उसे जानता है। जैसे विनष्ट कामच्छन्दकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता है। विद्यमान भीतरी व्यापाद (= द्रोह) को—‘मेरेमें भीतरी व्यापाद विद्यमान है’—जानता है। अ-विद्यमान भीतरी व्यापादको—‘मेरेमें भीतरी व्यापाद नहीं विद्यमान है’—जानता है। जैसे अन्-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है। जैसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे जानता है। जैसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, उसे जानता है। विद्यमान भीतरी स्त्यान-मृद्ध (= थीन-मिद्ध = शरीर-मनकी अलसता) ०।०।

० भीतरी औद्धत्य-कौकृत्य (= उद्धच्च-कुक्कुच्च = उद्वेग-खेद,) ०।०।

० भीतरी विचिकित्सा (= संशय) ०।०।

“इस प्रकार भीतर धर्मोंमें धर्मानुपइयी हो विहरता है। बाहर धर्मोंमें (भी) धर्मानु-पइयी हो विहरता है। भीतर-बाहर ०। धर्मोंमें समुदय (= उत्पत्ति) धर्मका अनुपइयी (= अनुभव करनेवाला) हो विहरता है। ०। व्यय (= विनाश)-धर्म ०। ० उत्पत्ति-विनाश-धर्म ०। स्मृतिके प्रमाणके लिये ही, ‘धर्म है’—यह स्मृति उसकी वरावर विद्यमान रहती है। वह (तृष्णा आदिमें) अ-लज्ज हो विहरता है। लोकमें कुछ भी (मैं और मेरा) करके ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मोंमें धर्म-अनुपइयी हो विहरता है।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादान^१ स्कंध धर्मोंमें धर्म-अनुपइयी हो विहरता है। कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादान स्कंध धर्मोंमें धर्म-अनुपइयी हो विहरता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु (अनुभव करता है)—‘यह रूप है’, ‘यह रूपकी उत्पत्ति (= समुदय)’, ‘यह रूपका अस्त-गमन (= विनाश) है’। ० संज्ञा ०। ० संस्कार ०। ० विज्ञान ०। इस प्रकार अध्यात्म (= शरीरके भीतरी) धर्मोंमें धर्म-अनुपइयी हो विहरता है। बहिर्धा (= शरीरके बाहरी) धर्मोंमें धर्म-अनुपइयी ०। शरीरके भीतरी-बाहरी धर्मों (= वस्तुओं)में समुदय (= उत्पत्ति)—धर्मको अनुभव करता विहरता है। वस्तुओंमें विनाश (= व्यय)—धर्मको अनुभव करता विहरता है। वस्तुओंमें उत्पत्ति-विनाश-धर्मको अनुभव करता विहरता है। सिर्फ ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये ही ‘धर्म है’—यह स्मृति उसको वरावर विद्यमान रहती है। वह अ-लज्ज हो विहरता है। लोकमें कुछ भी नहीं ग्रहण करता। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादान-स्कंधोंमें धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता (= धर्म-अनुपइयी) विहरता है।

“और फिर भिक्षुओ ? भिक्षु छः आध्यात्मिक (= शरीरके भीतरी), बाह्य (= शरीरके बाहरी) आयतन धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है। कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु छः भीतरी बाहरी आयतन(-रूपी) धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है ?—भिक्षुओ ! भिक्षु चक्षुको अनुभव करता है, रूपोंको अनुभव करता है, और जो उन दोनों (= चक्षु और रूप) करके संयोजन^३ उत्पन्न होता है, उसे भी अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्-उत्पन्न संयोजनकी

^१ स्कंध—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान।

^२ आयतन—चक्षुः, श्रोत्र, घ्राण (= नासिक), जिह्वा (= रसना), काय (= त्वक्), मन। इनमें पहिले पाँच बाह्यआयतन हैं, मन आध्यात्मिक (= शरीरके भीतरका) आयतन है।

^३ संयोजन दश यह हैं—प्रतिष (= प्रतिहिंसा), मान (= अभिमान), दृष्टि (धारणा, मत), विचिकित्सा (= संशय), शील-व्रत-परामर्श (= शील और व्रतका ख्याल), भव-राग (आवागमन-प्रेम), ईर्ष्या, मात्सर्य और अ-विद्या। संयोजनका शब्दार्थ बन्धन है।

उत्पत्ति होती है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका प्रहाण (= विनाश) होता है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार प्रहीण (= विनष्ट) संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे भी जानता है। श्रोत्रको अनुभव करता है; शब्दको अनुभव करता है ०। घ्राण (सूँघनेकी शक्ति, घ्राण-इंद्रिय)को अनुभव करता है। गंधको अनुभव करता है ०। जिह्वा ० र ०। ०। काया (= त्वक्-इंद्रिय, ठंडा गर्म आदि जाननेकी शक्ति) ०, स्पष्टव्य (= ठंडा गर्म आदि ०। ०। मनको अनुभव करता है। धर्म (= मनके विषय)को अनुभव करता है। दोनों (= मन और धर्म) करके जो 'संयोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अनुभव करता है। ०। इस प्रकार अध्यात्म (= शरीरके भीतर) धर्मों (= पदार्थों)में धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता विहरता है, बहिर्धा (= शरीरके बाहर) ०, अध्यात्म-बहिर्धा ०। धर्मोंमें उत्पत्ति-धर्मको ०, ० विनाश-धर्मको ०, ० उत्पत्ति-विनाश-धर्मको ०। सिर्फ ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये ०। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले छः आयतन धर्मों (= पदार्थों) में धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता विहरता है।

“और भिक्षुओ ! भिक्षु सात 'बोधि-अङ्ग धर्मों (= पदार्थों) में धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता विहरता है। कैसे भिक्षुओ । ० ? भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी (= अध्यात्म) स्मृति संबोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर स्मृति संबोधि-अङ्ग है'—अनुभव करता है। अ-विद्यमान भीतरी स्मृति संबोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर स्मृति संबोधि-अङ्ग नहीं है'—अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्-उत्पन्न स्मृति संबोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है; उसे जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न स्मृति संबोधि अङ्गकी भावना परिपूर्ण होती है; उसे भी जानता है। ० भीतरी धर्म-विचय (= धर्म-अन्वेषण) संबोधि-अङ्ग ०। ० वीर्य ०। ० प्रीति ०। ० प्रअग्नि ०। ० समाधि ०। विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-अङ्ग है'—अनुभव करता है। अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-अङ्ग नहीं है'—अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्-उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है; उसे जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अङ्गकी भावना परिपूर्ण होती है; उसे जानता है। इस प्रकार शरीरके धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता; शरीरके बाहर ०, शरीरके भीतर-बाहर ०। ०। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले सात संबोधि-अङ्ग धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु चार 'आर्य-सत्य धर्मोंमें धर्म अनुभव करते विहरता है। कैसे ० ? भिक्षुओ ! 'यह दुःख है'—ठीक ठीक (= यथाभूत = जैसा है वैसा) अनुभव करता है। 'यह दुःखका समुदय (= कारण) है'—ठीक ठीक अनुभव करता है। 'यह दुःखका निरोध

१ संयोजन दश यह हैं—प्रतिष (= प्रतिहिंसा), मान (= अभिमान), दृष्टि (= धारणा, मत), विचिकित्सा (= संशय), शील-व्रत-परामर्श (= शील और व्रतका ख्याल), भव-राग (= आवागमन-प्रेम), ईर्ष्या, मात्सर्य और अ-विद्या। संयोजनका शब्दार्थ बन्धन है।

२ सात बोध्यङ्ग—स्मृति, धर्म-विचय (= धर्म-अन्वेषण), वीर्य (= उद्योग), प्रीति (= हर्ष), प्रअग्नि (= शांति), समाधि, उपेक्षा। संबोधि = बोधि (= परम ज्ञान) प्राप्त करनेमें यह परम सहायक हैं, इसलिये इन्हें बोधि-अङ्ग कहा जाता है।

३ आर्य-सत्य चार हैं—दुःख, समुदय, निरोध, निरोध-गामिनी-प्रतिपद।

(= विनाश) है'—ठीक ठीक अनुभव करता है । 'यह दुःखके निरोधकी ओर ले जानेवाला मार्ग (= दुःख-निरोध गामिनी-प्रतिपद्) है'—ठीक ठीक अनुभव करता है ।

“इस प्रकार भीतरी धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है । ० । अ-लज्ज हो विहरता है । लोकमें किसी (वस्तु)को भी (मैं और मेरा) करके नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु चार आर्य-सत्य धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है ।

“जो कोई भिक्षुओ ! इन चार स्मृति-प्रस्थानोंकी इस प्रकार सात वर्ष भावना करै, उसको दो फलोंमें एक फल (अवश्य) होना चाहिये—इसी जन्ममें आज्ञा (= अर्हत्व)का साक्षात्कार, या 'उपाधि शेष होनेपर अनागामी-भाव । रहने दो भिक्षुओ ! सात वर्ष, जो कोई इन चार स्मृति-प्रस्थानोंको इस प्रकार छः वर्ष भावना करै ० । ० पाँच वर्ष । चार वर्ष ० । ० तीन वर्ष ० । ० दो वर्ष ० । ० एक वर्ष ० । ० सात मास ० । ० छः मास ० । ० पाँच मास ० । ० चार मास ० । ० तीन मास ० । ० दो मास ० । ० एक मास ० । ० अर्द्ध मास ० । ० सप्ताह ० ।

“भिक्षुओ ! 'वह जो चार स्मृति-प्रस्थान हैं; वह सर्वोंके शोक-कष्टकी विशुद्धिके लिये, दुःख दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, न्याय (= सत्य)की प्राप्तिके लिये, निर्वाण की प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये, एकायन मार्ग है ।' यह जो (मैंने) कहा, इसी कारणसे कहा ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।^२

१—इति मूलपरियायवग्ग (१ । १)

^१ (दुःखका कारण वृष्णा आदि) । ^२ थोड़ेसे अंश की अधिकतासे यही सुत्त, दीघनिकायका महासत्तिपट्टान-सुत्त (२।२२) है (देखो बुद्धचर्या पृष्ठ ११८-२०) ।

११—चूल-सीहनाद-सुत्तन्त (१२।१)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! यहाँ ही प्रथम श्रमण (= संन्यासी महात्मा) (है), यहाँ द्वितीय श्रमण, यहाँ तृतीय श्रमण, यहाँ चतुर्थ श्रमण है, दूसरे मत (= प्रवाद) श्रमणोंसे शून्य हैं।—इस प्रकार भिक्षुओ ! अच्छी तरहसे सिंहनाद (= सीहनाद) करो।

“हो सकता है भिक्षुओ ! अन्य तैर्धिक (= दूसरे मतवाले) यह कहें—‘आयुष्मानोंको क्या आश्वास = क्या बल है, जिससे कि तुम आयुष्मान् यह कहते हो—यहाँ ही श्रमण है, ०’। ऐसा कहनेवाले अन्य मतानुयायियोंको भिक्षुओ ! तुम ऐसा कहना—‘आवुसो ! उन भगवान् जाननहार, देखनहार, अर्हत् सम्यक् संबुद्धने हमें चार धर्म (= वात) बतलाये हैं, जिनको हम अपने भीतर देखतेहुये ऐसा कहते हैं—‘यहाँ ही श्रमण है ०। कौनसे चार ?—आवुसो ! (१) हमारी शास्ता (= उपदेशक)में श्रद्धा (= प्रसाद) है, (२) धर्ममें श्रद्धा है, (३) शील (= सदाचार)में परिपूर्ण कारिता (= पूरा करनेवाला होता), (४) सहधर्मी गृहस्थ और प्रव्रजित हमारे प्रिय = मनाप हैं। आवुसो ! उन भगवान् ० सम्यक्-सम्बुद्धने हमें यह चार धर्म बतलाये हैं, जिनको हम अपने भीतर देखतेहुये ऐसा कहते हैं—यहाँ ही श्रमण ०।’

“हो सकता है, भिक्षुओ ! अन्य मतानुयायी यह कहें—‘आवुसो ! (१) जो हमारा शास्ता (= गुरु) है, (उस) शास्तामें हमारी भी श्रद्धा है; जो हमारा धर्म है, (उस) धर्ममें हमारी भी श्रद्धा है; (३) जो हमारे शील (= सदाचार) हैं, (उन) शीलोंमें हमारी भी परिपूर्णकारिता है। हमारे भी सहधर्मी गृहस्थ और प्रव्रजित प्रिय = मनाप हैं। आवुसो ! तुम्हारे और हमारेमें यहाँ क्या विशेष = नाना-करण = अधिष्पाय है ? ऐसा कहनेवाले अन्यमतानुयायियोंको भिक्षुओ ! तुम ऐसा कहना—‘आवुसो ! क्या (आप लोगोंकी) एकनिष्ठा है, या पृथग् (= अलग) निष्ठा ?’ ठीकसे उत्तर देनेपर भिक्षुओ ! अन्यमतावलम्बी यह उत्तर देंगे—‘एक निष्ठा है आवुसो ! पृथग् निष्ठा नहीं है।’ ‘आवुसो ! वह निष्ठा क्या सरागके सम्वन्धमें है, या वीतरागके सम्वन्धमें ?’ ठीकसे उत्तर देनेपर अन्यमतावलम्बी यह कहेंगे—‘वीतरागके सम्वन्धमें है वह निष्ठा, आवुसो ! सरागके सम्वन्धमें नहीं।’ ‘आवुसो ! वह निष्ठा क्या सद्देपके सम्वन्धमें है या वीतद्वेपके सम्वन्धमें ० ?’ ० ‘० वीतद्वेपके सम्वन्धमें ०।’ ० ‘० समोहके सम्वन्ध में, या वीतमोहके ० ?’ ० ‘० वीतमोहके सम्वन्धमें ०।’ ० ‘० स-तृष्णके सम्वन्धमें, या वीत-तृष्णके ० ?’ ० ‘० वीततृष्णके सम्वन्धमें ०।’ ० ‘० स-उपादान (= बटोरनेवाले)के सम्वन्धमें, या अनुपादानके ० ?’ ० ‘० अनुपादानके

सम्बन्धमें ० ।' '० विद्वसु (= ज्ञानी) ० या अ-विद्वसुके ० ?' ० '० विद्वसुके सम्बन्धमें ० ।'
 '० अनुरुद्ध = प्रतिविरुद्धके सम्बन्धमें या अन्-अनुरुद्ध = अप्रतिविरुद्धके ० ० ?' ० '० अननुरुद्ध =
 अप्रतिविरुद्धके सम्बन्धमें ० ।' '० प्रपंचाराम = प्रपंचरतिके सम्बन्धमें या निष्प्रपंचारामके ० ?'
 ० '० निष्प्रपंचारामके सम्बन्धमें वह निष्ठा है आवुसो ! प्रपंचाराम = प्रपंचरतिके सम्बन्धमें नहीं ।'

“भिक्षुओ ! दो प्रकारकी दृष्टियाँ (= धारणायें) हैं—भव (= संसार)-दृष्टि, विभव (= अ-
 संसार)दृष्टि । भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण भवदृष्टिमें लीन, भवदृष्टिको प्राप्त, भवदृष्टिमें तत्पर
 हैं; वह विभवदृष्टिसे विरुद्ध हैं; और, भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण विभवदृष्टिमें लीन, विभवदृष्टिको
 प्राप्त, विभवदृष्टिमें तत्पर हैं, वह भवदृष्टिसे विरुद्ध हैं । भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण इन दोनों
 दृष्टियोंके समुदय (= उत्पत्ति) अस्तगमन, आस्वाद, आदिनव (= परिणाम) निस्सरण (= निकास)
 को यथार्थतया नहीं जानते, वह सराग (हैं), सद्देष, समोह, सत्तृष्णा, स-उपादान, अ-विद्वसु
 (= अज्ञानी), अनुरुद्ध = प्रतिविरुद्ध, प्रपंचाराम प्रपंचरत, हैं; वह जाति, जरामरण, शोक-परिदेव
 (= क्रंदन)-दुःख-उपायासोंसे नहीं छूटे हैं—यह मैं कहता हूँ । (और) भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण
 इन दोनों दृष्टियोंके समुदय ०को यथार्थतया जानते हैं, वह वीतराग (हैं), वीतद्वेष ० निष्प्र-
 पंचरत हैं, वह जाति, जरामरण, ०से छूटे हैं—यह मैं कहता हूँ ।

“भिक्षुओ ! यह चार उपादान (= आग्रह, ग्रहण) हैं । कौनसे चार ?—(१) काम
 (= इन्द्रियभोग)-उपादान । (२) दृष्टि (= धारणा)-उपादान, (३) शील-व्रत-उपादान; (४)-
 आत्मवाद-उपादान ।

भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण (अपनेको) सर्व-उपादान-परिज्ञावादी (= सारे उपा-
 दानोंके त्यागका मत रखनेवाले) कहतेहुये भी, वह ठीक तौरसे सारे उपादानोंके परिज्ञा (= परित्याग)
 को प्रज्ञापित नहीं करते । काम-उपादान की परिज्ञाको कहते हैं, (किन्तु) दृष्टि ०, शील-व्रत ०,
 आत्मवाद-उपादानकी परिज्ञाको नहीं प्रज्ञापित करते । सो किस कारण ?—यह आप श्रमण ब्राह्मण
 (उन) तीन बातों (= स्थानों)को ठीकसे नहीं जानते, इसीलिये वह श्रमण ब्राह्मण (अपनेको)
 सर्व-उपादान-परिज्ञावादी कहते भी ०, आत्मवाद-उपादानकी परिज्ञाको नहीं प्रज्ञापन करते ।

“भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण (अपनेको) सर्व-उपादान-परिज्ञा-वादी कहते भी ० ।
 काम ०, (और) दृष्टि-उपादानकी परिज्ञाको प्रज्ञापते हैं, (किन्तु) शीलव्रत ०, (और) आत्म-
 वाद-उपादानकी परिज्ञाको नहीं प्रज्ञापते । सो किस कारण ?— ० उन दो बातोंको ठीकसे नहीं
 जानते ० ।

“भिक्षुओ ! कोई कोई ० कहते भी ० । काम ०, दृष्टि ०, (और) शीलव्रत-उपादानकी
 परिज्ञा (= परित्याग)को प्रज्ञापते (= वतलाते) हैं, (किन्तु) आत्मवाद-उपादानकी परिज्ञा
 नहीं प्रज्ञापते । सो किस कारण ?— ० इस एक बातको ठीकसे नहीं जानते ० ।

“भिक्षुओ ! इस प्रकारके धर्मविनय (= मत)में जो शास्ताके सम्बन्धमें श्रद्धा है, वह सम्य-
 गगत (= ठीक स्थानमें) नहीं कही जाती; जो धर्ममें श्रद्धा ०; जो शीलमें परिपूर्ण-कारिता ०; जो
 सहधर्मियोंमें प्रिय-मनापता है, वह सम्यगत नहीं कही जाती । सो किस कारण ? क्योंकि यह ऐसे
 धर्म-विनय (= मत)के विषयमें है, (जो कि) दुराख्यात (= ठीकसे नहीं व्याख्यान किया गया)
 दुष्प्रवेदित (= ठीकसे न जाना गया), अ-नैर्यागिक (= न पार करानेवाला), अन्-उपशम-संवर्त-
 निक (= शांतिको न प्राप्त करानेवाला), अ-सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेदित (= यथार्थज्ञानी द्वारा नहीं जाना
 गया) है ।

“भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध (अपनेको) सर्व-उपादान-परिज्ञावादी कहतेहुये,

ठीक तौरसे सभी उपादानोंकी परिज्ञाको प्रज्ञापते हैं—काम-उपादान ०, इष्टि ०, शीलव्रत ०, (और) आत्मवाद (= आत्मा कोई नित्यवस्तु है, यह सिद्धान्त)-उपादानकी परिज्ञाको प्रज्ञापते हैं । भिक्षुओ ! ऐसे धर्ममें जो शास्ताके सम्बन्धमें श्रद्धा है, वह सम्यग्गत (= ठीक स्थानमें) कही जाती है; ० ० । सो किस हेतु ?—क्योंकि यह ऐसे धर्मके विषयमें है, (जो कि) सु-आख्यात, सुप्रवेदित, नैर्याणिक, उपशम-संवर्तनिक (और) सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेदित है ।

“भिक्षुओ ! यह चार उपादान किस निदान (= कारण) वाले = किस समुदयवाले, किस जातिवाले = किस प्रभव (= उत्पत्ति) वाले हैं ?—यह चारों उपादान तृष्णा-निदानवाले, तृष्णा-समुदयवाले, तृष्णा-जातिवाले, (और) तृष्णा-प्रभववाले हैं ।

“भिक्षुओ ! तृष्णा किस निदानवाली है, ० ?—वेदना-निदानवाली ० ।

“ ० वेदना किस निदानवाली, ० ?—स्पर्श-निदानवाली ० ।

“ ० स्पर्श किस निदानवाला, ० ?—षडायतन^१-निदानवाला ० ।

“ ० षडायतन किस निदानवाला, ० ?—नाम-रूप-निदानवाला ० ।

“ ० नामरूप किस निदानवाला, ० ?—विज्ञान-निदानवाला ० ।

“ ० विज्ञान किस निदानवाला, ० ?—संस्कार-निदानवाला ० ।

“ ० संस्कार किस निदानवाले, ० ?—अविद्या-निदानवाले ० ।

“जब भिक्षुओ ! भिक्षुकी अविद्या नष्ट हो जाती है, और विद्या उत्पन्न हो जाती है; अविद्या के विरागसे (तथा) विद्याकी उत्पत्तिसे न काम-उपादान पकड़ा (= उपात्त) जाता है, न इष्टि-उपादान, ० न आत्मवाद-उपादान पकड़ा जाता है; उपादान (= पकड़ना) न करनेसे भयभीत नहीं होता, भयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निर्वाणको प्राप्त हो जाता है । ‘जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, और अब यहाँ कुछ (करने को) नहीं है’—यह जान लेता है ।”

भगवान्ने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

१२—महासीहनाद-सुत्तन्त (१।२।२)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् वैशालीमें अवरपुर-वन-संडमें विहार करते थे ।

उस वक्त सुनक्खत्त लिच्छविपुत्तको इस धर्मको छोड़कर चले गये थोड़ाही समय हुआ था । वह वैशालीमें परिषद्में इस प्रकार कहता था—“श्रमण गौतमके पास आर्य-ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठता, उत्तरमनुष्यधर्म (= दिव्य-शक्ति) नहीं है । विमर्ष (= चिन्तन)से सोचे, अपने प्रति-भासे जाने, तर्कसे प्राप्त धर्मको (ही) श्रमण गौतम उपदेशता है । जिस (मनुष्य)के लिये धर्म उपदेशता है, वह अपने दुःख-क्षयको प्राप्त होता है ।”

तब आयुष्मान् सारिपुत्र पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र-चीवर (= भिक्षापात्र, वस्त्र) ले वैशालीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । आयुष्मान् सारिपुत्रने सुनक्खत्त (= सुनक्षत्र) लिच्छविपुत्र को वैशालीमें परिषद्के बीचमें यह वचन बोलते सुना—“श्रमण गौतमके पास ० (= दिव्य शक्ति) नहीं ० ।

तब आयुष्मान् सारिपुत्र वैशालीमें पिंडचार करके, भोजनके पश्चात् भिक्षात्रसे निवृत्त हो, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिनन्दनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर आ.सारिपुत्रने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! हालहीमें इस धर्मको छोड़कर गया हुआ, सुनक्षत्र लिच्छविपुत्र, वैशालीमें परिषद्के बीचमें यह वचन बोल रहा है—‘श्रमण गौतमके पास ० (दिव्य शक्ति) नहीं है ० ।’

१—“सारिपुत्र ! सुनक्खत्त मोघ-पुरूप (= फ़ज़ूलका आदमी) क्रोधी है, क्रोधसे ही उसने यह वचन कहा होगा । सारिपुत्र ! निन्दा करनेके ख्यालसे (बोलते हुये) भी सुनक्खत्त मोघपुरूपने तथागतकी प्रशंसा ही करी । सारिपुत्र ! यह तथागतकी प्रशंसा ही है, जो कोई ऐसा कहे—जिसके लिये धर्म उपदेशता है, वह अपने दुःख क्षयको प्राप्त होता है ।’ सारिपुत्र ! सुनक्खत्त मोघपुरूपका यह भी सुझमें धर्म-सम्बन्ध नहीं—“वह भगवान् अर्हत् ०^१ बुद्ध भगवान् हैं ।’ सारिपुत्र ! सुनक्खत्त मोघपुरूपका यह भी ० नहीं—‘इस प्रकार वह भगवान् अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुभव करते हैं—एक होकर अनेक हो जाते हैं ०^२ । कायासे ब्रह्मलोक पर्यन्तको अपने वशमें कर लेते हैं ।’ सारिपुत्र ० !—‘वह भगवान् अमानुष विशुद्ध दिव्य श्रोत्रोंसे उभय प्रकारके शब्दोंको सुनते हैं ०^२ । सारिपुत्र ! ० —‘वह भगवान् दूसरे सत्त्वों-दूसरे व्यक्तियोंके चित्तोंको (अपने) चित्तसे देखकर जान लेते हैं—०^२ अविमुक्त चित्त होनेपर ‘अविमुक्त चित्त है’—जान लेते हैं ।’

२—“सारिपुत्र ! तथागतके यह दश तथागत-बल हैं, जिसको प्राप्तकर तथागत उच्च

^१ देखो पृष्ठ २४ ।

^२ देखो पृष्ठ २३ ।

(= आर्षभ) स्थानको पाते हैं, परिपद्में सिंहनाद करते हैं, ब्रह्मचक्र (= धर्मचक्र)को चलाते हैं, कौनसे दस ?—(१) सारिपुत्र ! तथागत स्थानको स्थानके तौरपर, और अ-स्थानको अ-स्थानके तौरपर, यथार्थतया जानते हैं । जो कि सारिपुत्र ! तथागत स्थानको जानते हैं, यह भी तथागत के लिये तथागत-बल है, जिस बलको प्राप्त कर ० ब्रह्मचक्र चलाते हैं ।

“(२) और फिर सारिपुत्र ! तथागत अतीत, भविष्य और वर्तमानके किये कर्मोंके विपाकको स्थान, और हेतुपूर्वक ठीकसे जानते हैं ० । ब्रह्मचक्र चलाते हैं ।

“(३) और फिर सारिपुत्र ! तथागत सर्वत्रगामिनी प्रतिपद् (= मार्ग, ज्ञान)को ठीकसे जानते हैं ० । ब्रह्म ० ।

“(४) और फिर सारिपुत्र ! तथागत अनेक धातु (= ब्रह्मांड) नाना धातुवाले लोकोंको ठीकसे जानते हैं ० । ब्रह्म ० ।

“(५) ० नाना अधिसुक्ति (= स्वभाव)वाले सत्त्वों (= प्राणियों)को ठीकसे जानते हैं ० । ० । ० ।

“(६) ० दूसरे सत्त्वों = दूसरे पुद्गलोंकी इन्द्रियोंके परत्व-अपरत्व (= प्रयत्नता दुर्बलता)को ० । ० । ० ।

“(७) ० ध्यान, विमोक्ष,^१ समाधि, समापत्ति,^२ के संक्लेश (= मल), व्यवदान (= निर्मल-करण), उत्थान, को ० । ० । ० ।

“(८) ० अनेक प्रकारके पूर्व-निवासको याद करते हैं ०^३ इस प्रकार आकार और उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण कर सकते हैं ० ।

“(९) ० अमानुष त्रिशुद्ध दिव्य-चक्षुसे ०^४ प्राणियोंको उत्पन्न होते मरते ०^३ स्वर्गलोक को प्राप्त हुये हैं । ० ।

“(१०) और फिर सारिपुत्र ! आत्तवों (= चित्तमलों)के क्षयसे आत्तव-रहित चित्तकी त्रिसुक्ति (= सुक्ति) प्रज्ञाकी त्रिसुक्तिको इसी जन्ममें साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरते हैं । जो कि सारिपुत्र ! तथागत आत्तवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरते हैं; यह भी तथागतके लिये तथागत-बल है, जिस बलको प्राप्त कर तथागत उच्च स्थानको पाते हैं, (और) परिपद्में सिंहनाद करते हैं, ब्रह्म-चक्र चलाते हैं ।

“सारिपुत्र ! तथागतके यह दस तथागत-बल हैं, जिन बलोंको प्राप्त कर ० ब्रह्म चक्र चलाते हैं ।

“सारिपुत्र ! ऐसे जाननेवाले, ऐसे देखनेवाले सुखे जो कहे—‘श्रमण गौतमके पास ०^५ उत्तर-मनुष्य-धर्म नहीं है ० । तर्कसे प्राप्त धर्मको श्रमण गौतम उपदेशता’ है । सारिपुत्र ! यदि वह उस वचनको न छोड़े, उस चित्त (= ख्याल)को न छोड़े, उस दृष्टिको विसर्जित न करे, तो नर्कमें डाला जैसा होगा । जैसे सारिपुत्र ! शील-सम्पन्न (= सदाचारयुक्त), समाधि-सम्पन्न, प्रज्ञा-सम्पन्न, भिक्षु इसी जन्ममें आज्ञा (= मोक्ष) को पाये, वैसेही इस सम्पद्को भी मैं सारिपुत्र ! कहता हूँ, कि यदि (वह) उस वचनको न छोड़े ० नर्कमें डाला जैसा होगा ।

३—“सारिपुत्र ! यह चार तथागतके वैशारद्य हैं, जिन वैशारद्यों (= विशारदपन) को

^१ विमोक्ष आठ हैं, देखो शब्दानुक्रमणी ।

^२ एक प्रकारका ध्यान ।

^३ देखो पृ० १५ ।

^४ देखो पृष्ठ ४४ ।

प्राप्त कर तथागत ० परिपद्में सिंहनाद करते हैं ० । कौनसे चार ?—(१) 'अपनेको सम्यक् सम्बुद्ध कहनेवाले मैंने इन धर्मों (बातों)को नहीं बोध किया, सो उनके विषयमें कोई श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा या लोकमें कोई (दूसरा) धर्मानुसार पूछ न वैठे'—मैं ऐसा कोई कारण सारिपुत्र ! नहीं देखता । सारिपुत्र ! ऐसे किसी कारणको न देखते मैं क्षेमको प्राप्त हो, अभयको प्राप्त हो, वैशारद्यको प्राप्त हो, विहरता हूँ । (२) 'अपनेको क्षीणास्त्रव (= अर्हद्) कहनेवाले मेरे यह आस्त्रव (= चित्त-दोष) क्षीण नहीं हुये, सो उनके विषयमें कोई श्रमण ० धर्मानुसार पूछ न वैठे'—ऐसा कोई कारण ० विहरता हूँ । (३) 'जो अन्तराय-धर्म (= विघ्नकारी कर्म) कहे गये हैं, उन्हें सेवन करनेसे वह अन्तराय (= विघ्न) नहीं कर सकते' ० यहाँ उनके विषयमें कोई श्रमण ० धर्मानुसार पूछ न वैठे'—ऐसा कोई कारण ० विहरता हूँ । (४) 'जिस मतलबके लिये धर्म उपदेश किया, वह ऐसा करनेवालेको भली प्रकार दुख-क्षयकी ओर नहीं ले जाता—इसके विषयमें कोई श्रमण ० धर्मानुसार पूछ न वैठे'—ऐसा कोई कारण सारिपुत्र ! नहीं देखता । ० विहरता हूँ ।

सारिपुत्र ! यह चार तथागतके वैशारद्य हैं ० जिन वैशारद्योंको प्राप्त कर ० तथागत परिपद्में सिंहनाद करते हैं, ब्रह्मचक्र चलाते हैं ।

“सारिपुत्र ! ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाले मुझे जो कहे—‘श्रमण गौतम ० १जैसा होगा । जैसे सारिपुत्र ! शील सम्पन्न ० २ ।

४—“सारिपुत्र ! यह आठ परिपद् (= सभा) हैं । कौनसी आठ ?—(१) क्षत्रिय-परिपद्, (२) ब्राह्मण-परिपद्, (३) गृहपति (= वैश्य)-परिपद्, (४) श्रमण-परिपद्, (५) चातुर्म्महाराजिक-परिपद्, (६) त्रायस्त्रिंश^३-परिपद्, (७) मार-परिपद्, (८) ब्रह्म-परिपद् । सारिपुत्र ! यह आठ परिपद् हैं । सारिपुत्र ! इन चार वैशारद्योंको प्राप्तकर तथागत इन आठ परिपद्में जाते हैं, अवगाहन करते हैं । जानता हूँ, सारिपुत्र ! मैं अनेकशत क्षत्रिय-परिपद्में जानेको और वहाँ पर भी, पहिले भाषण किये जैसा, पहिले आये जैसा साक्षात्कार (होता है) । सारिपुत्र ! ऐसी कोई बात देखनेका कारण नहीं पाता, कि वहाँ मुझे भय या घवराहट हो । क्षेमको प्राप्त हो अभयको प्राप्त हो, वैशारद्यको प्राप्त हो, मैं विहार करता हूँ । जानता हूँ सारिपुत्र ! मैं अनेक शत ब्राह्मण-परिपद्में जानेको ० । ० गृहपति-परिपद्में ० । ० श्रमण ० । ० ० ब्रह्माकी परिपद्में ० ।

“सारिपुत्र ! ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाले मुझे ० ४ ।

५—“सारिपुत्र ! यह चार योनियाँ हैं । कौनसी चार ?—(१) अंडज योनि, (२) जरायुज योनि, (३) स्वेदज योनि, (४) औपपातिक योनि । क्या है सारिपुत्र ! अंडज-योनि ?—सारिपुत्र ! जो प्राणी अण्डके कोशको फोड़ कर उत्पन्न होते हैं, यह सारिपुत्र ! अण्डज-योनि कही जाती है । क्या है सारिपुत्र ! जरायुज-योनि ?—सारिपुत्र ! जो प्राणी वस्त्रिकोष (= जरायु)को फोड़कर उत्पन्न होते हैं ० । क्या है सारिपुत्र ! स्वेदज-योनि ?—सारिपुत्र ! जो प्राणी सड़ी मछलीमें उत्पन्न होते हैं, सड़े मुर्देमें उत्पन्न होते हैं, सड़े कुल्माष (= दाल) में ०, चन्दनिका (गडहे) में, या ओलगिळ (= गडही) में उत्पन्न होते हैं ० । क्या है सारिपुत्र ! औपपातिक-योनि ?—सारिपुत्र ! देवता, नरकके जीव, कोई कोई मनुष्य और कोई कोई विनिपातिक (= नीचे गिरनेवाले) ; यह सारिपुत्र ! औपपातिक-योनि कही जाती है ।

१ देखो पृष्ठ ४४ । २ देखो पृष्ठ ४४ । ३ देव समुदायों के नाम । ४ देखो पृष्ठ ४४ ।

“सारिपुत्र ! ऐसा जाननेवाले ०^१ ।

६—“सारिपुत्र ! यह पाँच गतियाँ हैं । कौनसी पाँच—(१) नरक, (२) तिर्यग् (= पशु पक्षी आदि) योनि, (३) प्रेत्य-विषय (= प्रेत), (४) मनुष्य, (५) देवता । सारिपुत्र ! मैं नरकको जानता हूँ, नरकगामी मार्गको = निरयगामिनी प्रतिपदको भी जैसे (मार्गपर) आरूढ़ हो काया छोड़नेपर, मरनेके अनन्तर (प्राणी) अपाय = दुर्गति = विनिपात नरकमें उत्पन्न होते हैं, उसको जानता हूँ । सारिपुत्र ! मैं तिर्यग्-योनिको जानता हूँ, तिर्यग् योनिगामी मार्ग ० उसको जानता हूँ । सारिपुत्र ! मैं प्रेत्य-विषयको जानता हूँ, प्रेत्य-विषयगामी मार्ग ० उसको जानता हूँ । सारिपुत्र ! मैं मनुष्यको जानता हूँ ० । ० । ० देवोंको जानता हूँ, देवलोकगामी मार्गको = देवलोकगामिनी प्रतिपदको भी; जैसे मार्गपर आरूढ़ हो काया छोड़नेपर मरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होते हैं, उसको जानता हूँ । सारिपुत्र ! मैं निर्वाणको जानता हूँ, निर्वाणगामी मार्गको = निर्वाण-गामिनी प्रतिपदको; जैसे मार्गपर आरूढ़ हो आस्रवोंके क्षय, चित्तकी विमुक्तिको इसी शरीरमें जान कर साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरता है; उसे भी जानता हूँ ।

(क) “सारिपुत्र ! यहाँ मैं किसी व्यक्ति (= पुद्गल) को इस प्रकार चित्तसे परख करके जानता हूँ; कि यह पुद्गल जैसे मार्गपर आरूढ़ है, जैसी चालढाल रखता है, उस मार्गपर आरूढ़ हो, काया छोड़नेपर मरनेके बाद जैसे अपाय = दुर्गति = विनिपात नरकमें उत्पन्न होगा । फिर दूसरे समय अमानुष दिव्य चक्षुसे, उसे काया छोड़, मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न हो अत्यन्त दुःखमय, तीव्र कटु वेदना (= यातना) को अनुभव करते देखता हूँ । जैसे कि सारिपुत्र ! पुरुष-भर (= पोरिसा) से अधिक ऊँचा लौ-विना, धूमविना, अंगारोका ढेर हो । (कोई) घाम (= धूप) में तप्त घामसे पीड़ित, थका, प्यासा पुरुष एकायन मार्गसे उसी अंगारका ध्यान करके आये । उसको (कोई) आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे—‘यह पुद्गल जैसे मार्गपर आरूढ़ है, जैसी चालढाल रखता है, ऐसे मार्गपर आरूढ़ हो, इन्हीं अंगारोंमें पहुँचेगा’ । फिर दूसरे समय उसे अंगारोंमें गिरकर अत्यन्त दुःख-मय ० वेदनाको अनुभव करते देखे, ऐसेही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परख करके जानता हूँ ० । ० अनुभव करते देखता हूँ ।

(ख) “सारिपुत्र ! यहाँ मैं किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, यह पुद्गल जैसे मार्गपर आरूढ़ है ०^२ मरनेके बाद तिर्यग्-योनिमें उत्पन्न होगा । फिर दूसरे समय अमानुष ०^२ देखता हूँ । जैसे कि सारिपुत्र ! पुरुष-भरसे अधिक ऊँचा ० । ० अनुभव करते देखता हूँ ।

(ग) “सारिपुत्र ! यहाँ मैं किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ० ०^२ मरनेके बाद प्रेत्यविषयमें उत्पन्न होगा । फिर दूसरे समय अमानुष ०^२ दिव्य चक्षुसे, उसे काया छोड़ मरनेके बाद प्रेत्य-विषयमें उत्पन्न हो दुःखमय तीव्र, कटु वेदना अनुभव करते देखता हूँ । जैसे कि सारिपुत्र ! (किसी) विषम (= प्रतिकूल) भूमिमें उत्पन्न पत्र = पलाश से कृश कवरी छाया (= घनी छाया नहीं) वाला वृक्ष हो । तब कोई घाम में तप्त ० पुरुष एकायन मार्ग (= एक मात्र मार्ग) से उसी वृक्षका ख्याल करके आये । उसको (कोई) आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे—‘यह पुद्गल जैसे मार्गपर आरूढ़ है, जैसी चालढाल रखता है, ऐसे मार्गपर आरूढ़ हो (यह) इसी वृक्षके पास आयेगा’ । फिर दूसरे समय (उसे) उस वृक्षकी छायामें बैठे या लेटे दुःखमय वेदना अनुभव करते देखे । ऐसे ही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकारसे चित्तसे परखकर जानता हूँ, ० ० वेदना अनुभव करते देखता हूँ ।

(घ) “सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ०^१ मनुष्यों में उत्पन्न होगा । ० अमानुष ० दिव्य चक्षुसे ०^१ उत्पन्न हो बहुत सुखमय वेदना अनुभव करते देखता हूँ । जैसे सारिपुत्र ! (किसी) सम (= अनुकूल) भूमिमें उत्पन्न बहुत पत्र = पलाशयुक्त घनी छायावाला वृक्ष हो । तब घाममें तप्त ० पुरुष एकायन मार्गसे उसी वृक्षका ख्याल करके आये ०^२ । फिर दूसरे समय उस वृक्षकी छायामें बैठे या लेटे बहुत सुखमय वेदना अनुभव करते देखे । ऐसे ही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ० ० वेदना अनुभव करते देखता हूँ ।

(ङ) “सारिपुत्र ०, ०^३ सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा । ० अमानुष ० दिव्य-चक्षुसे ० उत्पन्न हो बहुत सुखमय वेदना अनुभव करते देखता हूँ । जैसे सारिपुत्र ! एक प्रासाद हो, जिसमें लिपायुता शात (= निवात), कपाटयुक्त, जंगलेवन्द कूटागार (= ऊपरी तलका मकान) हो; उसमें वैलके चमड़ेके विछौनेवाला, पटिक (= गलीचे) पटलिक विछौनेवाला पलंग हो, जिसपर उत्तरच्छद (ऊपरसे ढाँकनेकी चदर) सहित कादलिमृग (= समूरी चर्म) का श्रेष्ठ प्रत्यस्तरण (= लिहाफ) हो, (सिरहाने, पैरहाने) दोनों ओर लाल तकिये हों । तब कोई घाममें तप्त ० पुरुष एकायन मार्गसे उसी प्रासादका ख्याल करके आये । उसको कोई आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे—‘० यह इसी प्रासादके पास आयेगा ।’ फिर दूसरे समय (उसे) उसी प्रासादमें, उसी कूटागारमें, उसी पलंगपर बैठकर या लेटकर एकान्त सुखमय वेदनाको अनुभव करते देखे । ऐसेही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको ०, ० ० वेदना अनुभव करते देखता हूँ ।

(च) “सारिपुत्र ! ०, ०^३ आस्रवोंके क्षय = चित्तकी विमुक्ति प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी शरीर में जानकर साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरेगा । फिर दूसरे समय उसे आस्रवोंके क्षय चित्तकी विमुक्ति प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी शरीरमें जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहरते हुये देखता हूँ, एकान्त सुखमय वेदनाको अनुभव करते देखता हूँ । जैसे सारिपुत्र ! (कोई) स्वच्छ जलवाली, शीतल जलवाली, सुन्दर जलवाली, सफेद सुन्दर घाटवाली, रमणीय पुष्करिणी हो, उसके तीरपर करीवने घन खण्ड हो । तब कोई घाममें तप्त ० पुरुष ० उसी पुष्करिणीका ख्याल करके आये । ० । फिर दूसरे समय उसे उस पुष्करिणीमें प्रविष्ट हो स्नानकर, पानकर, सारी पीढा-थकावटको दूर कर, निकल कर, उसी वन खण्डमे बैठे या लेटे नितान्त सुखमय वेदनाको अनुभव करते देखे । ऐसेही सारिपुत्र । ० ० ।

“सारिपुत्र ! ऐसा जाननेवाले ०^४ ।

७—“सारिपुत्र ! मैं चतुरंग (= चार अंगों) से युक्त ब्रह्मचर्यका पालन करना जानता हूँ—(१) तपस्त्रियोंमें मैं परम तपस्वी होता था; (२) रक्षाचारियोंमें मैं परम रक्षाचारी (= लखू) होता था; (३) जुगुप्सुओं)में मैं परम जुगुप्सु (= अनुकम्पा रखनेवाला) होता था; (४) प्रविविक्तों (= एकान्तसेवियों, विवेककर्त्ताओंमें मैं परम विविक्त था ।

(१) वहाँ सारिपुत्र ! मेरी यह तपस्त्रिता (= तपश्चर्या) थी—मैं अ-चेलक (= नग्न) था, मुक्ताचार (= सरभंग), हस्ताऽपलेखन (= हाथ-चट्टा), नपहिभादन्तिक (= बुलाई मिक्षाका त्यागी), न-तिष्ठ-भदन्तिक (= ठहरिये कह, दी गई मिक्षाका त्यागी) था; न अभिहट (= अपने लिये की गई मिक्षा) को, न (अपने) उद्देश्यसे किये गयेको (और) न निमंत्रणको

खाता था; न कृन्मी (= घड़े) के मुखसे ग्रहण करता था, न खलोपी (= पयरी) के मुखसे ०, न (दो) पटरोंके बीचसे ०, न (दो) दंडोंके बीचसे ०, न मुसलोकके बीचसे ०, न दो भोजन करने वालोंका (०) न गर्भिणीका (०), न (दूध) पिलातीका (०), न अन्य पुरुषके पास गईका (०) न संकित्ती (= चंदावाले)में (०), (वहाँसे) जहाँ (कि) कुत्ता खड़ा हो; न (वहाँ) जहाँ (कि) मक्खी भनभना रही हो; न मल्ली, न मांस, न सुरा (= अर्क उतारी शराय), न मेरय (= कच्ची शराब), न तुपोदक (= चावलकी शराब?) पीता था; सो मैं एकागारिक (= एकही घरमें भिक्षा करनेवाला) होता था; या एक कवल (भर) खानेवाला होता था; या द्वि-आगारिक दो (वार) आहार करनेवाला होता था; या दो कवल खानेवाला होता था, (०) सप्त-आगारिक (= सात घरोंसे भिक्षा लेनेवाला) होता था, या सात कवल खानेवाला; एक कलछी (= दूती) भर भोजनसे भी गुजारा करता था; दो कलछी ०; (०); सात कलछी ०; एकाहिक (= एक दिनमें एक वार) आहार करता था; द्वाहिक (= दो दिन में एकवार) आहार करता था; सप्ताहिक आहार करता था; इस प्रकार अर्धमासिक वारी वारीसे भोजन ग्रहण करता विहरता था; शाकाहारी था, सँवाभोजी भी था; नीवार (= तिन्नी) भक्षी भी था; दहुल (= कोदो?) भक्षी था, कट (= एक तृण) भक्षी था; कण (= खेतमें छुटे हुये अनाजके दानोंका)-भक्षी था; आचाम (= माँड)-भक्षी था; पिण्याक (= खली)-भक्षी था; तृण-भक्षी था; गोबर-भक्षी था; वनमूल फलाहारसे गुजारा करता था, (जमीन पर) गिरे फलोंका खानेवाला था; सनके वस्त्र धारण करता था, श्मशान (=वस्त्र) भी धारण करता था; मुदेंके कपड़ेको धारता था; पांसुकूल (= फेंके कपड़े) भी धारता था; तिरिट (= एक छाल) भी धारता था; अजिन (= मृगचर्म) भी धारता था; अजिनक्षिप (= मृगचर्म खंड) भी धारता था; कुशचीरको भी धारता था, वल्कल चीर भी धारता था; (काष्ठ-) फलक-चीर भी धारता था, केश-कम्बल भी ०; बाल-कम्बल भी ०; उल्लक-पक्षको भी ०; केश-दाढ़ी नोचनेवाला था, केश-दाढ़ी नोचनेके व्यापारमें लगन होते उव्वट्टिक (= ठड़े-सरी) भी था; आसन-त्यागी वन उकडूँ वैठनेवाला भी था; उकडूँ वैठनेके व्यापारमें लगन हो काँटे पर सोनेवाला भी था; कंटकके प्रश्रय (= खाट) पर शय्या करता था, श्यामको जल शयनके व्यापारमें लगन होता था।—एसे अनेक प्रकारसे कायाके आतापन सन्तापनके व्यापारमें लगन हो विहरता था, सारिपुत्र ! यह मेरी तपस्विता (= तपश्चर्या) थी ।

(२) “वहाँ सारिपुत्र ! यह मेरा रक्षाचार था।—पपड़ी पड़े अनेक वर्षके मैलको शरीरमें संचित किये रहता था; सारिपुत्र ! जैसे पपड़ी पड़ा अनेक वर्षोंका तिन्दुका काष्ठ हो, इसी प्रकार सारिपुत्र ! पपड़ी पड़े ०। वैसा होते (भी) मुझे यह न होता था—अहोवत ! इस अपने मैलको अपने हाथसे परिमार्जित फलूँ, या दूसरे मेरे इस मैलको (अपने) हाथसे परिमार्जित करें—मुझसे यह भी सारिपुत्र ! न होता था। यह सारिपुत्र ! मेरा रक्षाचार था।

(३) “वहाँ सारिपुत्र ! यह मेरी जगुप्सा (= अनुकम्पा) थी;—मैं सारिपुत्र ! (प्राणियोंकी) याद करते जाता था, याद करते आता था; जलके विन्दु तकमें मुझे दया वनी रहती थी—विषम (स्थानोंमें) स्थित क्षुद्र प्राणियोंको कहीं मार न दूँ। यह सारिपुत्र ! मेरी अनुकम्पा थी।

(४) “वहाँ, सारिपुत्र ! यह मेरा प्रविवेक (= एकान्त सेवन) था। मैं सारिपुत्र ! किसी अरण्य-स्थानमें प्रवेश कर विहरता था। जब मैं (किसी) गोपालक (= ग्वाले)को या पशु-पालकको, या तृणहारक (= घसियारे)को, या काष्ठहारक (= लकड़हारे)को, या वनकर्मिक (= वनमें काम करनेवाले)को देखता; तो (एक) वनसे (दूसरे) वनमें, गहनसे गहनको, निम्न (= खड्ड)से निम्नको, स्थलसे (दूसरे) स्थलको, चला जाता था। सो किस कारण?—‘वह

मुझे न देखें, और मैं उन्हें न देखूँ । जैसे सारिपुत्र ! आरण्यक मृग मनुष्यको देखकर वनसे वनको ० चला जाता है; ऐसे ही सारिपुत्र ! जब मैं (किसी) गोपालकको ० । यह सारिपुत्र ! मेरा प्रविवेक था ।

“सो मैं सारिपुत्र ! छिपकर (= चतुर्गुण्ठित) उन गोष्ठोंमें जाता था, जिससे गायें और गोपाल चले गये होते । जाकर जो वह तरुण (= बहुत छोटे) दूध पीनेवाले बछड़ोंके गोबर होते उन्हें खाता; यहाँ तक कि सारिपुत्र ! मुझे अपना ही सूत्र-करीप (= मल) भी त्याज्य न होता; अपने ही सूत्र-करीपका आहार करता । यह सारिपुत्र ! मेरा विकट भोजन था ।

“सो मैं सारिपुत्र ! एक भीषण वन-खण्डमें प्रवेश कर विहरता था । सारिपुत्र ! उस भीषण वन-खण्डकी भीषणता यह थी; कि जो कोई अ-चीतराग (पुरुष) उस वन-खण्ड में प्रवेश करता, (उसके) रोम बहुत अधिक खड़े हो जाते थे । सो मैं सारिपुत्र ! हेमन्तकी हिमपात समय वाली अन्तराष्टक^१ रातोंमें रात भर चौड़ेमें विहरता था, (और) दिनको वनखण्डमें । ग्रीष्मके अन्तिम मासमें दिनको चौड़ेमें विहरता और रातको वनखण्डमें । (उस समय) सारिपुत्र ! अश्रुत पूर्व यह अद्भुत गाथा मुझे प्रतिभासित हुई—

“अकेला भीषण वनमें (ग्रीष्म)-तप्त (और) शीत-पीडित वह नग्न आगके-पास-न-बैठा, एषणा (= इच्छाओं)से दूर मुनि ।’

“सो मैं सारिपुत्र ! मुर्देकी हड्डियोंका सिरहाना बना श्मशानमें शयन करता था । (उस समय) सारिपुत्र ! गोमण्डल (= चरवाहे) पास आकर (मेरे ऊपर) थूकते भी थे, मूतते भी थे, धूल भी फेंकते थे, कर्ण-छिद्रोंमें सींक भी करते थे, (तो भी) सारिपुत्र ! उनके विषयमें मुझे कोई बुरा भाव उत्पन्न होता नहीं मालूम होता । यह सारिपुत्र ! मेरा उपेक्षा-विहार था ।

८—“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ‘आहारसे शुद्धि होती है’—इस वाद (= मत) वाले इस प्रकारकी दृष्टिवाले होते हैं । ‘मैं बेरसे गुजारा करूँगा’—कह, वह बेरको खाते हैं, बेर-चूर्ण खाते हैं, बेरके शर्वतको पीते हैं; अनेक प्रकारके बेरसे वने भोजनको खाते हैं । (एक समय) मैं भी सारिपुत्र ! एक बेरके बराबर आहरको ही जानता था । शायद सारिपुत्र ! तुम्हारे मनमें हो—‘उस समय बेर बड़ा होता होगा’ । सारिपुत्र ! ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिये । उस समय भी बेर इतना ही बड़ा होता था, जितना कि आजकल । सो सारिपुत्र ! एक बेर (भर) आहार करनेसे मेरा शरीर अत्यन्त कृश हो गया । उस अल्पाहारतासे वैसे मेरे अंग प्रत्यंग हो गये थे, जैसे आसीतिक (= अस्सी वर्षके बूढ़े)के पोर (= पर्व) या काल (= वृक्ष)के पर्व । ० जैसे ऊँटका पाँव, वैसे मेरे कूहें हो गये थे, । ० जैसे वटुनावली (= रस्सीकी ऐँठन) वैसे ही उन्नत-अवनत मेरे पीठकी (हड्डीवाले) काँटे हो गये थे । ० जैसे पुरानी शालामें कड़ियाँ अवलग्न-विलग्न (= खिसकी) होती हैं, वैसे ही मेरी पसलियाँ हो गईं । ० जैसे गहरे कृयें (= उदपान)में (कृयेंकी) गहराईके कारण आकाशिक (= तारे) दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही अक्षि-कृपों (= आँखके गढ़ों)में नीचे धँस जानेके कारण आँखकी पुतलियाँ दिखाई पड़ती थीं । ० जैसे सारिपुत्र ! कच्चा ही तोड़ा कड़वा अलावू (= लौका) धूप हवासे सम्पुटित (= चिचुक) हो जाता है, मुर्झा जाता है, ऐसे ही मेरे शिरका चमड़ा हो गया था । ० जब मैं सारिपुत्र ! पेटके चमड़ेको पकड़ता तो पीठके काँटेको ही पकड़ लेता था; पृष्ठकंटकों को पकड़ते वक्त पेटके चमड़ेको ही पकड़ लेता था । मेरे पेटका चमड़ा

^१ माघके अन्तकी चार और फागुनके आरम्भकी चार रातें ।

सारिपुत्र ! पृष्ठ-कंटक से लट गया था । ० सो मैं सारिपुत्र ! मल-मूत्रके परित्याग करनेके लिये उठना चाहता था, तो वहीं भहराकर गिर जाता था । ० उसी अल्पाहारताके कारण सो मैं सारिपुत्र ! उस शरीरको सहारा देते गात्रको (जब) हाथसे सहाराता तो सबी जड़वाले लोम शरीरसे उखड़ पड़ते थे ।

“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण, ‘आहारसे शुद्धि होती है’—इस तरहके वादवाले, इस तरहकी दृष्टिवाले होते हैं । ‘भूँग पर गुजारा करूँगा’ ०^१ । ‘तिलसे गुजारा करूँगा’—०^२ । ‘तंडुलसे गुजारा करूँगा’—कह, वह तंडुल खाते हैं, तण्डुल चूर्ण खाते हैं, तण्डुलका पानी पीते हैं, ० तण्डुलसे बने अनेक प्रकारके आहारको खाते हैं । मैं भी सारिपुत्र ! (एक समय) तण्डुल बराबर आहारको ही जानता था । शायद सारिपुत्र ! ०^३ लोम शरीरसे उखड़ पड़ते थे ।

“सारिपुत्र ! उस ईर्या (= आचार)से भी, उस दुष्कर-कारिका (= तपस्या)से भी मैं उत्तर-भ्रनुष्य-धर्म (= दिव्य-शक्ति) अलमार्थ-ज्ञान-दर्शन (= उत्तम ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा)-को नहीं पा सका । सो किस हेतु ?—इसी आर्य-प्रज्ञा (= उत्तम ज्ञान)के न पानेसे, जो यह आर्य प्रज्ञा किसे, मिलनेपर, वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर ले जाती है ।

९—“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण—‘संसारके (= जन्म मरण)से शुद्धि होती है’—इस तरहके वादवाले इस तरहकी दृष्टिवाले होते हैं । (किन्तु) सारिपुत्र ! ऐसा संसार सुलभ नहीं है, जिसमें इस दीर्घ कालमें मैंने वास न किया हो; सिवाय शुद्धावास देवताओंके; यदि शुद्धावास देवताओंमें मैं संसरण करता, तो सारिपुत्र ! मैं इस लोकमें न आता ।

१०—“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण—‘उत्पत्ति से शुद्धि होती है’— ० दृष्टिवाले होते हैं ०^४ न आता ।

११—“०—‘आवाससे शुद्धि होती है’— ० दृष्टिवाले ०^५ ।

१२—“०—‘यज्ञसे शुद्धि होती है’— ० दृष्टिवाले होते हैं । किन्तु सारिपुत्र ! ऐसा यज्ञ सुलभ नहीं, जिसे कि मैंने इस दीर्घ कालमें न किया हो; और उसे (दूसरे) मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाने या महाशाल (= महाधनी) ब्राह्मणने किया हो ।

१३—“०—‘अग्निपरिचर्या (= हवन)से शुद्धि होती है’—०^६ ।

१४—“०—‘जब तक यह पुरुष दहर (= तरुण) युवा बहुत ही काले केशोंवाला प्रथम वयस सुन्दर यौवनसे युक्त होता है; तब (यह) परम प्रज्ञा (और) नैपुण्यसे युक्त होता है । जब यह पुरुष जीर्ण=वृद्ध=महलक=अध्वगत=वयःप्राप्त जन्मसे ८०, ९० या सौ वर्षका हो जाता है; तो उस प्रज्ञा (और) नैपुण्यसे च्युत होता है । लेकिन सारिपुत्र ! इसे इस तरह नहीं देखना (= मानना) चाहिये । मैं सारिपुत्र ! इस समय जीर्ण=वृद्ध ० वयःप्राप्त, मेरी आयु ८० को पहुँच गई है; यहाँ सारिपुत्र ! मेरे चार श्रावक (= शिष्य) शतवर्ष आयुवाले=वर्ष-शत-जीवी, (जो कि) परम गति, स्मृति, मति, धृतिसे युक्त, तथा परम प्रज्ञा=नैपुण्य (= वैयक्त्य)से समन्वित हैं । जैसे सारिपुत्र । शिक्षित=कृतहस्त=कृत-उपासन, बलवान् धनुर्ग्राही शीघ्र, विना श्रम (वाण) फेंक तिछीं ताल-जायाका अतिक्रमण=अतिपात न करदे; ऐसे ही सारिपुत्र ! ० मति, स्मृति, धृतिसे युक्त ०, इस प्रकार परम प्रज्ञा=नैपुण्यसे युक्त हैं । (यदि वह) चारों स्मृतिप्रस्थानों^१को लेकर (मुझसे) प्रश्न पूछें । पूछनेपर मैं उनका उत्तर दूँ । मेरे उत्तरको वह धारण करें । फिर दूसरी बार आगे पूछें; सारिपुत्र ! अशन—पान—स्नादन—शयन (के समय)को छोड़, मल-मूत्र-त्याग

^१ देखो पृष्ठ ५०, बेरकी जगह । ^२ देखो ऊपर (९) । ^३ देखो ऊपर (९) । ^४ देखो ऊपर (१२) । ^५ देखो पृष्ठ ३५ ।

(के समय)को छोड़, निद्रा-थकावटके दूर करनेके समयको छोड़ तथागतकी धर्मदेशना अखंड ही रहेगी, सारिपुत्र ! तथागतका धर्मपद—व्याख्यान अखंड ही रहेगा तथागतका प्रश्नोत्तर० । फिर वह मेरे शतवर्ष आयुवाले०^१ चार श्राकत्र सौ वर्षके धनन्तर मृत्युके प्राप्त हों; (तो भी) सारिपुत्र ! किसी तरह मुझे निग्रह नहीं कर सकते, तथागतकी प्रज्ञा=नैयुष्यमें फरक नहीं आसकता ।

“सारिपुत्र ! ठीक कहते हुये यह कहे—‘सम्मोह धर्मसे रहित (एक) सत्त्व (= व्यक्ति) लोकमें यहजनोंके हितार्थ, यहजनोंके सुखार्थ, लोकपर अनुकम्पार्थ, देव-मनुष्योंके अर्थ, हित और सुखके लिये उत्पन्न हुआ है’ (तो) वह ठीकसे कहते हुये मेरे ही लिये कहे—सम्मोह धर्मसे रहित ० ० उत्पन्न हुआ है ।”

उस समय आयुष्मान् नागसमाल भगवान्की पीठकी ओर खड़े होकर भगवान्को पंखा झल रहे थे । तब आयुष्मान् नागसमालने भगवान्को यह कहा—“आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते !! भन्ते ! इस धर्मपर्याय (= धर्मोपदेश)को सुनकर रोमांच हो गया । भन्ते ! इस धर्मपर्यायका नाम क्या है ?”

“तो नागसमाल ! तू इस धर्मपर्यायको लोमहर्षण-पर्याय ही समझ ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् नागसमालने भगवान्के भाषणका अभि-
नन्दन किया ।

१३—महादुक्खक्खन्ध-सुत्तन्त (१।२।३)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब बहुतसे भिक्षु पूर्वाह्नके समय पहिनकर पात्रचीवर ले श्रावस्तीमें पिंडचारके लिये प्रविष्ट हुये । तब उन भिक्षुओंको हुआ—श्रावस्तीमें भिक्षाचार करनेके लिये अभी बहुत सवेरा है, क्यों न हम जहाँ अन्य-तैर्थिक (= दूसरे मतवाले) परिव्राजकोंका आराम है, वहाँ चलें । तब वह भिक्षु जहाँ अन्यतैर्थिक परिव्राजकोंका आराम था, वहाँ गये; जाकर अन्य तैर्थिक परिव्राजकोंके साथ (यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ) “एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्षुओंसे अन्य तैर्थिक परिव्राजकोंने यह कहा—

“आवुसो ! श्रमण गौतम कामों (= भोगों) के परित्यागको कहते हैं, हम भी कामोंके परित्यागको कहते हैं । आवुसो ! श्रमण गौतम रूपोंके परित्यागको कहते हैं, हम भी ० । ० वेदनाके परित्यागको कहते हैं । यहाँ आवुसो ! हमारे और श्रमण गौतमके धर्मोपदेशमें या धर्मोपदेशके अनुशासन करनेमें क्या विशेष (= भेद) है, क्या अधिक है, क्या नानाकरण (= अन्तर) है ?”

तब उन भिक्षुओंने उन अन्यतैर्थिक परिव्राजकोंके भाषणका न अनुमोदन (= अभिनंदन) किया, न प्रतिवाद (= प्रतिक्रोध) किया । विना अनुमोदन किये, विना प्रतिवाद किये यह (सोचकर) आसनसे उठकर चल दिये, कि भगवान्के पास इस भाषणका अर्थ समझेंगे । तब वह भिक्षु श्रावस्तीमें भिक्षाचार करके, भोजनोपरान्त पिंडपातसे निवटकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर उन भिक्षुओंने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! (आज) हम पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले श्रावस्तीमें पिंडचारके लिये प्रविष्ट हुये ० ^१, कि भगवान्के पास इस भाषणका अर्थ समझेंगे ।”

“भिक्षुओ ! वैसा कहनेवाले अन्यतैर्थिकोंको तुम्हें यह कहना चाहिये—‘आवुसो ! क्या है कामों (= भोगों) का आस्वाद, क्या है परिणाम (= आदिनव), क्या है निस्सरण (= निकास) ? क्या है रूपोंका आस्वाद ० ? क्या है वेदनाओंका आस्वाद ० ?’ ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! अन्य-तैर्थिक परिव्राजक नहीं (उत्तर) दे सकेंगे, और (इस) पर विघात (= रोप) को प्राप्त होंगे । सो किस हेतु ?—क्योंकि भिक्षुओ ! वह (उनका) विषय नहीं है । भिक्षुओ ! देव, मार (= प्रजापति देवता), ब्रह्मा सहित सारे लोकर्म, श्रमण ब्राह्मण देव-मानुष सहित सारी प्रजामें, मैं उस (पुरुष) को नहीं देखता, जो इन प्रभोंका उत्तर दे चित्तको सन्तुष्ट करे, सिवाय तथागत या तथा-

^१ देखो ऊपर ।

गतके शिष्य या यहाँसे सुने हुयेके ।

१—“भिक्षुओ ! क्या है कामोंका दुष्परिणाम ? भिक्षुओ ! यहाँ कुल-पुत्र जिस (किसी) शिल्प से—चाहे मुद्रासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृपिसे, या वाणिज्यसे, गो-पालनसे, या वाण-धन्यसे, या राजाकी नौकरीसे, या किसी अन्य शिल्पसे— शीत-उष्ण-पीडित, डंस-मच्छर-हवा-धूप-सरीसृप (= साँप विच्छू) के स्पर्शसे उत्पीडित होता, भूख-प्याससे मरता, जीविका करता है । भिक्षुओ ! यह कामोंका दुष्परिणाम है । इसी जन्ममें कामके हेतु = काम-निदान, कामके अधिकरण (= विषय) से (यह लोक) दुःखोंका पुंज है । भिक्षुओं ! उस कुलपुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते = उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं उत्पन्न होते, (तो) वह शोक करता है, दुःखी होता है, चिन्ताता है, छाती पीटकर क्रंदन करता है, मूर्च्छित होता है—“हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरी मेहनत निष्फल हुई !!” भिक्षुओ ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम है ० । दुःखोंका पुंज है । यदि भिक्षुओ ! उस कुलपुत्रको इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग उत्पन्न होते हैं, तो वह उन भोगोंकी रक्षाके लिये दुःख = दौर्मनस्य झेलता है—‘कहीं मेरे भोगको राजा न हर ले, चोर न हर ले जायें, आग न डहे, पानी न वहा ले जाये, अत्रिय दायाद न ले जायें’ उसके इस प्रकार रक्षा = गोपन करते उन भोगोंको राजा हर ले जाते हैं ०; वह शोक करता है ०—‘जो भी मेरा था, वह भी मेरा नहीं है’ । भिक्षुओ ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ० ।

“और फिर भिक्षुओ ! कामोंके हेतु = काम-निदान, कामोंके विषयमें, कामोंके लिये राजा भी राजाओंसे झगड़ते हैं; क्षत्रिय लोग क्षत्रियोंसे झगड़ते हैं; ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे ०; गृहपति (= वैश्य) गृहपतियोंसे ०; माता पुत्रके साथ झगड़ती है; पुत्र भी माताके साथ ०; पिता भी पुत्रके साथ ०; पुत्र भी पिताके साथ ०; भाई भाईके साथ ०; भाई भगिनीके साथ ०; भगिनी भाईके साथ ०; मित्र मित्रके साथ झगड़ते हैं । वह वहाँ कलह = विग्रह = विवाद करते, एक दूसरेपर हाथों से भी आक्रमण करते हैं, डलोंसे भी ०, डंडोंसे भी ० शस्त्रोंसे भी आक्रमण करते हैं । वह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या मृत्यु-समान दुःखको । भिक्षुओ ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ० ।

“और फिर भिक्षुओ ! कामोंके हेतु ढाल-तलवार (= असि-चर्म) लेकर, तीर-धनुष चढ़ाकर, दोनों ओरसे व्यूह रचे, संग्राममें दौड़ते हैं । वाणोंके चलाये जातेमें, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तलवारोंकी चकाचौंधमें, वह वाणोंसे विद्ध होते हैं, शक्तियोंसे ताड़ित होते हैं, तलवारसे शिरच्छिन्न होते हैं । वह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या मृत्युसमान दुःखको । यह भी भिक्षुओ ! कामोंका दुष्परिणाम ० ।

“और फिर भिक्षुओ ! कामोंके हेतु ०, ढाल-तलवार लेकर, धनुर्वाण चढ़ाकर, भीगे-लिपे प्राकारों (= उपकारी = शहर-पनाह) की ओर दौड़ते हैं । वाणोंके चलाये जाते में ०^१ ।

“और फिर भिक्षुओ ! कामोंके हेतु ० सेंध भी लगाते हैं, (गाँव) उजाड़ कर ले जाते हैं, चोरी (= एकागारिक, एक घरमें घुसकर लुराना) भी, रहज़नी (= परिपन्थ) भी करते हैं, परस्त्री-गमनभी करते हैं । तब उन्हें राजा लोग पकड़कर नाना प्रकारके दंड (= कम्मकरण) देते हैं—चाबुकसे भी पिटवाते हैं, वेंतसे भी ०, जुर्माना भी करते हैं, हाथ भी काटते हैं, पैर भी काटते हैं, हाथ-पैर भी काटते हैं, कान भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ०, विलंग-थालिक^२ भी करते

^१ देखो ऊपर का पैरा ।

^२ खोपड़ी हटा शिरपर तप्त लोहेका-गोला रखना ।

हैं, शंखमुंडिका^१ भी ०, राहुमुख^२ भी ०, ज्योतिर्मालिका^३ भी ०, हस्त-प्रज्योतिका^४ भी ०, परकवर्तिका^५ भी ०, चौरकवासिका^६ भी ०, ऐणेयक^७ भी ०, वडिशर्मसिका^८ भी ०, कार्पाणक^९ भी ०, खारापतच्छिका^{१०} भी ०, परिघपरिवर्तिका^{११} भी ०, पलाल-पीठक^{१२} भी ०, तथाये तेलसे भी नहलाते हैं, कुत्तोंसे भी कटवाते हैं, जीतेजी शूलीपर चढ़वाते हैं, तलवारसे शिर कटवाते हैं। वह वहाँ मरणको प्राप्त होते हैं, मरण समान दुःखको भी ०। यह भी भिक्षुओ! कामोंका दुष्परिणाम ०।

“और फिर भिक्षुओ! कामके हेतु कायासे दुश्चरित (= पाप) करते, वचनसे ०, मनसे दुश्चरित करते हैं। वह काय ०-वचन ० मनसे दुश्चरित करके, शरीर छोड़ने पर मरनेके बाद, अपाय = दुर्गति = विनिपात, निरय (= नर्क) में उत्पन्न होते हैं। भिक्षुओ! यह कामोंका जन्मान्तरमें दुष्परिणाम दुःख-पुञ्ज काम-हेतु = काम-निदान (ही है) कामोंका झगडा कामों (= भोगों) हीके लिये होता है।

१—“क्या है भिक्षुओ! कामोंका निस्सरण (= निकाल) ?—भिक्षुओ! जो यह कामोंसे छन्द = रागका हटाना, छन्द = रागका परित्याग, यह कामोंका निस्सरण है। भिक्षुओ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार कामोंके आस्वाद, कामोंके आदिनव (= दुष्परिणाम), दुष्परिणामसे निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत (= उसके स्वरूपको यथार्थ से) नहीं जानते, वह स्वयं कामोंको छोड़ेंगे या दूसरोंको वैसा (करनेके लिये) शिक्षा देंगे, जिसपर चलकर कि वह (पुरुष) कामोंको छोड़ेगा; यह सम्भव नहीं। भिक्षुओ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार कामोंके आस्वाद, आस्वादसे दुष्परिणाम, दुष्परिणामसे निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत जानते हैं; वह स्वयं कामोंको छोड़ेंगे, ० यह सम्भव है।

“क्या है भिक्षुओ! वेदनाओंका आस्वाद ?—यहाँ भिक्षुओ! भिक्षु कामोंसे विरहित, घुरी बातोंसे विरहित, सवितर्क और सविचार, त्रिवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखवाले ०^१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगता है। जिस समय भिक्षुओ! भिक्षु कामोंसे विरहित ० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है; उस समय न अपनेको पीड़ित करनेका ख्याल रखता है, न दूसरोंको पीड़ित करनेका ख्याल रखता है, न (अपने और पराये) दोनोंको ०। व्यावाधा (= पीडा पहुँचाने)

१ शिक्षा चमड़ा आदि हटाकर उसे शख समान बनाना।

२ कानों तक मुँहको फाड़ देना।

३ शरीरभरमें तैल-सिक्त कपड़ा लपेट बत्ती जलाना।

४ हाथमें कपड़ा लपेट कर जलाना।

५ गर्दन तक खाल खींचकर घसीटना।

६ ऊपरकी खालको खींचकर कमरपर छोड़ना, और नीचेकी खालको घुट्टीपर छोड़ देना।

७ केहुनी और घुटनेमें लोहशलाका ठोंक उनके बल भूमिपर स्थापितकर आग लगाना।

८ वंशोंके तरहके लोह-अकुशोंको मुँहसे बालकर निकालना।

९ पैसे पैसे भरके मासके टुकड़ोंको सारे शरीरसे काटना।

१० शरीरमें धावकर क्षार लगाना।

११ दोनों कानोंसे कीला पारकर, उसे जमीनमें गाड़, पैर पकड़ उसीके चारोंओर घुमाना।

१२ मुँगरोंसे हड्डीको भीतर ही भीतर चूरकर, शरीरको मास-पुजसा बना देना।

१३ देखो पृष्ठ १५।

से रहित वेदना हीको उस समय अनुभव करता है; भिक्षुओ ! वेदनाओंके आस्वादको अव्याबाधता पर्यन्त, मैं कहता हूँ ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु वितर्क और विचारके शान्त होनेपर भीतरी शान्ति तथा चित्तकी एकाग्रतावाले वितर्क-रहित-विचार रहित प्रीति सुखवाले द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ०^१ तृतीय-ध्यानको ० । ०^१ चतुर्थ-ध्यानको ० । जित्त समय भिक्षुओ ! भिक्षु सुख और दुःखके परित्यागसे, सौमनस्य (= चित्तोल्लास) और दौर्मनस्य (= चित्त-सन्ताप)के पहिले ही अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित उपेक्षासे स्मृतिकी शुद्धिवाले चतुर्थ-ध्यानको प्राप्तहो विहरने लगता है, उस समय न वह अपनेको पीड़ित करता है ० । भिक्षुओ ! वेदनाओंका आस्वादको अव्याबाधता पर्यन्त मैं कहता हूँ ।

“क्या है भिक्षुओ ! वेदनाओंका दुष्परिणाम ?—जो कि भिक्षुओ ! वेदना अनित्य, दुःख और विपरिणाम (= विकार) स्वभाववाली है; यही वेदनाओंका आदिनव (= दुष्परिणाम) है ।

“क्या है भिक्षुओ ! वेदनाओंका निस्सरण ?—जो कि भिक्षुओ ! वेदनाओंसे छन्द=रागका हटाना, छन्द = रागका प्रहाण (= त्याग) यही वेदनाओंका निस्सरण है ।

“भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार वेदनाओंके आस्वादको आस्वादन करते, आदिनवको आदिनवकी भाँति, निस्सरणको निस्सरणकी भाँति ठीक तौरसे नहीं जानते; वह स्वयं वेदनाओंको त्यागेंगे, और दूसरोंको वैसा करनेके लिये अनुशासन करेंगे, यह सम्भव नहीं । किन्तु, भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार वेदनाओंके आस्वादको आस्वादन न करते, आदिनवको आदिनवकी भाँति ० जानते हैं; वह स्वयं वेदनाओंको त्यागेंगे ० यह सम्भव है ।”

भगवान्ने यह कहा; सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

१४-चूल-दुक्ख-क्खन्ध-सुत्तन्त (१२।४)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् शाक्य (देश)में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे । तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । आकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे महानाम शाक्यने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! दीर्घ-रात्र (= बहुत समय)से भगवान्के उपदिष्ट धर्मको मैं इस प्रकार जानता हूँ—लोभ चित्तका उपक्लेश (= मल) है, द्वेष चित्तका उपक्लेश है, मोह चित्तका उपक्लेश है । तो भी एक समय लोभ-वाले धर्म मेरे चित्तको चिपट रहते हैं । तब मुझे भन्ते ! ऐसा होता है—कौन सा धर्म (= बात) मेरे भीतर (= अध्यात्म)से नहीं छूटा है, जिससे कि एक समय लोभधर्म ० ?”

“महानाम ! वही धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा, जिससे कि एक समय लोभ-धर्म तेरे चित्तको ० । महानाम ! यदि वह धर्म भीतरसे छूटा हुआ होता, तो तू घरमें वास न करता, कामोपभोग न करता । चूँकि महानाम ! वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा, इसलिये तू गृहस्थ है, कामोपभोग करता है । (यह) काम (= भोग) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत उपायास (= परेशानी) देनेवाले हैं । इनमें आदिनव (= दुष्परिणाम) बहुत हैं । महानाम ! जब आर्यश्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है, तो वह कामोंसे अकुशल (= घुरे)-धर्मोंसे, अलगहीमें प्रीति-सुख या उससे भी अधिक शान्तर (सुखको) नहीं पाता, वह कामोंमें ‘लौटने वाला’ होता है । महानाम ! आर्यश्रावकको जब काम, (= भोग) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत परेशानी करनेवाले मालूम होते हैं; ‘इनमें आदिनव बहुत हैं’ इसे महानाम ! जब आर्यश्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है; तो वह कामोंसे अलग, अ-कुशल धर्मोंसे पृथक् ही, प्रीति सुख या उससे शान्तर (सुख) पाता है, तब वह कामोंकी ओर ‘न-फिरनेवाला’ होता है ।

“मुझे भी महानाम ! संबोधि (प्राप्त करने)से पूर्व बुद्ध न हो, बोधिसत्त्व होते समय, यह अप्रसन्न करनेवाले, बहु दुःख, बहुत परेशानी करनेवाले काम (होते थे), तब ‘इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं’—यह ऐसा यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर मैंने देखा, किंतु कामोंसे अलग, अकुशल धर्मोंसे अलग, प्रीति-सुख, या उनसे शान्तर (सुख) नहीं पा सका । इसलिये मैंने उतनेसे कामोंकी ओर ‘न लौटने वाला’ (अपने को) नहीं जाना । जब महानाम ! काम अप्रसन्नकर बहु-दुःखद, बहु-आयासकर हैं; इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं’ यह ऐसा ० । तो कामोंसे, अकुशलधर्मोंसे अलग ही प्रीति-सुख (तथा) उससे भी शान्तर (सुख) पाया; तब मैंने (अपनेको) कामोंकी ओर ‘न लौटनेवाला’ जाना ।

“महानाम ! कामोंका आस्वाद (= स्वाद) क्या है ?—महानाम ! यह पाँच काम-गुण ० । कौनसे पाँच ? (१) इष्ट, कांत, रुचिकर, प्रिय-रूप, काम-युक्त, (चित्तको) रक्षित करनेवाला, चक्षुसे विज्ञेय (= जानने योग्य) रूप । (२) इष्ट कान्त ० श्रोत्र-विज्ञेय शब्द । (३) ० घ्राण-विज्ञेय गंध । (४) ० जिह्वा-विज्ञेय रस । (५) ० काय-विज्ञेय स्पर्श । महानाम ! यह पाँच काम-गुण हैं । महानाम ! इन पाँच काम गुणोंके कारण जो सुख या सौमनस्य (= दिलकी खुशी) उत्पन्न होता है, यही कामोंका आस्वाद है ।

“महानाम ! कामोंका आदिनव (= दुष्परिणाम) क्या है ? महानाम ! कुल-पुत्र जिस किसी शिल्पसे—चाहे मुद्रासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृपिसे, या वाणिज्यसे, गोपालन से, या वाण-क्षत्रसे, या राजाकी नौकरी (= राज-पोरिस)से, या किसी (अन्य) शिल्पसे, शीत-उष्ण-पीडित (= ० पुरस्कृत), डंस-मच्छर-हवा-धूप-सरीसृप (= साँप विच्छू आदि)के स्पर्शसे उत्पीडित होता, भूख प्याससे मरता, जीविका करता है । महानाम ! यह कामोंका दुष्परिणाम है । इसी जन्ममें (यह) दुःखोंका पुंज (= दुःख-स्कंध) काम-हेतु = काम-निदान, काम-अधिकरण (= ० विषय) कामोहीके कारण है । महानाम ! उस कुल-पुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते = उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं मिलते (तो) वह शोक करता है, दुःखी होता है, चिह्लाता है, छाती पीटकर क्रंदन करता है, मूर्च्छित होता है—‘हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरी मेहनत निष्फल हुई !!’ महानाम ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ०, इसी जन्ममें दुःख-स्कंध ० । यदि महानाम ! उस कुलपुत्रको इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग मिलते हैं । तो वह उन भोगोंकी रक्षाके विषयमें दुःख = दौर्मनस्य झेलता है—‘कहीं मेरे भोगको राजा न हर लेजायें, चोर न हर लेजायें, आग न डाहे, पानी न बहाये, अ-प्रिय-दायाद न लेजायें’ । उसके इस प्रकार रक्षा-गोपन करते उन भोगोंको राजा लेजाते हैं ०; वह शोक करता है ०—‘जो भी मेरा था, वह भी मेरा नहीं है’ । महानाम ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ० ।

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु = कामनिदान, कामोंके झगड़े (= अधिकरण) से कामोंके लिये राजा भी राजाओंसे झगड़ते हैं, क्षत्रिय लोग क्षत्रियोंसे ०, ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे ०, गृहपति (= वैश्य) गृहपतियोंसे ०, माता पुत्रके साथ ०, पुत्र भी माताके साथ ०, पिता भी पुत्रके साथ ०, पुत्र भी पिताके साथ ०, भाई भाईके साथ ०, भाई भगिनीके साथ ०, भगिनी भाईके साथ ०, मित्र मित्रके साथ झगड़ते हैं । वह वहाँ कलह = विग्रह = विवाद करते, एक दूसरे पर हाथोंसे भी आक्रमण करते हैं, डेलोंसे भी ०, डंडोंसे भी ०, शस्त्रोंसे भी आक्रमण करते हैं । वह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या मृत्यु-समान दुःखको । महानाम ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ० ।

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु ० ढाल-तलवार (= असि-चम्म) लेकर, धनुष (= धनुष-कलाप = धनुष-लकड़ी) चढ़ाकर, दोनों ओरसे व्यूह रचे संग्राममें दौड़ते हैं । वाणोंके चलाये जाते-में, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तलवारोंकी चमकमें, वह वाणोंसे विद्ध होते हैं, शक्तियोंसे ताड़ित होते हैं, तलवारसे शिर-च्छिन्न होते हैं । वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या मृत्यु-समान दुःखको । यह भी महानाम ! कामोंका दुष्परिणाम ० ।

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु ०, तलवार लेकर, धनुष चढ़ाकर, भीगे-लिपे हुये प्राकारों (= उपकारी = शहर-पनाह) को दौड़ते हैं । वाणोंके चलाये जातेमें ० । वह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं ० । यह भी महानाम ! कामोंका दुष्परिणाम ० ।

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु ० सेंध भी लगाते हैं, (गाँव) उजाड़ कर लेजाते हैं, चोरी (= एकागारिक = एक घरको घेरकर चुराना) भी करते हैं, रहजनी (= परिपन्थ) भी करते

हैं, पर-स्त्री-गमन भी करते हैं। तब उसको राजा लोग पकड़ कर नाना प्रकारकी सजा (= कम्म-करण) कराते हैं—चाबुकसे पिटवाते हैं, वेंतसे भी ०, जुर्माना करते हैं, हाथ भी काटते हैं, पैर भी काटते हैं, हाथ पैर भी काटते हैं। कान भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ०^१ विलंगयालिक भी करते हैं, शंख-मूर्धिका भी ०, राहुमुख भी ०, ज्योतिमालिका भी ०, हस्त-प्रज्योतिका भी ०, पुरक-वर्तिका भी ०, चीरक-वासिका भी ०, ऐणेयक भी ०, वडिश-मासिका भी ०, कार्पापणक भी ०, खारापनच्छिक भी ०, परिष-परिवर्तिक भी ०, पलाल-पीठक भी ०, तपाये तेलसे भी नहलाते हैं, कुत्तोंसे भी कटवाते हैं, जीते जी शूलीपर चढ़वाते हैं, तलवारसे शीश कटवाते हैं। वह वहाँ मरणको प्राप्त होते हैं, मरण-समान दुःखोंको भी। यह भी महानाम ! कामोंका दुष्परिणाम ०।

“और फिर महानाम ! कामके हेतु ० कायासे दुश्चरित (= पाप) करते हैं, वचनसे ०, मनसे ० वह वह काय ०-वचन ०-मनसे दुश्चरित करके, शरीर छोड़नेपर मरनेके बाद, अपाय = दुर्गति = त्रिनिपात, निरय (नर्क) में उत्पन्न होते हैं। महानाम ! जन्मान्तरमें यह कामोंका दुष्परिणाम दुःख-पुंज काम-हेतु = काम-निदान, कामोंका भ्रगढ़ा कामों हीके लिये होता है।

एक समय महानाम ! मैं राजगृहमें गृध्रकूट पर्वतपर विहार करता था। उस समय बहुतसे निगंठ (= जैन-साधु) ऋषिगिरिकी कालशिलापर खड़े रहने (का मत्) ले, आसन छोड़, उपक्रम करते, दुःख, कटु, तीव्र, वेदना झेल रहे थे। तब मैं महानाम ! सार्धकाल ध्यानसे उठकर, जहाँ ऋषिगिरिके पास कालशिला थी, जहाँपर कि वह निगंठ थे; वहाँ गया। जाकर उन निगंठोंसे बोला—‘आबुसो ! निगंठो ! तुम खड़े क्यों हो, आसन छोड़े “दुःख, कटु, तीव्र वेदना झेल रहे हो !’ ऐसा कहनेपर उन निगंठोंने कहा—‘आबुस ! निगंठ नाथपुत्त (= जैनतीर्थंकर महावीर) सर्वज्ञ=सर्वदर्शी, आप अखिल (= अपरिशेष) ज्ञान = दर्शनको जानते हैं—‘चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा निरंतर (उनको) ज्ञान = दर्शन उपस्थित रहता है’। वह ऐसा कहते हैं—‘निगंठो ! जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस कड़वी दुष्कर-क्रिया (= तपस्या) से नाश करो, और जो इस वक्त यहाँ काय-वचन-मनसे संवृत (= पाप न करनेके कारण रक्षित, गुप्त) हो, यह भविष्यके लिये पापका न करना हुआ। इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त होनेसे, और नये कर्मोंके न करनेसे, भविष्यमें चित्त अनु-आस्रव (= निर्मल) होगा। भविष्यमें आस्रव न होनेसे, कर्मका क्षय (होगा), कर्म-क्षयसे दुःखका क्षय; दुःख-क्षयसे वेदना (= झेलना) का क्षय, वेदना-क्षयसे सभी दुःख-नष्ट होंगे। हमें यह (विचार) रुचता है = खमता है, इसमें हम संतुष्ट हैं।’

“ऐसा कहनेपर मैंने महानाम ! उन निगंठोंसे कहा—‘क्या तुम आबुसो ! निगंठो ! जानते हो ‘हम पहिले थे ही, हम नहीं न थे?’ ‘नहीं आबुस !’ ‘क्या तुम आबुसो ! निगंठो ! यह जानते हो—‘हमने पूर्वमें पापकर्म किये ही हैं, नहीं नहीं किये?’ ‘नहीं आबुस !’ ‘क्या तुम आबुसो ! निगंठो ! यह जानते हो—अमुक अमुक पाप कर्म किये हैं?’ ‘नहीं आबुस !’ ‘क्या तुम आबुसो ! निगंठो ! जानते हो, इतना दुःख नाश होगया, इतना दुःख नाश करना है, इतना दुःखनाश होनेपर सब दुःख नाश हो जायेगा?’ ‘नहीं आबुस !’ ‘क्या तुम आबुसो ! निगंठो ! जानते हो—इसी जन्ममें अकुशल (= बुरे) धर्मोंका प्रहाण (= विनाश), और कुशल (= अच्छे) धर्मोंका लाभ (होना है) ? ‘नहीं आबुस !’ ‘इस प्रकार ० निगंठो ! तुम नहीं जानते—हम पहिले थे, या नहीं ०। इसी जन्ममें अकुशल धर्मोंका प्रहाण, और कुशल धर्मोंका

लाम (होना है) । ऐसा ही होने (ही)से तो आवुस ! निगंठो ! जो लोकमें रुद्र (= भयंकर) खून-रंगे-हाथवाले, क्रूर-कर्मा, मनुष्योंमें नीच जातिवाले (= पञ्चाजाता) हैं, वह निगंठोंमें साधु बनते हैं । 'आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य नहीं है, दुःखसे सुख प्राप्य है । आवुस ! गौतम ! यदि सुखसे सुख प्राप्य होता, तो राजा मागध श्रेणिक विंवसार सुख प्राप्त करता । राजा मागध श्रेणिक विंवसार आयुष्मान् (= आप) से बहुत सुख-विहारी है ।' 'आयुष्मान् निगंठोंने अवश्य, बिना विचारे जल्दीमें यह बात कही ।' 'आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख नहीं प्राप्य है, दुःखसे सुख प्राप्य है । सुखसे यदि आवुस ! गौतम ! सुख प्राप्त होता, तो राजा मागध श्रेणिक विंवसार सुख प्राप्त करता; राजा मागध श्रेणिक विंवसार आयुष्मान् गौतमसे बहुत सुख-विहारी है । (आप लोगोंको) तो मुझे ही पूछना चाहिये—आयुष्मानोंके लिये कौन अधिक सुख विहारी है, राजा ० विंवसार या आयुष्मान् गौतम ?' 'अवश्य आवुस ! गौतम ! हमने बिना विचारे जल्दीमें बात कही । नहीं आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य है ० । जाने दीजिये इसे, अब हम आयुष्मान् गौतमसे पूछते हैं—आयुष्मानोंके लिये कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा ० विंवसार या आयुष्मान् गौतम ?' 'तो आवुसो ! निगंठो तुमको ही पूछते हैं, जैसा तुम्हें जँचे, वैसा उत्तर दो । तो क्या मानते हो आवुसो ! निगंठो ! क्या राजा ० विंवसार कायासे बिना हिले, वचनसे बिना बोले, सात रात-दिन केवल (= एकांत) सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ?' 'नहीं आवुस !' 'तो क्या मानते हो, आवुसो ! निगंठो ! ० छः रात-दिन केवल सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ?' 'नहीं आवुस !' '० पाँच रात-दिन ०' '० चार रात-दिन ० ।' '० तीन रात-दिन ० ।' '० दो रात-दिन ० ।' '० एक रात-दिन ० ?' 'नहीं आवुस !' 'आवुसो ! निगंठो ! मैं कायासे बिना हिले, वचनसे बिना बोले एक रात-दिन ०, दो रात-दिन ०, तीन रात-दिन ०, चार ०, पाँच ०, छः ०, सात रात-दिन केवल-सुख अनुभव करता विहार कर सकता हूँ । तो क्या मानते हो आवुसो ! निगंठो ! ऐसा होनेपर कौन अधिक सुख-विहारी है । राजा मागध श्रेणिक विंवसार, या मैं ?' 'ऐसा होनेपर तो राजा मागध श्रेणिक विंवसारसे आयुष्मान् गौतम ही अधिक सुख-विहारी हैं ।'

भगवान् ने, यह कहा, महानाम शाक्यने सन्तुष्ट हो भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया ।

१५—अनुमान-सूतन्त (१।२।५)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय आयुष्मान् महामौद्गल्यायन भर्ग^१ (देश)में, सुंसुमार-गिरि^२के भेषकलावन मृगदाचमें विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने भिक्षुओंको संवोधित किया—
“आवुसो भिक्षुओ !”

“आवुस !” (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने यह कहा—

१—“चाहे आवुसो ! भिक्षु (जवानी) यह कहता भी है—आयुष्मान् कहें, मैं आयुष्मानोंके वचन (= दोष दिखानेवाले शब्द)का पात्र हूँ ; किन्तु यदि वह दुर्वचनी है, दुर्वचन पैदाकरनेवाले धर्मोंसे युक्त है; और अनुशासन ग्रहण-करनेमें अ-क्षम (= असमर्थ) अ-प्रदक्षिण-प्राही (= उत्साह-रहित) है। तो फिर स-ब्रह्मचारी न तो उसे (शिक्षा) वचनका पात्र मानते हैं, न अनुस्वासनीय मानते हैं; न उस व्यक्तिमें विश्वासोत्पन्न करना (उचित) मानते हैं।

“आवुसो ! कौनसे हैं दुर्वचन पैदाकरनेवाले धर्म ?—यहाँ आवुसो ! भिक्षु पापेच्छ (= वदनीयत) हो, पापिका (= धुरी) इच्छाओंके वशीभूत होता है। जो कि आवुसो ! भिक्षु ० पापिका इच्छाओंके वशीभूत है, यह भी आवुसो ! दुर्वचन पैदाकरनेवाला धर्म (= यात) है।

“और फिर आवुसो ! भिक्षु आत्मोत्कर्षक (= अपनी उन्नति या प्रशंसा चाहनेवाला) होता है, और दूसरेकी पतन (या निंदा) चाहनेवाला । ० यह भी आवुसो दुर्वचन पैदाकरनेवाला धर्म है।

“और फिर आवुसो ! भिक्षु क्रोधी होता है, क्रोधके वशीभूत ० । ० ।

“ ० भिक्षु क्रोधी होता है, क्रोधके हेतु उपनाह (= ढोंग)से युक्त होता है ० । ० ।

“ ० भिक्षु क्रोधी होता है, क्रोधके हेतु अभिपंग (= डाह)से युक्त होता है ० । ० ।

“ ० भिक्षु क्रोधी होता है, क्रोधपूर्ण वाणीका निकालनेवाला होता है ० । ० ।

“ ० भिक्षु दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेके लिये प्रतिस्फुरण (= प्रतिहिंसा) करता है ० । ० ।

“ ० भिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखलाने वाले को नाराज करता है ० । ० ।

“ ० भिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखलानेवालेपर उल्हा आरोप करता है ० । ० ।

^१ भर्ग आजकलके मिर्जापुर जिलेका गंगासे दक्षिणी भाग और कुछ आसपासका प्रदेश है, इसको सोमा-गंगा-दोंस-कर्मनाशा नदियाँ एव विंध्यपर्वतका कुछ भाग रहा होगा ।

^२ वर्तमान चुनार (जि० मिर्जापुर, युक्त प्रान्त) ।

“ ० भिक्षु दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेके साथ दूसरी दूसरी (यात) ले लेता है, यातको (प्रकरणसे) बाहर ले जाता है; कोप, द्वेष, अप्रत्यय (= नाराजगी) उत्पन्न कराता है ० । ० ।

“ ० भिक्षु दोष दिखलानेपर, दोष दिखलानेवालेके साथ अपदान (= साथ छोड़ना) अ-सम्प्रायण (= अ-स्वीकार) करता है ० । ० ।

“ और फिर आवुसो ! भिक्षु अक्षी (= अमरखी) और प्रदाशी । (= निष्ठुर) होता है ० । ० ।

“ ० ईर्ष्यालु और मत्सरी होता है ० । ० ।

“ ० शठ और मायावी ० । ० ।

“ ० सत्वघ (= जड़) और अतिमानी (= अभिमानी) ० । ० ।

“ ० संदृष्टिपरामर्षी (= तुरन्त लाम चाहनेवाला) और आधानग्राही (= हठी) और दुष्प्रति निस्सर्गी (= न त्यागनेवाला) होता है ० । ० ।

२—“ चाहे आवुसो ! भिक्षु (= यह न भी कहता है—‘आयुष्मान् कर्हं’ ०; किन्तु यदि वह सुवचनी है, और सुवचन पैदा करनेवाले धर्मोंसे युक्त है; और वह अनुशासन ग्रहण करनेमें क्षम (= समर्थ) प्रदक्षिण-ग्राही (= उत्साहसे ग्रहण करनेवाला) है; तो फिर सब्रह्मचारी उसे (उप-देशयुक्त) वचनका पात्र मानते हैं, अनुशासनीय मानते हैं, उस व्यक्तिमें विश्वास उत्पन्न करना (उचित) मानते हैं ।

“ आवुसो ! कौनसे हैं सुवचन पैदाकरनेवाले धर्म ?—यहाँ आवुसो ! भिक्षु न पापे-^{होय} है, न बुरी इच्छाओंके बशीभूत । जो कि आवुसो ! भिक्षु न पापेच्छ है, न बुरी इच्छाओंके बशी-^{बशी-}भूत; यह भी आवुसो ! सुवचन पैदाकरनेवाला धर्म है ।

“ और फिर आवुसो ! भिक्षु न आत्मोत्कर्षक होता, न पर-अपकर्षक । ० यह भी आवुसो ! सुवचन पैदा करनेवाला धर्म है ।

“ ० न क्रोधी होता है, न क्रोधाऽभिभूत ० । ० ।

“ ० न क्रोधी ० न क्रोधके हेतु उपनाही ० । ० ।

“ ० न क्रोधी ० न क्रोधके हेतु अभिपंगी ० । ० ।

“ ० न क्रोधी ० न क्रोधपूर्ण बातोंका करनेवाला होता है ० । ० ।

“ ० दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेको प्रतिस्फरण (= प्रतिहिंसा) नहीं करता है ० । ० ।

“ ० न ० नाराज करता है ० । ० ।

“ ० न ० उल्टा आरोप करता है ० । ० ।

“ ० न ० दूसरी दूसरी बात ले लेता है, न यातको प्रकरणसे बाहर लेजाता है, न कोप, द्वेष, अप्रत्यय उत्पन्न कराता है ० । ० ।

“ ० न ० अपदान अ-सम्प्रायण करता है ० । ० ।

“ ० न अक्षी न प्रदाशी होता है ० । ० ।

“ ० न ईर्ष्यालु और न मत्सरी होता है ० । ० ।

“ ० न शठ और न मायावी ० । ० ।

“ ० न स्तब्ध (= जड़) और न अतिमानी (= अमिमानी) ० । ० ।

“ ० न सन्दष्टिपरामर्षी न आधानग्राही (= हठी) और ० सुप्रति-निस्सर्गी होता है ।

३—“वहाँ आवुसो ! भिक्षु अपने ही अपनेको इस प्रकार समझावे (= अनुमान करे) जो व्यक्ति पापेच्छ है, पापिका इच्छाके वशीभूत है, वह पुद्गल मुझे अप्रिय = अमनाप है । और मैं भी तो पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाके वशीभूत हूँ; (इसलिये) मैं भी दूसरोंको अप्रिय = अमनाप होऊँगा—यह जानते हुये आवुसो ! भिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये—मैं पापेच्छ नहीं होऊँगा, मैं पापिका इच्छाओंके वशीभूत नहीं होऊँगा ।

“जो पुद्गल आत्मोत्कर्षक होता है, और पर-अपकर्षक; वह मुझे अप्रिय = अमनाप होता है; और (यहाँ) मैं ही आत्मोत्कर्षक, और पर-अपकर्षक हूँ; (इसलिये) मैं भी दूसरोंको अप्रिय = अमनाप होऊँगा—यह जानते हुये आवुसो ! भिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये—मैं आत्मोत्कर्षक नहीं होऊँगा, मैं पर-अपकर्षक नहीं होऊँगा ।

“जो पुद्गल क्रोधी होता है, क्रोधके वशीभूत ० ।

“ ० क्रोधी होता है, क्रोधके हेतु उपनाही ० ।

“ ० क्रोधी ० क्रोधके हेतु अभिपंगी ० ।

“ ० क्रोधी ० क्रोध-पूर्ण वचन निकालनेवाला ० ।

“जो पुद्गल दोष दिखाये जानेपर, दोष दिखलानेवालेको प्रति-रफरण करता है ० ।

“ ० दोष दिखलानेवालेको नाराज कराता है ० ।

“ ० दोष दिखलानेवालेपर उल्टा आरोप करता है ० ।

“ ० दूसरी दूसरी घात ले लेता है, घातको प्रकरणसे बाहर ले जाता है; कोप, द्वेष अप्रत्यय (= नाराज़गी) उत्पन्न करता है ० ।

“ ० अपदान और सम्प्रायण करता है ० ।

“ ० भ्रक्षी और प्रदाक्षी होता है ० ।

“ ० ईर्ष्यालु और मत्सरी होता है ० ।

“ ० शठ और मायावी होता है ० ।

“ ० स्तब्ध और अतिमानी होता है ० ।

“जो पुद्गल सन्दष्टि-परामर्षी आधानग्राही और दुःप्रति-निस्सर्गी होता है, वह पुद्गल मुझे अप्रिय है (= अमनाप है) और यहाँ मैं ही हूँ, सन्दष्टि-परामर्षी ०; (इसलिये) मैं भी दूसरोंको अप्रिय = अमनाप होऊँगा—यह जानते हुये आवुसो ! भिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये—मैं सन्दष्टि-परामर्षी ० नहीं होऊँगा ।

४—“वहाँ आवुसो ! भिक्षुको अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण (= परीक्षण) करना चाहिये—क्या मैं पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाओंके वशीभूत हूँ । यदि आवुसो ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते देखे, कि वह पापेच्छ है, पापिका इच्छाओंके वशीभूत है; तो आवुसो ! उस भिक्षुको उन बुरे = अकुशल धर्मों (= घातों)के परित्यागके लिये उद्योग करना चाहिये । परन्तु यदि आवुसो ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते देखे, कि वह पापेच्छ नहीं है, पापिका इच्छाओंके वशीभूत नहीं है; तो आवुसो ! उस भिक्षुको उसी प्रीति = प्रामोद्य (= खुशी)के साथ रात दिन कुशल धर्मों (= अच्छी घातों)को सीखते विहार करना चाहिये ।

“और फिर आवुसो ! भिक्षुको अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—क्या मैं

आत्मोत्कर्षक हूँ, पर-अपकर्षक । यदि ० ।

“ ० — क्या मैं क्रोधी, क्रोधके वशीभूत हूँ ० ।

“ ० — क्या मैं क्रोधी, क्रोध-हेतु उपनाही हूँ ० ।

“ ० — क्या मैं क्रोधी, ० अभिपंगी ० ।

“ ० — क्या मैं क्रोधी, ० क्रोध-पूर्ण वचन निकालनेवाला ० ।

“ ० — क्या मैं दोष दिखाये जानेपर, दोष दिखानेवालेका प्रतिस्फरण (= प्रतिहिंसा) करता हूँ ० ।

“ ० — ०, दोष दिखानेवालेको नाराज करता हूँ ० ।

“ ० — ० दोष दिखानेवालेपर उल्टा आरोप करता हूँ ० ।

“ ० — ० दूसरी दूसरी बात ले लेता हूँ, बातको प्रकरणसे बाहर ले जाता हूँ, कोप, द्वेष, अप्रत्यय उत्पन्न करता हूँ ।

“ ० — ० अपदान और सम्प्रायण करता हूँ ० ।

“ ० — ० ब्रक्षी और प्रदाशी हूँ ० ।

“ ० — ० ईर्ष्यालु और मत्सरी हूँ ० ।

“ ० — ० शठ और मायावी हूँ ० ।

“ ० — ० स्तब्ध और अतिमानी हूँ ० ।

“ ० — ० सन्दष्टि-परामर्शी, आधानग्राही और दुःप्रति-निस्सर्गी हूँ ० रात दिन कुशल धर्मोको सीखता विहार करना चाहिये ।

“यदि आवुसो ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते अपनेमें सभी पापक = अकुशल-धर्मों (= बुराइयों) को अप्रहीण (= अ-परित्यक्त) देखे; तो आवुसो ! उस भिक्षुको उन सभी पापक = अकुशल धर्मोंके ग्रहाण (= नाश)के लिये प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु यदि आवुसो ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते अपनेमें सभी बुरे = अकुशल धर्मोंको प्रहीण समझे; तो आवुसो ! उस भिक्षुको उसी प्रीति = प्रामोद्य-के साथ रात दिन कुशल धर्मोंका अभ्यास करते विहार करना चाहिये ।

“जैसे आवुसो ! दहर (= कमसिन) युवा शौकीन स्त्री पुरुष परिशुद्ध उज्वल आदर्श (= दर्पण) या स्वच्छ जलपात्रमें अपने मुखके प्रतिविम्बको देखते हुये—यदि वहाँ रज (= मैल) = अंगणको देखता है, तो उस रज या अंगणके ग्रहाण (= दूर करने)की कोशिश करता है; यदि वहाँ रज या अंगण नहीं देखता, तो उसीसे सन्तुष्ट होता है—‘अहो ! लाभ है मुझे ! परिशुद्ध है मेरा (मुख) !’ ऐसेही आवुसो ! यदि भिक्षु प्रत्यवेक्षण कर अपने सभी पापक = अकुशल धर्मोंको अप्रहीण देखे, तो ० प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु यदि आवुसो ! ०^१ सीखते विहार करना चाहिये ।”

आयुप्मान् महामौद्गल्यायनने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आ. महामौद्गल्यायन के भाषणका अभिनन्दन किया ।

१६—चेतोखिल-मुत्तन्त (१।२।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको सम्योधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

१—भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल (= चित्तके कील) नष्ट (= प्रहीण) नहीं हुये, पाँच चित्तमें यद्द हैं, छिन्न नहीं हैं; वह इस धर्म-विनय (= बुद्ध-धर्म)में वृद्धि = विरुद्धिको प्राप्त होगा, यह सम्भव नहीं । कौनसे इसके पाँच चेतोखिल अप्रहीण हों ?—यहाँ भिक्षुओ ? भिक्षु शास्ता (= आचार्य)में कांक्षा = विचिकित्सा (= संदेह) करता है, (संशयसे) मुक्त नहीं होता, प्रसन्न (= श्रद्धालु) नहीं होता; (इसलिये) उसका चित्त आतप्य (= तीव्र उद्योग)के लिये, अनुयोग, सातत्त्य (= निरन्तर अभ्यास) (और) प्रधान (= दृढ़ उद्योग)के लिये नहीं झुकता । जो कि उसका चित्त आतप्यके लिये नहीं झुकता, यह उसका प्रथम चेतोखिल अप्रहीण है ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु धर्ममें ० १ द्वितीय ० ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु संघमें ० १ तृतीय ० ।

“ ० शीलमें ० १ चतुर्थ ० ।

“ ० सत्रहचारियोंके विषयमें कुपित, असन्तुष्ट, दूषित-चित्त, खिलजात (= काँटा यना) होता है । जो कि भिक्षुओ ! जो वह भिक्षु सत्रहचारियोंके विषयमें ० खिलजात होता है, (इसलिये) उसका चित्त तीव्र उद्योगके लिये नहीं झुकता; जो कि उसका चित्त तीव्र उद्योग ० के लिये नहीं झुकता, यह उसका पंचम चेतोखिल अप्रहीण है ।

“यह उसके पाँचों चेतोखिल अप्रहीण होते हैं ।

“कौनसे इसके पाँच चित्त-बंधन (जेतसोविनिबंध) अ-समुच्छिन्न (= न कटे) होते हैं ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु कामों (= भोगों)में अ-वीतराग = अ-वीतच्छन्द = अ-वीत-प्रेम, अविगतपिपास (= जिसकी प्यास हटती नहीं), अ-विगत-परिदाह (= जिसकी जलन गई नहीं), अ-विगत तृष्णा होता है । जो कि भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंमें ० अविगत तृष्णा होता है; इसलिये उसका चित्त ० नहीं झुकता; यह उसका प्रथम चित्त-बन्धन छिन्न नहीं हुआ है ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें अ-वीतराग ० १; यह उसका द्वितीय ० ।

“ ० रूपमें अवीतराग ० ० १; यह तृतीय ० ।

१ ऊपरके पैरा जैसा ।

“और फिर भिक्षुओ ! यथेच्छ उदरपूर भोजन करके शय्या-सुख, स्पर्श-सुख, मृद्व-
(=आलस्य)-सुखमें फँसा विहरता है । जो कि, भिक्षुओ ! ०^१; यह उसका चतुर्थ ० ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु किसी देव-निकाय देवयोनिका प्रणिधान (= इद कामना)
करके ब्रह्मचर्य चरण करता है—इस शील, व्रत, तप, या ब्रह्मचर्यसे मैं देवता या देवतामेंसे कोई
होऊँ । जो कि भिक्षुओ ! ०^१; यह उसका पंचम चित्त-बंधन छिन्न नहीं हुआ है ।

“यह उसके पाँच चेतसो-विनिबंध (= चित्त-बंधन) अ-समुच्छिन्न होते हैं । भिक्षुओ !
जिस किसी भिक्षुके यह पाँच चेतोखिल अप्रहीण हैं, यह पाँच चित्त-विनिबन्धन अ-समुच्छिन्न हैं,
वह इस धर्ममें वृद्धि=विरुद्धिको प्राप्त होगा, यह संभव नहीं ।

२—“भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल प्रहीण हैं, पाँच चेतसो विनिबंध
समुच्छिन्न हैं । वह इस धर्ममें वृद्धि=विरुद्धिको प्राप्त होगा, यह संभव है ।

“कौनसे उसके पाँच चेतोखिल प्रहीण हैं ? ० यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु शास्तामें कांक्षा=
विचिकित्सा नहीं करता, (संशय-) मुक्त होता है, प्रसन्न होता है, (इसलिये) उसका चित्त
आतप्य ०^२ के लिये झुकता है । जो कि उसका चित्त तीव्र उद्योगके लिये झुकता है; यह उसका
प्रथम चेतोखिल प्रहीण हुआ ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु धर्ममें ०^३; ० द्वितीय ० ।

“ ० संघमें ०^३; ० तृतीय ० ।

“ ० शिक्षामें ०^२; ० चतुर्थ ० ।

“ ० सब्रह्मचारियोंके विषयमें कुपित, असन्तुष्ट, दूषित-चित्त, खिलजात (= काँटे सा)
नहीं होता; जो वह ०^२; पंचम ० ।

“यह उसके पाँच चेतोखिल प्रहीण होते हैं ।

“कौनसे इसके पाँच चेतसो-विनिबंध (= चित्तके बंधन) समुच्छिन्न होते हैं ?^४—यहाँ
भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंमें वीतराग=वीतच्छन्द=वीतप्रेम, विगत-पिपास, विगत-परिदाह, विगत-तृष्णा
होता है; जो कि भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंमें वीतराग ० होता है; इसलिये उसका चित्त आतप्य ०^२
झुकता है; यह उसका प्रथम चेतसो-विनिबंध समुच्छिन्न हुआ ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें वीतराग ०^१ द्वितीय ० ।

“ ० रूपमें वीतराग ०^१ तृतीय ० ।

“ ०^४ यथेच्छ उदरपूर भोजन करके शय्या-सुख, स्पर्श-सुख, मृद्व-सुखमें फँसा नहीं विहरता ।
जो कि भिक्षुओ ० चतुर्थ ० ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु किसी देव-निकाय^५ का प्रणिधान करके ब्रह्मचर्य चरण नहीं
करता—०^६ । जो कि भिक्षुओ ! ० यह उसका पंचम चेतसो विनिबंध छिन्न हुआ ।

“यह उसके पाँच चेतसो-विनिबंध समुच्छिन्न हुये ।

“भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल प्रहीण हैं, पाँच चेतसो-विनिबन्ध
समुच्छिन्न हैं, वह इस धर्ममें वृद्धि=विरुद्धिको प्राप्त होगा, यह सम्भव है ।

“वह (१) छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद^७ की भावना करता है; (२) वह

^१ ऊपरके पैरा जैसा । ^२ देखो पृष्ठ ६५ । ^३ ऊपरके पैरा जैसा । ^४ मिलाओ पृष्ठ ६५ ।

^५ ऊपरके पैरा जैसा । ^६ मिलाओ ऊपर । ^७ यही चार ऋद्धिपाद या ऋद्धियाँ हैं, पंचम उत्तोदि है ।

वीर्य-समाधि=प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद की भावना करता है; (३) वह चित्त समाधिके प्रधान संस्कारसे युक्त ०; (४) वह समाधि-इन्द्रियके प्रधान संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है । विमर्श समाधिके प्रधान-संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना है । (यह) पाँचवाँ (विमर्श समाधि-प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिपाद, उत्सोढि (= उत्साह) है । भिक्षुओ ! सो वह भिक्षु उत्सोढिके पन्द्रह अंगोंसे युक्त निर्वेद (= वैराग्य)के लिये योग्य है, संयोधि (= परमज्ञान)के लिये योग्य है, सर्वोत्तम (= अनुत्तर) योगक्षेम (= निर्वाण)की प्राप्तिके लिये योग्य है ।

“जैसे भिक्षुओ ! आठ, दस या बारह मुर्गीके अंडे हों; वह मुर्गीद्वारा भली प्रकार सेये=परिस्वेदित, परिभावित हों; चाहे मुर्गीकी यह इच्छा न भी हो—‘अहोवत ! मेरे चूजे (=कुक्कुट-पोतक) पादनखसे या मुखतुंडसे अंडेको फोड़कर स्वस्तिपूर्वक निकल आयें ।’ तो भी वह चूजे पादनखसे, या मुखतुंडसे अंडेको फोड़कर स्वस्तिपूर्वक निकल आनेके योग्य हैं; ऐसे ही भिक्षुओ ! उत्सोढिके पन्द्रह अंगोंसे युक्त भिक्षु निर्वेदके लिये योग्य है, सम्योधिके लिये योग्य है, अनुत्तर योगक्षेमकी प्राप्तिके लिये योग्य है ।”

भगवान्ने यह कहा, उन भिक्षुओंने सन्तुष्ट हो, भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

१७—वनपथ-सुत्तन्त (१।२।७)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! वनपथ-परियाय (= नामक उपदेश)को तुम्हें उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ?”

“ऐसा ही भन्ते !” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने कहा—“भिक्षुओ ! यहाँ (कोई) भिक्षु वनप्रस्थ (= जंगल)का आश्रय लेकर विहरता है । वनप्रस्थका आश्रय ले विहरते (भी) उसकी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती; असमाहित चित्त, समाहित (= एकाग्र) नहीं होता; अपरिक्षीण आस्रव (= मल) परिक्षीण (= नष्ट) नहीं होते; अलब्ध अनुत्तर योग-क्षेम (= निर्वाण) उपलब्ध नहीं होता । प्रव्रजित (= सन्यासी)के लिये जो यह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं—चीवर (=वस्त्र), पिण्डपात (=भिक्षान्न), शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य (= रोगीके पथ्य औषध)के सामान, वह (भी) कठिनाईसे जुटते हैं । भिक्षुओ ! उस भिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये—‘मैं इस जंगलमें विहर रहा हूँ; किन्तु इस वनमें विहरते (भी) मेरी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती ० जुटते हैं’; और भिक्षुओ ! उस भिक्षुको रातके वक्त या दिनके वक्त उस वनसे चला जाना चाहिये, (वहाँ) नहीं बसना चाहिये ।

“यहाँ भिक्षुओ ! (एक) भिक्षु वनप्रस्थका आश्रय लेकर विहरता है । ० उसकी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती ०^१, अलब्ध अनुत्तर योग-क्षेम उपलब्ध नहीं होता; किन्तु प्रव्रजितके लिये जो यह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं—चीवर ० वह आसानीसे जुट जाती हैं । भिक्षुओ ! उस भिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये—‘मैं इस वनप्रस्थको आश्रय लेकर ० जुट जाती हूँ; लेकिन मैं चीवरके लिये घरसे घेघर हो प्रव्रजित नहीं हुआ, न पिण्डपातके लिये ०, न शयनासनके लिये ०, न ग्लान-प्रत्यय-भैषज्यके लिये ० । और इस वनप्रस्थका आश्रय लेकर विहरते मेरी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती ० ।’ भिक्षुओ ! उस भिक्षुको ० उस वनसे चला जाना चाहिये ० ।

“यहाँ, भिक्षुओ ! ० अनुपस्थित स्मृति उपस्थित होती है, असमाहित चित्त समाहित होता है, अपरिक्षीण आस्रव परिक्षीण होते हैं; अप्राप्त अनुत्तर योगक्षेम प्राप्त होता है; किन्तु

^१ पिछले पैरेसे मिलाओ ।

प्रव्रजितके लिये जो वह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं—'०, वह कठिनाईसे छुटती हैं। भिक्षुओ ! उस भिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये—०; लेकिन मैं चीवरके लिये घरसे देघर हो प्रव्रजित नहीं हुआ ० । ० मेरी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित होती है ०' । भिक्षुओ ! उस भिक्षुको यह जानकर उस वनप्रस्थमें बसना चाहिये, नहीं जाना चाहिये ।

“० उसकी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित होती है ०, प्रव्रजितके लिये अपेक्षित सामग्रियाँ—० आसानीसे मिल जाती हैं । भिक्षुओ ! उस भिक्षुको जीवन भर उसी वनमें बसना चाहिये, नहीं जाना चाहिये ।

“यहाँ भिक्षुओ ! (यदि) भिक्षु किसी ग्रामका आश्रय लेकर विहरता है ० १ । निगम (= कस्वा) ० १ । ० नगर ० १ । ० व्यक्ति (= पुद्गल) ० १ । ० भिक्षुओ ! उस भिक्षुको जीवन भर उस व्यक्तिके साथ रहना चाहिये हटानेपर भी छोडकर नहीं जाना चाहिये ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

१८—मधुपिंडक-सुत्तन्त (१।२।८)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् शाक्य (देश) में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे। तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले कपिलवस्तुमें पिंडचारके लिये प्रविष्ट हुये। कपिलवस्तुमें पिंडचार करके भोजनोपरान्त पिंडपातसे नियटकर; जहाँ महावन था, वहाँ दिनके विहारके लिये गये। जाकर महावनमें प्रविष्ट हो वेलुव-लट्टिका (= वाँस) वृक्षके नीचे बैठे। दण्डपाणि शाक्य भी टहलने (=जंघा विहार)के लिये, जहाँ महावन था वहाँ गया। जाकर, महावनमें प्रविष्ट हो, जहाँ वेलुव-लट्टिका (= वेणुयष्टिका) थी, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ..... (यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ) ढण्डेके सहारे एक ओर खड़ा होगया। एक ओर खड़े हो दण्डपाणि शाक्यने भगवान्से यह कहा—

“श्रमण (आप) किस वादके माननेवाले, किस (सिद्धान्त)के वक्ता हैं ?”

“आवुस ! जिस वादका मानने वाला, देव-मार-ब्रह्मासहित सारे लोकमें श्रमण-ब्राह्मण-देव मानुष सारी प्रजामें, लोकमें किसीके साथ विग्रह न करके रहता है; जैसे कामोंसे रहित विहरते हुये उस अकर्णकथी, छिन्न-कौकृत्य (= संदेह-रहित), भव-अभवमें तृष्णारहित उस ब्राह्मणको संज्ञा (= सोच) नहीं पीछा करती; आवुस ! मैं ऐसे वाद-वाला ऐसे (सिद्धान्तका) वक्ता हूँ ।”

ऐसा कहनेपर दण्डपाणि शाक्य शिरको हिला, जीभ चला, ललाटपर तीन धलें चढ़ाकर, डंडा उठा चल दिया।

तब भगवान् सायंकाल प्रतिसँल्लयन (= एकान्तचिन्तन)से उठकर जहाँ न्यग्रोधाराम था वहाँ गये, जाकर बिछे आसनपर बैठे। बैठ कर भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! आज मैं पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्रचीवर ले ०^१ डंडा उठा चल दिया ।”

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! क्या वादी हैं भगवान्, कि, देव-मार-ब्रह्मासहित सारे लोकमें ०^१ संज्ञा नहीं पीछा करती ?”

“भिक्षुओ ! जिसके कारण पुरुषको प्रपंच संज्ञाका ज्ञान (= संख्या) आती हैं, जहाँ अभि-नन्दन योग्य नहीं, अभिवादन योग्य नहीं, गवेपण योग्य नहीं, वही है अन्त राग-अनुशयों (= रागरूपी मलों)का; ० प्रतिघ (= प्रतिहिंसा)-अनुशयोंका ०; ० दृष्टि-अनुशयों ०; ० विचिकित्सा-अनुशयों ०; ० मान-अनुशयों ०; ० भवराग-अनुशयों ०; ० अविद्या-अनुशयों ०; यहीं अन्त है दण्डग्रहण, शस्त्रग्रहण, कलह, विग्रह, विवाद, ‘तू तू मैं मैं’, पिशुनता (= चुगली),

^१ऊपर आयेकी पुनरावृत्ति।

और मृषावाद (= झूठ) का । यहाँ यह पापक=अकुशल धर्म (= डुराइयाँ) निःशेषतया नष्ट हो जाते हैं !”

भगवान् ने यह कहा, यह कहकर सुगत (= बुद्ध) आसनसे उठकर विहार (= कोठरी) में चले गये ।

तब, भगवान् के जानेके थोड़ी ही देर बाद उन भिक्षुओंको यह हुआ—“आवुसो ! भगवान् —‘भिक्षुओ ! जिसके कारण० नष्ट हो जाती है ।’ इसे संक्षेपसे गिनाकर, विस्तारसे अर्थको बिना विभाजित किये ही आसनसे उठकर विहारमें चले गये । कौन है, जो इस संक्षेपसे कहे—‘विस्तार से न विभाजित किये (उपदेश) का विस्तारसे अर्थ-विभाग करेगा ?”

तब उन भिक्षुओंको हुआ—“यह आयुष्मान् महाकात्यायन शास्ता (= बुद्ध) द्वारा प्रशंसित, विज्ञ सन्तद्वारा द्वारा सम्मानित हैं । आयुष्मान् महाकात्यायन शास्ताद्वारा इस संक्षेपसे कहे—‘विस्तारसे न विभाजित किये (उपदेश) का विस्तारसे अर्थ-विभाग करनेमें समर्थ हैं । क्यों न हम आयुष्मान् महाकात्यायनसे इसके अर्थको पूछें ।”

तब वह भिक्षु जहाँ आ. महाकात्यायन थे, वहाँ गये । जाकर आ. महाकात्यायनके साथ— (यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ) एक ओर—‘वैठकर—आ. महाकात्यायनसे यह बोले—“आवुस कात्यायन ! भगवान्—‘भिक्षुओ ! जिस कारणसे ०^१; जो यह संक्षेपसे कह विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये । तब आवुस कात्यायन ! भगवान् के जानेके थोड़ी ही देर बाद ०^२ । तब हमें हुआ—यह आयुष्मान् महाकात्यायन ०^३ पूछें । आयुष्मान् कात्यायन (आप) इसका विभाजन करें ।”

“जैसे, आवुसो ! सारार्थी, सारगवेषी पुरुष सारको खोजते, सारवाले खड़े महावृक्षके मूलको छोड़, स्कन्धको छोड़, शाखा-पत्रको छोड़, सार खोजना चाहे; ऐसे ही अथ शास्ता (= बुद्ध) के सामने रहनेपर उन भगवान् को छोड़ आयुष्मानोंकी हम लोगों (जैसे)से पूछनेकी इच्छा है । आवुसो ! वह भगवान् जानकार हैं, देखनहार हैं । वह भगवान् चक्षुर्भूत (= आँख समान), ज्ञानभूत, धर्मभूत, ब्रह्मभूत (हैं) । वक्ता प्रवक्ता (हैं) । अर्थके निर्णेतता, अमृतके दाता, धर्म-स्वामी, तथागत हैं । इसीका काल था, कि भगवान् को ही इसका अर्थ पूछते, जैसे भगवान् इसका व्याख्यान करते, वैसा धारण करते ।”

“ठीक आवुस कात्यायन !—‘भगवान् जाननहार हैं ०^३ वैसा धारण करते’ । आयुष्मान् महाकात्यायन भी तो शास्ताद्वारा प्रशंसित ०^४ विस्तारसे अर्थ विभाग करनेमें समर्थ हैं । आयुष्मान् कात्यायन (आप) इसे सरल करके विभाजन करें ।”

“तो आवुसो ! सुनो अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा आवुस !” (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् महाकात्यायनको उत्तर दिया ।

आ. महाकात्यायनने यह कहा—“आवुसो ! हमारे भगवान्—‘भिक्षु ! जिस कारणसे ०^५; जो यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये । आवुसो ! भगवान् के इस संक्षेपसे कहे विस्तारसे न विभाजित किये उपदेशका अर्थ मैं इस प्रकार जानता हूँ । आवुसो ! चक्षु करके, रूपमें चक्षु-विज्ञान उत्पन्न होता है । तीनों (= चक्षु-इन्द्रिय, रूप-विषय और

^१ देखो ऊपर ।

^२ देखो ऊपर ।

^३ देखो ऊपर ।

^४ पूर्व पैरा जैसा ।

^५ देखो ऊपर ।

विज्ञान)का समागम स्पर्श (कहा जाता है) । स्पर्श करके वेदना (होती है) । जिसे वेदना (= अनुभव) करता है, उसका संज्ञान (= समझना) करता है । जिसे संज्ञान करता है, उसके (चारों) वितर्क करता है । जिसे वितर्कता है, उसे प्रपंचन करता है । इसके कारण पुरुषको भूत भविष्य-वर्तमान संबंधी चक्षु-द्वारा-विज्ञेय रूपोंमें प्रपंच-संज्ञाका संख्यान आता है । आवुसो ! श्रोत्र करके शब्दमें-श्रोत्र विज्ञान उत्पन्न होता है । तीनोंका समागम स्पर्श है ० । ० घ्राण करके गंधमें ० । ० जिह्वा करके रसमें ० । ० काया करके स्प्रष्टव्यमें काय-विज्ञान उत्पन्न होता है । ० । ० मन करके धर्ममें ० मनो-विज्ञान ० ।

“आवुसो ! यदि चक्षु, रूप और चक्षुर्विज्ञान हैं, तभी स्पर्शका प्रज्ञापन (= जानना) संभव है । स्पर्शकी प्रज्ञप्ति होनेपर वेदनाका प्रज्ञापन संभव है । ० संज्ञाका प्रज्ञापन संभव है । ० वितर्क प्रज्ञप्ति ० । वितर्क-प्रज्ञप्तिके होनेपर प्रपंच-संज्ञा संख्या-समुदाचरण-प्रज्ञप्ति (= ज्ञानके उपचारका जानना) संभव है । आवुसो ! श्रोत्र, शब्द, और श्रोत्रविज्ञानके होनेपर स्पर्शकी प्रज्ञप्ति है । ० घ्राण, गंध और घ्राण-विज्ञान ० । ० जिह्वा, रस, और जिह्वा-विज्ञान ० । ० काया, स्प्रष्टव्य, और काय-विज्ञान ० । ० मन, धर्म और मनोविज्ञानके होनेपर स्पर्शकी प्रज्ञप्ति संभव है । स्पर्शकी प्रज्ञप्ति होनेपर वेदनाका प्रज्ञापन संभव है । ०^१ संज्ञा ० । ० वितर्क ० । ० प्रपंच-संज्ञा-संख्या-समुदाचरण-प्रज्ञप्ति संभव है ।

“आवुसो ! चक्षु, रूप और चक्षुर्विज्ञानके न होनेपर स्पर्शकी प्रज्ञप्ति संभव नहीं । स्पर्श-प्रज्ञप्तिके बिना वेदना-प्रज्ञप्ति संभव नहीं । ० संज्ञा-प्रज्ञप्ति संभव नहीं । ० वितर्क-प्रज्ञप्ति ० वितर्क-प्रज्ञप्तिके बिना प्रपंच-संज्ञा-संख्या-समुदाचरण-प्रज्ञप्ति संभव नहीं ।

“आवुसो ! श्रोत्र, शब्द, और श्रोत्रविज्ञानके न होनेपर ०^२ । ० घ्राण ०^३ । ० जिह्वा ०^३ । ० काय ०^३ । ० मन ०^३ । ० समुदाचरण-प्रज्ञप्ति संभव नहीं ।

“आवुसो ! भगवान्—‘भिक्षु ! जिस कारणसे ०^४; जो यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये । आवुसो ! ०^५ उपदेशका अर्थ मैं इस प्रकार जानता हूँ । चाहें, तो आप आवुप्मान् भगवान्के पास भी जाकर इस अर्थको पूछें; जैसा हमारे भगवान् व्याख्यान करें, वैसा धारण करें ।”

तब वह भिक्षु आ. महाकात्यायनके भाषणका अभिनन्दन = अनुमोदन कर आसनसे उठ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादन कर...एक ओर बैठ...यह बोले—

“भन्ते ! भगवान्—‘भिक्षु जिस कारणसे ०^४ नष्ट हो जाती है’, जो यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये । तब भगवान्के जानेके थोड़ी ही देर बाद ०^४ ०^६ महाकात्यायनसे (इस) अर्थको पूछें । तब हम भन्ते ! जहाँ आ. महाकात्यायन थे, वहाँ गये ०^४ आ. महाकात्यायनसे इस अर्थको पूछा । हमारे वैसा पूछने पर आ. महाकात्यायनने इन आकारोंसे, इन पदोंसे, इन व्यञ्जनोंसे अर्थ-विभाग किया ।”

“भिक्षुओ ! पंडित है महाकात्यायन, महाप्राज्ञ है ० । यदि भिक्षुओ ! तुमने मुझे इस अर्थको पूछा होता, तो मैं भी वैसेही इसका व्याख्यान करता, जैसे कि महाकात्यायनने इसका अर्थ व्याख्यान किया । यही इसका अर्थ है, ऐसे ही इसे धारण करो ।”

^१ देखो ऊपर । ^२ ऊपरके पैरा जैसा । ^३ पूर्वके पैरा जैसा । ^४ देखो पृष्ठ ७१ ।

^५ देखो ऊपर । ^६ देखो पृष्ठ ७१ । ^७ देखो पृष्ठ ७१ ।

ऐसा कहने पर आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा—

“जैसे मन्ते ! मूखकी दुर्बलतासे पीड़ित पुरुष मधु-पिंड (= लड्डू) पा जाये; वह जहाँ जहाँसे खाये (वहाँ वहाँसे उसमें) स्वादु, तृप्ति-कर रसको पाये, ऐसेही मन्ते ! चेतक (= होशियार) दर्भजातिक (= कुशाग्र-बुद्धि) मिश्रु इस धर्मपर्याय (= धर्मोपदेश)के अर्थको जिघर जिघरसे प्रज्ञासे परखे; उघर उघरसे ही सन्तोषको पावेगा, चित्तकी प्रसन्नताको ही पावेगा । मन्ते ! क्या नाम है, इस धर्मपर्यायका ?”

“तो आनन्द ! तू इस धर्मपर्यायको मधु-पिंड-धर्मपर्यायहीके नामसे धारण कर ।”

“भगवान्ने यह कहा, लन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।



१६-द्वेषा-वितर्क-सुत्तन्त (१।२।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया !

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! संबोध (= बुद्धत्व-प्राप्ति)से पूर्वभी, बोधि-सत्त्व होते वक्त मेरे (मनमें) ऐसा होता था—‘क्यों न दो द्वेष (= द्वेषा) वितर्क करते करते मैं विहर्लूँ ।’ सो भिक्षुओ ! जो काम-वितर्क, व्यापाद-वितर्क, विहिंसा-वितर्क (= हिंसाके विषयमें मनमें तर्क वितर्क) इन (तीनों)को मैंने एक भागमें किया; और जो नैष्काम्य (= फलकी इच्छासे रहित कर्म करना)-वितर्क, अव्यापाद-वितर्क, अवि-हिंसा वितर्क इन (तीनों)को एक भागमें किया ।

“भिक्षुओ ! सो इस प्रकार प्रमाद-रहित, आतापी (= उद्योगी), प्रहितत्ता (= आत्म संयमी) हो विहरते (भी) मुझे काम-वितर्क उत्पन्न होता था । सो मैं इस प्रकार जानता था—उत्पन्न हुआ यह मुझे काम-वितर्क, और यह आत्म-व्यावाधा (= अपनेको पीड़ित करने)के लिये है, पर-व्यावाधाके लिये है, उभय (= आत्म-पर-) व्यावाधाके लिये है । (यह) प्रज्ञा-निरोधक (= ज्ञानका नाशक), विघात-पक्षिक (= हानिके पक्षका), निर्वाणको नहीं ले जानेवाला है । आत्म-व्यावाधाके लिये है—यह सोचते भिक्षुओ ! (वह) अस्त हो जाता था । पर-व्यावाधाके लिये है ० । उभय-व्यावाधाके लिये है ० । प्रज्ञा-निरोधक, विघात-पक्षिक, न-निर्वाण-संवर्तनिक—यह सोचते भिक्षुओ ! (वह) अस्त हो जाता था । सो मैं भिक्षुओ ! बार बार उत्पन्न होनेवाले काम-वितर्कोंको छोड़ता ही था, हटाता ही था, अलग करता ही था ।

“भिक्षुओ ! सो इस प्रकार ०^१ व्यापाद-वितर्क उत्पन्न होता था ० ।^१

“भिक्षुओ ! सो इस प्रकार ०^१ विहिंसा-वितर्क ०^१ ।

“भिक्षुओ ! भिक्षु जैसे जैसे ही अधिकतर अनुवितर्क (= वितर्क) करता है, अनुविचार (= विचार) करता है; वैसे ही वैसे चित्तको झुकना होता है । यदि भिक्षुओ ! भिक्षु काम-वितर्कको अधिकतर अनुवितर्क करता है, अनुविचार करता है; तो वह निष्काम (= कामना-रहित वितर्क)को छोड़ता है, और काम-वितर्कको बढ़ाता है; (और) उसका चित्त काम-वितर्ककी ओर झुकता है । यदि भिक्षुओ ! भिक्षु व्यापाद-वितर्क ०; तो वह अ-व्यापाद वितर्कको छोड़ता है; ० । यदि भिक्षुओ ! भिक्षु विहिंसा (= हिंसा)-वितर्कको ०, तो वह अ-विहिंसा (= अहिंसा)-वितर्कको छोड़ता है; ० । जैसे भिक्षुओ ! वर्षाके अन्तिम मासमें शरद-कालमें (जब चारों ओर)

^१ ऊपरके पैरा जैसा पाठ ।

फल भरी रहती है (उस समय) ग्वाला (अपनी) गायोंकी रखवाली करता है, वह उन गायोंको वहाँ वहाँसे ढंढेसे हाँकता है, मारता है, रोकता है, निवारता है । सो किस हेतु ?—मिश्रुओ ! वह ग्वाला उस (खेतोंमें चरने)के कारण बध, बन्धन, हानि या निन्दा (होने)को देखता है; ऐसे ही मिश्रुओ ! मैंने अकुशल-धर्मों (= बुराइयों)के दुष्परिणाम, अपकार, संकलेश (= मँल)को; (और) कुशल-धर्मों (= अच्छे कामों)की निष्कामतामें सुपरिणाम (= आनन्द) और परिशुद्धताका संरक्षण देखता था ।

“मिश्रुओ ! सो इस प्रकार प्रमाद-रहित ०^१ विहरते निष्कामता-वितर्क उत्पन्न होता था । सो मैं इस प्रकार जानता था—‘उत्पन्न हुआ यह मुझे निष्कामता-वितर्क; और वह न आत्म-व्याधा (= आत्म-पीड़ा)के लिये है, न पर-व्याधाके लिये है, न उभय (= आत्म-पर) व्याधाके लिये है । यह प्रज्ञा-वर्धक है, अ-विघात (= अ-हानि)-पक्षिक, और निर्वाणकी ओर ले जानेवाला है । रातको भी मिश्रुओ ! यदि मैं उसे अनुवितर्क करता, अनुविचार करता, (तो भी) उसके कारण भय नहीं देखता । दिनको भी ० । रात-दिनको भी ० । किन्तु, बहुत देर तक अनुवितर्क; अनुविचार करते मेरी काया छान्त (= थकी) हो जाती; कायाके छान्त होने पर चित्त अपहृत (= शिथिल) हो जाता; चित्तके अपहृत होने पर चित्त समाधिसे दूर (हट) जाता था । सो मैं मिश्रुओ ! अपने भीतर (= अध्यात्म) ही चित्तको स्थापित करता था, वैठाता था, एकाग्र करता था, समाहित करता था । सो किस हेतु ?—मेरा चित्त (कहाँ) अपहृत न हो जाये ।

“सो इस प्रकार प्रमाद-रहित ०^१ विहरते अ-व्यापाद-वितर्क उत्पन्न होता था ०^२ । ०^२ अ-विर्हिंसा-वितर्क उत्पन्न होता था ०^३ ।

“मिश्रुओ ! मिश्रु जैसे-जैसे ही अधिकतर अनुवितर्क करता है^४ ० । यदि मिश्रुओ ! मिश्रु निष्कामता-वितर्कका अधिकतर अनुवितर्क करता है ०^५, तो वह कामवितर्कको छोड़ता है, और निष्कामता-वितर्कको बढ़ाता है; (और) उसका चित्त निष्कामता-वितर्ककी ओर झुकता है । यदि मिश्रुओ ! मिश्रु अ-व्यापाद-वितर्क ०, तो वह व्यापाद-वितर्कको छोड़ता है, और अ-व्यापाद-वितर्कको बढ़ाता है; और उसका चित्त अ-व्यापाद-वितर्ककी ओर झुकता है । यदि मिश्रुओ ! मिश्रु अ-विर्हिंसा-वितर्क ०, तो वह विर्हिंसा-वितर्कको छोड़ता है, और अ-विर्हिंसा-वितर्कको बढ़ाता है; और उसका चित्त अ-विर्हिंसा-वितर्ककी ओर झुकता है । जैसे मिश्रुओ ! ग्रीष्मके अन्तिम मासमें, जय सभी फसल (= सत्य) जमाकर गाँवमें चली जाती है, ग्वाला गायोंको रखता है; वृक्षके नीचे या चौड़ेमें रह कर उन्हें केवल याद रखना होता है—‘यह गाये है’; ऐसे ही मिश्रुओ ! याद रखना (मात्र) होता था—‘यह धर्म है’ । मिश्रुओ ! मैंने न द्यनेवाला वीर्य (= उद्योग) आरम्भ कर रखा था, न भूलनेवाली स्मृति (मेरे) सम्मुख थी, शरीर (मेरा) अचंचल, शान्त था, चित्त समाहित = एकाग्र था ।

“सो मैं मिश्रुओ ! कामोंसे विहरित ०^६ प्रथम-ध्यानको प्राप्तहो विहरने लगा । ०^७ द्वितीय ध्यानको ०^८ । तृतीय-ध्यानको । ०^९ ०^{१०} चतुर्थ-ध्यानको ०^{११} । ०^{१२} (= पूर्व-निवासाऽनु-स्मृति)^{१३} । ०^{१४} प्राणियोंके च्युति-उत्पादके ज्ञानके लिये ०^{१५} । ०^{१६} आस्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये ०^{१७} ।

^१ देखो पृष्ठ ७४ । ^२ ऊपरके पैरा जैसा । ^३ ऊपरके पैरा जैसा । ^४ देखो पृष्ठ ७४ ।

^५ देखो पृष्ठ १५ ।

“जैसे भिक्षुओ ! (किसी) महावनमें गहरा महान् जलाशय (= पक्वल) हो, (और) उसका आश्रय ले महान् मृगोंका समूह विहार करता हो । कोई पुरुष उस (मृग-समूह)का अनर्थ-आकांक्षी अ-हित-आकांक्षी = अ-योग-क्षेम-आकांक्षी उत्पन्न होवे । वह उस (मृगसमूह)के क्षेम (= सुरक्षित), कल्याणकारक, प्रीतिपूर्वक गन्तव्य मार्गको वन्द कर दे, और अकेले चलने लायक (= एक चर) कुमार्गको खोल दे, और एक-चारिका (= जाल) रख दे । इस प्रकार वह महान् मृगसमूह दूसरे समयमें विपत्तिमें तथा क्षीणताको प्राप्त होवे । और भिक्षुओ ! उस महान् मृगसमूहका कोई पुरुष हिताकांक्षी = योग-क्षेमकांक्षी उत्पन्न होवे । वह उस (मृग-समूह)के क्षेम ० मार्गको खोल दे, एक-चर कुमार्गको वन्द कर दे और एक चारिका (= जाल)का नाश कर दे । इस प्रकार वह महान् मृगसमूह दूसरे समय वृद्धि = विरुद्धि (और) विपुलताको प्राप्त होवे ।

“भिक्षुओ ! अर्थके समझाने (= विज्ञापन)के लिये मैंने उपमा (= दृष्टान्त) कही । यहाँ यह अर्थ है । भिक्षुओ ! ‘गहरा महान् जलाशय’ यह कामों (= कामनाओं, भोगों)का नाम है । ‘महान् मृगसमूह’ यह प्राणियोंका नाम है । अनर्थाकांक्षी अहिताकांक्षी अयोग-क्षेमाकांक्षी पुरुष यह मार = बुराईयाँ (= पाप्मा)का नाम है । कुमार्ग यह आठ प्रकारके मिथ्या मार्ग हैं; जैसे—(१) मिथ्या दृष्टि (= झूठी धारणा), (२) मिथ्या-संकल्प, (३) मिथ्या-वचन, (४) मिथ्या कर्मान्त (= ० कायिककर्म्म), (५) मिथ्या-आजीव (= ० जीविका), (६) मिथ्या व्यायाम (= ० कौशिश), (७) मिथ्या स्मृति, (८) मिथ्या समाधि । ‘एकचर’, भिक्षुओ ! यह नन्दी = रागका नाम है । ‘एक चारिका’ भिक्षुओ ! यह अविद्याका नाम है । भिक्षुओ ! अर्थाकांक्षी, हिताकांक्षी, योग-क्षेमाकांक्षी पुरुष—यह तथागत अर्हत् सम्यक् संबुद्धका नाम है । क्षेम = स्वस्तिक ०, प्रीति-गमनीय मार्ग, यह आर्य-अष्टांगिक-मार्गका नाम है, जैसे कि—(१) सम्यक् दृष्टि, (२) सम्यक्-संकल्प, (३) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यगाजीव, (६) सम्यग् व्यायाम (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक् समाधि । इस प्रकार भिक्षुओ ! मैंने क्षेम = स्वस्तिक, प्रीति-गमनीय मार्गको खोल दिया; दोनों ओरसे एक-चर कुमार्गको वन्द कर दिया, एक-चारिका (= अविद्या)को नाश कर दिया । भिक्षुओ ! श्रावकोंके हितैषी, अनुकम्पक, शास्ताको अनुकम्पा करके जो करना था, वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया । भिक्षुओ ! यह वृक्ष-मूल हैं, यह सूने घर हैं, ध्यानरत होओ । भिक्षुओ मत प्रमाद करो, मत पीछे अफसोस करनेवाले बनना—यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन है^१ ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अनुमोदन किया ।

२०—वितर्क-सगठान-सुत्तन्त (१।२।१०)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें, अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित (= आमंत्रित) किया—“भिक्षुओ !”

“मदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया !

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! चित्त (के अनुशीलन) में लग्न भिक्षुको पाँच निमित्तों (= आकारों)का समय-समय पर मनमें (चिन्तन) करना चाहिये। कौनसे पाँच ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षुको जिस निमित्तको लेकर, निमित्तको मनमें करके राग-द्वेष-मोह वाले पापक-अकुशल (= बुरे) वितर्क (= ख्याल) उत्पन्न होते हैं; भिक्षु……उस निमित्तको (छोड़) दूसरे कुशल-सम्यन्धी निमित्तको मनमें करे। उसके उस निमित्तको (छोड़) दूसरे कुशल-सम्यन्धी निमित्तको मनमें करते छन्द-सम्यन्धी ० अकुशल वितर्क नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं; उनके नाशसे अपने भीतर ही चित्त ठहरता है, स्थिर होता है, एकाम्र होता है, समाहित होता है। जैसे भिक्षुओ ! चतुर पलगण्ड (= राज) या पलगण्डका अन्तेवासी (= शागिर्द) सूक्ष्म आणो (= चूर ?) से मोटी आणोको निकाल ले (= अभिनीहरण करे) = अभिनिवर्जन करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु जिस निमित्तको लेकर ० समाहित होता है।

“भिक्षुओ ! उस भिक्षुको उस निमित्तको (छोड़) दूसरे कुशल-सम्यन्धी निमित्तको मन में करने पर भी यदि छन्द-सम्यन्धी ० अकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं; तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको उन वितर्कोंके आदिनव (= कारण, दुष्परिणाम)की जाँच करनी चाहिये—यह मेरे वितर्क अकुशल हैं, यह मेरे वितर्क सावद्य (= दोष-युक्त) हैं, यह मेरे वितर्क दुःख-विपाक (= दुःखद) हैं। उन वितर्कोंके आदिनवकी परीक्षा करनेपर उनके राग ० बुरे ख्याल नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं; उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर ठहरता है ०^१। जैसे, कि भिक्षुओ ! मंडन (= विभूषण) पसन्द करनेवाला अल्पवयस्क तरुण पुरुष या स्त्री मरे साँप, या मरे कुत्ता, या आदमीके मुँदके कंठमें लग जानेसे घृणा = जगुप्सा करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उस निमित्तको छोड़ ०।

“भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितर्कोंके आदिनवकी जाँचते हुये भी छन्द-सम्यन्धी ० अकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं, तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको उन वितर्कोंको यादमें लाना नहीं चाहिये, मनमें न करना चाहिये। उन वितर्कोंको यादमें न लानेसे मनमें न करनेसे, उसके रागवाले ०^२ बुरे वितर्क (= ख्याल) नाश होते हैं, उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर ठहरता है ०^३। जैसे

^१ देखो पिछला पैरा।

^२ देखो पूर्व पैरा।

कि भिक्षुओ ! नजरके सामने आने वाले रूपोंके देखनेका अनिच्छुक आँख-वाला आदमी (आँखोंको) मूँद ले, या दूसरी ओर देखने लगे; ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितर्कोंको जाँचते हुये भी ०^१ ।

“भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितर्कों (= ख्यालों)के मनमें न लाने, मनमें न करनेसे भी रागवाले ० बुरे ख्याल (= वितर्क) उत्पन्न होते ही हैं; तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको उन वितर्कों (= ख्यालों)के संस्कारका संस्थान (= आकार) मनमें करना चाहिये । उन वितर्कोंके वितर्क-संस्कार-संस्थान (मात्र)को मनमें लानेसे उसके रागवाले ०^१ बुरे ख्याल नाश होते हैं ०^१ । जैसे कि भिक्षुओ ! पुरुष शीघ्र जाता हो, उसको ऐसा हो—कहाए मैं शीघ्र जाता हूँ, क्यों न धीरे से चलूँ, फिर वह धीरे धीरे जाये । उसको ऐसा हो—क्यों मैं धीरे धीरे चलता हूँ, क्यों न मैं बैठ जाऊँ, फिर वह बैठ जाये । उसको ऐसा हो—क्यों मैं बैठा हूँ, क्यों न मैं लेट जाऊँ, फिर वह लेट जाये । ऐसे ही भिक्षुओ ! वह पुरुष मोटे ईर्यापथ (= शारीरिक गति)से हटकर सूक्ष्म ईर्यापथको स्वीकार करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितर्कोंके मनमें न लाने ०^२ ।

“भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितर्कोंके वितर्क-संस्कार-संस्थानको मनमें करनेसे भी ०^२; तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको दाँतोंको दाँतों पर रख कर, जिह्वाको तालूसे चिपटा कर, चित्तसे चित्तका निग्रह करना चाहिये, सन्तापन करना, निष्पीडन करना चाहिये, उसके ० निष्पीडन करनेसे, उसके रागवाले ०^२ बुरे ख्याल नाश होते हैं ०^२ । जैसे भिक्षुओ ! बलवान् पुरुष दुर्बल पुरुषको शिरसे, या कन्धेसे, पकड़ कर, निग्रहीत करे, निष्पीडित करे, सन्तापित करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! वह भिक्षु उन वितर्कोंके वितर्क-संस्कार-संस्थानके मनमें करनेसे भी ०^२ ।

“चूँकि भिक्षुओ ! भिक्षुको जिस निमित्तको लेकर, जिस निमित्तको मनमें करके, राग-द्वेष-मोह वाले बुरे ख्याल पैदा होते हैं; उस निमित्तको छोड़ ०^३ दूसरे ० निमित्तको मनमें करनेसे ० चित्त ० समाहित होता है । उन वितर्कोंके आदिनव (= दुष्परिणाम)की जाँच करनेसे राग ० वाले बुरे ख्याल नष्ट होते हैं ०^३ चित्त ० समाहित होता है । उन वितर्कोंके यादमें न लानेसे मनमें न करनेसे ०^३ चित्त समाहित होता है, उन वितर्कोंके वितर्क-संस्कार-संस्थानको मनमें करनेसे ०^३ चित्त समाहित होता है । दाँतोंको दाँतों पर रख कर ०^३ निष्पीडन करनेसे ०^३ चित्त समाहित होता है । भिक्षुओ ! ऐसा भिक्षु वितर्क (= ख्याल)के नाना मार्गोंको वशमें करनेवाला कहा जाता है । वह जिस वितर्कको चाहेगा, उसका वितर्क करेगा, जिस...को नहीं चाहेगा... नहीं वितर्क करेगा । (उसने) तृष्णा (रूपी) बंधनको हटा दिया; अच्छी प्रकार जान कर साक्षात् कर, दुःख का अन्त कर दिया ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

(२-इति सीहनाद वग्ग १२) ।

^१ देखो पूर्व पैरा ।

^२ देखो पिछला पैरा ।

^३ देखो पृष्ठ ७७ ।

^४ देखो पृष्ठ ७७ ।

२१—ककचूपम-सुत्तन्त (१३११)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जैतवनमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् मोलिय फग्गुण भिक्षुणियोंके साथ अत्यधिक संसर्ग रखते थे। इतना संसर्ग रखते थे, कि यदि (उनके) सामने कोई भिक्षुणियोंकी शिकायत करता, तो उससे आयुष्मान् मोलिय फग्गुण कुपित = असन्तुष्ट हो अधिकरण (= संघके सामने अभियोग) भी करते। यदि कोई उन भिक्षुणियोंके सामने आयुष्मान् मोलिय फग्गुणकी शिकायत करता, तो वह (भी) कुपित असन्तुष्ट हो अधिकरण करती।।।

तब कोई भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर, भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर बैठ भगवान्से बोला—

“भन्ते ! आयुष्मान् मोलिय फग्गुण भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखते हैं ० ।”

तब भगवान्ने एक भिक्षुको संबोधित किया—

“आओ भिक्षु ! तुम मेरे वचनसे मोलिय फग्गुण भिक्षुको कहो—‘आबुस फग्गुण ! (= फाल्गुण) ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं’ ।”

“अच्छा, भन्ते !” (कह) भगवान्को उत्तर दे, वह भिक्षु आयुष्मान् मोलिय फग्गुणके पास जाकर यह बोला—

“आबुस फग्गुण ! तुम्हें शास्ता बुला रहे हैं ।”

“अच्छा आबुस !” कह आयुष्मान् मोलिय फग्गुण भगवान्के पास जाकर, एक ओर बैठ गये ।

एक ओर बैठे आयुष्मान् ० फग्गुणको भगवान्ने यह कहा—“फग्गुण ! सचमुच ही तू भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखता है, ० कुपित असन्तुष्ट हो अधिकरण करती है ?”

“हाँ, भन्ते !”

“क्यों फग्गुण ! तू कुलपुत्र (हो) श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर धन प्रव्रजित हुआ है ?”

“हाँ, भन्ते !”

“फग्गुण ! यह तेरे समान श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो प्रव्रजित कुलपुत्रके लिए योग्य नहीं, कि तू भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखे। इसलिए फग्गुण ! चाहे तेरे सामने भी कोई भिक्षुणियोंकी शिकायत करे, तो फग्गुण ! जो तेरे भीतर घर किये राग हैं, जो घर किये वितर्क (= क्याल) हैं, उनको छोड़ देना। वहाँ फग्गुण ! तुझे इस प्रकार सीखना चाहिये—‘मेरे चित्तमें विकार नहीं आने पायेगा, दुर्वचन मैं मुँहसे नहीं निकालूँगा, द्वेषरहित हो मैत्रीभावसे हित और अनुकम्पक हो विहरूँगा’। इस प्रकार फग्गुण ! तुझे सीखना चाहिये। इसलिये फग्गुण ! चाहे तेरे

सामने कोई उन भिक्षुणियोंको हाथसे पीटे भी, ढेलेसे... , दण्डसे... , शस्त्रसे प्रहार भी करे, तो भी फग्गुण ! जो तेरे भीतर घर किये राग हैं ० अनुकम्पक हो विहरूँगा । इस प्रकार फग्गुण ! ० । इसलिये फग्गुण ! चाहे तेरे सामने ० शिकायत करें; ० । चाहे तेरे सामने ० प्रहार भी करें ० । ० सीखना चाहिये ।”

तब भगवानने उन भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! एक वार भिक्षुओंने मेरे चित्तको प्रसन्न (= आराधित) किया था । एक वार भिक्षुओ ! मैंने भिक्षुओंको संबोधित किया... “भिक्षुओ ! मैं एकासन (एक-) भोजन सेवन करता हूँ ।... एकासन-भोजनका सेवन करते मैं स्वास्थ्य, निरोग, स्फूर्ति, बल और प्राज्ञविहार (= सुखपूर्वक रहना) (अपनेमें) पाता हूँ । आओ । भिक्षुओ ! तुम भी एकासन भोजन-सेवन... कर स्वास्थ्य ० को प्राप्त करो’ । भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको मुझे अनुशासन (= उपदेश) करनेकी आवश्यकता नहीं थी ।... उन भिक्षुओंको याद दिला देना भर ही मेरा काम था । जैसे भिक्षुओ ! उद्यान (= सुभूमि)में चौरस्तेपर कोड़ा सहित, घोड़े जुता आजानेय (= उत्तम घोड़ों)का रथ खड़ा हो, उसे एक चतुर रथाचार्य, अश्वको दमन करनेवाला सारथी चढ़कर, वायें हाथ से जोत (= रश्मि)को पकड़ कर, दाहिने हाथमें कोड़ेको ले, जैसे चाहे, जिघर चाहे लेजाये लौटावे; ऐसे ही भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको मुझे अनुशासन करनेकी आवश्यकता न थी ० मेरा काम था ।

“इसलिये भिक्षुओ ? तुम भी अकुशल (= बुराई)को छोड़ो । कुशल धर्मों (= नेकियों)में लगो । इस प्रकार तुम भी इस धर्म... में वृद्धि = विरुद्धि, विपुलताको प्राप्त होगे । जैसे भिक्षुओ ! गाँव या निगम (= कस्बे)के पास (= अ-विदूर) फलंगों (= सघनता)से आच्छादित महान् शाल (= सालू)-वन हो; उसका कोई अर्थकारी = हितकारी = योगक्षेमकारी पुरुष उत्पन्न हो; वह उस शालके रस (= ओज)की अपहरण करनेवाली टेढ़ी थण्डियोंको काटकर बाहर ले जाये, वनके भीतरी भागको अच्छी तरह साफ करदे; और जो शाल-थण्डियाँ सीधी सुन्दर तौरसे निकली हैं, उन्हें अच्छी तरह रक्वे । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह शाल वन दूसरे समय पीछे वृद्धि = विरुद्धि = विपुलताको प्राप्त होवे । ऐसे ही भिक्षुओ ! तुमभी बुराईको छोड़ो ० विपुलताको प्राप्त होगे ।

“भिक्षुओ ! भूतकालमें इसी श्रावस्तीमें वैदेहिका नामक गृह-पत्नी (= गृहस्थ स्त्री, वैश्य स्त्री) थी । वैदेहिका गृहपत्नीकी ऐसी मंगल कीर्ति फैली हुई थी—वैदेहिका गृहपत्नी सौरता (= सुरत) है; निवाता (= निष्कलह) है, उपशान्त है । वैदेहिका गृहपत्नीके पास काली नामक दक्ष, आलस्यरहित, अच्छे प्रकार काम करनेवाली दासी थी । तब भिक्षुओ ! काली दासीके (मनमें) यह हुआ—‘मेरी आर्या (= अय्या = स्वामिनी)की ऐसी मंगलकीर्ति फैली हुई है— ० । क्या मेरी आर्या भीतरमें क्रोधके विद्यमान रहते उसे प्रकट नहीं करती, या अविद्यमान रहते ? चूँकि मेरे काम अच्छी तरह किये होते हैं, इसलिये मेरी अय्या भीतरमें क्रोध होते हुये भी प्रकट नहीं करती, नहीं है (यह बात) नहीं । क्यों न मैं अय्याकी परीक्षा करूँ ।’ तब भिक्षुओ ! काली दासी दिन (चढ़ने पर) उठी । तब भिक्षुओ ! वैदेहिका गृहपत्नीने काली दासीसे यह कहा— ‘अरे हे काली !’

‘क्या है अय्या !’

‘क्यों रे दिन चढ़ने पर उठी है ?’

‘कुछ नहीं अय्या !’

‘कुछ नहीं रे ! (यह) हमारी दुष्टा दासी दिन (चढ़ने पर) उठती है’—(कह) कुपित,

असन्तुष्ट हो भौवें टेढ़ी करली ।

“तब भिक्षुओ ! काली दासीको यह हुआ—‘मेरी अय्या भीतरमें क्रोधके विद्यमान रहते उसे प्रकट नहीं करती, अविद्यमान रहते नहीं; ० नहीं है (यह वात) नहीं । क्यों न मैं फिर अय्या को अच्छी तरह परखूँ ।’ तब भिक्षुओ ! काली दासी और दिन (चढ़ाकर) उठी । तब वैदेहिका गृहपत्नीने काली दासीसे यह कहा—

‘अरे हे काली !’

‘क्या है अय्या !’

‘क्यों रे ! और दिन (चढ़ाकर) उठी है ?’

‘कुछ नहीं अय्या !’

‘कुछ नहीं रे ! (यह) हमारी दुष्टा दासी और दिन (चढ़ाकर) उठती है’—(कह) कुपित असन्तुष्ट हो भौवें टेढ़ी कर कटवचन कहा । तब भिक्षुओ ! काली दासीको यह हुआ—‘मेरी अय्या भीतरमें क्रोधके विद्यमान रहते ० नहीं है (यह वात) नहीं । क्यों न मैं फिर अय्याको अच्छी तरह परखूँ ।’ तब भिक्षुओ ! काली दासी और दिन (चढ़ाकर) उठी । फिर भिक्षुओ ! वैदेहिका गृहपत्नीने काली दासीसे यह कहा—

‘अरे हे काली !’

‘क्या है अय्या !’

‘क्यों रे ! और भी दिन चढ़ाकर उठी है ?’

‘कुछ नहीं अय्या !’

‘कुछ नहीं रे ! (यह) हमारी दुष्टा दासी और भी दिन चढ़ाकर उठती है ।’—(कह) कुपित असन्तुष्ट हो, किवाड़की विलाइं (= सूची) उठाकर उसे मारा । शिर फूट गया । तब भिक्षुओ ! काली दासीने फूटे शिरसे लोहूँ यहाते पड़ोसियोंको चिन्ता कर कहा—‘देखो अय्या ! सौरताके कामको ! देखो अय्या ! निवाताके कामको !! देखो अय्या ! उपशान्ताके कामको !!! कैसे (कोई) अकेली दासीको ‘दू दिन (चढ़े) उठी’—(कह) कुपित असन्तुष्ट हो किवाड़की विलाइं (= सूची) उठाकर मारैगी, और शिरको फोड़ डालैगी !!!’ तब भिक्षुओ ! वैदेहिका गृहपत्नीके इस प्रकारके अपकीर्तिके शब्द फैले—‘धिक्कार है, वैदेहिका गृहपत्नीको ! अ-सौरता है वैदेहिका गृहपत्नी, अ-निवाता है ०, अन्-उपशान्ता है वैदेहिका गृहपत्नी ।’

“इसी प्रकार भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु तभीतक सोरत रहता है, निवात (= निष्कलह) उपशान्त, होता है, जब तक अग्रिय शब्द-पथमें वह नहीं पड़ता; जब (उस) भिक्षुपर अ-ग्रिय शब्द-पथ पड़ता है, तबभी (रहे) तो (उसे) सोरत जानना चाहिये, निवात ०, उपशान्त जानना चाहिये । भिक्षुओ ! मैं उस भिक्षुको सुवच नहीं कहता, जो कि चीवर, भिक्षाच, शयन-आसन, रोगीके पथ्य-औषध सामग्रीके कारण सुवच होता है, मृदु-भाषिताको प्राप्त होता है । सो किस हेतु ?—भिक्षुओ ! (वह) भिक्षु, चीवर, पिंडपात (= भिक्षान्न) शयन-आसन, रोगीके पथ्य-औषधि सामग्रीके न मिलनेपर सुवच नहीं होता है, न मृदुभाषिताको प्राप्त होता है । सो किस हेतु ?—भिक्षुओ ! (वह) भिक्षु, चीवर, पिंडपात (= भिक्षान्न), शयन-आसन, रोगीके पथ्य-औषध-सामग्रीके न मिलने पर सुवच नहीं रहेगा, न मृदुभाषिताको रखेगा । भिक्षुओ ! जो भिक्षु केवल धर्मका सत्कार करते, ० गुरुकार करते, ० पूजा करते, सुवच होता है, मृदुभाषिताको प्राप्त होता है, उसे मैं सुवच कहता हूँ । इसलिये भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये—

‘केवल धर्मका सत्कार करते ० पूजा करते सुवच होऊँगा, मृदुभाषिता (सौवचस्यता)को प्राप्त होऊँगा । भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये ।

“भिक्षुओ ! यह पाँच वचन-पथ (= वात कहनेके मार्ग) हैं, जिनसे कि दूसरे तुमसे वात करते बोलते हैं—(१) कालसे या अकालसे; (२) भूत (= यथार्थ)से या अ-भूतसे; (३) स्नेहसे या परुषता (कटुता)से; (४) सार्थकतासे या निरर्थकतासे; (५) मैत्रीपूर्ण चित्तसे या द्वेषपूर्ण चित्तसे । भिक्षुओ ! चाहे दूसरे कालसे वात करें, या अकालसे; ० भूतसे ०; ० स्नेहसे ०; सार्थकतासे ०; ० मैत्रीपूर्णचित्तसे वात करें, या द्वेषपूर्णचित्तसे; वहाँ भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये—मैं अपने चित्तको विकार-युक्त न होने दूँगा, और न दुर्वचन (मुँहसे) निकालूँगा, मैत्री भावसे हितानुकम्पी होकर विहरूँगा, न कि द्वेषपूर्ण चित्तसे । उस (विरोधी) व्यक्तिको भी मैत्री-पूर्ण चित्तसे आप्लावित कर विहरूँगा । उसको लक्ष्य (= आरम्भण) करके सारे लोकको विपुल, विशाल, = अग्रमाण मैत्रीपूर्ण चित्तसे आप्लावितकर, अ-वैरता = अ-च्यापादितता (= द्रोह-रहितता)से परिप्लावित कर विहरूँगा ।—इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये ।

“जैसे भिक्षुओ ! (कोई) पुरुष (हाथमें) कुदाल लेकर आये, और वह ऐसा कहा— मैं इस महा-पृथिवीको अ-पृथिवी करूँगा । वह वहाँ वहाँ खोदे, वहाँ वहाँ (मिट्टिको) फेंके, वहाँ वहाँ रखे, वहाँ वहाँ छोड़े—(अब) तू अ-पृथिवी हुई, (अब) तू अ-पृथिवी हुई । तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष इस महापृथिवीको अ-पृथिवी कर सकेगा ?”

“नहीं भन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“भन्ते ! यह महापृथिवी गम्भीर है, अ-प्रमेय है, यह अ-पृथिवी (= पृथिवीका अभाव) नहीं की जा सकती, वह पुरुष (नाहकमें) हैरानी और परेशानीका भागी होगा ।”

“ऐसे ही भिक्षुओ ! यह पाँच वचन-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुम्हें बोलेंगे—(१) काल से या अकालसे ० उसको लक्ष्य मानकर सारे लोकको पृथिवीके समान, विपुल, विशाल ०^१ अवैरतासे, परिप्लावित कर विहरूँगा ।—इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये ।

“जैसे भिक्षुओ ! (कोई) पुरुष लाख या हल्दी या नील, या मजीठ लेकर आये, (और) यह कहे—‘मैं इस आकाशमें रूप (= चित्र) लिखूँगा, रूप प्रकट करूँगा’ । तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष इस आकाशमें रूप लिख सकेगा ? रूप प्रकट कर सकेगा ?”

“नहीं भन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“भन्ते ! यह आकाश अ-रूपी = अ-दर्शन (= अ-निदर्शन) है, यहाँ रूप लिखना...रूपका प्रादुर्भाव करना सुकर नहीं । वह पुरुष (नाहकमें) हैरानी और परेशानीका भागी होगा ।”

“ऐसे ही भिक्षुओ, यह पाँच वचन-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुम्हें बोलेंगे—(१) कालसे ०^१, उसको लक्ष्य मानकर सारे लोकको आकाश-समान विपुल विशाल ०^१ विहरूँगा ।

—इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये ।

“जैसे भिक्षुओ ! (कोई) पुरुष जलती तृणकी उल्का (= लुकारी)को लेकर आये, (और) यह कहे—‘मैं इस तृण-उल्कासे गंगानदीको संतप्त करूँगा, परितप्त करूँगा’ । तो क्या

मानते हो भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष उस जलती तृण-उल्कासे गंगानदीको सन्तस कर सकेगा, परितस कर सकेगा ?”

“नहीं भन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“भन्ते ! गंगानदी गम्भीर है, अप्रमेय है; वह जलती तृण-उल्कासे नहीं सन्तस की जा सकती, परितस नहीं की जा सकती । वह पुरुष (नाहकमें) ० ।

“ऐसे ही भिक्षुओ ! यह पाँच वचन-पथ, जिनके द्वारा दूसरे तुमसे बोलेंगे—(१) कालमें ०^१ उसको लक्ष्य मानकर सारे लोकको गंगा-समान विपुल विशाल ०^१ विहरूँगा ।

“जैसे भिक्षुओ ! (एक) मर्दित, सुमर्दित, सु-परिमर्दित, मृदु, तूलवाली, खर्खराहट-रहित, भरभराहट-रहित विल्लीके (चमदेकी) खाल (= भस्त्रा) हो । तब कोई पुरुष काठ या कठला (= ठीकरा) लेकर आये और घोले—मैं इस ० विल्लीकी खालको (इस) काठ या कठलासे खुर्बुरी बनाऊँगा, भर्भरी बनाऊँगा । तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! ० ।

“नहीं भन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“भन्ते ! यह विल्लीकी खाल मर्दित ०^२ है, काठ या कठलासे खुर्बुरी, भर्भरी नहीं बनाई जा सकती । वह पुरुष (नाहकमें) ०^२ ।”

“ऐसे ही भिक्षुओ ! यह वचनपथ ०^२—कालमें ०^२ उसको लक्ष्य मानकर सारे लोकको विल्लीकी खालके समान ०^२ विहरूँगा ।

“भिक्षुओ ! चोर लुटेरे चाहे दोनों ओर मुठिया लगे आरेसे भी अंग अंगको चीरें, तो भी यदि वह मनको द्वेषयुक्त (= दूषित) करे, तो वह मेरा शासनकर (= उपदेशानुसार चलनेवाला) नहीं है । वहाँ पर भी भिक्षुओ ! ऐसा सीखना चाहिये—‘मैं अपने चित्तको ०^३ अब्यापादितासे झगवित कर विहरूँगा । ऐसा भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये ।

“भिक्षुओ ! तुम इस ककचूपम (= क्रकचोपम = आरेके दृष्टान्तवाले) उपदेशको बार बार मनमें करो । देखते हो भिक्षुओ ! उस वचनपथको अणु या स्थूल, जिसे तुम नहीं पसन्द करते ?

“नहीं भन्ते !”

“इसलिये भिक्षुओ ! इस क्रकचोपम उपदेशको निरन्तर मनमें करो, वह तुम्हें चिरकाल तक हित, सुखके लिये होगा ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

^१ देखो पृष्ठ ८२ ।

^२ देखो ऊपर ।

^३ देखो पृष्ठ ८२ ।

२२—अलगदूपम-सुत्तन्त (१।३।२)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । उस समय गन्धवाधि-पुब्ब (= भूतपूर्व गन्धवाधि = गिद्ध मारनेवाले) अरिष्ट (= अरिष्ट) भिक्षुको ऐसी बुरी दृष्टि (= धारणा) उत्पन्न हुई थी—‘मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ, जैसे कि जो (निर्वाण आदि के) अन्तरायिक (= विघ्नकारक) धर्म (= कार्य) भगवान्ने कहे हैं, सेवन करने पर भी वह अन्तराय (= विघ्न) नहीं कर सकते ।’ बहुतसे भिक्षुओंने सुना कि, अरिष्ट भिक्षुको ऐसी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—० अन्तराय नहीं कर सकते’ । तब वह भिक्षु जहाँ ० अरिष्ट भिक्षु था, वहाँ गये, जाकर ० अरिष्ट भिक्षुसे यह बोले—

“आवुस अरिष्ट ! सच्चमुच ही, तुम्हें इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—‘० अन्तराय नहीं कर सकते !’”

“आवुसो ! मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ ० अन्तराय नहीं कर सकते ।”

तब वह भिक्षु ० अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी दृष्टि (= धारण)से हटानेके लिये कहते, समझाते बुझाते थे—‘आवुस अरिष्ट ! मत ऐसा कहो, मत आवुस अरिष्ट ऐसा कहो । मत भगवान् पर झूठ लगाओ (= अभ्याख्यान करो), भगवान् पर झूठ लगाना अच्छा नहीं है । भगवान् ऐसा नहीं कह सकते । अनेक प्रकारसे भगवान्ने आवुस अरिष्ट ! अन्तरायिक (= विघ्नकारक) धर्मोंको अन्तरायिक कहा है । सेवन करनेपर वह अन्तराय करते हैं—कहा है । भगवान्ने कामों (= भोगों)को बहुत दुःखदायक, बहुत परेशान करनेवाले कहा है । उनमें बहुत दुष्परिणाम (बतलाये हैं) । भगवान्ने कामोंको अस्थिरकाल-समान^१ कहा, मांस-पेशी-समान ०, तृण-उल्का-समान ०, अंगारक (= अग्निचूर्ण)के समान ०, स्वप्न-समान ०, याचितकोपम (= मंगनीके आभूषणके समान) ०, वृक्ष-फल-समान^१ ०, असिसूनूपम शक्ति-शूल-समान ०, सर्प-शिर-समान ०, भगवान्ने कामोंको बहुत दुःखदायक ० बहुत दुष्परिणामी बतलाये हैं ।”

उन भिक्षुओं द्वारा ० अरिष्ट भिक्षु ऐसा कहे जाने, समझाये बुझाये जाने पर भी उसी बुरी दृष्टिको दृढ़तासे पकड़ अभिनिवेश (= आग्रह) करके (उसे) व्यवहार करता था—“मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ ०^२ अन्तराय नहीं कर सकते ।”

जब वह भिक्षु ० अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी दृष्टिसे नहीं हटा सके; तब वह भगवान्के पास... जाकर अभिवादन कर, एक ओर...बैठ...यह बोले—

^१ इन उपमाओंके लिये पोतलिय-सुत्त (मज्झिम नि० ५४) देखो । ^२ देखो ऊपर ।

“भन्ते ! ० अरिष्ट भिक्षुको इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—‘मैं भगवान्‌के ०’ भन्ते ! हमने सुना, कि ० अरिष्ट भिक्षुको ० इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—‘०’। तब हमने भन्ते !...अरिष्ट भिक्षुके पास...जाकर...यह पूछा—‘आबुस अरिष्ट ! सचमुच ०^१ ? ऐसा कहने पर ० अरिष्ट भिक्षुने हमें यह कहा—‘आबुसो ! मैं भगवान् ०^१ नहीं कर सकते’। तब भन्ते ! हम ० अरिष्ट भिक्षुको ० समझाते बुझाते थे—० । हमारे द्वारा ०^१ ऐसा ० समझाये जाने पर भी ०^१—‘मैं भगवान्‌के ०’। जय हम भन्ते ! ० अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी दृष्टिसे नहीं हटा सके, तब हम इसे भगवान्‌को कह रहे हैं ।”

तब भगवान्‌ने एक भिक्षुको संवोधित किया—“आ भिक्षु ! तू मेरे वचनसे ० अरिष्ट भिक्षुको कह—आबुस अरिष्ट ! तुझे शास्ता बुला रहे हैं ।”

“अच्छा, भन्ते !”—कह उस भिक्षुने ० अरिष्ट भिक्षुके पास...जाकर...यह कहा—

“आबुस अरिष्ट ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं ।”

“अच्छा, आबुस !”—(कह) उस भिक्षुको उत्तर दे ० अरिष्ट भिक्षु...भगवान्‌के पास...जाकर...अभिवादन कर...एक ओर बैठा । एक ओर बैठे ० अरिष्ट भिक्षुको भगवान्‌ने यह कहा—

“सचमुच अरिष्ट ! तुझे इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—मैं भगवान्‌के ०^१ अन्तराय नहीं कर सकते हैं ?

“हाँ, भन्ते ! मैं भगवान्‌के उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ, जैसे कि जो अन्तरायिक धर्म भगवान्‌ने कहे हैं, सेवन करने पर भी वह अन्तराय नहीं कर सकते ।”

“मोघपुरुष (= निकम्मा आदमी) ! किसको मैंने ऐसा धर्म उपदेश किया, जिसे तू ऐसा जानता है—मैं भगवान् ० । क्यों मोघपुरुष ! मैंने तो अनेक प्रकारसे अन्तरायिक धर्मोंको अन्तरायिक कहा है ०^२ बहुत दुष्परिणाम बतलाये हैं । और तू मोघपुरुष (= मोघिया) अपनी उल्टी धारणासे हमें झूठ लगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अपुण्य कमा रहा है । मोघपुरुष ! यह चिरकाल तक तेरे लिये अ-हित और दुःखके लिये होगा ।”

तब भगवान्‌ने भिक्षुओंको संवोधित किया—

“तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या यह ० अरिष्ट भिक्षु उस्मीकत (= छू तक गया) भी इस धर्ममें नहीं है ?”

“कैसे होगा भन्ते ! नहीं भन्ते !”

ऐसा कहने पर ० अरिष्ट भिक्षु चुप हो, मूक हो, कन्धा गिरा कर, अधोमुख चिन्ता करते प्रतिभा-शून्य हो बैठा रहा । तब भगवान् ० अरिष्ट भिक्षुको चुप ० प्रतिभाशून्य जान कर ० अरिष्ट भिक्षुसे बोले—

“तू मोघपुरुष ! अपनी इस बुरी दृष्टिको जानेगा, जब मैं भिक्षुओंको पूछूँगा ।”

तब भगवान्‌ने भिक्षुओंको संवोधित किया—

“भिक्षुओ ! क्या तुम भी मेरे ऐसे उपदेश किये धर्मको जानते हो, जैसा कि यह ० अरिष्ट भिक्षु अपनी ही उल्टी धारणासे हमें झूठ लगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अपुण्य कमा रहा है ?

^१ देखो पृष्ठ ८४ ।

^२ पृष्ठ ८४ में भगवान्‌की जगह, मैं रखकर ।

“नहीं मन्ते ! भगवान् ने तो अनेक प्रकारसे अन्तरायिक धर्मोंको अन्तरायिक कहा है ०^१ बहुत दुष्परिणाम बतलाये हैं ।”

“तो यह ० अरिष्ट भिक्षु अपनी उल्टी धारणासे हमें झूठ लगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अ-पुण्य (= पाप) कमा रहा है । यह इस मोघपुरुषके लिये चिरकाल तक अ-हित और दुःखके लिये होगा । और यह भिक्षुओ ! कामोंसे भिन्न, काम-संज्ञासे भिन्न, काम वितर्कसे भिन्न (किसी वस्तुका) सेवन करेगा, यह संभव नहीं ।

“यहाँ भिक्षुओ ! कोई कोई मोघपुरुष—गोय, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अद्भुत-धर्म, वैदल्य—(इन नौ प्रकारके) धर्म (= उपदेश)को धारण करते^२ हैं । वह उन धर्मोंको धारण करते भी उनके^३ अर्थको प्रज्ञासे परखते नहीं हैं । अर्थको प्रज्ञासे परखे बिना धर्मोंका आशय नहीं समझते । वह या तो उपारम्भ (= सहायता)के लाभके लिये धर्मको धारण करते हैं, या बादमें प्रमुख बननेके लाभके लिये धर्मको धारण करते हैं; और उसके अर्थको नहीं अनुभव करते । उनके लिये यह उल्टी तौरसे धारण किये धर्म अहित (और) दुःखके लिये होते हैं । सो किस हेतु ?—धर्मोंको उल्टा धारण करनेसे भिक्षुओ ! जैसे भिक्षुओ ! कोई अलगद् (= साँप) चाहनेवाला अलगद्-गवेपी पुरुष अलगद्की खोजमें घूमता एक महान् अलगद्को पाये; और उसे भोग (= देह)से या पूँछ (= नंगुट्ट) से पकड़े; उसको वह अलगद् उलट कर हाथमें, बाँहमें या अन्य किसी अंगमें ढँस ले । वह उसके कारण मरण या मरण-समान दुःखको प्राप्त होवे । सो किस हेतु ?—भिक्षुओ ! अलगद्के दुर्ग्रहीत (= उल्टी तरहसे पकड़ा) होनेसे । ऐसेही यहाँ भिक्षुओ ! कोई कोई मोघपुरुष ० ।

“किन्तु भिक्षुओ ! कोई कोई कुलपुत्र—सूत्र ०^३ धर्मको धारण करते हैं । वह उन धर्मोंको धारण कर उनके अर्थको प्रज्ञासे परखते हैं । प्रज्ञासे परखकर धर्मोंके अर्थको समझते हैं । वह उपारम्भ (= धनलाभ) के लिये ० या बादमें प्रमुख बननेके लिये धर्मोंको धारण नहीं करते । वह उनके अर्थको अनुभव करते हैं । उनके लिये यह सुग्रहीत (= ठीक तौरसे धारण किये) धर्म चिरकाल तक हित और सुखके लिये होते हैं । जैसे भिक्षुओ ! कोई ० अलगद्-गवेपी पुरुष अलगद्की खोजमें घूमता एक महान् अलगद्को देखे । उसको वह आजपद दंड (= साँप पकड़नेका डंडा जिसके छोर पर बकरीके पैरकी तरह चिरवा संदसीनुमा हथियार लगा रहता है)से खूब अच्छी तरह पकड़े । अच्छी तरह पकड़कर गर्दनसे ठीक तौरपर पकड़े । फिर भिक्षुओ ! चाहे वह अलगद् उस पुरुषके हाथ, बाँह या किसी और अंगको अपने भोग (= देह)से परिवेष्टित करे, किन्तु वह उसके कारण न मरण न मरण-समान दुःखको प्राप्त होवे । सो किस हेतु !—भिक्षुओ ! अलगद्के सुग्रहीत होनेसे । ऐसे ही भिक्षुओ ! कोई कोई कुल-पुत्र ० ।

“इसलिये भिक्षुओ ! मेरे जिस भाषण का अर्थ तुम समझे हो, उसे वैसे धारण करना, और जिस^४ का अर्थ तुम नहीं समझे, उसे मुझसे पूछना, या (दूसरे) जानकार भिक्षुसे ।

“भिक्षुओ ! मैं वेड़े (= कुल)की भाँति निस्तरण (= निस्तार, = पार जाने)के लिये तुम्हें धर्मको उपदेशता हूँ, पकड़ रखनेके लिये नहीं । उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

^१ देखो पृष्ठ ८४ (भगवान्की जगह, मैं रखकर) ।

^२ उस समय और उसके बाद पाँच शताब्दियों तक बुद्धके उपदेश कण्ठस्थही रखे जाते थे ।

^३ देखो पिछला पैरा ।

“अच्छा भन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“जैसे भिक्षुओं ! पुरुष अ-स्थान-मार्ग (= जे स्थानके रास्ते) पर जाते एक ऐसे महान् जल-अर्णवको प्राप्त हो, जिसका उरला तीर खतरा और भयसे पूर्ण हो, और परला तीर क्षेमयुक्त और भयरहित हो । वहाँ न पार लेजानेवाली नाव हो, न इधरसे उधर जाने आनेके लिये पुल हो । (तय) उस (के मनमें) हो—‘अहो ! यह महान् जल-अर्णव है, इसका उरला तीर ० न इधरसे उधर जाने आनेके लिये पुल है । क्यों न मैं तृण-काष्ठ-पत्र जमाकर वेड़ा याँधूँ, और उस बेड़ेके सहारे हाथ और पैरसे मेहनत करते स्वस्तिपूर्वक पार उतर जाऊँ ।’ तय भिक्षुओं ! वह पुरुष ० बेड़ा याँधकर, उस बेड़ेके सहारे ० पार उतर जाये । उत्तीर्ण होजाने पर, पार चले जानेपर उसके (मनमें) ऐसा हो—‘यह वेड़ा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है, इसके सहारे ० मैं पार उतरा हूँ, क्यों न मैं इस बेड़ेको शिरपर रखकर, या कन्धेपर उठाकर जहाँ इच्छा हो वहाँ जाऊँ ।’ तो क्या मानते हो भिक्षुओं ! क्या वह ऐसा करनेवाला पुरुष उस बेड़ेमें कर्तव्य पालनेवाला होगा ?”

“नहीं, भन्ते !”

“भिक्षुओं ! वह पुरुष उस बेड़ेसे दुःख उठानेवाला (= फटकारी) होगा । भिक्षुओं ! यदि उत्तीर्ण पारंगत उस पुरुषको ऐसा हो—‘यह वेड़ा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है, इसके सहारे ० मैं पार उतरा हूँ, क्यों न मैं इसे स्थलपर रखकर, या पानीमें डालकर जहाँ इच्छा हो वहाँ जाऊँ ।’ भिक्षुओं ! ऐसा करनेवाला वह पुरुष उस बेड़ेमें कर्तव्य पालनेवाला होगा । ऐसेही भिक्षुओं ! मैंने बेड़ेकी भाँति निस्तरणके लिये तुम्हें धर्मोंको उपदेशा है, पकड़ रखनेके लिये नहीं । धर्मको बेड़ेके समान (= कुल्लूपम) उपदेशा जानकर तुम धर्मको भी छोड़ दो, अ-धर्मकी तो बात ही क्या ।

“भिक्षुओं ! यह छः दृष्टि (= धारणा)-स्थान हैं कौनसे छः ?—भिक्षुओं ! आर्योंके दर्शनसे वंचित ०^१ अज्ञ अनाडी पुरुष (१) रूप (= Matter)^२ को—‘यह मेरा है,’ ‘यह मैं हूँ,’ ‘यह मेरा आत्मा है’—इस प्रकार समझता है । (२) वेदनाको ० । (३) संज्ञाको ० । (४) संस्कारको ० । (५) विज्ञानको—‘यह मेरा है,’ ‘यह मैं हूँ,’ ‘यह मेरा आत्मा है’—इस प्रकार समझता है । (६) जो कुछ भी यह देखा, सुना, यादमें आया, ज्ञात, प्राप्त, पर्योपित (= खोजा), और मनद्वारा अनुविचारित (पदार्थ) है, उसे भी (वह)—‘यह मेरा है,’ ‘यह मैं हूँ,’ ‘यह मेरा आत्मा है’—इस प्रकार समझता है । जो यह (छः) दृष्टि-स्थान है, ‘सो लोक है, सोई आत्मा हूँ, मैं मरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाश्वत, निर्विकार (= अविपरिणामधर्मा) आत्मा होऊँगा, और अनन्त वर्षों (= शाश्वती समा) तक वैसे ही स्थित रहूँगा’—इसे भी ‘यह मेरा है,’ ‘यह मैं हूँ,’ ‘यह मेरा आत्मा है’—इस प्रकार समझता है ।

“भिक्षुओं ! आर्योंके दर्शनसे युक्त, आर्यधर्मसे परिचित, आर्यधर्ममें विनीत (= प्राप्त); सत्पुरुषोंके दर्शनसे युक्त, ० परिचित, ० विनीत, श्रुतवान् (= ज्ञानी) आर्य श्रावक—(१) रूप

^१ देखो शृष्ठ ३ ।

^२ रूप, वेदना, संज्ञा, सत्कार, विज्ञान यही पाँच स्कंध जगत्की निर्मापक सामग्री हैं । पृथिवी, जल, अग्नि, वायु यह चार रूप-स्कंध हैं । जिसमें मारीपन है, और जो जगह धरता है, वह रूप (= Matter) है । उससे उल्टा विज्ञान (= Mind) स्कंध है । दोनोंके सम्पर्कसे होनेवाली विज्ञानकी तीन अवसायें बाकी तीन स्कंध हैं ।

को—‘यह मेरा नहीं’, ‘यह मैं नहीं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा नहीं है,—इस प्रकार समझता है। (२) वेदनाको ०। (३) संज्ञाको ०। (४) संस्कारको ०। (५) विज्ञानको ०। (६) जो कुछ भी यह देखा ०। जो यह (छः) दृष्टि-स्थान हैं ० ‘यह मेरा आत्मा नहीं है’—इस प्रकार समझता है। वह इस प्रकार समझते हुये अशनि-त्रास (= भय) को नहीं प्राप्त होता।”

ऐसा कहनेपर किसी भिक्षुने भगवान्से यह कहा—“भन्ते! क्या वाहर अशनि-परित्रास है?”

भगवान्ने कहा—“होता है भिक्षु! यहाँ! भिक्षु! किसीको ऐसा होता है—‘अहो! (पहले) यह मेरा था’, ‘अहो! अब यह मेरा नहीं है’, ‘अहो! मेरा होवे’, ‘अहो! उसे मैं नहीं पाता हूँ’—(वह) इस प्रकार शोक करता है, दुःखित होता है, रोता है, छाती पीटकर क्रन्दन करता है, मूर्च्छित होता है। इस प्रकार भिक्षु! वाहर अशनि-परित्रास होता है।”

“किन्तु, भन्ते! क्या वाहर अशनि-अपरित्रास होता है?”

भगवान्ने कहा—“होता है भिक्षु! यहाँ भिक्षु! किसी (पुरुष)को ऐसा नहीं होता—‘अहो! (पहिले यह) मेरा था’, ० ‘अहो! उसे मैं नहीं पाता हूँ’—(वह) इस प्रकार शोक नहीं करता ० मूर्च्छित नहीं होता। इस प्रकार भिक्षु! वाहर अशनिका परित्रास नहीं होता।

“कैसे भन्ते! भीतरमें अशनि-परित्रासन होता है?”

भगवान्ने कहा—“होता है भिक्षु! यहाँ भिक्षु! किसीकी यह दृष्टि (= धारणा) होती है—‘सो लोक है, सोई आत्मा है; मैं मरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाश्वत, निर्विकार होऊँगा; और अनन्त वर्षोंतक वैसेही स्थित रहूँगा।’ वह तथागत (= बुद्ध) तथागत-श्रावक (= ०-शिष्य) को सारे ही दृष्टि-स्थानों, (दृष्टियोंके) अधिष्ठान (= रहनेके स्थान), पर्युत्थान (= उठने उपजने), अभिनिवेश (= आग्रह) और अनुशयों (= मलों)के विनाशके लिये सारे संस्कारों (= दिलके प्रभावों)के शमन करनेके लिये; सारी उपाधियोंके परित्यागके लिये; (और) तृष्णाके क्षयके लिये; विराग, निरोध (= राग आदिके नाश) और निर्वाणके लिये धर्म उपदेश करते सुनता है। उसको ऐसा होता है—‘अहो! मैं उच्छिन्न होऊँगा, अहो! मैं नष्ट होजाऊँगा; (हाय!) मैं नहीं रहूँगा!’—वह शोक करता है ०^१ मूर्च्छित होता है। इस प्रकार भिक्षु! वह अशनि-परित्रास (= विजलीसा भय) होता है।

“कैसे भन्ते! (चित्तके) भीतर अशनिका-परित्रास नहीं होता?”

भगवान्ने कहा—“होता है भिक्षु! यहाँ भिक्षु! किसीकी यह दृष्टि नहीं होती—‘सो लोक है ०^२’ न मूर्च्छित होता है। इस प्रकार भिक्षु! वह अशनिका परित्रास नहीं होता।

“भिक्षुओ! उस परिग्रह (= ग्रहणकरनेकी वस्तु)को परिग्रहण (= ग्रहण) करना चाहिये, जो परिग्रह कि नित्य, ध्रुव, शाश्वत, निर्विकार अनन्त वर्ष वैसेही (= एक समान) रहे। भिक्षुओ! देखते हो ऐसे परिग्रहको, जो कि ० अनन्त वर्ष तक वैसेही रहे?”

“नहीं भन्ते!”

“साधु, भिक्षुओ! मैं भी ऐसे परिग्रहको नहीं देखता, जो कि ० अनन्त वर्षतक वैसेही रहे। भिक्षुओ! उस आत्म-वाद (= आत्माके सिद्धान्त)-स्वीकारको स्वीकारे, जिस आत्मवाद-स्वीकारके स्वीकारने (= सकारने)से शोक, परिदेव (= कलपकर रोना), दुःख = दौर्मनस्य, उपायास (= परेशानी) न उत्पन्न हों। भिक्षुओ! देखते हो, ऐसे आत्मवाद-स्वीकारको, जिस आत्मवादके स्वीकारसे शोक परिदेव ० न उत्पन्न हों।

“नहीं, भन्ते !”

“साधु, भिक्षुओ ! मैं भी ऐसे आत्मवाद-स्वीकारको नहीं देखता, जिस आत्मवाद-स्वीकारसे शोक ० न उत्पन्न हों । भिक्षुओ ! उस दृष्टि-निश्चय (= धारणाके विषय)का आश्रय लेना चाहिये; जिस दृष्टि-निश्चयके आश्रय लेनेपर शोक ० न उत्पन्न हों । भिक्षुओ ! देखते हो, ऐसे दृष्टि-निश्चयको, जिस ० ?”

“नहीं, भन्ते !”

“साधु, भिक्षुओ ! मैं भी ऐसे दृष्टि-निश्चयको नहीं देखता ० । भिक्षुओ ! आत्माके होने पर ‘(यह) मेरा आत्मीय है’—यह हो सकता है ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! आत्मीय होनेपर, ‘(यह) मेरा आत्मा (है)’—हो सकता है ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! आत्मा और आत्मीयके ही सत्यतः = स्थिरतः उपलब्ध होनेपर, जो यह दृष्टि-स्थान—‘सोई लोक है, सोई आत्मा है, मैं भरकर सोई नित्य ०’^१ अनन्त वर्षा तक वैसे ही स्थित रहूँगा । भिक्षुओ ! क्या यह केवल पूरा बाल-धर्म (= चञ्चोकीसी बात) नहीं है ?”

“क्यों नहीं ? है भन्ते ! केवल पूरा बाल-धर्म ।”

“तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य ?”

“अनित्य है, भन्ते !”

“जो अ-नित्य है वह दुःख (-रूप) है या सुख (-रूप) ?”

“दुःख (-रूप) है भन्ते !”

“जो अ-नित्य, दुःख (-स्वरूप) और विपरिणाम-धर्मा (= परिवर्तनशील, विकारी) है, क्या उसके लिये ऐसा देखना—‘यह मेरा है’, ‘यह मैं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा है’—योग्य है ?”

“नहीं, भन्ते !”

“तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! वेदना नित्य है या अनित्य ?”

“अ-नित्य है, भन्ते !” ०^२।

“० संज्ञा ०^३, ० संस्कार ०^१, ० विज्ञान नित्य है या अ-नित्य ?”

“अ-नित्य है, भन्ते !”

“जो अ-नित्य, दुःख, और विपरिणाम-धर्मा है, क्या उसके लिये ऐसा देखना—० ‘यह मेरा है’ ०—योग्य है ?”

“नहीं, भन्ते !”

“इसलिये भिक्षुओ ! भीतर (शरीरमें) या बाहर, स्थूल या सूक्ष्म, उत्तम या निकृष्ट, दूर या नजदीक, जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमानका रूप है, वह सब—‘यह मेरा नहीं है’, ‘यह मैं नहीं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा नहीं है’,—ऐसे ही यथार्थतः ठीकसे जानकर देखना चाहिये । ० जो कुछ भी ० वेदना है ० । ० जो कुछ भी ० संज्ञा है ० । ० जो कुछ भी ० संस्कार है ० । ० जो कुछ भी ० विज्ञान है, वह सब—‘यह (= विज्ञान) मेरा नहीं है’, ‘यह मैं नहीं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा नहीं है’—० जानकर देखना चाहिये ।

^१ देखो ऊपर ।

^२ रूपकी भाँति यहाँ भी प्रश्नोत्तर है ।

“भिक्षुओ ! ऐसा देखनेपर बहुश्रुत आर्यश्रावक रूपमें भी निर्वेद (= उदासीनता) को प्राप्त होता है, वेदनामें भी ०, संज्ञामें भी ०, संस्कारमें भी ०, विज्ञानमें भी निर्वेदको प्राप्त होता है । निर्वेदसे विरागको प्राप्त होता है । विराग प्राप्त होनेपर (राग आदिसे) विमुक्त हो जाता है । विमुक्त (= मुक्त) होने पर ‘मैं विमुक्त होगया’—यह ज्ञान होता है; फिर जानता है—जन्म क्षय हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया, करणीय कर लिया, यहाँ और (कुछ भी) करनेको नहीं है । भिक्षुओ ! यह भिक्षु उत्क्षिप्त-परिग्रह (= जूयेसे मुक्त) भी, संकीर्ण-परिग्रह (= खार्ड पार) भी, अ-व्यूढ-हरीसिक (= जो हलकी हरीस जैसे दुनियाके भारोंको नहीं उठाये हैं) भी, निरर्गल (= लगामरूपी संसारके बंधनसे मुक्त) भी, आर्य, पन्त-ध्वज (= जिसकी राग आदि रूपी ध्वजा गिर गई है), पन्त-भार (= जिसका भार गिर गया है), वि-संयुक्त (= राग आदिसे वियुक्त) भी कहते हैं । भिक्षुओ ! कैसे भिक्षु उत्क्षिप्त-परिग्रह होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षुने अ-विद्याको नाश कर दिया है, उच्छिन्नमूल, मस्तकच्छिन्न ताडके वृक्ष जैसा, अभावको प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक कर दिया है । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु उत्क्षिप्त-परिग्रह होता है । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु संकीर्ण-परिग्रह होता है ?—० भिक्षुने पौनर्भविक (= पुनर्जन्म-संबंधी) जाति-संस्कार (= जन्म दिलानेवाले पूर्वकृत कर्मोंके चित्तप्रवाहपर पड़े संस्कार)को नाश कर दिया है ०^१ संकीर्ण-परिग्रह होता है । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु अ-व्यूढ-हरीसिक होता है ?—०^१ तृष्णाको नाश कर दिया है ० । ० निरर्गल होता है ?—० पाँच अवरभागीय^२ संयोजनों (= बंधनों)को नाश कर दिया है ० । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु आर्य, पन्तध्वज, पन्तभार, विसंयुक्त होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षुका अस्मिमान (= हूँका अभिमान) नष्ट होता है ० भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक किया गया होता है । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु आर्य होता है । भिक्षुओ ! इस प्रकार मुक्तचित्त भिक्षुको इन्द्र, ब्रह्मा प्रजापति सहित (सारे) देवता नहीं जान सकते, कि इस तथागतका विज्ञान इसमें निश्चित है । सो किस हेतु ?—भिक्षुओ ! इसी शरीरमें ही तथागत अन्-अनुवेद्य (= अ-ज्ञेय) है—यह कहता हूँ ।

“भिक्षुओ ! ऐसे वाद (को मानने)वाले, ऐसा कहनेवाले सुभे, कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण अ-सत्य, तुच्छ, सृष्टा = अ-भूतसे ही झूठ लगाते हैं—श्रमण गौतम वैनयिक (= विना या नहींके वादको माननेवाला) है, (वह) विद्यमान सत्त्व (= जीव, आत्मा)के उच्छेद = विनाश = विभवका उपदेश करता है । भिक्षुओ ! जो कि मैं नहीं कहता, वह आप श्रमण ब्राह्मण लोग इस असत्य, तुच्छ, सृष्टा अ-भूत (कथन)से (मुझपर) झूठ लगाते हैं—श्रमण गौतम ० विभवका उपदेश करता है । भिक्षुओ ! पहिले भी और अब भी मैं उपदेश करता हूँ—दुःखको, और दुःख-निरोध को ० । वहाँ यदि भिक्षुओ ! दूसरे तथागतको निन्दते=परिभाषते, खुन्साते हैं; उससे भिक्षुओ ! तथागतको चोट (= आघात), अ-प्रत्यय (= अ-संतोष) और चित्त-विकार नहीं होता । और यदि भिक्षुओ ! दूसरे तथागतका सत्कार = गुरुकार, मानन = पूजन करते हैं; तो भिक्षुओ ! उससे तथागतको आनन्द = सौमनस्य चित्तका असन्नताऽतिरेक नहीं होता । भिक्षुओ ! जब दूसरे तथागतका सत्कार ० करते हैं, तो तथागतको ऐसा होता है—जो पहिले (ही) त्याग दिया है, उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य किये जा रहे हैं । इसलिये भिक्षुओ ! यदि दूसरे तुम्हें भी निन्दें; तो उसके लिये

^१ पहले जैसे । ^२ उरले भागवाले अर्थात् संसारमें फँसा रखनेवाले, यह पाँच हैं—(१) सत्काय दृष्टि (= आत्मवादकी धारणा), विचिकित्सा (= संशय), शीलव्रत-परामर्श (= व्रत आचरणका अनुचित-अभिमान), कामच्छन्द (= भोगोंमें राग), व्यापाद (= पीढकवृत्ति) ।

तुम्हें चोट, असन्तोष, चित्त-विकार नहीं आने देना चाहिये । और इसलिये भिक्षुओ ! यदि दूसरे तुम्हारा सत्कार ० करें, तो उसके लिये तुम्हें आनन्द ० नहीं करना चाहिये । अतः भिक्षुओ ! यदि दूसरे तुम्हारा सत्कार ० करें, तो उसके लिये तुम्हें भी ऐसा होना चाहिये—जो पहिले त्याग दिया है, उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य किये जा रहे हैं ।

“इसलिये भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकालतक तुम्हारे हित सुखके लिये होगा । भिक्षुओ ! क्या तुम्हारा नहीं है ?—रूप भिक्षुओ ! तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकाल तक तुम्हारे हित सुखके लिये होगा । ० वेदना ० । ० संज्ञा ० । ० संस्कार ० । ० विज्ञान ० । तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! इस जेतघन में जो तृण, काष्ठ, शाखा, पत्र है; उसे (कोई) आदमी अपहरण करे, जलाये या (अपनी) इच्छानुसार (जो चाहे सो) करे, तो क्या तुम्हें ऐसा होना चाहिये—हमारी (चीज़)को (यह) आदमी अपहरण ० कर रहा है ?”

“नहीं, भन्ते !”

“सो कित्त हेतु ?”

“भन्ते ! वह हमारा आत्मा या आत्मीय नहीं है ।”

“ऐसे ही भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, ० उसका छोड़ना, चिरकाल तक तुम्हारे हित-सुखके लिये होगा । भिक्षुओ ! क्या तुम्हारा नहीं है ?—रूप ०^१ । ० वेदना ० । ० संज्ञा ० । ० संस्कार ० । ० विज्ञान ० ।

“भिक्षुओ ! इस प्रकार मैंने धर्मका उत्तान = विवृत = प्रकाशित, आवरणरहित (= छिन्न-विलोपित) (करके) अच्छी तरह व्याख्यान किया (= स्वाख्यात) है । ऐसे ० स्वाख्यात धर्ममें, उन भिक्षुओंके लिये कुछ उपदेश करनेकी जरूरत नहीं है, जो कि (१) अर्हत्, क्षीणास्रव (= राग आदि भल जिनके नष्ट हो गये हैं), ब्रह्मचर्यवास पूरा कर चुके, कृतकरणीय, भारमुक्त, सच्चे अर्थको प्राप्त, परिक्षीण-भ्रव-संयोजन (= जिनके भवसागरमें डालनेवाले बंधन नष्ट हो गये हैं), सम्यग्ज्ञाविमुक्त (= यथार्थ ज्ञानसे जिनकी मुक्ति होगई है) हैं । (२) भिक्षुओ ! ऐसे ० स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके पाँच अवरभागीय संयोजन^२ नष्ट हो गये हैं, वह सभी औपपातिक (= अयोनिज, देव) हो वहाँ (देवलोकमें) जा परिनिर्वाणको प्राप्त होनेवाले हैं, (वह) उस लोकसे लौटकर नहीं आनेवाले (= अनावृत्तिधर्मा = अनागामी) हैं, (३) भिक्षुओ ! ऐसे ० स्वाख्यातधर्ममें जिन भिक्षुओंके तीन संयोजन नष्ट हो गये हैं, राग-द्वेष-मोह निर्बल (= तनु) हो गये हैं, वह सारे सकृदागामी = सकृद् (= एक बार) ही इस लोकमें आकर दुःखका अन्त करेंगे । ... (४) भिक्षुओ ! ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके तीन संयोजन नष्ट हो गये, वह सारे न पतित होनेवाले संबोधि (= बुद्धके ज्ञान)-परायण स्रोत-अपन्न (= निर्वाणकी ओर ले जाने-वाले प्रवाहमें स्थिर रीतिसे आरूढ़) हैं । ... भिक्षुओ ! ऐसे ० स्वाख्यात धर्ममें जो भिक्षु श्रद्धानुसारी, धर्मानुसारी है, वह सभी संबोधि-परायण है । इस प्रकार मैंने धर्मका ० अच्छी तरह व्याख्यान किया है । ऐसे ० स्वाख्यात धर्ममें जिनकी मेरे विषयमें श्रद्धा मात्र प्रेम मात्र (भी) है, वह सभी स्वर्ग-परायण (= स्वर्गागामी) हैं ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

२३—वम्मिक-सुत्तन्त (१।३।३)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् कुमार काश्यप अन्धवनमें विहार करते थे। तब उजेली रातमें कोई अभिक्रान्त वर्ण (= प्रकाशमय) देवता सारे अन्धवनको प्रभासित कर, जहाँ आयुष्मान् कुमार काश्यप थे वहाँ जाकर, एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खड़े हुये उस देवताने आयुष्मान् कुमार काश्यपसे यह कहा—

“भिक्षु ! भिक्षु ! यह वल्मीक रातको धुँधुँवाता (= धुँवा देता) है, दिनको बलता (= ज्वलित होता) है। ब्राह्मणने ऐसा कहा—

‘सुमेध ! शख ले अभीक्षण (= काट) ।’

सुमेधने शख ले काटते लंगीको देखा—‘लंगी है भदन्त (= स्वामी) !’

ब्राह्मणने यह कहा—‘लंगीको फेंक, सुमेध ! शख ले काट ।’

सुमेधने ० धुँधुँवाना देखा—‘धुँधुँवाता है, भदन्त !’

ब्राह्मणने यह कहा—‘धुँधुँवानेको फेंक, सुमेध ! ० ।’

सुमेधने ० दो रास्ते देखे—‘दो रास्ते हैं, भदन्त !’

ब्राह्मणने ०—‘दो रास्ते फेंक (= छोड़), सुमेध ! ० ।’

सुमेधने ० चंगवार (= चंगौरा = टोकरा) देखा—‘चंगवार है, भदन्त !’

ब्राह्मणने ०—‘चंगवार फेंक दे, सुमेध ! ० ।’

सुमेधने ० कूर्म (= कछुवा) देखा—‘कूर्म है, भदन्त !’

ब्राह्मणने ०—‘कूर्म फेंक दे, सुमेध ! ० ।’

सुमेधने ० असिसूना (= पशु मारनेका पीड़ा) देखा—‘असिसूना है, भदन्त !’

ब्राह्मणने ०—‘असिसूना फेंक दे, सुमेध ! ० ।’

सुमेधने ० मांसपेशी (= मांसका टुकड़ा) देखा—‘मांसपेशी है, भदन्त !’

ब्राह्मणने ०—‘मांसपेशी फेंक दे, सुमेध ! ० ।’

सुमेधने ० नाग देखा—‘नाग है, भदन्त !’

ब्राह्मणने ०—‘रहने दे नागको, मत उसे धक्का दे, नागको नमस्कार कर ।’

“भिक्षु ! इन प्रश्नोंको तुम भगवान्के पास जाकर पूछना। भगवान् जैसा इसका उत्तर दें, उसे धारण करना। भिक्षु ! देव-मार-ब्रह्मा सहित सारे लोकमें, श्रमण-ब्राह्मण देव-मानुष सहित सारी प्रजामें, मैं ऐसे (पुरुष)को नहीं देखता, जो इस प्रश्नका उत्तर दे चित्तको सन्तुष्ट करे; सिवाय तथागत, तथागत-श्रावक या यहाँसे सुने हुयेके ।”

वह देवता यह कह कर वहीं अन्तर्ध्यान होगया।

तब आयुष्मान् कुमार काश्यप उस रातके वीतनेपर जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर, अभिवादनकर, एक ओर...वैठ, भगवान्से यह बोले—

“भन्ते ! आज रातको एक अमिक्रान्तवर्ण देवता सारे अन्धवनको अभासित कर, जहाँ मैं था, वहाँ आकर एक ओर खड़ा हुआ, एक ओर खड़ा हो उस देवताने मुझे यह कहा—०^१ । वह देवता यह...कहकर वहीं अन्तर्धान होगया ।

“भन्ते ! (१) क्या है वल्मीक ? (२) क्या है रातका धुँधुँवाना ? (३) क्या है दिनका घघकना ? (४) कौन है ब्राह्मण ? (५) कौन है सुमेध ? (६) क्या है शख ? (७) क्या है अभीक्षण (= काटना) ? (८) क्या है लंगी ? (९) ० धुँधुँवाना ? (१०) ० दो रास्ते ? (११) ० चंगवार ? (१२) ० कूर्म ? (१३) ० असिसूना ? (१४) ० मालपेशी ? (१५) क्या है नाग ?”

“भिक्षु ! (१) वल्मीक यह माता-पिता से उत्पन्न भात-दालसे वर्धित, इसी चातुर्महा-भौतिक कायाका नाम है, जो कि अनित्य तथा, उत्सादन (= हटाने) मर्दन, भेदन, विध्वंसन स्वभाववाला है । (२) भिक्षु ! जो दिन के कामोंके लिये रातको सोचता है, विचारता है, यही रातका धुँधुँवाना है । (३) भिक्षु ! जो कि रातको सोच विचारकर दिनको काया और वचनसे कामोंमें योग देता है, यह दिनका घघकना है । (४) ...ब्राह्मण यह तथागत, अर्हत्, सन्यस्क-संबुद्धका नाम है । (५) सुमेध यह शैक्ष्य (= जिसको शिक्षाकी अभी आवश्यकता है, ऐसा निर्वाण-मार्गारूढ व्यक्ति) भिक्षुका नाम है । (६) ० शख (= हथियार) यह आर्य प्रज्ञा (= उत्तम ज्ञान)का नाम है । (७) ० अभीक्षण (= काटना) यह वीर्यारम्भ (= उद्योग)का नाम है । (८) ० लंगी अविद्याका नाम है । ‘लंगीको फेंक, सुमेध !’ अविद्या को छोड़, सुमेध ! शख ले काट—यह इसका अर्थ है । (९) ० धुँधुँवाना यह क्रोधकी परेशानीका नाम है, धुँधुँ-आना फेंक दे, सुमेध ! क्रोध-उपायासको छोड़, शख ले काट—यह इसका अर्थ है । (१०) ० दो रास्ते (= द्विपापय) यह विचिकित्सा (= संशय)का नाम है । दो रास्ते फेंक दे, विचिकित्सा छोड़, सुमेध ! ० । (११) ० चंगवार यह पाँच नीवरणों (= आवरणों) का नाम है, (जैसे कि) कामच्छन्द (= भोगोंमें राग)-नीवरण, व्यापाद (= परपीडाकरण)-नीवरण, स्थानसृद्ध (= कायिक मानसिक आलस्य)-नीवरण, औद्धत्य-कौकृत्य (= उच्छृंखलता और पश्चात्ताप)-नीवरण, विचिकित्सा (= संशय)-नीवरण । ‘चंगवार फेंक दे’—पाँच नीवरणोंको छोड़ दे, सुमेध ! ० । (१२) ० कूर्म यह पाँच उपादान-स्कंधोंका नाम है, जैसे कि—रूप-उपादान-स्कन्ध, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० । ‘कूर्मको फेंक दे’—अर्थात् पाँच उपादान-स्कंधोंको छोड़, सुमेध ! ० । (१३) ० असिसूना यह पाँच कामगुणों (= भोगों)का नाम है, (जैसे कि) इष्ट कान्त मनाप = प्रिय, कमनीय, रंजनीय चक्षुद्वारा विज्ञेय रूप ०, श्रोत्र-विज्ञेय शब्द ०, घ्राण-विज्ञेय गंध ०, जिह्वा; विज्ञेय रस-इष्ट, कान्त, मनाप = प्रिय, कमनीय = रंजनीय काय-विज्ञेय स्पर्शव्य । ‘असिसूना फेंक दे’—पाँच कामगुणोंको छोड़, सुमेध ! ० । (१४) मालपेशी यह नन्दी = रागका नाम है । ‘मालपेशी फेंक दे’—नन्दी रागको छोड़ दे, सुमेध ! ० । (१५) भिक्षु ! नाग यह क्षीणास्रव (= अर्हत्) भिक्षुका नाम है । रहने दे नागको, मत उसे घका दे, नागको नमस्कार कर, यह इसका अर्थ है ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्टहो आयुष्मान् कुमार-काश्यपने भगवान्के भाषणका अमि-नन्दन किया ।

^१ पीछे कहे गयेकी आशुति ।

^२ रूप आदि पाँच स्कंधोंमें व्यक्तिके ग्रहणका विषयवाला अंश उपादान-स्कंध कहा जाता है ।

२४—स्थविनीत-सुत्तन्त (१३१४)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें कलन्दक-निघाप वैणुवनमें विहार करते थे । तब बहुतसे जातिभूमिक (= भगवान्की जन्मभूमि कपिल वस्तुमें रहनेवाले) जातिभूमि (= कपिल-वस्तु)में वर्षावास कर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्षुओंको भगवान्ने यह कहा—

“भिक्षुओ ! जातिभूमिमें जातिभूमिके भिक्षुओंका कौन ऐसा सम्भावित (= प्रतिष्ठित) भिक्षु है, जो स्वयं अल्पेच्छ (= निर्लोभ) हो, और भिक्षुओंके लिये अल्पेच्छ-कथा (= निर्लोभीपनके उपदेश)का कहनेवाला हो; स्वयं सन्तुष्ट हो, और भिक्षुओंके लिये सन्तोष-कथाका करनेवाला हो; स्वयं प्रविविक्त (= एकान्त-चिन्तनशील) हो, ० प्रविवेक-कथा ०; स्वयं असंसृष्ट (= अनासक्त) हो, ० असंसर्ग-कथा ०; स्वयं आरब्ध-वीर्य (= उद्योगी) हो, ० वीर्यारम्भ-कथा ०; स्वयं शील-सम्पन्न (= सदाचारी) हो, ० शील-सम्पदा-कथा ०; स्वयं समाधि-सम्पन्न हो, ० समाधि-सम्पदा-कथा ०; स्वयं प्रज्ञा-सम्पन्न हो, ० प्रज्ञा-सम्पदा-कथा ०; स्वयं विमुक्ति (= मुक्ति)-सम्पन्न हो, ० विमुक्ति-सम्पदा-कथा ०; स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-सम्पन्न (= मुक्तिके ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर लिया) हो, ० विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-सम्पदा-कथा ०; जो सब्रह्मचारियों (= सहधर्मियों)के लिये अववादक (= उपदेशक), = विज्ञापक = सन्दर्शक, समादपक = समुत्तेजक, सम्प्रहर्षक (= उत्साह देनेवाला) हो ?”

“भन्ते ! जाति-भूमिमें, आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र हैं, जाति भूमिके सब्रह्मचारी भिक्षुओंके ऐसे सम्भावित हैं, जो स्वयं अल्पेच्छ ०^१ सम्प्रहर्षक हैं ।”

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र भगवान्के पास (= अ-विदूर)में बैठे हुये थे । तब आयुष्मान् सारिपुत्रको ऐसा हुआ—“अहो ! लाभ हैं (= धन्य हैं) आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र को, सुलब्ध (= सुन्दर तौरसे मिले हैं) लाभ आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको, जिसकी प्रदांसा समझ समझ कर विश्व सब्रह्मचारी (= गुरु-भार्द्द) शास्ताके सामने कर रहे हैं; और शास्ता (= बुद्ध) उसका अनुमोदन करते हैं । क्या कभी हमारा आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रके साथ समागम होगा, कभी कुछ कथा-संलाप होगा !”

तब भगवान् राजगृहमें यथेच्छ विहार कर, जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिका (= रामत)के लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती है, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् श्रावस्ती में अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रने सुना,

^१ ऊपरके पैरा जैसा ।

कि भगवान् श्रावस्तीमें पहुँच गये हैं, (और) • जेतवनमें विहार करते हैं । तब आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र शयन-आसन संभालकर, पात्र-चीवर ले जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती, अनाथ-पिंडिकका आराम जेतवन, (और) जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचे । पहुँचकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको भगवान्ने धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित=समादपित=समुत्तेजित सम्प्रहर्षित किया । तब आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र भगवान्की धार्मिक कथा द्वारा • सम्प्रहर्षित हो, भगवान्के भाषणका अभिनन्दन = अनुमोदन कर, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर; जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनके विहारके लिये गये ।

तब कोई भिक्षु... आयुष्मान् सारिपुत्रके पास जाकर... यह बोला—“आबुस सारिपुत्र ! जिन पूर्ण मैत्रायणीपुत्र... भिक्षुका आप वरावर नाम लिया करते थे, वह भगवान्की धार्मिक कथा द्वारा • प्रहर्षित हो, • भगवान्को अभिवादनकर • जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनके विहारके लिये गये ।”

तब आयुष्मान् सारिपुत्र शीघ्रतासे आसन ले आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रके पीछे (उनका) शिर देखते चल पड़े । तब आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र अन्धवनमें घुसकर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे । आयुष्मान् सारिपुत्र भी अन्धवनमें घुसकर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे । तब आयुष्मान् सारिपुत्र सायंकालको प्रतिसँछयन (= ध्यान)से उठ, जहाँ आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रके साथ... (यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ) एक ओर... बैठे, आयुष्मान् सारिपुत्रने आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रसे यह कहा—

“आबुस ! हमारे भगवान्के पास (आप) ब्रह्मचर्यवास करते हैं ?”

“हाँ, आबुस !”

“क्यों आबुस ! शील-विशुद्धि (= आचार-शुद्धि)के लिये भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास करते हैं ?”

“नहीं, आबुस !”

“अ्या फिर आबुस ! चित्त-विशुद्धिके लिये • ?”

“नहीं, आबुस !”

“अ्या फिर • दृष्टि-विशुद्धि (= सिद्धान्त ठीक करने)के लिये • ?”

“नहीं, आबुस !”

“अ्या फिर • सन्देह दूर करनेके लिये (= काक्षा-वितरण-विशुद्धयर्थ) • ?”

“नहीं, आबुस !”

“अ्या फिर • मार्ग-अमार्ग-ज्ञानके दर्शन (= समझ, साक्षात्कार)की विशुद्धिके लिये • ?”

“नहीं आबुस !”

“अ्या फिर • प्रतिपद् (= मार्ग)-ज्ञान-दर्शनकी विशुद्धिके लिये • ?”

“नहीं, आबुस !”

“अ्या फिर • ज्ञान-दर्शनकी विशुद्धिके लिये ?”

“नहीं आबुस !”

“आबुस ! ‘शील-विशुद्धिके लिये क्या आप भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास करते हैं’, पूछनेपर ‘नहीं आबुस !’ कहते हो । • ‘ज्ञानदर्शनकी विशुद्धिके लिये क्या आप भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास

करते हैं—पूछनेपर भी 'नहीं, आवुस !'—कहते हो । तो आवुस ! किसलिये भगवान्के पास आप ब्रह्मचर्यवास करते हैं ?"

"उपादान (= परिग्रह)-रहित परिनिर्वाणके लिये आवुस ! मैं भगवान्के पास ब्रह्मचर्य-वास करता हूँ ।"

"क्या आवुस ! शील-विशुद्धि उपादानरहित परिनिर्वाण है ?"

"नहीं, आवुस ।" ०^१

"क्या आवुस ! ज्ञान-दर्शन-विशुद्धि उपादान-रहित परिनिर्वाण है ?"

"नहीं, आवुस !"

"क्या आवुस ! इन (ऊपर गिनाये) धर्मोंसे अलग है, उपादानरहित परिनिर्वाण ?"

"नही, आवुस !"

"क्या आवुस ! शील-विशुद्धि उपादानरहित परिनिर्वाण है ?—पूछनेपर 'नहीं आवुस !' कहते हो । ० । 'क्या आवुस ! इन धर्मोंसे अलग है, उपादान-रहित परिनिर्वाण ?'—पूछनेपर 'नहीं आवुस ० ।' तो फिर आवुस ! इस (आपके) कथनका अर्थ किस प्रकार समझना चाहिये ?"

"आवुस ! शील-विशुद्धिको यदि भगवान् उपादानरहित परिनिर्वाण कहते, तो उपादान-सहित परिनिर्वाणहीको उपादानरहित परिनिर्वाण कहते । ०^१ । आवुस ज्ञान-दर्शन-विशुद्धिको यदि भगवान् उपादान-रहित परिनिर्वाण कहते, तो उपादानसहित परिनिर्वाणहीको उपादान-रहित परिनिर्वाण कहते । आवुस ! इन धर्मोंसे अलग यदि उपादानरहित परिनिर्वाण होता, तो पृथग्जन (= निर्वाणका अनधिकारी) भी परिनिर्वाणको प्राप्त होगा । (क्योंकि) आवुस ! पृथग्जन इन धर्मोंसे अलग है । तो आवुस ! तुम्हें एक उपमा (= दृष्टान्त) कहता हूँ, उपमासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष कहेका अर्थ समझते हैं ।

"जैसे आवुस ! राजा प्रसेनजित् कोसलको श्रावस्तीमें बसते कोई अत्यावश्यक काम साकेतमें उत्पन्न हो जाये । (तब) उसके लिये श्रावस्ती और साकेतके बीचमें सात रथविनीत (= डाक) स्थापित करें । तब आवुस ! राजा प्रसेनजित् कोसल श्रावस्तीसे निकलकर अन्तःपुर (= राजमहल वाला भीतरी दुर्ग)के द्वारपर पहिले रथ-विनीत (= रथकी डाक)पर चढ़े, पहिले रथविनीतसे दूसरे रथविनीतको प्राप्त होवे, (वहाँ) पहिले रथविनीतको छोड़दे, और दूसरे रथविनीतपर आरूढ़ हो । दूसरे रथविनीतसे तृतीय रथविनीतको प्राप्त होवे, (वहाँ) द्वितीय रथविनीतको छोड़दे, और तीसरे रथविनीतपर आरूढ़ हो । ० चौथे ० । ० पाँचवें ० । छठे रथविनीतको छोड़दे, और सातवें रथविनीतपर आरूढ़ हो । सातवें रथविनीतसे साकेतके अन्तःपुर के द्वारपर पहुँच जाये । तब अन्तःपुरके द्वारपर प्राप्त उसे मित्र, अमात्य, ज्ञाति=खालोहित ऐसा पूँछे—'क्या महाराज ! इसी रथविनीतद्वारा श्रावस्तीसे (चलकर) साकेतके अन्तःपुर द्वारपर पहुँच गये ? आवुस ! किस तरह उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित् (= पसेनदी) कोसलका ठीक उत्तर होगा ?"

"आवुस ! इस प्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित् कोसलका उत्तर ठीक उत्तर होगा—मुझे श्रावस्तीमें बसते मेरा कोई अत्यावश्यक काम साकेतमें उत्पन्न होगया । (तब) उसके लिये श्रावस्ती और साकेतके बीचमें सात रथविनीत स्थापित किये गये । तब मैं श्रावस्तीसे निकलकर ०^१ सातवें रथ-विनीतपर आरूढ़ हो सातवें रथविनीतसे साकेतके अन्तःपुर-द्वारपर पहुँच गया । इस प्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित् कोसलका उत्तर ठीक उत्तर होगा ।"

^१ पहिलेकी तरह दुहराना चाहिये ।

“ऐसे ही आवुस ! शील-विशुद्धि तभी तक (है) जब तक कि (पुरुष) चित्तविशुद्धि-को (प्राप्त नहीं होता) ; चित्त-विशुद्धि तभी तक जब तक कि दृष्टि-विशुद्धि-को (प्राप्त नहीं होता) ; दृष्टि-विशुद्धि तभी तक जब तक कि कांक्षावितरण-विशुद्धि-को (प्राप्त नहीं होता) ; ० जब तक कि मार्गामार्ग-ज्ञान-दर्शन-विशुद्धि-को ० ; ० जब तक कि प्रतिपद्-ज्ञान-दर्शन-विशुद्धि-को ; ० जब तक कि ज्ञान-दर्शन-त्रिशुद्धि-को ० , ज्ञान-दर्शन-विशुद्धि तभी तक (है) जब तक कि उपादान-रहित परिनिर्वाणको (प्राप्त नहीं होता) । आवुस ! अनुपादा (= उपादानरहित) परिनिर्वाणके लिये भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास करता हूँ ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् सारिपुत्रने आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रसे यह कहा—“आयुष्मान्का क्या नाम है; सब्रह्मचारी आयुष्मान्को (किस नामसे) जानते हैं ?”

“आवुस ! पूर्ण (मेरा) नाम है, मैत्रायणीपुत्र करके सब्रह्मचारी सुझे जानते हैं ।”

“आश्चर्य है आवुस ! अद्भुत आवुस !! जैसे शास्ता (= बुद्ध)के शासन (= उपदेश) को भली प्रकार जाननेवाला बहुश्रुत श्रावक गंभीर गंभीर प्रश्नोंको समझ समझ कर व्याख्यान करे; वैसे ही आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रने (व्याख्यान किया) । लाभ है सब्रह्मचारियोंको, लाभ सुलब्ध हुआ सब्रह्मचारियोंको, जो कि आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको दर्शन, और सेवनके लिये पाते हैं । चेलण्डुक (= अंगोला)से भी यदि सब्रह्मचारी आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको हाथसे धारण करके दर्शन और सेवनके लिये पावें; उनको भी लाभ है, उनको भी लाभ सुलब्ध हुआ है । हमें भी लाभ है, हमें भी लाभ सुलब्ध हुआ है, जोकि हम आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको दर्शन और सेवनके लिये पाते हैं ।”

ऐसा कहने पर आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रने आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह कहा—“आयुष्मान्का क्या नाम है; सब्रह्मचारी आयुष्मान्को (किस नामसे) जानते हैं ?”

“आवुस ! उपतिष्य मेरा नाम है, सारिपुत्र करके सुझे सब्रह्मचारी जानते हैं ।”

“अहो ! भगवान्के समान (= शास्त्र-कल्प) श्रावक (= बुद्ध-शिष्य)से संलाप करते हुये भी मैं नहीं जान सका, कि (यह) आयुष्मान् सारिपुत्र हैं । यदि हम जानते कि यह आयुष्मान् सारिपुत्र हैं, तो इतना भी हमें न सूझ पडता । आश्चर्य आवुस ! अद्भुत आवुस !! जैसे शास्ताके शासनको सम्यक् जाननेवाला बहुश्रुत श्रावक गंभीर गंभीर प्रश्नोंको समझ समझ कर व्याख्यान करे, वैसे ही आयुष्मान् सारिपुत्रने (व्याख्यान किया) । लाभ है सब्रह्मचारियोंको, लाभ सुलब्ध हुआ सब्रह्मचारियोंको ०^१ जो कि हम आयुष्मान् सारिपुत्रको दर्शन और सेवनके लिये पाते हैं ।”

इस प्रकार दोनों महानागों (= महावीरों)ने एक दूसरेके सुभाषितका सन्तुष्टोदन किया ।

^१ पीछे पूर्णके भाषणमें आयेके समान ।

२५—निवाप-सुत्तन्त (१।३।५)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! नैवापिके (= बहेलिया) मृगोंको (यह सोचकर) निवाप (मृगोंके शिकारके लिये जंगलके भीतर बोये खेत) नहीं बोता, कि इस मेरे बोये निवापको खाकर मृग दीर्घायु वर्णवान् (= सुन्दर) (हो) चिरकाल तक गुजारा करें । भिक्षुओ ! नैवापिके मृगोंके लिये (यह सोच) निवाप बोता है, कि मृग इस मेरे बोये निवापको अनुप-खज्ज (= खा कर) मूर्च्छित (= बेसुध) हो भोजन करेंगे, ...मूर्च्छित हो भोजन कर मदको प्राप्त होंगे, मदको प्राप्त हो प्रमादी होंगे; प्रमादी हो इस निवापके विषयमें स्वेच्छाचारी होंगे ।

“भिक्षुओ ! पहिले मृगोंने नैवापिकके इस बोये निवापको ...मूर्च्छित हो भोजन किया; ...मूर्च्छित हो भोजन कर मदको प्राप्त हुये, मदको प्राप्त (= मत्त) हो प्रमादी हुये; प्रमादी हो ...स्वेच्छाचारी हुये । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह पहिले मृग नैवापिकके चमत्कार (= ऋद्धय-नुभाव)से मुक्त नहीं हुये ।

“वहाँ भिक्षुओ ! दूसरे मृगोंने यह सोचा—‘जिन उन पहिले मृगोंने नैवापिकके इस बोये निवापको ...मूर्च्छित हो भोजन किया ०^१; नैवापिकके चमत्कारसे मुक्त नहीं हुये । क्यों न हम निवाप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो जायें, भयभोगसे विरत हो अरण्य-स्थानोंमें अवगाहन कर विहरें ।’ (तब) वह निवाप-भोजनसे सर्वथा विरत हुये, भय-भोग (= भयपूर्ण भोग)से विरत हो अरण्य-स्थानोंको अवगाहन कर विहरने लगे । ग्रीष्मके अन्तिम मासमें घास-पानी (= तृण-उदक)के क्षय होनेसे, उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया । अत्यन्त दुर्बल कायावाले उन (मृगों)का बल-वीर्य नष्ट हो गया । बलवीर्यके नष्ट हो जाने पर नैवापिकके बोये हुये उसी निवापको खानेके लिये लौटे । उन्होंने ...मूर्च्छित हो भोजन किया ०^१ इस प्रकार भिक्षुओ ! वह दूसरे मृग भी नैवापिकके चमत्कार (= जादू)से मुक्त नहीं हुये ।

“भिक्षुओ ! तीसरे मृगोंने यह सोचा—‘जिन उन पहिले मृगोंने नैवापिकके इस बोये निवापको ...मूर्च्छित हो भोजन किया ० मुक्त नहीं हुये । (तब) जिन उन दूसरे मृगोंने यह सोचा—०^१ निवाप-भोजनसे सर्वथा विरत हुये ० वह दूसरे मृग भी नैवापिकके ... (फन्दे)से मुक्त नहीं हुये । क्यों न हम नैवापिकके बोये इस निवापका आश्रय लें । वहाँ आश्रय ले ...इस ...

^१ पीछे आये पाठकी फिर आवृत्ति ।

निवापको...अ-मूर्छित (= न वेसुष) हो भोजन करें, अ-मूर्छित हो भोजन करनेसे हम मदको प्राप्त न होंगे, मदको न प्राप्त होनेसे प्रमादी नहीं होंगे, प्रमादी न होनेसे नैवापिकके इस निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं होंगे। (यह सोच) उन्होंने नैवापिकके धोये उस निवापका आश्रय लिया। आश्रय ले...निवापको...अमूर्छित हो भोजन किया, ० मदको प्राप्त नहीं हुये, ० प्रमादी नहीं हुये, ० स्वेच्छाचारी नहीं हुये। तब भिक्षुओ ! नैवापिक और नैवापिक-परिपद्को यह हुआ—‘यह चौथे मृग शठ पाखंडी (= केटुमी) हैं; यह तीसरे मृग ऋद्धिमान परजन हैं; यह इस छोड़े निवापको खाते हैं, किन्तु हम इनके गमन-आगमनको नहीं जानते। क्यों न हम इस छोड़े निवापके सारे प्रदेशको चढ़े चढ़े डंडोंके रूंधानसे चारों ओरसे घेर दें, जिसमें कि (इन) तीसरे मृगोंके आश्रयको देखें; जहाँ पर कि वह पकड़े जा सकते हैं’। (यह सोच) उन्होंने ० डंडोंके रूंधानसे घेर दिया। (फिर) भिक्षुओ ! नैवापिक और नैवापिक-परिपद्ने तीसरे मृगोंके आश्रय (= स्थान) को देखा, जहाँ कि वह पकड़े गये। इस प्रकार भिक्षुओ ! वह तीसरे मृग भी नैवापिकके... (फंदेसे) मुक्त नहीं हुये।

“भिक्षुओ ! चौथे मृगोने यह सोचा—‘जिन पहिले मृगोंने ०^१ मूर्छित हो भोजन किया ०^१ मुक्त नहीं हुये। जिन दूसरे मृगोंने ०^१, निवाप भोजनसे सर्वथा विरत हुये ०^१ मुक्त नहीं हुये। जिन तीसरे मृगोंने ०^१ अ-मूर्छित हो भोजन किया ०^१ मुक्त नहीं हुये। क्यों न हम (वहाँ) आश्रय (= स्थान) ग्रहण करें, जहाँ नैवापिक और नैवापिक-परिपद्की गति नहीं है। वहाँ आश्रय ग्रहण कर नैवापिकके इस धोये निवापको...अमूर्छित हो भोजन करें;...अमूर्छित हो भोजन करनेसे मदको न प्राप्त होंगे, ०^२। ०^२ ‘स्वेच्छाचारी न होंगे’ उन्होंने (तब) जहाँ नैवापिक और नैवापिक-परिपद्की गति न थी, वहाँ आश्रय ग्रहण किया। ० अमूर्छित हो भोजन किया ०^२ स्वेच्छाचारी नहीं हुये। तब भिक्षुओ ! नैवापिक और नैवापिक-परिपद्को यह हुआ—‘यह चौथे मृग शठ (= सथ) पाखंडी (= केटुमी) हैं, यह चौथे मृग ऋद्धिमान् (= होशियार) परजन हैं। (यह) हमारे छोड़े निवापको भोजन करते हैं, किन्तु हम इनके गमन-आगमनको नहीं जानते। क्यों न हम ०^२ चारों ओरसे घेर दें; जिसमें कि चौथे मृगोंके आश्रयको देखें; जहाँ पर कि वह पकड़े जा सकते हैं।’ (यह सोच) उन्होंने ० सारे प्रदेशको घेर दिया। (किन्तु) भिक्षुओ ! नैवापिक और नैवापिक-परिपद्ने चौथे मृगोंके आश्रयको नहीं देख पाया, जहाँ पर कि वह पकड़े जाते। तब भिक्षुओ ! नैवापिक और नैवापिक-परिपद्को यह हुआ—‘यदि हम चौथे मृगोंको घट्टित (= रगड़) करेंगे, तो वह घट्टित हो दूसरोंको घट्टित करेंगे, और वह घट्टित हो दूसरोंको घट्टित करेंगे। इस प्रकार सारे मृग इस धोये निवापको छोड़ देंगे; क्यों न हम चौथे मृगोंको उपेक्षा कर दें।’ (तब) भिक्षुओ ! नैवापिक और नैवापिक-परिपद्ने चौथे मृगोंको उपेक्षित किया। इस प्रकार भिक्षुओ ! चौथे मृग नैवापिकके... (फंदे) से छूटे।

“भिक्षुओ ! अर्थको समझानेके लिये मैंने यह उपमा (= इष्टान्त) कही है। भिक्षुओ ! निवाप यह पाँच काम-गुणों (= भोगों) का नाम है;...नैवापिक यह पापी मारका नाम है;... नैवापिक-परिपद् यह मार-परिपद्का नाम है; भिक्षुओ ! मृग-समूह यह श्रमण-ब्राह्मणोंका नाम है।

“भिक्षुओ ! उन पहले श्रमण-ब्राह्मणोंने उस धोये निवाप (अर्थात्) मारके इस लोक-आमिष (= विषयों) को...मूर्छित हो भोजन किया;...वह मूर्छित हो भोजन कर मदको प्राप्त

हुये, मदको प्राप्त हो प्रमादी हुये, प्रमादी हो मारके इस निवापमें, इस लोकासिपमें स्वेच्छाचारी हुये । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह पहिले श्रमण-ब्राह्मण मारके... (फंदे) से नहीं छूटे । जैसे कि वह पहिले मृग (थे), भिक्षुओ ! उन्हींके समान मैं (इन) पहिले श्रमण-ब्राह्मणोंको कहता हूँ ।

“भिक्षुओ ! दूसरे श्रमण-ब्राह्मणोंने यह सोचा—‘जिन उन प्रथम श्रमण-ब्राह्मणोंने मारके बोये इस निवापको = लोकासिपको मूर्च्छित हो खाया ० । इस प्रकार ० वह ० मारके... (फंदे) से नहीं छूटे । क्यों न हम लोक-आसिप रूपी निवाप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो जायें; भय-भोगसे विरत हो अरण्य-स्थानोंको अवगाहन कर विहरें’ । (तब वह) लोक-आसिप रूपी निवाप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो गये; ० अरण्य स्थानोंको अवगाहन कर विहरने लगे—वह वहाँ शाकाहारी भी हुये, सर्वाँ (= श्यामाक)-भोजी भी हुये, नीवार (= तिन्नी) भक्षी भी हुये ०^१ (जमीन पर) पड़े फलोंके खानेवाले भी हुये । ग्रीष्मके अन्तिम समयमें घास पानीके क्षय होनेसे ०^२ बल-वीर्य नष्ट हो जानेसे (उनकी) चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति = शांति) नष्ट होगई, चित्तकी विमुक्तिके नष्ट होने पर, लोक-आसिप रूपी मारके बोये उसी निवापको लौट कर खाने लगे । उन्होंने ० मूर्च्छित हो खाया ० । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह दूसरे श्रमण-ब्राह्मण भी मारके... (फंदे) से नहीं छूटे । जैसे कि वह दूसरे मृग (थे) भिक्षुओ ! उन्हींके समान मैं (इन) दूसरे श्रमण-ब्राह्मणोंको कहता हूँ ।

“भिक्षुओ ! तीसरे श्रमण-ब्राह्मणोंने यह सोचा—‘जिन उन प्रथम श्रमण-ब्राह्मणोंने ० मूर्च्छित हो भोजन किया ०^३ (वह) मारके... (फंदे) से नहीं छूटे । ० दूसरे श्रमण-ब्राह्मण ०^४ भोजनसे सर्वथा विरत हो गये ०^५,—(फिर) उसी निवापको लौट कर खाने लगे ०^६ वह मारके... (फंदे) से नहीं छूटे । क्यों न हम मारके बोये लोकासिप-रूपी इस निवाप का आश्रय लें । वहाँ आश्रय ले... इस... लोकासिप रूपी निवापको अमूर्च्छित (= न-बेसुध) हो भोजन करें । ०^७ लोकासिप रूपी निवापोंमें स्वेच्छाचारी नहीं होंगे ।’ (तब) उन्होंने मारके बोये लोक-आसिप-रूपी निवापका आश्रय लिया । आश्रय लेकर... निवापको अमूर्च्छित हो भोजन किया ०^८ वह मारके बोये लोकासिप-रूपी निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये । किन्तु उनकी यह दृष्टियाँ (= धारणाएँ) हुई—(१) ‘लोक शाश्वत (= नित्य) है’, (२) ‘लोक अशाश्वत है’, (३) ‘लोक अन्तवान् है’, (४) ‘अन्त-रहित (= अनन्तवान्) लोक है’, (५) ‘सोई जीव है सोई शरीर है’, (६) ‘जीव अन्य, शरीर अन्य है’, (७) ‘तथागत (= बुद्ध, मुक्त) मरनेके बाद होते हैं’, (८) ‘तथागत मरनेके बाद नहीं होते’, (९) ‘तथागत मरनेके बाद होते भी हैं, नहीं भी होते हैं’, (१०) ‘तथागत मरनेके बाद न होते हैं, न नहीं होते हैं’ ।—इस प्रकार भिक्षुओ ! वह तीसरे श्रमण-ब्राह्मण भी मारके... (फंदे) से नहीं छूटे । जैसे कि वह तीसरे मृग (थे), भिक्षुओ ! उन्हींके समान मैं (इन) तीसरे श्रमण-ब्राह्मणोंको समझता हूँ ।

“भिक्षुओ ! उन चौथे श्रमण-ब्राह्मणोंने सोचा—‘जिन उन प्रथम श्रमण-ब्राह्मणोंने ० मूर्च्छित हो भोजन किया ० (वह) मारके... (फंदे) से नहीं छूटे । जो यह दूसरे श्रमण ब्राह्मण ० भोजनसे सर्वथा विरत होगये ० (फिर) उसी निवापको लौटकर खाने लगे ० वह (भी) मारके... (फंदे) से नहीं छूटे । जो वह तीसरे श्रमण-ब्राह्मण ० अमूर्च्छित हो भोजन करने लगे ०, उनकी यह दृष्टियाँ (= धारणाएँ) हुई—०, (और) वह तीसरे श्रमण-ब्राह्मण भी मारके... (फंदे) से नहीं छूटे । क्यों न हम वहाँ आश्रय ग्रहण करें, जहाँ मार और मार-परिपद्

^१ देखो पृष्ठ ४८-४९ । ^२ देखो पृष्ठ ९८ । ^३ ऊपरकी आश्रुति । ^४ देखो पृष्ठ ९९ ।

की गति नहीं है। वहाँ आश्रय ग्रहण कर मारके घोये इस लोकाभिप-रूपी निवापको...अमूर्छित हो भोजन करें।...अमूर्छित हो भोजन करनेसे मदको न प्राप्त होंगे, ० स्वेच्छाचारी न होंगे। (तय) उन्होंने वहाँ आश्रय ग्रहण किया जहाँ मार और मार-परिषद्की गति नहीं। वहाँ आश्रय ग्रहण कर...अमूर्छित हो उन्होंने मारके घोये लोकाभिप-रूपी निवापको भोजन किया। ० लोकाभिप-रूपी निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये। इस प्रकार भिक्षुओ! वह चतुर्थ श्रमण-ब्राह्मण मारके... (फंदे) से छूटे। जैसे भिक्षुओ! चौथे सृग थे, उन्हींके समान मैं इन चौथे श्रमण-ब्राह्मणोंको कहता हूँ।

“भिक्षुओ! कैसे मार और मार-परिषद्की गति नहीं होती?—(१) यहाँ भिक्षुओ! भिक्षु कामोंसे रहित बुरी बातोंसे रहित ०^१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओ! इसे कहते हैं—“भिक्षुने मारको अंधा कर दिया, मार-चक्षुसे अपद (= अगम्य) बन कर वह पापीसे अदर्शन हो गया। (२) और फिर ०^१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन हो गया। (३) और फिर ०^१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन हो गया। (४) और फिर १ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन हो गया। (५) और फिर ०^२—“आकाश अनन्त है”—इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन होगया। (६) और फिर ०^२ विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन हो गया। (७) और फिर ०^२ आकिंचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन होगया। (८) और फिर ०^१ नैव-संज्ञान-असंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। मार-चक्षुसे अ-पद (= अगम्य) बन कर पापीसे अदर्शन हो गया; लोकसे विसक्तिक (= अनासक्त) हो उत्तीर्ण होगया है।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अनुसोदन किया।

६३६

२६—पास-रासि(= अरिय-परियेसन)-सुत्तन्त (१।३।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । भगवान् पूर्वाह्नके समय पहिनकर, पात्र चीवर ले श्रावस्तीमें पिंड(= भिक्षाचार)के लिये प्रविष्ट हुये । तब बहुतसे भिक्षु आयुष्मान् आनन्दके पास जाकर बोले—

“आवुस आनन्द ! भगवान्के मुखसे धर्मोपदेश सुने देर हो गई । अच्छा हो आवुस आनन्द ! हमें भगवान्के मुखसे धर्मोपदेश सुननेको मिले ।”

“तो आयुष्मानो ! जहाँ रम्यक (= रम्मक) ब्राह्मणका आश्रम है, वहाँ चले, शायद भगवान्के मुखसे धर्मोपदेश सुननेको मिले ।”

“अच्छा, आवुस !” (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया ।

तब भगवान्ने श्रावस्तीमें पिंडचार कर, भोजनोपरान्त पिंडपातसे निवटकर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया ।—

“चलो, आनन्द ! दिनके विहारके लिये (वहाँ चले) जहाँ, मृगारमाता (= मिगार-माता=विशाखा)का प्रासाद पूर्वोराम है ।”

“अच्छा, भन्ते !” (कह) आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को उत्तर दिया ।

तब भगवान् आयुष्मान् आनन्दके साथ दिनके विहारके लिये मृगारमाताके प्रासाद पूर्वोराम गये । तब भगवान्ने सायंकाल प्रतिसंख्यन (= एकान्तचिन्तन, भावना)से उठ आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

“चलो, आनन्द ! गात्र-परिसिंचन (= नहाने)के लिये जहाँ पूर्वकोष्ठक है, वहाँ (चले) ।”

“अच्छा, भन्ते !” (कह) आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को उत्तर दिया ।

तब भगवान् आयुष्मान् आनन्दके साथ पूर्वकोष्ठक गये । पूर्वकोष्ठकमें गात्र-परिसिंचन कर, निकल कर शरीरको सुखाते एक चीवर धारण किये खड़े हुये । तब आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! यह पासमें रम्यक ब्राह्मणका आश्रम है । भन्ते ! रम्यक ब्राह्मणका आश्रम रमणीय है= ० प्रसादनीय है । अच्छा हो भन्ते ! यदि भगवान् कृपाकर जहाँ रम्यक ब्राह्मणका आश्रम है (वहाँ) चले ।”

भगवान्ने मौन रह स्वीकृति दी । तब भगवान् जहाँ रम्यक ब्राह्मणका आश्रम था, (वहाँ) गये । उस समय बहुतसे भिक्षु रम्यक ब्राह्मणके आश्रममें धर्मकथा कहते बैठे थे । भगवान् कथा की समाप्तिकी प्रतीक्षा करते बाहरवाले द्वारकोष्ठक (= फाटक) पर ठहरे । तब भगवान्ने कथाकी समाप्ति जानकर खाँसकर जंजीर (= अर्गल) खटखटाई । उन भिक्षुओंने भगवान्के लिये द्वार खोल

दिया । भगवान् रम्यक ब्राह्मणके आश्रममें प्रविष्ट हो विछे आसनपर बैठे । बैठकर भगवान्ने भिक्षुओंको सम्योदित किया—

“भिक्षुओ ! किस कथाको लेकर तुम बैठे थे, क्या तुम्हारे बीचमें कथा उठी थी ?”

“भन्ते ! भगवान्के सम्बन्धकी ही धार्मिक-कथा लेकर हम बैठे थे, भगवान्के विषयकी कथा ही हमारे बीचमें उठी थी । इतनेमें भगवान् पहुँच गये ।”

“साधु, भिक्षुओ ! भिक्षुओ ! श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुये तुम कुल-पुत्रोंके लिये यही उचित है, कि तुम धार्मिक-कथामें बैठो । एकत्रित होनेपर भिक्षुओ ! तुम्हारे लिये दो ही कर्त्तव्य है—(१) धार्मिक कथा, या (२) आर्य तूष्णीभाव (= उत्तम मौन) ।

“भिक्षुओ ! दो प्रकारकी पर्येषणा (= खोज, गवेषणा) हैं—(१) आर्य (= उत्तम, ज्ञानियोंकी) पर्येषणा, और (२) अनार्य पर्येषणा । क्या है भिक्षुओ ! अनार्य पर्येषणा ?—भिक्षुओ ! कोई (पुरुष) स्वयं जाति-धर्मा (= जन्मनेके स्वभाववाला) होते जातिधर्मका ही पर्येषणा (= खोज) करता है । स्वयं जराधर्मा (= बूढ़ा होना जिसका स्वभाव है) होते, जराधर्मका ही पर्येषणा करता है । स्वयं व्याधिधर्मा ० । स्वयं मरण-धर्मा ० । स्वयं शोक-धर्मा ० । स्वयं संक्लेश (= मल)-धर्मा संक्लेश धर्मका ही पर्येषणा करता है ।

“भिक्षुओ ! किसको जातिधर्मा कहे ?—पुत्र, भार्या भिक्षुओ ! जातिधर्मा हैं, दासी, दास जातिधर्मा हैं, भेद-वकरी जातिधर्मा हैं, सुर्गा-सुअर (= कुक्कुट-शूकर) ०, हाथी, गाय, घोड़ा-घोड़ी ०, सोना-चाँदी । भिक्षुओ ! यह उपधियाँ (= मोग-पदार्थ) जातिधर्मा हैं, इनमें यह (पुरुष) ग्रथित, मूर्च्छित, आसक्त हो, स्वयं जातिधर्मा हो दूसरे जाति-धर्मा (पदार्थों)की पर्येषणा करता है ।

“भिक्षुओ ! किसको जराधर्मा कहे ?—पुत्र, भार्या ० १ जराधर्मा (पदार्थों)की पर्येषणा करता है ।

“० व्याधि-धर्मा ० ? ० १ ।

“० मरण-धर्मा ० ? ० १ ।

“० शोक-धर्मा ० ? ० १ ।

“० संक्लेश-धर्मा ० ? ० १ ।

“भिक्षुओ ! क्या है आर्य पर्येषणा ?—भिक्षुओ ! कोई (पुरुष) स्वयं जातिधर्मा होते, जाति-धर्ममें दुष्परिणाम देख, अ-जात (जन्म-रहित), अनुत्तर (= सर्वोत्तम), योग-क्षेम (= मंगलमय) निर्वाणकी पर्येषणा करता है । स्वयं जराधर्मा, जराधर्ममें दुष्परिणाम देख, अ-जर (= जरारहित) अनुत्तर, योग-क्षेम, निर्वाणकी पर्येषणा करता है । स्वयं व्याधिधर्मा ० व्याधि-रहित ० स्वयं मरण-धर्मा ० अ-मृत ० स्वयं शोक-धर्मा ० अ-शोक ० । स्वयं संक्लेश-धर्मा ० अ-संक्लिष्ट (= मलरहित) अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाणकी पर्येषणा करता है । भिक्षुओ ! यह है आर्य पर्येषणा ।

“मैं भी भिक्षुओ ! सम्योद (= बुद्ध-पद-प्राप्ति)से पूर्व, अ-संबुद्ध बोधिसत्त्व (= बुद्ध-पदका उम्मेदवार) होते समय, स्वयं जातिधर्मा होते जाति-धर्मा (पदार्थों)की ही पर्येषणा करता था ० । जराधर्मा ० । ० व्याधि-धर्मा ० । ० मरणधर्मा ० । ० शोकधर्मा ० । ० संक्लेश-धर्मा ० । तब मुझे...ऐसा हुआ—‘क्या मैं जाति-धर्मा होते जाति-धर्मा (पदार्थों)की पर्येषणा करता हूँ ? ० ० संक्लेशधर्मा ० ? क्यों न मैं स्वयं जाति-धर्मा होते जातिधर्मा (पदार्थों)में दुष्परिणाम देख,

अ-जात, अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाणकी पर्येषणा करूँ ? ० ० क्यों न मैं स्वयं संक्लेश-धर्मा होते, संक्लेश-धर्मा (पदार्थों)में दुष्परिणाम देव, अ-संछिष्ट (= निर्मल), अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाण की पर्येषणा करूँ ?

“तव मैं भिक्षुओ ! दूसरे समय तरुण, अत्यन्त काले केशोंवाला, भद्र (= सुन्दर) यौवनसे युक्त, पहिले वयस्में अनिच्छुक माता-पिताको अश्रुमुख रोते (छोड़), केश इमश्रु (= दाढ़ी-मूँछ) मुँडा, कापाय वस्त्र पहिन घरसे वेधरवन प्रव्रजित (= संन्यासी) हुआ । सो इस प्रकार प्रव्रजित हो किंकुशल (= क्या उत्तम है)की गवेपणा करते, उत्तम शान्ति-पदको खोजते (= पर्येषणा करते) जहाँ आलार कालाम रहते थे, वहाँ पहुँचा । पहुँचकर आलार कालामसे यह बोला—‘आवुस कालाम ! इस (तुम्हारे) धर्म-विनय (= धर्म)में ब्रह्मचर्यवास करना चाहता हूँ’ । ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! आलार कालामने मुझे यह कहा—‘विहरो आयुष्मान् ! यह ऐसा धर्म-विनय है, (जहाँ) विज्ञ-पुरुष न चिरमें अपने आचार्यक (= विशेषज्ञता)को स्वयं जानकर साक्षात्कर प्राप्तकर विहरेगा’ । सो मैंने भिक्षुओ ! न चिरमें ही=क्षिप्रही उस धर्म (= अभ्यास)को पूराकर लिया । सो मैं भिक्षुओ ! उतने मात्रसे ओठ लो मात्रसे, कहने-कहाने मात्रसे ज्ञानवाद भी झाड़ता था; ‘मैं स्थविर (= वृद्धोंके) वादको जानता देखता (= वृक्षता) हूँ’—दावा करता था, और दूसरे भी । तव भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ—आलार कालाम ‘श्रद्धा मात्रसे मैं इस धर्मको स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर, विहरता हूँ’—यह नहीं बतलाता । जरूर आलार कालाम इस धर्मको जानकर देखकर विहरता है । तव मैंने भिक्षुओ ! ‘आलार कालाम’के पास जाकर—‘यह कहा—‘आवुस कालाम ! कितना तक इस धर्मको स्वयं जानकर साक्षात्कर, प्राप्तकर हमें बतलाते हो ?’ ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! आलार कालामने आर्किचन्यायतन^१ बतलाया ।

“तव भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ—‘आलार कालामके पास ही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है । आलार कालामके पास ही वीर्य (= उद्योग) नहीं है, मेरे पास भी वीर्य है । ० स्मृति ० । ० समाधि ० । ० प्रज्ञा ० । क्यों न मैं, जिस धर्मको—‘आलार कालाम स्वयं जानकर साक्षात् कर, प्राप्तकर विहरता हूँ’—कहता है; उस धर्मके साक्षात्के लिये प्रयत्न करूँ । तव मैं भिक्षुओ ! न चिरमें=क्षिप्रही उस धर्मको स्वयं जान, साक्षात् कर, प्राप्तकर विहरने लगा । तव मैं भिक्षुओ ! आलार कालामके पास जाकर—‘यह बोला—‘आवुस कालाम ! इतने ही मात्र इस धर्मको स्वयं जान, साक्षात् कर, प्राप्तकर हमें बतलाते हो ?’

“इतने ही मात्र आवुस ! मैं इस धर्मको स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्तकर बतलाता हूँ ।”

“मैं भी आवुस ! इतने मात्र इस धर्मको स्वयं जानकर ० विहरता हूँ ।”

“लाभ है हमें आवुस ! सुन्दर लाभ हुआ हमें आवुस ! जो हम आप जैसे सब्रह्मचारीको देखते हैं, (जोकि) जिस धर्मको मैं स्वयं जानकर ० बतलाता हूँ, उस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विहरते हो । जिस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विहरते हो, उस धर्मको मैं स्वयं जानकर ० बतलाता (= उपदेशता) हूँ । जिस धर्मको मैं जानता हूँ, उस धर्मको तुम जानते हो । जिस धर्मको तुम जानते हो, उस धर्मको मैं जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुम, तैसा मैं, । जैसा मैं वैसे तुम । आओ अब आवुस ! (हम) दोनों इस गण (= सन्यासियोंकी जमायत)को धारण करें ।”

“इस प्रकार भिक्षुओ ! आलार कालामने आचार्य होते भी मुझ अन्तेवासी

(= दिव्य)को समसमान (पद)पर स्थापित किया। वड़े सन्मानसे सन्मानित किया । तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ—‘यह धर्म न निर्वेद (= उदासीनता)के लिये (है), न विरागके लिये, न निरोधके लिये, न उपशानके लिये, न अभिज्ञा (= दिव्य ज्ञान)के लिये, न संबोधके लिये, न निर्वाणके लिये है, केवल आर्किचन्य-आयतन (= दिव्य स्थान)में उत्पन्न होनेके लिये है ।’ तब मैं उस धर्मको अपर्याप्त (समझ) कर, उस धर्मसे विरक्त हो चल दिया ।

‘सो मैं भिक्षुओ ! किंकुशल-गवेपी, अनुत्तर शक्तिके श्रेष्ठ पदको खोजते जहाँ उद्रक (= उद्दक) रामपुत्र था, वहाँ गया । जाकर उद्रक रामपुत्रसे बोला—

‘आवुस राम ! इस धर्म-विनयमें मैं ब्रह्मचर्य-वास करना चाहता हूँ ।’

‘ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! उद्रक रामपुत्रने मुझे यह कहा—‘विहरो आयुष्मान् ! यह ऐसा धर्म-विनय है, जिसमें विश्वा पुरुष न-चिरमें अपने आचार्यक (= विशेषज्ञता) को स्वयं जानकर, साक्षात् कर, ग्राहकर विहरेगा ।’^१ । तब मैंने भिक्षुओ !... उद्रक रामपुत्र...के पास जाकर यह कहा—‘आवुस राम ! कितने तक इस धर्मको स्वयं जानकर ० हमें बतलाते हो ?’ ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! उद्रक रामपुत्रने नैवसंज्ञा-नाऽसंज्ञा-आयतन^२ बतलाया ।

‘तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ—‘उद्रक रामपुत्रके पासही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है । ० धीर्य ० । ० स्मृति ० । ० समाधि ० । ० प्रज्ञा ० । क्यों न मैं ०^३ । तब मैं उद्रक रामपुत्रके पास जाकर बोला—

‘आवुस राम ! इतने ही मात्र इस धर्मको स्वयं जानकर ० हमें बतलाते हो ?’

‘इतनाही मात्र आवुस ! मैं इस धर्मको स्वयं जानकर ० बतलाता हूँ ।’

‘मैं भी आवुस ! ०^३ लाभ है आवुस ! ०^३ । इस प्रकार जिस धर्मको मैं स्वयं जानकर ० बतलाता हूँ, उस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विहरते हो । जिस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विहरते हो, उसे राम स्वयं जानकर ० बतलाता है ०^३ । इस प्रकार जैसा राम है, वैसे तुम हो, जैसे तुम (हो) तैसा राम है । ०^३ आओ आवुस ! हम दोनों इस गण (= भिक्षुओंकी जमायत) को धारण करें ।’

‘इस प्रकार भिक्षुओ ! सब्रह्मचारी होतेभी, ‘मुझे आचार्यके पदपर स्थापित किया, (और) वड़े सन्मानसे सन्मानित किया । तब भिक्षुओ मुझे ऐसा हुआ—‘यह धर्म न निर्वेदके लिये है ०^३ । सो मैं भिक्षुओ ! उस धर्मको अपर्याप्त (समझ) कर, उस धर्मसे विरक्त हो चल दिया ।

‘सो मैं भिक्षुओ ! किंकुशल-गवेपी ० शक्तिके श्रेष्ठ पदको खोजते, मगधमें क्रमशः चारिका (= रामत) करते जहाँ उरुवेला सेनानी निगम था वहाँ पहुँचा । वहाँ मैंने एक रमणीय = प्रासादिक भूमि-भागमें, वन खंडमें एक नदीको बहते देखा जिसका घाट, रमणीय और श्वेत था । चारों ओर फिरनेके लिये गाँव थे । वहाँ मुझे यह हुआ—यह भूमि-भाग रमणीय है । यह वनखंड प्रासादिक है । श्वेत, सुन्दर घाटवाली रमणीय नदी^४ बह रही है । चारों ओर फिरनेके लिये गाँव हैं । परमार्थमें उद्योगी कुलपुत्रके लिये ध्यान-रत होनेके वास्ते यह बहुत उपयोगी है । तब मैं, भिक्षुओ !—यही ध्यान योग्य स्थान है (सोच) वहाँ बैठ गया । सो भिक्षुओ ! स्वयं जन्मने के स्वभाववाले मैंने जन्मनेके दुष्परिणामको जानकर अजन्मा, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणको खोजता अजन्मा, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणको पालिया । स्वयं जरा-धर्मवाला होते मैंने जरा-धर्मके दुष्परिणामको जानकर जरा-रहित, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणको खोज अजर, अनुपम, योगक्षेम

^१ देखो पृष्ठ १०४ । ^२ देखो पृष्ठ २७, २८ । ^३ देखो ऊपर । ^४ वर्तमान नीलाजन (गया) ।

निर्वाणको पालिया । स्वयं व्याधि-धर्मा ० व्याधि धर्म-रहित ० स्वयं मरण-धर्मा ० अमर ० । स्वयं शोकधर्म-वाला ० शोक-रहित ० । स्वयं संक्लेश (= मल)-युक्त ० संक्लेश रहित ० । मेरा ज्ञान, दर्शन (= साक्षात्कार) बन गया, मेरे चित्तकी मुक्ति अचल होगई; यह अन्तिम जन्म है, फिर अब (दूसरा) जन्म नहीं (होगा) ।

“तव भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ—

“मैंने गंभीर, दुर्दर्शन, दुर्ज्ञेय, शांत, उत्तम, तर्कसे अप्राप्य, निपुण, पण्डितों द्वारा जानने योग्य, इस धर्मको पालिया । यह जनता काम-तृष्णा (= आलस्य) में रमण करने वाली, काम-रत, काममें प्रसन्न है । काममें रमण करनेवाली इस जनताके लिये, यह जो कार्य-कारण रूपी प्रतीत्य-समुत्पाद है, वह दुर्दर्शनीय है । और यह भी दुर्दर्शनीय है, जो कि यह सभी संस्कारोंका शमन, सभी मन्त्रोंका परित्याग, तृष्णा-क्षय, विराग, निरोध (= दुःख-निरोध), और निर्वाण हैं । मैं यदि धर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसको न समझ पावें, तो मेरे लिये यह तरद्दुद और पीढा (मात्र) होगी ।

“उसी समय मुझे पहिले कभी न सुनो यह अद्भुत गाथायें सूक्ष्म पढ़ीं—

‘यह धर्म पाया कष्टसे, इसका न युक्त प्रकाशना ।

नहिं राग-द्वेष-प्रलिप्तको है सुकर इसका जानना ॥

गंभीर उल्टी-धार-युत दुर्दृश्य सूक्ष्म प्रवीणका ।

तम-पुंज-छादित रागरतद्वारा न संभव देखना ॥’

“मेरे ऐसा समझनेके कारण, मेरा चित्त धर्म-प्रचारकी ओर न झुक अल्प-उत्सुकताकी ओर झुक गया । तब सहापति ब्रह्माने मेरे चित्तकी बातको जानकर ख्याल किया—‘लोक नाश हो जायगा रे ! लोक विनाश हो जायगा रे ! जब तथागत अर्हत् सम्यक्-संबुद्धका चित्त धर्म-प्रचारकी ओर न झुक, अल्प-उत्सुकता (= उदासीनता) की ओर झुक जाये’ (ऐसा ख्यालकर) सहापति ब्रह्मा, जैसे बलवान् पुरुष (बिना परिश्रम) फौली बाँहको समेट ले, समेटी बाँहको फौलादे, ऐसेही ब्रह्मलोकसे अन्तर्धान हो, मेरे सामने प्रकट हुआ । फिर सहापति ब्रह्माने उपरना (= चंद्र) एक कंधेपर करके, दाहिने जानुको पृथिवीपर रख, जिधर मैं था उधर हाथ जोड़, कहा—‘भन्ते ! भगवान् धर्मोपदेश करें, सुगत ! धर्मोपदेश करें । अल्प मलवाले प्राणी भी हैं, धर्मके न सुननेसे वह नष्ट हो जायेंगे । (उपदेश करें) धर्मको सुननेवाले (भी होवेंगे)’ । सहापति ब्रह्माने यह कहा, और यह कहकर यह भी कहा—

‘भगधमें मलिन चित्तवालोंसे चिन्तित, पहिले अशुद्ध धर्म पैदा हुआ । अमृतके द्वारको खोलनेवाले विमल (पुरुष) द्वारा जाने गये इस धर्मको (अब लोक) सुने । पथरीले पर्वतके शिखरपर खड़ा (पुरुष) जैसे चारों ओर जनताको देखे । उसी तरह हे सुमेध ! हे सर्वत्र नेत्र वाले ! धर्मरूपी महलपर चढ़ सब जनताको देखो । हे शोक-रहित ! शोक-निमग्न जन्म-जरासे पीड़ित जनताकी ओर देखो । उठो वीर ! हे संग्रामजित् ! हे सार्थवाह ! उन्नत-ऋण ! जगमें विचरो ! धर्म-प्रचार करो ! भगवान् ! जाननेवाले मिलेंगे ।’

“तब मैंने ब्रह्माके अभिप्रायको जानकर, और प्राणियोंपर दया करके, बुद्ध-नेत्रसे लोकका अवलोकन किया । बुद्ध-चक्षुसे लोकको देखते हुये मैंने जीवोंको देखा, उनमें कितने ही अल्प-मल, तीक्ष्ण-बुद्धि, सुन्दर-स्वभाव, समझानेमें सुगम, प्राणियोंको भी देखा । उनमें कोई कोई परलोक और दोषसे भय करते, विहर रहे थे । जैसे उत्पलिनी, पद्मिनी (= पद्मसमुदाय) या पुंडरीकिनीमें से कितने ही उत्पल, पद्म या पुंडरीक उदकमें पैदा हुये उदकमें वँधे उदकसे बाहर न निकल

(उदकके) भीतरही डूबकर पोपित होते हैं। कोई कोई उत्पल (=नीलकमल), पद्म (=रक्तकमल) या पुंडरीक (=श्वेतकमल) उदकमें उत्पन्न, उदकमें बँधे (भी) उदकके वरावरही खड़े होते हैं। कोई कोई उत्पल, पद्म या पुंडरीक उदकमें उत्पन्न, उदकमें बँधे (भी), उदकसे बहुत ऊपर निकलकर, उदकसे अलिप्त (हो) खड़े होते हैं। इसी तरह भगवान् ने बुद्धचक्षुसे लोकको देखते हुये—अल्पमल, तीक्ष्णबुद्धि, सुस्वभाव, सुयोष्य प्रणियोंको देखा; जो परलोक तथा बुराईसे भय खाते विहर रहे थे। देखकर सहापति ब्रह्मासे गाथाद्वारा कहा—

‘उनके लिये अमृतका द्वार बंद होगया है, जो कानवाले होनेपर भी, श्रद्धाको छोड़ देते हैं। हे ब्रह्मा ! (वृथा) पीढाका ख्यालकर मैं मनुष्योंको निपुण, उत्तम, धर्मको नहीं कहता था !’

‘तब ब्रह्मा सहापति—‘भगवान् ने धर्मीपदेशके लिये मेरी घात मानली’ यह जान, मुझको अश्लेषाद्वारा प्रदक्षिणाकर वहीं अन्तर्धान होगया। उस समय मेरे (मनमें) हुआ—‘मैं पहिले किसे इस धर्मकी देशना (= उपदेश) करूँ; इस धर्मको शीघ्र कौन जानेगा ?’ फिर मेरे (मनमें) हुआ—‘यह आलार-कालाम पण्डित, चतुर, मेधावी चिरकालसे अल्प-मलिन-चित्त है; मैं पहिले क्यों न आलार-कालामको ही धर्मीपदेश करूँ ? वह इस धर्मको शीघ्रही जान लेगा।’ तब (गुप्त) देवताने मुझसे कहा—‘अन्ते ! आलार-कालामको मरे सप्ताह होगया।’ मुझको भी ज्ञान-दर्शन हुआ—‘आलार कालामको मरे सप्ताह होगया।’ तब मेरे (मनमें) हुआ—‘आलार कालाम महा आज्ञानीय था, यदि वह इस धर्मको सुनता, तो शीघ्रही जान लेता।’ फिर मेरे (मनमें) हुआ—‘यह उद्दक-रामपुत्र पण्डित, चतुर, मेधावी, चिरकालसे अल्प-मलिन चित्त है, क्यों न मैं पहिले उद्दक रामपुत्रको ही धर्मीपदेश करूँ ? वह इस धर्मको शीघ्रही जान लेगा।’ तब (गुप्त = अन्तर्धान) देवताने आकर कहा—‘अन्ते ! रातही उद्दक रामपुत्र मर गया। मुझको भी ज्ञान-दर्शन हुआ।...’ फिर मेरे (मनमें) हुआ—‘पञ्चवर्गीय भिक्षु मेरे बहुत काम करनेवाले थे, उन्होंने साधनामें लगे मेरी सेवा की थी। क्यों न मैं पहिले पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको ही धर्मीपदेश करूँ।’ मैंने सोचा—‘इस समय पञ्चवर्गीय भिक्षु कहाँ विहर रहे हैं ?’ मैंने अ-भानुप विशुद्ध दिव्य चक्षुसे देखा—‘पञ्चवर्गीय भिक्षु वाराणसीके ऋषिपतन मृग-दावमें विहार कर रहे हैं।’

‘तब मैं उखेलामें इच्छानुसार विहारकर, जिधर वाराणसी है, उधर चारिका (= रामत) के लिये निकल पड़ा। उपक आजीवक^१ ने देखा—‘मैं बोधि (= बोधगया) और गयाके बीचमें जा रहा हूँ। देखकर मुझसे बोला—‘आयुष्मान् (आयुस) ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरा छवि-वर्ण (= कांति) परिशुद्ध तथा उज्वल है। किसको (गुरु) मानकर हे आयुस ! तू प्रयत्नित हुआ है ? तेरा शास्ता (= गुरु) कौन ? तू किसके धर्मको मानता है ?’ यह कहनेपर मैंने उपक आजीवकसे गाथामें कहा—

‘मैं सबको पराजित करनेवाला, सबका जाननेवाला हूँ; सभी धर्मोंमें निर्लेप हूँ। सर्व-त्यागी (हूँ), तृष्णाके क्षयसे विमुक्त हूँ; मैं अपनेही जानकर उपदेश करूँगा।

मेरा आचार्य नहीं है मेरे सद्गुरु (कोई) विद्यमान नहीं।

देवताओं सहित (सारे) लोकमें मेरे समान पुरुष नहीं।

^१ वर्तमान सारनाथ, बनारस। ^२ उस समयके जड़वादी नग्न साधुओंका एक सम्प्रदाय, नन्द वात्स्य, कृश सांख्य और मन्वली-गोसाल जिसके प्रधान आचार्य थे।

मैं संसारमें अर्हत् हूँ, अपूर्व शास्ता (= गुरु) हूँ ।
 मैं एक सम्यक् संबुद्ध, शीतल तथा निर्वाणप्राप्त हूँ ।
 धर्मका चक्रा घुमानेके लिये काशियोंके नगरको जा रहा हूँ ।
 (वहाँ) अन्धे हुये लोकमें अमृत-दुन्दुभी बजाऊँगा ॥'

'आयुष्मन् ! तू जैसा दावा करता है, उससे तो अनन्त जिन हो सकता है ।'

'मेरे ऐसेही सत्त्व जिन होते हैं, जिनके कि आस्रव (= क्लेश = मल) नष्ट हो गये हैं ।

मैंने पाप (= बुरे)-धर्मोंको जीत लिया है, इसलिये हे उपक ! मैं जिन हूँ ।' ऐसा कहनेपर उपक आजीवक—'होवोगे आवुस !' कह, शिर हिला, बेरास्ते चल दिया । "तब मैं, भिक्षुओ ! क्रमशः यात्रा (= चारिका) करते हुए, जहाँ वाराणसी ऋषि-पतन मृग-दाव था, जहाँ पञ्चवर्गीय भिक्षु थे, वहाँ पहुँचा । दूरसे आते हुये मुझे पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने देखा । देखतेही आपसमें पक्का किया—'आवुसो ! यह बाहुलिक (= बहुत जमा करने वाला) साधना-भ्रष्ट बाहुल्य-परायण (= जमा करनेमें लगा) भ्रमण गौतम आ रहा है । इसे अभिवादन नहीं करना चाहिये, न प्रत्युत्थान (= सत्कारार्थ खड़ा होना) करना चाहिये । न इसके पात्र चीवरको (आगे बढ़कर) लेना चाहिये, केवल आसन रख देना चाहिये, यदि इच्छा होगी तो बैठेगा ।'

'जैसे जैसे मैं पञ्चवर्गीय भिक्षुओंके समीप आता गया, वैसेही वैसे वह... अपनी प्रतिज्ञा-पर स्थिर न रह सके । (अन्तमें) मेरे पास आ, एकने मेरे पात्र चीवर लिये, एकने आसन दिखाया; एकने पादोदक (= पैर धोनेका जल) पादपीठ (= पैरका पीढ़ा), पादकठलिका (पैर रगडनेकी लकड़ी) ला पास रखी । मैं बिछाये आसनपर बैठा । बैठकर मैंने पैर धोये । वह मेरे लिये 'आवुस' शब्दका प्रयोग करते थे । ऐसा करनेपर मैंने कहा—'नहीं भिक्षुओ ! तथागतको नाम-लेकर या 'आवुस' कहकर मत पुकारो । भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध हैं । इधर कान दो, मैंने जिस अमृतको पाया है, उसका तुम्हें उपदेश करता हूँ । उपदेशानुसार आचरण करनेपर, जिसके लिये कुलपुत्र घरसे बेघर हो संन्यासी होते हैं, उस अनुत्तम ब्रह्मचर्यफलको, इसी जन्ममें शीघ्रही स्वयं जान कर = साक्षात्कार कर = लाभ कर विचरोगे ।'

'ऐसा कहनेपर पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने मुझे कहा—'आवुस गौतम ! उस साधनामें, उस धारणामें, उस दुष्कर तपस्यामें भी तुम आर्योंके ज्ञानदर्शनकी पराकाष्ठाकी विशेषता, उत्तर-मनुष्य-धर्म (= दिव्य शक्ति)को नहीं पा सके; फिर अब बाहुलिक साधना-भ्रष्ट, बाहुल्यपरायण तुम आर्य-ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा, उत्तर-मनुष्य-धर्मको क्या पाओगे ?'

'यह कहनेपर मैंने पञ्चवर्गीय भिक्षुओंसे कहा—'भिक्षुओ ! तथागत बाहुलिक नहीं हैं, और न साधनासे भ्रष्ट हैं, न बाहुल्यपरायण हैं । भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् सम्यक् संबुद्ध हैं ० । ० लाभकर विहार करोगे ।

'दूसरी बार भी पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने मुझे कहा—'आवुस ! गौतम ०।' दूसरी बार भी मैंने फिर (वही) कहा ० । तीसरी बार भी पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने मुझसे (वही) कहा ० । ऐसा कहनेपर मैंने पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको कहा—'भिक्षुओ ! इससे पहिले भी क्या मैंने कभी इस प्रकार कहा है ?'

'भन्ते ! नहीं'

'भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् ० विहार करोगे ।'

'(तब) मैं पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको समझानेमें समर्थ हुआ ।

'वहाँ मैं दो भिक्षुओंको उपदेश करता था, तो तीन भिक्षु भिक्षाके लिये जाते थे । तीन

भिक्षु भिक्षाचार करके जो छाते थे, उसीसे छःओं जने निर्वाह करते थे। (जब) तीन भिक्षुओंको मैं उपदेश करता था, तो दो भिक्षु भिक्षाके लिये जाते थे। दो भिक्षु भिक्षाचार करके जो छाते थे, उसीसे छःओं जने निर्वाह करते थे। तब भिक्षुओ ! इस प्रकार मेरे उपदेश करनेसे, अववाद करनेसे पञ्चवर्गीय भिक्षु स्वयं जन्मनेके स्वभाववाले, जन्मनेके दुष्परिणामको जानकर ०^१ फिर भव (दूसरा) जन्म नहीं ।

“भिक्षुओ ! यह पाँच कामगुण (= काम-भोग) हैं। कौनसे पाँच ?—(१) चक्षुद्वारा ज्ञेय इष्ट=कान्त=भनाप=प्रियरूप=कामोपलंहित, रंजनीय रूप। (२) श्रोत्रद्वारा ज्ञेय ० शब्द। (३) घ्राणद्वारा ज्ञेय ० गंध। (४) जिह्वा द्वारा ज्ञेय ० रस। (५) काया (= त्वक्) द्वारा ज्ञेय ० स्प्रष्टव्य। भिक्षुओ ! यह पाँच कामगुण हैं। भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच कामगुणोंमें बँधे, मूर्छित (= गर्ह), लिप्त हो, (उनके) दुष्परिणामको न देख, निकलनेकी बुद्धि न रख (उनका) उपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये कि वह अ-नय (= बुराई)में पड़े हैं, दुःखमें पड़े हैं, पापी (दुर्भावनाओं की इच्छानुसार करनेवाले) हैं। जैसे, भिक्षुओ ! जंगली मृग पाश-राशि (= जालके ढेर)में बँधा सोवे, उसे समझना होगा—(यह मृग) बुराईमें पड़ा है, व्यसनमें पड़ा है। शिकारीकी इच्छानुसार करनेवाला है। शिकारीके आने पर (अपनी) इच्छाके अनुसार नहीं भाग सकेगा। इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच कामगुणोंमें बँधे ० पापी (= दुर्भावनाओं)के इच्छानुसार करनेवाले हैं।

“भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच कामगुणोंमें न-बँधे, अ-मूर्छित, अ-लिप्त हो, दुष्परिणामको देख, निकलनेकी बुद्धि रख उपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये, कि वह अ-नयमें पड़े नहीं हैं, व्यसनमें पड़े नहीं हैं; पापीकी इच्छानुसार करनेवाले नहीं हैं। जैसे, भिक्षुओ ! जंगली मृग पाश-राशिसे न बँधा सोवे, उसके लिये समझना होगा—यह मृग अ-नयमें नहीं पड़ा है। व्यसनमें नहीं पड़ा है। शिकारीकी इच्छानुसार नहीं करनेवाला है। शिकारीके आनेपर अपनी इच्छाके अनुसार भाग सकेगा। इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच कामगुणोंमें न-बँधे ० पापीकी इच्छानुसार करनेवाले नहीं हैं। जैसे, भिक्षुओ ! जंगली मृग पवनके चलने पर निश्चिन्त चलता है, निश्चिन्त खड़ा होता है, निश्चिन्त बैठता है, निश्चिन्त लेटता है। सो क्यों ?—भिक्षुओ ! (वह) शिकारीकी पहुँचसे बाहर है। इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु ०^२ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओ ! उस भिक्षुके लिये इसलिये कहा जाता है—इसने मारको अंधा कर दिया; मार की आँख को...मारकर, वह पापीके सामनेसे अन्तर्धान हो गया।

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु ०^२ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओ ! इस भिक्षुके लिये कहा जाता है—० पापीके सामनेसे अन्तर्धान हो गया।

“ ०^२ तृतीय ध्यान ० ।

“ ०^२ चतुर्थ ध्यान ० ।

“ ०^२ आकाशानन्त्यायतन ० ।

“ ०^२ विज्ञानानन्त्यायतन ० ।

“ ०^२ आर्किचन्यायतन ० ।

“ ०^२ नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन ० ।

“०^१ संज्ञावेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है । अज्ञासे देखकर उसके आस्रव (=चित्त-मल) नष्ट होगये । भिक्षुओ ! इस भिक्षुके लिये कहा जाता है—० पापीके सामनेसे अन्तर्धान हो गया । वह लोकमें फन्देके पार होगया । वह निश्चिन्त चलता है, निश्चिन्त खड़ा होता है, निश्चिन्त बैठता है, निश्चिन्त सोता है । सो क्यों ?—भिक्षुओ ! वह पापीकी पहुँचसे बाहर हो गया ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिर्नन्दित किया ।



२७—चूल-हथिपदोपम-सुत्तन्त (१३।७)

पेसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतघनमें विहार करते थे ।

उस समय जाणुस्सोणि (= जानुश्रोणि) ब्राह्मण सर्वज्ञेय घोड़ियोंके रथपर सवार हो, मत्स्याहको श्रावस्तीसे वाहर जा रहा था । जानुश्रोणि ब्राह्मणने पिलोतिक परित्राजकको दूरसे ही आते देखा । देखकर पिलोतिक परित्राजकसे यह कहा—

“हन्त ! वात्स्यायन (= वच्छायन) ! आप मध्याह्नमें कहाँसे आ रहे हैं ?”

“भो ! मैं श्रमण गौतमके पाससे आ रहा हूँ ।”

“तो आप वात्स्यायन श्रमण गौतमकी प्रज्ञा, पाण्डित्यको क्या समझते हैं ? पंडित मानते हैं ?”

“मैं क्या हूँ, जो श्रमण गौतमका प्रज्ञा-पाण्डित्य जानूँगा ?”

“आप वात्स्यायन उदार (= बड़ी) प्रशंसाद्वारा श्रमण गौतमकी प्रशंसा कर रहे हैं ?”

“मैं क्या हूँ, और मैं क्या श्रमण गौतमकी प्रशंसा करूँगा ? प्रशस्त प्रशस्त (ही) हैं । आप गौतम, देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं ।”

“आप वात्स्यायन किस कारणसे श्रमण गौतमके विषयमें इतने अभिप्रसन्न हैं ?”

“(जैसे) कोई चतुर नाग-वनिक (= हाथीके जंगलका आदमी) नाग-वनमें प्रवेश करे । वह वहाँ बड़े भारी (लंबे-चौड़े) हाथीके पैर (= हस्ति-पद)को देखे । उसको विश्वास हो जाय—अरे, बड़ा भारी नाग है । इसी प्रकार जब मैंने श्रमण गौतमके चार पद देखे, तो विश्वास होगया—कि (वह) भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, भगवान्का श्रावक-संबु सुप्रतिपन्न (= सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर लगा) है । कौनसे चार ?—(१) मैं देखता हूँ, बालकी खाल उतारनेवाले, दूसरोंसे वाद-विवाद किये हुये, निपुण, कोई कोई क्षत्रिय पंडित—मानों प्रज्ञामें स्थित, (तत्र) से दृष्टिगत (= धारणामें स्थित तत्र)को खंडा-खंडी करते चलते हैं—सुनते हैं—श्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आवेगा । वह प्रश्न तैयार करते हैं—‘इस प्रश्नको हम श्रमण गौतमके पास जाकर पूछेंगे । पेसा हमारे पूछनेपर, यदि वह पेसा उत्तर देगा; तो हम इस प्रकार वाद (= शास्त्रार्थ) रोपेंगे ।’ वह सुनते हैं—श्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आगया । वह जहाँ श्रमण गौतम होता है, वहाँ जाते हैं । उनको श्रमण गौतम धार्मिक उपदेश कर दर्शाता है, समादपन, = समुत्तेजन, संप्रशंसन करता है । वह श्रमण गौतमसे धार्मिक उपदेश द्वारा संदर्शित, समादपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमसे प्रश्न भी नहीं पूछते, उसके (साथ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? वल्कि और भी श्रमण गौतमके ही श्रावक (= शिष्य) हो जाते हैं । भो ! जब मैंने श्रमण गौतममें यह प्रथम पद देखा, तब मुझे विश्वास हो गया—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं ० ।

“(२) और फिर भो ! मैं देखता हूँ, यहाँ कोई कोई बालकी खाल उतारने वाले, दूसरोंसे वाद-विवादमें सफल, निपुण ब्राह्मण पण्डित ० । मैंने श्रमण गौतममें यह दूसरा पद देखा ।

“(३) ० गृहपति (= वैश्य)-पण्डित । ० यह तीसरा पद ० ।

“(४) ० श्रमण (= प्रव्रजित)-पण्डित ० । वह श्रमण गौतमके धार्मिक उपदेशद्वारा ० समुत्तेजित संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमसे प्रश्न भी नहीं पूछते, उसके (साथ) वाद कहांसे रोपेंगे ? वल्कि और भी श्रमण गौतमसे घरसे वेधर (होकर मिलनेवाली) प्रव्रज्याके लिये आज्ञा माँगते हैं । उनको श्रमण गौतम प्रव्रजित करता है, उपसम्पन्न करता है । वह वहाँ प्रव्रजित हो, अकेले एकान्तसेवी, प्रमादरहित, तत्पर, आत्म-संयमी हो विहार करते, अचिरहीमें, जिसके लिये लुल-पुत्र घरसे वेधर हो, प्रव्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात् कर, प्राप्त कर, विहरते हैं । वह ऐसा कहते हैं—‘मनको भो ! नाश किया, मनको भो ! प्र-नाश किया । हम पहिले अ-श्रमण होते हुये भी ‘हम श्रमण हैं’—दावा करते थे; अ-ब्राह्मण होते हुये भी ‘हम ब्राह्मण हैं’—दावा करते थे । अन्-अर्हत् होते हुये भी ‘हम अर्हत् हैं’—दावा करते थे । अब हम श्रमण हैं, अब हम ब्राह्मण हैं, अब हम अर्हत् हैं ।’ श्रमण गौतममें जब इस चौथे पदको देखा, तब मुझे विश्वास हो गया—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं ० । भो ! मैंने जब इन चार पदोंको श्रमण गौतममें देखा, तब मुझे विश्वास हो गया ० ।”

ऐसा कहनेपर जानुश्रेणी ब्राह्मणने सर्व-श्वेत घोड़ीके रथसे उतरकर, एक कंधेपर उत्तरासंग (= चादर) करके, जिधर भगवान् थे उधर अक्षलि जोड़कर, तीन वार यह उदान कहा—
“नमस्कार है, उस भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्धको,” ‘नमस्कार है ० ।’ ‘नमस्कार है ० ।’ क्या मैं कभी किसी समय उन आप गौतमके साथ मिल सकूँगा ? क्या कभी कोई कथा-संलाप हो सकेगा ?”

तब जानु श्रेणी ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ ० संमोदन-कर... (कुशलप्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये जानु-श्रेणी ब्राह्मणने, जो कुछ पिलोतिक पस्त्राजकके साथ कथा-संलाप हुआ था, सब भगवान्से कह दिया । ऐसा कहनेपर भगवान्ने जानु-श्रेणी ब्राह्मणसे कहा—

“ब्राह्मण ! इतने (ही) विस्तारसे हस्ति-पद-उपमा परिपूर्ण नहीं होती । ब्राह्मण ! जिस प्रकारके विस्तारसे हस्ति-पद-उपमा परिपूर्ण होती है, उसे सुनो और मनमें (धारण) करो...”

“अच्छा भो !” कह जानु-श्रेणी ब्राह्मणने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने कहा—“जैसे ब्राह्मण नाग-वनिक नाग-वनमें प्रवेश करे । वहाँपर नाग-वनमें वह बड़े भारी ० हस्ति-पदको देखे । जो चतुर-नाग-वनिक होता है वह विश्वास नहीं करता—
‘अरे ! बड़ा भारी नाग है !’ किसलिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमें वामकी (= वँवनी) नामकी हथिनियाँ भी महा-पदवाली होती हैं, उनका वह पैर हो सकता है । उसके पीछे चलते हुए वह नाग-वनमें बड़े भारी... (लम्बे चौड़े)...हस्ति-पद और ऊँचे डीलको देखता है । जो चतुर नाग-वनिक होता है, वह तब भी विश्वास नहीं करता—‘अरे बड़ा भारी नाग है’ । किसलिये ? ब्राह्मण ! नागवनमें ऊँची कालारिका नामक हथिनियाँ बड़े पैरोंवाली होती हैं, वह उनका पद हो सकता है । वह उसका अनुगमन करता है, अनुगमन करते नाग-वनमें देखता है—बड़े भारी लम्बे चौड़े हस्ति-पद, ऊँचे डील और ऊँचे दाँतोंसे आरक्षित (प्राणी)को । जो चतुर नाग-वनिक होता है, वह तब भी विश्वास नहीं करता ० । सो किसलिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमें ऊँची करेणुका नामक हथिनियाँ

महा-पदवाली होती है। वह उनका भी पद हो सकता है। वह उसका अनुगमन करता है। उसका अनुगमन करते नागवनमें, बड़े भारी, ... (लम्बे-चौड़े) हस्ति-पद, ऊँचे डील, ऊँचे दाँतोंसे सुशोभित (प्राणी), और शाखाको ऊँचेसे टूटा देखता है। और वहाँ वृक्षके नीचे, या चौड़ेमें जाते, खड़े, बैठे या लेटे उस नागको देखता है। वह विश्वास करता है, यही वह महानाग है।

“इसी प्रकार ब्राह्मण यहाँ तथागत, अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध, विद्या-आचरण-सम्पन्न, सुगत, लोकविद, अनुत्तर पुरुष-दम्य-सारथी, देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान् लोकमें उत्पन्न होते हैं। वह इस देव-मार-ब्रह्मा सहित लोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित प्रजाको, स्वयं जान कर, साक्षात् कर, समझाते हैं। वह आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याणवाले धर्मका उपदेश करते हैं। अर्थ-सहित व्यंजन-सहित, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध, ब्रह्म-चर्यको प्रकाशित करते हैं। उस धर्मको गृह-पति या गृह-पतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न (पुरुष) सुनता है। वह उस धर्मको सुनकर तथागतके विषयमें श्रद्धा लाभ करता है। वह उस श्रद्धा-लाभसे संयुक्त हो, यह सोचता है— गृह-वास नजाल मूलका मार्ग है। प्रथम्या मैदान (= चौड़ा) है। इस एकान्त सर्वथा-परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे ब्रह्मचर्यका पालन, घरमें बसते हुयेके लिये सुकर नहीं है। क्यों न मैं सिर-दाढ़ी मुँडा कर, कापायवस्त्र पहिन, घरसे वेधर हो प्रव्रजित हो जाऊँ ? सो वह दूसरे समय अपनी अल्प (= थोड़ी) भोग-राशि, या महा-भोग-राशिको छोड़, अल्प-ज्ञाति-मंडल या महा-ज्ञाति-मंडलको छोड़, सिर-दाढ़ी मुँडा, कापायवस्त्र पहिन, घरसे वेध हो, प्रव्रजित होता है। वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणातिपात छोड़ प्राणहिंसासे विरत होता है। दंड-न्यायी, शस्त्र-न्यायी, लज्जी, दयालु, सर्व-प्राणों सर्व-प्राण-भूतोंका हित और अनुकंपक हो, विहार करता है। अ-दिग्वादान (= चोरी) छोड़ दिग्वादायो (= दियेको लेनेवाला), दत्त-प्रति-काक्षी (= दियेका चाहनेवाला), ... पवित्रात्मा हो, विहरता है। अ-ब्रह्मचर्यको छोड़कर ब्रह्म-चारी, प्राम्यधर्म मैथुनसे विरत हो, धार-चारी (= दूर रहनेवाला) होता है। मृषावादको छोड़, मृषावादासे विरत हो, सत्य-वादी, सत्य-संध, लोकका अ-विसंवादक = विश्वास-पात्र ... होता है। पिशुन-वचन (= चुगली) छोड़, पिशुन-वचनसे विरत होता है, —यहाँ सुनकर इनके फोड़नेके लिये, वहाँ नहीं कहनेवाला होता; या, वहाँ सुनकर उनके फोड़नेके लिये, यहाँ कहनेवाला नहीं होता। इस प्रकार भिन्नो (= फूटों)को मिलानेवाला, मिले हुआँको भिन्न न करनेवाला, एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, समग्र (= एकता)-करणी वाणीका बोलने-वाला होता है, परुष (= कटु) वचनको छोड़, परुष वचनसे विरत होता है। जो वह वाणी ... कर्ण-सुखा, प्रेमणीया, हृदयङ्गमा, पौरी (= नागरिक, सम्य) बहुजन-कान्ता = बहुजन-मनापा है; वैसी वाणीका बोलनेवाला होता है। प्रलापको छोड़कर प्रलापसे विरत होता है। काल-वादी (= समय देखकर बोलनेवाला), भूत (= यथार्थ)वादी, अर्थ-वादी, धर्म-वादी, विनय-वादी हो, ताल्पर्य-सहित, पर्यन्त-सहित, अर्थ-सहित, निधान-वती वाणीका बोलनेवाला होता है।

“वह बीज-समुदाय भूत-समुदायके विनाश^१ (= समारंभ)से विरत होता है। एका-हारी, रातको उपरत = विकाल (= मध्याह्नोत्तर) भोजनसे विरत होता है। माला, गंध और विलेपनके धारण, मंडन और विभूषणसे विरत होता है। उच्चशयन और महाशयन (= राजसी शय्या)से विरत होता है। जातरूप (= सोना)-रत्नके प्रतिग्रहणसे विरत होता है। कच्चे अनाजके प्रतिग्रहण (= लेना)से विरत होता है। कच्चा मांस लेनेसे विरत होता है। स्त्री-कुमारी ० ।

^१ समारम्भ = समालम्भ = हिंसा, जैसे अशालम्भ, गवालम्भ ।

दासी-दास ० । भेद-ब्रकरी ० । मुर्गी-सूअर ० । हाथी-गाय ० । घोड़ा-घोड़ी ० । खेत-घर ० । दूत बनकर जाने... ० । ऋय-विक्रय ० । तराजूकी ठगी, काँसेकी ठगी, मान (= सेर मन आदि) की ठगी ० । घूस, वंचना, जाल-साजी, कुटिल-योग ० । छेदन, वध, बंधन, छापा मारने, आलोप (ग्राम आदिका विनाश) करने, ढाका डालने ० ।

“वह शरीरपरके चीवरसे, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है । वह जहाँ जहाँ जाता है, (अपना सामान) लिये ही जाता है ; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पत्र-भार सहितही उड़ता है । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चीवरसे, पेटके खानेसे, सन्तुष्ट होता है । ० । वह इस प्रकार आर्य-शील (= निर्दोष सदाचारकी)-स्कंध (= राशि)से युक्त हो, अपनेमें (= अध्यात्म) निर्दोष सुख अनुभव करता है ।

“वह चक्षुसे रूपको देखकर, निमित्त (= लिंग, आकृति आदि) और अनुव्यंजनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता । चूँकि चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रख विहरनेवालेको, राग द्वेष पाप = अ-कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये उसको रक्षित रखता (= संवर करता) है । चक्षु इन्द्रियकी रक्षा करता है = चक्षु इन्द्रियमें संवर ग्रहण करता है । वह श्रोतसे शब्द सुनकर निमित्त और अनुव्यंजनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता ० । घ्राणसे गंध ग्रहणकर ० । जिह्वासे रस ग्रहणकर ० । कायासे स्पर्श ग्रहणकर ० । मनसे धर्म ग्रहण कर ० । इस प्रकार वह आर्य-इन्द्रिय-संवरसे युक्त हो, अपनेमें निर्मल सुखको अनुभव करता है ।

“वह आने जानेमें, जानकर करनेवाला, होता है । अवलोकन विलोकनमें, संप्रजन्य-युक्त (= जानकर करनेवाला) होता है । समेटने-फैलानेमें संप्रजन्य-युक्त होता है । संघाटी पात्र-चीवर धारण करनेमें ० । खाना-पीना भोजन-आस्वादनमें ० । पाखाना-पेशावके काममें ० । जाते-खड़े होते, बैठते, सोते-जागते, बोलते-बुप रहते, संप्रजन्य-युक्त होता है । वह इस आर्य शील-स्कंधसे युक्त, इस आर्य इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आर्य स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्तमें—अरण्य, वृक्षके नीचे, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुहा, श्मशान, वन-प्रान्त, चौड़े, या पुआलके गंजमें—वास करता है । वह भोजनके पश्चात्...आसन मार कर, कायाको सीधा कर, स्मृतिको सन्मुख रख बैठता है । वह लोकमें (१) अभिघ्या (= लोभ)को छोड़, अभिघ्या-रहित-चित्त हो, विहरता है ; चित्तको अभिघ्यासे परिशुद्ध करता है । (२) व्यापाद (= द्रोह)-दोषको छोड़कर, व्यापाद-रहित चित्तसे, सर्व प्राणियोंका हितानुकम्पी हो, विहरता है ; व्यापाद दोषसे चित्तको परिशुद्ध करता है । (३) स्त्यानमृद्ध (= शरीर-मनके आलस)को छोड़, स्त्यान-मृद्ध-रहित हो, आलोक-संज्ञावाला, स्मृति, सम्प्रजन्यसे युक्त हो विहरता है । औद्धत्य-कौकृत्यको छोड़ अन्-उद्धत हो भीतरसे शान्त हो, विहरता है । (४) औद्धत्य-कौकृत्यसे चित्तको परिशुद्ध करता है । (५) विचिकित्सा (= सन्देह)को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो, कुशल (= उत्तम)-धर्माँमें विवाद-रहित (= अकथं कथी) हो, विहरता है ; चित्तको विचिकित्सासे परिशुद्ध करता है ।

“वह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे छोड़, उप-क्लेशों (= चित्त-मलों)को जान, (उनके) दुर्बल करनेके लिये, कामोंसे पृथक् हो, अ-कुशल-धर्माँसे पृथक् हो, स-वितर्क, स-विचार विवेकसे उत्पन्न, प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथागतका पद कहा जाता है, यह (पद) भी तथागतसे सेवित है, यह (पद) भी तथागत-रंजित है । किन्तु आर्य-श्रावक इतनेही से विश्वास नहीं कर लेता—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, भगवान्का श्रावक-संघ सु-प्रतिपन्न है ।

“और फिर ब्राह्मण ? भिक्षु वितर्क और विचारके उपशांत होनेपर, भीतरके संप्रसाद

(= प्रसन्नता) = चित्तकी एकाग्रताको प्राप्त हो, चित्तक-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले, द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ब्राह्मण ! यह पद भी तथागतका पद कहा जाता है, यह भी तथागत-सेवित है, यह भी तथागत-रंजित है। किन्तु आर्य-श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता—भगवान् ग्यक्-संबुद्ध हैं ० ।

“और फिर ब्राह्मण ! भिक्षु प्रीति और विरागसे उपेक्षक हो, स्मृति और संभ्रजन्यसे युक्त हो, कायासे सुखको अनुभव करता विहरता है; जिसको (और) कि आर्य-जन उपेक्षक स्मृतिमान् सुख-विहारी कहते हैं, ऐसे तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है। ब्राह्मण ! यह पद भी तथागत-पद कहा जाता है ० किन्तु आर्य श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता ० ।

“और फिर ब्राह्मण ! भिक्षु सुख और दुःखके विनाशसे, सौमनस्य और दौर्मनस्यके पूर्वही अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्मृतिकी परिशुद्धता-युक्त चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है ० । किन्तु आर्यश्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं ० ।

“सो इस प्रकार चित्तके—परिशुद्ध=परि-अवदात, अंगण-रहित=उपकलेश (= मल) रहित, मृदु हुये, काम-लायक, स्थिर=अचलता-प्राप्त=समाहित—हो जानेपर, पूर्वजन्मोकी स्मृतिके ज्ञान (= पूर्व-निवासाऽनुस्मृति-ज्ञान)के लिये चित्तको झुकाता है। फिर वह अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगता है—जैसे ‘एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म भी, चार०, पाँच०, छः०, दस०, बीस०, तीस०, चालीस०, पचास०, सौ०, हजार०, सौहजार०, अनेक संवर्त (= प्रलय) कल्प, अनेक विवर्त (= सृष्टि)-कल्प, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पको भी,—इस नामवाला, इस गोत्रवाला, इस वर्णवाला, इस आहारवाला, इस प्रकारके सुख दुःखको अनुभव करनेवाला, इतनी आयु-पर्यन्त, मैं अमुक स्थानपर रहा। सो मैं वहाँसे च्युत हो, यहाँ उत्पन्न हुआ।’ इस प्रकार आकार-सहित उद्देश्य-सहित अनेक किये गये निवासोंको स्मरण करता है। यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है। ० ।

“सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध ० समाहित होनेपर प्राणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान (= च्युति-उत्पाद-ज्ञान)के लिये चित्तको झुकाता है। सो अ-मानुष विशुद्ध दिव्य चक्षुसे अच्छे दुरे, सु-वर्ण, दुर्बर्ण, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखता है। उनके कर्मोंके साथ सत्त्वोंको जानता है—‘यह जोव काय-दुश्चरित-सहित, वचन-दुश्चरित-सहित, मन-दुश्चरित-सहित थे, आर्योंके निन्दक (= उपवादक) मिथ्या-दृष्टिवाले, मिथ्यादृष्टि-सम्बन्धी कर्मोंसे युक्त थे। यह काया छोड़, मरनेके बाद अ-पाय = दुर्गति = विनिपात = नर्कमें उत्पन्न हुये हैं। और यह जोव (= सत्त्व) काय-सुचरित-सहित, वचन-सुचरित-सहित, मन-सुचरित-सहित थे, आर्योंके अ-निन्दक सम्यग्-दृष्टिवाले सम्यग्-दृष्टि-सम्बन्धी कर्मोंसे युक्त थे। यह कामसे अलग हो...मरनेके बाद सुगति = स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अ-मानुष विशुद्ध दिव्य चक्षुसे प्राणियोंको ० देखता है। यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है। ० ।

“सो इस प्रकार चित्तके ० समाहित हो जानेपर आस्रव-क्षय-ज्ञान (= रागादि चित्त-मलोंके नाश होनेका ज्ञान)के लिये चित्तको झुकाता है। सो ‘यह दुःख है’ इसे यथार्थसे जानता है, ‘यह दुःख-समुदय है’ इसे यथार्थसे जानता है, ‘यह दुःख-निरोध है’ इसे यथार्थसे जानता है। ‘यह आस्रव है’ ०। ‘यह आस्रव-समुदय है’। ‘यह आस्रव-निरोध है’ ०। ‘यह आस्रव-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् (= रागादि चित्त-मलोंके नाशकी ओर ले जानेवाला मार्ग) है’ ०। यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है ०। ०।

“इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, उस (पुरुष)के चित्तको काम-आस्रव भी छोड़ देता है, भव-आस्रव भी ०, अ-विद्या-आस्रव भी ० । छोड़ देने (=विमुक्त हो जाने)पर, ‘छूट गया हूँ’ ऐसा ज्ञान होता है । ‘जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, करना था, सो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं’—यह भी जानता है । ब्राह्मण ! यह भी तथागत-पद कहा जाता है ० । इतनेसे ब्राह्मण ! आर्य-श्रावक विश्वास करता है—भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं ० ।

“इतनेसे ब्राह्मण ! हस्ति-पदकी उपमा (हृत्थि-पदोपम) विस्तारपूर्वक पूरी होती है ।”

ऐसा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्मणने भगवान्को यह कहा—

“आश्चर्य ! भो गौतम !! आश्चर्य ! भो गौतम !! ०^१ मैं आप गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे (सुझे) आप गौतम अंजलि-वद्ध उपासक धारण करें ।

२८—महाहत्थिपदोपम-सुत्तन्त (१३।८)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“आवुसो ! भिक्षुओ !”

“आवुस” —कह, उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने कहा—

“जैसे आवुसो ! जंगली प्राणियोंके जितने पद हैं, वह सभी हाथीके पैर (=हस्ति-पद) में समा जाते हैं । बड़ाईमें हस्ति-पद उनमें उग्र (=श्रेष्ठ) गिना जाता है । ऐसे ही आवुसो ! जितने कुशल धर्म हैं, वह सभी चार आर्य-सत्त्वोंमें सम्मिलित हैं । कौनसे चारोंमें ?—दुःख आर्य-सत्त्वमें, दुःख-समुदय आर्य-सत्त्वमें, दुःख-निरोध आर्य-सत्त्वमें, और दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद आर्य-सत्त्वमें ।

“क्या है आवुसो ! दुःख आर्य-सत्त्व ?—जन्म भी दुःख है । जरा (=बुढ़ापा) भी दुःख है । मरण भी दुःख है । शोक, रोना-पिटना, दुःख है । मनःसंताप, परेशानी भी दुःख है । जो इच्छा करके नहीं पाता वह भी दुःख है । संक्षेपमें पाँच उपादान-स्कंध दुःख हैं ।

“आवुसो ! पाँच उपादान-स्कंध कौनसे हैं ?—(पाँच उपादान-स्कंध हैं) जैसे कि—रूप-उपादान स्कंध, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० । आवुसो ! रूप-उपादान-स्कंध क्या है ?—चार महाभूत, और चारों महाभूतोंको लेकर (वननेवाले) रूप । आवुसो ! चार महाभूत कौनसे हैं ?—पृथिवी-धातु, आप (= पानी) ०, तेज (= अग्नि) ०, वायु ० । आवुसो ! पृथिवी-धातु क्या है ?—पृथिवी धातु हैं (दो), आध्यात्मिक (= शरीरमें) और वाहरी । आवुसो ! आध्यात्मिक पृथिवी-धातु क्या है ?—जो शरीरमें (= अध्यात्म) हरएक शरीरमें कर्कश कठोर (पदार्थ) हैं, जैसे कि—केश, लोम, नख, दन्त, त्वक् (= चमड़ा), मांस, स्नायु (= नहाह), अस्थि, अस्थिके भीतरकी मज्जा, वृक्क, हृदय, यकृत, क्लोमक, झीहा, फुफ्फुस, आँत, पतली-आँत, उदरका मल (= करीष) । और भी जो कुछ शरीरमें प्रतिशरीरके भीतर कर्कश, कठोर (पदार्थ) गृहीत है । यह आवुसो ! आध्यात्मिक पृथिवी-धातु कही जाती है । जो कि आध्यात्मिक पृथिवी धातु है, और जो वाहरी (= वाहिरा) पृथिवी-धातु है, यह पृथिवी धातुही है । ‘वह यह (पृथिवी) न मेरी है, न यह मैं हूँ, न यह मेरा आत्मा है’ यह यथार्थसे अच्छी प्रकार जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थसे अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे, (द्रष्टा) पृथिवी-धातुसे निर्वेद (= उदासीनता)को प्राप्त होता है । पृथिवी धातुसे चित्तको विरक्त करता है ।

“आवुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब बाहरी पृथिवी-धातु कुपित होती है, उस समय बाहरी पृथिवी धातु अन्तर्धान होती है । (तब) आवुसो ! इतनी महान् बाहरी पृथिवी-धातुकी भी अनित्यता = क्षय-धर्मता = वि-परिणाम-धर्मता जान पड़ती है । इस क्षुद्र कायाका तो क्या (कहना है) ? तृष्णामें फँसा (= तण्डुपादिष्ण) जिसे ‘मैं’, ‘मेरा’ या ‘मैं हूँ’ (कहता); वही इसकी नहीं होती ।

“भिक्षुओ ! जब दूसरे आक्रोश = परिहास = रोप = पीडा देते हैं, तो वह समझता है— ‘यह उत्पन्न दुःखरूप-वेदना (= ० अनुभव) मुझे श्रोत्रके सम्बन्ध (= संस्पर्श)से उत्पन्न हुई है । और यह कारणसे (उत्पन्न हुई है) अ-कारणसे नहीं । किस कारणसे ?—स्पर्शके कारण । ‘स्पर्श अनित्य है’—यह वह देखता है । ‘वेदना अनित्य है’ ० ‘संज्ञा अनित्य है’ ० । ‘संस्कार अनित्य है’ ० । ‘विज्ञान अनित्य है’ ० । उसका चित्त धातु (= पृथिवी) रूपी विषयसे पृथक्, प्रसन्न (= स्वच्छ), स्थिर, विमुक्त होता है । उस भिक्षुके साथ आवुसो ! यदि दूसरे, हाथके योग (= संस्पर्श)से, ढेलके योगसे, दंडके योगसे, शस्त्रके योगसे अन्-इष्ट = अ-कांत = अ-मनाप (व्यवहार)से वर्तव करते हैं । वह यह जानता है—कि ‘यह इस प्रकारकी काया है, जिसमें पाणि-संस्पर्श भी लगते हैं, ढेलके संस्पर्श भी ०, दंडके संस्पर्श भी ०, शस्त्रके संस्पर्श भी ० । भगवान्ने ऋक्चोपम (= आराके समान) अववाद (= उपदेश)में कहा है—‘भिक्षुओ ! यदि चोर डाकू (= आचरक = उचका) दोनों और दखतेवाले आरेसे भी एक एक अंग काटें, वहाँपर भी जो मनको दूषित करे, वह मेरे शासन (= उपदेश) (के अनुकूल आचरण) करनेवाला नहीं है ।’ मेरा वीर्य (= उद्योग) चलता रहेगा, विस्मरण-रहित स्मृति मेरी उपस्थित (रहेगी), काया स्थिर (= प्रश्रब्ध) अ-चंचल (= अ-सारद), चित्त समाहित = एकग्र (रहेगा) । चाहे इस कायामें पाणि-संस्पर्श हो, ढेला मारना हो, डण्डा पड़े, शस्त्र लगे, (किंतु) बुद्धोंका उपदेश (पूरा) करना ही होगा ।’

“आवुसो ! उस भिक्षुको, इस प्रकार बुद्धको याद करते, इस प्रकार धर्मको याद करते, इस प्रकार संघको याद करते, कुशल-संयुक्त (= निर्मल) उपेक्षा जब नहीं ठहरती । वह उससे उदास होता है, संवेगको प्राप्त होता है—‘अहो ! अ-लाभ है मुझे, मुझे लाभ नहीं हुआ; मुझे दुर्लाभ है, सुलाभ नहीं हुआ, जो मुझे इस प्रकार बुद्ध-धर्म-संघको स्मरण करते कुशल-युक्त उपेक्षा नहीं ठहरती; जैसे कि आवुसो ! बहू (= सुणिसा) ससुरको देखकर संविभ्र होती है, संवेगको प्राप्त होती है । इसी प्रकार आवुसो ! उस भिक्षुको ऐसे बुद्ध-धर्म-संघ (के गुणों)को याद करते कुशल-संयुक्त उपेक्षा नहीं ठहरती, वह उससे ० संवेगको प्राप्त (= उदास) होता है—मुझे अलाभ है ० । आवुसो ! उस भिक्षुको यदि इस प्रकार बुद्ध-धर्म-संघको अनुस्मरण करते कुशल-युक्त उपेक्षा ठहरती है, तो वह उससे सन्तुष्ट होता है । इतनेसे भी आवुसो ! भिक्षुने बहुत कर लिया ।

“क्या है आवुसो ! आप-धातु ?—आप (= जल)-धातु दो होती है, आध्यात्मिक और बाहरी । आवुसो ! आध्यात्मिक आप-धातु क्या है ?—जो शरीरमें प्रतिशरीरमें पानी, या पानीका (पदार्थ) है; जैसे कि पित्त, श्लेष्म (= कफ), पीव, लोहू, स्वेद (= पसीना), मेद, अश्रु, वसा (= चर्बी), राल, नासिका-मल, कर्ण-मल (= लसिका), मूत्र, और जो कुछ और भी शरीरमें पानी या पानीका है । आवुसो ! यह आप-धातु कही जाती है । जो आध्यात्मिक आप-धातु है, और जो बाहरी आप-धातु है, यह आप-धातुही है । ‘यह मेरा नहीं’, ‘यह मैं नहीं’, ‘यह मेरा आत्मा नहीं’—इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर, देखना चाहिये । इस प्रकार यथार्थतः

अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप-धातुसे निर्वेदको प्राप्त (= उदास) होता है । आप-धातुसे चित्तको विरक्त करता है ।

“आवुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब कि बाह्य आप-धातु प्रकुपित होती है । वह गाँवको भी, निगमको भी, नगरको भी, जनपदको भी, जनपद-प्रदेशको भी वहा देती है । आवुसो ! ऐसा समय होता है, जब महासमुद्रमें सौ योजन, दो सौ योजन, सात सौ योजनके भी पानी आते हैं । आवुसो ! सो भी समय होता है, जब महासमुद्रमें सात ताल, छः ताल, पाँच ताल, चार ताल, तीन ताल, दो ताल, तालभर भी पानी होता... है । आवुसो ! सो समय होता है, जब महासमुद्रमें सात पोरिसा (= पुरुष-परिमाण), ० पोरिसा भर पानी रह जाता है । ० जब महासमुद्रमें आध-पोरिसा, कमर भर, जाँघ भर, घुट्टी भर पानी ठहरता है । ० जब महासमुद्रमें अंगुलिके पोर घोने भरके लिये भी पानी नहीं रह जाता । आवुसो ! उस इतनी बड़ी बाह्य आप-धातुकी अनित्यता ० । ० । आवुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया ।

“आवुसो ! तेज-धातु क्या है ?—तेज-धातु है आध्यात्मिक और बाह्य । आवुसो ! आध्यात्मिक तेज-धातु क्या है ?—जो शरीरमें प्रतिशरीरमें तेज (= अग्नि) या तेजका है; जैसे कि—जिससे संतप्त होता है, जर्जरित होता है, परिदग्ध होता है, खाया पीया अच्छी प्रकार हजम होता है; या जो कुछ और भी शरीरमें, प्रति-शरीरमें, तेज या तेज-विषय है । यह कहा जाता है आवुसो ! तेज-धातु । जो यह आध्यात्मिक (= शरीरमेंकी) तेज-धातु है, और जो कि यह बाह्य तेज-धातु है, यह तेज-धातु ही है । ‘न यह मेरी है’, ‘न यह मैं हूँ’, ‘न यह मेरा आत्मा है’—इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थतः जानकर, देखनेसे तेज-धातुसे निर्वेदको प्राप्त होता है, तेज-धातुसे चित्तको विरक्त करता है । ० ।

“आवुसो ! ऐसा समय (भी) होता है, जब बाह्य तेज-धातु कुपित होती है । वह गाँव, निगम, नगर ० को भी जलाती है । वह हरियाली महामार्ग (= पन्थन्त), या शैल या पानी (या) भूमि-भागको प्राप्त हो, आहार न पा खुश जाती है । आवुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब कि इसे मुर्गाके पर भर भी, चमड़ेके छिलके भर भी ढँके हैं । आवुसो ! उस इतने बड़े तेज-धातुकी अ-नित्यता ० । ० । आवुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया ।

“आवुसो ! वायु-धातु क्या है ?—वायुधातु आध्यात्मिक भी है, बाह्य भी । आध्यात्मिक वायु-धातु कौन है ?—जो शरीरमें प्रति-शरीरमें वायु या वायुका (पदार्थ) है; जैसे कि ऊर्ध्वगामी वात, अधोगामी वात (= हवा), कुक्षि (= पेट)के वात, कौठेमें रहनेवाले वात, अन्न प्रत्यङ्गमें अनुसरण करनेवाले वात, या आश्वास-प्रश्वास, और जो कुछ और भी ० । यह आवुसो ! आध्यात्मिक वायु-धातु । ० कहा जाता है ।

“आवुसो ! ऐसा समय भी होता है, जब कि बाह्य वायु-धातु कुपित होती है, वह गाँवको भी ० उबा ले जाती है । आवुसो ! ऐसा समय (भी) होता है, जब ग्रीष्मके पिछले महीनेमें तालका पंखा डुलाकर भी हवाको खोजते हैं, ... आवुसो ! इस इतनी बड़ी वायुधातु ० । उस भिक्षुको यदि आक्रोश ० । ०’ इतनेसे आवुसो ! भिक्षुने बहुत कर लिया ।

“जैसे, आवुसो ! काष्ठ, बल्ली, वृण और मृत्तिकासे घिरा आकाश घर कहा जाता है; ऐसेही आवुसो ! अस्थि, स्नायु, मांस और चर्मसे घिरा आकाश, रूप (= मूर्ति=शरीर) कहा जाता है । (जब) आध्यात्मिक (शरीरमेंकी) आँख अ-विकृत होती है, (किन्तु) बाह्य रूप सामने नहीं आते; (तो) उनसे समन्वाहार (= मनसिकार-पूर्वक विषय-ज्ञान) उत्पन्न नहीं होता; उनसे उत्पन्न विज्ञान-भाग प्रादुर्भूत नहीं होता । जब आवुसो ! शरीरमेंकी आँख अ-विकृत होती

है, बाह्य रूप सामने आते हैं, तो उनसे विषय-ज्ञान उत्पन्न होता है, इस प्रकार उनसे उत्पन्न (स्कन्धके) विज्ञान-भागका प्रादुर्भाव होता है।

“जो चक्षु-विज्ञानके साथका रूप है, वह रूप-उपादान-स्कन्ध गिना जाता है। जो वेदना है, वेदना-उपादान-स्कन्ध गिना जाता है। ० संज्ञा ० संज्ञा-उपादान-स्कन्ध ० । ० संस्कार ० संस्कार-उपादान-स्कन्ध ० । ० विज्ञान ० विज्ञान-उपादान-स्कन्ध ० । सो इस प्रकार जानता है—इस प्रकार इन पाँचों उपादान-स्कन्धोंका संग्रह=सन्निपात=समवाय होता है। यह भगवान् ने भी कहा है—‘जो प्रतीत्य-समुत्पादको देखता (=साक्षात् करता) है; वह धर्मको देखता है; जो धर्मको देखता है, वह प्रतीत्य-समुत्पाद (=कार्य कारणसे सभी चीजोंकी उत्पत्ति)को देखता है। यह प्रतीत्य-समुत्पन्न (=कारण करके उत्पन्न हैं) जो कि यह पाँच उपादान-स्कन्ध हैं। जो इन पाँच उपादान-स्कन्धोंमें छन्द (=रुचि)=आलय=अनुनय=अध्यवसान है, वही दुःख समुदय है। जो इन पाँच उपादान-स्कन्धोंमें छन्द राग का हटाना, छोड़ना है, वह दुःख निरोध है। इतनेसे भी आवुसो ! मिश्रुने बहुत किया। ० ।

“आवुसो ! यदि आध्यात्मिक (=शरीरमेंका) श्रोत्र अ-विकृत होता है। ० । ० घ्राण ० । ० जिह्वा ० । ० काय ० । ० मन ० । इतनेसे भी, आवुसो ! मिश्रुने बहुत किया। ० ।”

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा। सन्तुष्ट हो उन मिश्रुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणको अनुमोदित किया।

२६—महा-सारोपम-सुत्तन्त (१३।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय, देवदत्तके निकल जानेके थोड़े ही समय बाद भगवान् राजगृहमें गृध्रकूट-पर्वत पर विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको देवदत्तके सर्वधर्म सम्बोधित किया ।

“भिक्षुओ ! कोई कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घरसे वेधर हो प्रव्रजित (= संन्यासी) होता है—‘मैं जन्म, जरा, मरण, शोक, रोदन, क्रन्दन, दुःख = दुर्मनस्कता, परेशानीमें पड़ा हुआ हूँ । दुःखमें पड़ा, दुःखसे लिप्त मेरे लिये क्या कोई इस केवल (= खालिस) दुःख-स्कंध (= दुःखपुंज) के अन्त करनेका उपाय है ?’ वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, लाभ, सत्कार, श्लोक (= प्रशंसा) का भागी होता है । उस लाभ, सत्कार, श्लोकसे संतुष्ट हो (अपनेको) परिपूर्ण-संकल्प समझता है । वह उस लाभ, सत्कार, श्लोकसे अपने लिये अभिमान करता है और दूसरेको नीच समझता है—‘मैं लाभवाला, सत्कारवाला, श्लोकवाला हूँ और यह दूसरे भिक्षु अप्रसिद्ध शक्तिहीन हैं । वह उस लाभ, सत्कार, श्लोकसे मतवाला होता है, प्रमादी वनता है, प्रमाद (= भूल) करने लगता है । प्रमत्त हो दुःखमें पड़ता है ।

“जैसे भिक्षुओ ! सार चाहनेवाला = सारगवेपी पुरुष, सार (= हीर) की खोजमें धूमता हुआ एक सारवाले महान् वृक्षके रहते, उसके सारको छोड़, फल्यु^१को छोड़, छालको छोड़, पपड़ीको छोड़, शाखा पत्तेको काट, ‘यही सार है’—समझ लेकर चला जाय । उसको आँखवाला पुरुष देखकर ऐसा कहे—‘हे पुरुष ! आपने सारको नहीं समझा, फल्युको नहीं समझा, छालको नहीं समझा, पपड़ीको नहीं समझा, शाखा-पत्तेको नहीं समझा, जो कि आप सार चाहनेवाले, सार-गवेपी ० ‘यही सार है’—समझ ले जा रहे हैं । सारसे जो काम करना है वह…………… इससे न होगा’ । ऐसे ही भिक्षुओ ! यहाँ एक कुल-पुत्र ० दुःखमें पड़ता है । भिक्षुओ ! इसे कहते हैं कि भिक्षुने ब्रह्मचर्यके शाखा-पत्तेको ग्रहण किया और उतने ही से (अपने कृत्यको) समाप्त कर दिया ।

“यहाँ भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र श्रद्धासे ० वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, लाभ, सत्कार श्लोकका भागी होता है । (किन्तु) वह उस लाभ, सत्कार, श्लोकसे संतुष्ट नहीं होता (अपने को) परिपूर्ण-संकल्प नहीं समझता । वह उस लाभ, सत्कार, श्लोकसे न अपने लिये घमंड करता है, न दूसरों को नीच समझता है । वह उस लाभ, सत्कार, श्लोकसे, मतवाला नहीं होता, प्रमादी नहीं होता, प्रमादमें लिप्त नहीं होता ! प्रमादरहित हो शील (= सदाचार) का आराधन

^१ हीर और छिलकेके बीचका काष्ठ ।

करता है। उस शीलके आराधनसे संतुष्ट होता है। (अपनेको) पूर्ण-संकल्प समझता है। वह उस शील-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है और दूसरोंको नीच समझता है—‘मैं शीलवान् (= सदाचारी), कल्याण-धर्मा (= पुण्यात्मा) हूँ और ये दूसरे भिक्षु दुराचारी, पापधर्मा हैं’। वह उस शीलकी संपदासे मतवाला हो जाता है, प्रमादी होता है, प्रमादमें लिप्त होता है, प्रमादी होकर दुःखित होता है।

“जैसे भिक्षुओ ! सारका चाहनेवाला, सारका खोजी, पुरुष सारकी तलाशमें फिरते (घूमते हुए) ० फल्यु छोड़कर छाल और पपड़ीको काटकर—‘यही सार है’—समझ लेकर चला जाय। उसको आँखवाला पुरुष देखकर ऐसा कहे—आप सारको नहीं समझे, नहीं फल्युको समझे, नहीं छालको समझे, नहीं पपड़ीको समझे, नहीं शाखा-पत्रको समझे। यह आप सार चाहनेवाले ० लेकर जा रहे हैं; ० ऐसेही भिक्षुओ ! यहाँ कोई कोई कुल-पुत्र ० दुःखित होता है। यह कहा जाता है भिक्षुओ ! कि भिक्षुने ब्रह्मचर्यकी पपड़ीको ग्रहण किया, उसीसे (अपने कृत्यकी) समाप्ति कर दी।

“और भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र ० लाभ सत्कार श्लोकसे संतुष्ट न हो ० वह उस शील-संपदासे नहीं मतवाला होता ० प्रमाद-रहित हो ० उस समाधिकों संपदासे संतुष्ट होता है (अपनेको) परिपूर्ण-संकल्प समझता है। वह उस समाधि-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है और दूसरोंको नीच समझता है—‘मैं समाधि-युक्त-चित्तवाला हूँ, एकाम्र चित्त हूँ, किन्तु ये, दूसरे भिक्षु समाधि-रहित, विक्षिप्त-चित्तवाले हैं। वह उस समाधि-संपत्तिसे मतवाला होता है ० प्रमादी हो दुःखित होता है। जैसे भिक्षुओ ! सार चाहनेवाला ० सार (= हीर)को छोड़कर फल्यु और छालको काटकर, यही सार है—समझ लेकर चला जाय। उसको आँखवाला पुरुष ० ऐसे ही भिक्षुओ ! यहाँ कोई कुल-पुत्र ० दुःखी होता है। यह कहा जाता है भिक्षुओ ! कि भिक्षुने ब्रह्मचर्यकी छालको ही ग्रहण किया ०।

“और भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र ० वह उस समाधि-संपदासे नहीं मतवाला होता ०; प्रमाद-रहित हो ज्ञान-दर्शन (= तत्त्व-साक्षात्कार)का आराधन करता है। वह उस ज्ञान-दर्शनसे सन्तुष्ट होता है, परिपूर्ण-सङ्कल्प (समझता है)। वह ज्ञान-दर्शनसे अपने लिये अभिमान करता है, दूसरोंको नीच समझता है—‘मैं जानता देखता (= तत्त्व-साक्षात्कार करता) विहरता हूँ’, किन्तु, ये दूसरे भिक्षु न जानते, न देखते विहरते हैं वह उस ज्ञान-दर्शनसे मतवाला होता है ० दुःखी होता है। जैसे भिक्षुओ ! सार चाहनेवाला ० सारको छोड़कर फल्युको काट, यही सार है—समझ लेकर चला जाय। ० ऐसेही भिक्षुओ ! यहाँ कोई कुल-पुत्र ० दुःखित होता है। यह कहा जाता है भिक्षुओ ! कि भिक्षुने ब्रह्मचर्यके फल्युको ग्रहण किया। ०

“और भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र ० वह उस ज्ञान-दर्शनसे संतुष्ट होता है; किन्तु, परिपूर्ण संकल्प नहीं होता। वह उस ज्ञान-दर्शनसे न अपने लिये अभिमान करता है; और न दूसरोंको नीच समझता है। वह उस ज्ञान-दर्शनसे मतवाला नहीं होता; प्रमाद नहीं करता.....। प्रमाद-रहित हो अकालिक (= सद्यः प्राप्य) मोक्षको आराधित करता है। भिक्षुओ ! यह संभव नहीं, इसका अवकाश नहीं, कि वह भिक्षु उस अकालिक मोक्षसे च्युत होवे। जैसे भिक्षुओ ! सार चाहनेवाला ० सारको ही काटकर ‘यही सार है’—समझ ले जाये। उसे आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे—‘अहो ! आपने सारको समझा है ० शाखा-पत्रको समझ लिया है; सो यह आप सार चाहनेवाले = सार-गवेपी, सारकी खोजमें घूमते, सारवाले महान् वृक्षके खड़े रहते सारको ही—‘यह सार है’ (समझ), काटकर ले जा रहे हैं। जो इन्हें सारसे काम लेना है वह मतलब पूरा

होगा । ऐसेही भिक्षुओं । यहाँ कोई कुल-पुत्र ० उस अकालिक मोक्षसे च्युत होवे ।

“इस प्रकार भिक्षुओं ! यह ब्रह्मचर्य लाभ, सत्कार, इलोक पानेके लिये नहीं है । शील-संपत्तिके लाभके लिये नहीं है, न समाधि-संपत्तिके लाभ लिये है, न ज्ञान-दर्शन (= तत्त्वके ज्ञान और साक्षात्कार)के लाभके लिये है । भिक्षुओं ! जो यह न च्युत होनेवाली वित्तकी मुक्ति है, इसीके लिये यह ब्रह्मचर्य है । यही सार है, यही अन्तिम निष्कर्ष है ।”

भगवान्ने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।

३०—चूल-सारोपम-सुत्तन्त (१।३।१०)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब पिंगलकोच्छ ब्राह्मण, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्के साथ.....
(कुशल प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे पिंगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—

“भो नौतम ! जो यह संवपति = गण-पति ज्ञात, यशस्वी तीर्थंकर (= मतस्थापक) हैं, जैसे कि—पूर्ण काश्यप, मन्वली गोसाल, अजित केश-कम्बली, प्रकुथ कात्यायन, संजय वेलट्टि-पुत्त, लिगंठ नात-पुत्त, सभी अपनी प्रतिज्ञा (= मत)को समझते हैं; या सभी नहीं समझते या कोई कोई समझते हैं; कोई कोई नहीं समझते ?”

“वस ब्राह्मण ! रहने दे इसे—‘सभी अपने ० नहीं समझते ।’ ब्राह्मण तुझे धर्मका उपदेश करता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भो !”—(कह) पिंगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“जैसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला पुरुष ० ^१ शाखापत्रको काट, यही सार है—समझ लेकर चला जाय । तो सार (= हीर) से जो काम करना है, वह उससे न होगा ।

“जैसे कि ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला पुरुष ० ^२ छालको काटकर—‘यही सार है’—समझ लेकर चला जाय; तो सारसे जो काम करना है वह उससे न होगा ।

“जैसे ब्राह्मण ! ० ^३ पपड़ीको काटकर, यही सार है—समझ लेकर चला जाय । ० ।

“जैसे ब्राह्मण ! ० ^४ फलुको काटकर, यही सार है—समझ लेकर चला जाय । ० ।

“जैसे ब्राह्मण ! ० ^५ सारको ही काट कर—‘यही सार है’—समझ ले जाय । उसे आँख वाला पुरुष देख कर यह कहे—अहो ! आपने सारको समझा है ० ^५ सारसे जो काम आपको करना है वह इससे होगा ।

“ऐसे ही ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो प्रव्रजित होता है ० ^६ वह उस लाभ, सत्कार, श्लोकसे संतुष्ट हो अपनेको परिपूर्ण-संकरूप समझता है । वह उस लाभ, सत्कार श्लोकसे अपने लिये अभिमान करता है, और दूसरेको नीच समझता है—मैं लाभ-सत्कार श्लोक वाला हूँ, और ये दूसरे भिक्षु अप्रसिद्ध, शक्ति-हीन हैं । वह उस लाभ, सत्कार श्लोकके कारण,

^१ देखो पृष्ठ १२२ । ^२ देखो पृष्ठ १२२ । ^३ देखो पृष्ठ १२२ । ^४ देखो पृष्ठ १२२ ।

^५ देखो पृष्ठ १२२ । ^६ देखो पृष्ठ १२२ ।

जो दूसरे उत्तम=प्रणीततर पदार्थ (= धर्म) हैं, उनके साक्षात्कारके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता, उद्योग नहीं करता, आलसी और शिथिल होता है। जैसे ब्राह्मण! वह सार चाहने वाला ० शाखा पत्र को ० लेकर चला जाय ० वह बात उससे न हो। उसीके समान, ब्राह्मण! मैं इस मनुष्यको कहता हूँ।

“और फिर ब्राह्मण! यहाँ कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ०^१ वह उस शीलका आराधन करता है, वह उस शील-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है ०^१ वह उस शील-संपदाके कारण जो दूसरे उत्तम ० पदार्थ हैं, उनके साक्षात्कारके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता, उद्योग नहीं करता ०। जैसे ब्राह्मण! वह सार चाहनेवाला ० छालको ० लेकर चला जाय ० वह इससे न होगा। उसीके समान ब्राह्मण! मैं इस मनुष्यको कहता हूँ।

“और फिर ब्राह्मण! कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ०^१ वह न उस शील-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है न दूसरेको नीच समझता है। शील-संपदासे जो उत्तम=प्रणीततर पदार्थ हैं, उनके साक्षात्कारके लिये रुचि उत्पन्न करता है, उद्योग करता है, आलसी नहीं होता, शिथिल नहीं होता। (और) वह समाधि-संपदाका आराधन करता है। वह उस समाधि-संपदासे सन्तुष्ट होता है; (अपनेको) परिपूर्ण-संकल्प समझता है ०^१ विभ्रान्त-चित्त हैं। समाधि-संपदा से जो दूसरे पदार्थ उत्तम=प्रणीततर हैं, उनके साक्षात्कार करनेके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता ०। जैसे ब्राह्मण! वह सार चाहने वाला ० पपड़ीको ० लेकर चला जाय ० वह बात इससे न हो। उसीके समान ब्राह्मण! मैं इस मनुष्यको कहता हूँ।

“और फिर ब्राह्मण! कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ०^१ वह उस समाधि-संपदासे न अपने लिये अभिमान करता है ०। समाधि संपदासे जो उत्तम ० पदार्थ है, उनके साक्षात्कारके लिये रुचि उत्पन्न करता है ०। (और) वह ज्ञान-दर्शनका आराधन करता है। वह उस ज्ञान-दर्शनसे संतुष्ट होता है ०। जैसे ब्राह्मण! वह सार चाहनेवाला पुरुष ० फल्युको ० लेकर चला जाय ० उसीके समान ब्राह्मण! मैं इस मनुष्यको कहता हूँ।

“और फिर ब्राह्मण! कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ०^१ वह उस ज्ञान-दर्शनसे सन्तुष्ट होता है। किन्तु परिपूर्ण-संकल्प नहीं समझता। वह उस ज्ञान-दर्शनसे न अपने लिये अभिमान करता है न दूसरेको नीच समझता है। उस ज्ञानदर्शनसे जो दूसरे पदार्थ उत्तम ० हैं; उनके साक्षात्कारके लिये रुचि उत्पन्न करता है ०।

“ब्राह्मण! कौनसे पदार्थ ज्ञान-दर्शनसे उत्तम=प्रणीततर हैं?—ब्राह्मण! ०^१ प्रथम-ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। ब्राह्मण! यह पदार्थ भी ज्ञान-दर्शनसे उत्तम ० है। और फिर ब्राह्मण! ०^२ द्वितीय-ध्यानको ०। ०^२ तृतीय-ध्यानको ०। ०^२ चतुर्थ-ध्यानको ०। ०^३ आकाशा नन्त्यायतनको ०। ०^३ विज्ञानानन्त्यायतनको ०। ०^३ आकिञ्चन्यायतनको ०। ०^३ नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको ०। ०^३ संज्ञावेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। प्रज्ञासे देखकर उसके आस्त्र (= चित्तमल) नष्ट होते हैं। ब्राह्मण! यह पदार्थ भी ज्ञान-दर्शनसे उत्तम ० है। जैसे ब्राह्मण! सार चाहनेवाला ०^४ सारको ही काट कर, ‘यही सार है’—समझ ले जाये। जो उसे सारसे काम करना है वह उसका होगा। ब्राह्मण! उसीके समान मैं इस पुरुषको कहता हूँ।

^१ देखो पृष्ठ १२४।

^२ देखो पृष्ठ १५।

^३ देखो पृष्ठ २७, २८, ११०।

^४ देखो पृष्ठ १२२।

“इस प्रकार ब्राह्मण ! यह ब्रह्मचर्य लाभ ०^१ के लिये नहीं है । ब्राह्मण ! जो यह न च्युत होने वाली चित्त की मुक्ति है, इसीके लिये यह ब्रह्मचर्य है, यही सार है, यही अन्तिम निष्कर्ष है ।”

ऐसा कहने पर पिंगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य भो गौतम ! ०^२ आजसे आप गौतम मुझे अंजलि-वद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”

३—(इति) ओपम्मवग्ग (१।३)

३१—चूल-गोसिङ्ग-सुत्तन्त (१४११)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् नादिक^१के गिंजकावसथमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिय, आयुष्मान् किम्बिल, गोसिंङ्ग-सालवनदायमें विहार करते थे।

तब भगवान् सायंकालको एकान्तचिन्तनसे उठकर जहाँ गोसिंङ्ग सालवनदाय था, वहाँ गये। दावपालक (= वनपाल)ने दूरसे ही भगवान्को आते देखा। देख कर भगवानसे कहा—

“महाश्रमण ! इस दावमें प्रवेश मत करो। यहाँपर तीन कुलपुत्र ययाकाम (= माँजसे) विहर रहे हैं। इनको तकलीफ़ मत दो।”

आयुष्मान् अनुरुद्धने दाव-पालको भगवान्के साथ घात करते सुना। सुन कर दाव-पालसे यह कहा—

“आवुस ! दाव-पाल ! भगवान्को मत मना करो। हमारे शास्ता भगवान् आये हैं।”

तब आयुष्मान् अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान् नन्दिय और आयु० किम्बिल थे, वहाँ गये। जाकर बोले—

“आयुष्मानो ! चलो आयुष्मानो ! हमारे शास्ता भगवान् आ गये।”

तब आयुष्मान् अनुरुद्ध, आ० नन्दिय, आ० किम्बिलने भगवान्की अगत्रानी कर, एकने पात्र-चीवर ग्रहण किया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक रक्खा। भगवान्ने बिछाये आसन पर बैठ पैर धोया। वे भी आयुष्मान्, भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् अनुरुद्धको भगवान्ने कहा—

“अनुरुद्धो ! खमनीय तो है ? = यापनीय तो है ? पिंढके लिये तो तुम लोग तकलीफ़ नहीं पाते ?”

“खमनीय है भगवान् ! ० ”

“अनुरुद्धो ! क्या एक चित्त, परस्पर मोद-सहित, दूध-पानी हुए, परस्पर प्रिय दृष्टिये देखते, विहरते हो ?”

“हाँ भन्ते ! हम एक-चित्त० ।”

“तो कैसे अनुरुद्धो ! तुम एक-चित्त ० ?”

“भन्ते ! मुझे यह विचार होता है—‘मेरे लिये काम है’ ‘मेरे लिये सुख प्राप्त हुआ है’ जो ऐसे स-ब्रह्मचारियों (= गुरु भाइयों)के साथ विहरता हूँ भन्ते ! इन आयुष्मानोंमें मेरा कायिक कर्म अन्दर और बाहरसे मित्रतापूर्ण होता है, वाचिक कर्म अन्दर और बाहरसे मित्रतापूर्ण

^१ संभवतः वर्तमान जेयरडीह, मसुरख (जि० सारन) ।

होता है, मानसिक कर्म अन्दर और बाहर ० । तब भन्ते ! मुझे यह होता है—क्यों न मैं अपना मन हटाकर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तके अनुसार वर्तूँ । सो भन्ते ! मैं अपने चित्तको हटा कर इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तोंका अनुवर्तन करता हूँ । भन्ते ! हमारा शरीर नाना है किन्तु चित्त एक...।”

आयुष्मान् नन्दियने भी कहा—“भन्ते ! मुझे यह होता है ० ।”

आयुष्मान् किम्बिलने भी कहा “भन्ते ! मुझे यह ० ।”

“साधु, साधु, अनुरुद्धो ! अनुरुद्धो ! क्या तुम प्रमाद-रहित, आलस्य-रहित, संयमी हो, विहरते हो ?”

“भन्ते ! हाँ ! हम प्रमाद-रहित ० ।”

“साधु, साधु, अनुरुद्धो ! क्या अनुरुद्धो ! इस प्रकार प्रमाद-रहित उद्योगी और एकाग्र-चित्त हो विहरते, तुम्हें उत्तर-मनुष्य धर्म (= दिव्य-शक्ति =) अलमार्थ-ज्ञान-दर्शन सुखपूर्वक विहार करना प्राप्त हुआ ?”

“क्या होगा भन्ते ! हमें ?—यहाँ हम भन्ते ! यथेच्छ ०^१ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरते हैं । भन्ते ! प्रमाद-रहित ० विहरते यह उत्तर-मनुष्य-धर्म ० प्राप्त हुआ है ।”

“साधु, साधु, अनुरुद्धो ! किन्तु इस विहारको पार करनेके लिये, इस विहारको शान्त करनेके लिये, क्या अनुरुद्धो ! दूसरा कोई उत्तर-मनुष्य-धर्म प्राप्त हुआ ?”

“क्या होगा भन्ते ! हमें ?—यहाँ हम भन्ते ! यथेच्छ ०^१ द्वितीय ध्यान ० । ०^१ तृतीय ध्यान ० । ०^१ चतुर्थ ध्यान ०^२ आकाशानन्त्यायतन ० । ०^२ विज्ञानानन्त्यायतन ० । ०^२ नैव-संज्ञानासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरते हैं । प्रज्ञासे देखकर हमारे आस्रव नष्ट हो गये । भन्ते ! इस विहारके अतिक्रमणके लिये, इस विहारको शान्त करनेके लिये, यह दूसरा उत्तर-मनुष्य-धर्म ० प्राप्त हुआ है । भन्ते ! इस सुखपूर्वक विहारसे बढ़ कर उत्तम दूसरे सुख विहारको हम नहीं जानते ।”

“साधु, साधु, अनुरुद्धो ! इस सुख-पूर्वक विहारसे बढ़कर उत्तम दूसरा सुख पूर्वक विहार नहीं है ।”

तब भगवान् आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिय, और आयुष्मान् किम्बिलको धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित, सुमुत्तेजित, प्रशंसित कर आसनसे उठ कर, चले गये ।

तब आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिय, और आयुष्मान् किम्बिल भगवान्की (कुछ दूर) पहुँचा कर लौट आये । आयुष्मान् नन्दिय और आयुष्मान् किम्बिलने आयुष्मान् अनुरुद्धसे यह कहा—

“क्या हमने आयुष्मान् अनुरुद्धको यह कहा था—‘हम इन इन विहारोंकी पूर्णताको प्राप्त हैं’ जो कि आयुष्मान् अनुरुद्धने भगवान्के सम्मुख हमारे वारेमें आस्रवोंके क्षय पर्यन्त (की घात) कही ?”

“मुझे आयुष्मानोंने नहीं कहा—‘हम इन इन विहारोंकी पूर्णताको प्राप्त हैं’ किन्तु मैंने आयुष्मानोंके चित्त (की घात)को अपने चित्तसे जान कर जाना कि, यह आयुष्मान् इन इन विहारोंकी पूर्णताको प्राप्त हैं । देवताओंने मुझे इस घातको बतलाया है—यह आयुष्मान् ० । उसे मैंने भगवान्के प्रश्न करनेपर कहा ।”

तव दीर्घ-परजन नामक यक्ष (= देवता) जहाँ भगवान् थे वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खड़े हुए दीर्घपरजन यक्षने भगवान्से यह कहा—

“वज्रियों^१ को लाभ है। सुन्दर लाभ मिला है, भन्ते ! वज्जी जनताको, जहाँ कि तथागत अर्हत्-सम्यक्-सम्बुद्ध विहरते हैं, और आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिय, आयुष्मान् किम्बिल—ये तीन कुल-पुत्र भी (विहरते) हैं। ०—

दीर्घपरजन यक्षके शब्दको सुनकर भूमिवासी देवताओंने शब्द किया—वज्रियोंको ०। भूमिवासी देवताओंके शब्दको सुनकर चातुर्महाराजिक देवताओंने ०। ० प्रायस्त्रिंश-देवताओंने ०। ० याम देवताओंने ०। ० लुषित देवताओंने ०। ० निर्माण-रति देवताओंने ०। पर-निर्मित-वशवर्ती देवताओंने ०। ० ब्रह्म-कार्यिक देवताओंने ०। इस प्रकार उसी क्षण उसी सुहृत् में वह आयुष्मान् ब्रह्मलोक पर्यन्त विदित हो गये।—

“ऐसा ही है दीर्घ ! यह, ऐसा ही है दीर्घ ! यह; क्योंकि दीर्घ ! जिस कुलसे यह तीनों कुलपुत्र घरसे वेघर हो प्रव्रजित हुए यदि वह कुल भी इन तीनों कुलपुत्रोंको प्रसन्न चित्तसे स्मरण करे तो वह उसके लिये दीर्घ-काल तक हितकर सुखकर होगा। दीर्घ ! जिस कुल-समुदायसे ०। ० जिस ग्रामसे ०। ० जिस निगम (= क्लृप्ते)से ०। ० जिस नगरसे ०। ० जिस जन-पद (= देश)से यह तीनों कुलपुत्र घरमे वेघर हो प्रव्रजित हुए, यदि वह जनपद भी इन तीनों कुलपुत्रोंको प्रसन्नचित्तसे स्मरण करे, तो वह उसके लिये दीर्घकाल तक हितकर सुखकर होगा।

“यदि दीर्घ ! क्षत्रिय ०। ० ब्राह्मण ०। ० वैश्य ०। ० शूद्र भी प्रसन्नचित्त ० सुखकर होगा। दीर्घ ! देवता-भार-ब्रह्मा-सहित, श्रमण-ब्राह्मण, देव-मनुष्य युक्त सारी प्रजा इन तीनों कुलपुत्रोंका प्रसन्नचित्तसे स्मरण करे; तो देवता-भार-ब्रह्मा-सहित श्रमण-ब्राह्मण, देव-मनुष्य युक्त सारी प्रजाके लिये दीर्घकाल तक हितकर, सुखकर होगा।” “क्योंकि यह तीनों कुलपुत्र बहुत जनोंके सुखके लिये, बहुत जनोंके हितके लिये, लोककी अनुकंपाके लिये देव-मनुष्योंके अर्थ, हित, सुखके लिये तत्पर हैं।”

भगवान्ने यह कहा, संतुष्ट हो दीर्घ-परजन यक्षने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया।

^१ वज्जी (= वर्तमान मुजफ्फरपुर और चम्पारनके जिले तथा दरभंगा और सारन जिलोंका कुछ भाग; प्रजातंत्रके रहनेवाले।

३२—महा-गोसिंग-सुत्तन्त (१।४।२)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् गोसिंग-साल वनदायमें बहुतेसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थविर (= वृद्ध) शिष्योंके साथ विहार करते थे; जैसे कि—आयुष्मान् सारिपुत्र, आयुष्मान् महामौद्गल्यायन, आयुष्मान् महाकाश्यप, आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् रेवत, और आयुष्मान् आनन्द तथा दूसरे भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थविर शिष्योंके साथ । तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन सार्थकाल ध्यानसे उठकर जहाँ आयुष्मान् महाकाश्यप थे वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् महाकाश्यपसे यह बोले—

“चलो आवुस काश्यप ! जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र हैं वहाँ धर्म सुननेके लिये चलें ।”

“अच्छा आवुस!” (कह) आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको उत्तर दिया ।

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन और आयुष्मान् महाकाश्यप और आयुष्मान् अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे वहाँ धर्म सुननेके लिये गये । आयुष्मान् आनन्दने दूरसे ही आ. महामौद्गल्यायन, आ. महाकाश्यप, और आ. अनुरुद्धको जिधर आ. सारिपुत्र थे उधर धर्म सुननेके लिये जाते देखा । देखकर जहाँ आयुष्मान् रेवत थे वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् रेवतसे यह बोले—

“आवुस ! यह सत्पुरुष जहाँ आ. सारिपुत्र हैं वहाँ धर्म सुननेके लिये जा रहे हैं । चलो आवुस ! जहाँ आ. सारिपुत्र हैं वहाँ हम भी धर्म सुननेके लिये चलें ।”

“अच्छा आवुस !” (कह) आ. रेवतने आ. आनन्दको उत्तर दिया ।

तब आयुष्मान् रेवत और आ. आनन्द जहाँ आ. सारिपुत्र थे वहाँ धर्म सुननेके लिये चले । आयुष्मान् सारिपुत्रने दूरसे ही आ. रेवत और आयुष्मान् आनन्दको आते देखा । देखकर आ. आनन्दसे कहा—

“आइये आ. आनन्द ! स्वागत है भगवान्के उपस्थाक (= निरंतर-सेवक) भगवान्के सदा समीप रहनेवाले आनन्दका । आवुस आनन्द ! रमणीय है गोसिंग सालवन । चाँदनी रात है । सारी पाँतियोंमें साल फूले हुए हैं । मानो दिव्य गंध बह रहे हैं । आवुस आनन्द ! किस प्रकार के (भिक्षु)से यह गोसिंग सालवन शोभित होवेगा ?”

“आवुस सारिपुत्र ! भिक्षु यदि बहुश्रुत, श्रुतधर, श्रुत-संचयी (= सुनी शिक्षाओंका संचय करनेवाला) हो । जो वह धर्म आदिमें कल्याण, मध्यमें कल्याण और अन्तमें कल्याण रखने वाले, सार्थक स-व्यंजन केवल परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यको बखाननेवाले हैं, वैसे धर्मोंको उस (भिक्षु)ने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, मनसे परखा हो, दृष्टि (= साक्षात्कार)में धँसा लिया हो; (ऐसा भिक्षु) चार (प्रकार)की परिपक्वोंको सर्वांग पूर्ण, पद-व्यंजन-युक्त, स्वतंत्रता पूर्वक धर्म को अनुश्रवणों (= चिन्तनों)के नाशके लिये उपदेशे । आवुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षु द्वारा गोसिंग सालवन शोभित होगा ।”

ऐसा कहने पर आयुष्मान् सारिपुत्रने आ. रेवतसे यह कहा—“आबुस रेवत ! आ. आनन्दने अपने विचारके अनुसार कह दिया । अब मैं आ. रेवतसे पूछता हूँ । आ. रेवत रमणीय है गोसिङ्ग सालवन । ० आबुस रेवत ! किस प्रकार (के भिक्षु)से यह गोसिङ्ग सालवन शोभित होगा ?”

“यहाँ आबुस सारिपुत्र ! भिक्षु यदि ध्यान-रत, ध्यान-प्रेमी होवे, अपने (मनके) भीतर चित्तकी एकाग्रतामें तत्पर और ध्यानसे न हटनेवाला, विपश्यना (= साक्षात्कार किये गये ज्ञान) से युक्त, शून्य गृहोंको बढानेवाला होवे । आबुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षुद्वारा गोसिङ्ग सालवन शोभित होगा ।”

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने आ. अनुसुद्धसे कहा—

“आबुस अनुसुद्ध ! आ. रेवतने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० किस प्रकार (के भिक्षु)से गोसिङ्ग सालवन शोभित होगा ?”

“आबुस सारिपुत्र ! भिक्षु अ-मानव विशुद्ध दिव्यचक्षुसे सहस्रों लोकोंको अवलोकन करे; (वैसे ही) जैसे कि आबुस सारिपुत्र ! आँखवाला पुरुष महलके ऊपर खड़ा सहस्रों चक्कोंके समुदाय को देखे; वैसेही आबुस सारिपुत्र ! ० दिव्यचक्षुसे सहस्रों लोकोंको देखे । आबुस सारिपुत्र ! ऐसे भिक्षुसे गोसिङ्ग सालवन शोभित होगा ।”

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने आ. महाकाश्यपसे यह कहा—“आबुस काश्यप ! आ. अनुसुद्धने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?”

“आबुस सारिपुत्र ! भिक्षु स्वयं आरण्यक (= वनमें रहनेवाला) हो और आरण्यकताका प्रशंसक हो । स्वयं पिंडपातिक (= मधुकरी माँगनेवाला) हो और पिंडपातिकताका प्रशंसक हो । स्वयं पांसुकूलिक (= फेंके चियदोंको पहिननेवाला) हो ० । स्वयं त्रैचीवरिक (= लिफ़ा तीन वस्त्रोंको पासमें रखनेवाला ० । स्वयं-अत्येच्छ ० । स्वयं-संतुष्ट ० । ० प्रतिविक्र (= एकान्त चिंतन-रत) ० । ० संसर्गरहित ० । ० उद्योगी ० । ० सदाचारी ० । ० समाधियुक्त ० । ० प्रज्ञा-युक्त ० । ० विमुक्ति-युक्त ० । ० विमुक्तिके ज्ञान-दर्शन (= साक्षात्कार)से युक्त ० । आबुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षुसे ० ।”

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने आ. मौद्गल्यायनसे यह कहा—

“आबुस महामौद्गल्यायन ! आ. महाकाश्यपने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?”

“आबुस सारिपुत्र ! दो भिक्षु अभिघर्म (= धर्म-संबंधी) कथा कहें, वह एक दूसरेसे प्रश्न पूछें, एक दूसरेके प्रश्नका उत्तर दें, ज़िद न करें, उनकी कथा धर्म-संबंधी चले । आबुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षुसे ० ।”

तब आ. महामौद्गल्यायनने आ. सारिपुत्रसे यह कहा—“आबुस सारिपुत्र ! हमने अपने विचारके अनुसार कह दिया । अब हम आ. सारिपुत्रसे पूछते हैं ० ?”

“आबुस मौद्गल्यायन ! एक भिक्षु चित्तको वशमें करता है, (स्वयं) चित्तके वशमें नहीं होता । वह जिस विहार (= ध्यान-प्रकार)को प्राप्तकर पूर्वाह्न समय विहरना चाहता है उसी विहारसे पूर्वाह्न समय विहरता है । जिस विहारसे मध्याह्न समय ० । ० सन्ध्या समय ० । जैसे आबुस महामौद्गल्यायन ! किसी राजा या राज-मंत्रीके पास नाना रंगके दुशालोंके करंडक (= बक्स) भरे हों; वह जिस दुशालेको पूर्वाह्न समय धारण करना चाहे उसे पूर्वाह्न समय धारण करे; जिस दुशालेको मध्याह्न समय ० । ० सायंकाल ० । ऐसे ही आबुस महामौद्गल्यायन ! जो भिक्षु चित्तको वशमें करता है स्वयं चित्तके वशमें नहीं होता वह जिस विहारको प्राप्त कर ० । आबुस मौद्गल्यायन ! इस प्रकारके भिक्षुसे ० ।”

तब आ. सारिपुत्रने उन आयुष्मानोंसे यह कहा—

“आवुसो ! हमने अपने विचारोंके अनुसार कह दिया। आओ आवुसो ! जहाँ भगवान् हैं वहाँ चलो । चलकर भगवान्से यह बात कहें । जैसे हमें भगवान् बतलाएँ वैसे उसे धारण करें।”

“अच्छा आवुस !” (कह) उन आयुष्मानोंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

तब वह आयुष्मान् जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे । आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! आ. रेवत और आ. आनंद जहाँ मैं था वहाँ धर्म सुननेके लिये आये । भन्ते ! मैंने दूरसे ही ० १ । दो भिक्षु अभिघर्म कथा कहें, ० १ ।”

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! मौद्गल्यायन ही ठीकसे कथन करेगा क्योंकि सारिपुत्र ! मौद्गल्यायन धर्म-कथिक (= धर्मका वक्ता) है ।”

ऐसा कहने पर आ. महासौद्गल्यायनने भगवान्से यह कहा—

“तब मैंने भन्ते ! आ. सारिपुत्रको यह कहा—‘आवुस सारिपुत्र । ० २ । ऐसे ही आवुस मौद्गल्यायन ० ।”

“साधु साधु मौद्गल्यायन ! सारिपुत्र ही ठीकसे कथन करेगा क्योंकि मौद्गल्यायन ! सारिपुत्र चित्तको वशमें रखता है । स्वयं चित्तके वशमें नहीं होता । वह जिस विहार ० सायंकाल विहरता है ।”

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! किसका (भाषित = कथन) सुभाषित है ?”

“सारिपुत्र ! तुम सभीका (भाषित) एक एक करके सुभाषित है । और मेरी भी सुनो । किस प्रकारके भिक्षुसे गोसिंग सालवन शोभित होगा ?—यहाँ सारिपुत्र ! भिक्षु भोजनके बाद भिक्षा से निवृत्तकर, आसन मार शरीरको लीधा रख, स्मृतिको सामने उपस्थित कर, (यह संकल्प करता है—) मैं तब तक इस आसनको नहीं छोड़ूँगा, जब तक कि मेरे चित्त-मल चित्तको न छोड़ देंगे । सारिपुत्र ! ऐसे भिक्षुसे गोसिंग सालवन शोभित होगा ।”

भगवान्ने यह कहा । संतुष्ट हो उन आयुष्मानोंने भगवान्के भाषणका अभिनंदन किया ।

३३—महा-गोपालक-सुत्तन्त (१।४।३)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।
वहाँ भगवान्ने भिक्षुओको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (कह) उन भिक्षुओने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! ग्यारह बातों (= अंगों)से युक्त गोपालक गोयूथकी रक्षाकरनेके अयोग्य है । कौनसे ग्यारह ?—(१) गोपालक रूप (= वर्ण)का जानने वाला नहीं होता; (२) लक्षण (= चिह्न)में भी चतुर नहीं होता; (३) काली मन्त्रियोंको हटाने-वाला नहीं होता; (४) घावला ढाँकनेवाला नहीं होता; (५) धुआँ नहीं करता; (६) तीर्थ (= जलका उतार) नहीं जानता; (७) पानको नहीं जानता; (८) वीथी (= डगर)को नहीं जानता; (९) चरागाहका जानकार नहीं होता; (१०) यिना छोटे (सारे)को दूह लेता है; (११) जो वह गाथोंके पितर गाथोंके स्वामी वृषभ (= साँड) हैं उनकी अधिक पूजा (= भोजनादि प्रदान) नहीं करता । भिक्षुओ ! इन ग्यारह बातोंसे युक्त गोपालक गोयूथकी रक्षाकरनेके अयोग्य है ।

“ऐसेही भिक्षुओ ! ग्यारह बातोंसे युक्त भिक्षु इस धर्म-विनय (= दृढधर्म)में वृद्धि विरुद्धि=विपुलता पानेके अयोग्य हैं । कौन ग्यारह ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु (१) रूपका जानने वाला नहीं होता; (२) लक्षणमें भी चतुर नहीं होता; (३) आसाटिको (= काली मन्त्रियों)को हटाने वाला नहीं होता; (४) व्रण (= घाव)का ढाँकने वाला नहीं होता; (५) धुआँ नहीं करता; (६) तीर्थ नहीं जानता; (७) पानको नहीं जानता; (८) वीथीको नहीं जानता; (९) गोचर (= चरागाह)को नहीं जानता; (१०) यिना छोड़े (= अशेषका) दूहने वाला होता है; (११) जो वह रक्तज्ञ (= अनुरक्त) चिरकालसे प्रग्रजित, संघके पितर, संघके नायक स्थविर भिक्षु हैं उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु रूपका न जाननेवाला होता ?—यहाँ भिक्षुओ ! जो कोई रूप है, वह सब चार महाभूत (= पृथ्वी, जल, वायु, तेज) और चारों भूतोंको लेकर घना है । उने यथार्थ से नहीं जानता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु रूपका न जानने वाला होता है ।”

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु लक्षणमें चतुर नहीं होता ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु यह यथार्थने नहीं जानता कि कर्मके लक्षण (= कारण)से बाल (= अज्ञ) होता है और कर्मके लक्षणसे पंडित होता है । इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु आसाटिकका हटाने वाला नहीं होता ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु उत्पन्न काम (= भोग-वासना)के वितर्क का स्वागत करता है, छोड़ता नहीं, हटाता नहीं, अलग नहीं करता, अभावको नहीं प्राप्त करता; उत्पन्न व्यापाद (= पर-पीडा)के वितर्कको ०; उत्पन्न

हिंसाके वितर्कको; ० बराबर उत्पन्न होती बुराइयों = अकुशल धर्मोंका स्वागत करता है ० । इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु व्रणका ढाँकने वाला नहीं होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु आँख से रूप देखकर उसके निमित्त (= अनुकूल प्रतिकूल होने)का ग्रहण करने वाला होता है, अनु-व्यंजन (= पहिचान)का ग्रहण करने वाला होता है । जिस विषयमें इस चक्षु-इन्द्रियको संयत न रखनेपर लोभ और दौर्मनस्य (रूपी) बुराइयाँ=अकुशल धर्म आ चिपटते हैं, उससे संयम करनेके लिये तत्पर नहीं होता । चक्षुइन्द्रियकी रक्षा नहीं करता; चक्षुइन्द्रियसे संयम (= संवर)में लग्न नहीं होता । श्रोत्रसे शब्द सुनकर ० । घ्राणसे गंध सूँघ कर ० । जिह्वासे रस चख कर ० । कायासे स्पृष्टव्यको स्पर्श कर ० । मनसे धर्मको जानकर निमित्तका ग्रहण करनेवाला होता है ० मन-इन्द्रियके संयममें लग्न नहीं होता । इस प्रकार भिक्षुओ ० !

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धूमका न करनेवाला होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु सुने अनुसार, जाने अनुसार, धर्मको दूसरोंके लिये विस्तारसे उपदेश करने वाला नहीं होता, इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु तीर्थको नहीं जानता ?—यहाँ भिक्षुओ ! जो वह भिक्षु बहु-श्रुत, आगम-प्राप्त, धर्म-धर, विनय-धर, मात्रिका-धर, हैं उनके पास समय समयपर जाकर नहीं पूछता, नहीं प्रश्न करता—मन्ते ! यह कैसे, इसका क्या अर्थ है ? उसके लिये वह आयुष्मान्, अविवृतको विवृत (= खोलकर बतलाना) नहीं करते; अल्पष्टको स्पष्ट नहीं करते अनेक प्रकारके शंका-स्थान वाले धर्मोंमें उठी शंकाका निवारण नहीं करते । इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पानको नहीं जानता—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु तथागतके बतलाये धर्म-विनयके उपदेश किये जाते समय (उसके) अर्थ-वेद (= अर्थ-ज्ञान)को नहीं पाता, धर्म-वेदको नहीं पाता, धर्म संबंधी प्रमोद (= खुशी)को नहीं पाता । इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु वीथीको नहीं जानता ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु आर्य-अष्टांगिक मार्गको ठीक ठीक नहीं जानता । इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु गोचरमें कुशल नहीं होता ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु चार स्मृति-प्रस्थानोंको ठीक ठीक नहीं जानता । इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु अशेषका दूहनेवाला होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षुको श्रद्धालु गृहपति वस्त्र, भिक्षान्न, निवास, आसन, रोगीके (उपयोगी) पथ्य-औषधकी सामग्रियोंसे अच्छी तरह संतुष्ट करते हैं; वहाँ भिक्षु भ्रात्रासे ग्रहण करना नहीं जानता । इस प्रकार ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु ० स्थविर भिक्षुओंको अतिरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु ० ० जो वह स्थविर भिक्षु हैं, उनके लिये गुप्त और प्रकट मैत्री-युक्त कायिक कर्म नहीं करता; ० वाचिक कर्म नहीं करता; ० मानस-कर्म नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ० ।

“भिक्षुओ ! इन ग्यारह धर्मोंसे युक्त भिक्षु इस धर्म-विनयमें वृद्धि विरुद्धिको प्राप्त करनेमें अयोग्य है ।

“भिक्षुओ ! ग्यारह अंगोंसे युक्त गोपालक गोपूथकी रक्षा करनेके योग्य होता है । कौनसे ग्यारह ?—यहाँ भिक्षुओ ! गोपालक (१) रूपका जानने वाला होता है; (२) लक्षण-कुशल होता है; (३) आसादिकका हटाने वाला होता है; (४) व्रणका ढाँकने वाला होता है; (५) धुआँ करनेवाला होता है; (६) तीर्थको जानता है; (७) पीत (= पान)को जानता है; (८) वीथीको जानता है; (९) गोचर-कुशल होता है; (१०) स-शेष दूहनेवाला होता है; (११) जो वह वृषभ ० उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है । भिक्षुओ ! इन ग्यारह बातोंसे

युक्त गोपालक गोयूथके धारण करने, वदनेके योग्य होता है। इसी प्रकार भिक्षुओ ! ग्यारह धर्मोंसे युक्त भिक्षु इस धर्म-विनयमें वृद्धि = विरुद्धि = विपुलता प्राप्त करनेके योग्य है। कौनसे ग्यारह ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु (१) रूपका जानने वाला होता है ०। (११) जो वह भिक्षु ० उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु रूपका जानने वाला होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु जो कुछ रूप है ० उसे यथार्थसे जानता है। इस प्रकार ०।

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु लक्षण-कुशल होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु इसे यथार्थसे जानता है कि कर्म-लक्षणसे बाल होता है और कर्म-लक्षणसे पंडित। इस प्रकार ०।

“० उत्पन्न काम-वितर्क ० व्यापाद-वितर्क ० हिंसा-वितर्क ० लोभ, दौर्मनस्य (रूपी) बुराइयों=अकुशल धर्मोंका स्वागत नहीं करता ०। इस प्रकार ०।

“चक्षुसे रूपको देखकर निमित्त-ग्राही नहीं होता ० इस प्रकार ०।

“० धुँँका करने वाला होता है ?—सुने अनुसार, जाने अनुसार, दूसरोंके लिये धर्मको विस्तारसे उपदेश करता है। इस प्रकार ०।

“कैसे ० तीर्थको जानता है ?—० बहु-श्रुत भिक्षुओंके पास समय समय पर जाकर प्रश्न पूछता है ०। इस प्रकार ०।

“कैसे ० पीतको जानता है !—० तयागतके यतलाये धर्म और विनयके उपदेश किये जाते समय अर्थवेदको पाता है ०। इस प्रकार ०।

“कैसे ० वीथीको जानता है ?—० आर्य-अष्टांगिक मार्गको ठीक ठीक जानता है। इस प्रकार ०।

“कैसे ० गोचर कुशल होता है ?—० चारों स्मृति-प्रस्थानोंको ठीक ठीक जानता है। इस प्रकार ०।

“कैसे ० स-शेष दुहने वाला होता है—० रोगीके पथ्य औषध आदि सामग्री देते हैं; उसके ग्रहण करनेमें मात्राको जानता है। इस प्रकार ०।

“कैसे भिक्षुओ ! ० स्यविर भिक्षुओंको अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है ?—० उन स्य-विर भिक्षुओंके लिये गुप्त और प्रकट मंत्रैयुक्त कायिक कर्म करता है; ० वाचिक कर्म ०; ० मान-स्तिक कर्म करता है। इस प्रकार ०।

“भिक्षुओ ! इन ग्यारह धर्मों (= यातों)से युक्त भिक्षु इस धर्म-विनयमें वृद्धि = विरुद्धि = विपुलताको प्राप्त होने योग्य है।”

भगवान्ने यह कहा। संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनंदन किया।

३४—चूल-गोपालक-सुत्तन्त (१।४।४)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् वज्जी (देश)के ^१ उक्काचैल (= उक्काचैल)में गंगानदीके तीर पर विहार करते थे ।

वहाँ, भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा “भिक्षुओ ! पूर्वकालमें मगधके रहनेवाले एक मूर्ख गोपालकने वर्षाके अन्तिम मासमें शरदकालमें, गंगानदीके इस पारको बिना सोचे, उस पारको बिना सोचे, बेघाट ही विदेह (देश)की ओर दूसरे तीरको गायें हाँक दीं । तब भिक्षुओ ! वह गायें गंगा नदीके स्रोतके मध्यमें भँवरमें पड़कर वहीं बिनाशको प्राप्त हो गई । सो किस लिये ?—क्योंकि भिक्षुओ ! उस मगधवासी मूर्ख गोपालकने ० गायें हाँक दीं । इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण (= सन्यासी) या ब्राह्मण इस लोकसे नावाकिफ़ (= अकुशल) हैं, परलोकसे नावाकिफ़ हैं, मारके लक्ष्यसे नावाकिफ़ हैं, मारके अलक्ष्यसे नावाकिफ़ हैं, मृत्युके लक्ष्य ० मृत्युके अलक्ष्यसे नावाकिफ़ हैं; उनके (उपदेशों)को जो सुनने योग्य, श्रद्धा करने योग्य समझेंगे उनके लिये वह चिरकाल तक अहितकर, दुःखकर होगा ।

“भिक्षुओ ! पूर्वकालमें एक मगधवासी बुद्धिमान ग्वालेने वर्षाके अन्तिम मासमें शरदकालमें गंगानदीके इस पार को ० सोचकर घाटसे उत्तर तीर पर विदेहकी ओर ० गायें हाँकीं । उसने जो वह गायोंके पितर, गायोंके नायक वृषभ (= साँड) थे उन्हें पहिले हाँका । वह गंगाकी धारको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक दूसरे पार चले गये । तब उसने दूसरी बलवान् शिक्षित गायोंको हाँका ० । फिर बछड़े और बछियोंको हाँका ० । फिर दुर्बल बछड़ोंको ० । भिक्षुओ ! उस समय तरुण कुछ ही दिनोंका पैदा एक बछड़ा भी माताकी गर्दनके सहारे तैरते गंगाकी धारको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक पार चला गया । सो क्यों ?—क्योंकि भिक्षुओ ! उस मगधवासी बुद्धिमान् ग्वालेने ० हाँकी । ऐसेही भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस लोकके जानकार ० उनको (उपदेशको) जो सुनने योग्य ० समझने हैं; उनके लिये वह चिरकाल तक हितकर सुखकर होगा ।

“जैसे भिक्षुओ ! वह गायोंके पितर ० वृषभ गंगाकी धारको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक उस पार चले गये; ऐसे ही भिक्षुओ ! जो यह अर्हत् क्षीण-आस्रव, (ब्रह्मचर्य-)वास-समाप्त, कृत-कृत्य, भार-मुक्त, सत्पदार्थ-को-प्राप्त, भव-बंधन-रहित, सम्यक्-ज्ञान-द्वारा-मुक्त हैं, वह मारकी धारा को तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक पार जायेंगे ।

^१ संभवतः सोनपुर या हाजीपुर (विहार) ।

“जैसे भिक्षुओ ! शिक्षित बलवान् गार्थे ०; ऐसे ही भिक्षुओ ! जो वह भिक्षु पाँच अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षयसे औपपातिक (= अयोनिज देव) हो, उस (देव-)लोकसे लौटकर न आ वहीं निर्वाण प्राप्त करनेवाले हैं; वह भी मारकी धाराको ० ।

“जैसे, भिक्षुओ ! वह बछड़े बछड़ियाँ ०; वैसे ही भिक्षुओ ! जो भिक्षु तीन संयोजनोंके क्षयसे राग-द्वेष-मोहके निर्बल होनेसे सकृदागामी हैं, सकृत् (= एक बार) ही इस लोकमें आकर दुःखका अंत करेंगे; वह भी ० ।

“जैसे भिक्षुओ ! वह एक निर्बल बछड़ा गंगाकी धाराको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक दूसरे पार चला गया; वैसे ही भिक्षुओ ! जो वह भिक्षु तीन संयोजनोंके क्षयसे स्रोतआपन्न हैं, नियम-पूर्वक संबोधि (= परमज्ञान)-परायण, (निर्वाण-गामी-पथसे) न भ्रष्ट होनेवाले हैं; वह भी ० ।

“भिक्षुओ ! मैं इस लोकका जानकार हूँ, परलोक ० , ० मृत्युके अलक्ष्यका जानकार हूँ; भिक्षुओ ! ऐसे मेरे (उपदेश)को जो सुनने योग्य, श्रद्धाके योग्य मानेंगे उनके लिये वह चिरकाल तक हितकर सुखकर होगा ।”

भगवान्ने यह कहा; यह कहकर सुगत शास्ताने यह भी कहा—

“जानकारने इस लोक परलोकको सुप्रकाशित किया ;
जो मारकी पहुँचमें हैं और जो मृत्यु (= मार)की पहुँचमें नहीं हैं ।
जानकार संबुद्धने सब लोकको जानकर ।

निर्वाणकी प्राप्तिके लिये क्षेम (युक्त) अमृतद्वारको खोल दिया ।

पापी (= मार)के स्रोतको छिन्न, विध्वस्त, विष्टंखलित कर दिया ।

भिक्षुओ ! प्रमोदयुक्त होवो, क्षेमकी चाह करो ।”

३५—चूल-सच्चक-सुत्तन्त (१।४।५)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कूटागारशालामें विहार करते थे ।

उस समय वैशालीमें सच्चक (= सत्यक) नामक निगण्ठ-पुत्र (= नंगे साधुका पुत्र) रहता था; (जो कि) वकवादी पंडितमानी और बहुतेसे लोगोंसे सम्मानित था । वह वैशालीमें समाके भीतर ऐसा कहता था—‘मैं ऐसे किसी श्रमण या ब्राह्मण, संघपति = गणपति, गणाचार्य—वल्कि (अपनेको) अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध कहनेवालेको भी—नहीं देखता जो मेरे साथ वाद रोपकर कम्पित, सम्प्रकम्पित = सम्प्रबेधित न हो; जिसकी काँखसे पसीना न छूटने लगे । यदि मैं अचेतन स्तम्भसे भी शास्त्रार्थ आरम्भ करूँ तो वह भी मेरे वादके मारे कम्पित, सम्प्रकम्पित, सम्प्रबेधित होवे, आदमीकी तो बात ही क्या कहनी’ ?

तब आयुष्मान् अश्वजित् पूर्वाह्नके समय (वस्त्र) पहनकर पात्र-चीवर ले वैशालीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुए । वैशालीमें टहलते, अनुचक्रमण करते = अनुविचरण करते सच्चक निगण्ठ-पुत्रने दूरसे ही आयुष्मान् अश्वजित्को भाते देखा । देखकर जहाँ आयुष्मान् अश्वजित् थे वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् अश्वजित्के साथ यथायोग्य... (कुशल प्रश्न पूछ) एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुए सच्चक निगण्ठपुत्र ने आयुष्मान् अश्वजित्से यह कहा—

“भो अश्वजित् ! कैसे श्रमण गौतम शिष्योंको शिक्षा देते हैं ? किस प्रकारका उपदेश श्रमण गौतमके शिष्योंमें अधिक प्रचलित है ?”

“अग्निवेश ! इस प्रकार भगवान् श्रावकोंको शिक्षा देते हैं; इस प्रकारका उपदेश भगवान्के शिष्योंमें अधिक प्रचलित है—‘भिक्षुओ ! रूप अनात्मा (= आत्मा नहीं) है; वेदना अनात्मा है, संज्ञा ०; संस्कार ०; विज्ञान ०; सारे धर्म (= पदार्थ) अनात्मा हैं ।’ अग्निवेश ! इस प्रकार भगवान् श्रावकोंको शिक्षा देते हैं ० ।”

“भो अश्वजित् ! ऐसे वादवाले श्रमण गौतमके बारेमें जो हमने सुना, वह ठीक नहीं सुना । क्या कभी हमारा उन आप गौतमके साथ सनागम होगा ? क्या कोई कथा-संलाप होगा ? क्या हमारी वह बुरी धारणा छूटेगी ?”

उस समय पाँच सौ लिच्छवी संस्थागार (= प्रजातन्त्र-भवन)में किसी कामसे एकत्रित हुये थे । तब सच्चक निगण्ठ-पुत्र, जहाँ वह लिच्छवी थे, वहाँ गया । जाकर उन लिच्छवियोंसे बोला—

“चलो आप लिच्छवी ! आज मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा-संलाप होगा । यदि श्रमण गौतम वैसे (वाद)में स्थिर रहेगा जैसा कि उसके एक प्रसिद्ध शिष्य अश्वजित् नामक भिक्षुने कहा; तो जैसे बलवान् पुरुष दीर्घ लोभोंवाली भेड़को लोभसे पकड़कर निकाले, घुमावे, फिरावे;

इसी प्रकार मैं श्रमण गौतमको वाद द्वारा निकालूँगा, धुमाऊँगा, फिराऊँगा । जैसे बलवान् शराबकी भट्टीका कर्मचारी शौण्डिका (= भट्टी)के किलञ्ज (= छत्ते)को गम्भीर जलाशयमें फेंक, कानसे पकड़ कर, निकाले, धुमावे, फिरावे; इसी प्रकार मैं ० । जैसे शौण्डिका धूर्त (= शरायमें मस्त) बच्चेको कानसे पकड़कर हिलावे, हुलावे, कँपावे; इसी प्रकार ० । जैसे साठ बरसका पट्टा (हाथी) गहरी पोखरीमें डुलकर सनधोवन नामकी क्रीड़ाको खेले इसी प्रकार ० । चलो आप लिच्छवी ० ।”

वहाँ कोई कोई लिच्छवी कहने लगे—“श्रमण गौतम सञ्चक निगण्ठ-पुत्तके साथ क्या वाद कर सकता है ? हाँ, सञ्चक निगण्ठ-पुत्त श्रमण गौतमके साथ (सफलता पूर्वक) वाद कर सकता है ।” कोई कोई लिच्छवी कहने लगे—“क्या होकर सञ्चक निगण्ठ-पुत्त भगवान्के साथ वाद करेगा ? हाँ भगवान् सञ्चकके साथ वाद कर सकते हैं ।”

तब सञ्चक निगण्ठ-पुत्त पाँच सौ लिच्छवियोंके साथ जहाँ महावनमें कूटागार-शाला थी वहाँ गया । उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमें टहल रहे थे । तब सञ्चक निगण्ठ-पुत्त जहाँ वह भिक्षु थे वहाँ गया । जाकर उन भिक्षुओंसे बोला—

“भो ! इस समय आप श्रमण गौतम कहाँ विहार करते हैं ? हम आप गौतमका दर्शन करना चाहते हैं ।”

“अग्निवेश ! यह भगवान् महावनमें प्रविष्ट हो एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिए बैठे हैं ।”

तब सञ्चक निगण्ठ-पुत्त वडी भारी लिच्छवी-परिपदके साथ प्रवेश कर, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ यथायोग्य.....(कुशल प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । वह लिच्छवी भी भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये ० । ० एक ओर बैठे सञ्चक निगण्ठ-पुत्तने भगवान्से यह कहा—

“यदि आप गौतम प्रश्न करनेकी आज्ञा दें, तो कोई बात आप गौतमसे पूछूँ ?”

“अग्निवेश ! जो चाहो सो पूछो ।”

“कैसे आप गौतम शिष्योंको शिक्षा देते हैं ० ?”

“अग्निवेश ! मैं इस प्रकार शिष्योंको शिक्षा देता हूँ ०—‘भिक्षुओ ! रूप अनित्य है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० । रूप अनात्मा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान अनात्मा है । सारे संस्कार (= गतियाँ) अनित्य हैं । सारे धर्म (= पदार्थ) अनात्मा हैं । अग्निवेश ! इस प्रकार मैं शिष्योंको शिक्षा देता हूँ ० ।”

“भो गौतम ! मुझे एक उपमा याद आती है ।”

भगवान्ने कहा—“अग्निवेश ! (कहो क्या) उपमा याद आती है ?”

“भो गौतम ! जैसे जो कोई भी यह बीज समुदाय, प्राणिसमुदाय, वृद्धि=विरुद्धि=विपुलताको प्राप्त होते हैं; वह सभी पृथ्वीका आश्रय लेकर, पृथ्वीमें प्रतिष्ठित होकर । इस प्रकार यह बीजग्राम, भूतग्राम (= प्राणि-समुदाय), वृद्धि, विरुद्धि, विपुलताको प्राप्त होते हैं । जैसे भो गौतम ! जो कोई बलसे किये जाने वाले कर्मान्त (= काम) हैं, वह सभी पृथ्वीका आश्रय लेकर ० । इसी प्रकार यह बलसे किये जानेवाले कर्मान्त किये जाते हैं । ऐसे ही भो गौतम ! यह पुरुष=पुद्गल रूपके कारण रूपमें प्रतिष्ठित हो, पुण्य या अपुण्यको उत्पन्न करता है । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० ।”

“क्या अग्निवेश ! तू यह कहता है—‘रूप मेरा आत्मा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०; ?”

“भो गौतम ! मैं यह कहता हूँ—रूप मेरा आत्मा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०; और यह वही जनता भी (कहती है)।”

“अग्निवेश ! यह वही जनता क्या कहेगी ? तू अपने ही अपने वादको चला !”

“भो गौतम ! मैं यह कहता हूँ—रूप मेरा आत्मा है ० ।”

“तो अग्निवेश ! तुझसे ही यह पूछता हूँ, जैसे तुझे जँचे वैसे उत्तर दे । तो क्या मानता है, अग्निवेश ! क्या मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें ‘मारो’—कह भरवा सकता है, ‘जलाओ’—कह जलवा सकता है, ‘देशसे निकालो’—कह देशसे निकलवा सकता है; जैसे कि राजा प्रसेनजित् कौसल या जैसे मगधराज वैदेही-पुत्र अजातशत्रु ?”

“हाँ, भो गौतम ! मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें ० देशसे निकलवा सकता है ० जैसे मगधराज वैदेहीपुत्र अजातशत्रु । भो गौतम ! यह जो संघ (= प्रजातंत्र) हैं जैसे कि वज्जी या मल्ल वह भी अपने राज्यमें ० देशसे निकलवा सकते हैं; राजा प्रसेनजित् कौसल या मगधराज वैदेही-पुत्र अजातशत्रु—मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाओंके लिए तो क्या ? होता है हे गौतम ! हो सकता है ।”

“तो क्या मानता है अग्निवेश ! जो तू कहता है—रूप मेरा आत्मा है । क्या वह रूप तेरे वशका है—मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा न होवे ?”

ऐसा कहनेपर सच्चक निगण्ठ-पुत्र चुप हो गया । दूसरी वार भी भगवान् ने सच्चक निगण्ठ-पुत्रसे यह कहा—‘तो क्या मानता है ० ?’ दूसरी वार भी ० चुप हो गया । तब भगवान् ने सच्चक निगण्ठ-पुत्रसे यह कहा—

“अग्निवेश ! अब जवाब दो । यह चुप रहनेका समय नहीं है । अग्निवेश ! जो कोई तथागतद्वारा धार्मिक प्रश्न पूछनेपर तीसरी वार तक चुप रहता है; यही उसका शिर सात टुकड़े हो जाता है ।”

उस समय घञ्जपाणि यक्ष आदीप्त = सम्प्रज्वलित आग-समान दहकते लोहेके वज्रको लेकर सच्चक निगण्ठ-पुत्रके ऊपर आकाशमें खड़ा था—यदि यह सच्चक निगण्ठ-पुत्र भगवान् के धार्मिक प्रश्न पूछनेपर तीसरी वार भी उत्तर न देगा तो यही इसके सिरके सात टुकड़े करूँगा । उस वज्रपाणि यक्षको भगवान् देखते थे और सच्चक निगण्ठ-पुत्र देखता था । तब सच्चक निगण्ठ-पुत्रने भयभीत, उद्विग्न, रोमाञ्चित हो भगवान् हीको शरण पाया, भगवान् को ही श्राण पाया, भगवान् ही को लयन (= आश्रय-स्थान) पाया; और भगवान् से कहा—

“पूछें आप गौतम ! मैं उत्तर दूँगा ।”

“तो क्या मानता है अग्निवेश ! जो तू यह कहता है—रूप मेरा आत्मा है । क्या रूप तेरे वशमें है ० ?”

“नहीं, भो गौतम !”

“अग्निवेश ! होश कर । अग्निवेश ! होश करके उत्तर दे । तेरा पूर्वका (कथन) पिछलेसे नहीं मिलता है; पिछला, पहिलेसे नहीं मिलता है । तो क्या मानता है अग्निवेश ! वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।”

“नहीं भो गौतम !”

“होश कर अग्निवेश ! होश करके अग्निवेश उत्तर दे ० । तो क्या मानता है अग्निवेश ! रूप नित्य है या अनित्य ?”

“अनित्य है, भो गौतम !”

“जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ?”

“दुःख है, भो गौतम !”

“जो अनित्य दुःख परिवर्तन-शील है, क्या उसके लिये यह ख्याल करना उचित है—
‘यह मेरा है,’ ‘यह मैं हूँ,’ ‘यह मेरा आत्मा है’ ?”

“नहीं भो गौतम !”

“तो क्या मानता है, अग्निवेश ! वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।”

“नहीं भो गौतम !”

“तो क्या मानता है अग्निवेश ! जो कोई दुःखमें पड़ा है, दुःखमें लिपटा है, दुःखको अनुभव कर रहा है, दुःखको—‘यह मेरा है,’ ‘यह मैं हूँ,’ ‘यह मेरा आत्मा है,’—समझता है; क्या वह स्वयं (उस) दुःखको हटा सकेगा; दुःखको दूर फेंक कर विहर सकेगा ?”

“भो गौतम ! कैसे होगा ? नहीं होगा, भो गौतम !”

“तो क्या मानता है अग्निवेश ! इस प्रकार तू दुःखमें पड़ा है ० दुःखको दूर फेंककर विहर सकेगा ?”

“भो गौतम ! कैसे होगा ? नहीं होगा, भो गौतम !”

“जैसे अग्निवेश ! सार चाहनेवाला, सार खोजनेवाला पुरुष, सार (= हीर) की खोजमें विचरते तीक्ष्ण कुल्हाड़ेको लेकर वनमें प्रविष्ट हो । वह वहाँ सीधे, नये, यड़े भारी केलेके तनेको देखे । उसे वह जडसे काटे । जडसे काटकर सिरसे काटे । सिरसे काट कर पत्तेकी लपेटनको उधेड़े । वहाँपर वह पत्तोंकी लपेटनको उधेड़ते हुये फल्लूको भी न पावे, सार कहाँमें पायेगा ? इसी प्रकार अग्निवेश ! अपने वादमें तुमसे प्रश्न करनेपर, भाषण करनेपर वृत्तिक = तुच्छ अपराधी (सा जान पड़ा) । और अग्निवेश ! तूने वैशालीमें समाके भीतर यह यात कही—“मैं ऐसे किसी श्रमण या ब्राह्मण ०^१ आदमीकी तो यात ही क्या कहनी ?” अग्निवेश ! तेरे ललाटपर कोई कोई पसीनेकी बूँदे आ गई हैं, उत्तरासंग (= उपरना) छूटकर जमीनपर गिर पड़ा है । मेरे तो अग्निवेश ! कायामें पसीना नहीं ।”

यह (कह कर) भगवान्ने सबामें (अपने) सुवर्ण-वर्ण शरीरको खोल दिया । ऐसा कहने पर सचचक निगण्ठपुत्र तृष्णी हो, सूक हो, कन्धेको गिराकर, नीचेकी ओर मुँह कर, प्रतिभा-हीन हो, सोचते बैठा रहा । तब दुर्मुख लिच्छवि-पुत्र सत्यकको ० सोचते देख, भगवान्से यह बोला—

“भन्ते ! यहाँ सुझे एक उपमा याद आती है ।”

भगवान्ने यह कहा—“(कहां)-दुर्मुख ! (क्या) उपमा याद आती है ?”

“जिस प्रकार भन्ते ! गाँव या कस्बेके पासमें पुष्करणी हो । वहाँ एक केकडा हो । तब भन्ते ! बहुतसे लडके या लडकियाँ उस गाँव या कस्बेसे निकल कर जहाँ वह पुष्करणी है, वहाँ जायें । जाकर उस केकडेको पानीसे निकाल स्थलपर रक्वें । वह केकडा जिस जिस आरको निकाले उसी उसीको वह घालक बालिकायें काठसे या कठला (= ठीकरे)से काटें, तोड़ें, भग्न करें; इस प्रकार भन्ते ! वह केकडा सारे छिन्न, मग्न, परिमग्न आरोंके कारण उस पुष्करणीमें फिर उतरनेके अयोग्य हो जाये । ऐसे ही भन्ते ! सचचक निगण्ठ-पुत्रके जो कोई अभिमान, अहङ्कार थे, वह सभी भगवान्ने काट दिये, तोड़ दिये, मग्न कर दिये । भन्ते ! अब सचचक

निगण्ठ-पुत्त फिर भगवान्‌के साथ वादके लिये आने योग्य नहीं है ।”

ऐसा कहनेपर सच्चक निगण्ठ-पुत्तने दुर्मुख लिच्छवी-पुत्रसे यह कहा—

“ठहरो, दुर्मुख ! ठहरो, दुर्मुख ! हम तुम्हारे साथ वात नहीं कर रहे हैं । हम यहाँ आप गौतमके साथ वात कर रहे हैं । भो गौतम ! रहने दो, हमारे और दूसरे श्रमण-ब्राह्मणोंके इस वाचिक प्रलाप.....को; कैसे आप गौतमके श्रावक शासन-कर (= उपदेशके अनुसार चलनेवाले) संदेह-रहित, वाद-विवादसे-रहित, विशारदता प्राप्त हो, दूसरेके अनाश्रित वन, अपने शास्ता (= उपदेशक)के शासन (= धर्म)में विहरते हैं ?”

“अग्निवेश ! यहाँ मेरे श्रावक भूत, भविष्य, वर्तमानका, शरीरके भीतर या बाहरका, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या नज़दीक—जो कुछ भी रूप है, सभी रूपको—‘न यह मेरा है’, ‘न यह मैं हूँ’, ‘न यह मेरा आत्मा है’;—इस प्रकार इसे यथार्थतः सम्यक् प्रज्ञासे देखते हैं । ० वेदना ० । ० संज्ञा ० । ० संस्कार ० । ० । इस प्रकार अग्निवेश ! मेरे, शिष्य शास्ताके शासनमें विहरते हैं ।”

“भो गौतम ! किस प्रकार भिक्षु अर्हत् = क्षीणात्त्व, समाप्त(ब्रह्मचर्य)-वास कृत-करणीय, भार-मुक्त, सत्पदार्थ-प्राप्त भव-बंधन-रहित, सम्यक्-ज्ञान-से मुक्त होता है ?”

“अग्निवेश ! यहाँ भिक्षु ० जो कुछ रूप है सभी रूपको—‘न यह मेरा है’ ०; इस प्रकार इसे ठीक ठीक सम्यक् प्रज्ञासे जान कर (उसे) न ग्रहण कर मुक्त होता है । ० वेदना ० । ० संज्ञा ० । ० संस्कार ० । ० विज्ञान ० । इस प्रकार अग्निवेश ! भिक्षु अर्हत् ० होता है । इस प्रकार अग्निवेश ! भिक्षु तीन अनुत्तरीय (= अनुपम पदार्थों)से मुक्त होता है—दर्शन (= साक्षात्कार) अनुत्तरीय, प्रतिपद् (= लाभ)-अनुत्तरीय विमुक्ति (= मुक्ति)-अनुत्तरीय । इस प्रकार मुक्त हुआ भिक्षु अग्निवेश ! तथागतका ही सत्कार = गुरुकार = सम्मान = पूजन करता है—वह भगवान् बुद्ध हैं, बोधके लिये धर्म-उपदेश करते हैं, वह भगवान् दान्त हैं, दमनके लिये उपदेश करते हैं, वह भगवान् शान्त हैं, शान्तिके लिये धर्म-उपदेश करते हैं; वह भगवान् तीर्ण हैं, तरनेके लिये ०; ० परिनिर्वृत हैं, परिनिर्वाण (= निर्वाण)के लिये धर्म-उपदेश करते हैं ।”

ऐसा कहनेपर सच्चक निगण्ठ-पुत्तने भगवान्‌से यह कहा—

“भो गौतम ! ह्यही अभिमानी हैं, हमहीं प्रगल्भ हैं; जो कि हमने आप गौतमके साथ द्विवाद करनेका स्वाद लेना चाहा । भो गौतम ! मुक्त हाथीके साथ भिड़कर पुरुषका कल्याण हो जाय; किन्तु, आप गौतमसे भिड़कर पुरुषका कल्याण नहीं हो सकता । भो गौतम ! घोर विष वाले आशीविष (= सर्प)से भिड़कर पुरुषका कल्याण हो जाय ० । ० जलते अग्निपुंजसे भिड़कर ० । भो गौतम ! हमही अभिमानी हैं ० । आप गौतम भिक्षु-संघके साथ कलके लिये मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्‌ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब सच्चक निगण्ठ-पुत्तने भगवान्‌की स्वीकृतिको जान, उन लिच्छवियोंको संबोधित किया—

“सुनें आप सब लिच्छवि ! मैंने कलके भोजनके लिये भिक्षु-संघ सहित श्रमण गौतमको निमंत्रित किया है; सो वैसा करें जैसा कि इसके लिये योग्य समझें । तब उन लिच्छवियोंने उस रातके वीत जानेपर सच्चक निगण्ठ-पुत्तके पास भोजनार्थ पाँच सौ स्थालीपाकों (= सीधों) को पहुँचा दिया । तब सच्चक निगण्ठ-पुत्तने अपने आराममें उत्तम खाद्य भोज्य संपादितकर भगवान्‌के पास कालकी सूचना दी—“भो गौतम ! काल हो गया, भोजन तैयार है ।”

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्रचीवर ले, जहाँ सच्चक निगण्ठ-पुत्तका आराम था,

वहाँ गये । जाकर भिक्षु-संघके साथ बिछे आसनपर बैठे । तब सच्चक निर्गठ-पुत्तने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य भोज्य द्वारा अपने हाथसे संतर्पित=संप्रवारित किया । तब भगवान्के भोजन कर हाथ हटा लेनेपर, सच्चक निर्गठ-पुत्त एक छोटे आसनको लेकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सच्चक निर्गठ-पुत्तने भगवान्से यह कहा—

“भो गौतम ! जो यह दानमें पुण्य है, वह दायकोंके सुखके लिये हो ।”

“अग्निवेश ! जो अ-वीतराग, अ-वीतद्वेष, अ-वीत-मोह, दान-पात्रको देनेसे (पुण्य होता है) वह दायकोंको होगा; और अग्निवेश ! जो मेरे ऐसे वीत-राग, वीत-द्वेष, वीत-मोह, दान-पात्रों (को दान देनेसे पुण्य है) वह तेरे लिये होगा ।”



३६—महा-सच्चक-सुत्त (१।४।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे ।

उस समय भगवान् पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्रचीवर ले वैशालीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट होना चाहते थे । तब सच्चक निगंठ-पुत्त जंघाविहार (= टहलने)के लिये अनुचक्रमण करता, अनुविचरण करता, जहाँ महावनकी कूटागार-शाला थी, वहाँ गया । आयुष्मान् आनन्दने दूरसे ही सच्चक निगंठ-पुत्तको आते देखा । देखकर भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! यह सच्चक निगंठ-पुत्त आरहा है (जो कि) बहुत वक्वादी पंडित-भानी और बहुत जनों द्वारा सम्मानित है । भन्ते ! यह बुद्धकी निन्दा चाहने वाला, धर्मकी निन्दा चाहने वाला, संघकी निन्दा चाहनेवाला है । अच्छा हो भन्ते ! यदि भगवान् कृपा करके थोड़ी देर यहीं बैठें ।”

भगवान् विछे आसनपर बैठ गये । तब सच्चक निगंठ-पुत्त जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ यथायोग्य (कुशल प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सच्चक निगंठ-पुत्तने भगवान्से यह कहा—

“भो गौतम ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण कायिक भावनामें तत्पर हो विहरते हैं, चित्तकी भावनामें नहीं (तत्पर होते) । वह शारीरिक दुःखमय, वेदनाको पाते हैं । भो गौतम ! पहिले शारीरिक दुःख-वेदनामें पड़े हुएका उरुस्तंभ (= जाँघोका कठिया जाना) भी होगा, हृदय भी विदीर्ण होगा, मुखसे गरम खून भी निकल आयेगा, उन्माद, चित्त-विक्षेप भी होगा । भो गौतम ! उसका यह चित्त काय ही तो है, कायाके ही वशमें तो है । सो क्यों ?—चित्तकी भावना न करने से । भो गौतम ! यहाँ कोई कोई श्रमण ब्राह्मण चित्तकी भावनामें तत्पर हो विहरते हैं । कायाकी भावनामें नहीं । भो गौतम ! वह चैतसिक दुःख-वेदनामें पड़ते हैं । भो गौतम ! चैतसिक दुःख-वेदनामें पड़नेसे (उस समय) (उनका) उरुस्तंभ भी होगा ० सो क्यों ?—कायाकी भावना न करनेसे । भो गौतम ! मुझे ऐसा होता है, ज़रूर आप गौतमके शिष्य, चित्तकी भावनामें तत्पर हो विहरते हैं, कायाकी भावनामें नहीं ।”

“अग्निवेश ! तूने काय-भावना क्या सुनी है ?”

“जैसे कि यह नन्द वात्स्य, कश सांक्रत्य, मक्खली-गोसाल (मानते हैं) । भो गौतम ! यह अचेलक (= नम्र), मुक्त-आचार ० ^१ साप्ताहिक भी आहार करते हैं । ऐसे इस प्रकार बीचमें अन्तर देकर अर्धमासिक आहारको ग्रहणकर विहरते हैं ।”

^१ देखो पृष्ठ ४८ ।

“अग्निवेश ! क्या वह उतनेहीसे गुज़ारा करते हैं ?”

“नहीं भो गौतम ! कभी कभी उत्तम उत्तम भोजनोंको खाते हैं । उत्तम उत्तम खाद्योंको ग्रहण करते हैं । उत्तम उत्तम स्वादनीय (पदार्थों)को स्वादन करते हैं । उत्तम उत्तम पानोंको पीते हैं । वह इस शरीरको यढ़ाते हैं, पोसते हैं, चरयी पैदा करते हैं । इस प्रकार इस शरीरका संचय-प्रचय होता है ।”

“अग्निवेश ! चित्त-भावना तूने कैसी सुनी है ?”

भगवान्के चित्त-भावनाके विषयमें पूछने पर सच्चक निर्गठ-पुत्त कुञ्ज न बोला । तब भगवान् ने सच्चक निर्गठ-पुत्तसे यह कहा—

“अग्निवेश ! जो तूने वह पहले काय-भावना कही वह भी आर्यविनय (= धर्म)में धार्मिक काय-भावना नहीं है । अग्निवेश ! तूने काय-भावनाको ही नहीं जाना; चित्त-भावनाको तो क्या जानेगा ? अग्निवेश ! जैसे कायासे अभावित, चित्तसे अभावित; (एवं) कायासे आवित और चित्तसे भावित होता है, उसे सुन अच्छी तरह मनमें कर कहता हूँ ।”

“अच्छा भो !” (वह) सच्चक निर्गठपुत्तने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—

“अग्निवेश ! कैसे (पुरुष) कायासे अभावित और चित्तसे अभावित होता है ?—यहाँ अग्निवेश ! अज्ञ अनाडी जनको जब सुख-वेदना (= सुखका अनुभव) होती है तो वह सुख-वेदनासे लिप्त हो, सुखमें रागी होता है, सुखकी रागिताको प्राप्त होता है । (कालान्तरमें जय) उसकी वह सुख-वेदना निरुद्ध हो जाती है । सुख-वेदनाके निरुद्ध होनेसे दुःख-वेदना उत्पन्न होती है । दुःख-वेदनामें पड़कर वह शोक करता है, कल्पता है, विलाप करता है, छाती पीटकर रोता है, मूर्छित होता है । (इस प्रकार) अग्निवेश ! उसके लिये उत्पन्न हुई यह सुख-वेदना कायाके भावित न होनेसे चित्तको पकड़कर ठहरती है; चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुई दुःख-वेदना चित्तको पकड़कर ठहरती है । अग्निवेश ! जिस किलीको इस प्रकार दोनों ओरसे ० उत्पन्न सुख-वेदना, दोनों ओरसे चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुई दुःख वेदना चित्तको पकड़कर ठहरती है; अग्निवेश ! (वह)- (पुरुष) कायासे भावना-रहित और चित्तसे भावना-रहित होता है ।

“कैसे अग्निवेश ! (पुरुष) भावित-काय और भावित-चित्त होता है ?—अग्निवेश बुद्धिमान् आर्य श्रावकको जब सुख-वेदना उत्पन्न होती है, तो वह सुख-वेदनाको पाकर सुख-रागी नहीं होता, सुखमें रागित्वको प्राप्त नहीं होता । (जय) उसकी वह सुख-वेदना नष्ट होती है; सुख-वेदनाके निरोध (= नाश)से दुःख-वेदना उत्पन्न होती है; (तब) वह दुःख-वेदनामें पड़कर न शोक करता है ० न मूर्छाको प्राप्त होता है । अग्निवेश ! कायाके भावित होनेसे उसकी वह उत्पन्न हुई सुख-वेदना चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती; ० दुःख-वेदना चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती । अग्निवेश ! इस प्रकार दोनों ओरसे कायाके भावित होनेसे जिस किसीकी उत्पन्न सुख-वेदना भी चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती, चित्तके भावित होनेसे उत्पन्न दुःख-वेदना भी चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती; अग्निवेश ! (वह)... (पुरुष) भावितकाय और भावितचित्त होता है ।”

“भो गौतम ! मेरा विश्वास है, कि आप गौतम भावित-काय (शरीरकी साधना जिसनेकी है) और भावित-चित्त (= चित्तकी साधना जिसने की है) हैं ।”

“जरूर, अग्निवेश ! तूने तानेसे यह बात कही । अच्छा, तो मैं तुझसे कहता हूँ—जय कि, अग्निवेश ! मैं केश-दाड़ी मुँडा, कापाय-वस्त्र पहिन घरसे बेघर हो प्रयत्नित हुआ ० तो उत्पन्न हुई सुख-वेदना चित्तको पकड़कर ठहरेंगी उत्पन्न दुःख-वेदना चित्तको पकड़कर ठहरेंगी—यह संभव नहीं ।”

“क्या, आप गौतमको वैसी सुख-वेदना उत्पन्न होती है, जैसी उत्पन्न हुई सुख-वेदना चित्तको पकड़कर ठहरती है ? क्या आप गौतमको वैसी दुःख-वेदना उत्पन्न होती है, जैसी उत्पन्न हुई दुःख-वेदना चित्तको पकड़कर ठहरती है ?”

“हमें क्या होगा अग्निवेश ! यहाँ, अग्निवेश ! बुद्ध होनेसे पूर्व, बुद्ध न हो बोधिसत्त्व होते समय मुझे ऐसा हुआ—घरका निवास जंजाल है, मलका मार्ग हैं, प्रव्रज्या (= संन्यास) खुला स्थान है । इस सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, छिले शंखसे (उज्वल) ब्रह्मचर्यका पालन घरमें रहकर सुकर नहीं है; क्यों न मैं केश-दाढ़ी मुँडा, काषाय-वस्त्र पहन घरसे बेघर हो प्रव्रजित हो जाऊँ । सो मैं, अग्निवेश ! दूसरे समय ०^१ । सो मैं अग्निवेश ! उस धर्मको अपर्याप्त मान, उस धर्मसे उदास हो चल दिया । ०^१ मगधमें क्रमशः चारिका करता, जहाँ उखेला सेनानी-निगम था, ०^२ वहीं बैठ गया । मुझे, अग्निवेश ! (उस समय) अद्भुत, अश्रुत-पूर्व तीन उपमायें भासित हुई—

(१) “जैसे गीला काष्ठ भीगे पानीमें डाला हो ०^२ ।

(२) “० जैसे स्नेह-युक्त गीला काष्ठ जलके पाल स्थल पर फेंका हो ०^२ ।

(३) “० जैसे नीरस शुष्क काष्ठ जलसे दूर स्थलपर फेंका हो ०^२ ।

“तब अग्निवेश ! मेरे (मनमें) हुआ—‘क्यों न मैं दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिह्वा द्वारा तालूको दबा ०^२ । उस समय मैंने न-दबनेवाला वीर्य (= उद्योग) आरम्भ किया हुआ था, न-भूली स्मृति मेरी जागृत थी; उसी दुःखमय प्रधान (= साधना)से पीड़ित होनेके कारण मेरी काया चंचल अ-शान्त हो गई ।—इस प्रकार अग्निवेश ! उत्पन्न हुई वेदना चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती ।

“तब, अग्निवेश ! मेरे (मनमें) हुआ—‘क्यों न मैं श्वास-रहित ध्यान धरूँ ?—सो मैंने अग्निवेश ! मुख और नासिकासे श्वासका आना जाना रोक दिया । ०^२ । उसी दुःखमय प्रधान के कारण ० ।

“ ०^२ मैंने अग्निवेश ! मुख और नासिकासे श्वासका आना जाना रोक दिया । ०^२ । उसी दुःखमय प्रधानके कारण ० ।

“ ०^२ मैंने अग्निवेश ! मुख, नासिका और कानसे श्वासका आना जाना रोक दिया । ०^२ । उसी दुःखमय प्रधानके कारण ० ।

“ ०^२ मैंने अग्निवेश ! मुख, नासिका और कानसे श्वासका आना जाना रोक दिया । ०^२ ।

“तब मुझे अग्निवेश ! यह हुआ—‘क्यों न मैं आहारको विल्कुल ही छोड़ देना स्वीकार करूँ ०^२ । अग्निवेश ! मेरा वैसा परिशुद्ध, पर्यवदात (= सफेद, गोरा), छविवर्ण (= चमड़ेका रंग) नष्ट हो गया था । ०^२ सो मैं अग्निवेश ! स्थूल आहार ओदन कुल्माष ग्रहण करने लगा । ०^३ प्रथम ध्यान ०^३ । ०^३ द्वितीय ध्यान ०^३ । ०^३ तृतीय ध्यान ०^३ । ०^३ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त कर विहरने लगा । अग्निवेश ! उत्पन्न हुई सुखवेदना इस प्रकार मेरे चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती ।

“सो मैंने अग्निवेश ! इस प्रकार चित्तके ०^४ परिशुद्ध होनेपर पूर्वजन्मोंकी स्मृतिके लिये चित्तको झुकाया ०^४ । अग्निवेश ! रात्रिके प्रथम याममें यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई ०^४ ।

^१ देखो पृष्ठ १०४-५ । (अरियपरियेसन-सुत्तन्त २६), भिक्षुओंको संबोधित करनेकी जगह, अग्निवेशको संबोधित करनेके साथ । ^२ देखो बोधिराजकुमार-सुत्तन्त ८५, राजकुमारकी जगह अग्निवेशको संबोधित कर । ^३ देखो पृष्ठ १५ । ^४ देखो तीन निकायों पर ११. १६ ।

“०१ विशुद्ध दिव्य-वस्तुसे ०१ प्राणियोंको देखने लगा ०१ । रातके थिचले पहर यह द्वितीय विद्या प्राप्त हुई१ ।

“०१ आस्रवाँके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया ०१ अब यहाँके लिये कुठ (करणीय) नहीं” —इसे जाना । अग्निवेश ! रातके पिछले याममें यह तृतीय विद्या प्राप्त हुई ०१ । ० इस प्रकार अग्निवेश ! उत्पन्न हुई सुखवेदना मेरे चित्तको पकड़ कर नहीं ठहरती ।

“अग्निवेश ! मैं अनेक सौकी परिपद्में व्याख्यान देता था, और उनमेंसे हर एक समझता था, कि श्रमण गौतम मेरेही लिये धर्म-उपदेश कर रहा है । अग्निवेश ऐसा न समझो, कि तथागत केवल विज्ञापनके लिये दूसरोंको धर्म-उपदेश करते हैं । मैं अग्निवेश उस कथाके समाप्त होने पर उठी पहिलेके समाधि-निमित्त (= चित्त-एकाग्रताके आकार)में, अपने भीतर ही चित्तको ठहराता हूँ, बैठाता हूँ, एकाग्र करता हूँ, समाहित करता हूँ, उसके साथ सदा सर्वदा विहार करता हूँ ।”

“अर्हत् सम्यक्-संबुद्धकी भाँति आप गौतमको यह योग्य ही है । क्या आप गौतम दिनको सोते हैं ?”

“सोता हूँ, अग्निवेश ! भ्रीष्मके अन्तिम मासमें भोजनान्तर भिक्षासे निवट कर, चौपैती संघाटीको बिछवा दाहिनी करवटसे स्मृति-संप्रजन्य युक्त हो निद्रित होता हूँ ।”

“भो गौतम ! इसे कोई कोई श्रमण ब्राह्मण संमोह (= मूढता)का विहार करते हैं ।”

“अग्निवेश ! इतनेसे संमूढ (= मूढ) या अ-संमूढ नहीं होता । अग्निवेश ! जैसे संमूढ या अ-संमूढ होता है, उसे सुन अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भो !” (कह) सञ्चक निर्गठपुत्तने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“अग्निवेश ! जिस किसीके वह संक्लेशिक (= मलिन करनेवाले), पुनर्जन्म देनेवाले, दुःख-परिणामवाले, भविष्यमें जन्म-जरा-मरण देनेवाले आस्रव (= चित्त-मल) नष्ट नहीं हुये, उसे मैं संमूढ (= मूढ) कहता हूँ । अग्निवेश ! आस्रवाँके नाश न होनेसे (पुरुष) संमूढ होता है । अग्निवेश ! जिस किसीके वह आस्रव ० नष्ट हो गये, उसे मैं अ-संमूढ कहता हूँ । अग्निवेश ! आस्रवाँके नाश होनेसे अ-संमूढ होता है । अग्निवेश ! तथागतके वह आस्रव—०—हो गये, उच्छिन्न-मूल, अभावको प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक सिर-कटे ताड़ जैसे होगये । जैसे, अग्निवेश ! सिर-कटा ताड़ फिर बढ़ने योग्य नहीं रहता; ऐसे ही अग्निवेश ! तथागतके वह आस्रव-०-०, उच्छिन्न-मूल ० सिरकटे ताड़ जैसे हो गये ।”

ऐसा कहने पर सञ्चक निर्गठपुत्तने भगवान्से यह कहा—“आश्चर्य है, भो गौतम ! अद्भुत है भो गौतम ! इतना चिढ़ा चिढ़ा (ताना दे दे) कर कहे जानेपर, सुभनेवाले वचनोंके प्रयोगसे भो आप गौतमका मुखवर्ण (वैसा ही) स्वच्छ प्रसन्न है, जैसा कि अर्हत् सम्यक्-संबुद्धका । भो गौतम ! मैंने पूर्ण फायरूपके साथ वाद किया है । वह दूसरी दूसरी (यात) करने लगता था, वह वातको (विषयसे) याहरले जाता था; कोप, द्वेष, नाराजगी प्रकट करने लगता था । किन्तु इतना चिढ़ा चिढ़ाकर कहे जानेपर ० । ० मक्खलि गोसाल ० । ० अजित केश-कम्बली ० । ० प्रक्रुध कात्यायन ० । ० संजय घेलट्टिपुत्त ० । मैंने निर्गठ नातपुत्तके साथ वाद किया है ० । भो गौतम ! अब हम जायेंगे । हमें बहुत काम बहुत करणीय हैं ।”

“अग्निवेश ! जिसका दू इस समय काल समझता है, (उसे कर) ।”

तब सञ्चक निर्गठपुत्त भगवान्के भाषणका अभिर्नन्दन, अनुमोदन कर आसनसे उठकर चला गया ।

३७—चूल-तरहा-संख्य-सुत्तन्त (१।४।७)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें मृगारमाताके प्रासाद पूर्वाराममें विहार करते थे ।

तब देवताओंका इन्द्र शक्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ा होगया । एक ओर खड़े देवेन्द्र शक्रने भगवान्से यह कहा—

“कैसे, भन्ते ! भिक्षु संक्षेपमें तृष्णाके क्षय द्वारा मुक्त हो, अत्यन्त-निष्ठ अत्यन्त योग-क्षेम (= कल्याण)-वाला, अत्यन्त ब्रह्मचारी, अत्यन्त पर्यवसान (= कर्तव्य जिसके समाप्त हो गये), देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है ?”

“देवोंके इन्द्र ! भिक्षु यह सुने होता है—सारे धर्म (= पदार्थ) अभिनिवेश (= राग) करने लायक नहीं हैं । जब देवोंके इन्द्र ! भिक्षु यह भी सुने होता है—“सारे धर्म अभिनिवेश करने लायक नहीं हैं ।’ वह सारे धर्मोंको जानता है—‘सारे धर्मोंको जानकर सब धर्मोंको छोड़ता है । सारे धर्मोंको छोड़कर, जिस किसी सुखा, दुःखा या अ-दुःख-अ-सुखा वेदनाको अनुभव करता है; उसमें वह अनित्यानुदर्शी (= यह अनिश्चय है, ऐसा समझनेवाला) हो विहरता है, विराग-अनुदर्शी ०, निरोध (= नाश)-अनुदर्शी, प्रतिनिस्सर्ग (= त्याग)-अनुदर्शी हो विहरता है । वह उन वेदनाओंमें ० प्रतिनिस्सर्गानुदर्शी हो विहरते, लोकमें किसी वस्तुका उपादान (= रागयुक्त ग्रहण) नहीं करता । उपादान न करनेसे (विछोहके) त्रासको नहीं पाता । परि-त्रास न पानेसे दृसी शरीरमें परिनिर्वाण (= दुःखके सर्वथा अभाव)को प्राप्त होता है;—‘जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया, करना था सो कर लिया, और कुछ (कर्तव्य) यहाँके लिये नहीं रहा’—जानता है । देवोंके इन्द्र ! ऐसे भिक्षु संक्षेपमें ० देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है ।”

तब देवोंका इन्द्र शक्र भगवान्के भाषणका अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर, भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गया ।

उस समय आयुष्मान् महामौद्गल्यायन भगवान्के अ-विकूर (= समीप)में बैठे थे । तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको यह हुआ—‘क्या उस यक्ष (= देव)ने भगवान्के भाषणको समझकर अनुमोदित किया, या बिना (समझे) ? क्यों न मैं उस यक्षको पूछूँ, कि उस यक्षने भगवान्के भाषणको समझकर अनुमोदित किया, ० ?’ तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन, जैसे बलवान् पुरुष समेटी बाँहको (बिना प्रयास) फैला दे, और फैली बाँहको समेट ले, वैसे ही, मृगारमाता^१के प्रासाद पूर्वारामसे अन्तर्धान हो प्रायस्त्रिंशद देव (- लोक)में प्रकट हुये ।

उस समय देवोंका इन्द्र शक्र एकपुंडरीक उद्यानमें पाँच प्रकारके दिव्य वाद्योंसे सम-

^१ मृगारमाता विशाखाका नाम था, विशेषके लिये देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ३३२ ।

पिंत=समंगीभूत हो घिरा बैठा था । ० शक्रने दूरसे ही आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको आते देखा । देखकर उन पाँच प्रकारके दिव्य वाधोंको हटाकर, जहाँ आयुष्मान् महामौद्गल्यायन थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् महामौद्गल्यायनसे यह बोला—

“आओ, मार्प मौद्गल्यायन ! स्वागत है मार्प मौद्गल्यायन ! चिरकालके बाद मार्प मौद्गल्यायन ! आपका... यहाँ आना हुआ । बैठिये मार्प मौद्गल्यायन ! यह आसन बिछा है ।”

आयुष्मान् महामौद्गल्यायन बिछे आसनपर बैठ गये । देवोंका इन्द्र शक्र भी एक नीचे आसनको लेकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे ० शक्रसे आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने यह कहा—

“कौशिक ! किस प्रकार भगवान्ने तुम्हें संक्षेपसे तृष्णा-क्षय द्वारा मुक्तिके वारेंमें कहा है ? अच्छा हो, हम भी उस कथाके श्रवण करनेके भागी हों ।”

“मार्प मौद्गल्यायन ! हम बहुकृत्य यहूकरणीय हैं; अपना करणीय (काम) तो थोडा ही है, त्रायस्त्रिंश देवोंका ही करणीय (बहुत है) । और मार्प मौद्गल्यायन ! सु-श्रुत (= अच्छी प्रकार सुना), सुगृहीत = सु-मनसीकृत, सु-प्रधारित (बात) भी हमें शीघ्र ही शूल जाता है । मार्प मौद्गल्यायन ! पूर्वकालमें देवासुर-संग्राम छिडा था । उस संग्राममें, मार्प मौद्गल्यायन ! देव विजयी हुये, असुर पराजित हुये । सो मार्प मौद्गल्यायन ! उस संग्रामको जीत, विजित-संग्राम हो, लौटकर मैंने वैजयन्त नामक प्रासादको बनवाया । मार्प मौद्गल्यायन ! वैजयन्त प्रासादके एक आसन (= तल) में सौ निर्यूह (= खंड) हैं । एक एक निर्यूहमें सात कूटागार हैं । एक एक कूटागारमें सात अप्सरार्यें हैं । एक एक अप्सराके पास सात सात परिचारिकायें हैं । मार्प ^१ मौद्गल्यायन ! क्या वैजयन्त प्रासादकी रमणीकताको देखना चाहते हो ?”

आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने मौन रह स्वीकार किया ।

तब देवोंका इन्द्र शक्र आयुष्मान् महा मौद्गल्यायनको आगे आगे कर, जहाँ वैजयन्त प्रासाद था, वहाँ गया । ० शक्रकी परिचारिकाओने दूरसे ही आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको आते देखा । देखकर, लजाती शर्माती अपनी अपनी कोठरियोंमें छुस गईं । यह ससुरको देखकर जैसे लजाती शर्माती है, वैसेही ० शक्रकी परिचारिकायें आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको देख लजाती शर्माती अपनी अपनी कोठरियोंमें छुस गईं ।

तब देवेन्द्र शक्र और महाराज वैश्रवण, आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको वैजयन्त प्रासाद दिखाने टहलाने लगे—

“मार्प मौद्गल्यायन ! देखो वैजयन्त प्रासादकी इस रमणीकताको भी । मार्प मौद्गल्यायन ! देखो वैजयन्त प्रासादकी इस रमणीकता को ।”

“पहिले पुण्य किये आयुष्मान् कौशिकका यह (भवन) सोहता है ।”

“मनुष्यभी थोड़ी रमणीकता देखकर कहते हैं—‘त्रायस्त्रिंश देवोंका (भवन) सोहता है; पहिले पुण्य किये आयुष्मान् कौशिकका यह (भवन) सोहता है’ ।”

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको ऐसा हुआ—‘यह यक्ष बहुत अधिक प्रमादी हो विहर रहा है; क्यों न मैं इस यक्षको उद्वेजित करूँ ।’

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने ऐसी ऋद्धि प्रदर्शितकी, कि वैजयन्त प्रासादको पैरके अंगूठेसे संकम्पित (= कम्पित) = संप्रकम्पित=संप्रवेधित कर दिया । तब ० शक्र वैश्रवण

^१ देवता लोग अपने समान व्यक्तिको मार्प कहकर संबोधित करते हैं ।

महाराज, और त्रायस्त्रिंश देव आश्चर्य-चकित... हो गये—‘अहो ! श्रमणकी महा-ऋद्धि-मत्ता=महानुभावता; जो कि (उसने) दिव्य-भवनको पैरके अंगूठेसे संकम्पित ० कर दिया ।

तब आयुष्मान् महासौद्गल्यायनने ० शक्रको उद्विग्न रोमांचित जान, शक्रसे यह कहा—
“कौशिक ! किस प्रकार भगवान्‌ने तुम्हें ०^१ मुक्तिके वारेमें कहा ० ।”

“मार्ष सौद्गल्यायन ! मैं जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ, जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े मैंने भगवान्‌से यह कहा—‘कैसे भन्ते ! ०^२ देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है ’। मार्ष सौद्गल्यायन ! इस प्रकार भगवान्‌ने मुझे ०^२ मुक्तिके वारेमें कहा ।”

तब आयुष्मान् महासौद्गल्यायन ० शक्रके भाषणका अभिनंदन अनुमोदन कर, जैसे बलवान्‌ पुरुष समेटी घाँहको फँलादे ०^२, वैसेही त्रायस्त्रिंश देव (लोक)में अन्तर्धान हो, भृगारमाताके प्रासाद पूर्वोराममें प्रकट हुये । आयुष्मान् महासौद्गल्यायनके चले जानेके थोड़ीही देर बाद ० शक्रकी परिचारिकाओंने देवेन्द्र, शक्रसे पूछा—

“मार्ष ! यही वह तुम्हारे शास्ता (= गुरु) थे ?”

“मार्षी ! यह मेरे शास्ता नहीं थे, यह मेरे सत्रहचारी (= गुरुभाई) आयुष्मान् महासौद्गल्यायन थे ।”

“लाभ है, मार्ष ! जबकि तेरे सत्रहचारी ऐसे महा-ऋद्धिमान्‌ ऐसे महानुभाव हैं । अहो ! वह तुम्हारे भगवान्‌ शास्ता (कैसे होंगे) !!”

तब आयुष्मान् महासौद्गल्यायन, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् महासौद्गल्यायनने भगवान्‌से यह कहा—

“जानते हैं, भन्ते ! अभी एक प्रसिद्ध महाप्रतापी यक्षको भगवान्‌ने संक्षेपसे तृष्णा-क्षय विमुक्तिको बतलाया था ?”

“जानता हूँ, सौद्गल्यायन !—देवेन्द्र शक्र जहाँ मैं था, वहाँ आया । आकर मुझे अभिवादनकर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े देवेन्द्र शक्रने मुझसे यह कहा—०^२ देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है । सौद्गल्यायन ! मैं जानता हूँ—ऐसे मैंने देवेन्द्र शक्रको संक्षेपसे तृष्णा-क्षय-विमुक्तिको बतलाया था ।”

भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् महासौद्गल्यायनने भगवान्‌के भाषणका अभिनंदन किया ।

३८—महा-तण्हा-संख्य-सुत्तन्त (१४१८)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय साति केवट्टपुत्त भिक्षुको ऐसी घुरी दृष्टि (= धारणा) उत्पन्न हुई थी—“मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको इस प्रकार जानता हूँ, कि वही विज्ञान संसरण (जन्म-मरणमें जाना) करता है, संघावन (= घावन) करता है, अन्य नहीं।

वहुतसे भिक्षुओंने सुना कि—साति केवट्टपुत्त (= कैवर्त-पुत्र) भिक्षुको ऐसी घुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—० संघावन करता है ०। तब वह भिक्षु जहाँ साति केवट्टपुत्त भिक्षु था, वहाँ गये। जाकर साति केवट्टपुत्त भिक्षुसे यह बोले—

“सचमुच, आवुस साति ! तुम्हें इस प्रकारकी घुरी धारणा उत्पन्न हुई है ?—० संघावन करता है !”

“हाँ आवुसो ! ० संघावन करता है ०।”

तब वह भिक्षु उस घुरी धारणासे हटानेके लिये साति केवट्टपुत्त भिक्षुको समझाते बुझाते समनुभाषण करने लगे—

“आवुस साति ! मत ऐसा कहो, मत भगवान् पर झूठ लगाओ। भगवान् पर झूठ लगाना ठीक नहीं है। भगवान् ऐसा नहीं कहते। आवुस साति ! भगवान्ने अनेक प्रकारसे विज्ञानको प्रतीत्य-समुत्पन्न (कार्य-कारणसे उत्पन्न) कहा है। प्रत्यय (= हेतु)के बिना विज्ञान (=चेतना) का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता।”

इस प्रकार उन भिक्षुओंद्वारा समझाये बुझाये जाने पर भी केवट्टपुत्त साति भिक्षु, उसी घुरी धारणाको दृढ़तासे पकड़े कहता था—“मैं भगवान्के उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूँ ०।” जय वह भिक्षु केवट्टपुत्त साति भिक्षुकी उस घुरी धारणाको न हटा सके; तब जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये—“उन भिक्षुओंने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! केवट्टपुत्त साति भिक्षुको ऐसी घुरी धारणा (= पापदृष्टि) उत्पन्न हुई है—“मैं भगवान्के उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूँ ०। हमने भन्ते !...सातिकी इस घुरी धारणाको सुना। तब हम भन्ते !...साति भिक्षुके पास...जाकर यह बोले—सचमुच आवुस साति ! तुम्हें इस प्रकार ० ?...हाँ आवुसो ! ०^१ जय हम भन्ते !...साति भिक्षुकी इस घुरी धारणाको न हटा सके, तब हमने आकर इस बातको भगवान्से कहा।”

तब भगवान्ने एक भिक्षुको संबोधित किया—“आओ भिक्षु ! तुम मेरी ओरसे केवट्टपुत्त

^१ देखो ऊपर।

साति भिक्षुको बोलना—‘आवुस साति ! शास्ता (= उपदेशक, बुद्ध) तुम्हें बुला रहे हैं ।’

“अच्छा, भन्ते !—”(कह) वह भिक्षु...साति भिक्षुके पास...जाकर यह बोला—
“आवुस ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं ।”

“अच्छा, आवुस !”—कहा...केवट्टपुत्त साति भिक्षु जहाँ भगवान् थे, ...वहाँ जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे...साति भिक्षुको भगवान्ने यह कहा—

“सच्चसुच, साति ! तुझे इस प्रकारकी बुरी धारणा हुई है—‘मैं भगवान्के ० ?’”

“हाँ, भन्ते ! मैं भगवान्के उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूँ; कि वही विज्ञान संसरण, संधावन करता है, दूसरा नहीं ।”

“साति ! वह विज्ञान क्या है ?”

“यह जो भन्ते ! वक्ता, अनुभव-कर्ता है, जो कि तहाँ तहाँ (जन्म लेकर) अच्छे, बुरे कर्मोंके विपाकको अनुभव करता है ।”

“मोघपुरुष^१ ! तुमने किसको मुझे ऐसा उपदेश करते सुना ? मैंने तो मोघपुरुष ! अनेक प्रकारसे विज्ञानको प्रतीत्य-समुत्पन्न कहा है; प्रत्ययके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता (—कहा है) । मोघपुरुष ! तू अपनी ठीकसे न समझी बातका हमारे पर लांछन लगाता है; अपना नुकसान कर रहा है, और बहुत पाप कमा रहा है; मोघपुरुष ! यह तेरे लिये दीर्घकाल तक अहितकर, दुःखकर होगा ।”

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या इस...साति भिक्षुने इस धर्म-विनय (= धर्म)में थोड़ा भी अवगाहन कर पाया (= उसीकत) है ?”

“क्या कर पायेगा, भन्ते ? नहीं भन्ते !”

ऐसा कहने पर केवट्टपुत्त साति भिक्षु सुमगुम् हो, सूक हो, कंधा गिराकर, नीचे झुँह करके चिन्तामें पड़, प्रतिभाहीन हो बैठा रहा । तब भगवान्ने...साति भिक्षुको सुम-गुम् हो ० प्रतिभा हीन हो बैठे देख... (उसे) यह कहा—

“मोघपुरुष ! जानेगा तू इस अपनी बुरी धारणाको । अब मैं भिक्षुओंको पूछता हूँ ।”

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! तुमने मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते देखा है, जैसे कि...साति भिक्षु अपनी ठीकसे न समझी बातका, हमारे पर लांछन लगाता है; अपना नुकसान कर रहा है; और बहुत पाप कमा रहा है ?”

“नहीं भन्ते ! भगवान्ने तो भन्ते ! हमें अनेक प्रकारसे विज्ञानको प्रतीत्य-समुत्पन्न कहा है; प्रत्ययके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता है (—कहा है) ।”

“साधु, भिक्षुओ ! तुम इस प्रकार मेरे उपदेशित धर्मको ठीकसे जानते हो—‘अनेक प्रकारसे ० प्रादुर्भाव नहीं हो सकता’ तो भी यह...साति भिक्षु अपनी ठीकसे न समझी ० यह उसके लिये दीर्घकाल तक अहितकर दुःखकर होगा ।

“भिक्षुओ ! जिस जिस प्रत्यय (= निमित्त)से विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी संज्ञा (= नाम) होती है । चक्षु (= आँख)के निमित्तसे रूपमें (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है;

^१ मोघी (बनारसी हिन्दी) = फजूलका आदमी ।

चक्षु-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। श्रोत्रके निमित्तसे शब्दमें (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है; श्रोत्र-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। घ्राण (= नाक)के निमित्तसे गंधमें (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है, घ्राण-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। जिह्वाके निमित्तसे रसमें (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है, रस-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। कायाके निमित्तसे स्पृष्टव्य (= छूये जानेवाले विषय)में (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है, काय-विज्ञान ही उसका नाम होता है। मनके निमित्तसे धर्म (= उपरोक्त पाँच बाहरी इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञान)में (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है, मनो-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है।

“जैसे कि, भिक्षुओ ! जिस जिस निमित्त (= प्रत्यय)को लेकर (जो) आग जलती है, वही वही उसकी संज्ञा होती है। काष्ठके निमित्तसे (जो) आग जलती है, काष्ठ-अग्नि ही उसकी संज्ञा होती है। (लकड़ीकी) चुन्नीके निमित्तसे जो आग जलती है, चुन्नीकी आग ही उसकी संज्ञा होती है। तृणके निमित्तसे (जो) आग जलती है, तृण-अग्नि ही उसकी संज्ञा होती है। कंठे (= गोमय)के निमित्तसे (जो) आग जलती है, कंठेकी आग ही उसकी संज्ञा होती है। भूसी (= गुप)के निमित्तसे (जो) आग जलती है, भूसीकी आग ही उसकी संज्ञा होती है। कृदे (= संस्कार)के निमित्तसे (जो) आग जलती है, कृदेकी आग ही उसकी संज्ञा होती है। ऐसे ही भिक्षुओ ! जिस जिस निमित्तसे विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी संज्ञा होती है। चक्षुके निमित्तसे ०^१ मनो-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है।

“भिक्षुओ ! इस (पाँच स्कंधो^२)को उत्पन्न देखते हो ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! अपने आहारसे (उन्हें) उत्पन्न हुआ देखते हो ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! जो उत्पन्न होने वाला है, अपने आहारके निरोधसे वह निरुद्ध (= नष्ट) होनेवाला होता है—इसे देखते हो ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! ‘यह (पाँच स्कंध) उत्पन्न हुआ है, या नहीं’—यह दुविधा करते सन्देह (= विचिकित्सा) उत्पन्न होती है न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! अपने आहारसे उत्पन्न हुआ है, या नहीं—० ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! ‘जो उत्पन्न होनेवाला है, (वह) अपने आहार (= स्थितिके आधार)के निरोधसे निरुद्ध होनेवाला होता है, या नहीं’—यह दुविधा करते सन्देह उत्पन्न होता है न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! ‘यह (= पाँच स्कंध) उत्पन्न है’—यह अच्छी प्रकार प्रज्ञासे देखने पर सन्देह नष्ट हो जाता है न ?”

^१ देखो पृष्ठ १५२-५३ । ^२ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यह पाँच स्कंध हैं। वेदना, संज्ञा, संस्कार रूपके संबंधसे विज्ञानहीकी तीन अवस्थायें हैं, इस प्रकार वह उसके अन्तर्गत हैं। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु रूप-स्कंध हैं। जिसमें न मारीपन है, और जो न जगह धरता है, वह विज्ञान-रूप है। रूप (= Matter) और विज्ञान (= Mind)के मेलसे ही सारा संसार बना है।

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! इसे अपने आहारसे उत्पन्न ० । ० ‘जो उत्पन्न होनेवाला है, (वह) अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होने वाला होता है’—यह ठीकसे अच्छी प्रकार प्रज्ञासे देखने पर सन्देह नष्ट हो जाता है न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! ‘यह (पंच स्कंध) उत्पन्न है’—इस (विषयमें) तुम सन्देह-रहित हो न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! ‘वह अपने आहारसे उत्पन्न है’—इस (विषय)में भी तुम सन्देह-रहित हो न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“० अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होनेवाला होता है—इस (विषय)में भी तुम सन्देह-रहित हो न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! ‘यह उत्पन्न है’—इसे ठीकसे अच्छी प्रकार जानना सुदृष्ट (= अच्छा दर्शन) है न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! ‘(यह) अपने आहारसे उत्पन्न है—० । ० अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होने वाला होता है’—यह ठीकसे अच्छी प्रकार जानना सुदृष्ट है न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! क्या तुम इस ऐसे परिशुद्ध, उज्वल, दृष्ट (= दर्शन, ज्ञान)में भी आसक्त होगे, रमोगे, ‘(मेरा) धन है’—समझोगे, ममता करोगे ? भिक्षुओ ! (मेरे) उपदेशे धर्मको कुल्ल (= नदी पार करनेके बड़े)के समान, (यह) पार होनेके लिये है, पकड़ कर रखनेके लिये नहीं है—(समझोगे) ?”

“(पकड़ कर रखनेके लिये) नहीं है भन्ते !”

“भिक्षुओ ! तुम इस ऐसे परिशुद्ध, उज्वल, दृष्टमें भी आसक्त न होना, न रमना, ‘(मेरा) धन^१ है’—न समझना, ममता न करना । बल्कि भिक्षुओ ! मेरे उपदेशे धर्मको कुल्ल (= वेड़े)के समान समझना, (यह) पार होनेके लिये है, पकड़ रखनेके लिये नहीं है !”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! उत्पन्न प्राणियोंकी स्थितिके लिये, आगे उत्पन्न होने वाले (सत्त्वों)की सहायता (= अनुग्रह)के लिये यह चार आहार हैं । कौनसे चार ?—(पहिला) स्थूल या सूक्ष्म कवलीकार (= कवल, कवल करके खाने योग्य) आहार; दूसरा स्पर्श (आहार); तीसरा मनःसंचेतना (= मनसे विषयका ख्यालकरके तृप्तिलाभ करना), चौथा विज्ञान (= चेतना) ।

“भिक्षुओ ! इन चार आहारोंका क्या निदान (= हेतु) है = क्या समुदय है ? (यह) किससे जन्मे हैं = किससे संभूत हैं ?—भिक्षुओ ! इन चारों आहारोंका निदान है तृष्णा । ० समुदय है, तृष्णा । यह जन्मे हैं तृष्णासे =^१ यह संभूत हैं तृष्णासे ।

“भिक्षुओ ! इस तृष्णाका क्या निदान है ० ?—० वेदना ० ।

“० वेदना ०^१ ?—० स्पर्श ० ।

“० स्पर्श ०^१ ?—० षड्-आयतन^२ ० ।

“० षड्-आयतन ०^१ ?—० नाम-रूप^३ ० ।

“० नाम-रूप ०^१ ?—० विज्ञान ० ।

“० विज्ञान ०^१ ?—० संस्कार ० ।

“० संस्कार ०^१ ?—० अविद्या ० ।

“इस प्रकार भिक्षुओ ! अ-विद्याके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण षड्-आयतन, षड्-आयतनके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान (= ग्रहण या प्रहण करनेकी इच्छा), उपादानके कारण भव (= संसार), भवके कारण जन्म, जन्मके कारण जरा-मरण, शोक, रोना-काँदना, दुःख = दौर्मनस्य, हैरानी-परेशानी होती हैं। इस प्रकार इस केवल (= खालिस) दुःख-स्कन्ध (= दुःख-समुदाय)की उत्पत्ति होती है।

“भिक्षुओ ! जाति (= जन्म)के कारण जरा-मरण होता है—यह जो कहा। भिक्षुओ ! जातिके कारण जरा-मरण होता है या नहीं—इसमें तुम्हें क्या जान पड़ता है ?

“जातिके कारण जरा-मरण होता है। भन्ते ! हमको यही जान पड़ता है, कि जातिके कारण जरा-मरण होता है।

“भिक्षुओ ! भवके कारण जाति (= जन्म) होती है—यह जो कहा। भिक्षुओ ! भवके कारण जाति होती है या नहीं—इसमें तुम्हें क्या जान पड़ता है ?”

“० भवके कारण, भन्ते ! जाति होती है ० ।”

“० उपादानके कारण ०^१ ?—० ।”

“० तृष्णाके कारण ०^१ ?—० ।”

“० वेदनाके कारण ०^१ ?—० ।”

“० स्पर्शके कारण ०^१ ?—० ।”

“० षड्-आयतनके कारण ०^१ ?—० ।”

“० नाम-रूपके कारण ०^१ ?—० ।”

“० विज्ञानके कारण ०^१ ?—० ।”

“० संस्कारके कारण ०^१ ?—० ।”

“० अविद्याके कारण ०^१ ?—० ।”

“साधु, भिक्षुओ ! तुमसी भिक्षुओ ! इस प्रकार कहो, मैं भी ऐसेही कहता हूँ—‘इसके होनेपर यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे यह उत्पन्न होता है’—जो कि यह अविद्याके कारण संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण षड्-आयतन, षड्-आयतनके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके कारण जरा-मरण, जरा-मरणके कारण शोक, रोना-काँदना, दुःख = दौर्मनस्य, हैरानी-परेशानी होती है।—इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कन्ध (= दुःख-सुंज)की उत्पत्ति होती है।

^१ ऊपरकी तरह ।

^२ चक्षु आदि पाँच बाहरी इन्द्रियाँ और छठा भीतरी इन्द्रिय मन, यह छः आयतन हैं। ^३ रूप भूतोंको कहते हैं, और नाम विज्ञानको (देखो टिप्पणी पृष्ठ १५३) ।

“अविद्याके पूर्णतया विरक्त होनेसे, (अविद्याके) नष्ट होनेसे संस्कारका नाश (= निरोध) होता है, संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, विज्ञानके निरोधसे नाम-रूपका निरोध होता है, नाम-रूपके निरोधसे षड्-आयतनका निरोध होता है, षड्-आयतनके निरोधसे स्पर्शका निरोध होता है, स्पर्शके निरोधसे वेदनाका निरोध होता है, वेदनाके निरोधसे तृष्णाका निरोध होता है, तृष्णाके निरोधसे उपादानका निरोध होता है, उपादानके निरोधसे भवका निरोध होता है, भवके निरोधसे जातिका निरोध होता है, जातिके निरोधसे जरा-मरण, शोक रोने-काँदने, दुःख = दौर्मनस्य हैरानी-परेशानीका निरोध होता है ।—इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कंधका निरोध होता है ।

“भिक्षुओ ! ‘जातिके निरोधसे जरा-मरणका निरोध होता है’—यह जो कहा । भिक्षुओ ! जातिके निरोधसे जरामरणका निरोध होता है या नहीं होता—यहाँ तुम्हें कैसा जान पड़ता है ?”

“ ‘जातिके निरोधसे जरामरणका निरोध होता’ भन्ते ! (यहाँ) भन्ते ! हमें होता है—जातिके निरोधसे जरा-मरणका निरोध होता है ।”

“० भवके निरोधसे ०^१ ?—० ।”

“० उपादानके निरोधसे ०^१ ?—० ।”

“० तृष्णाके निरोधसे ०^१ ?—० ।”

“० वेदनाके निरोधसे ०^१ ?—० ।”

“० स्पर्शके निरोधसे ०^१ ?—० ।”

“० षड्-आयतनके निरोधसे ०^१ ?—० ।”

“० नाम-रूपके निरोधसे ० ?—० ।”

“० विज्ञानके निरोधसे ० ?—० ।”

“० संस्कारके निरोधसे ० ?—० ।”

“० अविद्याके निरोधसे ० ?—० ।”

“साधु, भिक्षुओ ! तुमभी भिक्षुओ ! इस प्रकार कहो, मैं भी ऐसे कहता हूँ—‘इसके न होनेपर यह नहीं होता, इसके निरोध होनेपर इसका निरोध होता है’; जो कि यह अविद्याके निरोधसे संस्कारका निरोध होता है; संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, ० नाम-रूप ०, ० षड्-आयतन ०, ० स्पर्श ०, ० वेदना ०, ० तृष्णा ०, ० उपादान ०, ० भव ०, ० जातिके निरोधसे जरा-मरण, शोक, रोने-काँदने, दुःख = दौर्मनस्य, हैरानी-परेशानीका निरोध होता है ।

“भिक्षुओ ! इस प्रकार (पूर्वोक्त क्रमसे) जानते देखते हुये क्या तुम पूर्वके छोर (= पूर्व-अन्त = पुराने समय या पुराने जन्म)की ओर दौड़ोगे—‘अहो ! क्या हम अतीत-कालमें थे, या हम अतीत-कालमें नहीं थे ? अतीत-कालमें हम क्या थे ? अतीत-कालमें हम कैसे थे ? अतीत-कालमें क्या होकर हम क्या हुये थे ?’”

“नहीं, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुये, क्या तुम वादके छोर (= अपर-अन्त = आगे आने वाले समय)की ओर दौड़ोगे—‘अहो ! क्या हम भविष्य कालमें होंगे, या हम भविष्य कालमें नहीं होंगे ? भविष्य कालमें हम क्या होंगे ? ० हम कैसे होंगे ? भविष्य कालमें क्या होकर हम क्या होंगे ?’”

“नहीं, मन्ते !”

“मिश्रुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुये, क्या तुम इस वर्तमान कालमें अपने भीतर इस प्रकार कहने-सुनने वाले (= कथकथी) होगे—‘अहो ! क्या मैं हूँ, ० या मैं नहीं हूँ ? मैं क्या हूँ ? मैं कैसा हूँ ? यह सत्त्व (= प्राणी) कहाँसे आया ? वह कहाँ जानेवाला होगा ?’—?”

“नहीं, मन्ते !”

“मिश्रुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे—‘शास्त्रा (= उपदेष्टा) हमारे गुरु हैं, शास्त्राके गौरव(के ख्याल)से हम ऐसा कहते हैं’—?”

“नहीं, मन्ते !”

“० ऐसा कहोगे—‘श्रमण(= संन्यासी)ने हमें ऐसा कहा, श्रमणके वचनसे हम ऐसा कहते हैं’—?”

“नहीं, मन्ते !”

“मिश्रुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम दूसरे शास्त्राके अनुगामी होंगे ?”

“नहीं, मन्ते !”

“० क्या तुम नाना श्रमण ब्राह्मणोंके (जो वह) व्रत, कौतुक, मंगल (-संबंधी क्रियायें) हैं, उन्हें सारके तौर पर ग्रहण करोगे ?”

“नहीं, मन्ते !”

“क्या मिश्रुओ ! जो तुम्हारा अपना जाना है, अपना देखा है, अपना अनुभव किया है, उसीको तुम कहते हो ?”

“हाँ, मन्ते !”

“साधु, मिश्रुओ ! मैंने मिश्रुओ ! तुम्हें समयान्तरमें नहीं तत्काल फलदायक, यहीं दिखाई देनेवाले, विज्ञों द्वारा अपने आपमें जानने योग्य इस धर्मके पास उपनीत किया (= पहुँचाया) है । मिश्रुओ ! ‘यह धर्म समयान्तरमें नहीं’ तत्काल फलदायक है, (इसका परिणाम) यहीं दिखाई देनेवाला है, (यह) विज्ञोंद्वारा अपने आपमें जानने योग्य है’—यह जो कहा है, वह इसी (उक्त कारण)से ही कहा है ।

“मिश्रुओ ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्भ धारण होता है—माता और पिता एकत्र होते हैं, किंतु माता ऋतुमती नहीं होती और गंधर्व^१ उपस्थित नहीं होता; तो गर्भ-धारण नहीं होता । माता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है; किन्तु, गंधर्व उपस्थित नहीं होता, तो भी गर्भ-धारण नहीं होता । जब माता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है, और गंधर्व उपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ-धारण होता है । तब उस गरु-भार-वाले गर्भको यड़े संशयके साथ माता कोखमें नौ या दस मास धारण करती है । फिर उस गरु भारवाले गर्भको यड़े संशयके साथ माता नौ या दस मासके बाद जनती है । तब उस जात (= सन्तान)को मिश्रुओ ! माता अपनेही लोहितसे पोसती है । मिश्रुओ ! आर्योंके मतमें यह लोहित (= खून) ही है, जो कि यह माताका दूध है ।

“तब मिश्रुओ ! वह कुमार यज्ञ होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर जो वह दन्तोंके खिलौने हैं, जैसे कि—वंकक (= वंका), घटिक (= घड़िया), मोक्खचिक (= मुँहका लट्टू),

^१ उत्पन्न होनेवाला चेतना-प्रवाह । देखो अभिषर्म्मकोश (३१२), पृष्ठ ३५४ ।

चिंगुलक (= चिंगुलिया), पात्र-आढक (= तराजूका खिलौना), रथक (= खिलौनेकी गाड़ी), धनुक (= धनुही)—उनसे खेलता है ।

“तय भिक्षुओ ! वह कुमार (और) बड़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर, संयुक्त संलक्षित हो, पाँच (प्रकारके) काम-गुणों (= विषय-भोगों)—चक्षुसे विज्ञेय इष्ट (= अभिलषित) कान्त (= कामनीय), मनोज्ञ, प्रिय, कामनायुक्त, रंजनीय रूपों; श्रोत्रसे विज्ञेय ० शब्दों; घ्राणसे विज्ञेय ० गंधों; जिह्वासे विज्ञेय ० रसों; कायासे विज्ञेय ० स्पर्शों—को सेवन करता है । वह चक्षु (= आँख)से प्रिय रूपोंको देखकर राग-युक्त होता है, अ-प्रिय रूपोंको देखकर द्वेष-युक्त होता है । कायिक स्मृति (= होश)को न कायम रख छोटे चित्तसे विहरता है । (वह) उस चित्तकी विमुक्ति और प्रज्ञाकी विमुक्ति (= मुक्ति)का ठीकसे ज्ञान नहीं करता; जिससे कि उसकी सारी बुराइयाँ = अकुशल-धर्म निरुद्ध हो जायें । वह इस प्रकार अनुरोध (= राग), विरोधमें पड़ा, सुखमय दुःखमय न-सुख-न-दुःखमय—जिस किसी वेदनाको वेदन (= अनुभव) करता है; उसका वह अभिनन्दन करता है, अभिवादन करता है, अवगाहन करता है । इस प्रकार अभिनन्दन करते, अभिवादन करते, अवगाहन करते रहते उसे नन्दी (= तृष्णा) उत्पन्न होती है । वेदनाओंके विषयमें जो यह नन्दी है, (यही) उसका उपादान है, उसके उपादानके कारण भव होता है, भवके कारण जाति, जातिके कारण जरामरण, शोक, रोना-काँदना, दुःख = दौर्मनस्य, हैरानी-परेशानी होती है । इस प्रकार इस केवल दुःख-स्फंधकी उत्पत्ति = समुदय, होता है । वह श्रोत्रसे प्रिय शब्दोंको सुन कर ०^१ ० घ्राणसे प्रिय गंधोंको सूँघ कर ०^१ । ० जिह्वासे प्रिय रसोंको चख कर ०^१ । ० कायासे प्रिय स्पर्शोंको छू कर ०^१ । ० मनसे प्रिय धर्मोंको जान कर ० । इस प्रकार इस केवल दुःख-स्फंधकी उत्पत्ति होती है ।

“भिक्षुओ ! यहाँ लोकमें तथागत, अर्हत्, सम्यक-संबुद्ध, विद्या-आचरण-युक्त, सुगत, लोक-विद्, पुरुषोंके अनुपम-चातुक्-सवार, देवताओं-और-मनुष्योंके उपदेष्टा भगवान् बुद्ध उत्पन्न होते हैं । वह ब्रह्मलोक, मारलोक, देवलोक सहित इस लोकको, देव-मनुष्य-सहित श्रमण-ब्राह्मण-युक्त (सभी) प्रजाको स्वयं समझ कर = साक्षात्कार कर (धर्मको) बतलाते हैं । वह आदिमें कल्याण(-कारी), मध्यमें कल्याण(-कारी), अन्तमें कल्याण(-कारी) धर्मको अर्थ-सहित = व्यञ्जन-सहित उपदेशते हैं । वह केवल (= मिश्रण-रहित) परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करते हैं । उस धर्मको गृहपति या गृहपतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न (पुरुष) सुनता है । वह उस धर्मको सुनकर तथागतके विषयमें श्रद्धा लाभ करता है । वह उस श्रद्धा-लाभसे संयुक्त हो सोचता है—‘गृह-वास जंजाल है, मैलका मार्ग है । प्रव्रज्या (= संन्यास) मैदान (सा खुला स्थान) है । इस नितान्त सर्वथा-परिपूर्ण, सर्वथा-परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे (उज्वल) ब्रह्मचर्यका पालन घरमें रहते सुकर नहीं है । क्यों न मैं सिर-दाढ़ी मुँडाकर, कापाय वस्त्र पहन, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हो जाऊँ ?’ सो वह दूसरे समय अपनी अल्प भोग-राशिको या महा-भोग-राशिको अल्प-ज्ञाति-मंडलको या महा-ज्ञाति-मंडल को छोड़; सिर-दाढ़ी मुँडा, कापाय वस्त्र पहिन घरसे बेघर हो प्रव्रजित (= संन्यासी) होता है ।

“वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणाति-पात छोड़, प्राणिर्हिंसासे विरत होता है । दंड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, लज्जालु, दयालु, सर्व प्राणियों, सारे प्राणि-भूतोंका हित और अनुकंपक हो विहरता है । अ-दिब्बादान (= चोरी)

छोड़, दिवादायी (= दियेका लेनेवाला), दियेका चाहनेवाला, ...पवित्रात्मा हो विहरता है। अ-ब्रह्मचर्यको छोड़ ब्रह्मचारी हो, ग्राम्य-धर्म मैथुनसे विरत हो, आर-चारी (= दूर रहनेवाला) होता है। मृपावादको छोड़, मृपावादसे विरत हो, सत्यवादी सत्य-संध, लोकका अ-विलंबादक = विश्वास-पात्र ...होता है। पिशुन-वचन (= जुगली) छोड़, पिशुन-वचनसे विरत होता है—इन्हें फोड़नेके लिये यहाँसे सुनकर वहाँ कहनेवाला नहीं होता; या उन्हें फोड़नेके लिये वहाँसे सुनकर यहाँ कहनेवाला नहीं होता। (वह तो) फूटोंको मिलानेवाला, मिले हुआंको न फोड़नेवाला, एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, एकता करनेवाली वाणीका बोलनेवाला होता है। कटुवचन छोड़ कटु-वचनसे विरत होता है। जो वह वाणी ...कर्ण-सुखा, प्रेमणीया, हृदयंगमा, सम्य, बहुजन-क्रान्ता = बहुजन-मनापा है; वैसी वाणीका बोलनेवाला होता है। प्रलापको छोड़ प्रलापसे विरत होता है। समय देखकर बोलनेवाला, यथार्थवादी = अर्थ-वादी, धर्म-वादी, विनय-वादी हो, तात्पर्य-युक्त, फल-युक्त, सार्थक, सारयुक्त वाणीका बोलनेवाला होता है।

“वह बीज-समुदाय, भूत-समुदायके विनाशसे विरत होता है। एकाहारी, रातको उपरत-विकाल (= मध्याह्नोत्तर)-भोजनसे विरत होता है। माला, गंध, विलेपनके धारण, मंदन, विभूषणसे विरत होता है। उच्च-शयन और महाशयनसे विरत होता है। सोना चाँदी लेनेसे विरत होता है। कच्चा अनाज लेनेसे विरत होता है। कच्चा मांस लेनेसे विरत होता है। स्त्री-कुमारी ०, दासी-दास ०, भेद-वकरी ०, सुर्गी-सूअर ०, हाथी-नाथ ०, घोडा-घोडी ०, खेत-घर लेनेसे विरत होता है। दूत बन कर जानेसे विरत होता है। क्रय-विक्रय करनेसे विरत होता है। तराजूकी ठगी, कांसेकी ठगी, मान (= मन, सेर आदि तोल)की ठगीसे विरत होता है। घूस, बंधना, जाल-साजी, कुटिल-योग ०। छेदन, वध, बंधन, छाप मारने, ग्राम आदिके विनाश करने, डाका डालनेसे विरत होता है।

“वह शरीरके वस्त्र, और पेटके खानेसे सन्तुष्ट रहता है। वह जहाँ जहाँ जाता है (अपना सामान) लिये ही जाता है; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पक्ष-मारके साथ ही उड़ता है। इसी प्रकार मिथु शरीरके वस्त्र, और पेटके खानेसे सन्तुष्ट रहता है। ०। वह इस प्रकार आर्य (= निर्दोष) शील-स्क्ंध (= सदाचार-समूह)से युक्त हो; अपने भीतर निर्मल सुखको अनुभव करता है।

“वह आँखसे रूपको देखकर, निमित्त (= आकृति आदि) और अनुव्यंजन (= चिन्ह) का ग्रहण करनेवाला नहीं होता। चूँकि चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रख विहरनेवालेको, राग, द्वेष, शराद्वयों = अ-कुशल धर्म उत्पन्न होते हैं; इसलिये वह उसे सुरक्षित रखता है; चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करता है = चक्षु-इन्द्रियमें संवर ग्रहण करता है। वह श्रोत्रसे शब्द सुनकर निमित्त और अनुव्यंजनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता ०। घ्राणसे गंध ग्रहण कर ०। जिह्वासे रस ग्रहण कर ०। कायासे स्पर्श ग्रहण कर ०। मनसे धर्म ग्रहण कर ०। इस प्रकार वह आर्य इन्द्रिय-संवरसे युक्त हो, अपने भीतर निर्मल सुखको अनुभव करता है।

“वह आने-जानेमें, जानकर करनेवाला (= संप्रजन्य-युक्त) होता है। अवलोकन-विलोकनमें संप्रजन्य-युक्त होता है। समेटने-फैलानेमें ०, संघाटी-पात्र-चोवरके धारण करनेमें ०, खानपान, भोजन-आस्वादनमें ०। मल-मूत्र विसर्जनमें ०, जाते-खड़े होते, बैठते, सोते-जागते, बोलते चुप रहते ०। इस प्रकार वह आर्य स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, अपनेमें निर्मल सुखको अनुभव करता है।

“वह इस आर्य-शील-स्क्ंधसे युक्त, इस आर्य इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आर्य स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्तमें—अरण्य, वृक्ष-छाया, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुहा, श्मशान, वन-प्रान्त,

सुले मैदान, या पुआलके गंजमें—वास करता है। वह भोजनके बाद... आसन मार कर, कायाको सीधा रख, स्मृतिको सन्मुख ठहरा कर बैठता है। वह लोकमें (१) अभिध्या (= लोभ)को छोड़, अभिध्या-रहित चित्त वाला हो विहरता है; चित्तको अभिध्यासे शुद्ध करता है। (२) व्यापाद (= द्रोह)-दोषको छोड़ कर, व्यापाद-रहित चित्त-वाला हो, सारे प्राणियोंका हितानुकम्पी हो विहरता है; व्यापादके दोषसे चित्तको शुद्ध करता है। (३) स्त्यान-मृद्ध (= शारीरिक मानसिक आलस्य)को छोड़ स्त्यान-मृद्ध-रहित हो, आलोक-संज्ञा वाला (= रोशन-ख्याल) हो, स्मृति और संप्रजन्य (= होश) से युक्त हो विहरता है ०। (४) औद्धत्य-कौकृत्य (= उद्धतपने और हिचकिचाहट)को छोड़, अनुद्धत भीतरसे शान्त हो विहरता है ०। (५) विचिकित्सा (= सन्देह)को छोड़, विचिकित्सा-रहित हो, निस्संकोच मलाइयोंमें (लग्न) हो विहरता है; विचिकित्सासे चित्तको शुद्ध करता है।

“वह इन (अभिध्या आदि) पाँच नीवरणोंको चित्तसे हटा, उपक्लेशों (= चित्त-मलों) को जान, उनके दुर्बल करनेके लिये, काम (= विषयों)से अलग हो, बुराइयोंसे अलग हो, विवेकसे उत्पन्न एवं वितर्क-विचार-युक्त प्रीति-सुख-वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। और फिर भिक्षुओ ! वह वितर्क और विचारके शान्त होने पर, भीतरकी प्रसन्नता = चित्तकी एकाग्रताको प्राप्त कर, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। और फिर भिक्षुओ ! वह प्रीति और विरागसे उपेक्षा वाला हो, स्मृति और संप्रजन्य से युक्त हो, कायासे सुख अनुभव करता विहरता है। जिस (से युक्त)को कि आर्य लोग उपेक्षक, स्मृतिमान् और सुख विहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। और फिर भिक्षुओ ! वह सुख और दुःखके विनाशसे, सौमनस्य (= चित्त-तृष्टि) और दौर्मनस्य (= चित्तकी असंतुष्टि)के पूर्व ही अस्त हो जानेसे, दुःख-सुख-रहित और उपेक्षक हो, स्मृतिकी शुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है।

“वह चक्षुसे रूपको देखकर, प्रिय रूपमें राग-युक्त नहीं होता; अ-प्रिय रूपमें द्वेष-युक्त नहीं होता; विशाल चित्तके साथ कायिक समृतिको कायम रखकर विहरता है। (वह) उस चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति) और प्रज्ञाकी विमुक्तिको ठीकसे जानता है; जिसमें कि उसकी सारी बुराइयाँ=अकुशल-धर्म निरुद्ध हो जाते हैं। वह इस प्रकार अनुरोध विरोधसे रहित हो, सुखमय, दुःखमय, न-सुख-न-दुःख-मय—जिस किसी वेदनाको अनुभव करता है;... उसका वह अभिनन्दन नहीं करता, अभिवादन नहीं करता, (उसमें) अवगाहन कर नहीं स्थित होता। इस प्रकार अभिनन्दन न करते, अभिवादन न करते, अवगाहन न करते, जो वेदना-विषयक नन्दी (= तृष्णा) है, वह उसकी निरुद्ध (= नष्ट) हों जाती है। उस नन्दीके निरोधसे उपादान (= रागयुक्त ग्रहण) का निरोध होता है। उपादानके निरोधसे भवका निरोध, भवके निरोधसे जाति (= जन्म)का निरोध, जातिके निरोधसे जरा-मरण, शोक, रोने-काँदने, दुःख=दौर्मेनस्य, हैरानी-परेशानीका निरोध होता है। इस प्रकार इस केवल दुःख-स्फंध (= दुःख-पुंज) का निरोध होता है। श्रोत्रसे शब्द सुन कर ०। घ्राणसे गंध सूँघ कर ०। जिह्वासे रसको चख कर ०। कायासे स्पर्शव्य (स्पर्श वस्तु)को छू कर ०। मनसे धर्मको जान कर प्रिय धर्मोंमें राग-युक्त नहीं होता, अ-प्रिय धर्मोंमें द्वेष-युक्त नहीं होता ०। इस प्रकार इस केवल दुःख-स्फंधका निरोध होता है।

“भिक्षुओ ! मेरे संक्षेपसे कहे इस तृष्णा-संक्षय-विमुक्ति (= तृष्णाके विनाशसे होनेवाली मुक्ति) को धारण करो; केवट्टुत्त साति भिक्षुको तृष्णाके महाजाल=तृष्णाके महा-संघाटमें फँसा (जानो)।”

भगवान् ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान् के माषणका अभिनन्दन किया।

३६—महा-अस्सपुर-सुत्तन्त (१।४।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् अंग (देश) में अंगवालोंके अश्वपुर नामक नगरमें विहरते थे ।

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—

“भिक्षुओ ! ‘श्रमण’, ‘श्रमण’ कह लोग तुम्हारा नाम धरते हैं । तुम भी ‘तुम कौन हो ?’—यह पूछने पर ‘श्रमण (हैं)’—उत्तर देते हो । भिक्षुओ ! तुम्हारी यह संज्ञा होते हुये, तुम्हारी वह प्रतिज्ञा होते हुये, तुम्हें सीख लेनी चाहिये—‘जो श्रमण बनाने वाले धर्म हैं, जो ब्राह्मण बनाने वाले धर्म हैं, उन्हें लेकर हम व्रतेंगे; इस प्रकार हमारी संज्ञा (= नाम) सच्ची होगी, हमारी प्रतिज्ञा यथार्थ होगी । और जिन (गृहस्थों)के (दिये) अन्न, वस्त्र, निवास, रोगमें पथ्य-औषध हम उपभोग करते हैं; उनका वह हमपर किया उपकार भी महाफलदायक, = महा-आनुदांस्य होगा । हमारी यह प्रव्रज्या (= संन्यास) भी अ-व्रंषा = सफला = स-उदया होगी’ ।

“भिक्षुओ ! कौनसे धर्म श्रमण बनानेवाले हैं, ब्राह्मण बनानेवाले हैं ?—हम लज्जा और संकोचवाले धर्मों—यह भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये । शायद भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो—‘हम लज्जा-संकोच (= ही, अपव्रथा)वाले हैं; इतना काफी है, इतना बल है । श्रमण-पन (= श्रमण्य) का अर्थ हमें मिल गया । (इससे) आगे हमारे लिये कुछ करणीय नहीं है’—मत इतनेसे सन्तोष कर लेना ।

“भिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ; मत श्रमणपनकी कामना (शेष) रखते, आगे करणीय वाकी रहनेके कारण, श्रमणपनका अर्थ तुमसे निकल जाये । क्या है भिक्षुओ ! आगे करणीय ?—भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये—‘हमारा कायिक आचार परिशुद्ध होगा, उत्तान = सुला होगा, वह छिद्र (= दोष) युक्त और ढँका न होगा । उस कायिक आचारके शुद्ध होनेसे न हम अपने लिये अभिमान करेंगे, न दूसरोंको नीच कहेंगे’ । शायद भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो—‘हम लज्जा-संकोच वाले हैं, हमारा कायिक आचार परिशुद्ध है । इतना काफी है ० ’—मत इतनेसे सन्तोष कर लेना ।

“भिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ ० । क्या है भिक्षुओ ! आगे करणीय ?—भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये—‘हमारा वाचिक आचार परिशुद्ध होगा ० । शायद भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो—‘हम लज्जा-संकोच वाले हैं । हमारा कायिक आचार परिशुद्ध है ।

१ कायिक आचारकी भाँति दुहराना चाहिये ।

हमारा वाचिक आचार परिशुद्ध है । इतना काफी है ०'—मत इतनेसे सन्तोष कर लेना ।

“मिक्षुओ ! ०—‘हमारा मानसिक आचार (= आचरण = कर्म) परिशुद्ध होगा ० । ० १ ।

“ ० —‘हमारी जीविका परिशुद्ध होगी ० । ० १ ।

“ ० —‘हम इन्द्रियोंमें संयम रखेंगे । चक्षुसे रूपको देखकर निमित्तप्राही, अनुव्यंजन-प्राही^१ नहीं होंगे । चक्षु-इन्द्रियोंमें संयम न करके विहरने वाले (व्यक्तिमें) अभिध्या (= लोभ) दौर्मनस्य (= दुर्मनता), (आदि) बुराइयाँ = अकुशल-धर्म आपड़ते हैं । (इसलिये) उसके संयममें तत्पर होंगे । चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करेंगे = चक्षु इन्द्रियका संवर करेंगे । श्रोत्रसे शब्द सुन ० । घ्राणसे गंध सूँघ ० । जिह्वासे रस चख ० । कायासे स्प्रष्टव्य (वस्तु)को छू ० । मनसे धर्मको जान ० । शायद भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो ० ।

“ ० —‘हम भोजनमें मात्रा (= परिमाण)का ख्याल रखेंगे । ठीकसे जानकर, न द्रव (= मस्ती)के लिये, न मदके लिये, न मंडनके लिए न विभूषणके लिये; (वल्कि) जितना इस कायाकी स्थितिके लिये, गुजारेके लिये, पीड़ाको रोकनेके लिये, और ब्रह्मचर्यकी सहायताके लिये (आवश्यक है, उतनाही) आहार ग्रहण करेंगे । इस प्रकार पुरानी वेदना (= भोग)को नाश करेंगे, और नई वेदनाको नहीं उत्पन्न करेंगे; हमारी (शरीर-)यात्रा भी चलेगी, निर्दोषपन भी रहेगा, सुखपूर्वक विहार होवेगा ० । शायद ० । ० ।

“ ० —‘जागरणमें तत्पर रहेंगे । दिनमें टहलने, बैठने, या आचरणीय धर्मों द्वारा चित्त को शोधित करेंगे । रातके प्रथम याममें टहलने, बैठने, या (अन्य) आचरणीय धर्मोंके द्वारा चित्तको शोधित करेंगे । रातके मध्यम (विचले) याममें पैरपर पैर रखकर, स्मृति-संप्रजन्यके साथ उत्थानका ख्याल मनमें रख दाहिनी कर्वट सिंह-शय्या करके (सोयेंगे) । रातके अन्तिम याममें उठकर टहलने, बैठने या (अन्य) आचरणीय धर्मोंसे चित्तको शुद्ध करेंगे ० । शायद ० ।

“ ० —‘स्मृति और संप्रजन्यसे युक्त रहेंगे । आने जानेमें संप्रजन्ययुक्त, संप्रजानकारी (= होश कर करनेवाला)^२ बोलने-चुप रहनेमें संप्रजानकारी होंगे ० । शायद ० ।

“ ० —‘यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु एकान्तमें—अरण्य ०^३ चित्तको विचिकित्सा (= संदेह) से शुद्ध करता है ।

“जैसे भिक्षुओ ! (कोई) पुरुष ऋण लेकर कर्मान्त (= खेती)में लगावे । उसका कर्मान्त ठीक उतरे । सो वह अपने पुराने ऋणके धनको दे डाले; और दारा (= भार्या)के मरण-पोषणके लिये भी (उसके पास कुछ) बच रहे । तब उसको ऐसा हो—‘मैंने पहिले ऋण लेकर कर्मान्तमें लगाया । मेरा कर्मान्त ठीक उतरा । सो मैंने अपने पुराने ऋणके धनको दे डाला; और दाराके मरण-पोषणके लिये भी बच रहा है’ । सो उसके कारण उसे प्रसन्नता हो, सन्तोष हो ।

“जैसे भिक्षुओ ! (कोई) पुरुष मारी बीमारीसे पीड़ित हो, रोगी हो । उसे भोजन (= मक्क) अच्छा न लगता हो, और न उसके शरीरमें बलकी मात्रा हो । वह दूसरे समय उस बीमारीसे मुक्तहो जाये, उसे भोजन भी अच्छा लगने लगे, तथा उसके शरीरमें बलकी मात्रा भी आजाये । तब उसको ऐसा हो—‘मैं पहिले मारी बीमारीसे पीड़ित था, रोगी था ० । सो मैं उस बीमारीसे मुक्त हो गया हूँ, मुझे भोजन भी अच्छा लगता है, और मेरे शरीरमें बलकी मात्रा भी आगई है’ । सो उसके कारण उसे प्रसन्नता हो, सन्तोष हो ।

^१ कायिक आचारकी भाँति दुहराना चाहिये ।

^२ देखो पृष्ठ १५९ (स्मृति-संप्रजन्य) ।

“जैसे मिश्रुओ ! (कोई) पुरुष बन्धनागारमें बँधा हो । वह दूसरे समय सकुशल बिना हानिके उस बंधनसे मुक्त होवे; और उसके भोगों (= धन)की कुछ हानि न हो । तब उसको ऐसा हो—‘मैं पहिले बंधनागारमें बँधा था ० । ० ।

“ ० जैसे मिश्रुओ ! (कोई) पुरुष अ-स्वाधीन, पराधीन जहाँ चाहे तहाँ (न जा सकने वाला) दास हो । वह दूसरे समय उस दासतासे मुक्त हो, स्वाधीन, अ-पराधीन, भोग-योग्य जहाँ चाहे तहाँ जाने वाला हो । उसको ऐसा हो— ० । ० ।

“जैसे मिश्रुओ (कोई) धनवान् भोगवान् पुरुष कान्तर (= रेगिस्तान)के रास्तेमें जा रहा हो । सो दूसरे समय सकुशल, बिना हानिके उस कान्तरको पार हो जाये, और उसके भोगों (= धन)की भी कोई हानि न होवे । उसको ऐसा हो— ० । ० ।

“ऐसे ही मिश्रुओ ! मिश्रु ऋणके समान, रोगके समान, बंधनागारके समान, दासताके समान, (और) कान्तर-मार्गके समान इन न-चूटे (अमिष्या आदि) पाँच नीवरणोंको अपनेमें समझता है । इन पाँच नीवरणोंके छूट जाने पर अपने भीतर वह ऋण-मुक्ति, रोग-मुक्ति, बंधन-मुक्ति, स्वतंत्रता, (और) क्षेमयुक्त भूमि जैसा समझता है ।

“वह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे हटा, उपक्लेशोंको जान, उनके दुर्बल करनेके लिये काम (= त्रिपथों)से अलग हो, बुराइयोंसे अलग हो ०^१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको विवेक (= एकान्त-चिन्तन)से उत्पन्न प्रीति-सुखसे परिपूर्ण, निमग्न = संमग्न, सिक्त करता है । उसकी सारी कायाका कुछ भी (भाग) विवेकज प्रीति-सुखसे वंचित नहीं रहता । जैसे मिश्रुओ ! चतुर नहापक (= नहलानेवाला) या नहापकका शागिर्द काँसेकी थालीमें स्नान-चूर्ण डालकर पानीका छीटा दे दे मिलावे । सो वह स्नेह (= गीलापन, नमी)से अनुगत, स्नेहसे परिगत भीतर याहर स्नेहसे तर, न-पिघलने-वाली स्नान-पिंडी हो जाये । ऐसे ही मिश्रुओ ! मिश्रु इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न ० ।

“और फिर मिश्रुओ ! मिश्रु ०^१ द्वितीय-ध्यान ०^१ । ० उसकी कायाका कुछ भी (भाग) समाधिज प्रीतिसुखसे अलिप्त नहीं रहता । जैसे मिश्रुओ ! (कोई) उदक-हृद (= जलाशय) (पाताल) फूटे जल वाला हो । उसमें न पूर्व दिशासे जलके आनेका मार्ग हो, न पश्चिम दिशा से ०, न उत्तर दिशासे ०, न दक्षिण दिशासे जलके आनेका मार्ग हो । देव (= वृष्टि) भी गम्य-समय पर (उसमें) अच्छी प्रकार धाराका प्रवेश न कराता हो । तो भी उसी उदक-हृदमें शीतल जलधारा फूटकर उस उदकहृदको शीतल जलसे परिपिक्त, संसिक्त, परिपूर्ण = सम्पूर्ण करे; चारों ओर उस उदकहृदका कुछ भी (भाग) शीतल जलसे अ-लिप्त न हो । ऐसे ही मिश्रुओ ! ० ।

“और फिर मिश्रुओ ! मिश्रु ०^१ तृतीय ध्यान ० । वह इसी कायाको निष्प्रीतिक सुखसे अमिष्यन्दिद, परिष्यन्दिद, परिपूर्ण, तर करता है । उसकी कायाका कुछ भी (भाग) निष्प्रीतिक सुखसे अलिप्त नहीं रहता । जैसे, मिश्रुओ ! उत्पल-समूह, पद्म-समूह, या पुण्डरीक-समूहमें, कोई कोई उत्पल, पद्म या पुण्डरीक उदकमें उत्पन्न उदकमें संवर्द्धित उदकसे ऊपर न निकल उदकमें निमग्न हुये ही पोषित हों । वह मूलसे अग्र भाग तक शीतल जलसे अमिषिक्त, परिपिक्त, परिपूर्ण, और तर हों; उनका कुछ भी (भाग) शीतल जलसे अ-लिप्त न हो । ऐसे ही मिश्रुओ ! ० ।

“और फिर मिश्रुओ ! मिश्रु ०^१ चतुर्थ-ध्यान ० । वह इसी कायाको परिशुद्ध, उज्वल

चित्तसे न्यास कर आसीन होता है। उसकी कायाका कुछ भी भाग परिशुद्ध उज्वल चित्तसे अ-न्यास नहीं होता। जैसे, भिक्षुओ ! (कोई) पुरुष श्वेत वस्त्रसे सिरतक ढाँक कर बैठा हो; उसकी सारी कायाका कोई भी (भाग) श्वेत वस्त्रसे विना ढाँका न हो। ऐसे ही भिक्षुओ ! ० ।

“वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०^१होनेपर पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है। फिर वह १ ।—इस प्रकार आकार, उद्देश्यके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगता है।

“वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०^१होनेपर ०^१ । ० अ-मानुष, विशुद्ध, दिव्य-चक्षुसे ० प्राणियोंको पहचानता है।

“वह इस प्रकार ० आस्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है। फिर वह—‘यह दुःख है’—इसे यथार्थसे जानता है ० १ ‘अब यहाँ (करने)के लिये कुछ (शेष) नहीं है’—इसे जान लेता है।

“भिक्षुओ ! यह (ऊपर वर्णित) भिक्षु श्रमण भी कहा जाता है, ब्राह्मण भी, स्नातक भी, वेदगू भी, श्रोत्रिय भी, आर्य भी, अर्हत् भी (कहा जाता है)।

“भिक्षुओ ! कैसे भिक्षु श्रमण होता है ?—इसके मलिन करनेवाले, पुनर्जन्मदेनेवाले, भयप्रद, दुःख-विपाकवाले, भविष्यमें जन्म-जरा-मरणमें डालनेवाले, अकुशल-धर्म—बुराइयाँ शमन (=समन = श्रमण) होंगई हैं। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु श्रमण (= समन) होता है।

“भिक्षुओ ! कैसे भिक्षु ब्राह्मण होता है ?—इसकी ० बुराइयाँ वहा दीगई (= वाहित होंगई) हैं” । ० ।

“० स्नातक ० ?—इसकी ० बुराइयाँ धुलगई (= नहात) हैं । ० ।

“० वेदगू ० ?—इसकी ० बुराइयाँ विदित हैं । ० ।

“० श्रोत्रिय ० ?—इसकी ० बुराइयाँ निकलगई (= नि-स्सुत) हैं । ० ।

“० आर्य ० ?—इससे ० बुराइयाँ दूर (= आरक) होती हैं । ० ।

“० अर्हत् ० ?—इससे ० बुराइयाँ दूर (= आरक) होती हैं । ० ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया।

४०—चूल-अस्सपुर-सुत्तन्त (१४१०)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् अंग (देश)में अंगोंके कल्पे अश्वपुरमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने मिश्रुओंको संबोधित किया—“मिश्रुओ !”

“मदन्त !” कह उन मिश्रुओंने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान्ने कहा—

“मिश्रुओ ! ‘श्रमण’ ‘श्रमण’ लोग नाम धरते हैं । तुमलोग भी, ‘तुम कौन हो’—पूछनेपर ‘(हम) श्रमण है’ उत्तर देते हो । ऐसी संज्ञा ऐसी प्रतिज्ञावाले तुम लोगोको यह सीपना चाहिये—‘जो वह श्रमणको सच करनेवाला मार्ग है, हम उस मार्गपर आरूढ़ होंगे, इस प्रकार यह हमारी संज्ञा सच होगी, हमारी प्रतिज्ञा (= दावा) वयार्थ होगी । (और) जिनके (दिने) चीवर (= वस्त्र), पिंड-पात (= भिक्षा), शयनासन (= निवास), ग्लान-प्रत्यय-अप्य (= रोगी के औपधि-पथ्य) सामग्रीका हम उपभोग करते हैं । उनके (किये) हमारे प्रति वह (दान-) कार्यमी महाफलवाले महामाहात्म्यवाले होंगे; और हमारी भी यह प्रव्रज्या निर्मल सफल-स-उदय होगी ।’

“मिश्रुओ ! मिश्रु श्रमणको सच करनेवाले मार्ग (= श्रमण-सामीची प्रतिपदा)पर कैसे आरूढ़ नहीं होता ?—मिश्रुओ ! जिस किसी अभिष्यालु (= लोमी) मिश्रुकी अभिष्या नष्ट नहीं होती, द्रोह-सहित चित्तवाले (= व्यापन्नचित्त)का व्यापाद (= द्रोह) नष्ट नहीं हुआ रहता, क्रोधीका क्रोध ०, पाखंडी (= उपनाही)का पाखंड ०, मर्षीकी कलक (= आमर्ष-अमरत्य) ०, पलासी (= प्रदाशी-निष्ठुर)का पलास ०, ईर्ष्यालुकी ईर्ष्या ० मत्सरीका मत्सर (= कूपणता) ०, शठकी शठता ०, मायावी (= वंचक)की माया ०, पापेच्छु (= वद-नीयत)की पापेच्छा ०, मिथ्या-दृष्टि (= झूठे सिद्धान्तवाले)की मिथ्या दृष्टि (= झूठी धारणा) नष्ट नहीं हुई रहती । वह इन श्रमण-मलों=श्रमण-दोषों=श्रमण-कसटों, अपायको ले जानेवाले, दुर्गतिको अनुभव करानेवाले कारणोंके अ-विनाशसे ‘श्रमण-सामीचि-प्रतिपद्पर आरूढ़ नहीं हुआ,’ (ऐसा) मैं कहता हूँ । जैसे मिश्रुओ ! मट्टज नामक...तेज, दुधारा आयुध (= हथियार) संघाटी (= साधुके वस्त्रों)में ढँका लिपटा हो; उसके ही समान मिश्रुओ ! मैं इस मिश्रुकी प्रव्रज्या कहता हूँ ।

“मिश्रुओ ! मैं संघाटी (= मिश्रु-वस्त्र)वालेके संघाटी-धारण मात्रसे, श्रमणता (= श्रामण्य) नहीं कहता । अचेलक (= वस्त्र-रहित)के नंगे रहने मात्रसे श्रामण्य (= साधुपन) नहीं कहता । मिश्रुओ ! रजोजल्लिक (= कीचड-वासी साधु)की रजोजल्लिकता मात्रसे श्रामण्य नहीं कहता ।... उदकावरोहक (= जल-वासी)के जलवास मात्रसे ० । ० वृक्षमूलिक (= सदा वृक्षके नीचे रहने-वाले)के वृक्षके नीचे वास मात्रसे ० । ० अध्यवकाशिक (= चाँडेमें रहनेवाले) ० । ० उन्मट्टक (= सदा खड़े रहनेवाले) ० । ० पर्याय-भक्तिक (धीच धीचमें निराहार रह, भोजन करनेवाले)

० । ० मंत्र-अध्यायक (= वेद-पाठी)के मंत्र-अध्ययन मात्रसे मैं श्रामण्य नहीं कहता । ० जटिलकके जटा-धारण मात्र से ० ।

“मिथुओ ! यदि संघाटिकके संघाटी-धारण मात्रसे, अमिध्यालुका लोभ हट जाता, ० व्यापाद हट जाता, ० क्रोध ०, ० उपनाह ०, ० मर्ष ०, ० पलास ०, ० ईर्ष्या ०, ० मात्सर्य ०, ० शठता ०, ० माया ०, ० पापेच्छा ०, मिथ्या-दृष्टिकी मिथ्या-दृष्टि हट जाती; तो उसको मित्र-अमात्य जाति-बन्धु पैदा होते ही, संघाटिक बना देते, संघाटिकताका ही उपदेश करते—‘आ मद्रसुख ! तू संघाटिक हो जा । संघाटिक होनेपर संघाटी-धारण मात्रसे, तुझ अमिध्यालुका लोभ नष्ट हो जायगा । ० । मिथ्या-दृष्टिकी मिथ्या-दृष्टि नष्ट हो जायगी ।’ क्योंकि मिथुओ ! मैं किसी किसी संघाटिकको भी अमिध्यालु, व्यापन्न-चित्त, क्रोधी, उपनाही, मर्षी, पलासी, ईर्ष्यालु, सत्सरी, शठ, मायावी, पापेच्छु, मिथ्या-दृष्टि देखता हूँ, इसलिये संघाटिकके संघाटी-धारण मात्रसे श्रामण्य नहीं कहता ।

“मिथुओ ! यदि अचेलककी अचेलकता-मात्रसे ० । ० रजोजल्लिककी रजोजल्लिकता मात्रसे ० । ० उदकावरोहकके उदकावरोहण मात्रसे ० । ० वृक्ष-मूलिककी वृक्ष-मूलिकता मात्रसे ० । ० अध्यवकाशिक ० । ० उब्मट्टिक ० । ० पर्याय-भक्तिक ० । ० मंत्र-अध्यायक ० । ० जटिलकके जटा-धारण मात्रसे ० अमिध्या ०—० मिथ्या-दृष्टि नष्ट होती ० ।

“मिथुओ ! मिथु श्रमण-सामीची-प्रतिपद् (= सच्चा श्रमण बनानेवाले मार्ग) पर कैसे मार्गारूढ़ होता है ?—मिथुओ ! जिस किसी अमिध्यालु मिथुकी अमिध्या (= लोभ) नष्ट होती है, ०—० मिथ्यादृष्टि नष्ट होती है; (वह) इन श्रमण-मलों ० के विनाशसे श्रमण-सामीची-प्रतिपद्पर मार्गारूढ़ कहता हूँ । (फिर) वह इन सभी पापक अ-कुशल धर्मोंसे, अपने को विशुद्ध देखता है, अपनेको विमुक्त देखता है । (फिर) इन सभी पापक ० धर्मोंसे अपनेको विशुद्ध ० विमुक्त देखनेवाले उस (पुरुष)को, प्रमोद उत्पन्न होता है । प्रमुदितको प्रीति उत्पन्न होती है । प्रीतिमान्की काया स्थिर होती है । स्थिर-शरीर सुख अनुभव करता है । सुखितका चित्त समाहित (= एकाम्र) होता है । वह (१) मैत्रीयुक्त चित्तसे एकदिशाको प्लावितकर विहरता है, और दूसरी दिशा ०, और तीसरी ०, और चौथी ० इसी प्रकार ऊपर, नीचे, तिष्ठें, सबकी इच्छासे सबके अर्थ, सभी लोकको विपुल, सहान्, अ-प्रमाण, अ-वैर, द्वेष-रहित मैत्री-पूर्ण चित्तसे प्लावित कर विहरता है । (२) करुणा-युक्त चित्तसे ० । (३) मुदिता-युक्त चित्तसे ० । (४) उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० ।

“जैसे मिथुओ ! स्वच्छ, मधुर, शीतल, जलवाली रमणीय सुन्दर घाटोंवाली पुष्करणीय हो । यदि पूर्वदिशासे भी घाममें तपा (= धर्म-अमितस) = धर्म-परेत, थका, तृषित = पिपासित पुरुष आवे; वह उस पुष्करिणीमें उतर कर उदक-पिपासाको दूर करे, घामके तापको दूर करे । पश्चिम-दिशासे भी ० । उत्तर-दिशासे भी ० । दक्षिण-दिशासे भी ० । जहाँ कहींसे भी ० । ऐसेही मिथुओ ! यदि क्षत्रिय-कुलसे घरसे बेघर प्रव्रजित होवे, और वह तथागतके उपदेश किये धर्मको प्राप्तकर, इस प्रकार मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाकी भावना करे, (तो वह) आध्यात्मिक शांतिको प्राप्त करता है । आध्यात्मिक शान्ति (= उपशम)से ही ‘श्रमण-सामीची-प्रतिपद्पर आरूढ़ है’ कहता हूँ । ० यदि ब्राह्मण-कुलसे ० । ० यदि वैश्यकुलसे ० । ० जिस किसी कुलसे भी घरसे बेघर प्रव्रजित ० ।

“क्षत्रिय-कुलसे भी घरसे बेघर प्रव्रजित हो । और वह आस्रवों (= चित्त-दोषों)के क्षयसे, आस्रव-रहित चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिको, इसी जन्ममें स्वयं जान कर = साक्षात् कर = प्राप्त कर

त्रिहरता है । आस्रवोंके क्षयसे श्रमण होता है । ब्राह्मण-कुलसे भी ० । वैश्य-कुलसे भी ० । शूद्र-कुलसे भी ० । जिस किसी कुलसे भी ०।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अनुमोदित किया ।

(४-इति महायमक-वग्ग ११४)

४१—सालेय्य-सुत्तन्त (१।५।१)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् महान् भिक्षु-संघके साथ कोसल (देश)में विचरते जहाँ कोसल (= वासियों) का साला (= शाला) नामक ब्राह्मण-ग्राम है, वहाँ पहुँचे ।

शालाके ब्राह्मण गृहस्थोंने सुना—शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम महान् भिक्षु-संघके साथ कोसलमें विचरते शालामें आ पहुँचे हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा संगल कीर्तिशब्द उठा हुआ है—‘वह भगवान् अर्हत् हैं ०^१, भगवान् बुद्ध हैं । वह ब्रह्मलोक-सहित ०^२ ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करते हैं । ऐसे अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है ।

तब शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर (कोई कोई) भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । कोई कोई भगवान्से कुशल क्षेम पूछ एक ओर बैठ गये । कोई कोई जिधर भगवान् थे, उधर हाथ जोड़कर ० । कोई कोई नाम-गोत्र सुनाकर एक ओर बैठ गये । कोई कोई चुप-चाप एक ओर बैठ गये ।

एक ओर बैठे शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवान्से यह कहा—

‘हे गौतम ! क्या हेतु है = क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद अपाय = दुर्गति, पतन नर्कमें उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! क्या हेतु है = क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होते हैं ?

‘गृहपतियो ! अधर्माचरणके कारण कोई प्राणी ० नर्कमें उत्पन्न होते हैं । धर्माचरणके कारण गृहपतियो ! कोई प्राणी सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होते हैं ।

‘हम लोग आप गौतमके इस विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्त भाषणका विस्तारपूर्वक अर्थ नहीं समझ रहे हैं । अच्छा हो, आप गौतम हमें इस प्रकार धर्म उपदेश करें, जिसमें आप गौतमके इस विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्त भाषणका विस्तारपूर्वक अर्थ हम समझ सकें ।’

‘तो गृहपतियो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।’

‘अच्छा, भो !’—कह, शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—‘गृहपतियो ! कायिक अधर्माचरण, विषम आचरण तीन प्रकारका होता है । वाचिक अधर्माचरण, विषम-आचरण चार प्रकारका होता है । मानसिक अधर्माचरण, विषम-आचरण तीन प्रकारका होता है । गृहपतियो ! कैसे कायिक अधर्माचरण ० तीन प्रकारका होता है ?—यहाँ गृहपतियो ! कोई (पुरुष) (१) हिंसक, क्रूर, लोहित-पाणि (= खून रंगे हाथोंवाला), मार-काटमें रत, प्राणियोंके प्रति निर्दयी होता है । (२) अदिन्नादायी (= चोर)

^१ देखो पृष्ठ २४ ।

^२ देखो, पृष्ठ १५८ ।

होता है, जो दूसरेका धिना दिया, चोरीका कहा जानेवाला गाँवमें या जंगलमें रक्ता घन-सामान है, उसका लेनेवाला होता है। (३) कामों (= स्त्री संभोग)में मिथ्याचारो (= दुराचारी) होता है; उन (स्त्रियों)के साथ संभोग करता है, जो कि माता द्वारा रक्षित है, पिता द्वारा रक्षित, माता-पिता द्वारा रक्षित, जाति-वालों द्वारा रक्षित, मगिनी द्वारा रक्षित, जातिवालों द्वारा रक्षित, गोत्रवालों द्वारा रक्षित, धर्मसे रक्षित हैं, पतिवाली दंडयुक्त हैं, अन्तमें (विवाह संबंधी) माला मात्र भी जिनपर डाल दी गई है। इस प्रकार गृहपतियो ! तीन प्रकारका कायिक अधर्माचरण ० होता है।

“कैसे गृहपतियो ! चार प्रकारका वाचिक अधर्माचरण ० होता है ?—यहाँ गृहपतियो ! कोई (पुरुष) (१) मिथ्यावादी होता है। समामें, या परिपदमें, या जातिके मध्यमें, या पूरा (= पंचायत)के मध्यमें, राजद्वारमें, ब्रुलानेपर साक्षीके लिये—‘हे पुरुष ! जो जानते हो, वह कहो !’—(पृष्ठनेपर); वह न जानते हुए कहता है—‘मैं जानता हूँ’, जानते हुये कहता है—‘मैं नहीं जानता’। न देखे कहता है—‘मैंने देखा है’; देखे हुए कहता है—‘मैंने नहीं देखा।’ इस प्रकार अपने लिये या परायेके लिये, या थोड़े आमिप (= भोगवस्तु)के लिये जानबूझकर झूठ बोलता है। (१) चुगुलखोर होता है—इनमें फूट डालनेके लिये यहाँ सुनकर वहाँ कहता है; उनमें फूट डालनेके लिये, वहाँ सुनकर यहाँ कहता है। इस प्रकार मेलजोलवालोंको फोड़नेवाला, फूटे हुआ (की फूट)को सह देनेवाला, वर्ग (= पार्टीयाजी)में सुखा, वर्गमें रत, वर्गमें धानन्दित, वर्गकरणो वाणीका बोलनेवाला होता है। (३) परुप (= कड़ु)-भाषी होता है—जो वाणी तेज, कर्कश, दूसरेको कडवी लगनेवाली, दूसरेको पीड़ित करनेवाली, फोघपूर्ण, अनाति-पैदाकरनेवाली है, वैसी वाणीका बोलनेवाला होता है। (४) प्रलापो होता है—बेवक्त बोलनेवाला, अग्रयार्थ बोलनेवाला = अतथ्यवादी, अधर्मवादी, अ-विनय (= अनौति)-वादी, धिना समय, धिना-उद्देश्यके तात्पर्य-रहित, अनर्थयुक्त निस्सार वाणीका बोलनेवाला होता है। इस प्रकार गृहपतियो ! चार प्रकारका वाचिक अधर्माचरण ० होता है।

“कैसे गृहपतियो ! तीन प्रकारका मानसिक अधर्माचरण ० होता है ?—यहाँ गृहपतियो ! कोई (पुरुष) (१) अभिध्यालु (= लोभी) होता है; जो दूसरेका धन-सामान (= वित्त-उपकरण) है, उसका लोभ करता है—‘अहो ! जो दूसरेका (धन) है, वह मेरा हो जातः !’ (२) व्यापन्नचित्त = द्वेषपूर्ण संकल्पवाला होता है—‘यह प्राणी मारे जायँ, यध किये जायँ, उच्छिन्न होवँ, विनष्ट होवँ, मत रहँ’—इत्यादि। (३) मिथ्यादृष्टि = उलटी धारणावाला होता है—‘दान कुछ नहीं’, यज्ञ कुछ नहीं, हवन कुछ नहीं, सुकृत दुष्कृत कर्मोंका कोई फल = विपाक नहीं, यह लोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, औपपातिक सत्त्व (अयोनिज प्राणी = देवता लोग) नहीं हैं। लोकमें ठीक-पहुँचवाले ठीक-रास्ते-पर-स्त्रो ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं हैं, जो इस लोक और परलोकको स्वयं जान कर साक्षात्कार कर (औरोंको) जतलायेंगे। इस प्रकार गृहपतियो ! तीन प्रकारका मानसिक अधर्माचरण ० होता है।

“गृहपतियो ! इस प्रकार अधर्माचरण = विषम-आचरणके कारण कोई प्राणी फाया छोड़ मरनेके बाद ० नरकमें जाते हैं।

“गृहपतियो ! तीन प्रकारका कायिक धर्माचरण = सम-आचरण होता है। चार प्रकारका वाचिक धर्माचरण = सम-आचरण होता है। तीन प्रकारका मानसिक धर्माचरण = सम-आचरण होता है। कैसे गृहपतियो ! तीन प्रकारका कायिक धर्माचरण ० होता है ?—यहाँ गृहपतियो ! कोई (पुरुष) (१) प्राणातिपात (= हिंसा) छोड़ प्राणातिपातमे विरत होता है—वह

दण्ड-त्यागी, शस्त्रत्यागी लज्जालु, दयालु, सारे प्राणियोंका हित और अनुकंपक हो विहरता है । (२) अदिन्नादान (= चोरी)को छोड़, अदिन्नादानसे विरत होता है—जो दूसरेका विना दिया ०^१ उसका न लेनेवाला होता है । (३) कामों (= स्त्री-संभोग)के मिथ्याचारको छोड़, काम-मिथ्याचारसे विरत होता है । उन स्त्रियोंके साथ संभोग नहीं करता, जो कि माता द्वारा रक्षित हैं ०^१ । इस प्रकार गृहपतियो ! तीन प्रकारका कायिक धर्माचरण ० होता है ।

“कैसे गृहपतियो ! चार प्रकारका वाचिक धर्माचरण ० होता है ?—यहाँ गृहपतियो ! कोई (पुरुष) (१) मृषावादको छोड़ मृषावादसे विरत होता है । समामें ०^१ जानबूझकर झूठ नहीं बोलता । (२) पिशुनवचन (= चुगली) छोड़, विशुनवचनसे विरत होता है । इनमें फूट डालने ०^१ फूटे हुआंका मिलानेवाला होता है, मेलजोलवालोंको सहायता देनेवाला होता है । मेलमें रत, मेलमें प्रसन्न, मेलमें आनंदित, मेलकरणी वाणीका बोलनेवाला होता है । (३) परुषवचनको छोड़, परुषवचनसे विरत होता है । जो वह वाणी मधुर, कर्णसुखद, प्रेमणीय, हृदयंगम, सभ्य (= पौरी), बहुजन-कान्ता = बहुजन-मनापा होती है, उसका बोलनेवाला होता है । (४) प्रलापको छोड़ प्रलापसे विरत होता है ।—समय देख बोलनेवाला ०^२ अर्थयुक्त सारवती वाणीका बोलनेवाला होता है । इस प्रकार ० ।

“कैसे गृहपतियो ! तीन प्रकारका मानसिक धर्माचरण ० होता है ?—यहाँ गृहपतियो ! कोई (पुरुष) (१) अभिमिथ्या-रहित (= निर्लोभ) होता है—जो दूसरेका धन-सामान है ०^२ उसका लोभ नहीं करता । (२) अ-व्यापन्न-चित्त रहित-द्वेष संकल्पवाला होता है—यह प्राणी वैर-रहित, ध्यापाद (= द्रोह)-रहित प्रसन्न सुखी हो अपनेको धारण करें । (३) सम्यग्-दृष्टि = ठीक धारणावाला होता है—यज्ञ है, हवन है ०^२ ऐसे श्रमण ब्राह्मण हैं, ०^२ जतलायेंगे । इस प्रकार गृहपतियो ! तीन प्रकारका धर्माचरण ० होता है ।

“गृहपतियो ! इस प्रकार धर्माचरण = सम-आचरणके कारण कोई प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद सुगत, स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं ।

“गृहपतियो ! यदि धर्मचारी = समचारी इच्छा करे—‘अहो ! मैं काया छोड़ मरनेके बाद महाधनी क्षत्रिय हो उत्पन्न होऊँ’; यह हो सकता है, कि वह ० मरनेके बाद महाधनी क्षत्रिय हो उत्पन्न होवे । सो किस कारण ?—वह वैसा धर्माचरण करनेवाला है, सम-आचरण करनेवाला है । गृहपतियो ! यदि धर्मचारी इच्छा करे—‘अहो ! मैं ० महाधनी ब्राह्मण हो उत्पन्न होऊँ’; ० । ०-‘अहो मैं महाधनी गृहपति (= वैश्य) हो उत्पन्न होऊँ’; ० ।

“गृहपतियो ! यदि धर्मचारी ० इच्छा करे—‘अहो ! मैं ० चातुर्महाराजिक देवताओंमें उत्पन्न होऊँ’; ० । ० त्रायस्त्रिंश देवताओंमें ० । ० तुषित देवताओंमें ० । ० निर्माणरति देवताओंमें ० । ० परनिर्मित-चशवर्ती देवताओंमें ० । ० ब्रह्म-कायिक देवताओंमें ० । ० आभा देवताओंमें ० । ० परीत्ताभ देवताओंमें ० । ० अप्रमाणाभ देवताओंमें ० । ० आभस्वर देवताओंमें ० । ० शुभ देवताओंमें ० । ० परीत्त-शुभ देवताओंमें ० । ० अप्रमाण-शुभ देवताओंमें ० । ० शुभकृत्स्न देवताओंमें ० । ० बृहत्फल देवताओंमें ० । ० अविभ देवताओंमें ० । ० आतप्य देवताओंमें ० । ० सुदर्शन देवताओंमें ० । ० सुदर्शी देवताओंमें ० । ० अकनिष्ठक देवताओंमें ० । ० आकाशानन्त्यायतनके देवताओंमें ० । ० विज्ञानानन्त्यायतनके देवताओंमें ० ।

^१ देखो पृष्ठ १६९ (को अनंगीकारात्मक करके) ।

^२ पृष्ठ १६९ (निषेधको हटा कर) ।

० आर्किचन्यायतनके देवताओंमें ० । ० नैवसंज्ञानासंज्ञायतनके देवताओंमें ० ।

“गृहपतियो ! यदि धर्मचारी = समचारी इच्छा करे—‘अहो ! मैं आत्तवों (= चित्त-मलों)के क्षयसे आस्रव-रहित चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञाकी विमुक्तिका इसी जन्ममें स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरूँ । यह हो सकता है, कि वह आत्तवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरे । सो किस कारण ?—वह वैसा धर्मचारी = समचारी है ।”

ऐसा कहनेपर शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्यं मो गौतम ! आश्चर्यं मो गौतम ! जैसे औंधेको लीधा कर दे ०^१ यह हम भगवान् गौतमकी शरण जाते हैं, धर्म और मिश्र-संघकी भी । आजसे आप गौतम हमें अंजलियद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।

४२—वेरंजक-सुत्तन्त (१।५।२)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय वेरंजा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थ किसी कामसे श्रावस्तीमें रहते थे ।

वेरंजा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थोंने सुना—‘शाक्यकुलसे प्रव्रजित ०^१ एक ओर बैठे वेरंजा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थोंने भगवान्से यह कहा—

“मो गौतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद अपाय, दुर्गति, पतन, नर्कमें उत्पन्न होते हैं ? ०^२ आजसे आप गौतम हमें अंजलिबद्ध शरणागत उपासक समझें ।

^१ देखो पृष्ठ १६८ । ^२ देखो पृष्ठ १६८-७१ (४१ सालेय्यसुत्तन्तकी तरह) ।

४३—महा-वेदल्ल-सुत्तन्त (१।५।३)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनार्थपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् महाकोट्टिल (= कोट्टित) सायङ्काल प्रतिल्लयन (= एकान्त चिन्तन, ध्यान)से उठ जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रके साथ...यथा-योग्य संमोदन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् महाकोट्टितने आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—

“आवुस ! ‘दुःप्रज्ञ’ ‘दुःप्रज्ञ’ कहा जाता है, किस (कारण)से वह.....दुःप्रज्ञ कहा जाता है ?”

“चूँकि नहीं समझता, (= न प्रजानाति) इसलिये आवुस ! वह दुःप्रज्ञ कहा जाता है ।”

“क्या नहीं समझता ?”

“‘यह दुःख है’—इसे नहीं समझता; ‘यह दुःख-समुदय (= दुःखका कारण) है’—इसे नहीं समझता; ‘यह दुःख-निरोध है’—इसे नहीं समझता; ‘यह दुःख-निरोध-नामिनी प्रतिपद् (= मार्ग) है’—इसे नहीं समझता । नहीं समझता है, इसलिये आवुस ! वह दुःप्रज्ञ कहा जाता है ।”

“साधु, आवुस !”—(कह) आयुष्मान् महाकोट्टितने आयुष्मान् सारिपुत्रके मापणका अमिनन्दन कर अनुमोदन कर, आयुष्मान् सारिपुत्रसे आगेका प्रश्न पूछा—

“आवुस ! ‘प्रज्ञावान्’ ‘प्रज्ञावान्’ कहा जाता है, किस(कारण)से प्रज्ञावान् कहा जाता है ?”

“चूँकि वह समझता है (= प्रजानाति), इसलिये आवुस ! वह प्रज्ञावान् कहा जाता है ।”

“क्या समझता है ?”

“‘यह दुःख है’—इसे समझता है ० ; ० ‘यह दुःख-निरोध-नामिनी प्रतिपद् है’—इसे समझता है । समझता है, इसलिये आवुस ! वह प्रज्ञावान् कहा जाता है ।”

“आवुस ! ‘विज्ञान’ ‘विज्ञान’ कहा जाता है, किससे विज्ञान कहा जाता है ?”

“चूँकि आवुस ! (वह) जानता है (= विजानाति), इसलिये विज्ञान कहा जाता है ?”

“क्या जानता है ?”

“‘(यह) सुख है—(इसे) जानता है ; (यह) दुःख है—(इसे) जानता है ; (यह) न-सुख-न-दुःख है’—(इसे) जानता है । जानता है, इसलिये आवुस ! विज्ञान कहा जाता है ।”

“आवुस ! जो यह प्रज्ञा है, और यह जो विज्ञान, यह दोनों पदार्थ मिले-जुले (= संसृष्ट) हैं, या अलग अलग ? इन (दोनों) पदार्थों (= धर्मों)को विलग विलग कर उनका भेद जतलाया जा सकता है ?”

“आवुस ! यह जो प्रज्ञा है, और यह जो विज्ञान है, यह दोनों पदार्थ मिले जुले हैं, अलग अलग नहीं हैं; किन्तु इन (दोनों) पदार्थोंको विलग विलग कर उनका भेद नहीं जतलाया जा सकता ।”

“आवुस ! जो यह प्रज्ञा है, और जो यह विज्ञान है; इन (दोनों) मिले-जुले न-विलग पदार्थोंका क्या भेद है ?”

“आवुस ! ० इन दोनों ० पदार्थोंका यह भेद है—प्रज्ञा भावना (= मनोयोग) करने योग्य है, और विज्ञान परिज्ञेय (= ज्ञेय) है ।”

“आवुस ! ‘वेदना’ ‘वेदना’ कही जाती है; किस (कारण)से वेदना कही जाती है ?”

“चूँकि आवुस ! (यह) वेदन (= अनुभव) करती है, इसलिये वेदना कही जाती है ?”

“क्या वेदन करती है ?”

“सुखको भी वेदन करती है । दुःखको भी वेदन करती है, न दुःख-न सुखको भी वेदन करती है । वेदन करती है इसलिये ० ।”

“आवुस ! ‘संज्ञा’ ‘संज्ञा’ कही जाती है ; ० ?”

“चूँकि आवुस ! (यह) संजानन (= पहिचान) करती है, ० ।”

“क्या संजानन करती है ?”

“नीलेको भी संजानन करती है, पीलेको भी ०, लालको भी ०, सफेदको भी ० । संजानन करती है, इसलिये ० ।”

“आवुस ! जो संज्ञा है, जो वेदना है, और जो विज्ञान है; यह धर्म (= पदार्थ) मिले-जुले हैं, या अलग ? इन धर्मोंको विलग विलग कर इनका भेद जतलाया जा सकता है ?”

“आवुस ! ० यह (तीनों) धर्म मिले जुले हैं, विलग नहीं हैं । और इन (तीनों) पदार्थोंको विलग विलग करके उनका भेद नहीं जतलाया जा सकता ।”

“आवुस ! ० इन (तीनों) धर्मोंका क्या भेद है ?”

“आवुस ! जिसको वेदन^१ (= अनुभव) करता है, उसका संजानन करता है; उसका विजानन करता है । इसलिये यह धर्म मिले-जुले हैं, विलग नहीं; और उन्हें ० विलग करके, उनका भेद नहीं जतलाया जा सकता है ।”

“आवुस ! पाँच (चक्षु आदि वाह्य) इन्द्रियोंसे असंवद्ध शुद्ध मनो-विज्ञान द्वारा क्या विज्ञेय (= जानने योग्य) है ?”

^१ वस्तुके दुःखात्मक, सुखात्मक, न-दुःख-न-सुखात्मक मात्र अनुभवको वेदना कहते हैं, जैसे लड्डू-खाते वक्त उसका स्वाद मात्र जानना । वस्तु क्या है, इस परिचय-युक्त ज्ञानको संज्ञा कहते हैं; जैसे यह मूँगका लड्डू है, पीला है; इसके बाद यथार्थ ज्ञानकी अवस्था विज्ञान है । जो ज्ञान मार्गपर आरूढ़ करनेमें समर्थ होता है, वह प्रज्ञा है । उत्तर-उत्तरवाले पूर्व-पूर्वकी क्रियाके संपादक होते हैं । वेदना, संज्ञा, प्रज्ञा, अशफियोंकी राशिके पास बैठे बच्चे, गँवार और सराफकी तरह हैं । बच्चा अशफियोंके चित्र-विचित्र रूपहीको जानता है, गँवार उनके द्वारा कामकी चीजें खरीदनेके उपयोगको भी जानता है, किन्तु खरे खोटेकी बात नहीं जानता; सराफ सब जानता है ।

“आवुस ! ० शुद्ध मनोविज्ञान द्वारा ‘आकाश’ अनन्त है’—यह आकाश-आनन्त्य-आय-तन विज्ञेय है; ‘विज्ञान अनन्त है’—यह विज्ञान-आनन्त्य-आयतन विज्ञेय है; ‘कुछ नहीं है’ (= अ-किंचित्)—यह आकिंचन्य-आयतन विज्ञेय है ।”

“आवुस ! विज्ञेय धर्मों (= पदार्थों) को किससे प्रजानन करता (= अच्छी तरह जानता) है ?”

“आवुस ! विज्ञेय धर्मोंको प्रज्ञा-चक्षुसे प्रजानता है ।”

“आवुस ! प्रज्ञा किस लिये है ?”

“आवुस ! प्रज्ञा अभिज्ञाके लिये है, परिज्ञाके लिये है, प्रहाण (= त्याग)के लिये है ।”

“आवुस ! सम्यग्-दृष्टि (= ठीक धारणा)के ग्रहणमें कितने प्रत्यय (= हेतु) हैं ?”

“आवुस ! ० दो प्रत्यय होते हैं—(१) दूसरोंसे धोष (= उपदेश-श्रवण), और (२) योनिशः मनस्कार (= मूलपर विचार करना) । ० । यह दोनों ० ।”

“आवुस ! किन अंगोंसे युक्त होनेपर, सम्यग्-दृष्टि चेतो-विमुक्ति-फलवाली, तथा चेतो-विमुक्ति-फलके माहात्म्यवाली होती है; प्रज्ञा-विमुक्ति-फलवाली तथा प्रज्ञा-विमुक्ति-फलके माहात्म्यवाली होती है ?”

“आवुस ! पाँच अंगोंसे युक्त सम्यग्-दृष्टि ० माहात्म्यवाली होती है ।—यहाँ आवुस ! सम्यग्-दृष्टि (१) शील (= सदाचार)से युक्त होती है; (२) श्रुत (= धर्मोपदेश-श्रवण)से युक्त होती है; (३) साक्षात्कार (= साकच्छा = भावना आदिकी प्रक्रियाके जाननेके लिये अभिज्ञसे वार्तालाप) ०; (४) शमथ (= समाधि) ०; (५) विपश्यना (= परम-ज्ञान)से युक्त होती है । इन पाँच ० ।”

“आवुस ! भव कितने हैं ?”

“आवुस ! यह तीन भव (= लोक) हैं—काम-भव, रूप-भव, अरूप-भव ।”

“कैसे आवुस ! भविष्यमें पुनर्भव (= पुनर्जन्म) संपन्न होता है ?”

“आवुस ! अविद्या नीवरणों (= ढक्कों) वाले, तृष्णा (रूपी) संयोजनों (= बंधनों) वाले प्राणियोंकी वहाँ वहाँ अभिनन्दना (= लालसा) होती है; इस प्रकार आवुस ! भविष्यमें ० ।”

“आवुस ! प्रथम-ध्यान क्या है ?”

“आवुस ! यहाँ भिक्षु कामनाओंसे रहित घुराइयोंसे रहित, वितर्क-विचार-रहित, विरेकमे उत्पन्न प्रीतिसुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह आवुस ! प्रथम-ध्यान क्या जाता है ।”

“आवुस ! प्रथम-ध्यान किस अंगवाला है ?”

“आवुस ! प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंवाला है । आवुस ! प्रथम-ध्यान प्राप्त भिक्षुको वितर्क रहता है, विचार रहता है, प्रीति रहती है, सुख रहता है, और चित्तकी एकाग्रता रहती है । आवुस ! इस प्रकार प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंवाला है ।”

“आवुस ! प्रथम-ध्यान किन अंगोंसे विहीन और किन अंगोंसे युक्त है ?”

“आवुस ! प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंसे विहीन और पाँच अंगोंसे युक्त होता है । आवुस ! प्रथम-ध्यान-प्राप्त भिक्षुका कामच्छन्द (= विषयमें अनुराग) ग्रहीण (= चूट गया) होना है, व्यापाद (= द्रोह) ०, स्त्यान-मृद (= आलस्य) ०, औद्विग्न-कौकृत्य (= उद्वतपना-हिच-चिकाहट) ०, विचिकित्सा (= संशय) ग्रहीण होती है । वितर्क रहता है, विचार रहता है, प्रीति रहती है, सुख रहता है, चित्तकी एकाग्रता रहती है । ० ।”

“आवुस ! यह पाँच इन्द्रियाँ; जैसे कि—चक्षु-इन्द्रिय, श्रोत्र ०, घ्राण ०, जिह्वा ०, काय-इन्द्रिय—भिन्न भिन्न विषयोंवाली = भिन्न भिन्न गोचरोंवाली हैं; (यह) एक दूसरेके विषय = गोचरको नहीं ग्रहण कर सकती; आवुस ! भिन्न भिन्न विषयोंवाली ०, एक दूसरेके विषय = गोचरको न ग्रहण कर सकने वाली इन पाँच इन्द्रियोंका क्या प्रतिशरण (= आश्रय) है, इनके गोचर = विषयको कौन अनुभव करता है ?”

“आवुस ! इन पाँच ० इन्द्रियोंका प्रतिशरण मन है; मन इनके ० विषयको अनुभव करता है ।”

“आवुस ! यह चक्षु ० पाँच इन्द्रियाँ किसके प्रत्यय (= आश्रय)से स्थित हैं ?”

“आवुस ! यह ० पाँच इन्द्रियाँ आयुके आश्रयसे स्थित हैं ।”

“आवुस ! आयु किसके आश्रयसे स्थित है ?”

“आयु उष्मा (= उष्णता, शरीरकी गर्मी)के आश्रयसे स्थित है ।”

“आवुस ! उष्मा किसके आश्रयसे स्थित है ?”

“उष्मा आयुके आश्रयसे स्थित है ।”

“आवुस ! अमी हम आयुष्मान् सारिपुत्रके मापणको सुने हैं—‘आयु उष्माके आश्रयसे स्थित है’; अमी (फिर) हम आयुष्मान् सारिपुत्रके मापणको सुनते हैं—‘उष्मा आयुके आश्रयसे स्थित है’ । आवुस ! इस कथनका मतलब हमें कैसे समझना चाहिये ?”

“तो आवुस ! मैं तुम्हें उपमा देता हूँ; उपमासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष मापणका अर्थ समझ जाते हैं । आवुस ! जैसे जलते हुये तेलके दीपकमें, लौके सहारे प्रकाश दिखाई पड़ता है, प्रकाशके सहारे लौ दिखाई पड़ती है; ऐसे ही आवुस ! आयु उष्माके आश्रयसे स्थित है, उष्मा आयुके आश्रयसे स्थित है ।”

“आवुस ! वही आयु-संस्कार हैं, और वही वेदनीय (= अनुभवके विषय) धर्म (= पदार्थ) हैं; अथवा आयु-संस्कार दूसरे हैं, और वेदनीय-धर्म दूसरे हैं ?”

“आवुस ! आयु-संस्कार और वेदनीय-धर्म एक नहीं हैं; यदि आयु-संस्कार और वेदनीय-धर्म एक होते; तो संज्ञा-वेदित-निरोध (ध्यान)में अवस्थित भिक्षुका (वेदना-रहित अवस्थासे वेदनासहित अवस्थामें) उठना न होता । चूँकि आवुस ! आयु-संस्कार दूसरे हैं, और वेदनीय-धर्म दूसरे हैं, इसलिये संज्ञा-वेदित-निरोधमें अवस्थित भिक्षुका उठना होता है ।”

“आवुस ! कितने धर्म (= पदार्थ) इस कायाको छोड़ते हैं, जब कि यह छोड़ा फँका हुआ अचेतन (शरीर) काठकी भाँति सोता है ?”

“आवुस ! जब इस कायाको आयु, उष्मा और विज्ञान—यह तीन धर्म छोड़ते हैं; तो यह ० अचेतन काठकी भाँति सोता है ।”

“आवुस ! यह जो मरा हुआ = कालकृत है, और जो यह संज्ञा-वेदित-निरोध (ध्यान)-में अवस्थित भिक्षु है; इन दोनोंमें क्या भेद है ?”

“आवुस ! यह जो मरा हुआ = कालकृत है, इसके काय-संस्कार (= शारीरिक गति) निरुद्ध, शान्त हो गये होते हैं, उसके वाचिक संस्कार निरुद्ध, शान्त हो गये होते हैं, चित्त-संस्कार निरुद्ध शान्त हो गये रहते हैं; आयु क्षीण, उष्मा शान्त, इन्द्रियाँ उच्छिन्न हो गई रहती हैं । जो वह संज्ञा-वेदित-निरोधमें अवस्थित भिक्षु है, उसके भी काय-संस्कार (= कायिक क्रियायें), वाचिक-संस्कार, चित्त-संस्कार निरुद्ध और प्रतिप्रश्रब्ध होते हैं, किन्तु उसकी आयु क्षीण नहीं होती, उष्मा शान्त नहीं होती, इन्द्रियाँ विशेषतः प्रसन्न (= निर्मल) होती हैं । यह है आवुस ! ० (दोनों) का भेद ।”

“आवुस ! सुख-दुःख (दोनों)-रहित चेतो-विमुक्तिकी समापत्ति (= प्राप्ति)के कितने प्रत्यय (= आश्रय) हैं ?”

“आवुस ! चार हैं ० (जय) मिथु सुख और दुःखके परित्यागसे, सौमनस्य (= चित्तो-च्छास), और दौर्मनस्य (= चित्त संताप)के पहिलेही अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख रहित उपेक्षाने स्मृतिकी परिशुद्धि वाले चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह आवुस ! सुख-दुःख-रहित चेतोविमुक्ति समापत्तिके चार प्रत्यय हैं ।”

“आवुस ! आनिमित्त-चेतोविमुक्तिकी समापत्तिके लिये कितने प्रत्यय हैं ?”

“आवुस ! ० दो प्रत्यय हैं—(१) सारे निमित्तों (= रूप-आकृति आदि)का मनमें न करना; और (२) अ-निमित्त धातु (= लोक)का मनमें करना । यह आवुस ! ० ।”

“आवुस ! आनिमित्त-चेतोविमुक्तिकी स्थितिके लिये कितने प्रत्यय हैं ?”

“आवुस ! ० तीन प्रत्यय हैं—(१) सारे निमित्तोंको मनमें न करना; (२) अ-निमित्त धातुको मनमें करना; और (३) पूर्वका अभिसंस्कार (= संस्कार) । यह आवुस ! ० ।”

“आवुस ! आनिमित्त-चेतोविमुक्तिके उत्थानके कितने प्रत्यय हैं ?”

“आवुस ! ० दो प्रत्यय हैं—(१) सारे निमित्तोंको मनमें न करना; और (२) अनिमित्त-धातुको मनमें न करना । यह आवुस ! ० ।”

“आवुस ! जो यह अप्रमाणा चेतोविमुक्ति है, जो यह आर्किचन्या चेतो-विमुक्ति है, जो यह शून्यता चेतोविमुक्ति है, और जो यह आनिमित्त-चेतोविमुक्ति है; यह धर्म (= पदार्थ) नाना-अर्थ-वाले और नाना-व्यंजन-वाले हैं, अथवा एक-अर्थ-वाले किन्तु नाना-व्यंजन-वाले हैं ?”

“आवुस ! ० ऐसा मतलब (= पर्याय) है, जिससे यह (चारों) धर्म नाना-अर्थ-वाले, नाना-व्यंजन-वाले हैं; ऐसा मतलब भी है, जिससे कि यह एक-अर्थ-वाले हैं व्यंजन ही (इनका) नाना है । क्या है वह मतलब जिससे यह ० ?—आवुस ! (जय) मिथु (१) मैत्रीयुक्त चित्तमे एक दिशाको पूर्ण कर विहरता है, वैसे ही दूसरी दिशाको, वैसे ही तीसरी दिशाको, वैसे ही चौथी दिशाको, इस प्रकार ऊपर नीचे, आदे-वेदे, सबके विचारसे सबके अर्थ, विपुल, महान्, प्रमाण-रहित (= अति-विशाल), वैर-रहित, व्यापाद-रहित, मैत्री-युक्त चित्तसे सभी लोकको पूर्ण कर विहरता है । (२) कर्णायुक्त चित्तसे ० । (३) मुदिता-युक्त चित्तसे ० । (४) उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० । यह आवुस ! अप्रमाणा चेतोविमुक्ति कही जाती है ।

“क्या है आवुस ! आर्किचन्या चेतोविमुक्ति ?”—आवुस ! (जय) मिथु विज्ञान-आयतनको अतिक्रमण कर, ‘कुछ नहीं है’ (= अ-किंचन)—इस आर्किचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है; यह आवुस ! आर्किचन्या चेतोविमुक्ति है ।

क्या है आवुस ! शून्यता चेतोविमुक्ति ?—आवुस ! (जय) मिथु अरण्य, वृक्ष-टाया या शून्य-आगारमें रहते यह सोचता है—‘यह सभी (जगत्) आत्मा या आत्मीयने शून्य है’; यह आवुस ! ० । क्या है आवुस ! आनिमित्त चेतोविमुक्ति ? आवुस ! (जय) मिथु सभी निमित्तोंको मनमें न कर, अनिमित्त चित्तकी समाधिकी प्राप्त कर विहरता है; यह है आवुस ! ० । यह है आवुस ! मतलब, जिस मतलबसे यह धर्म नाना-अर्थ-वाले और नाना-व्यंजन-वाले हैं ।

“क्या है आवुस ! मतलब, जिस मतलबसे यह एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही (इनके) नाना हैं ?—आवुस ! राग, द्वेष, मोह (—यह तीनों) प्रमाण करनेवाले हैं; किन्तु क्षीणान्द्र (= चित्तमलोंसे मुक्त, अर्त्) मिथुके वह क्षीण हो गये, जड़ने उच्छिन्न हो गये हैं, मिर-पटे ताड़की तरह हो गये हैं, अभावको प्राप्त हो गये हैं, अविषयमें उत्पन्न होने योग्य नहीं रह गये हैं ।

आवुस ! जितनी अप्रमाणा चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या (चेतो-विमुक्ति) उनमें (सबसे) श्रेष्ठ है । अकोप्या चेतो-विमुक्ति राग-द्वेष-मोहसे शून्य है । आवुस ! राग किंचन है, द्वेष किंचन है, मोह किंचन है । वह (राग, द्वेष, मोह), क्षीणास्रव भिक्षुके क्षीण हो गये ० । आवुस ! जितनी आकिंचन्या चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविमुक्ति उनमें (सर्व-) श्रेष्ठ है । और वह अकोप्या चेतोविमुक्ति राग-द्वेष-मोहसे शून्य है । आवुस ! राग निमित्त-करण है, द्वेष निमित्त-करण है, मोह निमित्त-करण है । वह, क्षीणास्रव भिक्षुके क्षीण हो गये ० । आवुस ! जितनी अनिमित्ता चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविमुक्ति उनमें (सर्व -) श्रेष्ठ है । वह अकोप्या चेतोविमुक्ति राग-द्वेष-मोहसे शून्य है । आवुस ! यह मतलब (= पर्याय) है, जिस मतलबसे यह धर्म एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही (इनके) नाना हैं ।”

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा; सन्तुष्ट हो आयुष्मान् महाकोट्टितने आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणको अभिनन्दित किया ।

४४—चूल-वेदल्ल-सुत्तन्त (१।५।४)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें कलन्दकनिवाप वेणुवनमें विहार करते थे ।

तब उपासक विशाख जहाँ धम्मदिक्षा^१ भिक्षुणी थी, वहाँ गया, जाकर धम्मदिक्षा भिक्षुणीको अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे उपासक विशाखने धम्मदिक्षा भिक्षुणी को यह कहा—

“आर्ये (= अय्या) ! ‘सत्काय’ ‘सत्काय’ कहा जाता है; आर्ये ! भगवान्ने किने सत्काय कहा है ?”

“यह जो रूप उपादान-स्कंध, वेदना उपादान-स्कंध, संज्ञा उपादान-स्कंध, संस्कार-उपादान-स्कंध, विज्ञान उपादान-स्कंध हैं; आवुस विशाख ! इन्हीं पाँच उपादान-स्कंधों^१को भगवान्ने सत्काय कहा है ।”

“साधु, आर्ये !”—(कह) उपासक विशाखने धम्मदिक्षा भिक्षुणीके मापणको अभि-
नंदित कर = अनुमोदित कर; धम्मदिक्षा भिक्षुणीसे आगेका प्रश्न पूछा—

“अय्या ! ‘सत्काय-समुदय’, ‘सत्काय-समुदय’ कहा जाता है; अय्या ! भगवान्ने किने सत्काय-समुदय कहा है ?”

“आवुस विशाख ! जो यह सुख-संबंधी इच्छासे संयुक्त, उन उन (त्रिपयों)को अभिनन्दन करने वाली आवागमनकी तृष्णा है; जैसे कि काम-तृष्णा, मव (= जन्म)-तृष्णा, विमव-तृष्णा, आवुस विशाख ! इसी(तृष्णा)को भगवान्ने सत्काय-समुदय (= आत्मवादका कारण) कहा है ।”

“अय्या ! ‘सत्काय-निरोध’, ‘सत्काय-निरोध’ कहा जाता है । अय्या ! भगवान्ने किने सत्काय-निरोध (= आत्माके स्यालका नाश) कहा है ?”

“आवुस विशाख ! उसी तृष्णाका जो सम्पूर्णतया वैराग्य विनाश (= निरोध), त्याग=

^१ धम्मदिक्षा (= धर्मदत्ता) राजगृहके इसी विशाख सेठकी भार्या थी; पीछे पतिकी सम्मतिसे भिक्षुणी हो, एक बहुत ही प्रभावशालिनी धर्मोपदेष्ट्री हुई ।

^२ चराचर जगत्का उपादान-कारण रूप आदि पाँच स्कंधोंमें बँटा है । इनमें वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानकी ही अवस्था-विशेष होनेसे इन्हें रूप और विज्ञान दो स्कंधोंमें विभक्त किया जा सकता है । विज्ञान-को नाम भी कहते हैं । यह पाँच स्कंध जब व्यक्तियों लिये जाते हैं, तो इन्हें उपादान-स्कंध कहते हैं । इन स्कंधोंसे परे जीव या चेतन कोई पदार्थ नहीं । पाच उपादान-स्कंधोंमें बनी इस ‘कायामे सत्ता’ (= सत्काय) है आत्माकी—यद्यपि मिथ्याज्ञान होता है ।

प्रतिनिस्सर्ग, मुक्ति, अनालय (= अनासक्ति) है; आवुस विशाख ! इसे भगवान्ने सत्काय-निरोध कहा है ।”

“अय्या ! ‘सत्काय-निरोध गामिनी प्रतिपद्’, ‘सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद्’ कहा जाता है । अय्या ! भगवान्ने किसे सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद् (= आत्माके ब्यालके नाशकी ओर ले जानेवाला मार्ग) कहा है ?”

“आवुस विशाख ! भगवान्ने सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद् कहा है, इसी आर्य-अष्टांगिक-मार्ग^१को; जैसे कि—सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यग्-वचन, सम्यक्-कर्मान्त, सम्यग्-आजीव, सम्यग्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि ।”

“अय्या ! वही उपादान है, और वही उपादान-स्कंध है; अथवा उपादान पाँच उपादान स्कंधोंसे अलग है ?”

“आवुस विशाख ! न उपादान और पाँच उपादान-स्कंध एक हैं, न उपादान पाँच उपादान स्कंधोंसे अलग है । आवुस विशाख ! पाँच उपादान-स्कंधोंमें जो छन्द = राग है, वही वहाँ उपादान है ।”

“कैसे अय्या ! सत्काय-दृष्टि होती है ?”

“आवुस विशाख ! (जव) आर्योंके दर्शनसे वंचित, आर्य-धर्मसे अपरिचित, आर्य-धर्ममें अ-विनीत (= न पहुँचे); सत्पुरुषोंके दर्शनसे वंचित, सत्पुरुष-धर्मसे अपरिचित, सत्पुरुष-धर्ममें अ-विनीत, अज्ञ, अनाड़ी (= पृथग्जन) पुरुष रूपको आत्माके तौर पर देखता है, या रूपवान्को आत्मा, आत्मामें रूपको, रूपमें आत्माको (देखता है) । वेदनाको आत्माके तौर पर ० । संज्ञाको आत्माके तौर पर ० । संस्कारको आत्माके तौर पर ० । विज्ञानको आत्माके तौरपर ० । इस प्रकार आवुस विशाख ! ०।”

“क्या है अय्या ! आर्य अष्टांगिक मार्ग ?”

“आवुस विशाख ! आर्य अष्टांगिक मार्ग है यही—सम्यग्-दृष्टि^२ ।

“अय्या ! आर्य अष्टांगिक मार्ग संस्कृत (= कृत) है या अ-संस्कृत !”

“आवुस विशाख ! ० संस्कृत है ।”

“अय्या ! आर्य अष्टांगिक मार्गमें तीनों स्कंध संगृहीत हैं, या तीनों स्कंधोंमें आर्य अष्टांगिक मार्ग संगृहीत है ?”

“आवुस विशाख ! आर्य अष्टांगिक मार्गमें तीनों स्कंध संगृहीत नहीं हैं, (बल्कि) तीन स्कंधोंमें आर्य अष्टांगिक मार्ग संगृहीत है । आवुस विशाख ! जो सम्यग्-वचन, सम्यग्-आजीव और सम्यक्-कर्मान्त हैं, वह...शौल-स्कंधमें संगृहीत हैं । जो सम्यग्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति, और सम्यक्-समाधि है, वह...समाधि-स्कंधमें संगृहीत हैं । जो सम्यग्-दृष्टि और सम्यक्-संकल्प हैं, वह...प्रज्ञा-स्कंधमें संगृहीत हैं ।”

“अय्या ! क्या है समाधि, क्या है समाधि-निमित्त, क्या है समाधि-परिष्कार, और क्या है समाधि-भावना ?”

“आवुस विशाख ! जो चित्तकी एकाग्रता है, वही समाधि है । चार स्मृति-प्रस्थान^३ ० समाधि - निमित्त (= ० चिह्न) हैं । चार सम्यक्-प्रधान समाधिके परिष्कार हैं । जो उन्हीं

^१ इसके अर्थके लिये देखो सतिपट्टान-सुत्त (३५-४०)

^२ देखो पृष्ठ ३१ ।

^३ देखो सतिपट्टान-सुत्त, पृष्ठ ३५-४० ।

धर्मों (= पदार्थों) का सेवन करना = भावना करना, यद्गाना, यही समाधि भावना है।”

“अथ्या ! संस्कार कितने हैं ?”

“आबुस विशाख ! यह तीन संस्कार हैं—काय-संस्कार (= कायिक गति या क्रिया) वचन-संस्कार, चित्त-संस्कार।”

“अथ्या ! क्या है काय-संस्कार, क्या है वचन-संस्कार, क्या है चित्त-संस्कार ?”

“आबुस विशाख ! आश्वास-प्रश्वास काय-संस्कार हैं, वितर्क-विचार वचन-संस्कार हैं, संज्ञा और वेदना चित्त-संस्कार हैं।”

“क्यों अथ्या ! आश्वास-प्रश्वास काय-संस्कार हैं ? क्यों वितर्क-विचार वचन-संस्कार हैं ? क्यों वेदना, संज्ञा चित्त-संस्कार हैं ?”

“आबुस विशाख ! आश्वास-प्रश्वास (= साँस लेना छोड़ना) यह कायाने संयुद्ध कायिक धर्म (= क्रियायें) हैं; इसलिये आश्वास-प्रश्वास काय-संस्कार हैं। आबुस विशाख ! पहिले वितर्क करके विचारकरके पीले वचन निकालता है; इसलिये वितर्क-विचार वचन-संस्कार हैं। आबुस विशाख ! संज्ञा और वेदना चित्तसे संयुद्ध चेतनिक धर्म हैं; इसलिये संज्ञा और वेदना चित्त-संस्कार हैं।”

“अथ्या ! कैसे संज्ञा वेदित-निरोध समापत्ति होती है ?

“आबुस विशाख ! संज्ञा-वेदित-निरोध को समापन्न (= प्राप्त) हुये भिक्षुको यह नहीं होता—‘मैं संज्ञा-वेदित-निरोधको समापन्न होऊँगा’, ‘मैं संज्ञा-वेदित-निरोधको समापन्न हो रहा हूँ’ या ‘मैं संज्ञा-वेदित-निरोध को समापन्न हुवा’। वल्कि उसका चित्त पहिलेहीसे इस प्रकार भावित (= अभ्यस्त) होता है, कि वह उस स्थितिको पहुँच जाता है।”

“अथ्या ! जो संज्ञा-वेदित-निरोधमें समापन्न हुआ है, उसके कौनसे धर्म पहिले निरुद्ध (= रुद्ध) होते हैं—क्या काय-संस्कार या वचन-संस्कार या चित्त-संस्कार ?”

“आबुस विशाख ! ० समापन्न हुये भिक्षुका पहिले वचन-संस्कार निरुद्ध होता है, फिर काय-संस्कार, तब चित्त-संस्कार।”

“अथ्या ! संज्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उट्टान (= उठना) कैसे होता है ?”

“आबुस विशाख ! संज्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उट्टान करते भिक्षुको यह नहीं होता—‘मैं संज्ञा ० से उटूँगा’, या ‘मैं ० उठ रहा हूँ’, या ‘मैं ० उठा’। वल्कि उसका चित्त पहिलेहीसे इस प्रकार भावित होता है, कि वह उस स्थितिको पहुँच जाता है।”

“अथ्या ! संज्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उठते हुये भिक्षुको कौनसे धर्म पहिले उत्पन्न होते हैं—क्या काय-संस्कार, या वचन-संस्कार या चित्त-संस्कार ?”

“आबुस विशाख ! ० उठते हुये भिक्षुको पहिले चित्त-संस्कार उत्पन्न होता है, फिर काय-संस्कार तब वचन-संस्कार।”

“अथ्या ! संज्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उठे भिक्षुको कितने स्पर्श स्पर्श करते हैं ?”

“० तीन स्पर्श स्पर्श करते हैं—शून्यता-स्पर्श, अनिमित्त-स्पर्श, और उपप्रणिहित (= अदृढ)-स्पर्श।”

“अथ्या ! ०से उठे भिक्षुका चित्त किधर निम्न=किधर प्रवण,=किधर झुका (= प्राग्मार-पहाड) होता है ?”

“० का चित्त विवेक (= एकान्त चिन्तन) की ओर निम्न,=विवेक-प्रवण=विवेक-प्राग्मार होता है।”

“अय्या ! कितनी वेदनायें हैं ?”

“आवुस विशाख ! यह तीन वेदनायें हैं—सुखा (= सुखमय) वेदना, दुःखा वेदना, और अदुःख-असुखा वेदना ।”

“अय्या ! क्या सुखा वेदना है, क्या दुःखा वेदना है, और क्या अदुःख-असुखा वेदना है ?”

“आवुस विशाख ! जो कोई कायिक या मानसिक अनुभव (= वेदित, वेदयित) सात (= अनुकूल), सुखमय प्रतीत होता है; वह सुखा वेदना है ।...जो कायिक या मानसिक अनुभव असात (= प्रतिकूल), दुःखमय प्रतीत होता है; वह दुःखा वेदना है ।...और जो कायिक या मानसिक अनुभव न सात न असात प्रतीत होता है; वह अदुःख-असुखा वेदना है ।”

“अय्या ! सुखा वेदना क्या सुखा है, क्या दुःखा है ? दुःखा वेदना क्या सुखा है, क्या दुःखा है ? अदुःख-असुखा वेदना क्या सुखा है, क्या दुःखा है ?”

“आवुस विशाख ! सुखा वेदना रहते वक्त (= स्थिति) सुखा है, परिणाममें दुःखा है । दुःखा वेदना रहते वक्त दुःखा है, परिणाममें सुखा है । अदुःख-असुखा वेदना ज्ञानमें सुखा है, अज्ञानमें दुःखा है ।”

“अय्या ! सुखा वेदनामें कौन अनुशय (= चित्त-मल) चिपटता है ? दुःखा वेदनामें कौन अनुशय चिपटता है ? अदुःख-असुखा वेदनामें कौन अनुशय चिपटता है ?”

“आवुस विशाख ! सुखा वेदनामें राग-अनुशय चिपटता है; दुःखा वेदनामें प्रतिघ (= प्रतिहिंसा)-अनुशय चिपटता है; अदुःख-असुखा वेदनामें अविद्या-अनुशय चिपटता है ।”

“अय्या ! क्या सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अनुशय चिपटता है ? क्या सभी दुःखा-वेदनाओंमें प्रतिघ-अनुशय चिपटता है ? क्या सभी अदुःख-असुखा वेदनाओंमें अविद्या-अनुशय चिपटता है ?”

“आवुस विशाख ! सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अनुशय नहीं चिपटता, न सभी दुःखा वेदनाओंमें प्रतिघ-अनुशय चिपटता है, और न सभी अदुःख-असुखा वेदनाओंमें अविद्या-अनुशय चिपटता है ।”

“अय्या ! सुखा वेदनामें क्या प्रहातव्य (= त्याज्य) है ? दुःखा वेदनामें क्या प्रहातव्य है ? अदुःख-असुखा वेदनामें क्या प्रहातव्य है ?”

“आवुस विशाख ! सुखा वेदनामें राग-अनुशय प्रहातव्य है, दुःखा वेदनामें प्रतिघ-अनुशय, अदुःख-असुखा वेदनामें अविद्या-अनुशय प्रहातव्य है ।”

“अय्या ! क्या सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अनुशय प्रहातव्य है ? ० प्रतिघ-अनुशय प्रहातव्य है ? ० अविद्या-अनुशय प्रहातव्य है ?”

“आवुस विशाख ! सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अनुशय प्रहातव्य नहीं है, ० प्रतिघ-अनुशय प्रहातव्य नहीं, सभी अदुःख-असुखा वेदनाओंमें अविद्या-अनुशय प्रहातव्य नहीं है । आवुस विशाख ! (जव) भिक्षु कामनाओंसे रहित, बुराइयोंसे रहित, विवेकसे उत्पन्न वितर्क-विचार-सहित, प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उस (ध्यान)से वह रागको छोड़ता है; वहाँ राग-अनुशय नहीं चिपटता । (जव) आवुस विशाख ! भिक्षु ऐसा सोचता है—कैसे उस आयतन (= स्थान)को प्राप्त हो विहरूँगा, जिस आयतनको प्राप्तकर आर्य (लोग) इस समय विहर रहे हैं; इस प्रकार अनुत्तर (= उत्तम) विमोक्षोंमें स्पृहा उपस्थित करने पर स्पृहाके कारण दौर्मनस्य उत्पन्न होता है, उससे (वह) प्रतिघको छोड़ता है; वहाँ प्रतिघ-अनुशय नहीं चिपटता । आवुस विशाख ! (जव) भिक्षु सुख और दुःखके परित्यागसे, सौमनस्य

और दौर्भनस्य (= चित्त-संताप)के अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित, उपेक्षा द्वारा स्मृति की परिशुद्धिवाले चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है; इससे वह अविद्याको छोड़ता है; उसमें अविद्या-अनुशय नहीं चिपटता ।”

“अध्या ! सुखा वेदनाका क्या प्रतिभाग (= विपक्षी) है ?”

“० दुःख-वेदना प्रतिभाग है ।”

“अध्या ! दुःखा वेदनाका क्या प्रतिभाग है ?”

“० सुखा वेदना प्रतिभाग है ।”

“अध्या ! अदुःख-असुखा वेदनाका क्या प्रतिभाग (= सपक्षी) है ?”

“० अविद्या प्रतिभाग है ।”

“० अध्या ! अविद्याका क्या प्रतिभाग है ?”

“० विद्या ० ।”

“अध्या ! विद्याका क्या प्रतिभाग (= सपक्षी) है ?”

“० विमुक्ति ० ।”

“अध्या ! विमुक्तिका क्या प्रतिभाग (= सपक्षी) है ?”

“० निर्वाण ० ।”

“अध्या ! निर्वाणका क्या प्रतिभाग है ?”

“आवुस विशाख ! तुम प्रश्नको अतिक्रमण कर गये । प्रश्नोंके पर्यन्त (= सीमा,)को नहीं पकड़ रख सके । आवुस विशाख ! ब्रह्मचर्य निर्वाणपर्यन्त है, निर्वाण-परायण है = निर्वाण-पर्यवसान है । आवुस विशाख ! यदि चाहो तो भगवान्से जाकर इस प्रश्नको पूछो, जैसा तुम्हें भगवान् कहें, वैसा धारण करना ।”

तब उपासक विशाख धम्मदिस्सा भिक्षुणीके मापणको अभिनन्दित कर अनुमोदित कर, आसनसे उठ धम्मदिस्सा भिक्षुणीको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे उपासक विशाखने जो कुछ धम्मदिस्सा भिक्षुणीके साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब भगवान्से कह दिया । ऐसा करने पर भगवान्ने उपासक विशाखसे यह कहा—

“विशाख ! धम्मदिस्सा भिक्षुणी पंडिता है । विशाख ! धम्मदिस्सा भिक्षुणी महाप्रज्ञा है । विशाख ! यदि तुम मुझे भी इस बातको पूछते, तो मैं भी ऐसे ही उत्तर देता, जैसे कि धम्मदिस्सा भिक्षुणीने उत्तर दिया । यही इसका अर्थ है । इसी तरह इसे धारण करो ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उपासक विशाखने भगवान्के मापणको अभिनन्दित किया ।

४५—चूल-धम्मसमादान-सुत्तन्त (१।५।५)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त ! (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! यह चार धर्मसमादान (= धर्मकी स्वीकृतियाँ) हैं ।

कौनसे चार ?—भिक्षुओ ! (१) एक धर्मसमादान वर्तमानमें सुखद किन्तु भविष्यमें दुःख-विपाक वाला होता है ।... (२) वर्तमानमें भी दुःखद और भविष्यमें भी दुःखद होता है ।... (३) वर्तमानमें दुःखद, भविष्यमें सुखद होता है ।... (४) वर्तमानमें भी सुखद और भविष्यमें भी सुखद होता है ।

(१) “भिक्षुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें सुखद, (किन्तु) भविष्यमें दुःखद होता है ?—भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वादके माननेवाले इस दृष्टि (= धारणा) वाले होते हैं—‘काम (= विषय)में कोई दोष नहीं ।’ वह कामोंमें पतित होते हैं । वह भौलि (= जूडा)-बद्ध परिव्राजिका (= साधुनी स्त्रियों)का सेवन करते हैं । वह कहते हैं—‘क्यों वह श्रमण ब्राह्मण कामोंके विषयमें भविष्यका भय देख कामोंके छोड़नेको कहते हैं, कामोंकी परिज्ञा (= परित्याग)को कहते हैं । इस तरुण, मृदुल, लोमश परिव्राजिकाका बाँहसे स्पर्श (तो) सुखमय है’—और कामोंमें पतित होते हैं । वह कामोंमें पतित हो, काया छोड़ मरनेके वाद अपाय = दुर्गति, विनिपात = नरकमें उत्पन्न होते हैं । वह वहाँ दुःखमय, तीव्र, कटु वेदनाओंको झेलते हैं । (तब) वह यह कहते हैं—‘वह आप श्रमण ब्राह्मण कामोंमें इसी भविष्यके भयको देख कामोंके ग्रहाणको कहते थे, कामोंकी परिज्ञा (= त्याग)को कहते थे । यह हम कामोंके हेतु, कामोंके कारण दुःखमय, तीव्र कटु वेदना झेल रहे हैं ।’ जैसे भिक्षुओ ! ग्रीष्मके अन्तिम-मासमें मालुवा (लता)का पका फल गिर पड़े । और भिक्षुओ ! वह मालुवाका बीज किसी शाल (= साखू)के वृक्षके नीचे पड़े । तब भिक्षुओ ! जो शाल वृक्ष पर रहनेवाला देवता है, वह भयभीत, उद्भिन्न हो संत्रासको प्राप्त होवे । तब उस शालवृक्ष पर रहनेवाले देवताके मित्र अमात्य, जाति-बिरादरीवाले आराम-देवता, वन-देवता, वृक्ष-देवता, औषधि-नृण-वनस्पतियोंमें बसनेवाले देवता आकर जमा हो उसे इस प्रकार आश्वासन दें—‘आप मत डरें, क्या जाने इस मालुवाके बीजको मोर निगल जाये, या मृग खा जाये, या जंगलकी आगसे जल जाये, या वनमें कामकरनेवाले उठाले-जायें; या विचरनेवाले खा जायें, या बिना बीजकी होवे । तब भिक्षुओ ! उस मालुवाके बीजको न मोर निगले, न मृगखाये ० न विचरनेवाले खायें, और उसको बीज होवे । वह वर्षा कालीन मेघसे सिक्तहो अच्छी प्रकार उगे । उस (वृक्ष)पर तरुण, मृदुल, लोमश मालुवा लता विलिखित होवे । वह

उस शालको लपेट ले । तब मिश्रुओ ! उस शालपर बसनेवाले देवताको ऐसा हो । क्यों उन (मेरे) मित्र-अभारथ्य ० देवताओंने आकर जमा हो मुझे इस प्रकार आश्वासन दिया—आप मत डरें ० । इस तरुण, मृदुल, लोमचा, विलंबिनी मालुवा लताका स्पर्श (तो) सुखमय है ।—वह (लता) उस शालको पकड़े । पकड़कर ऊपर छत्ता बनावे । ऊपर छत्ता बनाकर नीचे घना करे । नीचे घनाकर उस शालके बड़े बड़े स्तम्भोंको प्रद्वारित करे । तब उस शालपर रहनेवाले देवताको ऐसा हो—उन (मेरे) मित्र-अभारथ्य ० देवताओंने आकर मुझे इस प्रकार आश्वासन दिया—आप मत डरें ० । और मैं अब उस मालुवा-बीजके कारण दुःखमय, तीव्र, कटु वेदनाओंको झेल रहा हूँ । ऐसे ही मिश्रुओ ! वह श्रमण-ब्राह्मण इस वादके माननेवाले १ झेल रहे हैं । मिश्रुओ ! यह वर्तमानमें सुखमय, भविष्यमें दुःखमय धर्मसमादान कहा जाता है ।

(२) “मिश्रुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें भी दुःखमय और भविष्यमें भी दुःखमय है ?—मिश्रुओ ! यहाँ कोई अचेलक (= नंगा साधु) होता है ० २ शामको जलशयनके व्यापारमें लज्ज होता है, वह कायाको छोड़ मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । मिश्रुओ ! यह कहा जाता है वर्तमानमें भी दुःखद, और भविष्यमें भी दुःखद धर्मसमादान ।

(३) “मिश्रुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें दुःखद, (किन्तु) भविष्यमें सुखमय है ?—मिश्रुओ ! यहाँ कोई (पुरुष) स्वभावसे ही तीव्र रागवाला होता है, वह निरन्तर रागसे उत्पन्न दुःख, दौर्जनस्यको झेलता रहता है । स्वभावसे ही तीव्र द्वेषवाला होता है ० । स्वभावसे ही तीव्र मोहवाला होता है, वह निरन्तर मोहसे उत्पन्न दुःख दौर्जनस्यको झेलता रहता है । यह दुःख = दौर्जनस्यके साथ भी अशुसुख, रदन करते परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका आचरण करता है । वह काया छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होता है । मिश्रुओ ! यह कहा जाता है ० ।

(४) “मिश्रुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें भी सुखद है, भविष्यमें भी सुखमय है ?—मिश्रुओ ! यहाँ कोई (पुरुष) स्वभावसे ही तीव्र रागवाला नहीं होता, वह निरन्तर रागसे उत्पन्न दुःख दौर्जनस्यको नहीं अनुभव करता । ० तीव्र द्वेषवाला नहीं होता ० । ० तीव्र मोहवाला नहीं होता ० । वह ० ३ प्रथम-ध्यान ० द्वितीय-ध्यान ० तृतीय-ध्यान ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्तो विहरता है । वह काया छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होता है । मिश्रुओ ! यह वर्तमानमें भी सुखद, भविष्यमें भी सुखमय धर्मसमादान कहा जाता है । मिश्रुओ ! यह चार धर्म-समादान हैं ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिश्रुओंने भगवान्के भाषणको धमिनन्दित किया ।

४६—महा-धम्मसमादान-सुत्तन्त (१।५।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथापिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“मदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! अधिकतर प्राणी इस प्रकारकी कामनावाले, इस प्रकारकी इच्छावाले, इस प्रकारके अभिप्रायवाले होते हैं—‘अहो ! अनिष्ट = अकान्त = अमनाप धर्म (= पदार्थ) क्षीण हो जायें । इष्ट = कान्त = मनाप धर्म वृद्धिको प्राप्त होवें’ । भिक्षुओ ! इस प्रकारकी कामनावाले ० उन प्राणियोंके अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं; इष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं । वहाँ भिक्षुओ ! तुम्हें क्या हेतु जान पड़ता है ?”

“मन्ते ! हमारे धर्मके भगवान् ही मूल हैं, भगवान् ही नेता हैं, भगवान् ही प्रतिशरण हैं । अच्छा हो मन्ते ! भगवान् ही इस भाषणका अर्थ कहें, भगवान्से सुनकर भिक्षु उसे धारण करेंगे ।”

“तो भिक्षुओ ! सुनो, अच्छी प्रकार मनमें धारण करो कहता हूँ ।”

“अच्छा, मन्ते !” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“यहाँ भिक्षुओ ! आर्योंके दर्शनसे वंचित ०^१ अज्ञ, अनादी जन, सेवन करने योग्य धर्मोंको नहीं जानता, अ-सेवन करने योग्य धर्मोंको नहीं जानता; मजनीय (= सेवनीय) धर्मोंको नहीं जानता, अ-मजनीय धर्मोंको नहीं जानता । वह सेवनीय धर्मोंको न जानते ० असेवनीय धर्मोंका सेवन करता है, सेवनीय धर्मोंको सेवन नहीं करता ० । असेवनीय धर्मोंको सेवन करते, सेवनीय धर्मोंको न सेवन करते ० उसके अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं, इष्ट ० क्षीण होते हैं । सो किस हेतु ?—भिक्षुओ ! उस अज्ञको यह ऐसा ही होता है ।

“भिक्षुओ ! आर्योंके दर्शनको प्राप्त ०^२ बहुश्रुत आर्यश्रावक सेवनीय धर्मोंको जानता है, असेवनीय धर्मोंको जानता है ० । ० जानते हुये असेवनीय धर्मोंको सेवन नहीं करता, सेवनीय धर्मोंको सेवन करता है ० । ० । सेवन करते ० अनिष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं, इष्ट ० धर्म वृद्धिको प्राप्त होते हैं । सो किस हेतु ?—भिक्षुओ ! उस अज्ञको ऐसा ही होता है ।

“भिक्षुओ ! यह चार धर्म-समादान हैं । कौनसे चार ?—(१) वर्तमानमें दुःखद, भविष्यमें भी दुःखद धर्मसमादान; (२) वर्तमानमें सुखद, भविष्यमें दुःखद; (३) वर्तमानमें दुःखद, भविष्यमें सुखद; (४) वर्तमानमें सुखद, भविष्यमें भी सुखद ।

^१ देखो पृष्ठ ३ ।

^२ देखो पृष्ठ ७ ।

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह वर्तमानमें दुःखद, भविष्यमें भी दुःखद धर्मसमादान है, उसे अविद्यामें पढा अविद्वान् ठीकसे नहीं जानता, कि यह धर्मसमादान वर्तमानमें दुःखद ० । अविद्यामें पढा अविद्वान् उसे ठीकसे न जानते हुये उसका सेवन करता है, उसे छोड़ता नहीं । उने सेवन करते, उसको न छोड़ते हुये उस (पुरुष)के अनिष्ट ० धर्म यढ़ते हैं, इष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं । सो किस हेतु ?—अज्ञको ऐसा ही होता है ।

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो वह वर्तमानमें सुखद, भविष्यमें दुःखद धर्मसमादान है, उसे अविद्या में पढा अविद्वान् ठीकसे नहीं जानता ० ।

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह वर्तमानमें दुःखद, भविष्यमें सुखद, धर्मसमादान है, उने अविद्यामें पढा अविद्वान् ठीकसे नहीं जानता ० ।

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह वर्तमानमें सुखद, भविष्यमें भी सुखद धर्म-समादान है, उसे अविद्यामें पढा अविद्वान् ठीकसे नहीं जानता ० । उसका सेवन नहीं करता, उसे छोड़ता है । ० ।

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह वर्तमानमें दुःखद, भविष्यमें भी दुःखद धर्म-समादान है, उने विद्यायुक्त विद्वान् ठीकसे जानता है, कि यह ० । विद्यायुक्त विद्वान् उसे ठीकसे जानते हुये उसका सेवन नहीं करता, उसे छोड़ता है । उसे सेवन न करते, उसको छोड़ते हुये, उस के अनिष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं, इष्ट ० धर्म यढ़ते हैं । सो किस हेतु ?—विद्वान्को ऐसा ही होता है ।

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह वर्तमानमें सुखद, भविष्यमें दुःखद धर्मसमादान है, उसे विद्या-युक्त विद्वान् ठीकसे जानता है, कि यह ० । ० ।

“ ० जो यह वर्तमानमें दुःखद, भविष्यमें सुख ० । ० ।

“ ० जो यह वर्तमानमें सुखद, धर्मसमादान है, उसे विद्यायुक्त विद्वान् ठीकसे जानता है, कि यह ० । ० उसका सेवन करता है, छोड़ता नहीं । उसे सेवन करते, उसे न छोड़ते हुये, उस (पुरुष)के अनिष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं, इष्ट ० धर्म यढ़ते हैं । सो किस हेतु ?—विद्वान्को ऐसा ही होता है ।

“भिक्षुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें दुःखद, भविष्यमें भी दुःखद है ?—(जय) भिक्षुओ ! कोई (पुरुष) दुःखके साथ भी, दौर्मनस्यके साथ भी प्राणातिपाती (= हिंसक) होता है । प्राणातिपात (= हिंसा)के कारण दुःख=दौर्मनस्यको श्लेष्ता है । दुःख दौर्मनस्यके साथ भी अदिन्नादायी (= चोरी करनेवाला) होता है । अदिन्नादान (= चोरी करने)के कारण दुःख दौर्मनस्य भी श्लेष्ता है । ० काम-भिष्याचारी (= व्यभिचारी) ० । ० सृपावादी ० । ० सुगुलदोर ० । ० परुप-भापी ० । ० प्रलापी ० । ० अमिध्यालु (= लोभी) ० । ० व्यापन्न-चित्त (= द्वेषी) ० । ० मिथ्या-दृष्टि (= झूठी धारणा वाला) ० । वह काया छोड़ भरनेके घाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । भिक्षुओ ! यह वर्तमानमें दुःखद भविष्यमें दुःखद धर्मसमादान कहा जाता है ।

“भिक्षुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें सुखद भविष्यमें दुःखद होता है ?—(जय) कोई (पुरुष) दुःख दौर्मनस्यके साथ भी प्राणातिपाती होता है । ० । ० ।

“ ० धर्मसमादान (= धर्मस्वीकार, विचार-स्वीकार) वर्तमानमें दुःखद भविष्यमें सुखद है ? ० । ० ।

“ ० धर्मसमादान वर्तमानमें सुखद, भविष्यमें भी सुखद होता है ?—(जय) भिक्षुओ ! कोई (पुरुष) सुख=दौर्मनस्यके साथ भी प्राणातिपातसे विरत होता है । प्राणातिपातसे विरत

होनेके कारण सुख सौमनस्यको अनुभव करता है । ० अदिन्नादान ० । ० । ० मिथ्या-दृष्टि ० । वह काया छोड़ मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है । भिक्षुओ ! यह वर्तमानमें भी सुखद भविष्यमें भी सुखद धर्मसमादान कहा जाता है ।

“जैसे भिक्षुओ ! विपसे लिप्त कड़वा लौका हो, तब कोई जीवनकी इच्छा वाला, मरनेकी इच्छा न रखनेवाला, सुखेच्छुक, दुःखानिच्छुक पुरुष आवे । उसे (लोग) यह कहें—‘हे पुरुष ! यह विपसे लिप्त कड़वा लौका है, यदि इच्छा हो तो पीओ । उसे पीते वक्त भी वह तुम्हें वर्ण-गंध-रसमें अच्छा न लगेगा । पीनेके बाद मृत्यु को प्राप्त होगा, या मृत्यु-तुल्य दुःखको’ । यदि वह बिना सोचे विचारे उसे पिये, छोड़े नहीं; तो उसे पीते वक्त ० मृत्यु-तुल्य दुःखको । भिक्षुओ ! वर्तमानमें दुःखद, भविष्यमें भी दुःखद धर्मसमादानको उस (लौके)के समान कहता हूँ ।

“जैसे, भिक्षुओ ! (सुंदर) वर्ण-रस-गंध युक्त आवखोरा (= आपानीय कांत्य) हो, और वह विपसे संलिप्त हो । तब कोई जीवनकी इच्छावाला ० पुरुष आवे । ० । उसे पीते वक्त वह वर्ण-गंध-रसमें अच्छा लगेगा; (किन्तु) पीनेके बाद वह मृत्युको प्राप्त होगा, या मृत्यु-तुल्य दुःख को । ० । भिक्षुओ ! वर्तमानमें सुखद और भविष्यमें दुःखद धर्मसमादानको मैं उस (आवखोरे)के समान कहता हूँ ।

“जैसे, भिक्षुओ ! नाना औषधियोंसे मिश्रित गोमूत्र (= पूति-मुत्त) हो । तब (कोई) पांडुरोगी पुरुष आवे । उसको ऐसे कहें—‘हे पुरुष ! यह नाना औषधियोंसे मिश्रित गोमूत्र है; यदि चाहो तो पीओ । तुम्हें पीते वक्त यह वर्ण-गंध-रसमें अच्छा न लगेगा; (किन्तु) पीनेके बाद तुम सुखी (= निरोग) होगे’ । वह सोच विचारकर उसे पिये, छोड़े नहीं । ० । भिक्षुओ ! वर्तमानमें दुःखद और भविष्यमें सुखद धर्मसमादानको मैं उस (गोमूत्र)के समान कहता हूँ ।

“जैसे, भिक्षुओ ! दही, मधु, घी, खाँड (= फाणित) एकमें मिला हो । तब (कोई) लोहू गिरनेवाला (= अतिसारका रोगी) पुरुष आवे । उसको ऐसा कहें—‘हे पुरुष ! यह एकमें मिला दही, मधु, घी, खाँड हैं; यदि चाहो तो पीओ । पीते वक्त यह वर्ण-गंध-रसमें अच्छा लगेगा पीनेके बाद (भी) तुम सुखी होगे । ० । भिक्षुओ ! वर्तमानमें भी सुखद और भविष्यमें सुखद धर्मसमादानको मैं उस मिश्रित दधि-मधु-सर्पिष्-फाणितके समान कहता हूँ ।

“जैसे, भिक्षुओ ! वर्षाके अन्तिममासमें शरद्-कालके समय मेघरहित नभमें चमकता हुआ सूर्य सारे आकाशके अंधकारको ध्वस्तकर प्रकाशे, तपे, और भाले; ऐसेही भिक्षुओ ! यह वर्तमानमें भी सुखद और भविष्यमें भी सुखद धर्मसमादान, अन्य सारे श्रमण-ब्राह्मणोंके प्रवाद (= मत) को ध्वस्तकर प्रकाशता है, तपता है, मासता है ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के मापणको अभिनंदित किया ।

४७—वीमंसक-सुत्तन्त (१।५।७)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“मदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर किया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! दूसरेके चित्तकी बात न जाननेवाले वीमंसक (= सीमांसक = विमर्शक = सत्यासत्य-परीक्षक) भिक्षुको सम्यक्-संबुद्ध (= यथार्थ ज्ञानी) है या नहीं यह जाननेके लिये तथागत (= लोकगुरु)के विषय में समन्वेषण (= तहकीकात) करना चाहिये ।”

“साधु, भन्ते ! हमारे धर्मके भगवान् ही मूल हैं ०^१ भगवान्से सुनकर भिक्षु उसे धारण करेंगे ।”

“तो भिक्षुओ ! सुनो, अच्छी प्रकार मनमें धारण करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ० विमर्शक भिक्षुको तथागत के विषयमें चक्षु-श्रोत्र द्वारा जानने योग्य (= विज्ञेय) धर्मों (= बातों)के संबंधमें जाँच करनी चाहिये—जो चक्षु-श्रोत्र-विज्ञेय मलिन धर्म (= पाप) हैं, वह (इस) तथागतके हैं, या नहीं ? उसकी जाँच करते हुये (जब) वह यह देखता है—चक्षु-श्रोत्र-विज्ञेय मलिन धर्म तथागतमें नहीं हैं ।...तब आगे जाँच करता है—जो चक्षु-श्रोत्र-विज्ञेय व्यतिमिश्र (= पाप-पुण्य-मिश्रित) धर्म हैं, वह तथागतमें हैं या नहीं ?—व्यति-मिश्र धर्म तथागतमें नहीं हैं ।...तब आगे जाँच करता है—जो चक्षु-श्रोत्र-विज्ञेय अवदात (= शुद्ध)-धर्म (= पुण्य) हैं, वह तथागतमें हैं, या नहीं ?—० अवदात-धर्म तथागतमें हैं ।...तब आगे जाँच करता है—दीर्घ कालसे यह आयुष्मान् इस कुशल-धर्म (= पुण्य-आचरण) को कर रहे हैं; या अचिर कालसे ही कर रहे हैं ?—दीर्घकालसे यह आयुष्मान् इस कुशल-धर्मसे युक्त है, अचिरकालसे नहीं...।...तब आगे जाँच करता है—ख्याति-प्राप्त, यश-प्राप्त इन आयुष्मान् भिक्षुमें कोई आदिनव (= दोष) हैं या नहीं ? भिक्षुओ ! जब तक भिक्षु ख्याति प्राप्त यश-प्राप्त नहीं होता, तब तक कोई कोई दोष उसमें नहीं आते। जब भिक्षुओ ! भिक्षु ख्याति-प्राप्त यश-प्राप्त होता है, तब कोई कोई दोष उसमें आते हैं । उसकी जाँच करते हुये वह यह देखता है—यह आयुष्मान् भिक्षु ख्याति-प्राप्त यश-प्राप्त हैं, (और) इनमें कोई दोष नहीं आये हैं ।...तब आगे जाँच करता है—यह आयुष्मान् भयके बिना विरागी हुये हैं, भयसे तो विरागी नहीं हुये; रागके क्षयके कारण वीतराग होनेसे (वह) कामों (= मोगों)को नहीं सेवन करते ?—० वीतराग

^१ देखो पृष्ठ १८६ ।

होनेसे कामोंको सेवन नहीं करते । भिक्षुओ ! उस भिक्षुसे यदि दूसरे यह पूछें—‘(उन) आयुष्मान्-के क्या आकार-प्रकार (= ० अन्वय) हैं, जिससे कि (आप) आयुष्मान् ऐसा कह रहे हैं—यह आयुष्मान् मयके बिना विरागी हुये हैं, मयसे विरागी नहीं हुये; रागके क्षयके कारण वीतराग होनेसे वह कामोंको सेवन नहीं करते ।’ तो ठीक तौरसे उत्तर देते हुये (वह) भिक्षु (उन्हें) ऐसा उत्तर दे—‘क्योंकि संघमें विहरते (= रहते) या अकेले विहरते, यह आयुष्मान्, सुगत (= सन्मार्गारूढ), दुर्गत (= कुमार्गारूढ) गण-उपदेशक, आमिष (= मोजनाच्छादन)-रक्त, आमिष-अनुपलिप्त (किसीभी व्यक्ति)का तिरस्कार नहीं करते । मैंने इसे भगवान्के मुखसे सुना है, भगवान्के मुखसे ग्रहण किया है—‘मैं मयके बिना विरागी हूँ, मयसे विरागी नहीं हूँ; रागके क्षयके कारण वीतराग होनेसे मैं कामोंका सेवन नहीं करता ।’

“आगे फिर भिक्षुओ ! तथागतको ही पूछना चाहिये—चक्षु-श्रोत्र-विज्ञेय मलिन धर्म तथागतमें हैं या नहीं ? उत्तर देते वक्त तथागत ऐसा उत्तर देंगे—० मलिन धर्म (= पाप) तथागत में नहीं हैं । ० व्यतिमिश्र (= पाप-पुण्य-मिश्रित) धर्म ० । ० अवदात-धर्म तथागतमें हैं या नहीं ? ०—अवदात-धर्म तथागतमें हैं । इसी (अवदात-धर्मवाले) पथपर मैं (= तथागत) आरूढ हूँ, यही मेरा गोचर (= विषय) है; मैं उससे रिक्त नहीं हूँ ।”

“भिक्षुओ ! ऐसे वाद (= सिद्धान्त) वाले शास्ता (= उपदेशक, तथागत)के पास श्रावक (= शिष्य)को धर्म सुननेके लिये जाना चाहिये । उसे शास्ता, कृष्ण-शुद्ध (= अच्छे दुरे)के विभागके साथ उत्तमोत्तम = प्रणीत-प्रणीत धर्म उपदेशता है । भिक्षुओ ! जैसे जैसे शास्ता उस भिक्षुको ० धर्म उपदेशता है; वैसे वैसे वह यहाँ धर्मोंको समझ कर धर्मोंमेंसे किसी धर्ममें आस्था प्राप्त करता है; शास्तामें श्रद्धा करता है—(हमारे) भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं, भगवान्का (उपदेश) धर्म स्वाख्यात (= सुन्दर प्रकारसे व्याख्यात) भगवान्का (शिष्य-)संघ सुप्रतिपन्न (= सुमार्गारूढ) है ।

“भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको दूसरे ऐसा पूछें—‘(उस) आयुष्मान्के क्या आकार प्रकार हैं, जिससे (आप) आयुष्मान् (यह) कह रहे हैं’—‘भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, संघ सुप्रतिपन्न है’ ? अच्छी तरह उत्तर देते हुये भिक्षुओ ! (उस) भिक्षुको कहना चाहिये—‘आबुसो ! जहाँ भगवान् थे, वहाँ मैं धर्म सुननेके लिये गया । (तब) बुद्धे भगवान्ने ० उत्तमोत्तम = प्रणीत-प्रणीत धर्म उपदेश दिया ० संघ सुप्रतिपन्न है’ ।”

“भिक्षुओ ! जिस किसी (पुरुष)को इन आकारों = इन पदों = इन व्यंजनोंसे तथागतमें श्रद्धा निविष्ट होती है, मूल-बद्ध हो प्रतिष्ठित होती है; वह आकारवती दर्शन-मूलक दृढ़ श्रद्धा कही जाती है । वह (किसी भी) श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार (= प्रजापति) ब्रह्मा या लोकमें किसीभी (व्यक्ति)से हटाई नहीं जा सकती ।”

“भिक्षुओ ! इस प्रकार धर्म-समन्वेषणा होती है; इस प्रकार तथागतकी धर्मता (= तथ्य) का समन्वेषण (= अन्वेषण) होता है ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।

४८—कोसम्बिय-सुत्तन्त^१ (१।५।८)

ऐसे मैंने सुना—

एक समय भगवान् कौशाम्बी (= कोसम्बी) के घोषिता-राममें विहार करते थे ।

उस समय कौशाम्बीमें मिश्रु भंडन करते=कलह करते, विवाद करते एक दूसरेको सुख (-रूपी) शक्ति (= हथियार) से बेधते फिरते थे । वह न एक दूसरेको संज्ञापन (= समझाना) करते थे, न संज्ञापनके पास उपस्थित होते थे; न एक दूसरेको निध्यापन (= समझाना) करते थे, न निध्यापनके पास उपस्थित होते थे । तब कोई मिश्रु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे उस मिश्रुने भगवान्से यह कहा—

“यहाँ मन्ते ! कौशाम्बीमें मिश्रु भंडन करते ० बेधते फिरते हैं ० न निध्यापनके पास उपस्थित होते हैं ।”

तब भगवान्ने किसी मिश्रुको संबोधित किया—“आओ, मिश्रु, तुम मेरे वचनसे उन मिश्रुओंसे कहो—आयुष्मानोंको शास्ता बुला रहे हैं ।”

“अच्छा, मन्ते !”—(कह) भगवान्को उत्तर दे, उस मिश्रुने जहाँ वह (झगड़ा) मिश्रु थे, तहाँ जाकर उन मिश्रुओंसे कहा—आयुष्मानोंको शास्ता बुला रहे हैं ।”

“अच्छा, आवुस !”—(कह) उस मिश्रुको उत्तर दे, वह मिश्रु जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन मिश्रुओंको भगवान्ने यह कहा—

“सचमुच मिश्रुओ ! तुम भंडन करते ० न निध्यापनके पास उपस्थित होते हो ?”

“हाँ, मन्ते !”

“तो क्या मानते हो, मिश्रुओ ! जिस समय तुम भंडन करते ० बेधते फिरते हो; क्या उस समय सब्रह्यचारियों (= सधर्मियों) के प्रति गुप्त और प्रकट तुम्हारा मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म, ...मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्म, ...मैत्रीपूर्ण मानसिक कर्म उपस्थित रहता है ?”

“नहीं, मन्ते !”

“इस प्रकार मिश्रुओ ! जिस समय तुम भंडन करते ०, उस समय ० मैत्रीपूर्ण मानसिक कर्म उपस्थित नहीं रहता । तो मोघ-पुरुषो ! तुम क्या जानते क्या देखते भंडन करते ० बेधते फिरते हो ? ० न निध्यापनके पास उपस्थित होते हो ? मोघ-पुरुषो ! यह तुम्हें चिरकाल तक अहित और दुःखके लिये होगा ।”

तब भगवान्ने (सभी) मिश्रुओंको संबोधित किया—“मिश्रुओ ! यह छः धर्म सारा-

^१ कोसम् (जि० इलाहाबाद) में ई० पू० ५२३में उपदिष्ट ।

णीय=प्रियकारक गुरूकारक हैं, (वह) संग्रह (= मेल), अविवाद, सामग्री (= एकता)=एकीभावके लिये हैं । कौनसे छः ?—मिच्छुओ ! (१) (जब) मिच्छुका सब्रह्मचारियोंके प्रति गुप्त और प्रकट मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म उपस्थित होता है । मिच्छुओ ! यह भी धर्म साराणीय ० एकीभावके लिये है ।

“और फिर मिच्छुओ ! (२) ० मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्म ० ।

“ ० (३) ० मैत्रीपूर्ण मानसिक कर्म ० ।

“और फिर मिच्छुओ ! (४) मिच्छुके जो धार्मिक धर्मसे प्राप्त लाभ हैं, चाहे पात्र चुपड़ने मात्र भी; उन लाभोंको शीलवान् सब्रह्मचारियोंके साथ साधारण-भोगी=वाँटकर उपभोग करनेवाला होता है । मिच्छुओ ! यह भी धर्म साराणीय ० ।

“और फिर मिच्छुओ ! (५) उन शीलों (= सदाचारों) से संयुक्त हो सब्रह्मचारियोंके साथ विहरता है, जो शील कि अ-खंड=अ-छिद्र (= दोवरहित) अ-शबल=अ-कल्मष, सेवनीय, विज्ञोसे प्रशंसित, अ-निन्दित, समाधि-प्रापक हैं । मिच्छुओ ! यह भी धर्म साराणीय ० ।

“और फिर मिच्छुओ ! (६) उस दृष्टि (= दर्शन, ज्ञान)से युक्तहो, सब्रह्मचारियोंके साथ विहरता है, जो दृष्टि कि आर्य (= निर्मल), निस्तारक है; वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर लेजाती है । मिच्छुओ ! यह भी धर्म साराणीय ० ।

“मिच्छुओ ! यह छः धर्म साराणीय ० एकीभावके लिये हैं । मिच्छुओ ! जो यह दृष्टि आर्य ० है, वह इन छःओ साराणीय धर्मोंमें अग्र (= श्रेष्ठ) संग्राहक=संघातक (= समूह-प्रधान) है । जैसे मिच्छुओ ! कूटागरका कूट (= शिखर)अग्र, संग्राहक=संघातक होता है; ऐसे ही जो यह दृष्टि आर्य ० ।

“क्या है मिच्छुओ ! यह दृष्टि आर्य ० दुःख-क्षयकी ओर लेजाती है ?—(१) (जब) मिच्छुओ ! अरण्य, वृक्ष-छाया या शून्य-आगारमें स्थित मिच्छु यह सोचता है—क्या मेरे भीतर वह परि-उत्थान (= चंचलता) अक्षीण नहीं हुआ है, जिस पर्युत्थानसे पर्युत्थित चित्त हो मैं यथा-भूत (= यथार्थ)को नहीं जान सकता, नहीं देख सकता । मिच्छुओ ! यदि मिच्छु काम-राग (= भोग-इच्छा) से पर्युत्थित होता है, (तो) वह पर्युत्थित-चित्त (= चंचल-चित्त) ही होता है । मिच्छुओ ! यदि मिच्छु व्यापाद् (= द्वेष)से पर्युत्थित होता है ० । ० स्त्यान-मृद्ध (= कायिक मानसिक आलस्य) ० । ० औद्धत्य-कौकृत्य (= उद्धतपना, हिचकिचाहट) ० । ० विद्धिकित्सा (= संशय) ० । ० इस लोककी चिन्तामें फँसा ० । परलोककी चिन्तामें फँसा ० । मिच्छुओ ! जब मिच्छु भंडन करते ० वेधते फिरते हैं, (तो) वह पर्युत्थित-चित्त ही होते हैं । वह इस प्रकार जानता है—मेरे भीतर वह पर्युत्थान अ-क्षीण नहीं है ० । मेरा मानस सत्त्योंके बोधके लिये सुप्रणिहित (= एकाग्र, निश्चल) है । पृथग्जनों (= अज्ञों)को न होनेवाला यह उसे प्रथम लोकोत्तर आर्य-ज्ञान प्राप्त होता है ।

“और फिर मिच्छुओ ! (२) आर्यश्रावक (= सत्पुरुष शिष्य) यह सोचता है—क्या मैं इस दृष्टिको सेवन करते, भावते, बढ़ाते अपनेमें शमथ (= शान्ति), निर्वृति (= सुख)को पाता हूँ ?—वह इस प्रकार जानता है—० निर्वृतिको पाता हूँ । ० यह उसे द्वितीय लोकोत्तर आर्य-ज्ञान प्राप्त होता है ।

“और फिर मिच्छुओ ! (३) आर्यश्रावक यह सोचता है—मैं जिस दृष्टिसे युक्त हूँ, क्या इससे बाहर भी दूसरे भ्रमण ब्राह्मण ऐसी दृष्टिसे युक्त हैं ?—० दूसरे भ्रमण ब्राह्मण ऐसी दृष्टिसे युक्त नहीं हैं । ० यह उसे तृतीय लोकोत्तर आर्य-ज्ञान प्राप्त होता है ।

“और फिर भिक्षुओ ! (४) आर्यश्रावक यह सोचता है—दृष्टि-सम्पन्न (= आर्य-दर्शन युक्त) पुरुष (= पुद्गल) जैसी धर्मता (= स्वभाव, गुण) से युक्त होता है, क्या मैं भी वैसी धर्मतासे युक्त हूँ ?—भिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह धर्मता है, कि वह ऐसी आपत्ति (= अपराध) का भागी होता है, जिस आपत्तिसे उट्टान (= उठना) हो सके। (आपत्ति हो जानेके) बाद ही वह शास्ता या विद्वत् सभ्यचारियोंके पास उसकी देशना (= अपराध निवेदन), विवरण (= प्रकट करना) = उत्तानीकरण करता है; देशना करके, विवरण करके, उत्तान करके भविष्यमें संवर (= रक्षा) के लिये तत्पर होता है। जैसे भिक्षुओ ! अबोध, उतान सोनेवाला छोटा बच्चा हाथसे या पैरसे अंगार छूजानेपर तुरन्त ही समेट लेता है; ऐसे ही भिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्नकी यह धर्मता है, कि वह ऐसी आपत्तिका भागी होता है ० भविष्यमें संवरके लिये तत्पर होता है। (वैसा सोचते) वह जानता है—दृष्टि-सम्पन्न पुरुष जैसी धर्मतासे युक्त होता है, मैं भी वैसी धर्मतासे युक्त हूँ। ० यह उसे चतुर्थ लोकोत्तर आर्य-ज्ञान प्राप्त होता है।

“और फिर भिक्षुओ ! (५) आर्यश्रावक यह सोचता है—दृष्टि-सम्पन्न पुरुष जैसी धर्मतासे युक्त होता है, क्या मैं भी वैसी धर्मतासे युक्त हूँ ?—भिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह धर्मता है कि वह सभ्यचारियोंके छोटे बड़े (= उच्चावच) करणीयोका इयाल रखता है; (उनकी) शील-संबंधिनी, चित्त-संबंधिनी, प्रज्ञा-संबंधिनी शिक्षाओमें वह तीव्र अपेक्षा (= खयाल) रखता है। जैसे भिक्षुओ ! छोटे बच्चेवाली गाय घास चरती जाती है, और बच्चे की ओर देखती रहती है; ऐसे ही भिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह धर्मता है ०। (वैसा सोचते) वह जानता है—० मैं भी वैसी धर्मतासे युक्त हूँ। ० यह उसे पंचम लोकोत्तर आर्य-ज्ञान प्राप्त होता है।

“और फिर भिक्षुओ ! (६) आर्यश्रावक यह सोचता है—दृष्टि सम्पन्न पुरुष जैसी बलतासे (= सामर्थ्य) से युक्त होता है, क्या मैं भी वैसी बलतासे युक्त हूँ ?—भिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह बलता है, कि दृष्टि-सम्पन्न पुरुष तथागतके वतलाये धर्म-विनय (= धर्म) के उपदेश किये जाते समय मन लगाकर चित्तको एकाग्र कर कान लगा धर्मको सुनता है। (वैसा सोचते) वह जानता है—० मैं भी वैसी बलतासे युक्त हूँ। ० यह उसे षष्ठ लोकोत्तर आर्यज्ञान प्राप्त होता है।

“और फिर भिक्षुओ ! (७) आर्यश्रावक यह सोचता है—० क्या मैं भी वैसी बलतासे युक्त हूँ ?—भिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह बलता है, कि तथागतके वतलाये धर्म-विनयके उपदेश किये जाते समय (वह) अर्थ-वेद (= अर्थ-ज्ञान) को पाता है, धर्म-वेदको पाता है, धर्म सम्बन्धी प्रामोद्य (= प्रमोद) को पाता है। (वैसा सोचते) वह जानता है—० मैं भी वैसी बलतासे युक्त हूँ। ० यह उसे सप्तम लोकोत्तर आर्यज्ञान प्राप्त होता है।

“भिक्षुओ ! इस प्रकार स्रोत-आपत्ति^१-फलके साक्षात्कारके लिये सात अंगोंसे युक्त आर्यश्रावककी इस प्रकार सुसमन्वित (= अच्छी प्रकार जाँची गई) धर्मता होती है। भिक्षुओ ! इस प्रकार सात अंगोंसे युक्त आर्यश्रावक स्रोत-आपत्ति-फलसे युक्त होता है।”

भगवान् ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओने भगवान् के मापणको अभिनन्दित किया।

^१ निर्वाण-नामी पथ रूपी नदीके स्रोतपर निश्चलतया आरूढ़ व्यक्ति।

४६—ब्रह्म-निमन्तनिक-सुत्तन्त (१।५।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।
वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“एक समय मैं भिक्षुओ ! उक्कट्टाके सुभगवनमें शालराजके नीचे विहरता था । उस समय भिक्षुओ ! वक् (नामक) ब्रह्माको ऐसी बुरी धारणा उत्पन्न हुई थी—
‘यह (ब्रह्मलोक) नित्य है, ध्रुव, शाश्वत, केवल (= शुद्ध), अ-च्यवन-धर्मा (= जहाँसे च्युति नहीं होती) है; यह न जन्मता है, न जीर्ण होता है, न भरता है, न च्युत होता है, न उपजता है । इससे आगे दूसरा निस्सरण (= निकलनेका स्थान) नहीं है ।’

“तव भिक्षुओ ! मैं चित्तसे वक् ब्रह्माके चित्तकी बात जानकर, जैसे वलवान् पुरुष (अप्रयास) अपनी फौलाई वाँहको समेट ले, या समेटीको फौलादे, ऐसे ही उक्कट्टाके सुभगवनमें शालराजके नीचे अन्तर्धान हो उस ब्रह्मलोकमें (जाकर) प्रकट हुआ ।

“भिक्षुओ ! वक् ब्रह्माने दूरसे ही मुझे आते देखा । देखकर मुझसे यह कहा—‘आओ मार्घ ! स्वागत, मार्घ ! चिरकालके बाद मार्घ ! यहाँ आना हुआ । मार्घ ! यह नित्य है ० इससे आगे दूसरा निस्सरण नहीं है ।’

“भिक्षुओ ! ऐसा कहने पर मैंने वक् ब्रह्माको यह कहा—‘अविद्यामें पड़ा है, अहो ! वक् ब्रह्मा, अविद्यामें पड़ा है, अहो ! वक् ब्रह्मा, जो कि अनित्य होतेको नित्य कहता है ० इससे आगे (= वदकर) दूसरा निस्सरण होते भी, इससे आगे दूसरा निस्सरण नहीं है—कहता है ।

“तव भिक्षुओ ! पापात्मा मार एक ब्रह्म-पार्षदके (शरीरके) भीतर प्रविष्ट हो मुझसे बोला—
‘भिक्षु ! भिक्षु ! मत इन (ब्रह्मा) का अपमान करो, मत इनका अपमान करो । भिक्षु ! यह ब्रह्मा हैं, महाब्रह्मा, अभिभू (= विजेता), अन्-अभिभूत, (सर्व-)दर्शी, वशवर्ती, ईश्वर, (सृष्टि-)कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, स्रष्टा, वशी, भूत-भव्य (प्राणियों)के पिता हैं । भिक्षु ! तुझसे पूर्व भी लोकमें पृथिवी-निन्दक, पृथिवी-जुगुप्सु, जल-निन्दक ०, तेज-निन्दक ०, वायु-निन्दक ०, भूत-निन्दक ०, देव-निन्दक ०, प्रजापति-निन्दक ०, ब्रह्मा-निन्दक ०, श्रमण ब्राह्मण हुये थे; वह काया छोड़ प्राणके विच्छेद होनेपर हीन कायामें प्रतिष्ठित हुये । भिक्षु ! तुझसे पूर्व भी लोकमें पृथिवी प्रशंसक = पृथिवी-अभिनन्दी, ०, ० ब्रह्मा-प्रशंसक ०, श्रमण ब्राह्मण हुये थे; वह काया छोड़ प्राणके विच्छेद होनेपर उत्तम कायामें प्रतिष्ठित हुये । सो मैं भिक्षु ! तुझे यह कहता हूँ—अरे मार्घ ! जो कुछ ब्रह्मा तुझे

१ देवताओंका समान व्यक्तिके साथ संबोधनका शब्द ।

कहें, तू वही कर, मत ब्रह्माके वचनका अतिक्रमण कर । यदि तू भिक्षु ! ब्रह्माके वचनका अतिक्रमण करेगा; तो जैसे आदमी आती श्री (= लक्ष्मी)को डंडेसे लौटा दे; या जैसे आदमी नरकके प्रपात (= खड्ड)में गिरता हाथ-पैरसे पृथिवीको विरक्त (= त्यक्त) करे; ऐसी ही हालत भिक्षु ! तेरी होगी । अरे मार्ष ! जो कुछ ब्रह्मा तुझे कहें, तू वही कर, मत ब्रह्माके वचनको अति-क्रमण कर । क्यों भिक्षु ! ब्राह्मी (= ब्रह्माकी) परिपद्की वैठी देख रहा है तू ?' इस प्रकार भिक्षुओ ! पापात्मा मार ब्राह्मी परिपद्की ओर (मेरा ख्याल) ले गया ।

“ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! मैंने पाप्मा मारको यह कहा—‘पापी ! मैं तुझे जानता हूँ, मत समझ कि मैं तुझे नहीं जानता । पापी ! तू मार है । पापी ! जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म-परिपद् है, और जो ब्रह्मपार्षद हैं, सभी तेरे हाथमें हैं, सभी तेरे वशमें हैं । पापी ! तुझे ऐसा होता है, यह (= मैं) भी मेरे हाथमें आवे, यह भी मेरे वश में हो । किन्तु पापी ! मैं तेरे हाथमें नहीं आया, मैं तेरे वशमें नहीं हुआ हूँ ।

“ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! वक ब्रह्माने सुझे यह कहा—मार्ष ! मैं निश्च्य होतेहीको निश्च्य कहता हूँ, १ ० आगे दूसरा निस्सरण न होने ही पर, आगे दूसरा निस्सरण नहीं है—कहता हूँ । भिक्षु ! तुझसे पूर्व भी लोकमें श्रमण ब्राह्मण हुये । जितनी तेरी सारी आयु है, उतना उनका (केवल) तप-कर्म (का समय) था । वह आगे दूसरा निस्सरण होनेपर ‘आगे दूसरा निस्सरण है’, आगे दूसरा निस्सरण न होनेपर ‘आगे दूसरा निस्सरण नहीं है’, यह जान सकते थे । सो भिक्षु ! मैं तुझसे यह कहता हूँ, तू आगे दूसरा निस्सरण नहीं देख पायेगा, सिर्फ परेशानीका भागी बनेगा । यदि भिक्षु ! तू पृथिवीकी अध्येषणा (= प्रार्थना) करेगा, तो तू मेरा पार्श्वचर, गृह-शाथी, यथेच्छकारी, स्वल्पकारी होगा । यदि भिक्षु तू जलकी ०, तेजकी ०, वायुकी ०, भूतकी ०, देवताकी ०, प्रजापतिकी ०, ब्रह्माकी ० ।

“ब्रह्मा ! मैं भी इसे जानता हूँ, (कि) यदि मैं पृथिवीकी अध्येषणा करूँगा, तो मैं तेरा पार्श्वचर ० होऊँगा । ० । ब्रह्माकी ० । किन्तु ब्रह्मा ! मैं तेरी गति (= निष्पत्ति), और प्रभाव (= जति)को जानता हूँ—ऐसा महर्दिक (= महाकृद्धिवाला) वक ब्रह्मा है, ऐसा महालुभाव (= महाप्रभावशाली) वक ब्रह्मा है, ऐसा शक्तिशाली (= महेसकष) वक ब्रह्मा है ।’

“क्या तू मार्ष ! मेरी गति, जतिको जानता है—ऐसा महर्दिक वक ब्रह्मा है ० ?’

‘चाँद-सूर्य जितनेको धारण करते हैं, (जितनी) दिशायें प्रकाशसे प्रकाशित होती हैं ।

उतने हजार लोक यहाँ (= जगतमें) तेरे वशमें है ।

तू रागी-विरागियोंके वार-पारको जानता है ।

प्राणियोंके इत्थंभाव, अन्यथा-भाव, गति और अ-गतिको जानता है ।

“ब्रह्मा ! इस प्रकार मैं तेरी गति जतिको जानता हूँ—ऐसा महर्दिक ० । ब्रह्मा ! और भी तीन काय (= लोक-समूह) हैं, जिन्हें तू नहीं जानता देखता, (किन्तु) मैं उन्हें जानता देखता हूँ । ब्रह्मा ! आभास्वर नामक (देव-)काय है, जहाँसे च्युत होकर कि तू यहाँ उत्पन्न हुआ । चिरकालके (यहाँके) निवाससे तुझे उसका स्मरण नहीं, जिससे तू उसे नहीं जानता देखता, (किन्तु) उसे मैं जानता देखता हूँ । इस तरह भी ब्रह्मा ! अभिज्ञा (= ज्ञान)में मैं तेरे घरावर नहीं हूँ वल्कि तुझसे बढ़कर हूँ : कम कहाँसे हूँगा । ब्रह्मा ! शुभकृत्स्न नामक (देव -)काय भी है, ० । ब्रह्मा ! वृहत्फल नामक (देव-)काय भी है ० वल्कि तुझसे बढ़कर हूँ । ब्रह्मा ! मैं पृथिवीको

पृथिवीके तौरपर जानकर, जो (निर्वाण) = पृथिवीके पृथिवीत्वसे परे है, उसे भी जानकर; मैंने (तृष्णाकी दृष्टि, या मानके ग्रहणसे) पृथिवीको नहीं (पकड़ा) था, पृथिवीका नहीं था, पृथिवीसे नहीं था, पृथिवी मेरी है (यह मुझे) नहीं हुआ; पृथिवीका अभिवादन (= प्रशंसा) मैंने नहीं किया । इस तरह भी ब्रह्मा ! अभिज्ञामें मैं तेरे बराबर नहीं, वल्कि तुझसे बढ़कर हूँ, कम कहाँसे हूँगा । ब्रह्मा ! मैं जलको जलके तौरपर जानकर ० । ० तेजको ० । ० वायुको ० । ० भूतको ० । ० देवताको ० । ० प्रजापतिको ० । ० ब्रह्माको ० । ब्रह्मा ! मैं सर्व (= सारे विश्व)को सर्वके तौरपर जानकर ० सर्व मेरा है (यह मुझे) नहीं हुआ; ० ।

“ यदि मार्ष ! तेरा सर्व (= सारा) सर्वत्वसे अन्-अनुभूत (= अ-प्राप्त) है; तो तेरा (सारा वचन) रिक्त (= खाली, निरर्थक) = तुच्छ ही है ?”

“ विज्ञान अ-निदर्शन (= चक्षुका अ-विषय) है, अनन्त (और) सर्वत्र प्रभा-युक्त है; वह पृथिवीके पृथिवीत्वसे अ-प्राप्त है, जलके जलत्वसे अ-प्राप्त है, तेजके तेजस्त्वसे अ-प्राप्त है, वायुके वायुत्वसे अ-प्राप्त है, सूतोके ०, देवोंके ०, प्रजापतिके ०, ब्रह्माके ० आभास्वरोंके ०, शुभकृत्स्नोंके ०, बृहत्फलोंके ०, सर्वके सर्वत्वसे अ-प्राप्त है ।”

“ हन्त ! मार्ष ! तुझे मैं (अपनी दिव्यशक्तिसे) अन्तर्धान करता हूँ ।”

“ हन्त ! ब्रह्मा ! यदि चाहता है तो तू मुझे अन्तर्धान कर ।”

“ तव भिक्षुओ ! वक् ब्रह्माने (दृढ़ मनोबल को लगाया —) ‘श्रमण गौतमको अन्तर्धान करूँ, श्रमण गौतमको अन्तर्धान करूँ—किन्तु मुझे अन्तर्धान नहीं कर सका । ऐसा होने पर भिक्षुओ ! मैंने वक् ब्रह्माको यह कहा—‘हन्त ! ब्रह्मा ! मैं तुझे अन्तर्धान करता हूँ ।’ हन्त ! मार्ष ! यदि चाहता है, तो मुझे अन्तर्धान कर ।’ तव भिक्षुओ ! मैंने इस प्रकारका ऋद्धि-बल प्रयोग किया, कि जिससे ब्रह्मा, ब्रह्म-परिषद्, और ब्रह्म-पार्षद् मेरे शब्दको सुनते थे, किन्तु मुझे देखते न थे; और अन्तर्धान हुये मैंने यह गाथा कही—

“ भव (= संसार)में भयको देखकर, और भयको विभवका इच्छुक (देख) ;

मैंने भयका स्वागत नहीं किया, और नन्दी (= तृष्णा)को नहीं स्वीकार किया ।

“ तव भिक्षुओ ! ब्रह्मा; ब्रह्म-परिषद् और ब्रह्म पार्षद् आश्चर्य चकित होगये—‘आश्चर्य भो ! अद्भुत भो !! श्रमण गौतमकी महा-ऋद्धिमत्ता, = महा-अनुभावता !!! यह शाक्यपुत्र, शाक्यकुलसे प्रव्रजित श्रमण गौतम जिस प्रकारका है, ऐसा महर्द्धिक = महानुभाव दूसरा श्रमण या ब्राह्मण हमने इससे पहिले नहीं देखा । अहो ! भवमें खुश, भव-रत, भव-समुदित (= भवसे उत्पन्न) प्रजाका इसने उद्धार किया ।”

“ तव भिक्षुओ ! पापी मारने एक ब्रह्म-पार्षद्में आवेश कर मुझे यह कहा—‘यदि मार्ष ! तू ऐसा जानता है, यदि तू ऐसा अनुबुद्ध (= ज्ञानी) है, (तो) मत श्रावकोंको (इस धर्ममार्ग पर) लेजा, मत प्रव्रजितों (= संन्यासियों)को लेजा, मत श्रावकोंको धर्म उपदेश कर, मत प्रव्रजितोंको धर्म-उपदेश कर । मत श्रावकों के विषयमें लोभ कर, मत प्रव्रजितोंके विषय में (लोभ कर) । भिक्षु ! तुझसे पूर्व भी लोकमें अर्हत्, सम्यक्-संबुद्धका दावा करनेवाले श्रमण हुये थे । वह श्रावकों प्रव्रजितोंको (अपने धर्ममार्ग पर) ले गये, श्रावकों प्रव्रजितोंको (उन्होंने) धर्म-उपदेश किया, श्रावकों प्रव्रजितोंके विषयमें लोभ किया । वह श्रावकों प्रव्रजितोंको लेजाकर, ० धर्म-उपदेश कर, ० लोभ कर, काया छोड़ प्राणोंके विच्छेद होनेपर हीन काय (= योनि)में प्रतिष्ठित हुये । भिक्षु ! (किन्तु) तुझसे पूर्व लोकमें (दूसरे भी) अर्हत् सम्यक्-संबुद्धका दावा करनेवाले श्रमण हुये । वह श्रावकों प्रव्रजितोंको (अपने धर्ममार्गपर) न ले गये, ० धर्म-उपदेश नहीं किया, ० लोभ नहीं

किया; वह ०, काया छोड़ प्राणोंके विच्छेदके बाद उत्तम काय (= योनि)में प्रतिष्ठित हुये । तुझे भिक्षु ! मैं यह कहता हूँ—‘अरे मार्य ! तू वेपर्वा हो वर्तमानके सुख-विहारसे युक्त ही विहार कर; मार्य ! व्याख्यान न करना सुंदर है, मत दूसरोंको उपदेश कर ।’

‘ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! मैंने पापी मारसे कहा—‘पापी ! मैं जानता हूँ तुझे; तू मत समझ कि मैं तुझे नहीं पहिचानता । पापी ! तू मार है । पापी ! हित, अनुकम्पक हो तू मुझे यह नहीं कह रहा है । पापी ! अ-हित, अन्-अनुकम्पक हो तू मुझे यह कह रहा है । पापी ! तुझे ऐसा हो रहा है—श्रमण गौतम जिनको धर्म-उपदेश करेगा, वह मेरे त्रिषय (= अधिकार)से निकल जायेंगे । पापी ! (उपदेश न देनेवाले) वह श्रमण ब्राह्मण सम्यक् संबुद्ध न होते हुये, ‘हम सम्यक् संबुद्ध हैं’—दावा करते थे । पापी ! श्रावकोंको उपदेश करते भी तथागत वैसे ही हैं, ० न उपदेश करते भी ०, श्रावकोंको उपनयन (= धर्ममार्गपर ले जाना) करते भी ०, ० न उपनयन करते भी ० । सो किस हेतु ?—तथागतके वह आस्रव (= चित्त-मल) क्षीण होगये, उच्छिन्न-मूल होगये, सिरकटे ताडसे होगये, अमावको प्राप्त होगये, मविष्यमें न उत्पन्न होने लायक होगये; जो (आस्रव)कि समल, पुनर्जन्मकारक, मय-युक्त, दुःख-विपाकवाले, मविष्यमें जरा-मरण देनेवाले हैं । जैसे पापी ! सिरकटा ताड फिर बढ़नेके अयोग्य है, ऐसे ही पापी ! तथागतके वह आस्रव क्षीण होगये ० मविष्यमें न उत्पन्न होने लायक होगये ।”

इस प्रकार यह (सूत्र) मारके अन्-उच्छापन (= प्रलोभनमें न पडने)के लिये, और ब्रह्माके निमंतन (= निमंत्रण)से (कहा गया), इसलिये इस व्याकरण (= उपदेश)का नाम ब्रह्म-निमन्तनिक पड़ा ।

५०—मारतज्जनीय-सुत्तन्त (१।५।१०)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय आयुष्मान् महामोग्गलान् (= महामौद्गल्यायन) भर्ग(देश)में सुंसुमार-गिरिके भेसकलावन मृगदावमें विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान् महामोग्गलान् खुली जगहमें टहल रहे थे । उस समय पापी मार आयुष्मान् महामोग्गलानकी कुक्षिमें घुसा था, कोठेमें प्रविष्ट हुआ था । तब आयुष्मान् महामोग्गलानको ऐसा हुआ—अरे ! क्यों मेरा पेट उड़द मरासा गुड़गुड़ा रहा है । तब आयुष्मान् महामोग्गलान टहलने के स्थानसे उतर विहार (= कौठरी)में प्रवेश कर विछे आसनपर बैठे । बैठ कर आयुष्मान् महामोग्गलान अपने मनमें कारण खोजने लगे । (तब) आयुष्मान् महामोग्गलानने पापी मारको कुक्षिमें घुसा ० देखा । देखकर पापी मारको यह कहा—‘निकल, पापी ! मत तथागत या तथागतके श्रावक (= शिष्य)को सता; मत (यह) चिरकाल तक तेरे लिये अहितकर दुःखकर हो ।’ तब पापी मारको यह हुआ—‘यह श्रमण मुझे विना जाने, विना देखे यह कह रहा है—‘निकल पापी ! ०’ । जो इसका शास्ता (= गुरु) है, वह भी मुझे जल्दी नहीं जान सकता, यह श्रावक (= शिष्य) मुझे क्या जानेगा ?’

तब आयुष्मान् महामोग्गलानने पापी मारको यह कहा—“पापी ! मैं यहाँ तुझे पहिचान रहा हूँ, तू मत समझ—(यह) मुझे नहीं पहिचानता । तू मार है पापी ! मुझे यह हो रहा है, पापी !—‘यह श्रमण मुझे विना जाने, विना देखे, मार कह रहा है ० यह श्रावक मुझे क्या जानेगा ।’

तब पापी मारको यह हुआ—‘यह श्रमण मुझे जान कर ही, देखकर ही, ऐसा कह रहा है—निकल पापी ! ० दुःख कर हो ।’ तब पापी मार आयुष्मान् महामोग्गलानके मुखसे निकल कर किवाड़के सामने खड़ा हुआ ।

आयुष्मान् महामोग्गलानने मार पापीको किवाड़के सामने खड़ा देखा । देखकर मार पापी को यह कहा—पापी ! यहाँ भी मैं तुझे देखता हूँ । तू मत समझ—यह मुझे नहीं देख रहा है । पापी ! यह तू किवाड़ (= अर्गल)के सामने खड़ा है । पापी ! भूतकालमें मैं ठूसी नामक मार था । उस (समय) मेरी काली नामक वहिन थी, उसका तू पुत्र था; इस तरह (तब) तू मेरा मांजा था । पापी ! उस समय मगवान् ककुसन्ध (= ऋकुच्छन्द) अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध लोकमें उत्पन्न हुये थं । अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध मगवान् ककुसन्धके विधुर और संजीव नामक प्रधान श्रावक-युगल (= शिष्योंकी जोड़ी), मद्र-युगल था । पापी ! ० मगवान् ककुसन्धके जितने श्रावक थे, उनमें कोई धर्म-उपदेश करनेमें आयुष्मान् विधुरके बराबर नहीं था । इसी (विधुर = अ-समान) मतलबसे आयुष्मान् विधुरका ‘विधुर’ नाम पढ़ गया । और आयुष्मान् संजीव अरण्य,

वृक्षलाया या शून्य-आगारमें बिना कठिनाईके संज्ञा-वेदित-निरोध (- समाधि)में प्राप्त हो जाते थे । पापी ! किसी एक समय आयुष्मान् संजीव एक वृक्षके नीचे संज्ञा-वेदित-निरोध (समाधि)में स्थित थे । तब गोपालकों, पशुपालकों, कृपकों, वटोहियोंने आयुष्मान् संजीवको एक वृक्षके नीचे संज्ञा-वेदित-निरोध (समाधि)में स्थित हो बैठे देखा । देखकर उनके (मनमें) यह हुआ—आश्चर्य है ! अद्भुत है !! यह श्रमण बैठेही बैठे मर गया; आओ ! इसे जला दें । ...तब वह गोपालक ० वृण, काष्ठ, कंडा जमाकर, (उसपर) आयुष्मान् संजीवके शरीरको रखकर आग दे चले गये । ...तब आयुष्मान् संजीव उस रातके वीतनेपर उस समाधिसे उठकर, चीवरों (= वस्त्रों)को झाड़कर पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले गाँवमें पिंडचारेके लिये प्रविष्ट हुये । ...उन गोपालकों ० ने आयुष्मान् संजीवको पिंडचार करते देखा । देखकर उन्हें यह हुआ—‘आश्चर्य है ! अद्भुत है !! यह श्रमण बैठेही बैठे मर गया था, और (अब) संजीवित (= जीवित) हो गया । पापी ! इसी (संजीवित होने)के मतलबसे आयुष्मान् संजीवका संजीव नाम पड़ गया ।

‘तब फिर...भारको यह हुआ—इन शीलवान्, कल्याणधर्मा भिक्षुओंकी मैं गति अ-गतिको नहीं जानता; क्यों न मैं ब्राह्मण गृहस्थोको भरमाऊँ—आओ ! तुम शीलवान् कल्याणधर्मा भिक्षुओंको निन्दो, परिहास करो, चिढ़ाओ, सताओ; जिसमें कि तुमसे निन्दित, परिहास किये, चिढ़ाये, सताये जानेपर इनके चित्तमें विकार पैदा हो; फिर दूसरी मारको मौका मिल जाये । ‘तब पापी ! दूसरी मार द्वारा भरमाये वह ब्राह्मण गृहस्थ उन शीलवान्, कल्याणधर्मा भिक्षुओंको निन्दने लगे ०—‘यह नीच, काले, ब्रह्माके पदसे उत्पन्न, मुँडक श्रमण—हम ध्यानी हैं—यह अभिमान करते अधोमुख आलसी हो ध्याते (= ध्यान लगाते) हैं, प्र-ध्याते, नि-ध्याते, अप-ध्याते हैं; जैसेकि उल्लू वृक्षकी शाखापर चूहेकी तलाशमें ध्याता है, प्रध्याता ०; ऐसे ही यह नीच ० अप-ध्याते हैं । जैसेकि, गीदड़ (= कोन्धु) नदीके तीर मछलियोंकी तलाशमें ध्याता है ० । जैसेकि विछी कोने-पाखाने-झूड़ेमें चूहोंकी तलाशमें ध्याती है ० । जैसेकि लादीसे छूटा गदहा, कोने-पाखाने-झूड़ेमें ध्याता है ० । पापी ! उस समय जो मनुष्य मरते थे, (उसी पापसे) अधिकतर काया छोड़ मरनेके बाद अपाय, दुर्गति=विनिपात, नरकमें उत्पन्न होते थे ।

‘तब ० भगवान् ककुत्संधने भिक्षुओंको संबोधित किया—भिक्षुओ ! ब्राह्मण-गृहपति दूसरी मार द्वारा भरमाये गये हैं—‘आओ ! तुम ० दूसरी मारको मौका मिले । आओ, भिक्षुओ ! तुम मैत्रीयुक्त चित्तसे एक दिशाको पूर्णकर विहार करो, वैसे ही दूसरी (दिशा)को, वैसे ही तीसरीको, वैसे ही चौथीको । इस प्रकार ऊपर नीचे आड़े-बेड़े भी सबका ख्यालकर, सबके हितार्थ, विपुल, महान, प्रमाणरहित, वैररहित, व्यापाद (= हिंसा)-रहित, मैत्रीयुक्त चित्तसे सारे लोकको पूर्णकर विहरो । तुम करुणायुक्त चित्तसे ० सारे लोकको पूर्ण कर विहरो । तुम मुदिता युक्त चित्तसे ० । तुम उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० ।’

‘...तब ० भगवान् ककुत्संध द्वारा इस प्रकार उपदेशित, अनुशासित हो, (वह भिक्षु) अरण्य, वृक्षलाया या शून्य-आगारमें (जहाँ भी) रहते मैत्रीयुक्त चित्तसे ० सारे लोकको पूर्णकर विहरते थे । करुणा-युक्त ० । मुदितायुक्त ० । उपेक्षा-युक्त ० ।

‘तब पापी ! दूसरी मारको यह हुआ—पैसा करते भी इन शीलवान् (= सदाचारी) कल्याणधर्मा भिक्षुओंकी गति, आगतिको मैं नहीं जान सका; क्यों न मैं ब्राह्मण-गृहपतियोंको भरमाऊँ—‘आओ ! तुम इन ० भिक्षुओंका सत्कार=गुत्कार, मानन=पूजन करो; क्या जाने...’ तुम्हारे सत्कार ० करनेसे इनके चित्तमें विकार पैदा हो; जिसमें कि दूसरी मारको मौका मिले ।’

...तब दूसी मार द्वारा भरमाये (= आवेश किये) ब्राह्मण गृहपतियोंने ० भिक्षुओंका सत्कार० किया ।

“पापी ! उस समय जो मनुष्य मरते थे, (उनमें) अधिकतर काया छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होते थे ।

“तब ० मगवान् ककुसंधने भिक्षुओंको संबोधित किया—‘भिक्षुओ ! ब्राह्मण-गृहपति दूसी मार द्वारा भरमाये गये हैं—आओ ! तुम ० । आओ, भिक्षुओ ! कायामें अशुभ (= गंदगी) देखते, आहारमें प्रतिकूलताका ब्याल रखते, सारे लोकमें वैराग्य रखते, सारे संस्कारोंमें (= कृत, उत्पन्न वस्तुओं)में अनित्यता देखते विहरो’ ।

“...तब ० मगवान् ककुसंध द्वारा इस प्रकार उपदेशित=अनुशासित हो, अरण्यमें, वृक्षके नीचे, या शून्य-आगारमें रहते वह भिक्षु कायामें अशुभ देखते ० विहरने लगे ।

“...तब ० मगवान् ककुसंध पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले आयुष्मान् विधुरको पीछे पीछे ले गाँवमें पिंड (= भिक्षा)के लिये प्रविष्ट हुये ।...तब दूसी मारने एक वृक्षमें आवेश करके रोड़ा ले आयुष्मान् विधुरके सिरमें प्रहार किया । सिर फट गया ।...आयुष्मान् विधुर खून गिरते फटे सिरसे भी ० मगवान् ककुसंधका अनुगमन करते रहे ।...तब ० मगवान् ककुसंधने नाग-अवलोकन (= नाग महापुरुष जैसा अवलोकन) किया । दूसी मार इस मंत्रको नहीं जानता था । अवलोकन मात्र हीसे दूसी मार अपने स्थानसे प्युत हो महानरकमें उत्पन्न हुआ ।

“...उस महानरकके तीन नाम थे—छः-स्पर्श-आयतनिक,^१ स-अंकुश-आहत, और प्रत्यात्म-वेदनीय । तब मेरे (= दूसीके) पास आकर नरकवालोंने यह कहा—‘भार्य ! जब (शरीरके चारों ओरसे प्रहारित होते) शूल तेरे हृदयमें आकर एक दूसरेसे मिल जायें, तब समझना, कि नरकमें पकते तुझे एक हजार वर्ष हो गये’ । सो पापी ! मैं उस महानरकमें अनेक वर्षों, अनेक शतवर्षों अनेक सहस्रवर्षों तक पकता रहा । दस हजार वर्ष तक उसी नरकके उत्सद (= उपनरक)में इस वेदनाको सहते पकता रहा । उस (समय) मेरा शरीर मनुष्य जैसा था, और मेरा शिर मछलीका सा ।

वह नरक कैसा था, जिसमें दूसी पचता रहा ;
विधुर श्रावक और ककुसंध ब्राह्मणको सता कर ?
सौ लौहके शूल थे जो सभी हर एकको वेदना देनेवाले थे ।
ऐसा वह नरक था, जिसमें दूसी पचता रहा ।
विधुर श्रावक और ककुसंध ब्राह्मणको सताकर ।
जो बुद्धका श्रावक भिक्षु इसे जानता है,
ऐसे भिक्षुको सताकर काले दुःखको पाता है ॥(१)॥

सरोवरके बीचमें कल्प-पर्यन्त रहने वाले विमान हैं,
(जो कि) वैदूर्यवर्ण, रुचिर, अर्चि-मान-प्रभास्वर हैं ।
अलग अलग नाना वर्णोंकी अप्सरायें वहाँ नाचती हैं ।
जो बुद्धका श्रावक ०^१ काले दुःखको पाता है ॥(२) ॥

^१ देखो पृष्ठ १४९ ।

जिसने बुद्धकी प्रेरणासे भिक्षु-संघके देखते हुये,
मृगार-माताके प्रासादको पैरके अँगूठेसे कँपा दिया ।^१
जो बुद्धका श्रावक ० ॥ (३) ॥

जिसने वैजयन्त प्रासादको पैरके अँगूठेसे कँपा दिया ।
और ऋद्धि-घलसे पुर्ण जिसने देवताओंको उद्विग्न किया ।
जो बुद्धका श्रावक ० ॥ (४) ॥

जिसने वैजयन्त प्रासादमें शक्रको पूजा—
'क्या आवुस ! तू तृष्णाके क्षयवाली मुक्तिको जानता है ?'^१
उसके पृछनेपर शक्रने यथातथा उत्तर दिया ।
जो बुद्धका श्रावक ० ॥ (५) ॥

जिसने सुधर्मांमें, सभाके सामने ब्रह्माको पूजा—
'आवुस ! आज भी तेरी वही दृष्टि है, जो पहिले थी,
तू ब्रह्मलोकमें उस प्रमास्वर वीतिवत्त (= परिवर्तन)को देखता है ?'
तब उसे ब्रह्माने क्रमशः यथातथा उत्तर दिया—
'भार्ष ! मेरी वह दृष्टि नहीं है, जो पहले थी ।
मैं ब्रह्मलोकमें उस प्रमास्वर वीतिवत्तको देखता हूँ ।
सो मैं आज कैसे कह सकता हूँ कि, मैं शाश्वत हूँ ।
जो बुद्धका श्रावक ० ॥ (६) ॥

जिसने महामेरुके शिखरको विमोक्ष (= ध्यान)से छू दिया ।
पूर्व विदेहके वनको, और जो भूमिपर सोनेवाले नर हैं (= उन्हें)भी ।
जो बुद्धका श्रावक ० ॥ (७) ॥

अग्नि नहीं चाहती, कि मैं धाल (= मूर्ख)को डाहूँ ।
धालही जलती आगसे मिड कर जलता है ।
इसी प्रकार मार ! तू तथागतसे लाग करके
आग पकड़ते धालकी मूर्ति स्वयं जलेगा ।
मार ! तथागतसे लाग कर तूने (बहुत) पाप कमाया ।
पापी ! क्या तू समझता है, कि तुझे पाप नहीं पकायेगा ?
अन्ततक, चिरकालतक करते रहनेसे पाप संबित होजाता है ।
मार ! बुद्धसे हट जा, भिक्षुओंसे (गिरनेकी) आशा मत कर ।
इस प्रकार भिक्षुने भेसकलावलमें मारको डाँटा ।
तब वह यक्ष उदास हो वहीं अन्तर्धान होगया ॥

५-(इति चूल-यसक-वग्ग १५)

इति मूल-पण्णासक १ ।

मज्झिम-पर्यासक

[द्वितीय-पंचाशक ५१-१००]

अथ मज्झिम-परिणयसक

५१—कन्दरक-सुत्तन्त (२।१।१)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् षडे भारी भिक्षु-संघके साथ चम्पामें गगगरा-पुष्करिणीके तीर विहार करते थे ।

तब हाथीवान्का पुत्र पेस्स और कन्दरक परिव्राजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर ० पेस्स भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया, और कन्दरक परिव्राजक भगवान्के साथ ...कुशल प्रश्न पूछ एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे कन्दरक परिव्राजकने चुपचाप बैठे भिक्षु-संघको देखकर भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य ! भो गौतम ! अद्भुत !! भो गौतम ! आप गौतमने कैसे अच्छी तरह भिक्षु-संघको बनाया है । हे गौतम ! अतीत-कालमें भी जो अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध हुये, उन भगवानोंने भी इतने ही मात्र अच्छी तरह भिक्षु-संघको प्रतिपन्न किया (= बनाया) होगा, जैसा कि इस वक्त आप गौतमने अच्छी तरह भिक्षु-संघको प्रतिपन्न किया है । भो गौतम ! भविष्य-कालमें भी जो अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध होंगे ० ।”

“ऐसा ही है, कन्दरक ! ऐसाही है, कन्दरक ! जो कोई कन्दरक ! अतीत कालमें अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध हुये ० । ० भविष्य-कालमें अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध होंगे ० । कन्दरक ! इस भिक्षु-संघमें क्षीणास्त्रव, (ब्रह्मचर्य-) वाससमाप्त, कृत-कृत्य, भारमुक्त, सत्य-अर्थ-प्राप्त, भव-बंधन-मुक्त, सम्यग्ज्ञान-द्वारा-मुक्त अर्हत् भी हैं । कन्दरक ! इस भिक्षु-संघमें निरन्तर शील(-युक्त), निरन्तर (सु-) वृत्ति (-युक्त), सन्तोषी, सन्तोष-वृत्ति-युक्त श्रेष्ठ्य (= सीखनेवाले) भी हैं, जोकि चारों स्मृति-प्रस्थानों-में स्थिर-चित्त हो विहरते हैं । कौनसे चार (स्मृति-प्रस्थानों) में ?—०^१ धर्मोंमें धर्मानुपश्यो ० ।

ऐसा कहनेपर ० पेस्सने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य ! भन्ते ! अद्भुत !! भन्ते ! भगवान्ने भन्ते ! प्राणियोंकी विशुद्धिके लिये, शोक-पीडा हटानेके लिये, दुःख = दौर्मनस्य मिटानेके लिये, न्याय (= परमज्ञान)की प्राप्ति-के लिये, निर्वाणके साक्षात्कारके लिये, इन चार स्मृति-प्रस्थानोंको कितनी अच्छी तरह बतलाया है । श्वेतवस्त्रधारी हम गृही भी समय समयपर, इन चार स्मृति-प्रस्थानोंमें चित्तको सुप्रतिष्ठित कर विहरते हैं । भन्ते ! हम कायामें ० काय-अनुपश्यी विहरते हैं ०^१ धर्मोंमें धर्मानु-पश्यी विहरते हैं । आश्चर्य ! भन्ते ! अद्भुत !! भन्ते ! इतनी मनुष्योंकी गहनता (= दुरूह)

^१ देखो सतिपट्टान-सुत्त (पृष्ठ ३५-४०)

(होनेपर भी) इतने मनुष्योंके कसट (= मैल), इतनी मनुष्योंकी शठता होनेपर भी, मन्ते ! मगवान् प्राणियोंके हिताहितको देखते हैं । मन्ते ! मनुष्य गहन हैं; मन्ते ! जो पशु हैं वह उत्तान (= खुले, सरल) हैं । मन्ते ! मैं हाथीके स्वभावको जानता हूँ, चम्पामें जितने समयमें वह (= हाथी) गमन-आगमन करेगा, (अपनी) समी शठता, कुटिलता, वक्रता = जिह्मताको प्रकट कर देगा । किन्तु, मन्ते ! हमारे दास=प्रेष्य या कर्मकर हैं, (वह) कायासे दूसराही करते हैं, वचनसे दूसरा कहते हैं और उनके चित्तमें और ही होता है । आश्चर्य ! मन्ते ! अद्भुत !! मन्ते ! मनुष्योंकी इतनी गहनता ० जो पशु हैं, वह उत्तान हैं ।”

“यह ऐसा ही है पेस्स ! यह ऐसा ही है पेस्स ! जो मनुष्य गहन हैं, पशु उत्तान हैं । पेस्स ! लोकमें यह चार (प्रकार)के पुद्गल (= पुरुष) होते हैं । कौनसे चार ?—पेस्स ! (१) यहाँ कोई पुद्गल आत्मंतप—अपनेको संताप देनेवाले कामोंमें लगा होता है; (२) ...कोई पुद्गल परंतप—परको संताप देनेवाले उद्योगोंमें लगा होता है; (३) ...कोई पुद्गल आत्मंतप-परंतप होता है—अपनेको सन्ताप देनेवाले उद्योगोंमें भी लगा होता, परको सन्ताप देनेवाले उद्योगोंमें भी लगा होता है; (४) ...कोई पुद्गल न आत्मंतप-न-परंतप होता है—(वह) न अपनेको सन्ताप देनेवाले उद्योगोंमें लगा होता, न परको सन्ताप देनेवाले उद्योगोंमें लगा होता है । अन्-आत्मंतप-अ-परंतप हो, वह शांत, सुखी, शीतल (स्वभाव), सुख-अनुभवी, ब्रह्मभूत (= विशुद्ध) -आत्मासे विहरता है । पेस्स ! इन चार पुद्गलोंमें कौनसा तेरे चित्तको पसन्द आता है ?”

“मन्ते ! जो यह आत्मंतप ० पुद्गल है, वह मेरे चित्तको पसन्द नहीं है । जो यह परंतप ० पुद्गल है, वह भी ० पसन्द नहीं है । जो यह आत्मंतप-परंतप ० पुद्गल है, वह भी पसन्द नहीं है । जो यह अन्-आत्मंतप-अ-परंतप ० पुद्गल है, वह ० सुझे पसन्द है ।”

“पेस्स ! क्यों यह तीन पुद्गल तेरे चित्तको पसन्द नहीं हैं ?”

“मन्ते ! जो आत्मंतप ० पुद्गल है, वह सुखेच्छुक, दुःख-प्रतिकूल हो अपनेको आतापित परितापित करता है, इसलिये मन्ते ! यह पुद्गल मेरे चित्तको पसन्द नहीं आता । जो वह मन्ते ! परंतप ० पुद्गल है, वह सुखेच्छुक दुःख-प्रतिकूल दूसरेको आतापित परितापित करता है । इसलिये मन्ते ! यह पुद्गल ० । जो वह मन्ते ! आत्मंतप-परंतप ० पुद्गल है । वह सुखेच्छुक, दुःख-प्रतिकूल अपनेको और दूसरेको ० । जो यह मन्ते ! ० अन्-आत्मंतप-अ-परंतप ० पुद्गल ० ब्रह्मभूत-आत्मासे विहरता है; यह सुखेच्छु दुःख-प्रतिकूल हो अपने और परके चित्तको नहीं तपाता, न सन्ताप देता, इसलिये मन्ते ! यह पुद्गल मेरे चित्तको पसन्द आता है । हन्त ! मन्ते ! अब हम जाते हैं; बहुकृत्य-बहुकरणीय हैं हम, मन्ते !”

“जिसका पेस्स ! तू समय समझता है, (वैया कर) ।”

तब हाथीवान्का पुत्र पेस्स मगवान्के मापणको अभिनंदित अनुमोदित कर आसनसे उठ, मगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया ।

तब पेस्सके जानेके थोड़े ही समय बाद मगवान्ने मिश्रुओंको संबोधित किया—

“मिश्रुओ ! पेस्स पंडित है । महाप्रज्ञ है मिश्रुओ ! पेस्स । यदि मिश्रुओ ! पेस्स सुहृत् मर और बैठता, जितनेमें कि मैं इन चारों पुद्गलोंको विस्तारसे विभाजित करता, (तो वह) बड़े अर्थसे युक्त होजाता । परन्तु, इतनेसे भी मिश्रुओ ! पेस्स बड़े अर्थसे युक्त है ।”

“इसीका मगवान् ! समय है, इसीका सुगत ! काल है; कि मगवान् इन चारों पुद्गलोंको विस्तारसे विभाजित करें । मगवान्से सुनकर मिश्रु धारण करेंगे !”

“तो मिश्रुओ ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा, मन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! कौनसा पुद्गल आत्मंतप—अपनेको संताप देनेवाले कामोंमें लग्न है ?—भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुद्गल अचेलक (= नंगा) ०^१ ऐसे बनेक प्रकारसे कायाके आतापन सन्तापनके व्यापारमें लग्न हो विहरता है । भिक्षुओ ! यह पुद्गल आत्मंतप ० कहा जाता है ।

“भिक्षुओ ! कौनसा पुद्गल परंतप ० है ?—भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुद्गल औरधिक (= भेद मारनेवाला), शूकरिक, शाकुन्तिक, मार्गविक (= मृग मारनेवाला), रुद्र, मत्स्य-घातक, चोर, चोरघातक, बन्धनागारिक (= जेलर) और जो दूसरे भी क्रूर व्यवसाय हैं (उनका करनेवाला होता है) । भिक्षुओ ! यह पुद्गल परन्तप ० कहा जाता है ।

“भिक्षुओ ! कौनसा पुद्गल आत्मंतप-परंतप ० है ?—भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुरुष मूर्धा-मिषिक क्षत्रिय राजा होता है या महाशाल (= महाधनी) ब्राह्मण होता है । वह नगरके पूर्व द्वार पर नये संस्थागार (= यज्ञशाला)को बनवा दाढ़ी-भूँछ मुँडा वर-अजिन धारणकर घी तेलसे शरीर को चुपड़, मृगके सींगसे पीठको खुजलाते हुये (अपनी) महिषी (= पटरानी) और ब्राह्मण पुरोहितके साथ संस्थागारमें प्रवेश करता है । वह वहाँ गोबरसे लिपी नंगी भूमिपर शय्या करता है । समान रूपके वच्छेवाली एक (ही) गायके एक स्तनके दूधसे राजा गुजारा करता है; जो दूसरे स्तनमें दूध है, उससे महिषी गुजारा करती हैं; जो तीसरे स्तनमें दूध है, उससे ब्राह्मण पुरोहित ०; जो चौथे स्तनमें दूध है, उससे अग्निमें हवन करता है; शेष वचेसे वछडा ० । वह (यजमान) ऐसा कहता है—यज्ञके लिये इतने वैल मारे जायें, ० वछड़े ०, ० इतनी वछियाँ ०, ० इतनी वकरियाँ ०, ० इतनी भेड़ें, ०, ० इतने वृक्ष काटे जायें, वेदी (= वहिष)के लिये इतना कुश काटा जाये । जो इसके दास=प्रेष्य या कर्मकर होते हैं, वह भी दंडसे तर्जित, भयभीत अश्रु-मुख होते कामोंको करते हैं । भिक्षुओ ! यह कहा जाता है आत्मंतप-परंतप ० पुद्गल ।

“भिक्षुओ ! कौनसा पुद्गल अन्-आत्मंतप-अ-परंतप ० है ?—भिक्षुओ ! यहाँ(लोकमें) तथागत ० उत्पन्न होते हैं ०^२ चतुर्यध्यानको प्राप्त हो विहरता है ।

“सो वह इस प्रकार चित्तके ‘एकाग्र, परिशुद्ध ०^३ भय यहाँ करनेके लिये कुछ शेष नहीं है’—यह जान लेता है । भिक्षुओ ! यह कहा जाता है अन्-आत्मंतप-अ-परंतप ० पुद्गल ० ।”
भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।

^१ देखो पृष्ठ ४८ ।

^२ देखो पृष्ठ ११३ ।

^३ देखो पृष्ठ १५-१६ (वाक्यमें उत्तम पुरुषके

५२—अट्टकनागर-सुत्तन्त (२।१।२)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय आयुष्मान् आनन्द वैशालीके वेलुवगामक (= वेणुग्राम) में विहरते थे ।

उस समय अट्टकनागर दसम गृहपति किसी कामसे पाटलिपुत्र आया हुआ था । तब .दसम गृहपति, जहाँ कुक्कुटाराममें कोई भिक्षु था, वहाँ गया; जाकर उस भिक्षुको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे ० दसम गृहपतिने उस भिक्षुसे यह कहा—“भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द इस समय कहाँ विहार करते हैं ? हम उन आयुष्मान् आनन्दके दर्शनाकांक्षी हैं ।”

“गृहपति ! आयुष्मान् आनन्द वैशालीके वेलुवगामकमें विहार कर रहे हैं ।”

तब ० दसम गृहपति पाटलिपुत्रमें उस कामको करके, जहाँ वैशाली थी, जहाँ वेलुव-गामकमें आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे .दसम गृहपतिने आयुष्मान् आनन्दसे यह कहा—

“भन्ते, आनन्द ! क्या उन भगवान् जाननहार, देखनहार अर्हत् सम्यक्-संमुद्घने ऐसा एक धर्म उपदेश किया है, जिसमें प्रमादरहित, एकाग्रतायुक्त तत्पर हो विहरते, भिक्षुका अ-मुक्त चित्त विमुक्त (= मुक्त) हो जाये, अक्षीण आस्रव क्षीण हो जाये, अ-प्राप्त अनुपम योग-क्षेम (= निर्वाण) प्राप्त हो जाये ?”

“किया है गृहपति ! उन भगवान् ० ने ऐसे एक धर्मका उपदेश ० अनुपम योगक्षेम प्राप्त हो जाये ।”

“भन्ते आनन्द ! उन भगवान् ० ने ऐसा कौनसा एक धर्मका उपदेश किया है ० ?”

“यहाँ गृहपति ! भिक्षु कामोंसे विरहित ०^१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह ऐसा सोचता है—“अरे ! यह प्रथम-ध्यान भी संस्कृत (= कृत) = अमि-संस्कृत = अभिसंचेतयित है । जो कुछ भी संस्कृत ० है, वह अनित्य = निरोध-धर्मा है”—यह समझता है । उस (ध्यान) में अवस्थित हो आस्रवों (= चित्त-मलों) के क्षयको प्राप्त होता है । यदि आस्रवोंके क्षयको प्राप्त नहीं होता, तो उसी धर्म-अनुरागसे = उसी धर्म-नन्दीसे पाँचो अवर-भागीय (= ओरंभगिय) संयोजनोंके क्षयसे उस लोकसे फिर न लौटकर वहीं निर्वाणको प्राप्त होनेवाला औपपातिक (= अयो-निज देव) होता है । गृहपति ! यह भी उन भगवान् ० ने ऐसे एक धर्मको उपदेश किया है ० ।

“और फिर गृहपति ! ०^१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह ऐसा सोचता है ० । यह भी उन भगवान् ० ने ऐसे एक धर्मका उपदेश किया है ० ।

“और फिर गृहपति ! ०^१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह ऐसा सोचता है ० ।

^१ देखो शृष्ठ १५ ।

“और फिर गृहपति ! ०^१ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह ऐसा सोचता है ० ।

“और फिर गृहपति ! भिक्षु मैत्री-युक्त चित्तसे एक दिशाको परिपूर्ण कर विहरता है। वैसे-ही दूसरी ०^२ । मैत्री-युक्त चित्तसे सारे लोकको परिपूर्ण कर विहरता है। वह कल्पना-युक्त चित्तसे ० । मुदिता-युक्त चित्तसे ० । उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० । वह यह सोचता है—० ।

“और फिर गृहपति ! भिक्षु रूप-संज्ञाको सर्वथा छोड़नेसे, प्रतिहिंसाकी संज्ञाओं (= क्याल) के सर्वथा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओंके न करनेसे, ‘आकाश अनन्त’ है, इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। वह यह सोचता है—० ।

“और फिर गृहपति ! भिक्षु आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर ० ३ विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। वह यह सोचता है—० ।

“०^३ आर्किचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। वह यह सोचता है—० ।

“०^३ नैव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतन ० । वह यह सोचता है—० ।”

ऐसा कहनेपर अटुकनागर दसम गृहपतिने आयुष्मान् आनन्दसे यह कहा—“भन्ते आनन्द ! जैसे पुरुष एक निधि-मुख (= खजानेके मुँह) को खोजता एक ही बार ग्यारह निधि-मुखोंको पा जाये ऐसेही भन्ते आनन्द ! मैंने एक अमृत-द्वारको खोजते, एकही बार ग्यारह अमृतद्वार सुननेको पाये। भन्ते आनन्द ! जैसे (किली) पुरुषके पास ग्यारह द्वारोंवाला आगार हो; वह उस घरमें भाग लग जानेपर किली एक द्वारसे अपनी रक्षा कर सकता है; ऐसे ही भन्ते आनन्द ! मैं इन ग्यारह अमृतद्वारोंमेंसे किली एक अमृत-द्वारसे अपनी स्वस्ति (= मंगल) कर सकता हूँ। यह, भन्ते। दूसरे तीर्थ (= मत) वाले भी आचार्यकी (पूजाके) लिये आचार्य-धन (= आचार्यको देने लायक पूजा द्रव्य) की खोज करते हैं; फिर मैं क्यों न आयुष्मान् आनन्दकी पूजा करूँ ?”

तब दसम गृहपतिने पाटलिपुत्रके तथा वैशालीके भिक्षु-संघको एकत्रित कर, अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यद्वारा सन्तर्पित = सम्प्रवारित किया; एक एक भिक्षुको एक एक दुस्स-युग (= धूसेका जोड़ा, थानजोड़ा) ओढ़ाया, और आयुष्मान् आनन्दको तीनों चीवरों (= भिक्षुके तीन वस्त्र—संघाटी, उत्तरासंग, अन्तर्वासक) से आच्छादित किया; तथा आयुष्मान् आनन्दके लिये पाँचसौ विहार (= रहनेकी कोठरियाँ) बनवाये।

^१ देखो पृष्ठ १५ ।

^२ देखो पृष्ठ २५ ।

^३ देखो पृष्ठ २७-२८ ।

५३—सेख-सुत्तन्त (२।१।३)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् शाक्य (देश)में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे ।

उस समय कपिलवस्तुके शाक्योंने अभीही अभी एक नया संस्थागार (= गण-संस्थाका आगार) बनवाया था; श्रमण ब्राह्मण या किसी मनुष्य-भूत द्वारा जिसका अभी उपयोग नहीं हुआ था । तब कपिलवस्तुके शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ कपिलवस्तुके शाक्योंने भगवान्से यह कहा—

“मन्ते ! यहाँ (हम) कपिलवस्तुके शाक्योंने अभी ही अभी एक नया संस्थागार बनवाया है ० । उसका मन्ते ! भगवान् पहिले उपभोग करें । भगवान्के पहिले परिभोग करलेनेके बाद कपिलवस्तुके शाक्य उसका परिभोग करेंगे । यह कपिलवस्तुके शाक्योंको चिरकालतकके-हित सुखके लिये होगा ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । तब कपिलवस्तुके शाक्य भगवान्की स्वीकृतिको जानकर, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, यहाँ संस्थागार था, वहाँ गये । जाकर संस्थागारमें सब ओर फर्श बिछा, आसनोंको स्थापित कर, पानीके मटके रख, तेलके प्रदीप आरोपित कर; जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादनकर ० एक ओर खड़े हो...बोले—

“मन्ते ! संस्थागार सब ओरसे बिछा हुआ है, आसन स्थापित किये हुये हैं; पानीके मटके रखे हुये हैं, तेल-प्रदीप आरोपित किये हैं । मन्ते ! अब भगवान् जिसका काल समझें (वैसा) करें ।”

तब भगवान् पहिन कर पात्र-चीवर ले, भिक्षुसंघके साथ जहाँ संस्थागार था, वहाँ गये । जाकर पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेश कर, पूर्वकी ओर मुँह कर बैठे; भिक्षु संघ भी पैर पखार ० पच्छिमकी भीतके सहारे भगवान्को आगे कर बैठा । कपिलवस्तुवाले शाक्य भी पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेश कर पच्छिमकी ओर मुँह कर पूर्वकी भीतके सहारे भगवान्को सम्मुख रख कर बैठे । तब भगवान्ने कपिलवस्तुके शाक्योंको बहुत रात तक धार्मिक कथासे संदर्शित = समादपित, सुसुत्तेजित, संप्रशंसित कर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

“आनन्द ! अब कपिलवस्तुके शाक्योंको धाकी उपदेश दू कर; मेरी पीठ अगिया रही है; सो मैं लेटूँगा ।”

“अच्छा, मन्ते !”—(कह) आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को उत्तर दिया ।

तब भगवान्ने चौपैती संघाटी (= भिक्षुकी ऊपरी दोहरी चदर) बिछवा, दाहिनी कर-वटके बल, पैरपर पैर रख, स्मृति-संप्रजन्यके हाथ, उत्थानकी संज्ञा (= ब्याल) मनमें कर सिंह-शय्या लगाई ।

तब आयुष्मान् आनन्दने महानाम शाक्यको संबोधित किया—

“महानाम ! (जव) आर्य श्रावक शील (= सदाचार)से युक्त, इन्द्रियमें संयत (= गुप्त-द्वार), भोजनमें मात्राको जाननेवाला, जागरणमें तत्पर, सात सद्धर्मोंके सहित, इसी जन्ममें सुखसे विहारके उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोका पूर्णतया लामी (= पानेवाला), विना कठिनाईके लामी = (अ-कृच्छ्र-लामी) होता है ।

“महानाम ! कैसे आर्यश्रावक शील-संपन्न होता है ?—जव महानाम ! आर्यश्रावक शीलवान् (= सदाचारी) होता है । प्रातिमोक्ष (= मिश्रुनियम)-संवर (= रक्षा)से संवृत (= रक्षित) हो विहरता है । आचार-गोचर-संपन्न (हो) अणुमात्र दोषोंमें भी मय देखनेवाला (होता है) । शिक्षापदों (= सदाचार-नियमों)को स्वीकार कर (उनका) अभ्यास करता है । इस प्रकार महानाम ! आर्यश्रावक शील-सम्पन्न होता है ।

“महानाम ! कैसे आर्यश्रावक इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार होता है ?—जव महानाम ! आर्यश्रावक चक्षु (= आँख)से रूपको देख कर न निमित्त (= आकार, लिंग)का ग्रहण करनेवाला होता है, न अनुवर्णन (= लक्षण)का ग्रहण करनेवाला होता है । जिस विषयमें चक्षु-इन्द्रियके अ-संवृत (= अ-रक्षित)हो विहरनेपर अभिध्या (= लोभ), दौर्मनस्य (रूपी)पाप = बुराईयाँ आ झुसती हैं; उसके संवर (= रक्षा)में तत्पर होता है, चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करता है = चक्षु-इन्द्रियमें संवरयुक्त होता है । श्रोत्रसे शब्द सुन कर ० । घ्राणसे गंध सूँघ कर ० । जिह्वासे रस चख कर ० । कायासे स्प्रष्टव्य (विषय)को स्पर्श कर ० । मनसे धर्मको जान कर ० मन-इन्द्रियमें संवर-युक्त होता है; इस प्रकार महानाम ! आर्यश्रावक इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार होता है ।

“कैसे महानाम ! आर्यश्रावक भोजनमें मात्राका जाननेवाला होता है ?—महानाम ! मिश्रु ठीकसे जानकर आहार ग्रहण करता है, क्रीड़ा, मद, मंदन-विभूषणके लिये न करके (उतना ही आहार सेवन करता है) जितना कि शरीरकी स्थितिके लिये (आवश्यक) है, (भूखके) प्रकोपके शमनकरने तथा ब्रह्मचर्यमें सहायताके लिये (आवश्यक है) । (यह सोचते हुये, कि) पुरानी (कर्म-विपाक रूपी) वेदनाओं (= पीड़ाओं)को स्वीकार करूँगा; नई वेदनाओंके उत्पन्न होनेकी (नौवत) न आने दूँगा; मेरी शरीरयान्ना निर्दोष होगी, और विहार निर्द्वन्द्व होगा । इस प्रकार महानाम ! आर्यश्रावक भोजनमें मात्राज्ञ होता है ।

“कैसे महानाम ! आर्यश्रावक जागरणमें तत्पर होता है ?—महानाम ! मिश्रु दिनमें टहलने बैठने ०^१ या (अन्य) आचरणीय धर्मोंसे चित्तको शुद्ध करता है । इस प्रकार ० ।

“कैसे महानाम ! आर्यश्रावक सात सद्धर्मोंसे युक्त होता है ?—महानाम ! मिश्रु (१) श्रद्धालु होता है—तथागतकी बोधि (= परमज्ञान)में श्रद्धा करता है—‘वह भगवान् अर्हंत ०’^२ देव-मनुष्योंके शास्ता बुद्ध भगवान् हैं । (२) ह्योमान् (= लज्जाशील) होता है—कायिक, वाचिक, मानसिक बुराचारोंसे लजित होता है, पापों=बुराईयोंके आचरणसे लजित होता है । (३) अपन्नपो (= संकोची) होता है—० पापों=बुराईयोंके आचरणसे संकोच करता है । (४) यद्गुप्त श्रुत-धर=श्रुत-संचयी होता है—जो वह धर्म आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याण, सार्थक=स-व्यंजन हैं, (जो) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको खानते हैं, वैसे धर्म (= उपदेश) उसके बहुत सुने, वचनसे धारित, परिचित, मनसे चिन्तित, दृष्टि (= दर्शन, ज्ञान)मे अवगाहित (= प्रतिबिद्ध) होते हैं । (५) आरब्धवीर्य (= उद्योगी) होता है—बुराईयों (= अकुशल-धर्मों)

के छोड़नेमें, और भलाइयोंके ग्रहण करनेमें, स्थिर दृढ़-पराक्रमी होता है। भलाइयोंमें स्थिर, अ-निक्षिप्त-धुर (= जूआ न उतार फेंकनेवाला) होता है। (६) स्मृतिमान् होता है—परम परिपक्व स्मृति (= याद)से युक्त होता है। चिरकालके क्रिये और कहेका स्मरण करनेवाला, अनुस्मरण करनेवाला होता है। (७) प्रज्ञावान् होता है—उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त होनेवाली, अच्छी तरह दुःखके क्षयकी ओर ले जानेवाली आर्य निर्वेधिक (= वस्तुके तह तक पहुँचनेवाली) प्रज्ञासे युक्त होता है। इस प्रकार महानाम ! ० ।

“कैसे महानाम ! आर्यश्रावक इसी जन्ममें सुख-विहारके उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका पूर्णतया लाभ, विना कठिनाईके लाभ, अकृच्छ-लाभी होता है ?—महानाम ! आर्यश्रावक कामों से विरहित ०^१ प्रथम-ध्यानको ० । ०^१ द्वितीय-ध्यानको ० । ०^१ तृतीय-ध्यानको ० । ०^१ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। इस प्रकार महानाम ! ० ।

“जब महानाम ! आर्यश्रावक इस प्रकार शील-सम्पन्न होता है, इस प्रकार इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार होता है, इस प्रकार भोजनमें मात्राज्ञ होता है, इस प्रकार जागरणमें तत्पर (= अनुयुक्त) होता है, इस प्रकार सात सद्धर्मोंसे समन्वित होता है, इस प्रकार ० चारों चेतसिक ध्यानोंका पूर्णतया लाभ ० होता है। महानाम ! यह आर्यश्रावक शैक्ष्य (= निर्वाण प्राप्तिके लिये जिसे अभी कुछ करना है) प्रातिपद् (= मार्गारूढ़) कहा जाता है। (वह) न-सड़े-अंडे (की भाँति) (पुरुष) निर्भेद (= तह तक पहुँचने)के योग्य है, संघोध (= परमज्ञान)के योग्य है, अनुपम योग-क्षेम (= निर्वाण)की प्राप्तिके योग्य है।

“जैसे महानाम ! आठ, दस या बारह मुर्गीके अंडे हों ०^२ तो भी वह चूजे पाद-नखसे या मुख-तुंडसे अंडेको फोड़कर स्वस्तिपूर्वक निकल आनेके योग्य है; ऐसे ही महानाम ! जब आर्यश्रावक इस प्रकार शील-सम्पन्न होता है ०, तो महानाम ! यह आर्यश्रावक शैक्ष्य ० कहा जाता है, ० (वह) अनुपम योग-क्षेमकी प्राप्तिके योग्य है।

“महानाम ! वह आर्यश्रावक इसी अनुपम समृत्तिकी परिशुद्धि (करनेवाली) उपेक्षा^३ द्वारा अनेक प्रकारके पूर्व निवासों (= पूर्वजन्मों)को स्मरण करने लगता है ०^३ इस प्रकार आकार और उद्देश्यसहित अनेक प्रकारके पूर्व निवासोंको स्मरण करने लगता है। यह महानाम ! मुर्गीके चूजेका अण्डेके कोशसे पहिला फूटना होता है।

“महानाम ! फिर वह आर्यश्रावक इसी ० उपेक्षा द्वारा अ-मानुष विशुद्ध दिव्य, चक्षुसे ०^३ कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहिचानता है। यह महानाम ! ० दूसरा फूटना है।

“महानाम ! फिर वह आर्यश्रावक इसी ० उपेक्षा द्वारा आस्रवोंके क्षयसे आस्रव-रहित चित्त-विमुक्ति (= शुक्ति) प्रज्ञा-त्रिमुक्तिको इसी जन्ममें जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता है। यह महानाम ! ० तीसरा फूटना है।

“महानाम ! जो कि आर्यश्रावक शील-सम्पन्न होता है, यह भी उसके चरण (= पद या आचरण)में है। जो कि महानाम ! आर्यश्रावक इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार होता है, यह भी उसके चरणमें है। ० भोजनमें मात्राज्ञ ० । ० जागरणमें अनुयुक्त ० । ० सात सद्धर्मोंसे संयुक्त ० । ० चार आभिचेतसिक (= शुद्ध चित्तवाले) ध्यानोंका पूर्णतया लाभ ० ।

“महानाम ! जो कि आर्यश्रावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको जानता है ०^३ । यह भी उसकी विद्यामें है। ० विशुद्ध दिव्य-चक्षु ०^३ । ० आस्रवोंके क्षय ०^३ ।

“महानाम ! ऐसे आर्यश्रावक विद्या-सम्पन्न कहा जाता है; इस प्रकार चरण-सम्पन्न (कहा जाता है) । इस प्रकार विद्या-चरण-संपन्न (होता है) ।

“महानाम ! सनत्कुमार ब्रह्माने भी यह गाथा कही है—

‘गोत्रका ख्याल करनेवाले लोगोंमें जन्मसे क्षत्रिय श्रेष्ठ है ।

जो विद्या-चरण-सम्पन्न है, वह देव-मनुष्योंमें (सबसे) श्रेष्ठ है ॥’

“महानाम ! सनत्कुमार ब्रह्माकी गाई यह गाथा सु-गीता (= बचित कथन) है, दुर्गीता नहीं; सुभाषिता है, दुर्भाषिता नहीं; अर्थ-युक्त है अन्-अर्थ-युक्त नहीं; भगवान् द्वारा भी (यह) अनुमत है ।”

तब भगवान्ने उठकर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

“साधु, साधु (= शावाज्ञ), आनन्द ! तूने कपिलवस्तुके शाक्योंके लिये शैश्य मार्गका अच्छी तरह व्याख्यान किया ।”

आयुष्मान् आनन्दने यह कहा, शास्ता (= बुद्ध) उससे सहमत हुये । कपिलवस्तुके शाक्योंने आयुष्मान् आनन्दके भाषणको अभिर्नदित किया ।

५४—पोतलिये-सुत्तन्त (२।१।४)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् अंगुत्तराप-(देश)में अंगुत्तरापोके आपण नामक निगम (= कस्वे)में विहार करते थे^१ ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्र-चीवर ले, भिक्षा-चारके लिये आपणमें प्रविष्ट हुये । आपणमें पिंड-चार करके पिंड-पात (= भोजन)-समाप्तकर, एक वन-खंडमें दिनके विहारके लिये गये । भीतर जाकर दिनके विहारके लिये एक वृक्षके नीचे बैठे । पोतलिय गृह-पति भी निवासन (= पोशाक) आवरण (= चादर) पहिने, छाता जृता धारण किये, जंघा-विहार (= चहल-कदमी)के लिये टहलता, जहाँ वह वनखंड था वहाँ गया । वनखंडमें घुसकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा । जाकर भगवान्के साथ...संमोदन कर... (ओर) एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये पोतलिय गृह-पतिको भगवान्ने यह कहा—

“गृहपति ! आसन विद्यमान है, यदि चाहते हो, तो बैठो ।”

ऐसा कहनेपर पोतलिय गृह-पति—“गृहपति (= गृहस्थ, वैश्य) कहकर मुझे श्रमण गौतम

^१ (यहाँ अट्टकथामें है)—“अङ्गही यह जनपद है । मही (? गंगा) नदीके उत्तरमें जो पानी है, उसके अ-दूर उत्तर होनेसे उत्तराप कहा जाता है । किस महीके उत्तरमें... ? महामहीके ।...। यह जम्बूद्वीप दश-सहस्र-योजन बड़ा है । इसमें चार हजार योजन प्रदेश जलसे भरा होनेसे, समुद्र कहा जाता है । (और) तीन हजार योजनमें मनुष्य बसते हैं । तीन हजार योजनमें चौरासी हजार कूटों (= चोटियों)से सुशोभित, चारों ओर बहती पाँच सौ नदियोंसे विचित्र, पाँच सौ योजन ऊँचा हिमवान् (= हिमालय) है । जहाँपर कि—लम्बाई, चौड़ाई, गहराईमें पचास पचास योजन; घेरेमें डेढ़सौ योजन, अनवतस-दह, कण्णमुंड-दह, रथकार-दह, छद्दन्त-दह, कुणाल-दह, मंदाकिनी सिंहप्पातक (= सिंह-प्रपातक) यह सात महासरोवर प्रतिष्ठित हैं । अनोतत्त-दह, सुदर्शन-कूट, चित्र-कूट, काल-कूट, गंधमादन-कूट, कैलाश-कूट इन पाँच कूटों (= गिरिशिखरों)से घिरा है ।...। इसके चारों ओर सिंह-मुख, हस्ति-मुख, अश्व-मुख, गो (= वृषभ)-मुख—चार मुख हैं; जिनसे चार नदियाँ निकलती हैं । सिंह-मुखसे निकली नदीके किनारे सिंह बहुत होते हैं । हस्ति आदि मुखोंसे (निकली नदियोंके किनारे) हस्ती, अश्व और बैल ।...। गङ्गा, यमुना, अचिरवती (= राप्ती), सरभू (= सरयू, घाघरा), मही (= गंडक)...यह पाँच नदियाँ हिमवान्से निकलती हैं । इनमें जो यह पाँचवीं मही है, वही इस महीसे अभिप्रेत है ।...। इस अंगुत्तराप जनपदमें आपण...निगममें बीस हजार आपणों (= दुकानों)के मुँह विभक्त थे । इस प्रकार आपणों (= दुकानों) से भरे होनेसे, आपण नाम हो गया । उस निगमके अ-दूर, नदीतीर-पर घनी छायावाला रमणीय भूमि-भागका वन-खंड था । उसमें भगवान् विहरते थे ।

पुकारता है'—कुपित और अ-सन्तुष्ट हो चुप रहा ।

दूसरी बार भी ० । ० । तीसरी बार भी ० ।

तब पोतलिय गृहपतिने—'गृहपति कहकर ०'—कुपित और असन्तुष्ट हो भगवान्‌ने कहा—

“भो गौतम ! तुम्हें यह उचित नहीं, तुम्हें यह योग्य नहीं, जो मुझे गृहपति कहकर पुकारते हो !”

“गृहपति ! तेरे वही आकार हैं, वही लिङ्ग हैं; वही निमित्त (= लिङ्ग) हैं, जैसे कि गृह-पति के ।”

“चूँकि भो गौतम ! मैंने सारे कर्मान्त (= खेती) छोड़ दिये, सारे व्यवहार (= व्यापार, वाणिज्य) समाप्त कर दिये । भो गौतम ! मेरे पास जो धन, धान्य, रजत (= चाँदी), जातरूप (= सोना) था, सब पुत्रोंको तर्का दे दिया ! सो मैं (खेती आदिमें) न ताकीद करनेवाला, न कट्ट कहनेवाला हूँ ; सिर्फ़ खाने पहिरने भरसे वास्ता रखनेवाला (हो), विहरता हूँ ।”

“गृहपति ! तू जिस प्रकार व्यवहारके उच्छेदको कहता है । आर्योंके विनयमें व्यवहार-उच्छेद, (इससे) दूसरी ही प्रकार होता है ।”

“तो भन्ते ! आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद कैसे होता है ? अच्छा ! भन्ते ! भगवान्‌ मुझे उस प्रकारका धर्म-उपदेश करें, जैसेकि आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद होता है ।”

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो; कहता हूँ ।”

“अच्छा भन्ते !”—पोतलिय गृह-पतिने भगवान्‌से कहा । भगवान्‌ने कहा—

“गृहपति ! आर्य-विनय (= आर्य-धर्म, आर्य-नियम) में यह आठ धर्म व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैं । कौनसे आठ ?—(१) अ-प्राणातिपात (= अहिंसा)के लिये, प्राणातिपात छोड़ना चाहिये । (२) दिया लेने (= दिनादान)के लिये, अ-दिनादान (= चोरी, न दिया लेना) छोड़ना चाहिये । (३) सत्य बोलनेके लिये, मृपावाद छोड़ना चाहिये । (४) अ-पिशुन-वचन (= न चुगली करने)के लिये, पिशुन-वचन छोड़ना चाहिये । (५) अ-गृद्ध-लोभ (= निर्लोभ)के लिये गृद्ध-लोभ छोड़ना चाहिये । (६) अ-निन्दा-दोषके लिये, निन्दा छोड़नी चाहिये । (७) अ-क्रोध उपायास (= परेशानी)के लिये क्रोध-उपायास छोड़ना चाहिये । (८) अन्-अतिमानके लिये, अतिमान (= अभिमान)को छोड़ना चाहिये । गृहपति ! संक्षिप्तसे कहे, विस्तारसे न विभाजित किये, यह आठ धर्म, आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैं ।”

“भन्ते ! भगवान्‌ने जो मुझे विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्तसे, आठ धर्म ० कहे । अच्छा हो भन्ते ! (यदि) भगवान्‌ अनुकम्पाकर (उन्हें) विस्तारसे विभाजित करें ।”

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा भन्ते !”—पोतलिय गृहपतिने भगवान्‌को उत्तर दिया ।

भगवान्‌ बोले—“गृहपति ! ‘अ-प्राणातिपातके लिये प्राणातिपात छोड़ना चाहिये,’ यह जो कहा, किस कारणसे कहा ?—गृहपति ! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है—‘जिन संयोजनोंके कारण मुझे प्राणातिपाती होना है, उन्हीं संयोजनोंको छोड़नेके लिये, उच्छेदके लिये मैं लगा हूँ, और मैं ही प्राणातिपाती हो गया । प्राणातिपातके कारण, आत्मा (= अपना चित्त)भी मुझे धिक्कारता है । प्राणातिपातके कारण, विद्व लोग भी जानकर धिक्कारते हैं । प्राणातिपातके कारण, काया छोड़नेपर, मरनेके बाद, दुर्गति भी होनी है । यही संयोजन (= बंधन) है, यही नीवरण (= ढक्कन) है, जो कि प्राणातिपातके कारण उत्पन्न होनेवाले विवात-परिदाह (= द्वेष-जलन) और आस्रव (= चित्त-दोष) प्राणातिपातसे विरतको नहीं उत्पन्न होते । ‘अ-प्राणातिपातके लिये, प्राणातिपात

छोड़ना चाहिये' यह जो कहा, वह इसी कारणसे कहा ।

“दिज्ञादानके लिये अदिज्ञादान छोड़ना चाहिये, यह जो कहा, किस कारणसे कहा ?— गृहपति ! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है, जिन संयोजनोंके हेतु मुझे अदिज्ञादायी (= विना दिया लेनेवाले) होना है, उन्हीं संयोजनोंके छोड़नेके लिये, उच्छेद करनेके लिये, मैं लगा हुआ हूँ; और मैं ही अ-दिज्ञादायी होगया ! अ-दिज्ञादानके कारण आत्मा भी मुझे धिकारता है । अ-दिज्ञादानके कारण विज्ञ लोग भी जानकर धिकारते हैं । अ-दिज्ञादानके कारण काया छोड़नेपर, मरनेके बाद दुर्गति भी होनी है । यही संयोजन है, यही नीवरण है, जो कि यह अ-दिज्ञादान । अ-दिज्ञादानके कारण विघात (= पीड़ा) परिदाह (= जलन) (और) आस्रव उत्पन्न होते हैं; अ-दिज्ञादान-विरतको ० नहीं होते । ‘दिज्ञादानके लिये अ-दिज्ञादान छोड़ना चाहिये’ यह जो कहा, वह इसी कारण कहा ।

“अ-पिशुन-वचनके लिये ० ।

“अ-गृद्ध-लोभके लिये ० ।

“अ-निन्दा-रोषके लिये ० ।

“अ-क्रोध-उपायासके लिये ० ।

“अन्-अतिमानके लिये ० ।

“गृहपति आर्य-विनयमें यह आठ ! संक्षिप्तसे कहे, विस्तारसे विभाजित, व्यवहार-उच्छेद करनेवाले हैं ।... (किंतु इनसे) सर्वथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेद नहीं होता ।”

“तो कैसे मन्ते ! आर्य-विनयमें...सर्वथा सब कुछ व्यवहार-उच्छेद होता है ? अच्छा हो मन्ते ! भगवान् मुझे वैसे धर्मका उपदेश करें, जैसे कि आर्यविनयमें...सर्वथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेद होता है ?”

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा मन्ते ।” ० । ० ।

“गृहपति ! जैसे भूखसे अति-दुर्बल कुक्कुर गो-घातकके सूना (= मांस काटनेके पीड़े)के पास खड़ा हो । चतुर गो-घातक या गोघातकका अन्तेवासी उसको मांस-रहित लोहमें सनी...हड्डी फेंक दे । तो क्या मानते हो, गृहपति ! क्या वह कुक्कुर उस हड्डी...को खाकर, भूखकी दुर्बलताको हटा सकता है ?”

“नहीं, मन्ते !”

“तो किस हेतु ?”

“मन्ते ! वह लोहमें चुपड़ी मांस-रहित हड्डी है । वह कुक्कुर केवल परेशानी = पीड़ाका ही भागी होगा ।”

“ऐसे ही गृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता है—हड्डी (असिसूना)के समान...भगवान्ने भोगोंको ‘बहुत दुःख’ बहुत परेशानीवाला कहा है, इनमें बहुतसी बुराइयाँ हैं । अतः इसको यथार्थसे, अच्छी तरह प्रज्ञाते, देखकर, जो यह अनेकतावाली अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह एकान्ततावाली एकान्तमें लगी (उपेक्षा) है, जिसमें लोकके आमिष (= विष)के उपादान (= ग्रहण, स्वीकार) सर्वथा हीं टूट जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है ।

“जैसे गृहपति ! गिद्ध, कौवा या चील्ह माँसके टुकड़ेको लेकर उड़े, उसको गिद्ध भी, कौवे भी, चील्ह भी पीछे उड़ उड़कर नोचें, खसोटें । तो क्या मानता है, गृहपति ! वह गिद्ध कौवे

या चीन्ह, यदि शीघ्र ही उस माँसके टुकड़ेको न छोड़ दें, तो क्या वह उसके कारण मरणको या मरणान्त दुःखको पावेंगे न ?”

“ऐसा ही, भन्ते !”

“ऐसे ही, गृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता है—भगवान्ने माँसके टुकड़े माँस-पेशीकी भाँति कामोंको बहुत दुःखवाले बहुत परेशानीवाले कहा है; इनमें-वहुतसी बुराइयाँ हैं। इस प्रकार इसको अच्छी तरह प्रज्ञासे देखकर, जो यह अनेकताकी, अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह एकान्तताकी एकान्तमें लगी उपेक्षा है; जिसमें लोकामिषके उपादान (= ग्रहण) सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है।

“जैसे गृहपति ! पुरुष तृणकी उल्का (= मशाल, लुकारी)को ले, हवाके रुझ जाये। तो क्या मानते हो, गृहपति ! यदि वह पुरुष शीघ्र ही उस तृण-उल्काको न छोड़ दे तो (क्या) वह तृण-उल्का उसके हथेलीको (न) जला देगी, या घाँहको (न) जला देगी, या दूसरे अंग अत्यंगको न जला देगी...?”

“ऐसा ही, भन्ते !”

“ऐसे ही, गृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता है—तृण-उल्काकी भाँति बहुत दुःखवाले बहुत परेशानीवाले हैं ० । ० ।

“जैसे कि गृहपति ! धूम-रहित, अर्चि (= लौ)-रहित अंगारका (= भउर, अग्नि-चूर्ण) हो। तब जीवन-इच्छुक, मरण-अनिच्छुक, सुख-इच्छुक, दुःख-अनिच्छुक पुरुष भावे; उसको दो बलवान् पुरुष अनेक बाहुओंसे पकड़कर अङ्गारकामें डाल दें। तो क्या मानते हो गृहपति ! क्या वह पुरुष इस प्रकार चिताहीमें शरीरको (नहीं) डालेगा ?”

“हाँ भन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“भन्ते ! उस पुरुषको मालूम है, यदि मैं इन अङ्गारकाओंमें गिरूँगा, तो उसके कारण मरूँगा या मरणांत दुःखको पाऊँगा ।”

“ऐसेही गृहपति ! आर्य-श्रावक यह सोचता है—अङ्गारकाकी भाँति दुःखद ० । इसमें बहुत बुराइयाँ हैं । ० ।

“जैसे गृह-पति ! पुरुष आरामकी रमणीयता-युक्त, वन-रमणीयता-युक्त, भूमि-रमणीयता-युक्त, पुष्करिणी-रमणीयता-युक्त स्वप्नको देखे। सो जागनेपर कुछ न देखे। ऐसेही गृहपति ! आर्य-श्रावक यह सोचता है—भगवान्ने स्वप्न-समान (= स्वप्नोपम) बहुत दुःखद ० कहा है । ० ।

“जैसे कि गृह-पति ! (किसी) पुरुष (के पास) मँगनीके भोग, धान या पुरुषके उत्तम मणि-कुंडल हों। वह ० उन मँगनीके भोगोंके साथ वाजारमें जाये। उसको देखकर आदमी कहें—कैसा भोग-संपन्न पुरुष है ! भोगी लोग ऐसे ही भोगका उपभोग करते हैं !! सो उसके मालिक (= स्वामी) ० जहाँ देखें वहाँ कनात लगा दें। तो क्या मानते हो, गृहपति ! क्या उस पुरुषको दूसरा (भाव समझना) युक्त है ?”

“हाँ, भन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“(क्योंकि जेवरोंके) मालिक कनात घेर देते हैं ।”

“ऐसेही गृहपति ! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है—मँगनीकी चीज़के समान (= याचित-कूपम) ० कहा है । ० ।

“जैसे गृहपति ! ग्राम या निगमसे अ-दूर, भारी वन-खण्ड हो । वहाँ फल-सम्पन्न = उत्पन्न-फल वृक्ष हो; कोई फल भूमिपर न गिरा हो । तब फल-इच्छुक, फल-गवेपक = फल-खोजी पुरुष घूमते हुये आवे । वह उस वनके भीतर जाकर, उस फल-संपन्न ० वृक्षको देखे । उसको यह हो—यह वृक्ष फल-सम्पन्न ० है, कोई फल भूमिपर नहीं गिरा है; मैं वृक्षपर चढ़ना जानता हूँ । क्यों न मैं चढ़कर इच्छा-भर खाऊँ, और फाँड (= उच्छङ्ग, उत्सङ्ग) भर ले चलूँ । तब दूसरा फल-इच्छुक, फल-गवेपी = फलखोजी, पुरुष घूमता हुआ तेज़ कुल्हाड़ा लिये उस वन-खण्डके भीतर जाकर, उस वृक्षको देखे । उसको ऐसा हो—यह वृक्ष फल-सम्पन्न ० है, मैं वृक्षपर चढ़ना नहीं जानता; क्यों न इस वृक्षको जड़से काटकर इच्छा भर खाऊँ, और फाँड भर ले चलूँ । वह उस वृक्षको जड़से काटे । तो क्या मानते हो, गृहपति ! वह जो पुरुष पेड़पर पहिले चढ़ा था, यदि जल्दी ही न उतर आये, तो (क्या) वह गिरता हुआ वृक्ष उसके हाथको (न) तोड़ देगा, पैरको (न) तोड़ देगा, या दूसरे अङ्ग-प्रत्यङ्गको (न) तोड़ देगा ? वह उसके कारण क्या मरणको (न) प्राप्त होगा, या मरणान्त दुःखको (न) प्राप्त होगा ?”

“हाँ, भन्ते !”

“ऐसे ही गृह-पति ! आर्य-श्रावक सोचता है—वृक्ष-फल-समान कामोंको ० कहा है; इनमें बहुत सी बुराइयाँ (= आदि-नव) हैं । इस प्रकार इसको यथार्थतः, अच्छी प्रकार, प्रज्ञासे देखकर, जो यह अनेकता-वाली अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़; जो यह एकांतकी एकांतमें लगी उपेक्षा है, जिसमें लोक-आमिषका उपादान (= ग्रहण) सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाता है, उसी उपेक्षाकी भावना करता है ।

“सो वह गृहपति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम (= अनुसार) उपेक्षा, स्मृतिकी पारिशुद्धि (= स्मरणको शुद्धि करनेवाली उपेक्षा) को पाकर, अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों (= पूर्व जन्मों)को स्मरण करता है,—जैसे कि एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म भी ०^१ इस प्रकार आकार-सहित उद्देश (= नाम)-सहित, अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करता है ।

“सो वह गृह-पति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-पारिशुद्धिको पाकर, वि-शुद्ध अ-मानुष दिव्य-चक्षुसे, मरते उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, सुवर्ण-दुर्वर्ण, सुगत-दुर्गत ०^१ कर्मानुसार (फलको) प्राप्त, प्राणियोंको जानता है ।

“सो वह गृह-पति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-पारिशुद्धिको पाकर, इसी जन्ममें आस्रवों (= चित्त-दोषों)के क्षयसे, अन्-आस्रव चित्त-विमुक्तिको जानकर, प्राप्तकर, विहरता है । गृहपति ! आर्य-विनयमें इस प्रकार...सर्वथा सभी कुछ सब व्यवहारका उच्छेद होता है । तो क्या मानता है, गृह-पति ! जिस प्रकार आर्य-विनयमें...सर्वथा सभी कुछ व्यवहार-उच्छेद होता है, क्या तू वैसा व्यवहार-समुच्छेद अपनेमें देखता है ?”

“भन्ते ! कहाँ मैं और कहाँ आर्य-विनयमें...व्यवहार-समुच्छेद !! भन्ते ! पहिले अन्-आजानीय अन्य-तैरिथिक (= पंथाई) परिव्राजकोंको, हम आजानीय (= परिशुद्ध, शुद्धजातिके) समझते थे, अनाजानीय होतोंको आजानीयका भोजन कराते थे, अन्-आजानीय होतोंको आजानीय-स्थानपर स्थापित करते थे । आजानीय भिक्षुओंको अन्-आजानीय समझते थे, आजानीय होतोंको अन्-आजानीय भोजन कराते थे, अजानीय होतोंको अन्-आजानीय स्थानपर रखते थे । भन्ते !

अब हम अन्-आजानीय होते अन्य-तैथिक परिव्राजकोंको अन्-आजानीय जानेंगे, ० अन्-आजानीय भोजन करायेंगे, ० अन् आजानीय स्थानपर स्थापित करेंगे । मन्ते ! अब हम आजानीय होते भिक्षुओंको आजानीय समझेंगे, ० आजानीय भोजन करायेंगे, ० आजानीय स्थानपर रक्खेंगे । अहो ! मन्ते ! भगवान्ने मुझे श्रमणोंमें श्रमण-प्रेम पैदा कर दिया, श्रमणों (= साधुओं)में श्रमण-प्रसाद (= श्रमणोंके प्रति प्रसन्नता), ० श्रमण-गौरव० । आश्चर्य ! मन्ते ! आश्चर्य ! मन्ते ! ०^१ आजसे भगवान् सुद्धे अञ्जलि-वद्ध शरणागत उपासक धारण करें ।”

५५—जीवक-सुत्तन्त (२।१।५)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें जीवक कौमारभृत्यके आम्रवनमें विहार करते थे ।

तब जीवक कौमारभृत्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे जीवकने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! मैंने सुना है—‘श्रमण गौतमके उद्देश्यसे (लोग) जीव मारते हैं, श्रमण गौतम जानते हुये (अपने) उद्देश्यसे बनाये (अपने) उद्देश्यसे किये कर्मवाले मांसको खाता है’ । मन्ते ! जो यह कहते हैं—‘श्रमण गौतम ० खाता है’ क्या मन्ते ! वह भगवान्के विषयमें यथार्थ-वादी हैं ? वह भगवान्पर झूठा इलज़ाम तो नहीं लगाते ? सत्यके अनुसार कहते हैं ? (उनके इस कथनसे) किसी धर्मानुसार वचन-अनुवचनकी निन्दा तो नहीं हो जाती ?”

“जीवक ! जो यह कहते हैं—‘श्रमण गौतम ० खाता है’; वह मेरे विषयमें यथार्थवादी नहीं हैं; वह मुझपर झूठा इलज़ाम (= अभ्याख्यान) लगाते हैं ।...जीवक ! मैं तीन प्रकारके मांसको अ-भोज्य कहता हूँ—^१दृष्ट, श्रुत और परिशंकित ।...जीवक ! तीन प्रकारके मांसको मैं भोज्य कहता हूँ—अ-दृष्ट, अ-श्रुत, अ-परिशंकित ।...”

“जीवक ! कोई भिक्षु किसी गाँव, या निगम (= कस्बे)के पास विहार करता है । वह मैत्री-पूर्ण चित्तसे ०^२ सारे लोकको पूर्णकर विहरता है । उसके पास आकर कोई गृहपति या गृहपति-पुत्र दूसरे दिनके भोजनके लिये निमंत्रण देता है । इच्छा होनेपर जीवक ! भिक्षु (उस निमंत्रण)को स्वीकार करता है । वह उस रातके वीतने पर पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र-चीवर ले, जहाँ उस गृहपति या गृहपति-पुत्रका घर होता है, वहाँ जाता है । जाकर बिछे आसन पर बैठता है । उसे वह गृहपति या गृहपति-पुत्र उत्तम पिंडपात (भिक्षान्न) परोसता है । उस (भिक्षु)को यह नहीं होता—‘अहो ! यह गृहपति या गृहपति-पुत्र मुझे उत्तम पिंडपात परोसे । अहो ! यह ० आगे भी इसी प्रकारका पिंडपात परोसे ।...’वह उस पिंडपातको अ-लोलुप = अ-मूर्छित हो, अनासक्त हो अवगुणका ख्याल रखते, निस्तारकी बुद्धिसे खाता है । तो क्या मानते हो, जीवक ! क्या वह भिक्षु उस समय आत्म-पीड़ा (की बात)को सोचता है, पर-पीड़ाको सोचता है, (आत्म-पर-) उमय-पीड़ाको सोचता है ?”

“नहीं, मन्ते !”

“क्यों जीवक ! उस समय वह निर्दोष (= अनवद्य) आहारहीका ग्रहण कर रहा है न ?”

“हाँ, मन्ते ! मैंने सुना है मन्ते ! कि ब्रह्मा मैत्री-विहारी (= सदा सबको मित्र भावसे

^१ जीवका अपने लिये मारा जाना देखना, सुनना, या शंका होना । ^२ देखो पृष्ठ २५ ।

देखनेवाला) है; सो मैंने मन्ते ! भगवान्को साक्षात् देख लिया । मन्ते ! भगवान् मैत्री विहारी हैं ।”

जीवक ! जिस रागसे, जिस द्वेषसे, जिस मोहसे (आदमी) व्यापादवान् (= द्वेषी, उत्पीड़क) होता है, वह राग-द्वेष-मोह तथागतका नष्ट होगया, उच्छिन्न-मूल, कटे सिरवाले-ताड़-जैसा, अ-भाव-प्राप्त, मविष्यमें उत्पन्न-होनेके-अयोग्य होगया । यदि जीवक ! तूने यह ख्याल करके कहा, तो मैं सहमत हूँ ।”

“यही ख्याल कर मन्ते ! मैंने कहा ।”

“यहाँ जीवक ! कोई भिक्षु किसी गाँव या निगमके पास विहार करता है । वह करुणा-पूर्ण चित्तसे ०^१ । मुदिता-पूर्ण चित्तसे ०^१ । उपेक्षा-पूर्ण चित्तसे ०^१ सारे लोकको पूर्ण कर विहरता है । उसके पास आकर कोई गृहपति या गृहपति-पुत्र दूसरे दिनके लिये भोजनका निमंत्रण देता है । ०^२”

“यही ख्याल कर मन्ते ! मैंने कहा ।”

“जो कोई जीवक ! तथागत या तथागतके श्रावकके उद्देश्यसे जीव मारता है, वह पाँच स्थानोंसे अ-पुण्य (= पाप) कमाता है (१) जो वह यह कहता है—‘जाओ, अमुक जीवको लाओ’; इस पहिले स्थान (= वातसे) वह बहुत अ-पुण्य कमाता है । (२) जो वह गलेमें (रस्सी) बाँधकर खींच कर लाते (पशु)को (देख) दुःख=दौर्मनस्य अनुभव करता है, यह दूसरे स्थान ० । (३) जो वह यह कहता है—‘जाओ; इस जीवको मारो’ इस तीसरे स्थान ० । (४) जो वह जीवोंको मारते समय दुःख = दौर्मनस्य (= संताप) अनुभव करता है; इस चौथे स्थान ० । जो वह तथागत या तथागतके श्रावकको अ-कल्प्य (= अनुचित, अ-विहित)को खिलाता है; इस पाँचवें स्थान ० । जो कोई जीवक ! तथागत या तथागतके श्रावकके उद्देश्यसे जीव मारता है, वह इन पाँच स्थानोंसे अ-पुण्य कमाता है ।”

यह कहनेपर जीवक कौमारभृत्यने भगवान्से यह कहा—“आश्चर्य ! मन्ते ! अद्भुत !! मन्ते ! कल्प्य (= उचित, विहित) आहारको मन्ते ! भिक्षु ग्रहण करने हैं । अहो ! निर्दोष आहार को मन्ते ! भिक्षु ग्रहण करते हैं । आश्चर्य ! मन्ते ! अद्भुत !! मन्ते ! जैसे धौंधेको सीधा करदे ०^३ । यह मैं मन्ते ! भगवान्की शरण आता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी ! भगवान् आजसे मुझे अंजलियद्ध शरणागत उपासक स्वीक (के) रोगे”

५६—उपालि-सुत्तन्त (२।१।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् नालन्दामें प्रावारिकके आम्रवनमें विहार करते थे ।

उस समय निगंठ नात-पुत्त निगंठों (= जैन-साधुओं)की बड़ी परिषद् (= जमात) के साथ नालन्दामें विहार करते थे । तब दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रथ (= जैन साधु) नालन्दामें भिक्षाचार कर, पिंडपात खतम कर, भोजनके पश्चात्, जहाँ प्रावारिक-आम्र-वनमें भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ संमोदन (कुशलप्रश्न पूछ) कर, एक ओर खडा हो गया । एक ओर खड़े हुए दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रथको भगवान्ने कहा—

“तपस्वी ! आसन मौजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बैठ जाओ !”

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रथ एक नीचा आसन ले एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रथसे भगवान् बोले—

“तपस्वी ! पापकर्मके करनेकेलिये, पाप-कर्मकी प्रवृत्तिकेलिये निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र कितने कर्मोंका विधान करते हैं ?”

“आवुस ! गौतम ! ‘कर्म’ ‘कर्म’ विधान करना निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्रका कायदा (= आचिण्ण) नहीं है । आवुस ! गौतम ! ‘दंड’ ‘दंड’ विधान करना निगंठ नातपुत्तका कायदा है ।”

“तपस्वी ! तो फिर पाप-कर्मके करनेकेलिये = पाप-कर्मकी प्रवृत्तिकेलिये निगंठ नातपुत्त कितने ‘दंड’ विधान करते हैं ?”

“आवुस ! गौतम ! पापकर्मके हटानेकेलिये ० निगंठ नात-पुत्त तीन दंडोंका विधान करते हैं । जैसे—काय-दंड, वचन-दंड, मन-दंड ।”

“तपस्वी ! तो क्या काय-दंड दूसरा वचन-दंड दूसरा है, मन-दंड दूसरा है ?”

“आवुस ! गौतम ! (हाँ) ! काय-दंड दूसरा ही है, वचन-दंड दूसरा ही, मन-दंड दूसरा ही है ।”

“तपस्वी ! इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दंडोंमें निगंठ नातपुत्त, पाप कर्मके करनेकेलिये, पापकर्मकी प्रवृत्तिकेलिये, किस दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं, काय-दंडको, या वचन-दंडको, या मन-दंडको ?”

“आवुस गौतम ! इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दंडोंमें निगंठ नात-पुत्त, पाप कर्मके करनेकेलिये ० काय-दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं; वैसा वचन-दंडको नहीं, वैसा मन-दंडको नहीं ।”

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?”

“आवुस ! गौतम ! काय-दंड कहता हूँ ।”

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?”

“आबुस ! गौतम ! काय-दंड कहता हूँ ।”

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?”

“आबुस ! गौतम ! काय-दंड कहता हूँ ।”

इस प्रकार भगवान्‌ने दीर्घ-तपस्वी निगंठको इस कथा-वस्तु (= वात)में तीनवार प्रतिष्ठापित किया ।

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निगंठने भगवान्‌से कहा—

“तुम आबुस ! गौतम ! पाप-कर्मके करनेके लिये ० कितने दंड-विधान करते हो ?”

“तस्वी ! ‘दंड’ ‘दंड’ कहना तथागतका कायदा नहीं है, ‘कर्म’ ‘कर्म’ कहना तथागतका कायदा है ।”

“आबुस ! गौतम ! तुम ० कितने कर्म विधान करते हो ?”

“तपस्वी ! मैं ० तीन कर्म बतलाता हूँ—जैसे काय-कर्म, वचन-कर्म, मन-कर्म ।”

“आबुस ! गौतम ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है ।”

“तपस्वी ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है ।”

“आबुस ! गौतम ! ० इस प्रकार विभक्त ० इन तीन कर्मोंमें, पाप-कर्म करनेके लिये ० किसको महादोषी ठहराते हो—काय-कर्मको, या वचन-कर्मको, या मन-कर्मको ?”

“तपस्वी ! ० इस प्रकार विभक्त ० इन तीनों कर्मोंमें मन-कर्मको मैं ० महादोषी बतलाता हूँ ।”

“आबुस ! गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ?”

“तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ ।”

“आबुस ! गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ?”

“तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ ।”

“आबुस ! गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ?”

“तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ ।”

इस प्रकार दीर्घ-तपस्वी निगंठ भगवान्‌को इस कथा-वस्तु (= विवाद-विषय)में तीन वार प्रतिष्ठापित करा, आसनसे उठ जहाँ निगंठ नात-पुत्र थे, वहाँ चला गया ।

उस समय निगंठ नात-पुत्र, बालक (-लोणकार)-निवासी उपाली आदिकी घटी गृहस्थ-परिपद्मेके साथ बैठे थे । तब निगंठ नात-पुत्रने दूरसे ही दीर्घ-तपस्वी निगंठको आते देख, पूछा—

“हैं ! तपस्वी ! मध्याह्नमें तू कहाँसे (आ रहा है) ?

“अन्ते ! श्रमण गौतमके पाससे आ रहा हूँ ।”

“तपस्वी ! क्या तेरा श्रमण गौतमके साथ कुछ कथा-संलाप-हुआ ?”

“अन्ते ! हाँ ! मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा-संलाप हुआ ।”

“तपस्वी ! श्रमण गौतमके साथ तेरा क्या कथा-संलाप हुआ ।”

तब दीर्घ-तपस्वी निगंठने भगवान्‌के साथ जो कुछ कथा-संलाप हुआ था, वह सब निगंठ नात-पुत्रसे कह दिया ।

“साधु ! साधु !! तपस्वी ! (यही ठीक है) जैसा कि शास्ता (= गुरु)के शासन (= उप-

देश)को अच्छी प्रकार जाननेवाले, बहुश्रुत श्रावक दीर्घ-तपस्वी निगंठने श्रमण गौतमको बतलाया । वह सुवा मन-दंड, इस महान् काय-दंडके सामने क्या शोभता है ? पाप-कर्मके करने = पाप कर्मकी प्रवृत्तिके लिये काय-दंड ही महादोषी है, वचन दंड, मन-दंड वैसे नहीं ।”

ऐसा कहनेपर उपाली गृहपतिने निगंठ नात-पुत्तसे यह कहा—

“साधु ! साधु !! भन्ते तपस्वी ! जैसा कि शास्ताके शासनके मर्मज्ञ, बहुश्रुत श्रावक भदन्त दीर्घ-तपस्वी निगंठने श्रमण गौतमको बतलाया । यह सुवा ० । तो भन्ते ! मैं जाऊँ, इसी कथा-वस्तुमें श्रमण गौतमके साथ विवाद रोपूँ ? यदि मेरे (सामने) श्रमण गौतम वैसे (ही) ठहरा रहा, जैसा कि भदन्त दीर्घ-तपस्वीने (उसे) ठहराया । तो जैसे बलवान् पुरुष लम्बे बाल वाली भेडको वालोंसे पकड़कर निकाले, घुमावे, डुलावे, उसी प्रकार मैं श्रमण गौतमके वादको... निकालूँगा, घुमाऊँगा, डुलाऊँगा । (अथवा) जैसे कि गहरे बलवान् शौंडिक-कर्मकर (= शराव-वनानेवाला) भट्टीके छन्ने (= सौंडिका-क्लिंज)को पानी (वाले) तालावमें फेंककर, कानोंको पकड़ निकाले, घुमावे, डुलावे, ऐसे ही मैं ० । (अथवा) जैसे बलवान् शरावी, बालकको कानसे पकड़कर हिलावे, ० डुलावे... , ऐसे ही मैं ० । (अथवा) जैसे कि साठ वर्षका पट्टा हाथी गहरी पुष्करिणीमें घुसकर सन-धोवन नामक खेलको खेले, ऐसे ही मैं श्रमण गौतमको सन-धोवन ० । हाँ ! तो भन्ते ! मैं जाता हूँ । इस कथा-वस्तुमें श्रमण गौतमके साथ वाद रोपूँगा ।”

“जा गृहपति ! जा, श्रमण गौतमके साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप । गृहपति ! श्रमण गौतमके साथ मैं वाद रोपूँ, या दीर्घ-तपस्वी निगंठ रोपे, या तू ।”

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निगंठने निगण्ठ नात-पुत्तको कहा—

“भन्ते ! (आपको) यह मत रुचे, कि उपालि गृहपति श्रमण गौतमके पास जाकर वाद रोपे । भन्ते ! श्रमण गौतम मायावी है, (मति) फेरनेवाली, माया जानता है, जिससे दूसरे तैर्थिकों (= पंथाइयों)के श्रावकों (को अपनी ओर) फेर लेता है ।”

“तपस्वी ! यह संभव नहीं, कि उपाली गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होजाय । संभव है कि श्रमण गौतम (ही) उपाली गृहपतिका श्रावक होजाय । जा गृहपति ! श्रमण गौतमके साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप । गृहपति ! श्रमण गौतमके साथ मैं वाद रोपूँ, या दीर्घ-तपस्वी निगंठ रोपे, या तू ।”

दूसरीवार भी दीर्घ-तपस्वी निगंठने ० । तीसरीवार भी ० ।

“अच्छा भन्ते !” कह, उपालि गृहपति निगंठ नात-पुत्तको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर, जहाँ प्रावारिक आम्रवन था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये उपालि गृहपतिने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! क्या दीर्घ-तपस्वी निगंठ यहाँ आये थे ?”

“गृहपति ! दीर्घ-तपस्वी निगंठ यहाँ आया था ।”

“भन्ते ! दीर्घ-तपस्वी निगंठके साथ आपका कुछ कथा-संलाप हुआ ?”

“गृहपति ! दीर्घ-तपस्वी निगंठके साथ मेरा कुछ कथा-संलाप हुआ ।”

“तो भन्ते ! दीर्घ-तपस्वी निगंठके साथ क्या कुछ कथा-संलाप हुआ ?”

तब भगवान्ने दीर्घ-तपस्वी निगंठके साथ जो कुछ कथा-संलाप हुआ था, उस सबको उपाली गृहपतिसे कह दिया । ऐसा कहने पर उपाली गृहपतिने भगवान्से कहा—

“साधु ! साधु ! भन्ते तपस्वी ! जैसाकि शास्ताके शासनके मर्मज्ञ, बहुश्रुत, श्रावक

दीर्घ-तपस्वी निगंठने भगवान्को घतलाया !! यह मुर्दा मन-दंड इस महान् काय-दंडके सामने क्या शोभता है ? पाप-कर्मकी प्रवृत्तिके लिये काय-दंडही महा-दोषी है; वैसा वचन-दंड नहीं है, वैसा मन-दंड नहीं है ।”

“गृहपति ! यदि तू सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा (= विचार) करे, तो हम दोनोंका संलाप हो ।”

“मन्ते ! मैं सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा करूँगा । हम दोनोंका संलाप हो ।”

“क्या मानते हो गृहपति ! (यदि) यहाँ एक बीमार = दुःखित मयंकर रोग-ग्रस्त शीत-जल-त्यागी उष्ण-जल-सेवी निगंठ.....शीत-जल न पानेके कारण मर जाये, तो निगंठ नात-पुत्र उसकी (पुनः) उत्पत्ति कहाँ घतलायेंगे ?”

“मन्ते ! (जहाँ) मन-सत्त्व नामक देवता हैं; वह वहाँ उत्पन्न होगा ।”

“सो किस कारण ?”

“मन्ते ! वह मनसे वैधा हुआ मरा है ।”

“गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) करके कहो । तुम्हारा पूर्व (पक्ष)से पश्चिम (पक्ष) नहीं मिलता, तथा पश्चिमसे पूर्व नहीं ठीक खाता । और गृहपति ! तुमने यह बात (भी) कही है—मन्ते ! मैं सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा करूँगा, हम दोनोंका संलाप हो ।”

“और मन्ते ! भगवान्ने भी ऐसा कहा है—पापकर्म करनेके लिये ० काय-दंडही महादोषी है, वैसा वचन-दंड.....(और) मन-दंड नहीं ?”

“तो क्या मानते हो गृह-पति ! यहाँ एक ^१चातुर्याम-संवरसे संवृत (= गोपित, रक्षित), सब ^२वारिसे निवारित, सब वारि(= वारितों)को निवारण करनेमें तत्पर, सब (पाप-) वारिसे धुला हुआ, सब (पाप) वारिसे छूटा हुआ, निर्ग्रथ (= जैन-साधु) है । वह आते जाते बहुतसे छोटे-छोटे प्राणि-समुदायको मारता है । गृहपति ! निगंठ नात-पुत्र इसका क्या विपाक (= फल) घतलाते हैं ?”

“मन्ते ! अनुजानको निगंठ नात-पुत्र महादोष नहीं कहते ।”

“गृहपति ! यदि जानता हो ।”—“(तब) मन्ते ! महादोष होगा ।”

“गृहपति ! जाननेको निगंठ नात-पुत्र किसमें कहते हैं ?”—“मन्ते ! मन-दंडमें ।”

“गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) करके कहो । ० ।”

“और मन्ते ! भगवान्ने भी ० ।”

“तो गृहपति ! क्या यह नालन्दा सुख-संपत्ति-युक्त, बहुत जनोंवाली, (बहुत) मनुष्योंसे भरी है ?”—“हाँ मन्ते !”

“तो...गृहपति ! (यदि) यहाँ एक पुरुष (नंगी) तलवार उठाये आये, और कहे—इस नालन्दामें जितने प्राणी हैं, मैं एक क्षणमें एक मुहूर्तमें, उन (सब)का एक माँस का पलियान, एक माँसका ढेर कर दूँगा । तो क्या गृहपति ! वह पुरुष...एक माँसका ढेर कर सकता है ?”

“मन्ते ! दश भी पुरुष, बीस भी पुरुष, तीस०, चालीस०, पचास भी पुरुष, एक माँसका ढेर नहीं कर सकते, वह एक सुवा क्या...है ।”

^१ (२) प्राण-हिंसा न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, (२) चोरी न० । (३) झूठ न० । (४) भावित (= विषय-भोग) न चाहना ० । यह चातुर्याम है । ^२ निषिद्ध शीतल जल या पापरूपी जल ।

“तो...गृहपति ! यहाँ एक ऋद्धिमान्, चित्तको वशमें किया हुआ, श्रमण या ब्राह्मण आवे, वह ऐसा बोले—मैं इस नालंदाको एक ही मनके क्रोधसे मस्म कर दूँगा । तो क्या...गृहपति ! वह श्रमण या ब्राह्मण ० इस नालंदाको (अपने) एक मनके क्रोधसे मस्म कर सकता है ?”

“मन्ते ! दश नालन्दाओंको भी ० पचास नालन्दाओंको भी ० वह श्रमण या ब्राह्मण (अपने) एकके क्रोधसे भस्मकर सकता है । एक मुई नालन्दा क्या है ।”

“गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) कर...कहो ० ।”

“और भगवान्ने भी ० ।”

“तो...गृहपति ! क्या तुमने दंडकारण्य, कलिंकारण्य, मेघ्यारण्य (= मेज्जारण्य), मातङ्गारण्यका अरण्य होना सुना है ?”—“हाँ, मन्ते ! ० ।”

“तो...गृहपति ! तुमने सुना है, कैसे दण्डकारण्य ० हुआ ?”

“मन्ते ? मैंने सुना है—ऋषियोंके मनके-क्रोधसे दंडकारण्य ० हुआ ।”

“गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) कर...कहो ० । तुम्हारा पूर्वसे पश्चिम नहीं मिलता, पश्चिमसे पूर्व नहीं मिलता । और तुमने गृहपति ! यह बात कही है—‘सत्यमें स्थिर हो मैं मन्ते ! मंत्रणा (= वाद) करूँगा, हमारा संलाप हो ।’

“मन्ते ! भगवान्की पहिली उपमासे ही मैं सन्तुष्ट = अभिरत होगया था । विचित्र प्रश्नोंके व्याख्यान (= पटिमान)को और भी सुननेकी इच्छासेही मैंने भगवान्को प्रतिवादी बनाना पसन्द किया । आश्चर्य ! मन्ते !! आश्चर्य ! मन्ते !! जैसे आँधेको सीधा करदे ०^१ आजसे भगवान् मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।”

“गृहपति ! सोच-समझकर (काम) करो । तुम्हारे जैसे मनुष्योंका सोच-समझकर ही करना अच्छा होता है ।”

“मन्ते ! भगवान्के इस कथनसे मैं और भी प्रसन्न-मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ; जोकि भगवान्ने मुझे कहा—‘गृहपति ! सोच-समझकर करो ० ।’ मन्ते ! दूसरे तैर्थिक (= पंथाई) मुझे श्रावक पाकर, सारे नालन्दामें पताका उडाते—‘उपालि गृहपति हमारा श्रावक होगया’ । और भगवान् मुझे कहते हैं—‘गृहपति ! सोच-समझकर करो ०’ । मन्ते ! यह दूसरी वार मैं भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्र संघकी भी ०^१ ।”

“गृहपति ! दीर्घ-कालसे तुम्हारा कुल (= कुल) निगण्ठोंके लिये प्याउकी तरह रहा है, उनके जानेपर ‘पिंड नहीं देना चाहिये’—यह मत समझना ।”

“मन्ते ! इससे और भी प्रसन्न-मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ, जो मुझे भगवान्ने कहा—दीर्घकालसे तेरा घर ० । मन्ते ! मैंने सुना था कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—मुझेही दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये । मेरेही श्रावकोंको दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये । मुझेही देनेका महा-फल होता है, दूसरोंको देनेका महा-फल नहीं होता । मेरेही श्रावकोंको देनेका महाफल होता है, दूसरोंके श्रावकोंको देनेका महाफल नहीं होता । और भगवान्तो मुझे निगण्ठोंको भी दान देनेको कहते हैं । मन्ते ! हम भी इसे युक्त समझेंगे । मन्ते ! यह मैं तीसरी वार भगवान्की शरण जाता हूँ ०^१ ।”

तब भगवान्ने उपालि गृहपतिको आनुपूर्वी-कथा कही ०^२ । जैसे कालिमा-रहित शुद्ध-

^१ देखो पृष्ठ १६ ।

^२ देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ २५ ।

वस्त्र अच्छी प्रकार रंगको पकड़ता है, इसी प्रकार उपालि गृहपतिको उसी आसनपर विरज = विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ—‘जो कुछ ससुदय-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है’। तब उपालि गृहपतिने दृष्ट-धर्म^१ हो भगवान्से कहा—

“मन्ते ! अब हम जाते हैं, हम बहुकृत्य = बहुकरणीय हैं ।”

“गृह-पति ! जिसका तुम काल समझो (वैसा करो) ।”

तब उपालि गृह-पति भगवान्के मापणको अभिनन्दन कर, अनु-भोदनकर, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ उसका घर था, वहाँ गया। जाकर द्वारपालसे बोला—

“सौम्य ! दौवारिक ! आजसे मैं निगण्ठों और निगण्ठियोंके लिये द्वार बन्द करता हूँ, भगवान्के मिश्रु मिश्रुनी, उपासक और उपासिकाओंके लिये द्वार खोलता हूँ। यदि निगण्ठ आये, तो कहना—‘ठहरें मन्ते ! आजसे उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हुआ। निगण्ठों, निगण्ठियोंके लिये द्वार बन्द है; भगवान्के मिश्रु, मिश्रुनी, उपासक, उपासिकाओंके लिये द्वार खुला है। यदि मन्ते ! तुम्हें पिंड (= भिक्षा) चाहिये, यहाँ ठहरें, (हम) यहाँ ला देंगे ।”

“अच्छा मन्ते !” (कह) दौवारिकने उपालि गृह-पतिको उत्तर दिया।

दीर्घ-तपस्वी निगण्ठने सुना—‘उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक होगया’। तब दीर्घ-तपस्वी निगण्ठ, जहाँ निगण्ठ नात-पुत्र थे, वहाँ गया। जाकर निगण्ठ नात-पुत्रसे बोला :—

“मन्ते ! मैंने सुना है, कि उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हो गया ।”

“यह स्थान नहीं, यह अवकाश नहीं (= यह असम्भव) है, कि उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हो जाये, और यह स्थान (= संभव) है, कि श्रमण गौतम (ही) उपालि गृहपतिका श्रावक (= शिष्य) हो ।”

दूसरी बार भी दीर्घ तपस्वी निगण्ठने कहा— ० ।

तीसरी बार भी दीर्घ तपस्वी निगण्ठने ० ।

“तो मन्ते ! मैं जाता हूँ, और देखता हूँ, कि उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हो गया, या नहीं ।”

“जा तपस्वी ! देख कि उपालि गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होगया, या नहीं ।”

तब दीर्घ-तपस्वी निगण्ठ जहाँ उपालि गृहपतिका घर था, वहाँ गया। द्वार-पालने दूरसे ही दीर्घ-तपस्वी निगण्ठको आते देखा। देखकर दीर्घ-तपस्वी निगण्ठसे कहा—

“मन्ते ! ठहरो, मत प्रवेश करो। आजसे उपालि गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होगया ०। यहीं ठहरो, यहीं तुम्हें पिंड ले आ देंगे ।”

“आवुस ! मुझे पिंडका काम नहीं है ।”

—यह कह दीर्घ-तपस्वी निगण्ठ जहाँ निगण्ठ नात-पुत्र थे, वहाँ गया। जाकर निगण्ठ नात-पुत्रसे बोला—

“मन्ते ! सच ही है। उपालि गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होगया। मन्ते ! मैंने तुम से पहिले ही न कहा था, कि मुझे यह पसन्द नहीं कि उपालि गृहपति श्रमण गौतमके साथ वाद करूँ। श्रमण गौतम मन्ते ! सायावी है, आवर्तनी साया जानता है, जिससे दूसरे तैरिंकोके श्रावकों को फेर लेता है। मन्ते ! उपालि गृहपतिको श्रमण गौतमने आवर्तनी-सायासे फेर लिया ।”

“तपस्त्री ! यह... (संभव नहीं)... कि उपालि गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होजाय ० ।”

दूसरी बार भी दीर्घ-तपस्वी निर्गंठने निर्गंठ नात-पुत्तसे यह कहा— ० । तीसरी बार भी दीर्घ-तपस्वी ० ।

“तपस्त्री ! यह... (संभव नहीं)... ० । अच्छा तो तपस्वी ! मैं जाता हूँ । स्वयं जानता हूँ, कि उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हुआ था नहीं ।”

तब निर्गंठ नात-पुत्त बड़ी भारी निर्गंठोंकी परिषद्के साथ, जहाँ उपालि गृहपतिका घर था, वहाँ गया । द्वार-पालने दूरसे आते हुये निर्गंठ नात-पुत्तको देखा । (और) कहा—

“ठहरें भन्ते ! मत प्रवेश करें । आजसे उपालि गृहपति श्रमण गौतमका उपासक हुआ ० । यहीं ठहरें, यहीं तुम्हें (पिंड) ले आ देंगे ।”

“तो सौम्य दौवारिक ! जहाँ उपालि गृहपति है, वहाँ जाओ । जाकर उपालि गृहपतिको कहो—भन्ते ! बड़ी भारी निर्गंठ-परिषद्के साथ निर्गंठ नात-पुत्त फाटकके बाहर खड़े हैं, (और) तुम्हें देखना चाहते हैं ।”

“अच्छा भन्ते ।”—निर्गंठ नात-पुत्तको कह (द्वारपाल) जहाँ उपालि गृहपति था, वहाँ गया । जाकर उपालि गृहपतिसे बोला—

“भन्ते ! ० निर्गंठ नात-पुत्त । ०”

“तो सौम्य ! दौवारिक ! विचली द्वार-शाला (= दालान)में आसन बिछाओ ।”

“अच्छा भन्ते !”—उपालि गृहपतिसे कह, विचली द्वार-शालामें आसन बिछा—

“भन्ते ! विचली द्वार-शालामें आसन बिछा दिये । अब (आप) जिसका काल समयज्ञें ।”

तब उपालि गृह-पति जहाँ विचली द्वार-शाला थी, वहाँ गया । जाकर जो वहाँ अग्र = श्रेष्ठ, उत्तम = प्रणीत आसन था, उसपर बैठकर दौवारिकसे बोला—

“तो सौम्य दौवारिक ! जहाँ निर्गंठ नात-पुत्त हैं, वहाँ जाओ, जाकर निर्गंठ नात-पुत्तसे यह कहो—‘भन्ते ! उपालि गृहपति कहता है—यदि चाहें तो भन्ते ! प्रवेश करें ।’

“अच्छा भन्ते !”—(कह)...दौवारिकने...निर्गंठ नात-पुत्तसे कहा—

“भन्ते ! उपालि गृहपति कहते हैं—यदि चाहें तो, प्रवेश करें ।”

निर्गंठ नात-पुत्त बड़ी भारी निर्गंठ-परिषद्के साथ जहाँ विचली द्वारशाला थी, वहाँ गये । पहिले जहाँ उपालि गृहपति, दूरसेही निर्गंठ नात-पुत्तको आते देखता; देखकर अगवानी कर वहाँ जो अग्र = श्रेष्ठ, उत्तम = प्रणीत आसन होता, उसे (अपनी) चादरसे पोंछकर, उसपर बैठा था । सो आज जो वहाँ ० उत्तम ० आसन था, उसपर स्वयं बैठकर निर्गंठ नात-पुत्तसे बोला—

“भन्ते ! आसन मौजूद हैं, यदि चाहें तो बैठें ।”

ऐसा कहनेपर निर्गंठ नात-पुत्तने उपालि-गृहपतिसे कहा—

“उन्मत्त होगया है गृहपति ! जड़ होगया है गृहपति ! तू—‘भन्ते ! जाता हूँ श्रमण-गौतमके साथ वाद रोपूँगा’—(कहकर) जानेके वाद बड़े भारी वादके संघाट (= जाल)में बँधकर लौटा है । जैसे कि अंड (= अंडकोश)-हारक निकाले अंडोंके साथ आये; जैसे कि... अक्षि (= आँख)-हारक पुरुष निकाली आँखोंके साथ आये, वैसेही गृहपति ! तू—‘भन्ते ! जाता हूँ, श्रमण गौतमके साथ वाद रोपूँगा’ (कहकर) जा, बड़े भारी वाद-संघाटमें बँधकर लौटा है । गृहपति ! श्रमण गौतमने आवर्तनी-मायासे तेरी (मत) फेरली है ।”

“सुन्दर है, भन्ते ! आवर्तनी माया । कल्याणी है भन्ते ! आवर्तनी माया । (यदि) मेरे

प्रिय जातिभाई भी इस आवर्तनी-माया द्वारा फेर लिये जाँये, (तो) मेरे प्रिय जाति-भाइयोंका दीर्घ-कालतक हित-सुख होगा । यदि भन्ते ! सभी क्षत्रिय इस आवर्तनी-मायासे फेर लिये जावें, तो सभी क्षत्रियोंका दीर्घ-कालतक हित-सुख होगा । यदि सभी ब्राह्मण ० । यदि सभी वैश्य ० । यदि सभी शूद्र ० । यदि देव-भार-ब्रह्मा-सहित सारा लोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित सारी प्रजा (= जनता) इस आवर्तनी मायासे फेर लीजाय, तो... (उसका) दीर्घकालतक हित-सुख होगा । भन्ते ! आपको उपमा कहता हूँ, उपमासे भी कोई कोई विद्वान् पुरुष भाषणका अर्थ समझ जाते हैं—

“पूर्वकालमें भन्ते ! किसी जीर्ण = वृद्धे = महल्लक ब्राह्मणकी एक नव-त्रयस्का (= दूहर) भाणविका (= तरुण ब्राह्मणी) भार्या गर्भिणी आसन्न-प्रसवा हुई । तब भन्ते ! उस भाणविकाने ब्राह्मणसे कहा—ब्राह्मण ! जा बाजारसे एक चानरका घच्चा (खिलौना) खरीद ला, वह मेरे कुमार (= बच्चे)का खेल होगा ।”

“ऐसा बोलनेपर, भन्ते ! उस ब्राह्मणने उस भाणविकासे कहा—भवती (= आप) ! ठहरिये, यदि आप कुमार जनंगी, तो उसके लिये मैं बाजारसे मर्कट-शावक (खिलौना) खरीद कर लाऊँगा, जो आपके कुमारका खेल होगा । दूसरी बार भी भन्ते ! उस भाणविकाने ० । तीसरी बार भी ० । तब भन्ते ! उस भाणविकामें अति-अनुरक्त = प्रतियद्ध-चित्त उस ब्राह्मणने बाजारसे मर्कट-शावक खरीदकर, लाकर, उस भाणविकासे कहा—भवती ! बाजारसे यह तुम्हारा मर्कट-शावक खरीदकर लाया हूँ, यह तुम्हारे कुमारका खिलौना होगा ।’ ऐसा कहनेपर भन्ते ! उस भाणविकाने उस ब्राह्मणसे कहा—‘ब्राह्मण ! इस मर्कट, शावकको लेकर, वहाँ जाओ जहाँ रक्त-पाणि रजक-पुत्र (= रंगरेजका घेठा) है । जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रने फहो—सौम्य ! रक्तपाणि ! मैं इस मर्कट-शावकको पीतावलेपन रंगसे रंगा मला, दोनों ओर पालिश किया हुआ चाहता हूँ ।’ तब भन्ते ! उस भाणविकामें अति-अनुरक्त = प्रतियद्ध-चित्त वह ब्राह्मण उस मर्कट-शावकको लेकर जहाँ रक्त-पाणि रजक-पुत्र था, वहाँ गया, जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे बोला—‘सौम्य ! रक्तपाणि ! इस ०’ । ऐसा कहनेपर रक्त-पाणि रजक-पुत्रने उस ब्राह्मणसे कहा—‘भन्ते ! यह तुम्हारा मर्कट-शावक न रंगने योग्य है, न मलने योग्य है, न माँजने योग्य है ।’ इसी प्रकार भन्ते ! बाल (= भङ्ग) निर्गठोंका वाद (सिद्धान्त), बालों (= अज्ञों)को रंजन करने लायक है, पंडितको नहीं । (यह) न परीक्षा (= अनुयोग)के योग्य है, न सीमांसाके योग्य है । तब भन्ते ! वह ब्राह्मण दूसरे समय नया धुस्सेका जोड़ा ले, जहाँ रक्त-पाणि रजकपुत्र था, वहाँ गया । जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे बोला—‘सौम्य ! रक्त-पाणि ! धुस्सेका जोड़ा पीतावलेपन (= पीले) रंगसे रंगा, मला, दोनों ओरसे माँजा (= पालिश किया) हुआ चाहता हूँ ।’ ऐसा कहनेपर भन्ते ! रक्त-पाणि रजक-पुत्रने उस ब्राह्मणसे कहा—‘भन्ते ! यह तुम्हारा धुस्सा-जोड़ा रंगने योग्य है, मलने योग्य भी है, माँजने योग्य भी है ।’ इसी तरह भन्ते ! उस भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्धका वाद, पंडितोंको रंजन करने योग्य है, बालों (= अज्ञों)को नहीं । (यह) परीक्षा और सीमांसाके योग्य है ।”

“गृहपति ! राजा-सहित सारी परिपद् जानती है, कि उपालि गृह-पति निर्गठ नातपुत्तका श्रावक है । (अब) गृहपति ! तुझे किसका श्रावक समझें । ऐसा कहनेपर उपालि गृहपति आसनसे उठकर, (दाहिने कन्धेको नंगाकर) उत्तरासंग (= चंद्र)को, एक कंधेपर कर, जिधर भगवान् थे उधर हाथ जोड़, निर्गठ नात-पुत्तसे बोला—“भन्ते ! सुनो मैं किसका श्रावक हूँ ?—

धीर विगत-मोह खंडित-कील विजित-विजय,
 निर्दुःख सु-सम-चित्त वृद्ध-शील सुन्दर-प्रज्ञ,
 विश्वके तारक, वि-मल—उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ १ ॥
 अकर्ण-कथी, संतुष्ट, लोक-भोगको वसन करनेवाले, सुदित,
 श्रमण-हुये-मनुज अंतिम-शरीर-नर,
 अनुपम, वि-रज—उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ २ ॥
 संशय-रहित, कुशल, विनय-युक्त-बनानेवाले, श्रेष्ठ-सारथी,
 अनुत्तर (= सर्वोत्तम), रुचिर-धर्म-वान्, निराकांक्षी, प्रभाकर,
 मान-छेदक, वीर—उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ३ ॥
 उत्तम (= निसभ) अ-प्रमेय, गम्भीर, मुनित्त्व-प्राप्त,
 क्षेमंकर, ज्ञानी, धर्मार्थ-वान्, संयत-आत्मा,
 संग-रहित, मुक्त—उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ४ ॥
 नाग, एकांत-आसन-वान्, संयोजन (= वन्धन)-रहित, मुक्त,
 प्रति-संत्रक (= वाद-दक्ष), धीत, प्राप्त-ध्वज, वीत-राग,
 दान्त, निष्प्रपंच, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ५ ॥
 ऋषि-सत्तम, अ-पाखंडी, त्रि-विद्या-युक्त, ब्रह्म (= निर्वाण)-प्राप्त,
 ज्ञातक, पदक (= कवि), प्रश्रव्य, विदित-वेद,
 पुरन्दर, शक्र—उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ६ ॥
 आर्य, भावितात्मा, प्राप्तव्य-प्राप्त वैयाकरण,
 स्मृतिमान्, विपश्यी, अन-अभिमानी, अन्-अवनत,
 अ-चंचल, वशी—उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ७ ॥
 सम्यग्-गत, ध्यानी, अ-लग्न-चित्त (= अन्-अनुगत-अन्तर), शुद्ध ।
 अ-सित (= शुद्ध), अ-प्रहीण, प्रविवेक-प्राप्त, अप्र-प्राप्त,
 तीर्ण, तारक—उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ८ ॥
 शांत, भूरि (= बहु)-प्रज्ञ, महा-प्रज्ञ विगत-लोभ,
 तथागत, सुगत, अ-प्रति-पुद्गल (= अ-तुलनीय) = अ-सम,
 विशारद, निपुण—उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ९ ॥
 तृष्णा-रहित, दुद्ध, धूम-रहित, अ-लिप्त,
 पूजनीय = यक्ष, उत्तम-पुद्गल, अ-तुल,
 महान् उत्तम-यश-प्राप्त—उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥१०॥”

“गृहपति ! श्रमण गौतमके (यह) गुण तुझे कव (से) सूझे ?”

“भन्ते ! जैसे नाना पुष्पोंकी एक पुष्प-राशि (ले) एक चतुर माली या मालीका अन्ते-वासी विचित्र माला गूँथे; उसी प्रकार, भन्ते ! वह भगवान् अनेक वर्ण (= गुण)वाले अनेक शत वर्णवाले हैं । भन्ते ! प्रशंसनीयकी प्रशंसा कौन न करेगा ?”

निगंठ नात-पुत्तने भगवान्के सत्कारको न सहनकर, वहीं मुँहसे गर्म लोहू फेंक दिया ।

५७—कुक्कुर-वतिक-सुत्तन्त (२।१।७)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् कोलि (देश)में कोलियोंके हलिहवसन (= हयिहवसन) नामक निगसमें विहार (= निवास) करते थे ।

तय गोव्रतिक (= गायकी भाँति खाने पीनेका व्रत रखने वाला) कोलिय-पुत्त पूर्ण और कुक्कुर-व्रतिक अचेल (= नंगा) सेनिय (= श्रेणिक) जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर गोव्रतिक कोलियपुत्त पूर्ण, भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । कुक्कुर-व्रतिक अचेल सेनिय भगवान्के साथ 'सम्मोदन (= कुशल-संगल पूछ)कर कुक्कुरकी भाँति गँडुरी मार, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे ० पूर्णने भगवान्से यह कहा—

“मन्ते ! यह कुक्कुर-व्रतिक अचेल सेनिय बडा मुद्रिकल करनेवाला (= दुष्कर-कारक) है, भूमिमें रखे (भोजन)को खाता है । इसने इस कुक्कुर-व्रतको दीर्घकालसे निरन्तर ले रक्खा है । उसकी क्या गति = क्या अभिसम्पराय (= जन्मांतर फल) (होगा) ?”

“यस, रहने दे, पूर्ण ! मत मुझसे यह पूछ ।”

दूसरी वारभी ० पूर्णने भगवान्से यह कहा—“मन्ते ! ०” ।

तीसरी वारभी ० पूर्णने भगवान्से यह कहा—“मन्ते ! ०” ।

“पूर्ण ! मैं तुझे नहीं (स्वीकार करा) पाता—‘यस, रहने दे, पूर्ण ! मत मुझसे यह पूछ’ । अच्छा, तो मैं तुझसे कहता हूँ । (जय) कोई पूर्ण ! परिपूर्ण अ-खंड कुक्कुर-व्रतकी भावना (= अभ्यास) करता है, परिपूर्ण अ-खंड कुक्कुर-शीलकी भावना करता है, ० कुक्कुर-चित्तकी भावना करता है, ० कुक्कुर-आकल्प (= ० तौर-तरीका)की भावना करता है; वह परिपूर्ण अखंड कुक्कुर-व्रत की भावना करके, ० कुक्कुर-शील ०, ० कुक्कुर-चित्त ०, ० कुक्कुर-आकल्पकी भावना करके काया छोड़ मरनेके बाद कुक्कुरोंकी योनिमें उत्पन्न होता है । यदि पूर्ण ! उसकी ऐसी दृष्टि हो—‘मैं इस (कुक्कुरके) शील, व्रत, तप, ब्रह्मचर्यसे देवोंमेंसे कोई देवता होऊँगा; तो यह उसकी मिथ्या-दृष्टि (= झूठी धारणा) है । पूर्ण ! मिथ्या-दृष्टि (पुरुष)की मैं दो गतियोंमेंसे एक ही गति कहता हूँ— नरक या तिर्यक्- (= पशु)-योनि । इस प्रकार पूर्ण ! कुक्कुर-व्रतका करना कुक्कुरकी योनिमें ले जाता है, (या) विद्यमान नरकको ।”

ऐसा कहनेपर कुक्कुरव्रतिक अचेल सेनिय रो पडा, आँसू यहाने लगा ।

तय भगवान्ने ० पूर्णसे यह कहा—“पूर्ण ! मैं तुझसे नहीं (स्वीकार) करा पाया— ‘यस, रहने दे ०’ ।”

(सेनिय बोला—) “मन्ते ! भगवान्के मुझे ऐसा कहनेके ख्यालसे मैं नहीं रो रहा हूँ । लेकिन मन्ते ! मैंने इस कुक्कुरव्रतको दीर्घकालसे ले रक्खा है । यह मन्ते ! ० पूर्णने भी गोव्रत

दीर्घकालसे...ले रक्खा है। उसकी क्या गति है = क्या अभिसम्पराय है ?”

“वस, रहने दे सेनिय ! मत मुझसे यह पूछ ।”

दूसरी बार भी ० । तीसरी बार भी ० ।

“सेनिय ! मैं तुझसे नहीं (स्वीकार) करा पाया—‘वस ०’ । अच्छा तो मैं तुझसे कहता हूँ । (जो) कोई सेनिय ! परिपूर्ण अ-खंड गोब्रतकी भावना करता है, ० गो-शील ०, ० गो-चित्त ०, ० गो-आकल्प ० ; ०, (वह) काया छोड़ मरनेके बाद गौकी योनिमें उत्पन्न होता है । यदि सेनिय ! उसकी ऐसी दृष्टि हो— ० विद्यमान नरकको ।”

ऐसा कहने पर गोब्रतिक कोलियपुत्र पूर्ण रो पड़ा, आँसू वहाने लगा ।

तब भगवान्ने ०सेनियसे यह कहा—“सेनिय ! मैं तुझसे नहीं (स्वीकार) करा पाया—‘वस रहने दे ०’ ।”

(पूर्ण बोला—) “भन्ते ! भगवान्के मुझे ऐसा कहनेके ख्यालसे मैं नहीं रो रहा हूँ । लेकिन भन्ते ! मैंने इस व्रतको दीर्घकालसे...ले रक्खा है । भन्ते ! भगवान् पर मैं इतना श्रद्धावान् (= प्रसन्न) हूँ; भगवान् ऐसा धर्म-उपदेश करें, जिसमें मैं इस गोब्रतको छोड़ दूँ, और यह सेनिय कुकुर-व्रतको छोड़ दे ।”

“तो पूर्ण ! सुनो ! अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भन्ते !”—(कह) ० पूर्णने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“पूर्ण ! मैंने इन चार कर्मोंको स्वयं जानकर, साक्षात्कारकर अनुभव किया है । कौनसे चार ?—(१) पूर्ण ! कोई कर्म होता है कृष्ण (= बुरा) और कृष्ण-विपाक (= बुरे परिणामवाला); (२) पूर्ण ! कोई कर्म होता है, शुद्ध (= अच्छा), और शुद्ध-विपाक; (३) ० कृष्ण-शुद्ध ०; (४) ० अकृष्ण-अशुद्ध, अकृष्ण-अशुद्ध-विपाक (जो कि) कर्मके क्षयके लिये (उपयोगी) होता है ।

“क्या है । पूर्ण ! कृष्ण, कृष्ण-विपाक कर्म ?—यहाँ, पूर्ण ! कोई (पुरुष) व्यापाद (= पीड़ा)-युक्त काय-संस्कार (= कायिक क्रिया) करता, व्यापाद-युक्त वचन-संस्कार ०, व्यापाद-युक्त मनः-संस्कार करता है; वह व्यापाद-युक्त काय-संस्कारको करके, ० वचन-संस्कार ०, ० मनः-संस्कारको करके, व्यापाद-युक्त लोकमें उत्पन्न होता है । व्यापाद-युक्त लोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापाद-युक्त स्पर्श (= कर्म-विपाक) आ लगते हैं । वह व्यापाद-युक्त स्पर्शोंके लगनेसे व्यापाद (= पीड़ा)-युक्त केवल दुःखमय वेदनाको अनुभव करता है, जैसे कि नरकके प्राणी । इस प्रकार पूर्ण ! भूत (= यथाभूत=जैसे)से भूत (= तथाभूत=जैसे)की उत्पत्ति होती है; जैसा करता है, उसके साथ उत्पन्न होता है । उत्पन्न हुयेको स्पर्श आ लगते हैं । इसलियेभी पूर्ण मैं कहता हूँ—‘प्राणी (अपने) कर्मोंके दाय्याद (= वारिस) हैं ।’ पूर्ण ! यह कृष्ण कृष्ण-विपाक कर्म कहा जाता है ।

“क्या है पूर्ण ! शुद्ध, शुद्ध-विपाक कर्म ?—यहाँ, पूर्ण ! कोई (पुरुष) व्यापाद-रहित काय-संस्कार ०^१ व्यापाद-रहित लोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापाद-रहित स्पर्श दृते हैं । वह व्यापाद-रहित स्पर्शोंके लगनेसे व्यापाद-रहित केवल सुखमय वेदनाको अनुभव करता है, जैसे कि शुभकृत्स्न देवता । इस प्रकार पूर्ण ! भूतसे भूतकी उत्पत्ति होती है । (प्राणी) जैसा करता है, उसके साथ उत्पन्न होता है । उत्पन्न हुयेको स्पर्श (= मोग) आ लगते हैं । इसीलिये पूर्ण ! मैं कहता हूँ—‘प्राणी कर्मोंके दाय्याद हैं’ । पूर्ण ! यह शुद्ध, शुद्ध-विपाक कर्म कहा जाता है ।

^१ ऊपर जैसा, किन्तु निषेधके साथ ।

“क्या है पूर्ण, कृष्ण-शुक्ल कृष्ण-शुक्ल-विपाक कर्म ?—यहाँ पूर्ण ! कोई (पुरुष) व्यापाद-युक्त भी, अव्यापाद-युक्त भी काय-संस्कार ०^१ वह व्यापाद-सहितसे और व्यापाद-रहित रूपशौके लगनेसे व्यापाद-सहित, व्यापाद-रहित सुख-दुःख-मिश्रित वेदनाको अनुभव करता है; जैसे कि मनुष्य, कोई कोई देवता, और कोई कोई विनिपातिक (= नीच योनिके प्राणी) । इस प्रकार पूर्ण ! भूतसे भूत ० । पूर्ण ! यह कृष्ण-शुक्ल ० ।

“क्या है, पूर्ण ! अकृष्ण-अशुक्ल अकृष्ण-अशुक्ल-विपाक कर्म (जो कि) कर्म-क्षयके लिये उपयोगी होता है ?—वहाँ पूर्ण ! कृष्ण-विपाक कृष्ण कर्मके क्षयके लिये (उपयोगी) जो चेतना (= मानस कर्म) है, ० शुक्ल कर्म ०के क्षयके लिये जो चेतना है, ० कृष्ण-शुक्ल कर्म ० के क्षयके लिये जो चेतना है । पूर्ण यह ० अकृष्ण-अशुक्ल कर्म कहा जाता है । पूर्ण ! मैंने इन चार कर्मोंको स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर अनुभव किया है ।”

ऐसा कहनेपर ० पूर्णने भगवान्से यह कहा—“आश्चर्य ! मन्ते ! अद्भुत !! मन्ते ! जैसे औंधेको सीधा करदे । ०^२ यह मैं भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्र-संघकी भी । आजसे भगवान् मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपसक स्वीकार करें ।”

और कुक्कुर-वतिक अचेल सेनियने भगवान्से यह कहा—“आश्चर्य ! मन्ते ! अद्भुत !! मन्ते ! जैसे औंधेको सीधाकर दे ०^२ यह मैं भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्र-संघकी भी । मन्ते ! मैं भगवान्के पास प्रव्रज्या (= संन्यास) पाऊँ, उपसंपदा (= मिश्र दीक्षा) पाऊँ ।”

“सेनिय ! जो कोई भूत-पूर्व अन्यतीर्थिक (= दूसरे पंथका व्यक्ति) इस (= बुद्धके) धर्म-विनय (= धर्म)में प्रव्रज्या उपसंपदा चाहता है; वह चार मासतक परिवास (= परीक्षार्थ वास) करता है; फिर पसन्द होनेपर उसे मिश्र, प्रव्रजित करते हैं, मिश्र-मावके लिये उपसम्पादित करते हैं; किन्तु यहाँ मुझे व्यक्ति व्यक्तिमें भिन्न मत भी विदित है ।”

“यदि, मन्ते ! भूतपूर्व अन्य-तीर्थिक, इस धर्म-विनयमें प्रव्रज्या उपसंपदाकी इच्छा करने पर चार मास परिवास करते हैं, फिर पसंद होनेपर ०; तो मैं चार वर्ष परिवास करूँगा । चार वर्षोंके बाद पसन्द होनेपर मिश्र मुझे प्रव्रजित करे, ० उपसम्पादित करें ।”

० सेनियने भगवान्के पास प्रव्रज्या पाई, उपसम्पदा पाई । आयुष्मान् मेनिय उपसम्पदा पानेके थोड़े ही समय बाद; एकाकी, एकान्तवासी, प्रमाद-रहित, उद्योगी (और) आत्म-संयमी हो, विहरते; जल्दी ही, जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें जान कर = साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरने लगे—‘जन्म क्षीण होगया, ब्रह्मचर्य-वास (पूरा) होगया, करना था सो कर लिया, और कुछ यहाँ करनेको नहीं रहा—यह जान गये । आयुष्मान् मेनिय अर्हत्तोंमेंसे एक हुये ।

^१ ऊपर जैसा, व्यापाद अव्यापाद दोनों, तथा कृष्ण, शुक्ल दोनों लगाकर । ^२ देखो पृष्ठ १६ ।

५८—अभयराजकुमार-सुत्तन्त-(२११८)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें वैष्णुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे ।

तब अभय-राजकुमार जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया । जाकर निगंठ नात-पुत्तको अभिवादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे अभय-राजकुमारसे निगंठ नात-पुत्तने कहा—

“आ, राजकुमार ! श्रमण गौतमके साथ वाद (= शास्त्रार्थ) कर । इससे तेरा सुयश (= कल्याणकीर्तिशब्द) फैलेगा—‘अभय राजकुमारने इतने महर्दिक = इतने महानुभाव श्रमण गौतमके साथ वाद रोपा’ ।”

“किस प्रकारसे भन्ते ! मैं इतने महानुभाव श्रमण गौतमके साथ वाद रोपूँगा ?”

“आ तू राजकुमार ! जहाँ श्रमण गौतम है, वहाँ जा । जाकर श्रमण गौतमसे ऐसा कह— ‘क्यों भन्ते ! तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरोंको अ-प्रिय = अ-मनाप हो’ । यदि ऐसा पूछनेपर श्रमण गौतम तुझे कहे—‘राजकुमार ! बोल सकते हैं ० ।’ तब उसे तुम यह बोलना—‘तो फिर भन्ते ! पृथग्जन (= अज्ञ संसारी जीव)से (तथागतका) क्या भेद हुआ, पृथग्जन भी वैसा वचन बोल सकता है ०’ ? यदि ऐसा पूछनेपर तुझे श्रमण गौतम कहे—‘राजकुमार ! ० नहीं बोल सकते हैं ।’ तब तुम उसे बोलना—‘तो भन्ते ! आपने देवदत्तके लिये भविष्यद्वाणी क्यों की है—‘देवदत्त अपायिक (= दुर्गतिमें जानेवाला) है, देवदत्त नैरयिक (= नरकगामी) है, देवदत्त कल्पस्थ (= कल्पभर नरकमें रहनेवाला) है, देवदत्त अचिकित्स्य (= लाइलाज) है’ । आपके इस वचनसे देवदत्त कुपित = असंतुष्ट हुआ ।’ राजकुमार ! (इस प्रकार) दोनों ओरके प्रश्न पूछनेपर श्रमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा । जैसेकि पुरुषके कंठमें लोहेकी बंसी (= शृंगाटक) लगी हो, वह न निगल सके न उगल सके; ऐसे ही ० ।”

“अच्छा भन्ते !” कह...अभय राजकुमार...आसनसे उठ, निगंठ नात-पुत्तको अभिवादन कर, दक्षिणाकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये अभय राजकुमारने सूर्य (= समय) देखकर सोचा—‘आज भगवान्से वाद रोपनेका समय नहीं है । कल अपने घरपर भगवान्के साथ वाद करूँगा ।’ (और) भगवान्से कहा—

“भन्ते ! भगवान् अपने सहित चार आदमियोंका कलको मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । तब अभय राजकुमार भगवान्की स्वीकृति जान, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

. उस रातके बीचनेपर भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले, जहाँ अभय राजकुमार का घर था, वहाँ गये । जाकर विछे आसनपर बैठे । अभय राजकुमारने भगवान्को उत्तम खाद्य

भोज्यसे अपने हाथसे लूट किया, पूर्ण किया। तब अभय राजकुमार, भगवान्‌के भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये, अभय राजकुमार ने भगवान्‌से कहा—

“क्या मन्ते ! तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरेको अ-प्रिय = अ-मनाप हो।”

“राजकुमार ! यह एकांशसे (= सर्वथा = बिना अपवादके) नहीं (कहा जा सकता)।”

“मन्ते ! नाश होगये निर्गठ।”

“राजकुमार ! क्या तू ऐसे बोल रहा है—‘मन्ते ! नाश हो गये निर्गठ ?’”

“मन्ते ! मैं जहाँ निर्गठ नात-पुत्त हूँ, वहाँ गया था। जाकर निर्गठ नात-पुत्तको अमिवा-दनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे मुझे निर्गठ नात-पुत्तने कहा—‘आ राजकुमार ! ०’ ०। इसी प्रकार राजकुमार ! दुधारा प्रश्न पूछनेपर श्रमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा।”

उस समय अभय राजकुमारकी गोदमें, एक छोटा मन्द, उत्तान सोने लायक (= पहुतरी छोटा) वच्चा, बैठा था। तब भगवान्‌ने अभय राजकुमारसे कहा—

“तो क्या मानता है राजकुमार ! क्या तेरे या दाईके प्रमाद (= गफलत)से यदि यह कुमार मुखमें काठ या ढेला डाल ले, तो तू इसको क्या करेगा ?”

“निकाल लूँगा, मन्ते ! यदि मन्ते ! मैं पहिलेही न निकाल सका, तो वार्ये हाथसे सील पकड़कर, दाहिने हाथसे अँगुली टेढ़ीकर, खून-सहित भी निकाल लूँगा।”

“सो किस लिये ?”

“मन्ते ! मुझे कुमार (= वच्चे) पर दया है।”

“ऐसेही, राजकुमार ! (१) तथागत जिस वचनको अभूत = अ-तथ्य, अन्-अर्थ-युक्त (= व्यर्थ) जानते हैं, और वह दूसरोको अ-प्रिय, अ-मनाप है, उस वचनको तथागत नहीं बोलते। (२) तथागत जिस वचनको भूत = तथ्य अनर्थक जानते हैं, और वह दूसरोको अ-प्रिय = अ-मनाप है; उस वचनको तथागत नहीं बोलते। (३) तथागत जिस वचनको भूत = तथ्य सार्थक जानते हैं। कालञ्ज (= काल जाननेपर) तथागत उस वचनको बोलते हैं। (४) तथागत जिस वचनको अभूत = अतथ्य तथा अनर्थक जानते हैं, और वह दूसरोको प्रिय और मनाप है, उस वचनको भी तथागत नहीं बोलते। (५) जिस वचनको तथागत भूत = तथ्य (= सच) = सार्थक जानते हैं, और वह यदि दूसरोको प्रिय = मनाप होती है, कालञ्ज तथागत उस वचनको बोलते हैं। सो किसलिये ?—राजकुमार ! तथागतको प्राणियोपर दया है।”

“मन्ते ! जो यह क्षत्रिय-पंडित, ब्राह्मण-पंडित, गृहपति-पंडित, श्रमण-पंडित, प्रश्न तैयार-कर तथागतके पास आकर पूछते हैं। मन्ते ! क्या भगवान् पहिलेहीसे चित्तमें सोचे रहते हैं—‘जो मुझे ऐसा आकर पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, मैं ऐसा उत्तर दूँगा ?’”

“तो राजकुमार ! तुझेही यहाँ पूछता हूँ, जैसे तुझे जँचे, वैसे इसका उत्तर देना। तो... राजकुमार ! क्या तू रथके अङ्ग-प्रत्यंगमें चतुर है ?”

“हाँ, मन्ते ! मैं रथके अङ्ग-प्रत्यंगमें चतुर हूँ।”

“तो राजकुमार ! जो तेरे पास आकर यह पूछें—‘यह रथका कौनसा अङ्ग-प्रत्यंग है ?’ तो क्या तू पहिलेही से यह सोचे रहता है—जो मुझे आकर ऐसा पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, मैं

ऐसा उत्तर देंगा । अथवा मुकामहीपर यह तुझे भासित होता है ?”

“मन्ते ! मैं रथिक हूँ, रथके अंग-प्रत्यंगका मैं प्रसिद्ध (जानकार), चतुर हूँ । रथके सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग मुझे सुविदित हैं । (अतः) उसी क्षण (= स्थानशः) मुझे यह भासित होगा ।”

“ऐसे ही राजकुमार ! जो वह क्षत्रिय-पंडित, ० श्रमण-पंडित प्रज्ञ तय्यार कर, तथागतके पास आकर पृच्छते हैं । उसी क्षण वह तथागतको भासित होता है । सो किस हेतु ?—राजकुमार ! तथागतकी धर्मधातु (= मनका विषय) अच्छी तरह सध गई है ; जिस धर्म-धातुके अच्छी तरह सधी होनेसे, उसी क्षण (वह) तथागतको भासित होता है ।”

ऐसा कहनेपर अमय राजकुमारने भगवान्से कहा—

“आठ्चर्य ! मन्ते !! अद्भुत ! मन्ते !! ०^१ आजमे भगवान् मुझे अंजलि-चद्ध शरणागत उपासक धारण करें ।”

५६—बहु-वेदनीय-सुत्तन्त (२।१।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब पंचकांग (= पंचकांग) स्थपति (= थपति = थवई) जहाँ आयुष्मान् उदायी थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् उदायीको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया ! एक ओर बैठे पंचकांग स्थपतिने आयुष्मान् उदायीसे यह कहा—

“भन्ते उदायी ! भगवान्ने कितनी वेदनायें (= अनुभव), कही हैं ?”

“स्थपति ! भगवान्ने तीन वेदनायें कही हैं—(१) सुखा वेदना (२) दुःखा वेदना, (३) अदुःख-असुखा वेदना ।”

“भन्ते उदायी ! भगवान्ने तीन वेदनायें नहीं कहीं, दो वेदनायें भगवान्ने कही हैं—सुखा वेदना और दुःखा वेदना । भन्ते ! जो यह अदुःख-असुखा वेदना है उसे भगवान्ने ज्ञान्त उत्तम सुखके विषयमें कहा है ।”

दूसरी धार भी आयुष्मान् उदायीने पंचकांग स्थपतिसे यह कहा—“स्थपति ! भगवान्ने दो वेदनायें नहीं कही हैं । भगवान्ने तीन वेदनायें कही हैं—० ।”

दूसरी धार भी पंचकांग स्थपतिने आयुष्मान् उदायीसे यह कहा—“नहीं” भन्ते उदायी !
० ज्ञान्त उत्तम सुखके विषयमें कहा है ।”

तीसरी धार भी आयुष्मान् उदायीने ० ।

तीसरी धार भी पंचकांग स्थपतिने ० ।

न आयुष्मान् उदायी पंचकांग स्थपतिको समझा सके, न पंचकांग स्थपति आयुष्मान् उदायीको समझा सका ।

आयुष्मान् आनन्दने आयुष्मान् उदायीके पंचकांग स्थपतिके साथ (होते) इस कथा संलापको सुन लिया । तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ आयुष्मान् आनन्दने जो कुछ आयुष्मान् उदायीका पंचकांग स्थपतिके साथ कथा-संलाप हुआ था, सब भगवान्ने कह दिया । ऐसा कहने पर भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दसे यह कहा—

“आनन्द ! पंचकांग स्थपतिने उदायीका कथन (= पर्याय) ठीक होते (उसे) अनुमोदित नहीं किया । आनन्द ! उदायीने पंचकांग स्थपतिका कथन ठीक होते (उसे) अनुमोदित नहीं किया । आनन्द ! पर्याय (= मतलब)से मैंने दो वेदनायें भी कही हैं, पर्यायसे मैंने तीन वेदनायें भी कही हैं, ० पाँच वेदनायें ०, ० अठारह वेदनायें ०, ० एक सौ, आठ वेदनायें भी ० । इस प्रकार आनन्द ! पर्यायसे मैंने धर्मको उपदेशा है । इस प्रकार पर्यायसे उपदेशे धर्ममें जो एक दूसरेके

सुभाषित = सु-लपितको नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते, नहीं अनुमोदन करते, उनके लिये यही आशा करनी होगी, कि वह भंडन = कलह, विवाद करनेवाले हो एक दूसरेको मुख (रूपी) शक्ति (= हथियार) से बेधते फिरेंगे। आनन्द ! इस प्रकार पर्यायसे उपदेशे धर्ममें जो एक दूसरेके सुभाषित = सु-लपितको स्वीकारते, मानते, अनुमोदन करते हैं, उनके लिये यही आशा करनी होगी, कि वह एक हो सम्मोदन (= खुशी) करते, विवाद-रहित हो, दूध-जल हो, एक दूसरेको प्रिय नेत्रोंसे देखते विहरेंगे।

“आनन्द ! यह पाँच काम-गुण (= मोग) हैं। कौनसे पाँच ?—इष्ट=काम मनाप=प्रिय स्वरूप, भोग-युक्त रंजनीय चक्षुसे विज्ञेय (= ज्ञेय) रूप; ० श्रोत्रसे विज्ञेय शब्द; ० घ्राण-विज्ञेय गंध; ० जिह्वा-विज्ञेय रस; ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्य। आनन्द ! यह पाँच काम-गुण हैं। आनन्द ! इन पाँच कामगुणोंके आश्रयसे जो सुख=सौमनस्य उत्पन्न होता है, उसे काम-सुख कहा जाता है।

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे—प्राणी इतना तक ही सुख=सौमनस्यका अनुभव करते हैं; तो उसके इस कथनको मैं अनुमोदित नहीं करता। सो किस हेतु ?—आनन्द ! इस सुखसे अधिक अच्छा=प्रणीततर दूसरा सुख है। आनन्द ! कौन सुख इस सुखसे अधिक अच्छा=प्रणीततर है ?—यहाँ आनन्द ! भिक्षु ०^१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह आनन्द ! उस सुखसे ० प्रणीततर दूसरा सुख है।

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे ० मैं अनुमोदित नहीं करता। ०। ०^१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे ०, मैं अनुमोदित नहीं करता। ०। ०^१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे ०, मैं अनुमोदित नहीं करता। ०। ०^१ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०

“ ०। ०। ०^२ आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ०

“ ०। ०। ०^२ विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ०

“ ०। ०। ०^२ आर्किचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ०

“ ०। ०। ०^२ नैव-संज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता है। ०

“ ०। ०। यहाँ आनन्द ! भिक्षु नैव-संज्ञा-नासंज्ञायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञा-वेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। यह आनन्द ! उस सुखसे ० प्रणीततर दूसरा सुख है।

“हो सकता है आनन्द ! अन्य-तीर्थिक (= पंथाई) परिव्राजक यह कहें—श्रमण गौतम संज्ञा-वेदित-निरोधको कहता, और उसे सुखमय बतलाता है। सो वह क्या है, सो वह कैसा है ? ऐसा कहनेवाले अन्य-तीर्थिक परिव्राजकोंसे ऐसा कहना चाहिये—‘आवुसो ! भगवान् सुखा वेदनाहीका ख्याल करके (उसे) सुखमें नहीं बतलाते; वस्कि जहाँ जहाँ सुख उपलब्ध होता है, उस उसको ही तथागत सुखमें बतलाते हैं।’”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुप्मान् आनन्दने भगवान्के मापणको अभिनंदित किया।

६०—अपर्णाक-सुत्तन्त (२।१।१०)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् महान् भिक्षु-संघके साथ कोसल (देश) में चारिका (= विचरण) करते, जहाँ शाला (= साला) नामके कौसलोंका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे ।

शालाके ब्राह्मण-गृहपतियोंने सुना—शाक्य कुलसे प्रव्रजित ०^१ एक ओर बैठे शालाके ब्राह्मण-गृहपतियोंसे भगवान्ने यह कहा—

“गृहपतियो ! क्या कोई तुम्हारा (ऐसा) मनाप (= मनको तुष्ट करनेवाला) शास्ता (= उपदेशक) है जिसमें तुम्हें सहेतुक श्रद्धा हुई हो ?”

“नहीं, भन्ते ! कोई हमारा ऐसा मनाप शास्ता (नहीं) जिसमें हमारी सहेतुक श्रद्धा हुई हो ।”

“गृहपतियो ! मनाप शास्ता न मिलने पर तुम्हें इस अपर्णाक (= अपण्णक) धर्मको ग्रहण कर रहना चाहिये । गृहपतियो ! (वह) अपर्णाक (= द्विविधा-रहित) धर्म क्या है ?— गृहपतियो ! (१) कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण इस वादवाले = इस दृष्टिवाले होते हैं^२—‘नहीं है दान(का फल), नहीं है यज्ञ(का फल), नहीं है हवन(का फल), नहीं हैं सुकृत दुष्कृत कर्मोंका फल=विपाक; यह लोक नहीं है, परलोक नहीं है; माता नहीं पिता नहीं; औपपातिक (= ध्योनिज देव आदि) प्राणी नहीं हैं । लोकमें (ऐसे) सत्यको प्राप्त, सत्यारूढ़ श्रमण ब्राह्मण नहीं हैं, जो कि इस लोक परलोकको स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, (दूसरोंको) जतलावेंगे ।’ (२) गृहपतियो ! उन्हीं श्रमण ब्राह्मणोंके विरुद्ध (= ऋजु-प्रत्यनीक) वादवाले दूसरे यह कहते हैं—‘है दान, है यज्ञ, है हवन, है सुकृत दुष्कृत कर्मोंका फल=विपाक; है यह लोक, है परलोक, है माता, है पिता, है औपपातिक प्राणी; है लोक में सत्यको प्राप्त कर, सत्यारूढ़ श्रमण ब्राह्मण, जो कि इन-लोक परलोकको स्वयं जानकर साक्षात्कार कर जतलाते हैं ।’ तो क्या मानते हो, गृहपतियो ! यह श्रमण ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी वाद वाले हैं न ?”

“हाँ, भन्ते !”

(१) “वहाँ, गृहपतियो ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं—‘नहीं है दान ० साक्षात्कार कर जतलावेंगे’; उनसे यह आशा रखनी चाहिये—कि वह काय-सुचरित (= कायिक सुकर्म), वाचिक सुचरित, मनः-सुचरित इन तीनों कुशल-धर्मों (= सुकर्मों)को त्याग कर, काय-दुश्चरित (= कायिक दुष्कर्म), वचन-दुश्चरित, मनो-दुश्चरित इन तीनों अकुशल-धर्मोंको ग्रहण करेंगे । सो किस हेतु ?—क्योंकि वह आप श्रमण ब्राह्मण अकुशल धर्मोंमें दोष (= आदिनच),

^१ देखो पृष्ठ १६८ । ^२ अजित केश-कम्बलीका मत (देखो मुद्रचर्या २६१, ४६३ मां) ।

अपकार, संक्लेश (= पाप, मल) नहीं देखते, और कुशल धर्मोंमें, निष्कामतामें, गुण (= आनु-शंस्य) शुद्धता (= व्यवदानपक्ष) नहीं देखते । परलोकके होते भी—‘परलोक नहीं है’ यह उनकी दृष्टि (= सिद्धांत) होती है, यह उनकी मिथ्या-दृष्टि है । परलोकके होते हुये—‘परलोक नहीं है’ यह वह संकल्प (= कल्पना) करते हैं, यह उनके मिथ्या-संकल्प हैं । ० ‘परलोक नहीं है’—यह वह वचन बोलते हैं, यह उनका मिथ्या-वाक् है । परलोकके होते हुये,—‘परलोक नहीं है’, और यह परलोकवेदी अर्हत्तोंके (कथनके) विरुद्ध है । ०—‘परलोक नहीं है’—यह दूसरों को समझाते हैं, यह उनका अ-सद्धर्म-संज्ञापन है । इस अ-सद्धर्म-संज्ञापनसे वह अपना उत्कर्ष चाहते हैं, और दूसरोंको निन्दते हैं इस प्रकार पहिले उनकी सुशीलता नष्ट हो गई रहती है, और दुःशीलता उपस्थित रहती है, मिथ्या-दृष्टि, मिथ्या-संकल्प, मिथ्या-वाक्, आर्योंका विरोध, असद्धर्म-संज्ञापन, आत्मोत्कर्ष, पर-वम्भण (= दूसरेको निन्दना) यह अनेक पाप = अकुशल धर्म (= बुराइयाँ) होते हैं, मिथ्या दृष्टिके कारण ।

‘गृहपतियो ! यहाँ विज्ञ पुरुष सोचता है—यदि ‘परलोक नहीं है’, तो इस प्रकार यह आप पुरुष = पुद्गल काया छोड़ मरनेके वाद अपनी स्वस्ति (= कल्याण, सुरक्षा) करेगा; यदि परलोक है, तो यह पुरुष = पुद्गल काया छोड़ मरनेके वाद अपाय = दुर्गति, विनिपात (= पतन), नरकमें उत्पन्न होगा । चाहे परलोक न भी हो, चाहे इन आप श्रमण ब्राह्मणोंका वचन सत्य भी हो, तो भी तो यह पुरुष = पुद्गल इसी जन्ममें विज्ञों द्वारा निन्दित है—‘यह पुरुष = पुद्गल दुःशील, मिथ्या-दृष्टि, नास्तिकवादी है’ । यदि परलोक है, तब तो इस आप पुरुष = पुद्गलकी दोनों ओरसे कलिग्रह है—इस जन्ममें भी विज्ञों द्वारा निन्दा, और काया छोड़ मरनेके वाद अपाय = दुर्गति, विनिपात, नरकमें उत्पन्न होना । इस प्रकार इनके इस अपर्णक धर्मके दुराग्रहसे, ग्रहणसे एक ओर पूर्ण होना कुशल स्थानसे वंचित होना है ।

(२) ‘वहाँ गृहपतियो ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वाद वाले = इस दृष्टिवाले हैं—‘है दान ० ।’ उनके संबन्धमें यह आशा करनी चाहिये, कि वह ० काय-दुश्चरित, वचन-दुश्चरित, मनो-दुश्चरित इन तीनों अकुशल-धर्मोंको छोड़कर, ० काय-सुचरित, वचन-सुचरित, मनः-सुचरित इन तीनों कुशल धर्मोंको ग्रहण करेंगे । सो किस हेतु ?—क्योंकि वह आप श्रमण ब्राह्मण अकुशल धर्मोंमें दोष ० को देखते हैं; और कुशल धर्मोंमें निष्कामतामें गुण, शुद्धता देखते हैं । परलोकके सद्भाव में—‘परलोक है’ यह उनकी दृष्टि होती है, यह उनकी सम्यग्-दृष्टि है । परलोकके सद्भावमें ‘परलोक है’, यह उनका संकल्प होता है, (और) यह उनका सम्यक्-संकल्प है । ० ‘परलोक है’ यह वह वचन कहते हैं, (और) यह उनका सम्यग्-वाक् है । ० ‘परलोक है’—यह परलोक-विद् अर्हत्तोंके (कथनका) विरोधी (= प्रत्यनीक) नहीं है । ० ‘परलोक है’, यह दूसरेको संज्ञापन (= समझाना) करते हैं, यह उनका सद्धर्म-संज्ञापन है; इस सद्धर्म-संज्ञापन द्वारा न वह अपना उत्कर्ष (= आत्मोत्कर्ष) चाहते हैं, न दूसरेको निन्दते (= परवम्भन) हैं । इस प्रकार पहिले ही उनकी दुःशीलता नष्ट हो गई रहती है, और सुशीलता उपस्थित रहती है, और वह सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यग्-वाक्, आर्य-अप्रत्यनीकता, सद्धर्म-संज्ञापन, न-आत्मोत्कर्षण, न-पर-वम्भनसे युक्त होता है । यह अनेक कुशल-धर्म होते हैं, सम्यग्-दृष्टिके कारण ।

‘गृहपतियो ! यहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है—यदि परलोक है, तो यह आप पुरुष = पुद्गल काया छोड़ मरनेके वाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होंगे । चाहे परलोक मत हो, और इन श्रमण-ब्राह्मणों का वचन सच हो; तो भी तो यह आप पुरुष = पुद्गल इसी जन्ममें विज्ञों द्वारा प्रशंसित हैं—यह पुरुष = पुद्गल शीलवान्, सम्यग्-दृष्टि, आस्तिकवादी हैं । यदि परलोक है, तब तो इस आप

पुरुष=पुद्गलको दोनों ओर लाभ है—इस जन्ममें विज्ञों द्वारा प्रशंसा, और काया छोड़ मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होना । इस प्रकार इनके इस अपर्णाक (= द्विविधा-रहित) धर्म के सुग्रहण=समादानसे दोनों ओर पूर्ण होना है, अकुशल स्थानसे ही वंचित होना है ।

(३) “गृहपतियो ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले = इस दृष्टिवाले होते हैं^१—‘(पाप) करते-करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, शोक कराते, परेशानी कराते, मयते-मथाते, प्राण मारते, चोरी करते, सेंध लगाते, गाँव छूटते, घर छूटते, रहजनी करते, पर-खी गमन करते, झूठ बोलते भी पाप नहीं किया जाता । छुरेसे (या) तेज़ चक्र-द्वारा यदि कोई इस पृथिवीके प्राणियों (को मार कर) माँसका एक खलियान, माँसका एक पुंज बना दे; तो इसके कारण उसे पाप नहीं होगा, पापका आगम नहीं होगा । यदि घात करते-कराते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, (इधरसे) गंगाके दाहिने तीर पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा । दान देते-दिलाते, यज्ञ करते-कराते, (दक्षिणसे) गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो (भी) इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होगा । दान, दम (= इन्द्रिय-निग्रह) संयम, सत्य भाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं (होता) ।’

(४) “गृहपतियो ! इन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुद्ध वादवाले दूसरे यह कहते हैं—‘(पाप) करते करवाते ० झूठ बोलते पाप होता है । ० माँसका एक पुंज बना दे, तो इसके कारण उसे पाप होगा, पापका आगम होगा । ० गंगाके दाहिने तीर पर जाये, तो इसके कारण उसको पाप होगा ० । दान देते-दिलाते ० उसको पुण्य होगा ० । दान, दम, संयम, सत्यभाषणसे पुण्य होता है, पुण्यका आगम होता है’ । तो क्या मानते हो, गृहपतियो ! यह श्रमण-ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी वादवाले हैं न ?”

“हाँ, भन्ते !”

(५) “गृहपतियो ! वहाँ जो श्रमण-ब्राह्मण इस वाद वाले हैं—‘(पाप) करते करवाते ० सत्यभाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं’; उनसे यह आशा रखनी चाहिये—कि वह कायिक सुचरित ०^२ को त्याग कर, ०^३ अकुशल-धर्मोंको ग्रहण करेंगे । सो किस हेतु ?—क्योंकि वह आप श्रमण ब्राह्मण ०^२ नहीं देखते । क्रिया (= कर्म) के होते भी—‘क्रिया नहीं है’ यह उनकी दृष्टि होती है; यह उनकी मिथ्या-दृष्टि है ०^३ यह अनेक पाप = अकुशल धर्म होते हैं मिथ्या दृष्टिके कारण ।

“गृहपतियो ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है—‘यदि क्रिया नहीं है ०^२ कुशल स्थान (= भले काम) से वंचित होता है ।’

(६) “गृहपतियो ! वहाँ जो श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले=इस दृष्टि वाले हैं—‘करते करवाते ०^३ पुण्यका आगम होता है’, उनके सम्बंधमें यह आशा करनी चाहिये—‘०^१ कुशल-धर्मोंको ग्रहण करेंगे । सो किस हेतु ? ०^१ ‘क्रिया है’—यह उनकी दृष्टि होती है, यह उनकी सम्यग्-दृष्टि है ०^३ यह अनेक कुशल-धर्म होते हैं, सम्यग्-दृष्टिके कारण ।

“गृहपतियो ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है—‘यदि क्रिया है’ ०^३ अकुशल स्थानसे ही वंचित होता है ।

^१ पूर्ण काश्यपका मत (देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ४६२, २६२) । ^२ देखो पृष्ठ २४० । ^३ देखो पृष्ठ २४० (‘परलोक नहीं है’ के स्थान पर ‘क्रिया नहीं है’ पढ़ना चाहिये) । ^४ देखो ऊपर ।

^१ देखो पृष्ठ २४० । ^२ देखो पृष्ठ २४० (‘पर-लोक है’ के स्थान पर ‘क्रिया है’ पढ़ना चाहिये) ।

^३ देखो पृष्ठ २४० ।

(७) “गृहपतियो ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण इस वादवाले=इस दृष्टिवाले होते हैं^१—‘सत्त्वों (= प्राणियों)के संक्लेश (= चित्तकी मलिनता)का कोई हेतु नहीं=कोई प्रत्यय नहीं; बिना हेतु, बिना प्रत्ययके प्राणी संक्लेशको प्राप्त होते हैं। प्राणियोंकी (चित्त-)विशुद्धिका कोई हेतु=प्रत्यय नहीं; बिना हेतु=प्रत्यय प्राणी विशुद्धिको प्राप्त होते हैं। बल नहीं (चाहिये), वीर्य नहीं, पुरुषका स्थाम (= दृढ़ता) नहीं, पुरुष-पराक्रम नहीं (चाहिये), सभी सत्त्व=प्राणी=भूत=जीव, अ-वश=अ-बल=अ-वीर्य (हो) नियति (= भवितव्यता)के वशमें हो, छःओं अभिजातियों (= जन्मों)में सुख दुःख अनुभव करते हैं।’

(८) इन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुद्ध वाद वाले दूसरे यह कहते हैं—‘है हेतु सत्त्वोंके संक्लेशका, है प्रत्यय; हेतुसे, प्रत्ययसे प्राणी संक्लेशको प्राप्त होते हैं। है हेतु, है प्रत्यय प्राणियोंकी विशुद्धिका; हेतुसे=प्रत्ययसे प्राणी विशुद्धिको प्राप्त होते हैं; हैं (उपयोगी) बल, वीर्य, पुरुषका स्थाम, पुरुष-पराक्रम; और नहीं सभी सत्त्व ० अवश, अ-बल, अ-वीर्य नियतिके वशमें हो छःओं अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते हैं।’ तो क्या मानते हो, गृहपतियो ! यह श्रमण ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी वादवाले हैं न ?”

“हाँ, भन्ते !”

(९) “वहाँ, गृहपतियो ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले हैं—‘सत्त्वोंके संक्लेशका कोई हेतु नहीं ० छःओं अभिजातियोंमें सुख-दुःख अनुभव करते हैं’ उनसे यही आशा करनी चाहिये, कि वह ०^२ अकुशल धर्मोंको ग्रहण करेंगे। सो किस हेतु ?—०^२ ‘हेतु नहीं है’, यह उनकी दृष्टि होती है; यह उनकी मिथ्या-दृष्टि है ०^३। यह अनेक पाप=अकुशल धर्म होते हैं, मिथ्या-दृष्टिके कारण।

“गृहपतियो ! यहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है—‘यदि हेतु नहीं है ०^४ कुशल स्थानसे वंचित होता है।

(१०) “वहाँ गृहपतियो ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले हैं—‘है हेतु सत्त्वोंके संक्लेश का ० नहीं छःओं अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते’; उनसे यह आशा करनी चाहिये, कि वह ०^५ कुशल-धर्मोंको ग्रहण करेंगे। सो किस हेतु ?—०^५ ‘है हेतु’ यह उनकी दृष्टि होती है, (और) यह उनकी सम्यग्-दृष्टि है ०^६ यह अनेक कुशल धर्म होते हैं, सम्यग्-दृष्टिके कारण।

“गृहपतियो ! यहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है—‘यदि हेतु है ०^७ अकुशल स्थानसे ही वंचित होता है।

(११) “गृहपतियो ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले=इस दृष्टिवाले होते हैं—‘आरूप्य (= रूप-रहित देवताओंके लोक) सर्वथा नहीं हैं’।

(१२) गृहपतियो ! उन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुद्ध वादवाले दूसरे कहते हैं—‘आरूप्य सर्वथा हैं’। तो क्या मानते हो, गृहपतियो ! यह श्रमण ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी वादवाले हैं न ?”

“हाँ, भन्ते !”

^१ मन्त्रालि गोसालका मत। देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ४६२, २६२।

^२ देखो पृष्ठ २४०।

^३ देखो पृष्ठ २४०, २४१ (‘परलोक नहीं है’ के स्थान पर ‘हेतु नहीं है’ पढ़ना चाहिये)।

^४ देखो पृष्ठ २४०।

^५ देखो पृष्ठ २४१।

^६ देखो पृष्ठ २४० (‘परलोक है’ के स्थान

पर ‘हेतु है’ पढ़ना चाहिये)। ^७ देखो पृष्ठ २४०, २४१।

“वहाँ गृहपतियो ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है—जो श्रमण-ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं—‘आरूप्य सर्वथा नहीं हैं’, यह मेरा देखा नहीं है। और जो वह श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं—‘आरूप्य सर्वथा हैं’, यह मुझे ज्ञात नहीं। यदि मैं बिना जानते, बिना देखते, एकतरफा कहने लगूँ—‘यही सच है, और झूठ है’ तो यह मेरे योग्य नहीं। जो आप श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं—‘आरूप्य सर्वथा नहीं हैं’, यदि उन...का यह वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह देवता रूपमान् मनोमय हैं, उनमें मेरी अपर्णाक (= द्विविधारहित) उत्पत्ति हो। और जो आप श्रमण-ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं—‘आरूप्य सर्वथा हैं’, यदि उन...का यह वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह देवता रूप-रहित संज्ञामय हैं, उनमें मेरी अपर्णाक उत्पत्ति हो। भो ! रूपके कारण (लड़नेके लिये) दंढ-ग्रहण, शस्त्र-ग्रहण, कलह, विग्रह, विवाद, हूँ हूँ (मैं मैं), जुगली, शृपावाद देखा जाता है, किन्तु आरूप्य (लोक)में यह नहीं है; यह सोच वह रूपसे निर्वेद=वैराग्य, निरोधके लिये तत्पर होगा।

(१३) “गृहपतियो ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण इस वादवाले ० होते हैं—‘भव-निरोध (= जन्म मरणका अन्त) सर्वथा नहीं होता’।

(१४) गृहपतियो ! उन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुद्ध वादवाले दूसरे कहते हैं—‘भव-निरोध सर्वथा (= अवश्य) होता है’। तो क्या मानते हो, गृहपतियो ! यह श्रमण ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी वादवाले हैं न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“वहाँ, गृहपतियो ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है—०—‘भव-निरोध सर्वथा नहीं होता’—यह मेरा देखा नहीं है। ०—‘भव-निरोध सर्वथा होता है’—यह मुझे ज्ञात नहीं ०। ०—‘भव-निरोध सर्वथा नहीं होता’—यदि यह...वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह देवता रूप-रहित संज्ञा-मय (संज्ञा=होश ही जिनका शरीर है) है उनमें मेरी अपर्णाक उत्पत्ति होवे। ०—‘भव-निरोध सर्वथा होता है’—यदि यह...वचन सच है, तो हो सकता है, कि मैं इसी जन्ममें परिनिर्वाणको प्राप्त हो जाऊँ। जो वह श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं—‘भव-निरोध सर्वथा नहीं होता’, उनकी यह दृष्टि सरागताके पास (ले जानेवाली है), संयोग, अभिनन्दन (= लिप्सा), अध्यवसान=उपादान (= ग्रहण)के पास (ले जानेवाली है)। किन्तु जो आप श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं—‘भव-निरोध सर्वथा होता है’, उनकी यह दृष्टि अ-सरागता (= वैराग्य), अ-संयोग, अन्-अभिनन्दन, अन्-अध्यवसान, अन्-उपादानके पास (ले जानेवाली है)। वह यह सोच भवों (= जन्ममरणों)के ही निर्वेद=वैराग्य, निरोधके लिये तत्पर होता है।

“गृहपतियो ! लोकमें यह चार (प्रकारके) पुरुष (= पुद्गल) होते हैं। कौनसे चार ? ०^१ ब्रह्मभूत आत्मासे विहरता है।

“गृहपतियो ! कौनसा पुद्गल आत्मंतप=अपनेको संताप देनेवाले कामोंमें लग्न है ?— ०^२। ० परंतप ०^३। ० आत्मंतप-परंतप ०^४। ० अन्-आत्मंतप-अ-परंतप ०^५।

“तो वह इस प्रकार चित्तके एकाम्र, परिशुद्ध ०^६ अथ यहाँ करनेके लिये कुछ नहीं है—

^१ देखो पृष्ठ २०६। ^२ देखो पृष्ठ २०६। ^३ पृष्ठ २०६।

^४ पृष्ठ २०७ और १५-१६ (वाक्यमें उत्तम पुरुषके स्थानपर प्रथम पुरुष कत्के)।

यह जान लेता है । गृहपतियो ! यह कहा जाता है अन्-आत्मंतप-अ-परंतप, ० पुद्गल ० । ब्रह्म-भूत आत्मासे विहरता है ।”

ऐसा कहने पर शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य भो गौतम ! अद्भुत भो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा कर ०^१ ! आजसे आप हमें अंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”

६—इति गृहपति वग्ग २ । १ ।

६१—अम्ब-लट्टिक-राहुलोवाद-सुत्तन्त (२।२।१)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहके वेणुवन कलन्दकनिवापमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् राहुल^१ अम्बलट्टिकामें विहार करते थे। तब भगवान् सायंकालको प्यानसे उठ, जहाँ अम्बलट्टिका वनमें आयुष्मान् राहुल (थे) वहाँ गये। आयुष्मान् राहुलने दूरसेही भगवान्को आते देखा; देखकर भासन विछाया, पैर धोनेके लिये पानी रक्खा। भगवान्ने विछाये भासनपर बैठ पैर धोये। आयुष्मान् राहुलभी भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये।

तब भगवान्ने थोडा सा घचा पानी लोटेमें छोड़, आयुष्मान् राहुलको संघोधित किया—

“राहुल ! लोटाके इस थोड़ेसे घचे पानीको देखता है ?”

“हाँ भन्ते !”

“राहुल ! ऐसाही थोडा उनका श्रमण-भाव (= साधुता) है, जिनको जानवृक्षकर झूठ योलनेमें लज्जा नहीं।”

तब भगवान्ने उस थोड़ेसे घचे जलको फेंककर आयुष्मान् राहुलको संघोधित किया—

“राहुल ! देखा मैंने उस थोड़ेसे जलको फेंक दिया ?”

“हाँ भन्ते !”

“ऐसाही ‘फेंका’ उनका श्रमण-भावभी है, जिनको जानवृक्षकर झूठ योलनेमें लज्जा नहीं।”

तब भगवान्ने उस लोटेको औँधा कर, आयुष्मान् राहुलको संघोधित किया—

“राहुल ! तू इस लोटेको औँधा देखता है ?”

“हाँ, भन्ते !”

“ऐसाही ‘औँधा’ उनका श्रमण-भाव है, जिनको जान वृक्षकर झूठ योलते लज्जा नहीं।”

तब भगवान्ने उस लोटेको सीधाकर आयुष्मान् राहुलको संघोधित किया—

“राहुल ! इस लोटेको तू सीधा किया देख रहा है ? खाली देख रहा है ?”

“हाँ भन्ते !”

“ऐसाही खाली तुच्छ उनका श्रमण-भाव है, जिनको जान वृक्षकर झूठ योलनेमें लज्जा नहीं। जैसे राहुल ! हरिस-समान लम्बे दातों वाला, महाकाय, सुन्दर जातिका, संग्राममें जाने वाला, राजाका हाथी, संग्राममें जानेपर, अगले पैरोसे भी (लडाईका) काम करता है। पिछले पैरोसे भी काम करता है। शरीरके अगले भागसे भी काम करता है। शरीरके पिछले भागसे

^१ “वेणुवनके किनारे... एकान्त-प्रियोंके लिये बनाया गया वास-स्थान।” यह आयुष्मान् (= राहुल) सात वर्षके श्रामणेय होनेके समयसे ही, एकान्त (-चित्तता) बढ़ाते वहाँ विहार करते थे” (अ. क.)।

भी काम करता है। शिरसे भी काम करता है। कायसे भी काम करता है। दाँतसे भी काम करता है। पूँछसे भी काम लेता है। लेकिन सूँडको (वेकाम) रखता है। तो हाथीवान्को ऐसा (विचार) होता है—‘यह राजाका हाथी हरिस जैसे दाँतों वाला० पूँछसे भी काम लेता है, (लेकिन) सूँडको (वेकाम) रखता है। राजाके ऐसे नागका जीवन अविश्वसनीय है’।

“लेकिन यदि राहुल ! राजाका हाथी हरिस जैसे दाँतवाला ०, पूँछसे भी काम करता है, सूँडसे भी काम लेता है, तो राजाके हाथीका जीवन विश्वसनीय है; अब राजाके हाथीको और कुछ करना नहीं है। ऐसे ही राहुल ! ‘जिसे जानबूझकर झूठ बोलनेमें लजा नहीं; उसके लिये कोई भी पाप-कर्म अकरणीय नहीं’—ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिये राहुल ! ‘हँसीमें भी नहीं झूठ बोलूँगा’,—यह सीख लेनी चाहिये।

“तो क्या जानते हो, राहुल ! दर्पण किस कामके लिये है ?”

“भन्ते ! देखनेके लिये।”

“ऐसे ही राहुल ! देख देखकर कायासे काम करना चाहिये। देख देखकर वचनसे काम करना चाहिये। देख देखकर मनसे काम करना चाहिये।

“जब राहुल ! तू कायासे (कोई) काम करना चाहे, तो तुझे कायाके कामपर विचार करना चाहिये—जो मैं यह काम करना चाहता हूँ, क्या यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? दूसरेके लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? (अपने और पराये) दोनोंके लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? यह अ-कुशल (= बुरा) काय-कर्म है, दुःखका हेतु = दुःख विपाक (= ० भोग) देनेवाला है ? यदि तू राहुल ! प्रत्यवेक्षा (= देखभाल=विचार) कर ऐसा जाने—‘जो मैं यह कायासे काम करना चाहता हूँ ०। यह बुरा काय-कर्म है।’ ऐसा राहुल ! काय-कर्म सर्वथा न करना चाहिये। यदि तू राहुल ! प्रत्यवेक्षाकर ऐसा समझे,—‘जो मैं यह कायासे काम करना चाहता हूँ, वह काय-कर्म न अपने लिये पीड़ा-दायक हो सकता है, न परके लिये ०। यह कुशल (अच्छा) काय-कर्म है, सुखका हेतु=सुख-विपाक है’। इस प्रकारका कर्म राहुल ! तुझे कायासे करना चाहिये।

“राहुल ! कायासे काम करते हुये भी, काय-कर्मका प्रत्यवेक्षण (= परीक्षा) करना चाहिये—‘क्या जो मैं यह कायासे काम कर रहा हूँ, यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीड़ा-दायक है ०।’ यदि तू राहुल ० जाने। ० यह काय-कर्म अकुशल है ०। तो राहुल ! इस प्रकारके काय-कर्मको छोड़ देना। ० यदि ० जाने। ० यह काय-कर्म कुशल है, तो इस प्रकारके काय-कर्मको राहुल ! बारबार करना।

“काय-कर्म करके भी राहुल ! तुझे काय-कर्मका फिर प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—‘क्या जो मैंने यह काय-कर्म किया है, वह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीड़ादायक है ०। यह काय-कर्म अकुशल है ०।’ ० जाने। ० अकुशल है। तो राहुल इस प्रकारके काय-कर्मको शास्ताके पास, या विज्ञ गुरु-भाई (= सप्रह्वचारी) के पास कहना चाहिये, खोलना चाहिये = उतान करना चाहिये। कह कर, खोलकर = उतानकर, आगेको संयम करना चाहिये। यदि राहुल ! तू प्रत्यवेक्षण कर जाने। ० कुशल है। तो दिनरात कुशल (= उत्तम) धर्मों (= बातों) में शिक्षा ग्रहण करनेवाला बन। राहुल ! इससे तू प्रीति = प्रमोदसे विहार करेगा।

“यदि राहुल ! तू वचनसे काम करना चाहे ०। ० कुशल वचन-कर्म ० करना। ० बारबार करना। ० उससे तू ० प्रीति = प्रमोदसे विहार करेगा।

“यदि राहुल ! तू मनसे काम करना चाहे ०। ० कुशल मन-कर्म ० करना। ० बारबार

करना । मन-कर्म करके ० यह मनकर्म अकुशल है ० । तो इस प्रकारके मन-कर्ममें खिन्न होना चाहिये, शोक करना चाहिये, घृणा करनी चाहिये । खिन्न हो, शोक कर, घृणा कर जागो-जो संयम करना चाहिये । ० यह मन-कर्म कुशल है ० । उससे तू ० प्रमोदसे विहार करेगा ।

“राहुल ! जिन किन्हीं श्रमणों (= भिक्षुओं) या ब्राह्मणों (= सन्तों)ने अतीत-कालमें काय-कर्म ०, वचन-कर्म ०, मन-कर्म ० परिशोधित किये । उन सबोंने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण कर काय ., वचन ., मन-कर्म परिशोधित किये । जो कोई राहुल ! श्रमण या ब्राह्मण भविष्यकालमें भी काय ., वचन ., मन-कर्म परिशोधित करेंगे, वह सब इसी प्रकार ० । जो कोई राहुल ! श्रमण या ब्राह्मण आजकल भी काय ., वचन ., मन-कर्म परिशोधित करते हैं, वह सब भी इसी प्रकार ० ।

“इसलिये राहुल ! तुझे सीखना चाहिये कि मैं प्रत्यवेक्षण कर काय-कर्म ०, ० वचन-कर्म, ० मन-कर्मका परिशोधन करूँगा ।”

६२—महा-राहुलोवाद-सुत्तन्त (२।२।२)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम, जेतवनमें विहार करते थे ।

तब पूर्वाह्न समय भगवान् पहिन कर, पात्र-चीवरले श्रावस्तीमें पिंड(-चार)के लिये प्रविष्ट हुये । आयुष्मान् राहुल भी पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले भगवान्के पीछे पीछे हो लिये । भगवान्ने देखकर, आयुष्मान् राहुलको संबोधित किया—

“राहुल ! जो कुछ रूप है—भूत-भविष्य-वर्तमान-का शरीरके भीतर (= अध्यात्म)का, या बाहरका, महान् या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या समीप-का—सभी रूप ‘न यह मेरा है’, ‘न मैं यह हूँ’, ‘न यह मेरा आत्मा है’, इस प्रकार यथार्थ जानकर देखना (= समझना) चाहिये ।”

“रूपहीको भगवान् ! रूपहीको सुगत !”

“रूपको भी राहुल ! वेदनाको भी, संज्ञाको भी, संस्कारको भी, विज्ञानको भी ।”

तब आयुष्मान् राहुल—‘कौन आज भगवान्का उपदेश सुनकर, गाँवमें पिंड-चारके लिये जाये ?’—(सोच) वहाँसे लौटकर एक वृक्षके नीचे, आसन मार, शरीरको सीधा रख, स्मृतिको सन्मुख ठहरा बैठ गये । भगवान्ने आयुष्मान् राहुलको वृक्षके नीचे ० बैठा देखा । देखकर संबोधित किया—

“राहुल ! आणापान-सति (= प्राणायाम) भावनाकी भावना (= ध्यान) कर । राहुल ! आणापान सति (= आनापान महा-स्मृति) भावना किये जानेपर महाफलदायक, बड़े माहात्म्यवाली होती है ।”

तब आयुष्मान् राहुल सायंकालको ध्यानसे उठ, जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् राहुलने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! किस प्रकार भावना की गई, किस प्रकार बढ़ाई गई, आणापान-सति महा-फल-दायक, बड़े माहात्म्यवाली होती है ?”

“राहुल ! जो कुछ भी शरीरमें (= अध्यात्म), प्रतिशरीरमें (= प्रत्यात्म) कर्कश, खर्खरा है, जैसे—केश, लोम, नख, दाँत, चमड़ा, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि-मज्जा, बुद्ध, हृदय, यकृत, क्लोमक, झीहा, फुफ्फुस, आँत, पतली आँत (= अंत-गुण = आँतकी रस्सी), पेटका मल और जो कुछ और भी शरीरमें, प्रतिशरीरमें कर्कश ० है । राहुल ! यह सब ! अध्यात्म पृथ्वी-घातु कहलाती है । जो कुछ कि अध्यात्म पृथ्वी घातु है, और जो कुछ बाह्य; यह (सब) पृथिवी-घातु, पृथिवी-घातु ही है । उसको ‘यह मेरी नहीं’, ‘यह मैं नहीं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा नहीं है’

—इस प्रकार यथार्थतः जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे (भिक्षु) पृथिवी-धातुसे उदास होता है, पृथिवी-धातुसे चित्तको विरक्त करता है ।

“क्या है राहुल ! आपधातु ? आप (= जल) धातु (दो) हैं—आध्यात्मिक (= शरीर-में की) और बाह्य । क्या है आध्यात्मिक आप-धातु ० । ० तेज-धातु ० । ० वायु-धातु ० ।

“क्या है राहुल ! आकाश-धातु ?—आकाश-धातु आध्यात्मिक भी है, और बाह्य भी । “राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु क्या है ?—जो कुछ शरीरमें, प्रतिशरीरमें आकाश या आकाश-विषयक है, जैसे कि—कर्ण-छिद्र, नासिका-छिद्र, मुख-द्वार जिलसे अन्न-पान खादन-आस्वादन किया जाता है, और जहाँ खाना-पीना... ठहरता है, और जिससे कि अधोभागसे खाय-पिया... बाहर निकलता है । और जो कुछ और भी शरीरमें प्रति-शरीरमें आकाश या आकाश-विषयक है । यह सब राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु कही जाती है । जो कुछ आध्यात्मिक आकाश-धातु है, और जो कुछ बाह्य आकाश-धातु है, वह सब आकाश-धातु ही है । ‘वह न मेरी है’ ० , । ० ।

“राहुल ! पृथिवी-समान भावनाकी भावना (= ध्यान) कर । पृथिवी-समान भावनाकी भावना करते हुये, राहुल ! तेरे चित्तको, दिलको अच्छे लगनेवाले स्पर्श—चित्तको चारों ओरसे पकड़कर न चिमटेंगे । जैसे राहुल ! ‘पृथिवीमें शुचि (= पवित्र वस्तु) भी फँकते हैं’, अशुचि भी फँकते हैं । पाखाना भी ०, पेशाब ०, कफ ०, पीब ०, लोहू ० । उससे पृथिवी दुःखी नहीं होती, ... ग्लानि नहीं करती, घृणा नहीं करती; इसी प्रकार; तू राहुल ! पृथिवी-समान भावनाकी भावना कर । पृथिवी-समान भावना करते राहुल ! तेरे चित्तको अच्छे लगनेवाले स्पर्श ० न चिमटेंगे ।

“आप (= जल)-समान ० । जैसे राहुल ! जलमें शुचि भी धोते हैं ० ।

“तेज (= अग्नि)-समान ० । जैसे राहुल ! तेज शुचिको भी जलाता है ० ।

“वायु-समान ० जैसे राहुल ! वायु शुचिके पास भी यहता है ० ।

“आकाश-समान ० । जैसे राहुल ! आकाश किसीपर प्रतिष्ठित नहीं । इसी प्रकार तू राहुल ! आकाश-समान भावनाकी भावना कर । राहुल ! आकाश-समान भावनाकी भावना करने पर, उत्पन्न हुये मनको अच्छे लगनेवाले स्पर्श, चारों ओरसे पकड़कर चित्तको न चिमटेंगे ।

“राहुल ! मैत्री (= सबको मित्र समझना)-भावनाकी भावना कर । मैत्री-भावनाकी भावना करनेसे राहुल ! जो व्यापाद (= द्वेष) है, उससे छूट जायेगा ।

“राहुल ! करुणा- (= सारे प्राणियोंपर दया करना) भावनाकी भावना कर । करुणा भावनाकी भावना करनेसे राहुल ! जो तेरी विहिंसा (= पर-पीदा-करण-इच्छा) है, वह छूट जायेगी ।

“राहुल ! मुदिता (= सुखी देख प्रसन्न होना)-भावनाकी भावनाकर । ० राहुल ! जो तेरी अ-रति (= मन न लगना) है वह हट जायेगी ।

“ राहुल ! उपेक्षा (= शत्रुकी शत्रुताकी उपेक्षा)-भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा प्रतिघ (= प्रतिहिंसा) है, वह हट जायेगा ।

“ राहुल ! अ-शुभ (= सभी भोग बुरे हैं)-भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा राग है, वह चला जायेगा ।

“ राहुल ! अ-नित्य-संज्ञा (= सभी पदार्थ अ-नित्य हैं)-भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा अस्मिमान (= अहंकार) है, वह छूट जायेगा ।

“ राहुल ! आणापान-सति (= प्राणायाम)-भावनाकी भावना कर । आणा-पान-सति भावना करना-यदाना, राहुल ! महा-फल-प्रद षडे महात्म्यवाला है । राहुल ! आणा-पान-सति-भावना भावित होनेपर, यद्गई जानेपर, कैसे महा-फल-प्रद ० होती है ?—राहुल ! भिक्षु अरण्यामें

वृक्षके नीचे, या शून्य-गृहमें आसन मारकर, शरीरको सीधा धारण कर, स्मृतिको सम्मुख रख, बैठता है। वह स्मरण रखते साँस छोड़ता है, स्मरण रखते साँस लेता है, लम्बी साँस छोड़ते 'लम्बी साँस छोड़ रहा हूँ'—जानता है। लम्बी साँस लेते 'लम्बी साँस ले रहा हूँ'—जानता है। छोटी साँस छोड़ते ०। छोटी साँस लेते ०। 'सारे कामको अनुभव (= प्रतिस्वेदन) करते साँस छोड़'—सीखता है। 'सारे कामको अनुभव करते 'साँस लूँ'—सीखता है। कायाके संस्कारों खाज आदिको दवाते हुये साँस छोड़ूँ, ० ० साँस लूँ'—सीखता है। 'प्रीतिको अनुभव करते साँस छोड़ूँ' ०। '० साँस लूँ' सीखता है। 'सुख अनुभव करते ०'। 'चित्तके संस्कारको अनुभव करते ०। 'चित्तके संस्कारको दवाते हुये ०। 'चित्तको अनुभव करते ०'। 'चित्तको प्रमोदित करते ०। 'चित्तको समाधान करते ०। 'चित्तको (राग आदिसे) विमुक्त करते ०। ' (सब पदार्थोंको) अनित्य देखने-चाला हो ०। ' (सब पदार्थोंमें) विरागकी दृष्टिसे ०। ' (सब पदार्थोंमें) निरोध (= विनाश)की दृष्टिसे ०। ' (सब पदार्थोंमें) परित्यागकी दृष्टिसे साँस छोड़ूँ'—सीखता है। 'परित्यागकी दृष्टिसे साँस लूँ'—सीखता है। राहुल ! इस प्रकार भावना की गई, बढ़ाई गई आणा-पान-सति महा-फल-दायक, और बड़े माहात्म्य-वाली होती है। राहुल ! इस प्रकार भावनाकी गई, बढ़ाई गई आणा-पान-सतिसे जो वह अन्तिम आश्वास (= साँस छोड़ना) प्रश्वास (= साँस लेना) हैं, वह भी विदित होकर, लय (= निरुद्ध) होते हैं, अ-विदित होकर नहीं। ”

भगवान्ने यह कहा, आयुष्मान् राहुलने संतुष्ट हो, भगवान्के भाषणका अभि-नन्दन किया।

६३—चूल-मालुङ्क्य-सुत्तन्त (२।२।३)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनार्थपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब एकान्तमें स्थित विचार-मग्न आयुष्मान् मालुङ्क्य-पुत्तके चित्तमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—“भगवान्ने जिन इन दृष्टियोंको अ-व्याकृत (= अ-कथनीय), स्थापित (= जिनका उत्तर रोक दिया गया), प्रतिक्षिप्त (= जिनका उत्तर देना अस्वीकृत होगया) कर दिया है— (१) ‘लोक शाश्वत (= नित्य) है’, (२) ‘लोक अ-शाश्वत है’, (३) ‘लोक धन्तवान् है’, (४) ‘लोक अनन्त है’, (५) ‘जीव शरीर एक है’, (६) ‘जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है’, (७) ‘मरनेके बाद तथागत होते हैं’, (८) ‘मरनेके बाद तथागत नहीं होते’, (९) ‘मरनेके बाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं’, (१०) ‘मरनेके बाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं’ । इन (दृष्टियों)को भगवान् मुझे नहीं बतलाते । जो (कि) भगवान् मुझे (इन्हें) नहीं बतलाते, यह मुझे नहीं रुचता = मुझे नहीं खमता । तो मैं भगवान्के पास जाकर इय यातको पूछूँ; यदि मुझे भगवान् कहेंगे—(१) ‘लोक शाश्वत है’ या ० (१०) ‘मरनेके बाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं’; तो मैं भगवान्के पास ब्रह्मचर्य-त्रास (= शिष्यता) करूँगा । यदि मुझे भगवान् न बतलायेंगे—(१) ‘लोक शाश्वत है’ या ० (१०) ‘मरनेके बाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं’; तो मैं (भिक्षु-)शिक्षाका प्रत्याख्यान कर होन (= गृहस्थ-आश्रम) में लौट जाऊँगा ।”

तब आयुष्मान् मालुङ्क्यपुत्त सायंकालको प्रतिसेहयन (= एकान्तचिन्तन, विचार-मग्न होना)से उठकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् मालुङ्क्यपुत्तने भगवान्से यह कहा—

“मन्ते ! ० यहाँ मेरे चित्तमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—‘भगवान्ने जिन इन दृष्टियोंको अ-व्याकृत ० तो मैं शिक्षाका प्रत्याख्यान कर होन (आश्रम)में लौट जाऊँगा ।’ यदि भगवान् जानते हैं—(१) ‘लोक शाश्वत है’, तो भगवान् मुझे बतलायें—‘लोक शाश्वत है’ । (२) यदि भगवान् जानते हैं—‘लोक अशाश्वत है’, तो भगवान् मुझे बतलायें—‘लोक अशाश्वत है’ । यदि भगवान् नहीं जानते, कि ‘लोक शाश्वत है, या लोक अशाश्वत है’; तो न जानने ममजनेवालेके लिये यही सीधी (बात) है, कि वह (साफ कहदे)—‘मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम’ । ० यदि भगवान् जानते हैं—(९) ‘मरनेके बाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं’; तो भगवान् मुझे बतलायें—‘मरनेके बाद ०’ । यदि भगवान् जानते हैं—(१०) ‘मरनेके बाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं’, तो भगवान् मुझे बतलायें—‘० न-नहीं होते हैं’ । यदि भगवान् नहीं जानते—‘० होते भी हैं, नहीं भी होते’ या ‘० न-होते हैं, न-नहीं-होते’; तो न जानने समजने-

वालेके लिये यही सीधी (यात) है, कि वह (साफ कहदे)—‘मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम’ ।”

“क्या मालुङ्क्यपुत्त ! मैंने तुझसे यह कहा था—‘आ, मालुङ्क्य-पुत्त ! मेरे पास ब्रह्मचर्य-वास कर, मैं तुझे बतलाऊँगा—(१) ‘लोक शाश्वत है’, ० (१०) ‘भरनेके बाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं’ ?”

“नहीं, भन्ते !”

“क्या तूने मुझसे यह कहा था—मैं भन्ते ! भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास करूँगा, भगवान् मुझे बतलायें—(१) ‘लोक शाश्वत है’, ० (१०) ‘भरनेके बाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं’ ?”

“नहीं, भन्ते !”

“इस प्रकार मालुङ्क्यपुत्त ! न मैंने तुझसे कहा था—‘आ ०, ०’; न तूने मुझसे कहा था—मैं भन्ते ! ०, ० । ऐसा होनेपर मोघ-पुरुष ! (= फजुलके आदमी) ! तू क्या होकर किस-का प्रत्याख्यान करेगा ?”

“मालुङ्क्य-पुत्त ! जो ऐसा कहे—मैं तब तक भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास न करूँगा, जब तक भगवान् मुझे यह न बतलावें—(१) ‘लोक शाश्वत है’ ०, या (१०) ० न-होते हैं, न-नहीं-होते’; (फिर) तथागतने तो उन्हें अव्याकृत किया है और वह (बीचमें ही) मर जायेगा । जैसे मालुङ्क्यपुत्त ! कोई पुरुष गाढ़े लेपवाले विषयसे युक्त शल्य (= वाणके फल)से विंधा हो; उसके हित-मित्र भाई-बंध शल्यचिकित्सक भिषक् (= वैद्य)को ले आवें । (और) वह (घायल) यह कहे—‘मैं तब तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि अपने वेधनेवाले उस पुरुषको न जान लूँ कि वह क्षत्रिय है या ब्राह्मण, वैश्य है (= वेस्स) या शूद्र (= सुद्द) ।...‘मैं तब तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा, ० कि वह पुरुष अमुक नामका अमुक गोत्रका है’ । ०, ० कि वह पुरुष (कदमें) लम्बा है, नाटा है, या मझोला है’ । ०, ० कि वह पुरुष काला है, श्याम है, या मंगुर (-मछली)के रंगका है’ । ०, ० कि वह अमुक ग्राम या निगम (= कस्बे) या नगरमें (रहता) है’ ।...‘मैं तब तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि उस वेधने-वाले धनुषको न जान लूँ, कि वह चाप है या क्रोदण्ड । ० ज्याको न जान लूँ, कि वह अर्क (= मदार)की, या सठेकी, या नहारु (= ताँत)की, या मरुव (= मरुवा)की या क्षीरपर्णी (= दुधिया जड़ी)की है’ । ० काण्ड (= शर, वाण)को न जान लूँ, कि वह कच्छ (= जलाशयके तटपर स्वयं उगे सर्पत)का है, या रोपे (सर्पत)का है’ । ० तीरके परको न जान लूँ, कि वह वाजका, या गिद्ध; कौओं, या बगले (= कुलल), या मोर, या शिथिलहनु (पक्षी)का है । ० तीरके गिर्दकी ताँत (= नहारु)को न जान लूँ, कि वह गायकी, या भैंसकी, या गोरुव (= लकड़े ?)की, या बंदरकी है’ । ० शल्य (= फर)को न जान लूँ, कि वह शल्य है, या क्षुरप्र (= खुरपे जैसा फर), या वैकण्ड, या नाराच, या वत्सदन्त (= बछड़ेके दाँतकी तरह), या करवीर-पत्र (= करेरुके पत्रकी भाँति एक नोकवाला) । (ऐसा होनेपर) मालुङ्क्य-पुत्त ! वह तो अ-ज्ञातही रह जायेंगे, और यह पुरुष मर जायेगा । ऐसे ही मालुङ्क्य-पुत्त ! जो ऐसा कहे—‘मैं तब तक ० (फिर) तथागतने तो इसे अव्याकृत (= कथनका अविषय) किया है, और वह मर जायेगा ।

“मालुङ्क्यपुत्त ! (१, २) ‘लोक शाश्वत है’—इस दृष्टिके होनेपर ही क्या ब्रह्मचर्यवास होगा ?—ऐसा नहीं । ‘लोक अशाश्वत है’ इस दृष्टिके होनेपर ही क्या ब्रह्मचर्यवास होगा ?—ऐसा

भी नहीं ।। मालुंक्यपुत्त ! चाहे 'लोक शाश्वत है'—यह दृष्टि रहे, चाहे 'लोक अ-शाश्वत है' यह दृष्टि रहे; जन्म है ही, जरा है ही, मरण है ही, शोक रोगा-काँदना दुःख दौर्मनस्य परेशानी हैं ही, जिनके इसी जन्ममें विघात(के उपाय)को मैं धतलाता हूँ । ० ।

“मालुंक्यपुत्त ! (१, १०) 'मरनेके बाद तथागत (= सुक्त पुरुष) होते भी हैं, नहीं भी होते हैं'—यह दृष्टि रहे, चाहे '० न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं'—यह दृष्टि रहे; जन्म है ही ०, जिनके कि इसी जन्ममें विघात (के उपाय)को मैं धतलाता हूँ ।

“इसलिये मालुंक्यपुत्त ! मेरे अ-व्याकृत (= वचनके अ-विषय)को अव्याकृतके तौरपर धारण कर, और मेरे व्याकृतको व्याकृतके तौरपर धारण कर ।

“मालुंक्यपुत्त ! क्या मेरे अ-व्याकृत हैं ?—(१) 'लोक शाश्वत है'—यह मेरा अ-व्याकृत है, ० (१०) '० न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं' यह 'मेरा अ-व्याकृत है । मालुंक्यपुत्त ! किसलिये इन्हें मैंने अ-व्याकृत (कहा) है ?—मालुंक्यपुत्त ! यह (= इनका व्याकरण, कथन) सार्थक नहीं, आदि-ब्रह्मचर्य-उपयोगी नहीं हैं; (और) न यह निर्वेद = वैराग्य, निरोध = उप-शम (= शांति), अभिज्ञा (= लोकोत्तर ज्ञान), संबोध (= परम ज्ञान), निर्वाणके लिये (आवश्यक) हैं; इसलिये मैंने उन्हें अ-व्याकृत किया ।

“मालुंक्य-पुत्त ! क्या मेरे व्याकृत (= कथित, कथनके विषय) हैं ?—(१) 'यह दुःख है'—इसे मैंने व्याकृत किया, (२) 'यह दुःख-समुदय (= ० हेतु, ० उत्पत्ति) है—इसे मैंने व्याकृत किया, (३) 'यह दुःख-निरोध है ०, (४) 'यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् है'—इसे मैंने व्याकृत किया । मालुंक्यपुत्त ! किसलिये इन्हें मैंने व्याकृत किया है ?—मालुंक्य-पुत्त ! यह सार्थक हैं, आदि-ब्रह्मचर्य-उपयोगी हैं, (और) यह निर्वेद ० निर्वाणके लिये (वाज-श्यक) हैं; इसलिये मैंने इन्हें व्याकृत किया ।

“इसलिये मालुंक्यपुत्त ! मेरे अ-व्याकृतको अ-व्याकृतके तौरपर धारण कर, और मेरे व्याकृतको व्याकृतके तौरपर धारण कर ।”

भगवान्ने यह कहा; सन्तुष्ट हो आयुष्मान् मालुंक्यपुत्तने भगवान्के भाषणको अभि-नन्दित किया ।

६४—महा-मालुंक्य-सुत्तन्त (२।२।४)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“याद है न भिक्षुओ ! तुम्हें, मेरे उपदेशे पाँच अवरभागीय संयोजन ?”

ऐसा पृष्ठनेपर आयुष्मान् मालुंक्यपुत्तने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! याद हैं, मुझे भगवान्के उपदेशे पाँच अवर-भागीय संयोजन ।”

“मालुंक्यपुत्त ! तो मेरे उपदेश तुझे कैसे याद हैं ० ?”

“भन्ते ! (१) सत्काय-दृष्टि (= नित्य-आत्मवाद)को मैंने भगवान्का उपदेशा अवर-भागीय (= ओरभागीय)-संयोजन धारण किया है । (२) विचिकित्सा (= संशय)को ० । (३) शीलव्रत परामर्श (= शील और व्रतको ही सब कुछ मानना)को ० । (४) काम-च्छन्द (= भोगमें अनुराग)को ० । (५) व्यापादको ० ।

“मालुंक्यपुत्त ! इस प्रकार पाँच अवरभागीय-संयोजनोंको किले उपदेश देते तुने मुझे सुना ? मालुंक्यपुत्त ! अन्य दूसरे तीर्थ (= मत)के परिब्राजक ऐसे वच्चोंके वहलावेसे वहलाते हैं । उतान (ही) सो सकनेवाले अवोध छोटे वच्चेको सत्काय (= आत्म-वाद) भी नहीं होता, फिर कहाँसे उसे सत्काय-दृष्टि उत्पन्न होगी ? (हाँ) सत्काय-दृष्टिका अनुशय (= संस्कार) तो रहता है, उसके साथ चिमटा । ० छोटे वच्चेको धर्म (= मानसिक विचार) भी नहीं होते, कहाँसे उसे विचिकित्सा उत्पन्न होगी ? (हाँ) विचिकित्साका अनुशय तो रहता है, उसके (मनके) साथ चिमटा । ० छोटे वच्चेको शील (= सदाचार) भी नहीं होता, कहाँसे उसे शीलमें शीलव्रत-परामर्श उत्पन्न होगा, शील-व्रत-परामर्श-अनुशय तो रहता है ० । ० छोटे वच्चेको काम भी नहीं होते, कहाँसे उसे कामोंमें कामच्छन्द उत्पन्न होगा ? ० कामच्छन्दानुशय तो रहता है ० । ० छोटे वच्चेको शक्ति भी नहीं होती, कहाँसे उसे व्यापाद (= उत्पीड़नेच्छा) उत्पन्न होगा ? ० व्यापाद-अनुशय तो रहता है उसके साथ चिमटा । मालुंक्यपुत्त ! अन्य दूसरे तीर्थवाले परिब्राजक ऐसे वच्चोंको वहलावेसे वहलाते हैं ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा—

“भगवान् ! इसीका काल है, सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान् पाँच अवरभागीय-संयोजनोंका उपदेश करें, भगवान्से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।”

“तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भन्ते !—(कह) आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“यहाँ आनन्द ! आर्योंके दर्शनने वंचित ०^१ अज्ञ, जनाड़ी सत्काय-दृष्टिसे पर्युत्थित = सत्काय-दृष्टिसे परेत (= व्यास) चित्तसे विहरता है । वह उत्पन्न सत्काय-दृष्टिसे निकलनेके (रास्ते को) ठीकसे नहीं जानता । उसकी वह न हटाई (= अप्रति-विनीत), दृढ़ताप्राप्त सत्काय-दृष्टि अवरभागीय-संयोजन है । वह विचिकित्सासे पर्युत्थित, विचिकित्सासे व्यास-चित्त हो विहरता है । वह उत्पन्न विचिकित्सासे निकलनेके (रास्तेको) ठीक से नहीं जानता । उसकी वह न हटाई, दृढ़ता-प्राप्त विचिकित्सा अवरभागीय संयोजन है । वह शील-व्रत-परामर्शसे ० । ० काम-रागसे (= कामच्छन्द) ० । ० व्यापाद ० ।

“और आनन्द ! आर्योंके दर्शनसे अभिज्ञ, आर्यधर्मसे परिचित, आर्यधर्ममें सुविनीत (= सुशिक्षित), सत्पुरुषोंके दर्शनसे अभिज्ञ, सत्पुरुष-धर्मसे परिचित, सत्पुरुष धर्ममें सुविनीत आर्यथावक सत्काय-दृष्टिसे पर्युत्थित = सत्काय-दृष्टिसे व्यास चित्त हो नहीं विहरता । वह उत्पन्न हुई सत्काय-दृष्टिसे निकलनेके (रास्तेको) ठीकसे जानता है; (जिसके कारण) उसकी वह सत्काय-दृष्टि अनुशय (= संस्कार)-रहित बन नष्ट हो जायेगी । वह विचिकित्सासे ० । वह शील-व्रत-परामर्शसे ० । वह काम-रागसे ० । वह व्यापादसे ० ।

“आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके प्रहाण (= नाश)के लिये जो मार्ग है = जो प्रतिपद् है, “उसके बिना वह पाँच अवरभागीय-संयोजनोंको जानेगा, देखेगा, या नाशेगा, यह सम्भव नहीं । जैसे, आनन्द ! सारवान् खड़े महावृक्षकी छालको घिना काटे, गुद्दे (= फेगू)को घिना काटे, सारका काटना हो सकेगा, यह संभव नहीं; ऐसे ही आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके प्रहाणके लिये ० सम्भव नहीं । आनन्द ! ० जो मार्ग है = जो प्रतिपद् है, उसे पाकर वह पाँच अवरभागीय-संयोजनोंको जानेगा ०, यह सम्भव है । जैसे, आनन्द ! सारवान् खड़े महावृक्षकी छाल को काटकर, गुद्देको काटकर सारका काटना होगा, यह संभव है; ऐसे ही आनन्द ! ० । जैसे, आनन्द ! गंगानदी जलसे करारतक भरी काक-पेया (= करारपर बैठेबैठे कौयेके पीने योग्य, लयालन्) हो; तब एक दुर्बल पुरुष (यह कहता) आवे—मैं इस गंगानदीके प्रवाहको घाँहसे तिछें काटकर; सकुशल पार चला जाऊँगा । (और) वह गंगानदीके प्रवाहको घाँहसे तिछें काटकर सकुशल पार नहीं जा सके । ऐसेही आनन्द ! सत्कायके निरोध (= नाश)के लिये धर्म-उपदेश किये जाते समय जिसका चित्त प्रसन्न नहीं होता = प्रस्कंदित नहीं होता, स्थिर नहीं होता, विमुक्त नहीं होता; उसे दुर्बल पुरुषकी भी भाँति जानना चाहिये । जैसे आनन्द ! गंगानदी जलसे करारतक भरी, काक-पेया हो; तब एक बलवान् पुरुष (यह कहता) आवे—मैं ० पार कर जाऊँगा । (और) वह ० सकुशल पार जा सके । ऐसे ही आनन्द ! सत्काय-निरोधके लिये धर्म-उपदेश किये जाते समय जिसका चित्त प्रसन्न होता है ०, उसे बलवान् पुरुषकी भाँति जानना चाहिये ।

“आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके नाशके लिये क्या मार्ग है = क्या प्रतिपद् है ?—यहाँ आनन्द ! भिक्षु उपधि (= विषय)को त्यागकर, अकुशल-धर्मों (= बुराइयों)को हटा-कर कायिक-द्रौण्डुत्वों (= चंचलता)को सर्वथा शांत कर, कामोंमें विरहित ०^२ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह जो कुछ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञानसे संबंध रखनेवाले धर्म (= पदार्थ) हैं, उन्हें अनित्य, दुःख, रोग, गंड (= फाड़े), शल्य, घाव, आयाघा (= पीटा), पराये, प्रलोक (= नाशमान), शून्य, और अन्-आत्मके तौरपर देखता है । वह उन धर्मोंमें

^१ देखो पृष्ठ ३ ।

^२ देखो पृष्ठ १५ ।

चित्तको निवारण^१ करके अमृत (= निर्वाण) धातु (= पद) की ओर चित्तको एकाग्र करता है—यह शांत प्रणीत (= उत्तम) है, जो कि यह संस्कारोंका शमन, सारी उपधियों का परित्याग, तृष्णाका क्षय, विराग, निरोध (रूपी) निर्वाण है। वह उस (अमृतपद, तृष्णा-क्षय) में स्थित हो आस्रवों (= चित्त-मलों) के क्षयको प्राप्त होता है। यदि आस्रवोंके क्षयको नहीं प्राप्त होता, तो उसी धर्म-अनुरागसे = उसी धर्म-नन्दीसे पाँचों अवरभागीय संयोजनोंके क्षयसे, औपपातिक (= देवता) हो, वहाँ (देवलोकमें) जा निर्वाणको प्राप्त होनेवाला होता है, (वह) उस लोकसे लौटकर आनेवाला नहीं होता। आनन्द ! यह भी मार्ग = प्रतिपद् है, पाँच अवरभागीय संयोजनोंके नाशके लिये।

“और फिर आनन्द ! भिक्षु वितर्क विचारके शांत होनेपर ०^१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०^१ तृतीय-ध्यानको ०^२। ०^२ चतुर्थ-ध्यानको ०। और फिर आनन्द ! भिक्षु रूप-संज्ञाके सर्वथा छोड़ने ०^३ आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है ०। ०^३ विज्ञानानन्त्यायतन ०। ०^३ आर्किचन्यायतन ०। ०^३ नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता है। वह जो कुछ वहाँ वेदना, संज्ञा ०^३ उस लोकसे लौटकर आनेवाला नहीं होता। आनन्द ! यह भी मार्ग = प्रतिपद् है।”

“भन्ते ! यदि यही मार्ग = प्रतिपद् है, पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके प्रहाण (= नाश) के लिये, तो भन्ते ! क्यों कोई भिक्षु चेतो-विमुक्ति (= छूटे चित्त-मलों) वाले होते हैं, कोई प्रज्ञा-विमुक्ति वाले ?”

“आनन्द ! इसे मैं इन्द्रिय (= मानसिक शक्तिके) -भेदके कारण कहता हूँ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्टहो आयुष्मान् आनन्दने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया !

^१ देखो पृष्ठ १५।

^२ देखो पृष्ठ २७-२८।

^३ देखो ऊपर।

६५—भद्रालि-सुचन्त (२।२।५)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावतीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! मैं एक आसन-भोजनको सेवन करता हूँ । ...एक आसन-भोजनको सेवन करनेसे मैं (अपनेमें) निरोगता = निर्व्याधिता, फुर्ती, यत्न और सुख (-पूर्वक) विहारको देखता हूँ । आओ, भिक्षुओ ! तुम भी एक आसन-भोजन सेवन करो, एक आसन-भोजन सेवन करनेसे तुम भी निरोगता ० सुख-विहारको देखोगे ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् भद्रालिने भगवान्से यह कहा—“मैं भन्ते ! एक आसन-भोजन को सेवन नहीं कर सकता । एक आसन-भोजन सेवन करनेपर भन्ते ! मुझे कौकृत्य (= चिंता) होगा, उदासी (= विप्रतिसार) होगी ।”

“तो भद्रालि ! जहाँ तू निमंत्रित हो, वहाँ (भोजनका) एक भाग खा दूसरे भागको ले जाकर (दूसरी वार) खाना; इस प्रकार खा कर भी भद्रालि ! तू गुजारा कर सकता है ।”

“ऐसे भी भन्ते ! मैं भोजन नहीं कर सकता । ऐसे भोजन करनेपर भी भन्ते ! मुझे कौकृत्य होगा, विप्रतिसार होगा ।”

तब आयुष्मान् भद्रालिने भगवान्के शिक्षापद (= भिक्षु-नियम) वनाते समय, भिक्षु-संघके शिक्षा ग्रहण करते समय उपेक्षा (अन्-उत्साह) की । तब आयुष्मान् भद्रालि उन सारे तिमामे मर भगवान्के गन्मुख नहीं गये; क्योंकि वह शास्ता-के-शासन (= बुद्ध-धर्म)में शिक्षाका पूरी तरह पालन करनेवाले न थे ।

उस समय बहुतसे भिक्षु (यह ख्याल करते) भगवान्का चीवर-कर्म (= वस्त्र सीना) कर रहे थे, कि चीवर तैयार हो जाने पर तीन मास याद भगवान् चारिका (= पर्यटन)के लिये जायेंगे । तब आयुष्मान् भद्रालि, जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ...जाकर उन भिक्षुओंके साथ...सम्मो-दन...कर, एक ओर बैठे गये, एक ओर बैठे आयुष्मान् भद्रालिसे उन भिक्षुओंने कहा—

“आवुस भद्रालि ! यह भगवान्का चीवर-कर्म किया जा रहा है; चीवर तैयार हो जानेपर तीन मास याद भगवान् चारिकाको जायेंगे । अच्छा, आवुस भद्रालि ! इस यात (= देवना)को अच्छी तरह मनमें करो, मत पीछे (यह) अधिक दुष्कर हो जाये ।”

भिक्षुओंको “अच्छा, आवुस !” कह, आयुष्मान् भद्रालि जहाँ भगवान् थे, वहाँ...जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्-भद्रालिने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! बाल, मूढ = अ-कुशल जैसे सुद्वसे अपराध (= अत्यय) हुआ जो कि भगवान्के शिक्षापद वनाते समय, भिक्षु-संघके शिक्षा ग्रहण करते समय मैंने उपेक्षा प्रकट की । भन्ते ! भग-

वान् मेरे उस अपराधको क्षमा करें, भविष्यमें संवर (= रक्षा)के लिये ।”

“तो, भद्दालि ! बाल, मूढ = अकुशल जैसे तुझसे अपराध हुआ, जो कि मेरे शिक्षापद बनाने समय, भिक्षु-संघके शिक्षा ग्रहण करते समय तूने उपेक्षा प्रकट की। भद्दालि ! तुझे यह भी ख्याल नहीं गुजरा कि भगवान् श्रावस्तीमें विहर रहे हैं, भगवान् भी बुझे जानेंगे—‘भद्दालि नामक भिक्षु शास्ता के शासनमें शिक्षाको पूरा नहीं करनेवाला है’। भद्दालि ! तुझे यह भी ख्याल (= समय) नहीं गुजरा कि बहुतसे भिक्षु श्रावस्तीमें वर्षा वासके लिये आये हुये हैं, वह भी जानेंगे—‘भद्दालि ० शिक्षाको पूरा करनेवाला नहीं है’ । भद्दालि ! तुझे यह भी ख्याल नहीं गुजरा कि बहुत सी भिक्षुणियाँ श्रावस्तीमें वर्षा-वासके लिये आई हुई हैं ० । भद्दालि ! तुझे यह भी ख्याल नहीं गुजरा कि बहुतसे उपासक श्रावस्तीमें बसते हैं ० । ० बहुतसी उपासिकायें श्रावस्तीमें बसती हैं ० । ० बहुतसे दूसरे तीर्थ (= मत)के श्रमण-ब्राह्मण श्रावस्तीमें वर्षा-वासके लिये आये हुये हैं, वह भी जानेंगे—‘श्रमण गौतमका श्रावक, एक स्थविर (= वृद्ध) भद्दालि नामक भिक्षु, शास्ताके शासनमें शिक्षाको पूरा करनेवाला नहीं है, तुझे यह भी ख्याल नहीं गुजरा ?”

“भन्ते ! बाल ०^१ भन्ते भगवान् मेरे अपराधको क्षमा करें भविष्यमें संवरके लिये ।”

“तो भद्दालि ! ०^१ भिक्षु-संघके शिक्षा ग्रहण करते समय तूने उपेक्षा प्रकट की । तो क्या मानता है, भद्दालि ! यहाँ कोई उभतो-भाग-विमुक्त (= अर्हत्) भिक्षु हो, उसे मैं यह कहूँ—‘आ भिक्षु ! तू पंक्रमें मेरे लिये पार होनेका (रास्ता) बन जा’ । तो क्या वह पार होने का (रास्ता) बनेगा, या (अपने) शरीरको दूसरी ओर झुकायेगा, या ‘नहीं’ कहनेवाला होगा ?”

“ऐसा नहीं, भन्ते !”

“तो क्या मानता है, भद्दालि ! यहाँ कोई प्रज्ञा-विमुक्त भिक्षु हो ० । ० काय-साक्षी ० । ० दृष्टि-प्राप्त ० । ० श्रद्धा-विमुक्त ० ० धर्मानुसारी ० । ० श्रद्धानुसारी ० या ‘नहीं’ कहनेवाला होगा ?”

“ऐसा नहीं भन्ते !”

“तो क्या मानता है, भद्दालि ! क्या तू उस समय उभतो-भाग-विमुक्त था, ० या श्रद्धानुसारी था ?”

“नहीं (था) भन्ते !”

“तो भद्दालि ! उस समय तू रिक्त = तुच्छ अपराधी था ?”

“हाँ, भन्ते ! ‘०^१ भन्ते ! भगवान् मेरे उस अपराधको क्षमा करें, भविष्यमें संवर के लिये ।”

“तो भद्दालि ! ०^१ तूने उपेक्षा प्रकटकी । चूँकि भद्दालि ! तू अपराधको अपराधके तौरपर देख धर्मानुसार (उसका) प्रतिकार करता है, (इसलिये) उसे हम स्वीकार करते हैं । भद्दालि ! आर्य-विनय (= बुद्धधर्म)में वह बुद्धि है, जो कि यह अपराधको अपराधके तौरपर देख भविष्यमें संवरके लिये धर्मानुसार प्रतिकार करना है ।

“भद्दालि ! यहाँ कोई भिक्षु शास्ताके शासनमें शिक्षाका पूरा करनेवाला न हो ; उसे यह हो—‘क्यों न मैं एकान्त शयन-शासन—अरण्य, वृक्ष-मूल, पर्वत, कंदरा, गिरिगुहा, श्मशान, वन-प्रस्थ, अब्भोकास (= खुली जगह), पुआल-सुंजको सेवन करूँ ; शायद मैं उत्तर-मनुष्य-धर्म (= मानव स्वभावसे परे) अलं-आर्य-ज्ञान-दर्शन-विशेष (= लोकोत्तर-ज्ञान, दिव्यशक्ति)

का साक्षात्कार करूँ। (तय) एकान्त शयन-आसन ० को सेवन करे। वैसे एकान्त विहार करते उसे शास्ता भी उपवाद (= शिक्षा) करते हैं, सोच कर सबहचारी (= गुल्माई) भी उपवाद करते हैं, देवता भी उपवदते हैं, अपने आपको भी उपवदता है। इस प्रकार शास्ता द्वारा उपवदित हो, ० अपने आप उपवदित हो, उत्तर-मनुष्य धर्मका, अलं-आर्य-ज्ञान-दर्शन-विशेष का नहीं साक्षात्कार करता। सो क्यों ?—महालि ! यही जो कि वह शास्ताके शासनमें शिक्षाको पूरी तरह पालन करनेवाला नहीं होता।

“किन्तु यहाँ महालि ! कोई मिश्र शास्ताके शासनमें शिक्षाका पूरी तरह पालन करनेवाला होता है। उसको ऐसा होता है—क्यों न मैं एकान्त शयनासन (= निवास) ० को सेवन करूँ। वैसे एकान्त विहार करते उसे शास्ता भी नहीं उपवदते, ० अलंआर्य-ज्ञान-दर्शन-विशेषको वह साक्षात्कार करता है। सो किस हेतु ?—महालि ! यही जो कि वह शास्ताके शासनमें शिक्षाको पूरी तरह पालन करनेवाला होता है।

“और फिर महालि ! मिश्र ०^१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सो किस हेतु ?—महालि ! यही जो कि वह ० ।

“और फिर महालि ! मिश्र ०^१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० ।

“और फिर महालि ! मिश्र ०^१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० ।

“और फिर महालि ! मिश्र ०^१ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० ।

“और फिर महालि ! मिश्र इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०^१ इस प्रकार आकार और उद्देशके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगता है। ०^२ ।

“और फिर महालि ! मिश्र इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०^२ स्वर्गको प्राप्त हुये हैं। इस प्रकार अ-मानुष विशुद्ध दिव्य चक्षुसे ० देखने लगता है। ०

“और फिर महालि ! मिश्र आत्मबोधके श्रेयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है ०^२ अथ यहाँ (करने) के लिये कुञ्ज (शेष) नहीं है—इसे जान लेता है। ०”

ऐसा कहने पर आयुष्मान् महालिने भगवान्से यह कहा—“मन्ते ! क्या हेतु है = क्या प्रत्यय है, जो कि कोई-कोई मिश्र फिर-फिर (उसी) कारणको करता है ? मन्ते क्या है हेतु = क्या है प्रत्यय, जो कि कोई-कोई मिश्र फिर-फिर वैसे कारणको नहीं करता ?”

“महालि ! कोई मिश्र निरन्तर आपत्ति (= कसूर) करनेवाला होता है = आपत्ति-ग्रहण (होता है) । मिश्रोंके कहने पर दूसरा-दूसरा करने लगता है, बाहरकी बात उठा देता है; षोष द्वेष, अ-प्रत्यय (= असन्तोष) प्रकट करता है; ठीकसे नहीं धर्तता, रोम नहीं गिराता, निम्नार नहीं खोजता (= वन्तति), ‘जिससे संघ सन्नुष्ट हो, उसे करूँगा’—यह नहीं कहता। तय महालि ! मिश्रोंको यह होता है—‘आवुसो ! यह मिश्र निरन्तर आपत्ति करनेवाला है ० यह नहीं कहता। अच्छा, आवुसो ! इस मिश्रकी वैसे-वैसे उपरीक्षा (= जाँच) करो, जिनमें इसका यह अधिकरण (= अभियोग, मुकद्दमा, जो उसके कसूरके सम्यन्धमें मिश्र-संघमें पेश है) जल्दी न शान्त (= तै) हो जाये।’ महालि ! मिश्र उस मिश्रके अधिकरणको वैसे-वैसे जाँचते हैं, कि उसका वह अधिकरण जल्दी नहीं शान्त होता।

“महालि ! कोई मिश्र निरन्तर आपत्ति करनेवाला, आपत्ति-ग्रहण होता है—(किन्तु) वह मिश्रोंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने लगता। ० ‘जिसमें संघ सन्नुष्ट हो, उसे

करूँगा'—कहता है । ० भिक्षु उस भिक्षुके अधिकरणको वैसे वैसे जाँचते हैं, कि उसका वह अधिकरण जल्दी ही शान्त हो जाता है ।

“भद्दालि ! कोई भिक्षु विरल आपत्ति वाला होता है = आपत्ति-बहुल नहीं होता । वह भिक्षुओंके कहनेपर दूसरा दूसरा करने लगता है ० उसका वह अधिकरण जल्दी नहीं शान्त होता ।

“० ‘वह भिक्षुओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने लगता ० उसका वह अधिकरण जल्दीही शान्त हो जाता है ।

“भद्दालि ! यहाँ कोई भिक्षु श्रद्धामात्र, प्रेममात्रसे रह रहा है । वहाँ भद्दालि ! भिक्षुओंको यह होता है—आवुसो ! यह भिक्षु श्रद्धामात्र प्रेममात्रसे रह रहा है । यदि हम बार-बार इस भिक्षुके कारण (= कसूर-ब्रेकसूरका निर्णय) करेंगे, तो जो कुछ श्रद्धा मात्र प्रेममात्र इसको है, वह भी कहीं इसका छूट न जाये । जैसे भद्दालि ! किसी पुरुषको एक आँख हो, उसके बन्धु मित्र, जाति-भाई उस एक आँखकी रक्षा करें—जो इसकी एक आँख है, वह भी कहीं नष्ट न हो जाये । ऐसे ही भद्दालि ! कोई भिक्षु श्रद्धामात्र = प्रेममात्रसे वर्तता है, ० वह भी कहीं इसका छूट न जाये ।

“भद्दालि ! यह हेतु है = यह प्रत्यय है, जिससे कोई कोई भिक्षु बार बार कारण करते हैं । भद्दालि ! यह हेतु = प्रत्यय है, जिससे कि कोई कोई भिक्षु बार बार कारण (= दोष) नहीं करते ।”

“भन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कि पूर्वकालमें अल्पतर शिक्षापद (= भिक्षु-नियम) थे, और बहुत भिक्षु आज्ञा (= उत्तम ज्ञान)में अवस्थित थे ? भन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कि आजकल शिक्षापद बहुत हैं, किन्तु अल्पही भिक्षु आज्ञामें अवस्थित होते हैं ?”

“भद्दालि ! शास्ता (= गुरु) तब तक श्रावकों (= शिष्यों)के लिये शिक्षापदका विधान नहीं करते, जब तक कि यहाँ संघमें कुछ आस्रव (= चित्त-मल)-स्थानीय धर्म (= कार्य) हो नहीं जाते । जब भद्दालि ! संघमें कुछ आस्रवस्थानीय धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं आस्रव-स्थानीय धर्मोंके दूर करनेके लिये शास्ता संघके लिये शिक्षापदका विधान करते हैं । भद्दालि ! संघमें तब तक कोई आस्रव-स्थानीय धर्म उत्पन्न नहीं होते, जब तक कि संघ महान् न हो गया हो । जब भद्दालि ! संघ महान् हो गया होता है, तो यहाँ कोई आस्रव-स्थानीय धर्म उत्पन्न होते हैं; तब ० शास्ता संघके लिये शिक्षापदका विधान करते हैं । भद्दालि ! तब तक संघमें कोई आस्रवस्थानीय धर्म नहीं उत्पन्न होते, जब तक कि संघ बड़े लाभको न प्राप्त हो गया हो ० । ० बड़े यशको न प्राप्त हो गया हो ० । ० बहुश्रुत भावको न प्राप्त हो गया हो ० । रात्रिज्ञ-भाव (= चिरकाल से अवस्थिति) को न प्राप्त हो गया हो ० ।

“भद्दालि ! तुम लोग उस समय थोड़े थे, जब कि मैंने तुम्हें आजानीयस्वूपमा (= आजानीयाङ्गोपमा) धर्म-पर्याय (= सूत्र)को उपदेश किया था । याद है, भद्दालि ?”

“नहीं, भन्ते !”

“वहाँ, भद्दालि ! क्या कारण समझता है ?”

“मैं भन्ते ! चिरकालसे शास्ताके शासनमें शिक्षाको पूरा करनेवाला न था ।”

“भद्दालि ! यही हेतु = यही प्रत्यय नहीं है । वल्कि भद्दालि ! दीर्घकालसे मैंने तेरे चित्त के भावको जान लिया है—‘यह मोघपुरुष ! मेरे धर्म-उपदेश करते समय, ध्यान करके मन लगा कर, सारे चित्तको एकाग्र कर, सावधान हो धर्म नहीं सुनता’ । अच्छा भद्दालि ! तो मैं तुझे

आजानीयस्सूपम धर्म-पर्यायको उपदेशता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।”

“अच्छा, मन्ते !” — (कह) आयुष्मान् महालिने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“जैसे महालि ! चतुर चातुक-सवार मद्र = आजानीय अश्वको पा कर, (१) पहिले मुखाधान (= लगाम लगाना आदि) का कारण (= शिक्षा) करता है । पहिले न जाना कारण होनेसे मुखाधान कारण करते वक्त कुछ चपलता, शूल, प्रमाद होते हो हैं । क्योंकि वह निरन्तर, क्रमशः उस कारण (= शिक्षा) के देनेसे उसे सीख लेता है । (२) महालि ! निरन्तर क्रमशः शिक्षा देनेसे जब वह उसे सीख लेता है, तो चातुक सवार उसे आगेकी शिक्षा, युगाधान (= जुआ खींचना) सिखलाता है । पहिले न जाना (= किया) कारण होनेसे ० । (३) ० जब वह उसे सीख लेता है, तो ० चातुक सवार उसे आगेकी शिक्षा (= करण) मंडल (= चर) काटना) ० । ० खुरकाय (= निःशब्दगति) ० । ० धावन (= सर्पट) ० । ० र्वार्थ (= हिनहिनानेकी शिक्षा) ० । ० राजगुण (= एक गति) ० । ० राजवंश वणिग्य (= एक गति) ० । ० बलिय (= एक गति) में प्रवेश कराता है । महालि ! इन दस गुणों (= अंगों) ने युक्त मद्र = आजानीय अश्व राजार्ह = राज-भोग्य होता है, राजाका अंगही कहा जाता है । ऐसे ही महालि ! दश अंगोंसे युक्त भिक्षु आवाहन-योग्य, अतिथि-स्नेहा-योग्य, दान-योग्य, हाथ-जोटेन-योग्य, लोकके पुण्य (बाने) का अनुपम क्षेत्र (= खेत) होता है । किन दश (अंगों) से ?— (१) यहाँ, महालि ! भिक्षु अशेष सम्यग्दृष्टिसे युक्त होता है; (२) ० अशेष (= संपूर्ण) सम्यक्-संकल्प ० । (३) ० अशेष सम्यग्-चाक् ० । (४) ० अशेष सम्यक् कर्मान्त ० । (५) ० अशेष सम्यग् आजीव ० । (६) अशेष सम्यग् व्यायाम ० । (७) ० अशेष सम्यक्-स्मृति ० । (८) अशेष सम्यक्-समाधि ० । (९) ० अशेष सम्यग् (= ठीक) ज्ञान ० । (१०) अशेष सम्यग्-विमुक्ति (= ० मुक्ति, रागद्वेष मोहसे चित्तकी मुक्ति) ० । महालि ! इन दस गुणोंसे युक्त भिक्षु ० अनुपम क्षेत्र होता है ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् महालिने भगवान्के मापणको अभिनन्दित किया ।

६६—लकुटिकोपम-सुत्तन्त (२।२।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् अंगुत्तराप^१ (देश)में आपण नामक अंगुत्तराप (वासियों)के कसबेमें विहार करते थे ।

तब भगवान् पूर्वाह्नके समय पहिनकर पात्र-चीवर ले पिंड (= भिक्षा)के लिये आपण में प्रविष्ट हुये । आपणमें पिंडचार (= मधूकरी माँगना) करके, पिंडपात (= भिक्षा)से निवृत्त हो दिनके विहारके लिये एक वन-पंडमें गये । उस वन-पंडमें प्रविष्ट हो एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे । आयुष्मान् उदायी भी पूर्वाह्नके समय पहिन कर ० एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे ।

तब एकान्तमें ध्यानावस्थ हो बैठे आयुष्मान् उदायीके चित्तमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—

“अहो ! भगवान् हमारे बहुतसे दुःखोंके अपहर्ता हैं । अहो ! भगवान् हमारे बहुतसे सुखों (= सुख-धर्मों)के उपहर्ता (= लानेवाले) हैं । अहो ! भगवान् हमारे बहुतसे अकुशल-धर्मों (= बुराइयों)के अपहर्ता हैं । अहो ! भगवान् हमारे बहुतसे कुशल-धर्मों (= भलाईयों)के उपहर्ता हैं ।”

तब आयुष्मान् उदायी सायंकाल प्रतिसँल्लयन (= ध्यान)से उठ कर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् उदायीने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! आज एकान्तमें ध्यानावस्थ हो बैठे मेरे चित्तमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—‘अहो ० उपहर्ता हैं ।’ भन्ते ! पहिले हम शामको भी खाते थे, सवेरेको भी, दिवा (= मध्याह्न)को भी विकाल (= अपराह्न)में भी । उस समय जब भगवान्ने भिक्षुओंको संवोधित किया—‘भिक्षुओ ! तुम इस मध्याह्न-वाद् दिनके भोजनको छोड़ो ।’ उस समय भन्ते ! सुझे बुरा लगा—दुर्मनता हुई—‘जो कि गृहपति श्रद्धासे हमें उत्तम खाद्य-भोज्य मध्याह्न-वाद् दिनको देते हैं, उसका भी भगवान् हमें त्याग करना कहते हैं, उसको भी सुगत हमें छोड़ना कहते हैं ।’ सो हमने भन्ते ! भगवान्के प्रति प्रेम, गौरव, ही (= लज्जा), अपन्नपा (= संकोच)का ख्याल कर उस विकाल भोजनको छोड़ दिया । सो हम भन्ते ! शामको खाते, सवेरे खाते थे । फिर वह भी समय आया जब भगवान् ने भिक्षुओंको संवोधित किया—‘भिक्षुओ ! तुम इस रातके विकाल भोजनको छोड़ो ।’ उस समय भन्ते ! सुझे बुरा लगा; दुर्मनता हुई—‘जो कि गृहपति श्रद्धासे हमें उत्तम खाद्य-भोज्य रातको विकालमें देते हैं, उसका भी भगवान् हमें त्याग करना कहते हैं, उसका भी सुगत हमें छोड़ना

^१ मागलपुर-मुंगेर जिल्लेके गंगाका उत्तरका भाग ।

कहते हैं' । पहिले (एक धार) भन्ते ! कोई पुरुष दिनको नौद लेता योला—'हन्त ! इसे रखदो, शामको सब इकट्ठा होकर खायेंगे' । जो कुच भन्ते ! संखतिर्याँ (= सुन्दर पाक) हैं, लम्बी रातको (अधिक) होती हैं, दिनको कम । सो हमने भन्ते ! भगवान्के प्रति प्रेम ० ख्याल कर उम रात्रि के विकाल भोजनको छोड़ दिया । पहिले भन्ते ! मिश्रु रातके अंधकारमें भिझाटन (= पिंडहार) करते थे । (उस समय वह) चन्दनिका (= गडहे)में भी घुस जाते थे, गडही (= बोलिगल) में भी गिर जाते थे, काँटेकी रूंधान पर भी चढ़ जाते थे, सोई गायपर चढ़ जाते थे; कृत-कर्म (= अपना काम जिसने कर लिया है) अ-कृत-कर्म चोरोंके साथ भी उनका संगम होजाता था । (दुराचारिणी) स्त्रियाँ भी उन्हें अधर्मके लिये बुलाती थीं । पहिले एक समय भन्ते ! मैं रातके अंधकारमें भिझाटन कर रहा था, बिजलीकी चमकमें, भन्ते ! मैंने एक स्त्रीको वर्तन साफ करते देखा । उसने मुझे देख चीत्कार किया—'अरे मरी ! पिशाच !! मुझे (खाने धा रहा है) !!!, ऐसा कहने पर मैंने भन्ते ! उस स्त्रीको कहा—'भगिनी ! मैं पिशाच नहीं हूँ, भिझाके लिये मिश्रु खदा हूँ ।' 'मिश्रुका वाप मरे, मिश्रुकी मा मरे । मिश्रुको गाय काटनेकी तीक्ष्ण घुरीने अपना पेट काट लेना अच्छा है, न कि रातके अंधकारमें तुम्हारा भीख माँगना ।' भन्ते ! वह (यात) याद करते मुझे ऐसा होता है—'अहो ! भगवान् हमारे बहुतसे दुःखोंके अपहर्ता हैं ० कुदाल धर्मोंके उपहर्ता हैं ।''

'ऐसे ही उदायी ! कोई कोई मोघपुरुष मेरे—'यह छोड़ो'—कहने पर ऐसा कहते हैं—'क्या इस छोटी यातके लिये, तुच्छ यातके लिये यह श्रमण जिद्द कर रहा है' और वह उसे नहीं छोडते, और मेरे विषयमें विरक्ति उत्पन्न करते हैं । (किन्तु) जो मिश्रु सीख चाहनेवाले होते हैं, उनको यह होता है—'यह जयदस्त बंधन है; दृढ़ बन्धन है, स्थिर बंधन है, मजबूत (= अपूतिक = न-सड़ा) बंधन है, स्थूल कर्लिगर (= पशुओंके गलेमें बाँधने का काष्ठ) है ।' जैसे उदायी ! पूति (= पोय) लताके बंधनसे बँधी लटुकिका (= गौरव्या) पक्षी वहीं बध, बंधन या मरणकी प्रतीक्षा करती है । उदायी ! जो (आदमी) यह कहे—'बूँ कि वह लटुकिका पक्षी पूति-लताके बंधनसे बँधी है, वह वहीं बध, बंधन या मरणकी प्रतीक्षा कर रही है; किन्तु उसका वह अजल बंधन है, दुर्बल बन्धन है, पूतिक (= लड़ा) बंधन है, असारक बंधन है ।' क्या उदायी ! ऐसा कहते वह ठीक कह रहा है ?'

'नहीं भन्ते ! वह लटुकिका पक्षी जिस पूतिलताके बंधनसे बँधी वहीं बध, बंधन या मरणकी प्रतीक्षा कर रही है, वह उसके लिये चलवान् (= मजबूत) बंधन है ० स्थूल कर्लिगर है ।'

'ऐसे ही उदायी ! कोई कोई मोघपुरुष मेरे—'यह छोड़ो'—कहनेपर, ० स्थूल कर्लिगर है ।

'किन्तु यहाँ उदायी ! कोई कोई कुलपुत्र मेरे—'यह छोड़ो'—कहने पर, ऐसा कहते हैं—'इस छोटी यात, इस तुच्छ यातका छोडना क्या (बड़ी यात) है, जिसे छोडनेके लिये भगवान् कह रहे हैं, जिसके त्यागके लिये सुगत कह रहे हैं' और उसे छोड़ देते हैं, और मेरे विषयमें विरक्ति उत्पन्न नहीं करते । जो सीख चाहनेवाले मिश्रु हैं, वह उसे छोड़ निश्चिन्त हो, रोम गिराकर, पर-द-वृत्ति (= दूसरेके दिव्यसे वृत्ति करनेवाले) मृगके समान चित्तके साथ विहरते हैं । उदायी ! उनके लिये वह अजल बंधन है ० असारक बंधन है । जैसे उदायी ! = हरिस-जैसे दाँतोंवाला मरुकाय, संग्रामचारी, बड़े मजबूत रस्सोंसे बँधा उत्तम जातका राजकीय नाग (= हाथीका पट्टा) घोटाही शरीर घुमानेसे उन बंधनोंको तोड़ कर, छिन्न कर, जहाँ चाहे वहाँ चला जाये । उदायी ! जो ऐसा कहे—० जो कि ० हाथीका पट्टा थोडा ही शरीर घुमानेसे जिन बंधनोंको तोड़ कर ० जहाँ चाहे,

वहाँ चला जाये; वह मजवृत बंधन हैं ० स्थूल कर्लिंगर है । ऐसा कहते हुये उदायी ! क्या वह ठीक कह रहा है ?”

“नहीं, मन्ते ! ० राजाका नाग थोड़ा ही शरीर धुमानेसे जिन बंधनोंको तोड़ कर ० चला जाये, वह उसके लिये अवल बंधन है ० असारक बंधन है ।”

“ऐसेही उदायी ! कोई कोई कुलपुत्र मेरे—‘यह छोड़ो’—कहने पर ० मृगके समान चित्तसे विहरते हैं । उदायी ! उनके लिये वह अवल बंधन है ० असारक बंधन है ।”

“जैसे, उदायी ! कोई दरिद्र धनहीन, अन्-आढ्य पुरुष हो, उसके पास एक कुरूप, कौआ-उड़ावन, टूटा फूटा घर हो, एक कुरूप टूटी फूटी खटोली हो, एक ‘‘घड़ेमर भरने लायक अनाज हो, एक कुरूपा मेहरिया (= जायिका) हो । वह (संघ-)आराममें हाथ-पैर धो मनोज्ञ भोजन ग्रहण कर शीतल छायामें बैठे ध्यानरत भिक्षुको देखे । उसको ऐसा हो—‘अहो, श्रमण-भाव (= संन्यासी होना) सुखमय है, अहो ! श्रमणभाव निरोग है । अहो ! कहीं मैं भी केश-दाढ़ी मुँडा कापायवस्त्र पहिन घर छोड़ वेधर (= अनागारिक) हो प्रव्रजित होजाता ।’ किन्तु वह उस अपने कुरूप, कौआ-उड़ावन, टूटे फूटे घरको ० कुरूपा मेहिरियाको छोड़ कर, केश-दाढ़ी मुँडा कापाय वस्त्र पहिन प्रव्रजित नहीं हो सके । उदायी ! यदि कोई यह कहे—जिस बंधनसे बँधा वह, उस अपने ० टूटे फूटे घर को ० एक कुरूपा मेहिरियाको छोड़ कर ० प्रव्रजित नहीं हो सकता; वह उसके लिये अवल बंधन है ० असारक बंधन है’ ऐसा कहते हुये उदायी ! क्या वह ठीक कह रहा है ?”

“नहीं, मन्ते ! जिस बंधनसे बँधा वह, उस अपने ० टूटे फूटे घर ० को छोड़ कर ० प्रव्रजित नहीं हो सकता, वह उसके लिये वलवान् बंधन है ० स्थूल कर्लिंगर है ।”

“ऐसे ही उदायी ! कोई कोई मोघपुरुष—मेरे ‘यह छोड़ो’—कहने पर, ०^१ स्थूल कर्लिंगर है ।

“जैसे उदायी ! कोई गृहपति या गृहपति-पुत्र आढ्य, महाधनी, महामोगवान् हो; (उसके पास) बहुत अशर्फियों (= निष्क) के ढेरका संचय हो, बहुत अनाजके ढेरका संचय हो, बहुत खेतोंका संचय हो, बहुत घरोंका संचय हो, बहुत भार्याओंका संचय हो, बहुत दासों ०, ० दासियों ० का संचय हो । वह (संघ-)आराममें हाथ-पैर धो ० भिक्षुको देखे । उसको ऐसा हो—‘अहो ! श्रमण-भाव ० घरसे वेधर हो जाता है ।’ और वह उस अपनी बहुत अशर्फियोंके ढेरके संचय को ० बहुत दासियोंके संचयको छोड़ कर, केशदाढ़ी मुँडा ० प्रव्रजित हो सके । तो उदायी ! यदि ऐसा कहे—जिस बंधनसे बँधा वह; उस अपने ० दासियोंके संचयको छोड़ कर प्रव्रजित हो सकता है, वह उसका मजवृत बंधन है ० स्थूल कर्लिंगर है । ऐसा कहते हुये उदायी ! क्या वह ठीक कह रहा है ?”

“नहीं, मन्ते ! वह गृहपति ० जिस बंधनसे बँधा, अपने ० दासियोंके संचयको छोड़ कर, प्रव्रजित हो सकता है; वह इसके लिये अवल बंधन है ० असारक बंधन है ।”

“उदायी ! लोकमें चार प्रकारके पुरुष=पुद्गल विद्यमान हैं । कौनसे चार ?—(१) यहाँ उदायी ! एक पुद्गल उपधि (= भोग-इच्छा, भोग-संग्रह) के ग्रहाणके लिये = उपधिके त्यागके लिये संलग्न होता है; तब उपधि-ग्रहाणके लिये ० संलग्न उसे उपधि-संबंधी स्वर-संकरूप (= संकरूप) उत्पन्न होते हैं, वह उनको स्वीकार करता है, उनको छोड़ता नहीं, अलग नहीं करता, अन्त नहीं करता, नाश नहीं करता । उदायी ! इस पुद्गलको मैं संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं । सो

किस हेतु ?—उदायी ! 'इस पुद्गलकी इन्द्रिय (= मनका झुकाव) मित्र है'—यह मुझे ज्ञात है ।
 (२) यहाँ उदायी ! एक पुद्गल उपधि प्रहाणके लिये ० संलग्न होता है; तब ० स्वर-संकल्प उत्पन्न होते हैं, वह उन्हें न स्वीकार (= स्वागत) करता है, न उनको छोड़ता है ० । उदायी ! इस पुद्गलको भी मैं संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं । ० यह मुझे ज्ञात है । (३) यहाँ उदायी ! ० स्वर-संकल्प उत्पन्न होते हैं । उदायी ! (उसको) स्मृति (= होश) धीरे-धीरे (= दंघा) उत्पन्न होती है; फिर वह शीघ्र ही उन्हें छोड़ता है ० । जैसे उदायी ! (कोई) पुरुष दिनकी धूप में सन्तप्त लोहेके कढ़ाहमें दो या तीन पानीके छींटे डाले, उदायी ! पानीकी छींटोंका गिरना धीरे धीरे होता है; (किन्तु) फिर वह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं । ऐसे ही यहाँ उदायी ! कोई ० स्वर-संकल्प उत्पन्न होते हैं । ० शीघ्र ही उन्हें छोड़ता है ० । उदायी ! इस पुद्गलको भी मैं संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं । ० यह मुझे ज्ञात है । (४) यहाँ उदायी ! एक पुद्गल—'उपधि दुःखोंका मूल है'—यह जानकर, उपधि-रहित होता है, उपधिके क्षयके कारण विमुक्त होता है । उदायी ! इस पुद्गलको मैं विसंयोगी कहता हूँ, संयोगी नहीं । तो किस हेतु ?—उदायी ! इस पुद्गलकी इन्द्रिय मित्र है'—यह मुझे ज्ञात है ।

'उदायी ! पाँच काम-गुण^१ (= भोग) हैं । कौनसे पाँच ?—(१) चक्षु द्वारा ज्ञेय (= चक्षुर्विज्ञेय) इष्ट, कान्त, मनाप = प्रिय, कमनीय = रंजनीय रूप; श्रोत्र-विज्ञेय ० शब्द; घ्राण-विज्ञेय ० गंध; जिह्वा-विज्ञेय ० रस; काय-विज्ञेय ० स्पर्श । उदायी ! यह पाँच काम-गुण हैं । इन पाँच काम-गुणोंको लेकर उदायी ! जो सुख-सौमनस्य उत्पन्न होता है, वह काम-सुख = नींद-सुख, पृथग्जन (= अज्ञ)-सुख, अनार्थ-सुख कहा जाता है, (जो कि) जसेवनीय = अभावनीय न-यहुली-करणीय (= न बढ़ाने योग्य) है । 'इस सुखसे डरना चाहिये'—मैं कहता हूँ । यहाँ उदायी ! भिक्षु कामोंसे विरहित ०^२ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ०^३ द्वितीय-ध्यान ० । ०^२ तृतीय-ध्यान ० । ०^२ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उदायी ! यह निष्कामता (= काम-रहित) सुख है, प्रविवेक-सुख, उपशम-सुख, सन्बोध-सुख कहा जाता है; (जो कि) सेवनीय, भावनीय, यहलुकीकरणीय है । 'इस सुखसे भय नहीं करना चाहिये'—मैं कहता हूँ ।

'यहाँ उदायी ! भिक्षु कामोंसे विरहित ०^२ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उदायी ! इसे मैं इंगित (= चंचल) कहता हूँ । वहाँ क्या इंगित है ?—(यही) जो कि (इस ध्यानमें) वितर्क, विचार नष्ट नहीं हुये रहते... । यहाँ उदायी ! भिक्षु ०^२ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उदायी ! इसे मैं इंगितमें कहता हूँ । (वहाँ क्या) इंगित है ?—(यही) जो कि (इस ध्यानमें) प्रीति-सुख निरुद्ध नहीं हुआ रहता... । ०^२ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० जो कि (इस ध्यानमें) उपेक्षा-सुख निरुद्ध नहीं हुआ रहता... । ०^३ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उदायी ! मैं इसे अन्-इंगित (= चंचलता रहित) करता हूँ ।

'यहाँ उदायी ! भिक्षु कामोंसे विरहित ०^२ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उदायी ! इसे मैं अन्-अलं (= अपर्याप्त)—कहता हूँ, 'छोड़ दो'—कहता हूँ, 'अतिक्रमण कर जाओ'—कहता हूँ । इसके अतिक्रमणका उपाय क्या है ?—यहाँ उदायी ! ०^२ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह उसका समतिक्रम (= अतिक्रमण करनेका उपाय) है । उदायी ! इन्ने भी मैं ० 'अतिक्रमण कर जाओ' कहता हूँ । इसका समतिक्रम क्या है ?—०^२ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता

^१ देखो पृष्ठ ९३ ।^२ देखो पृष्ठ १५ ।^३ देखो पृष्ठ २७-२८ ।

है। यह उसका समतिक्रम है। इसे भी ० ० 'अतिक्रमण कर जाओ'—कहता हूँ। इसका समतिक्रम क्या है ?—०^१ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह उसका समतिक्रम है। इसे भी ० ० । ०—^१ आकाशानन्त्यायतन ० । ० ०^१ विज्ञानानन्त्यायतन ० । ० ०^१ आर्किचन्यायतन ० । ० ०^१ नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता है। यह उसका समतिक्रम है। इसे भी उदायी ! मैं अपर्याप्त ० कहता हूँ। क्या है, इसका समतिक्रम ?—यहाँ उदायी ! भिक्षु नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर संज्ञा-चेदित-निरोध^२को प्राप्त हो विहरता है। यह उसका समतिक्रम है। इस प्रकार उदायी ! मैं नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनके भी प्रहाण (= परित्याग)को कहता हूँ। उदायी ! क्या ऐसा कोई छोटा-बड़ा (= अणु-स्थूल) संयोजन (= बंधन) देखते हो, जिसके प्रहाणको मैं नहीं कहता ?”

“नहीं, भन्ते !”

भगवान् ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुप्मान् उदायीने भगवान् के भाषणको अभिनन्दित किया।

^१ देखो पृष्ठ १५।

^२ देखो पृष्ठ १७६।

६७—चातुम-सुचन्त (२।२।७)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् चातुमाके आमलकीवन (= आँवलेके वाग) में विहरते थे ।

उस समय भगवान्के दर्शनार्थ सारिपुत्त, भोग्गलान आदि पाँचसौ भिक्षु चातुमानें धाये-हुये थे । (उस समय) वह आर्गतुक भिक्षु (उस स्थानके) निवासी भिक्षुओंके साथ संभोदन (= कुशल-प्रश्न पूछना) करते, शयनासन बतलाते, पात्र-चोवर संभालते ऊँचे-शब्द = महाशब्द करने लगे । तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दसे कहा—

“आनन्द ! यह कौन ऊँचे-शब्द=महाशब्द करनेवाले हैं, मानो केवट मछली मार रहे हैं ?”

“भन्ते ! यह सारिपुत्त, भोग्गलान आदि पाँचसौ भिक्षु ० महाशब्द कर रहे हैं ।”

“तो, आनन्द ! मेरे वचनसे उन भिक्षुओंसे कह—“शास्ता आयुष्मानोंको बुला रहे हैं” ।”

“अच्छा, भन्ते !”—(कह) भगवान्को उत्तर दे, आयुष्मान् आनन्दने जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ—“जाकर उन भिक्षुओंसे यह कहा—

“शास्ता, आयुष्मानोंको बुला रहे हैं ।”

“अच्छा, आवुस !”—(कह) आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दे वह भिक्षु जहाँ भगवान् थे वहाँ—“जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये ।

एक ओर बैठे उन भिक्षुओंसे भगवान्ने यह कहा—

“भिक्षुओ ! क्यों तुम ऊँचे शब्द = महाशब्द कर रहे थे, मानो केवट मछली मार रहे हों ?”

“भन्ते ! यह सारिपुत्त, भौद्गल्यायन आदि (हम) पाँच सौ भिक्षु ० पात्रचोवर संभालते ० महाशब्द कर रहे थे ।”

“जाओ, भिक्षुओ ! तुम्हें चले जाने (= पणामना)के लिये कर्ता हूँ; मेरे साथ तुम न रहना ।”

“अच्छा, भन्ते !”—(कह) वह भिक्षु भगवान्को उत्तर दे, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणा कर शयनासन संभाल, पात्र-चोवर ले चले गये ।

उस समय चातुमाके शाक्य किसी कामसे संस्थानगर (= प्रजातंत्रभवन)में जमा थे । चातुमाके शाक्योंने दूरसे उन भिक्षुओंको जाते देखा । देवकर जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ—“जाकर उन भिक्षुओंसे यह कहा—

“हन्त ! आप आयुष्मान् कहाँ जा रहे हैं ?”

“आवुस ! भगवान्ने भिक्षु-संघको चले जानेके लिये फटा ।”

“तो आयुष्मानो ! सुहृत् भर (आप सब यहीं) ठहरें; जायद हम भगवान्को प्रमथ (= राजी) कर सकें ।”

“अच्छा, आवुसो !” (कह) उन भिक्षुओंने चातुमाके शाक्योंको उत्तर दिया ।

तब चातुमावाले शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे—

“भन्ते ! भगवान् भिक्षुसंघको अभिनन्दन = अभिवदन (= स्वीकार) करें । भन्ते ! जैसे भगवान्ने पहिले भिक्षुसंघको अनुगृहीत किया था, वैसेही अब भी अनुगृहीत करें । भन्ते ! यहाँ (= भिक्षुसंघ)में नये अचिर-प्रव्रजित, इस धर्ममें अभी हालके आये भिक्षु हैं । भगवान्का दर्शन न मिलनेपर उनके (मनमें) विकार = अन्यथात्त्व होगा । जैसे, भन्ते ! छोटे अंकुरों तरुण-बीजों को जल न मिलनेपर विकार = अन्यथात्त्व होता है; इसी प्रकार ० भगवान्का दर्शन न मिलनेपर उनको विकार = अन्यथात्त्व होगा । जैसे, भन्ते ! माताको न देखने पर छोटे बछड़े (= दलग वत्स)को विकार = अन्यथात्त्व होता है; इसी प्रकार ० । भन्ते ! भगवान् भिक्षुसंघको अभिनन्दन कर अनुगृहीत करें ।”

तब सहस्पति (= सहा ब्रह्मांडके स्वामी) ब्रह्मा भगवान्के चित्तके वितर्कको जान कर, जैसे बलवान् पुरुष (अप्रयास) समेटी वाँहको फैला दे, फैलाई वाँहको समेट ले, ऐसे ही ब्रह्मलोकमें अन्तर्धान हो भगवान्के सामने प्रकट हुआ । तब सहस्पति ब्रह्माने उत्तरासंग (= ऊपरकी चहर)को एक (= दाहिने) कंधे पर कर, भगवान्की ओर अंजलि जोड़ भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! भगवान् भिक्षु-संघको अभिनन्दन = अभिवदन करें ० १ छोटे अंकुरोंका ० छोटे बछड़ेको ० अनुगृहीत करें ।”

चातुमावाले शाक्य और सहस्पति ब्रह्मा बीज, और तरुणकी उपमासे भगवान्को प्रसन्न करनेमें सफल हुये । तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“उठो, आवुसो ! पात्र-चीवर उठाओ । चातुमावाले शाक्यों और सहस्पति ब्रह्माने बीज और तरुणकी उपमासे भगवान्को प्रसन्न कर (= सना) लिया ।”

“अच्छा, आवुस” — (कह) आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको उत्तर दे, वह भिक्षु आसनसे उठ, पात्र चीवर ले जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रसे भगवान्ने यह कहा—

“सारिपुत्र ! मेरे भिक्षुसंघके निकाल (= पणामना) देने पर तुझे कैसा हुआ था ?”

“भन्ते ! मुझे ऐसा हुआ था—भगवान्ने भिक्षुसंघको निकाल दिया, अब भगवान् निश्चिन्त हो दृष्ट-धर्म (= इसी जन्म)के सुखसे युक्त हो विहरेंगे । हम भी अब दृष्ट-धर्म सुखसे युक्त हो विहरेंगे ।”

“ठहर सारिपुत्र ! ठहर सारिपुत्र ! मत (फिर) ऐसा विचार चित्तमें उत्पन्न करना ।”

तब भगवान्ने आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको संवोधित किया—

“मोग्गलान ! मेरे भिक्षुसंघके निकाल देनेपर तुझे कैसा हुआ था ?”

“भन्ते ! मुझे ऐसा हुआ था—भगवान्ने भिक्षुसंघको निकाल दिया, अब भगवान् निश्चिन्त हो दृष्ट-धर्म-सुखसे युक्त हो विहरेंगे । मैं और आयुष्मान् सारिपुत्र भिक्षुसंघको परिधारण (= देख-रेख) करेंगे ।”

“साधु, साधु, मोग्गलान ! चाहे भिक्षुसंघको मैं परिधारण करूँ, या सारिपुत्र-मोग्गलान ।”

तब भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! पानीमें घुसनेवालेके लिये यह चार भय (= खतरे)के होनेकी संभावना रखनी

चाहिये। कौनसे चार ?—(१) ऊर्मि (= लहर)-भय (२) कुम्भीर (= मगरका)-भय, (३) आवर्त (= मँवर)-भय, और (४) सुसुका (= नरभक्षी मत्स्य)-भय । ...इसी प्रकार भिक्षुओ ! इस धर्ममें घरसे बेघर हो प्रव्रजित किसी पुद्गलको भी इन चार भयोंके होनेकी संभावना है। कौनसे चार ?—(१) ऊर्मि-भय, (२) कुम्भीर-भय (३) आवर्त-भय, और (४) सुसुका-भय ।

(१) “क्या है भिक्षुओ ! ऊर्मि-भय ?—यहाँ भिक्षुओ ! एक कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर प्रव्रजित हो (सोचता है)—‘जन्म (= जाति), जरा, मरण, शोक, रोदन-रुदन, दुःख-दार्शनस्य, उपायास (= परेशानियों)में पड़ा हूँ, दुःखमें गिरा दुःखमें डूबा हूँ। क्या कोई इस केवल दुःख-पुंजके अन्त करनेका उपाय मालूम होगा।’ (तब) उस प्रकार प्रव्रजित हुये, उसे सबहचारी उपदेशते हैं = अनुशासते हैं—‘इस प्रकार तुम्हें गमन करना चाहिये, इस प्रकार आगमन करना चाहिये, इस प्रकार आलोकन-विलोकन करना चाहिये, इस प्रकार समेदना चाहिये, इस प्रकार फैलाना चाहिये, इस प्रकार संघाटी (-वस्त्र), पात्र, चीवर धारण करना चाहिये।’ उसको ऐसा होता है—‘हम पहिले गृहस्थ होते समय दूसरोंको उपदेश = अनुशासन देते थे; यह (भिक्षु) हमारे पुत्र, नाती जैसे होते भी हमें उपदेश = अनुशासन देना चाहते हैं, (यह सोच) वह (भिक्षु-) शिक्षाका प्रत्याख्यान कर हीन (= गृहस्थ-माद)को लौट जाते हैं। भिक्षुओ ! यह कहा जाता है, कि (भिक्षु) ऊर्मि-भयसे भीत हो शिक्षाका प्रत्याख्यान कर हीनको लौट गया। भिक्षुओ ! ऊर्मि-भय यह क्रोधकी परेशानीका नाम है।

(२) “क्या है भिक्षुओ ! कुम्भीर-भय ?—यहाँ, भिक्षुओ ! एक कुलपुत्र ० प्रव्रजित हो ० क्या कोई इस केवल दुःखपुंजके अन्त करनेका उपाय मालूम होगा’ । ० उसे सबहचारी उपदेश = अनुशासन करते हैं—‘यह तुम्हें खाना चाहिये, यह तुम्हें नहीं खाना चाहिये; यह तुम्हें भोजन करना चाहिये, यह तुम्हें नहीं भोजन करना चाहिये; ० आस्वादन ०, ० न आस्वादन ०; ० पान-करना ०, ० न पान करना ०; तुम्हें कल्प्य (= विहित) खाना चाहिये, तुम्हें अ-कल्प्य न खाना चाहिये; ० कल्प्य भोजन करना ०, ० अकल्प्य भोजन न करना ०, ० कल्प्य आस्वादन करना ०, ० अ-कल्प्य आस्वादन न करना ०; ० कल्प्य पान करना ०, ० अकल्प्य पान न करना ०; तुम्हें कालसे खाना चाहिये, तुम्हें विकालसे न खाना चाहिये; ० ०; तुम्हें कालसे पान करना चाहिये, तुम्हें विकालसे पान न करना चाहिये।’ उसको ऐसा होता है—पहिले गृहस्थ होते समय हम जो चाहते सो खाते, जो नहीं चाहते सो नहीं खाते; ०, जो चाहते सो पीते, जो नहीं चाहते सो न पीते। कल्प्य भी खाते, अकल्प्य भी खाते; ० कल्प्य भी पीते, अकल्प्य भी पीते। कालसे भी खाते, विकालसे भी खाते; ० कालसे भी पीते, विकालसे भी पीते। जो भी गृहस्थ लोग श्रद्धापूर्वक उत्तम खाद्य-भोज्य दोपहर बाद विकालमें देते हैं, उसके लिये मुँहमें जाय जैसा लगा रहे है’—(यह सोच) वह शिक्षाका प्रत्याख्यान ०। भिक्षुओ ! यह कहा जाता है, कि कुम्भीर-भयसे भीत हो शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, हीन (आश्रम)को लौट गया। भिक्षुओ ! कुम्भीर-भय यह पेटपनका नाम है।

“क्या है, भिक्षुओ ! आवर्त-भय ?—० उपाय मालूम होगा। वह इस प्रकार प्रव्रजित हो पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र-चीवर ले, कायासे अरक्षित (= संयम-रहित), चित्तसे जरक्षित, वचनसे अ-रक्षित, स्मृति (= होश)से वंचित, इन्द्रियोंसे असंयुत (= संयम-रहित) हो ग्राम वा निगममें भिक्षाके लिये प्रविष्ट होता है। वह वहाँ गृहपति या गृहपति-पुत्रको पाँच काम-गुणों (= मोगों) १ से समर्पित = संयुक्त हो मौज करते देखता है। उसको ऐसा होता है—‘पहिले

गृहस्थ होते समय हम इसी प्रकार पाँच कामगुणोंसे समर्पित = संयुक्त हो मौज करते थे; (हमारे) घरमें भोग भी हैं, भोगोंको भोगते हुये भी पुण्य किये जा सकते हैं—(यह सोच) वह शिक्षाका प्रत्याख्यान ० । भिक्षुओ ! यह कहा जाता है, कि आवर्त-भयसे भीत हो ० हीन (आश्रम)को लौट गया । भिक्षुओ ! आवर्त-भय यह पाँच काम-गुणों (= काम-भोगों) का नाम है ।”

“क्या है, भिक्षुओ ! सुसुका-भय ?—० उपाय मालूम होगा । वह ० ग्राम या निगममें भिक्षाके लिये प्रविष्ट होता है । वह वहाँ ठीकसे अनाच्छादित, ठीकसे वस्त्र न पहिने (किसी) स्त्रीको देखता है । (तब) उस दुराच्छादित, दुष्प्रावृत्त स्त्रीको देख, राग उसके चित्तको पीड़ित करता है । वह रागसे पीड़ित चित्त हो, शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, हीन (आश्रम)को लौट जाता है । भिक्षुओ ! यह कहा जाता है, सुसुका-भयसे भीत हो शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, हीन (आश्रम)को लौट गया । भिक्षुओ ! सुसुका-भय यह स्त्रियों(= मातृग्राम)का नाम है ।

“भिक्षुओ ! इस धर्ममें घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुये किसी पुद्गलको इन चार भयोंके होनेकी संभावना है ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।

६८—नलकपान-सुत्तन्त (२।२।८)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् कोसल (देश) में नलकपानके पलास-यनमें विहार करते थे। उस समय बहुतसे कुलीन कुलीन कुल-पुत्र भगवान्के पास घरसे वे-घरहो प्रव्रजित हुये थे, (जैसे)—आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिय, आ. किम्बिल, आ. भृगु, आ. कुण्डधान, आ. रेवत, आ. आनन्द, तथा दूसरे भी कुलीन कुलीन कुल-पुत्र। उस समय भिक्षु-संघके सहित भगवान् खुले आँगनमें बैठे थे। तब भगवान्ने उन कुलपुत्रोंके संबंधमें भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! जो वह कुल-पुत्र मेरे पास श्रद्धा-पूर्वक ० प्रव्रजित हुये हैं; वह मनसे ब्रह्मचर्यमें प्रसन्न तो हैं ?”

ऐसा कहनेपर भिक्षु चुप हो गये। दूसरी धार भी भगवान्ने उन कुलपुत्रोंके संबंधमें भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ ! ० ?”

दूसरी धार भी वह भिक्षु चुप हो गये।

तीसरी धार भी ० “भिक्षुओ ! ० ” तीसरी धार भी वह भिक्षु चुप हो गये।

तब भगवान्के (मनमें) हुआ, “क्यों न मैं उन्हीं कुलपुत्रोंसे पूछूँ ?” तब भगवान्ने आयुष्मान् अनुरुद्धको संबोधित किया—

“अनुरुद्धो ! तुम (लोग) ब्रह्मचर्यमें प्रसन्न तो हो न ?”

“हाँ, भन्ते ! हम (लोग) ब्रह्मचर्यमें बहुत प्रसन्न हैं ।”

“साधु, साधु, अनुरुद्धो ! तुम जैसे...श्रद्धासे ० प्रव्रजित कुल-पुत्रोंके यह योग्य ही है, कि तुम ब्रह्मचर्यमें प्रसन्न हो। जो तुम अनुरुद्धो ! उत्तम यौवन-सहित प्रथम वयस, बहुत ही काले केश वाले, कामोपभोग कर रहे थे; सो तुम अनुरुद्धो ! उत्तम यौवन ० वाले, घरसे वे-घर हो प्रव्रजित हुये। सो तुम अनुरुद्धो ! राजाकी जयर्दस्तीसे नहीं ० प्रव्रजित हुये। चोरके दरसे नहीं ०। ऋणसे पीड़ित होकर नहीं ०। भयसे पीड़ित होकर नहीं ०। वे-राजाके होनेसे नहीं ०। पत्निक, (यही सोच—) ‘जन्म, जरा, मरण, शोक, रोग-पीडना, दुःख, दुर्मनता, हैरानीमें फँसा हूँ, दुःखमें गिरा दुःखमें लिपटा (हूँ), जो कहीं इस केवल दुःख-स्कंध (दुःखकी वेरी)का त्रिनाश मालूम होता)’। अनुरुद्धो ! तुम तो इस प्रकार श्रद्धायुक्त ० प्रव्रजित हुये हो न ?”

“हाँ, भन्ते !”

“ऐसे प्रव्रजित हुये कुल-पुत्रको क्या करना चाहिये ?—अनुरुद्धो ! कामभोगोंसे, धुरे (= अकुशल) धर्मोंसे, अलग होना चाहिये। (मनुष्य तब तक) विवेक = प्रीतिसुख या उससे भी अधिक शान्त (= सुख)को नहीं पाता, (जब तक कि) अभिष्या (= लोभ) उसके चित्तको पकड़े रहती है। व्यापाद (= द्वेष) उसके चित्तको पकड़े रहता है। औद्धत्य-कौकृत्य (= उच्छृं-खलता) ०। विचिकित्सा (= संदेह) ०। अरति (= असंतोष) ०। तन्दी (= आलस्य)

उसके चित्तको पकड़े रहती है ।...अनुरुद्धो ! कामनाओंसे, डुरे धर्मोंसे विवेक प्रीति-सुख या उससे भी अधिक शान्त (= सुख)को पाता है; (यदि), अभिध्या उसके चित्तको न पकड़े रहे, व्यापाद ०, औद्दत्य-कौकृत्य ०, विचिकित्सा ०, अरति ०, तन्दी उसके चित्तको न पकड़े रहे ।..."

“क्यों अनुरुद्धो ! मेरे विषयमें तुम्हारा क्या (विचार) होता है, कि जो आस्रव (= चित्त-मल) क्लेश (= मल)-देनेवाले, आवागमन-देनेवाले, समय (= सदर), भविष्यमें दुःख-फलोत्पादक, जन्म-जरा-मरण-देनेवाले हैं; वह तथागतके नहीं छूटे, इसीलिये तथागत जान कर एकका सेवन करते हैं, ० एकको स्वीकार करते हैं, जान कर एकका त्याग करते हैं, जान कर एकको हटाते हैं ?”

“नहीं भन्ते ! हमको ऐसा नहीं होता कि, जो आस्रव क्लेश देनेवाले आवागमन देने वाले ० हैं, वह तथागतके नहीं छूटे ० । भन्ते ! भगवान्के विषयमें हम (लोगों)को ऐसा होता है, कि जो आस्रव जन्म-जरा-मरण देनेवाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं । इसलिये तथागत जान कर एकको सेवन करते हैं, जान कर एकको करते हैं, जान कर एकका त्याग करते हैं, जान कर एकको हटाते हैं ।”

“साधु, साधु, अनुरुद्धो ! जो आस्रव ० क्लेश देनेवाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं, नष्ट-मूल हो गये, हूँडे-ताड़से हो गये हैं, भविष्यमें न उत्पन्न वाले हो गये हैं । जैसे अनुरुद्धो ! शिरसे कटे ताड़ (का वृक्ष) फिर नहीं पनप सकता, ऐसेही अनुरुद्धो ! जो आस्रव ० क्लेश देनेवाले हैं, वह तथागतके छूट गये ० । इसलिये तथागत जान कर एकको सेवन करते हैं ० ।”

६६—गुलिस्सानि-सुत्तन्त (२।२।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय मगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे ।

उस समय दुर्बल-आचारवान् गुलिस्सानि नामक आरण्यक भिक्षु किसी कार्यसे संघके मध्यमें उपस्थित था । तब आयुष्मान् सारिपुत्रने गुलिस्सानि भिक्षुको लेकर भिक्षुओंको सम्बोधित किया—

“आवुसो ! संघमें आये, संघमें रहते आरण्यक (= जंगलमें रहनेवाले) भिक्षुको सब्रह्मचारियों (= गुरु भाइयों) में गौरव युक्त रहना चाहिये; सन्मान-भाव-युक्त होना चाहिये । यदि आवुसो ! संघमें आया, संघमें रहता आरण्यक भिक्षु सब्रह्मचारियोंमें गौरवयुक्त = सन्मान-भावयुक्त नहीं होता; तो उसके लिये वात मारनेवाले होते हैं—‘इन आरण्यक आयुष्मान्के अकेले आरण्यमें स्वैरी (= स्वेच्छाचारी)-विहारका क्या (फल); जब यह आयुष्मान् सब्रह्मचारियोंमें गौरवयुक्त = सन्मान-भावयुक्त नहीं हैं ।’...इसलिये संघमें ० सन्मान-भाव-युक्त होना चाहिये ।

“आवुसो ! संघमें ० आरण्यक भिक्षुको बैठनेमें चतुर (= आसन-कुशल) होना चाहिये—स्थविर (= बृद्ध) भिक्षुओंके बिना बैठे (या उन्हें रगड़ते) न बैठना चाहिये, नये भिक्षुओंको आसनसे हटाना न चाहिये । यदि आवुसो ! संघमें आरण्यक भिक्षु आसन-कुशल नहीं होता, तो उसके लिये वात मारनेवाले होते हैं—‘इन आरण्यक आयुष्मान्के अकेले स्वैरी-विहारका क्या (फल); जब कि यह आयुष्मान् स्थविर भिक्षुओंके बिना बैठे बैठते हैं, नये भिक्षुओंको आसनपे हटाते हैं ।’...इसलिये संघमें ० ।

“आवुसो ! ० आरण्यक भिक्षुको अतिकाल (= अतिप्रातः)को ग्राममें प्रविष्ट नहीं होना चाहिये, न अति दिवा (= चहुत पहिले ही) निकलना चाहिये । यदि आवुसो ! ० ।

“ ० ० आरण्यक भिक्षुको भोजनके पूर्व या पश्चात् (गृहस्थ-) कुलोंमें फेरा नहीं देते रहना चाहिये । यदि आवुसो ! ० ।

“ ० ० आरण्यक भिक्षुको अन्-उद्धत = अ-चपल होना चाहिये । यदि आवुसो ! ० ।

“ ० ० अ-मुत्तर = अ-वक्रवादी होना चाहिये । यदि आवुसो ! ० ।

“ ० ० सु-वचनी, कल्याण-मित्र होना चाहिये । यदि आवुसो ! ० ।

“ ० ० इन्द्रियोंमें गुप्त-द्वार (= संयमी) ० । ० ।

“ ० ० भोजनमें मात्रा (= परिमाण)-ज्ञ ० । ० ।

“ ० ० जागरणमें तत्पर ० । ० ।

“ ० ० आरब्ध-वीर्य (= उद्योगी) ० । ० ।

“ ० ० उपस्थित-स्मृति (= होश रखनेवाला) ० । ० ।

“ ० ० समाहित (= एकाग्र-चित्त) ० । ० ।

“ ० ० प्रज्ञावान् ० । ० ।

“ ० ० अभिधर्म (= धर्ममें, बुद्धोपदेशमें), अभि-विनय (= विनयमें, भिक्षु-नियमों) में (मनो -) योग देना चाहिये । आवुसो ! धर्म और विनयके विषयमें आरण्यक भिक्षुसे प्रश्न पूछनेवाले (लोग) भी हैं । यदि आवुसो ० ।

“ ० ० रूपोंको अतिक्रमण कर जो आरूप्य (= रूप-रहित-लोक-सम्यन्धी) शान्त-विमोक्ष (= ध्यान) हैं, उनमें (मनो -) योग देना चाहिये । आवुसो ! ० शान्त विमोक्षोंके विषयमें आरण्यक भिक्षुसे प्रश्न पूछनेवाले भी हैं । यदि आवुसो ! ० ।

“ ० ० उत्तर-मनुष्य-धर्म (= लोकोत्तर शक्ति) में (मनो -) योग देना चाहिये । आवुसो ! उत्तर-मनुष्य-धर्मके विषयमें आरण्यक भिक्षुसे प्रश्न करनेवाले भी हैं । यदि आवुसो ! आरण्यक भिक्षु उत्तर-मनुष्य-धर्मके विषयमें प्रश्न पूछने पर (प्रश्न-कर्ताको) सन्तुष्ट नहीं कर सकता; तो उसको घात मारनेवाले होते हैं—‘इन आरण्यक आयुष्मान्के जंगलमें अकेले स्वैरी विहारसे क्या (फल); जब कि यह आयुष्मान्, जिसके अर्थ प्रव्रजित हुये, उसी अर्थ (= वस्तु) को नहीं जानते ।’ इस-लिये, आरण्यक भिक्षुको उत्तर-मनुष्य-धर्ममें (मनो -) योग देना चाहिये ।”

ऐसा कहने पर आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह कहा—

“आवुस सारिपुत्र ! आरण्यक भिक्षुको ही इन धर्मोंको ग्रहण कर वर्तना चाहिये, या ग्राम-समीप-वासी (भिक्षु) को भी ?”

“आवुस मौद्गल्यायन ! आरण्यक भिक्षुको भी इन धर्मोंको ग्रहण कर वर्तना चाहिये, ग्राम-समीप-वासी (भिक्षुओं) के लिये तो कहना ही क्या ?”

७०—कीटागिरि-सुत्तन्त (२।२।१०)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ भगवान् 'काशी-देशमें चारिका करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! मैं रात्रि-भोजनसे विरत हो भोजन करता हूँ ।...रात्रि-भोजन छोड़कर भोजन करनेसे...आरोग्य, उत्साह, बल, सुख-पूर्वक विहार अनुभव करता हूँ । आओ, भिक्षुओ ! तुम भी रात्रि-भोजन-विरत हो भोजन करो, ...रात्रिभोजन छोड़कर भोजन करनेसे तुमभी...अनुभव करोगे ।

“अच्छा भन्ते !” उन भिक्षुओंने भगवान्से कहा ।

तब भगवान् काशी (देश)में क्रमशः चारिका करते, जहाँ काशियोंका निगम (=कस्या) 'कीटागिरि था, वहाँ पहुँचे । वहाँ काशियोंके निगम कीटागिरिमें भगवान् विहार करते थे ।

उस समय अश्वजित्, और पुनर्वसु नामक (दो) आवासिक भिक्षु कीटागिरिमें रहते थे । तब बहुतसे भिक्षु जहाँ अश्वजित् पुनर्वसु थे, वहाँ गये । जाकर...घोले—

“आवुसो ! भगवान् रात्रि-भोजन-विरत हो भोजन करते हैं, और भिक्षु-संघ भी । रात्रि-भोजन-विरत हो भोजन करनेसे आरोग्य ० । आओ, तुमभी आवुसो ! रात्रि-भोजन-विरत हो भोजन करो...।”

ऐसा कहनेपर अश्वजित्-पुनर्वसुओंने उन भिक्षुओंसे कहा—

“हम आवुसो ! शामको भी खाते हैं, प्रातः, दिन (= मध्याह्न) और विकालको (= दोपहर बाद) भी । सो हम सायं, प्रातः, मध्याह्न विकालको भोजन करते भी आरोग्य० टो विहरते हैं । सो हम क्यों प्रत्यक्ष (= साँदृष्टिक)को छोड़कर, कालान्तरके (= कालिक) लिये दौड़ें । हम सायं भी खायेंगे, प्रातः भी, दिनमें भी, विकालमें भी ।”

जब वह भिक्षु अश्वजित्-पुनर्वसु...को न समझा सके, तो जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ कर उन भिक्षुओंने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! हमने...अश्वजित्-पुनर्वसु...के पास...जा...यह कहा—‘भगवान् रात्रि-भोजन-विरत०’ । ऐसा कहने पर, भन्ते ! अश्वजित्, पुनर्वसु भिक्षुओंने कहा—‘हम आवुसो ! शामको भी खाते हैं० ।’ जब हम भन्ते ! अश्वजित्-पुनर्वसु भिक्षुओंको न समझा सके, तब हम यह बात भगवान्से कह रहे हैं ।”

^१ प्रायः वर्तमान बनारस कमिश्नरीका गंगासे उत्तरका भाग, और आजमगढ़ जिला ।

^२ केराकत, जिला जौनपुर ।

जय वह भिक्षु अश्वजित् पुनर्वसु...को न समझा सके, तो जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ कर उन भिक्षुओंने भगवान् से कहा—

“भन्ते ! हमने...अश्वजित् पुनर्वसु...के पास...जा...यह कहा—‘भगवान् रात्रि-भोजन-विरत०’ । ऐसा कहने पर भन्ते ! अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंने कहा—‘हम आवुसो ! शामको भी खाते हैं० ।’ जय हम भन्ते ! अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंको न समझा सके, तब हम यह बात भगवान्से कह रहे हैं ।”

तब भगवान्ने एक भिक्षुको आमंत्रित किया—

“आ भिक्षु ! तू मेरी बातसे अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंको कह—‘शास्ता आयुष्मानोंको बुलाते हैं’ ।”

“अच्छा भन्ते !”—कह...उस भिक्षुने अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंके पास...जाकर कहा—शास्ता आयुष्मानोंको बुलाते हैं ।”

“अच्छा आवुस !”—कह...अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षु...जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे अश्वजित्, पुनर्वसु भिक्षुओंसे भगवान्ने कहा—

“सचमुच भिक्षुओ ! बहुतसे भिक्षु तुम्हारे पास जाकर बोले (थे)—आवुसो ! भगवान् रात्रि-भोजन-विरत हो ० । ऐसा कहने पर भिक्षुओ ! तुमने...कहा० ?”

“हाँ भन्ते !”

“क्या भिक्षुओ ! तुम मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानते हो—जो कुछ यह पुरुष=पुद्गल सुख, दुःख, या असुख-अदुःख अनुभव करता है, (उससे) उसके अकुशल (= दुःख) धर्म नष्ट हो जाते हैं, और कुशल धर्म बढ़ते हैं ?”

“नहीं भन्ते !”

“क्या भिक्षुओ ! तुम मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानते हो—एकके इस प्रकारकी सुख वेदना (= अनुभव) अनुभव करते अकुशल-धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म नष्ट होते हैं । किन्तु एकके इस प्रकारकी सुख-वेदनाको अनुभव करते अ-कुशल-धर्म नष्ट होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं । ० दुःख वेदनाको अनुभव करते अ-कुशल धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म नष्ट होते हैं । अकुशल-धर्म नष्ट होते हैं ० । एकको इस प्रकारकी असुख-अदुःख वेदनाको अनुभव करते ० ? ० ?

“हाँ, भन्ते !”

“साधु, भिक्षुओ ! यदि मैं अ-ज्ञात, अ-दृष्ट, अ-विदित=अ-साक्षात्कृत=अ-स्पर्शितको (कहता)—यहाँ किसीको इस प्रकारकी सुख-वेदनाको अनुभव करते अकुशल धर्म बढ़ते हैं, और कुशल-धर्म नष्ट होते हैं ० । ऐसा न जानते, यदि मैं ‘इस प्रकारकी सुख-वेदनाको छोड़ो’ बोलता । तो क्या भिक्षुओ ! यह मेरे लिये उचित होता ?”

“नहीं, भन्ते !”

“चूँकि भिक्षुओ ! मैंने इसको देखा, जाना, साक्षात् किया, स्पर्श किया, ० जानकर इसलिये मैं कहता हूँ—‘इस प्रकारकी सुख-वेदनाको छोड़ो’ । और यदि मुझे यह अज्ञात, अदृष्ट० होता, ऐसा न जाने यदि मैं कहता—‘इस प्रकारकी सुख-वेदनाको प्राप्तकर विहार करो, तो क्या भिक्षुओ ! यह मेरे लिये उचित होता ?”

“नहीं, भन्ते !”

“चूँकि मिश्रणों ! यह मुझे ज्ञात, दृष्ट, विदित, साक्षात्कृत, प्रज्ञासे स्पर्शित (है)—‘यहाँ एकके० अकुशल-धर्म नष्ट होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं’ । इसलिये मैं कहता हूँ—‘इस प्रकारकी सुख-वेदनाको प्राप्त कर विहार करो’ ।”

“मिश्रणों ! मैं सभी मिश्रणोंको नहीं कहता कि—‘प्रमादरहित हो करो’ । और न मैं सभी मिश्रणोंको—‘अप्रमाद रहित हो न करो’ कहता हूँ । मिश्रणों ! जो मिश्रण अर्हत्व-क्षीण-आत्मव (ब्रह्मचर्य-) पूरा-कर-चुके, कृत-कृत्य, मार-मुक्त, सच्चे-अर्थज्ञो-प्राप्त, भव-संयोजन (= बंधन)-रहित, अच्छी तरह जान कर मुक्त (= सम्यक्-आज्ञा-विमुक्त) हैं । मिश्रणों ! वैसीको मैं ‘प्रमाद रहितहो करो’ नहीं कहता । सो किस हेतु ?—उन्होंने प्रमाद-रहित हो (करणीय) कर लिया, वह प्रमाद (= आलस्य, भूल) कर नहीं सकते । मिश्रणों ! जो शैल्य-न-प्राप्त-चित्त हैं, अनुपम योग-क्षेम (= निर्वाण)के इच्छुक हो विहरते हैं । मिश्रणों ! वैसेही मिश्रणोंको मैं ‘प्रमाद रहितहो करो’ कहता हूँ । सो किस हेतु ?—शायद वह आयुष्मान् अनुकूल शयन-आसनको सेवन करते, कल्याण-मित्रों (= सुमित्रों)को सेवन करते, इन्द्रियोंका संयम करते; जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे वेधर हो प्रव्रजित होते हैं, उस अनुत्तर (= सर्वोत्तम) ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहरें । मिश्रणों ! उन मिश्रणोंको अप्रमादका यह फल देखते हुये मैं ‘प्रमाद-रहित हो करो’ कहता हूँ ।

“मिश्रणों ! सात पुद्गल (= पुरुष) लोकमें...विद्यमान हैं । कौनसे सात ? (१) उभय-तो-भाग-विमुक्त (२) प्रज्ञाविमुक्त, (३) काय-साक्षी, (४) दृष्टि-प्राप्त, (५) श्रद्धा-विमुक्त, (६) धर्म-अनुसारी, (७) श्रद्धा-अनुसारी ।

“मिश्रणों ! कौन पुद्गल (= पुरुष) उभयतो-भाग-विमुक्त हैं ?—मिश्रणों ! जो प्राणी कि विमोक्षको अतिक्रमण कर रूप (-धातु)में आरूप्य (धातु)को प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुद्गल कायासे स्पर्श कर विहार करता है । (उन्हें) प्रज्ञासे देख कर उसके आत्मव (= चित्तमल) नष्ट होजाते हैं । मिश्रणों ! यह पुद्गल उभयतो-भाग-विमुक्त कहा जाता है । मिश्रणों ! इस मिश्रणको ‘अप्रमादसे करो’ मैं नहीं कहता । किस हेतु ?—क्योंकि वह प्रमाद-रहितहो (करणीय) कर चुका । वह प्रमाद नहीं कर सकता ।

“मिश्रणों ! कौन पुद्गल प्रज्ञा-विमुक्त हैं ?—मिश्रणों ! जो प्राणी कि विमोक्षको पार कर, रूप (-धातु)में आरूप्यको प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुद्गल कायासे छूकर नहीं विहरते, (पित्तु) प्रज्ञासे देख कर उनके आत्मव नाश होजाते हैं । ० यह पुद्गल प्रज्ञा-विमुक्त कहे जाते हैं । ० ऐसे मिश्रणको भी ‘अप्रमादसे करो’ मैं नहीं कहता । ० ।

“मिश्रणों ! कौन पुद्गल काय-साक्षी हैं ?—मिश्रणों ! जो एक पुद्गल उन्हें कायासे छूकर नहीं विहरता, प्रज्ञासे देख कर उसके कोई कोई आत्मव नष्ट होजाते हैं । ० यह ० काय-साक्षी है । इस मिश्रणको मिश्रणों ! ‘अप्रमादसे करो’ मैं कहता हूँ । सो किस हेतु ?—शायद यह आयुष्मान् ० प्राप्त कर विहार करें ० ।

“मिश्रणों ! कौन पुद्गल दृष्टि-प्राप्त है ?—मिश्रणों ! ० कायामे छूकर नहीं विहरता, ० कोई कोई आत्मव नष्ट होगये हैं । प्रज्ञा द्वारा तथागतके दत्तलाये धर्म उसके जाने...होते हैं । ० यह दृष्टि-प्राप्त ० है । ० । ० ।

“मिश्रणों ! कौन पुद्गल श्रद्धा-विमुक्त है ?—०, ० प्रज्ञामे कोई कोई आत्मव उसके नष्ट होगये हैं, तथागतमें उसकी श्रद्धा प्रतिष्ठित=जड़-पकड़ी=निविष्ट होती है । ० यह श्रद्धा-विमुक्त ० । ० । ० ।

“भिक्षुओ ! कौन पुद्गल धर्मानुसारी है ?—०, ०, प्रज्ञाद्वारा तथागतके बतलाये धर्म उसके लिये मात्राशः (= कुछ मात्रामें) निध्यायन (= निदिध्यासन) के योग्य होगये हैं। और उसको यह धर्म (= बातें) प्राप्त हैं, जैसे कि—श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि, इन्द्रिय प्रज्ञा-इन्द्रिय। ० यह धर्मानुसारी ० है। ०।०।

“भिक्षुओ ! कौन पुद्गल श्रद्धानुसारी है ?—०, ०, तथागतमें उसकी श्रद्धा-मात्र=प्रेम-मात्र होता है। और उसको यह धर्म (प्राप्त) होते हैं, जैसे कि—श्रद्धा-इन्द्रिय ० प्रज्ञा-इन्द्रिय। ० यह श्रद्धानुसारी ०।०।०।

“भिक्षुओ ! मैं आदिसे ही ‘आज्ञा’ (= अब्जा) की आराधना नहीं कहता, वल्कि भिक्षुओ ! क्रमशः शिक्षासे, क्रमशः क्रियासे, क्रमशः प्रतिपदसे आज्ञाकी आराधना होती है। भिक्षुओ ! ० क्रमशः प्रतिपदसे कैसे आज्ञाकी आराधना होती है ?—भिक्षुओ ! श्रद्धावान् हो (नेसे ज्ञानीके) समीप जाता है, समीप जानेसे, परि-उपासना करता है। परि-उपासना करनेसे कान लगाता है। कान लगानेसे धर्म सुनता है। धर्म सुनकर धारण करता है। धारण किये धर्मों की परीक्षा करता है। अर्थकी उप-परीक्षा करनेपर धर्म निध्यायन (= निदिध्यासन) के योग्य होते हैं। धर्मके निध्यायन के योग्य होनेपर, छन्द (= रुचि) उत्पन्न होता है। छंद होनेपर उत्साह करता है। उत्साह करनेपर उत्थान करता है (= तुलेति)। उत्थान कर प्रधान (= समाधि) करता है। प्रधानात्म (= समाहित-चित्त) हो, (इस) कायासेही परम-सत्यका साक्षात्कार करता है। प्रज्ञासे उसे वेधता है। भिक्षुओ ! वह श्रद्धा भी यदि न हुई। ० वह पास जानाभी (= उप-संक्रमण) न हुआ ०।०।० वह प्रधानभी न हुआ। (तो) विप्रतिपन्न (= अमार्गा-रुद्ध) हो भिक्षुओ ! मिथ्या-प्रतिपन्न ०, भिक्षुओ ! यह मोघपुरुष (= नालायक) इस धर्म-विनयसे बहुत दूर चले गये हैं।

“भिक्षुओ ! चतुष्पद व्याकरण होता है, जिसके अर्थको करने पर विज्ञपुरुष जल्द ही (उसे) प्रज्ञासे जानता है। ‘... भिक्षुओ ! तुम इसे समझते हो ?’

“भन्ते ! कहाँ हम और कहाँ धर्मका जानना ?”

“भिक्षुओ ! जो वह शास्ता (= गुरु) आमिष-गुरु (= धन, भोगमें बड़ा), आमिष-दायाद (= भोगोंका लेनेवाला), आमिषोंसे लिसहो विहरता है; वह भी इस प्रकारकी दाजी (= पण) नहीं लगाता—‘यदि हमें ऐसा हो, तो इसे करेंगे, यदि हमें ऐसा न हो, तो नहीं करेंगे।’ फिर भिक्षुओ ! तथागतका तो क्या (कहना है), (जो कि) सर्वथा आमिष (= धन, भोग) से अ-लिसहो विहार करते हैं। भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावकको शास्ताके शासन (= धर्म) में परियोग (= योग) के लिये वर्तव करते हुये यह अनु-धर्म होता है—‘भगवान् शास्ता (= गुरु) हैं, मैं श्रावक (= शिष्य) हूँ’, ‘भगवान् जानते हैं, मैं नहीं जानता’। भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावक के लिये शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वर्तते समय, शास्ताका शासन... भोज-वान् होता है। श्रद्धालु श्रावकको ० यह दृढ़ता होती है—‘चाहे चमड़ा, नस, और हड्डी ही बच रहे, शरीरका रक्त-मांस सूख (क्यों न) जाये, (किंतु), पुरुषके स्थान=पुरुष-वीर्य=पुरुष-पराक्रम से जो (कुछ) प्राप्य है, उसे विना पाये (मेरा) उद्योग न स्केगा।’ भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावक को शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वर्तते समय, दो फलोंमेंसे एक फलकी उमेद (अवश्य) रखनी चाहिये—इसी जन्ममें (परम-ज्ञान) जानूँगा, या उपाधि (= मल) रखनेपर अनागामि-पन (पाऊँगा)।”

भगवान् ने यह कहा। संतुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवान् के भाषणका अनुमोदन किया।

७१—तेविज्ज-वच्छगोत्त-सुत्तन्त (२।३।१)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे ।

उस समय वच्छ-गोत्त (= वत्सगोत्र) परिव्राजक एक-पुण्डरीक परिव्राजकाराममें वास करता था । भगवान् पूर्वाह्न-समय पहिनकर, पात्रचीवर ले, वैशालीमें पिंड-चारके लिये प्रविष्ट हुये । तब भगवान्को ऐसा हुआ—अभी वैशालीमें पिंडचार करनेके लिये बहुत सवेरा है । क्यों न मैं जहाँ एक-पुण्डरीक परिव्राजकाराम है, जहाँ वच्छ-गोत्त परिव्राजक है, वहाँ चलूँ । तब भगवान् ० वहाँ गये ।

वच्छ-गोत्त परिव्राजकने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देख कर भगवान्से बोला—

“आइये भन्ते ! भगवान् ! स्वागत भन्ते ! भगवान् ! बहुत दिन होगया भन्ते ! भगवान्को यहाँ आये । बैठिये भन्ते ! भगवान् ! यह आसन धिछा है ।”

भगवान् धिछे आसनपर बैठ गये । वत्स गोत्र परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे वत्स-गोत्र परिव्राजकने भगवान्से कहा—

“सुना है भन्ते !—‘श्रमण गौतम सर्वज्ञ = सर्वदर्शी हैं, निखिल ज्ञान-दर्शन (= ज्ञानके साक्षात्कार करने)का दावा करते हैं। चलते, खड़े, सोते, जागते (भी उनको) निरंतर सदा ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है’ । क्या भन्ते ! (ऐसा कहनेवाले) भगवान्के प्रति यथार्थ कहनेवाले हैं, और भगवान्को असत्य = अभूतसे निन्दा (= अभ्याख्यान) तो नहीं करते ? धर्मके अनुकूल (तो) वर्णन करते हैं ? कोई सह-धार्मिक (= धर्मानुकूल) वादका अभ्रमण, गर्हा (= निन्दा) तो नहीं होती ।”

“वत्स ! जो कोई मुझे ऐसा कहते हैं—‘श्रमण गौतम सर्वज्ञ है ० ।’ वह मेरे धारमें यथार्थ कहनेवाले नहीं हैं । असत्य (= अभूत)से मेरी निन्दा करते हैं ।”

“कैसे कहते हुये भन्ते ! हम भगवान्के यथार्थवादी होंगे, भगवान्को अभूत (= असत्य) से नहीं निन्देंगे ० ?”

“वत्स !—‘श्रमण गौतम त्रैविद्य (= तीन विद्याओंका जाननेवाला) है’—ऐसा कहते हुये, मेरे धारमें यथार्थवादी होगा ० । (१) वत्स ! मैं जब चाहता हूँ, अनेक किये पूर्वनिवासो (= पूर्वजन्मों)को स्मरण कर सकता हूँ, जैसे कि—एक जाति (= जन्म) ०^१ । इस प्रकार आकार (= शरीर आकृति आदि), नाम (= उद्देश)के सहित अनेक पूर्वजन्मोंको स्मरण करता हूँ । (२) वत्स ! मैं जब चाहता हूँ, अभानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुसे मरते, उत्पन्न होते, नीच-ऊँच,

^१ देखो पृष्ठ १५ ।

सुवर्ण-दुर्वर्ण, सुगत-दुर्गत ० कर्मानुसार (गतिको) प्राप्त सत्त्वोंको जानता हूँ । (३) वत्स ! मैं आत्तवों (= राग-द्वेष आदि)के क्षयसे आत्तव-रहित चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति) प्रज्ञाद्वारा विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरता हूँ ।”

ऐसा कहनेपर वत्स गोत्र परिव्राजकने भगवान्से कहा—

“भो गौतम ! क्या कोई गृहस्थ है, जो गृहस्थके संयोजनों (= बंधनों)को बिना छोड़े, कायाको छोड़ दुःखका अन्त करनेवाला (= निर्वाण प्राप्त करनेवाला) हो ?”

“नहीं वत्स ! ऐसा कोई गृहस्थ नहीं ० ।

“भो गौतम ! है कोई गृहस्थ, जो गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, काया छोड़ने (= मरने) पर, स्वर्गको प्राप्त होनेवाला हो ?”

“वत्स ! एक ही नहीं सौ, सौ नहीं दोसौ, ० तीनसौ, ० चारसौ, ० पाँचसौ, और भी यहृतसे गृहस्थ हैं, (जो) गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, मरनेपर स्वर्गगामी होते हैं ।”

“भो गौतम ! है कोई आजीवक, जो मरनेपर दुःखका अन्त करनेवाला हो ?”

“नहीं, वत्स ! ० ।”

“भो गौतम ! है कोई आजीवक जो मरनेपर स्वर्गगामी हो ?”

“वत्स ! यहाँसे एकानवे कल्प तक मैं स्मरण करता हूँ, किसीको भी स्वर्ग जानेवाला नहीं जानता, सिवाय एकके; और वह भी कर्म-वादी = क्रियावादी था ।”

“भो गौतम ! यदि ऐसा है तो यह तीर्थायतन (= ‘पंथ’) शून्य ही है, यहाँ तक कि स्वर्ग-गामियोंसे भी ।”

“वत्स ! ऐसा होते यह ‘पंथ’ शून्य ही है ० ।”

भगवान्ने यह कहा ! वत्स-गोत्र परिव्राजकने सन्तुष्ट हो, भगवान्के भाषणका अनु-मोदन किया ।

७२—अग्नि-वच्छगोत्त-सुत्तन्त (२।३।२)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे—

तब वच्छगोत्त (= वत्सगोत्र) परिव्राजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ...सम्मोदन (= कुशल प्रश्न पूछ) कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे वत्सगोत्र परिव्राजकने भगवान्से यह कहा—

(१) “भो गौतम ! ‘लोक शाश्वत (= नित्य) है’—यही सत्य है, और (सय वाद) झूठ (= मोघ) है, क्या आप गौतम इस दृष्टि (= मत)वाले हैं ?”

“वत्स ! मैं इस दृष्टिवाला नहीं हूँ—‘लोक शाश्वत है’—यही सत्य है, और सय झूठ ।”

(२) “भो गौतम ! ‘लोक अशाश्वत (= अनित्य) है’—यही सत्य है, और झूठ, क्या आप गौतम इसी दृष्टिवाले हैं ?”

“वत्स ! मैं इस दृष्टिवाला नहीं हूँ—‘लोक अशाश्वत है’, यही सत्य है, और झूठ ।”

(३) “० ‘अन्तवान् लोक है’ ० ?”—“० नहीं ० ।”

(४) “० ‘अन्-अन्तवान् लोक है’ ० ?”—“० नहीं ० ।”

(५) “० ‘जीव शरीर एक है’ ० ?”—“० नहीं ० ।”

(६) “० ‘जीव दूसरा है शरीर दूसरा है’ ० ?”—“० नहीं ० ।”

(७) “० ‘तथागत मरनेके बाद होते हैं’ ० ?”—“० नहीं ० ।”

(८) “० ‘तथागत मरनेके बाद नहीं होते’ ० ?”—“० नहीं ० ।”

(९) “० ‘तथागत मरनेके बाद होते भी हैं, नहीं भी होते’ ० ?”—“० नहीं ० ।”

(१०) “० ‘तथागत मरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं’ ० ?”—“० नहीं ० ।”

“क्या है, भो गौतम ! जो—‘लोक शाश्वत है’ यही सत्य है, और सय झूठ, क्या आप गौतम इस दृष्टिवाले हैं ?—पूछने पर; ‘वत्स ! मैं इस दृष्टिवाला नहीं हूँ—‘लोक शाश्वत है’ यही सत्य है और झूठ—कहते हैं ? ० । ‘तथागत मरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते’ यही सत्य है, और झूठ—क्या आप गौतम इस दृष्टिवाले हैं ?—पूछने पर भी,—‘वत्स ! मैं इस दृष्टिवाला नहीं हूँ—०—कहते हैं ? क्या बुराई देखकर आप गौतम ! इस प्रकार इन सभी दृष्टियोंको नहीं प्रदण करते ?”

“वत्स ! ‘लोक शाश्वत है’—यह दृष्टि-गत (= दृष्टि) दृष्टि-गहन, दृष्टि-कान्तार (= मत का रेगिस्तान), दृष्टि-विशुद्ध (= ० काँटा), दृष्टि-विरुपन्दित (= ० की चंचलता), दृष्टि-संयोजन (= ० बंधन) है, (यह) दुःखमय, विघात (= पीड़ा)मय, उपायास (= परेशानी)-मय, परिदाह (= जलन)-मय है; (यह) न निर्वेदके लिये=न वैराग्यके लिये, न निरोधके लिये, न उपशम (= शांति)के लिये, न अभिज्ञाके लिये, न संयोध (= परमज्ञान)के लिये न निर्वाण

के लिये है । ० । 'तथागत मरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते'—दृष्टि-गत (= दृष्टि) दृष्टि गहन ० न निर्वाणके लिये है । वत्स ! इस बुराई (= आदिनच) को देख कर मैं इन सभी दृष्टियों को नहीं ग्रहण करता ।

“भो गौतम ! आप गौतमका कोई दृष्टि-गत (= दृष्टि) है ?”

“ वत्स ! तथागतका दृष्टि-गत दूर हो गया है । वत्स ! तथागतका यह दृष्ट (= साक्षात्कृत) है—‘ऐसा रूप है, ऐसा रूपका समुदय (= उत्पत्ति) है, ऐसा रूपका निरोध (= नाश) है । ऐसी वेदना है ० । ऐसी संज्ञा है ० । ऐसी संस्कार है ० । ऐसी विज्ञान है ०’ । सारी मान्यताओं = सारे मथितों = सारे अहंकार-ममंकार-मान (रूपी) अनुशयों (= चित्त दोषों) के क्षय, विराग, निरोध, त्याग और अनुत्पत्तिसे (भिक्षु) विमुक्त होता है—यह कहता हूँ ।”

“भो गौतम ! ऐसा विमुक्त-चित्त भिक्षु कहाँ उत्पन्न होता है ?”

“वत्स ! ‘उत्पन्न होता है’—यह नहीं (संभव) पाता ।”

“तो फिर भो गौतम ! ‘नहीं उत्पन्न होता’ ?”

“वत्स ! ‘नहीं उत्पन्न होता’—यह नहीं पाता ।”

“तो भो गौतम ! ‘उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता है’ ?”

“वत्स ! ‘उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता है’—यह नहीं पाता ।”

“तो भो गौतम ! ‘न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है’ ?”

“वत्स ! ‘न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है’—यह नहीं पाता ।”

“भो गौतम ! ऐसा विमुक्त-चित्त भिक्षु कहाँ उत्पन्न होता है ?—पूछने पर, आप ‘वत्स ! ‘उत्पन्न होता है’—यह नहीं पाता—कहते हैं । ० । भो गौतम ! ‘न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है’ ?—पूछनेपर, ‘वत्स ! न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है’—यह नहीं पाता—कहते हैं । भो गौतम ! यहाँ मुझे अज्ञान हो गया, मुझे संभोह (= भ्रम) हो गया । पिछले वार्तालापसे जो कुछ प्रसाद (= श्रद्धा) आपके संबंधमें मुझे था, वह भी अन्तर्धान (= लुप्त) हो गया ।”

“वत्स ! तुझे अज्ञानकी ज़रूरत नहीं, सम्भोहकी ज़रूरत नहीं । वत्स ! यह धर्म गंभीर, दुर्दृश्य, दुर्-अनु-बोध (= दुर्ज्ञेय), शांत, प्रणीत (= उत्तम), तर्कका-अविषय, निपुण (= सूक्ष्म) पंडित-वेदनीय (= पंडितों द्वारा जानने लायक) है । वत्स ! यह (धर्म) अन्य-दृष्टिक (= दूसरे मतका आग्रह रखने वाले),=अन्य-क्षान्तिक, अन्य-रुचिक, अन्य-योग (= संबंध) वाले अन्यत्र-आचार्यक (= दूसरी जगहके ज्ञानवाले) तेरे लिये दुर्ज्ञेय है । तो वत्स ! तुझे ही पूछता हूँ, जैसा तुझे जँचे, वैसा उत्तर देना । यदि वत्स ! तेरे सन्मुख आग जले, तो तू जानेगा—यह मेरे सन्मुख आग जल रही है ?”

“भो गौतम ! यदि मेरे सन्मुख आग जले, तो मैं जानूँगा, यह मेरे सन्मुख आग जल रही है ।”

“यदि वत्स ! तुझसे यह पूछें—यह जो तेरे सन्मुख आग जल रही है, वह किसको लेकर जल रही है ?”

“ऐसा पूछने पर भो गौतम ! मैं कहूँगा—यह जो मेरे सन्मुख आग जल रही है, यह तृण-काष्ठ (रूपी) उपादानको लेकर जल रही है ।”

“यदि वत्स ! वह आग तेरे सन्मुख बुझ जाये, तो जानेगा तू—यह आग मेरे सन्मुख बुझ गई ?”

“भो गौतम ! यदि मेरे सन्मुख वह आग बुझ जाये, तो मैं जानूँगा—‘यह मेरे सन्मुख आग बुझ गई’ ।”

“यदि वत्स ! तुझसे यह पूछें—‘यह जो आग तेरे सन्मुख बुझ गई, वह आग किस दिशा को गई—पूर्वको, पश्चिमको उत्तरको या दक्षिणको’ ?—ऐसा पूछने पर वत्स ! तू क्या उत्तर देगा ?”

“नहीं (पता) मिलता, भो गौतम ! जो वह आग तृण-काष्ठके उपादानको लेकर जली, उसके पर्यादान (= खतम कर लेने)से, और अन्य (तृण-काष्ठ)के अनुपहार (= न मिलने)से, आहार विना ‘बुझ गई’ (= निवृत्त = निर्वाण-प्राप्त) यही नाम होता है ।”

“ऐसे ही वत्स ! तथागतको जतलाते वक्त जिस रूपसे (उन्हें) जतलाया जाता, वह रूप (ही) तथागतका प्रहीण (= नष्ट) हो गया, उच्छिन्न-मूल, शिर-कटे-ताड़-जैसा, अभाव-प्राप्त, भविष्य-में-उत्पन्न-न-होने-लायक हो गया । वत्स ! तथागत रूप-संज्ञा (= रूपके नामने) मुक्त, महासमुद्रकी तरह गंभीर, अ-प्रमेय, दुरवगाह्य (हैं) । (इसी लिये वहाँ) ‘उत्पन्न होता है’—नहीं पाया जाता, ० ; ‘न-उत्पन्न-होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता’—नहीं पाया जाता । तथागतको जतलाते वक्त जिस वेदना द्वारा (उन्हें) जतलाया जाता, वह वेदना ही तथागतकी प्रहीण हो गई ० ‘न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता’—नहीं पाया जाता । ० संज्ञा ० ० । ० संस्कार ० ० । तथागतको जतलाते वक्त जिस विज्ञान द्वारा जतलाया जाता, वह विज्ञान ही तथागतका प्रहीण होगया, उच्छिन्नमूल, शिर-कटे-ताड़-जैसा, अभाव-प्राप्त, भविष्य-में-उत्पन्न-न-होने-लायक हो गया । वत्स ! तथागत विज्ञान-संज्ञासे मुक्त हो, महासमुद्र की तरह गंभीर, अ-प्रमेय, दुरवगाह्य (हैं), (इसीलिये वहाँ) ‘उत्पन्न होता है’—नहीं पाया जाता; ० ‘न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता’—नहीं पाया जाता ।”

ऐसा कहने पर वत्स-गोत्र परिव्राजकने भगवान्से यह कहा—

“जैसे, भो गौतम ! आम या निगमके समीप (= अ-विदूर) महान् झाल (= साए)-वृक्ष हो । अनित्य होनेसे उसके शाखा-पत्रे नष्ट हो जायें; छाल-पपड़ी नष्ट हो जायें; गुदा नष्ट हो जाये । वादमें वह शाखा-पत्र रहित, छाल-पपड़ी-रहित, गुद्दारहित, शुद्ध, सार मात्रमें अवस्थित रह जाये; ऐसे ही आप गौतमका यह प्रवचन (= उपदेश) शाखा-पत्र-रहित, छाल-पपड़ी-रहित, गुदा-रहित शुद्ध सारमात्रमें अवस्थित है । आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे लीधेको सीधा कर दे ० ^१ आप गौतम आजसे मुझे अंजलिघट्ट शरणागत, उपासक स्वीकार करें ।”

७३—महा-वच्छगोत्त-सुत्तन्त (२।३।३)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलंदक-निवापमें विहार करते थे ।

तब वच्छगोत्त (= वत्सगोत्र) परिव्राजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान् को...सम्मोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे वत्सगोत्र परिव्राजकने भगवान्से यह कहा—

“भो गौतम ! देर हो गई, आप गौतमके साथ मुझे कथा-संलाप किये । साधु, (= अच्छा हो) आप गौतम संक्षेपसे मुझे कुशल-अकुशल (= भलाई-बुराई) का उपदेश करें ।”

“वत्स ! मैं संक्षेपसे तुझे कुशल-अकुशलका उपदेश करता हूँ, विस्तारसे भी तुझे कुशल-अकुशलका उपदेश करता हूँ । किन्तु (पहिले) वत्स ! मैं संक्षेपसे तुझे कुशल-अकुशलका उपदेश करता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह मनमें कर कहता हूँ ।”

“अच्छा, भो !” —(कह) वत्सगोत्र परिव्राजकने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—‘वत्स ! लोभ अकुशल (= बुराई, पाप) है, और अलोभ कुशल (= भलाई, पुण्य) है । वत्स ! द्वेष अकुशल है, अ-द्वेष कुशल है । वत्स ! मोह अकुशल है, अ-मोह कुशल है । इस प्रकार वत्स ! यह तीन धर्म (= पदार्थ) अकुशल हैं, और तीन धर्म कुशल ।

“वत्स ! प्राणातिपात (= हिंसा) अकुशल है, और प्राणातिपातसे विरत होना, कुशल है । वत्स ! अदत्तादान (= चोरी) अकुशल है, और अदत्तादानसे विरति कुशल । कामों (= स्त्री-प्रसंग)में मिथ्याचार (= दुराचार) अ-कुशल है, काम-मिथ्याचारसे विरति कुशल । वत्स ! मृपावाद (= झूठ) अकुशल है, मृपावाद-विरति कुशल । वत्स ! पिशुन-वचन (= चुगली) अकुशल है, पिशुन-वचन-विरति कुशल । वत्स ! परुष-वचन अकुशल है, परुषवचन-विरति कुशल । वत्स ! संप्रलाप (= बकवाद) अकुशल है, संप्रलाप-विरति कुशल । वत्स ! अमिथ्या (= लोभ) अकुशल है, अन्-अमिथ्या कुशल । वत्स ! व्यापाद (= पीड़ा देना) अकुशल है, अ-व्यापाद कुशल । वत्स ! मिथ्या-दृष्टि (= झूठी धारणा) अकुशल है, सम्यग्-दृष्टि कुशल । वत्स ! यह दश धर्म अकुशल हैं, दश धर्म कुशल हैं ।

“वत्स ! जब भिक्षुकी वृष्णा प्रहीण (= नष्ट) होगई होती है, उच्छिन्नमूल, कटे-शिर-वाले-ताड जैसी अभाव-प्राप्त (= लुप्त), भविष्यमें-न-उत्पन्न-होने लायक होती है; (तो) वह भिक्षु अर्हत्-क्षीण-आस्रव (= जिसके चित्तमल नष्ट हो गये हैं), (ब्रह्मचर्य-) वस-सुका, कृतकृत्य, भार-वह-सुका, सत्पदार्थको-प्राप्त, भव-बंधन-तोड़-सुका, आज्ञा (= परमज्ञान) द्वारा-सम्यक्-मुक्त होता है ।”

“रहें आप गौतम । क्या आप गौतमका एक भो श्रावक (= शिष्य) भिक्षु है, जो कि आस्रवों (= चित्तमलों)के क्षयसे आश्रव-रहित, चित्त-विमुक्ति (= ० मुक्ति) प्रज्ञा-विमुक्तिको

इसी जन्ममें स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता हो ?”

“वत्स ! एक ही नहीं सौ, सौ ही नहीं तीन सौ, (तीन सौ ही) नहीं चार सौ, (चार सौ ही) नहीं पाँच सौ; बल्कि अधिक ही मेरे श्रावक भिक्षु आस्रवोंके क्षयसे आस्रव-रहित, चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञाविमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरते हैं ।”

“रहें आप गौतम, रहने दें भिक्षुओंको । क्या आप गौतमकी एक भी श्राविका (= शिष्या) भिक्षुणी है, जो कि आस्रवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरती हो ?”

“वत्स ! एक ही नहीं ० बल्कि अधिक ० प्राप्त कर विहरती हैं ।”

“रहें आप गौतम, रहने दें भिक्षु, रहें भिक्षुणियाँ । क्या आप गौतमका एक भी गृहस्थ, श्वेत-वस्त्रधारी, ब्रह्मचारी श्रावक उपासक (= गृहस्थ शिष्य, भक्त) है, जो कि पाँच अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षयसे औपपातिक (= अयोनिज, देव) हो उस (देवलोक)में निर्वाण प्राप्त करनेवाला, उस लोकसे लौटकर न आनेवाला हो ?”

“वत्स ! एक ही नहीं ० पाँच सौ, बल्कि अधिक ही मेरे गृहस्थ ० उस लोकसे लौटकर न आनेवाले हैं ।”

“रहें आप गौतम, रहें भिक्षु, रहें भिक्षुणियाँ, रहें श्वेत-वस्त्रधारी, ब्रह्मचारी उपासक गृहस्थ श्रावक; क्या आप गौतमका एक भी गृहस्थ अवदातवसन (= श्वेतवस्त्रधारी), काम-भोगी (= उचित विषय-भोगी), शासन-कर (= धर्मानुसार चलनेवाला) = अववाद-प्रतिकर संशय-पारंगत, वाद-विवादसे-विगत, वैशारद्य (= निपुणता)-प्राप्त, गृहस्थ श्रावक उपासक है, जो कि शास्त्राके शासन (= गुरुके उपदेश)में अतिश्रद्धावान् होकर विहरता हो ?”

“वत्स ! एक ही नहीं ० पाँच सौ, बल्कि अधिक ही मेरे गृहस्थ ० शास्त्राके शासनमें अतिश्रद्धावान् होकर विहरते हैं ।”

“रहें आप ० रहें गृही अवदातवसन कामभोगी उपासक; क्या ० एक भी गृहस्थ अवदातवसना ब्रह्मचारिणी श्राविका उपासिका है, जो कि पाँच अवर-भागीय संयोजनोंके क्षयसे ० उस लोकसे लौट कर न आनेवाली हो ?”

“वत्स ! एक ही नहीं ० पाँच सौ बल्कि अधिक ही मेरी ० उस लोकसे लौट कर न आनेवाली हैं ।”

“रहें आप ० रहें गृहस्थ अवदातवसना ब्रह्मचारिणी श्राविका उपासिकायें, क्या आप गौतमकी एक भी, अवदातवसना, कामभोगिनी, शासनकरी = अववाद-प्रतिकरी, संशय-पारंगता, वाद-विवादसे परे, वैशारद्य-प्राप्ता गृहस्थ श्राविका उपासिका है, जो कि शास्त्राके शासनमें अतिश्रद्धावान् होकर विहरती हो ?”

“वत्स ! एक ही नहीं, ० पाँच सौ बल्कि अधिक ही मेरी ० अतिश्रद्धावान् होकर विहरती हैं ।”

“भो गौतम ! यदि इस (आपके) धर्मके आप गौतम ही आराधन (= सेवन) करनेवाले (= आराधक) होते, और भिक्षु सेवन करनेवाले न होते, तो इस प्रकार यह ब्रह्मचर्य इस अंशमें अपूर्ण रहता । चूँकि इस धर्मके आप गौतम भी सेवन करनेवाले हैं, और भिक्षु भी सेवन करनेवाले हैं, इसलिये यह ब्रह्मचर्य इस अंशमें पूर्ण है । भो गौतम ! यदि इस धर्मके आप गौतम ही आराधक होते, और भिक्षु ही आराधक होते, और भिक्षुणियाँ आराधक न होतीं; तो इस प्रकार यह ब्रह्मचर्य इस अंशमें अपूर्ण रहता । चूँकि इस धर्मके आप गौतम भी आराधक हैं, भिक्षु भी ०, और भिक्षुणियाँ भी ०, इसलिये यह ब्रह्मचर्य इस अंशमें पूर्ण है । भो गौतम ! यदि आप ० भिक्षु ०,

और मिश्रणियाँ ही आराधक होतीं, किन्तु ० ब्रह्मचारी उपासक ० आराधक न होते; तो ० अपूर्ण रहता । चूँकि ० ब्रह्मचारी उपासक भी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है । ० यदि इस धर्मके आप ० ब्रह्मचारी उपासक ० ही आराधक होते, और ० काम-भोगी ० उपासक ० आराधक न होते, तो ० अपूर्ण रहता । चूँकि ० काम-भोगी ० भी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है । ० यदि इस धर्मके आप ० कामभोगी उपासक ० आराधक होते, ० ब्रह्मचारिणी ० उपासिकायें आराधक न होतीं, तो ० अपूर्ण रहता; चूँकि ० ब्रह्मचारिणी ० उपासिकायें भी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है । ० यदि इस धर्मके आप ० ब्रह्मचारिणी ० उपासिकायें ही आराधक होतीं; तो ० अपूर्ण रहता । चूँकि ० काम-भोगिनी ० उपासिकायें भी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है ।

“जैसे, भो गौतम ! गंगानदी समुद्र-निम्ना (= समुद्रकी ओर जानेवाली) = समुद्र-प्रवणा=समुद्र-प्राग्भारा समुद्रको ही जाती स्थित है; ऐसे ही यह गृहस्थ, परिव्राजक (सारी) आप गौतमकी परिपद् निर्वाण-निम्ना (= निर्वाणकी ओर जानेवाली) = निर्वाण-प्रवणा=निर्वाण-प्राग्भारा निर्वाणको ही जाती स्थित है । आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे औधेको सीधा कर दे ० ^१ यह मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्र संघकी भी । मन्ते ! मैं भगवान्के पास प्रव्रज्या पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ ^२ ।”

“वत्स ! जो कोई भूतपूर्व अन्यतीर्थिक इस धर्मविनयमें प्रव्रज्या उपसंपदा चाहता है; वह चार मास तक परिवास करता है ० ^२ ।”

“यदि, मन्ते ! ० ^२ चार मास परिवास करते हैं, ० ^२, तो मैं चार वर्ष परिवास करूँगा । ० ^२ ।”

वत्सगोत्र परिव्राजकने भगवान्के पास प्रव्रज्या पाई, उपसंपदा पाई ।

उपसम्पन्न (= मिश्र) होनेके थोड़े ही समय बाद=१५ दिन बाद आयुष्मान् वत्सगोत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ...जाकर भगवान्को अभिवादन कर...एक ओर बैठे भगवान्से यह बोले—

“मन्ते ! शैक्ष्य (= अन्-अर्हत्, किन्तु निर्वाण-मार्गपर दृढ़ आरूढ़)-ज्ञानसे शैक्ष्य-विद्यासे पाया जा सकता है, वह मैंने पा लिया । अब भगवान् मुझे आगेका धर्म बतलायें ।”

(१) “तो वत्स ! तू दो आगेके धर्मों—शमथ (= समाधि) और विपश्यना (= प्रज्ञा, ज्ञान)की भावना (=सेवन) कर । वत्स ! इन आगेके दो धर्मों—शमथ और विपश्यनाकी भावना करनेसे, यह तेरे लिये अनेक धातुओंके प्रतिवेध-(= तह तक पहुँचने)में (सहायक) होंगे । ^१ तब (यदि) तू वत्स ! चाहेगा कि—‘अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुभव करूँ—एक होकर बहुत हो जाऊँ, बहुत होकर एक हो जाऊँ । आविर्भाव, तिरोभाव (= अन्तर्धान, होना), तिरः-कुड्य (= अन्तर्धान हो भीतके पार चला जाना), तिरः-प्राकार (= अन्तर्धान हो प्राकारके पार हो जाना), तिरः-पर्वत, आकाशमें (चलने जैसे भूमि पर) विना लिपटे चरूँ, जलकी मूर्ति पृथिवीमें डूबूँ उतराऊँ, पृथिवीकी तरह जलमें विना भीगे जाऊँ, पक्षियोंकी मूर्ति आकाशमें आसन मारकर चरूँ, इतने महाप्रतापी = महर्दिक चंद्र-सूर्यकोभी हाथसे छूँ = सीजूँ; ब्रह्मलोकपर्यन्त (अपनी) कायासे वशमें रखूँ’ ।—तो आयतन (= आश्रय) होनेपर तो वहाँ तू साक्षी-भावको प्राप्त होगा ।

“(२) तब (यदि) तू वत्स ! जो चाहेगा—‘विशुद्ध अमानुष दिव्य श्रोत्र-धातु (= कान

^१ देखो पृष्ठ १६ । ^२ देखो पृष्ठ २३३ । ^३ यही = अभिज्ञायें (= दिव्य शक्तियाँ) हैं ।

इन्द्रिय)से दूर-नजदीकके दिव्य-मानुष दोनों प्रकारके शब्दोंको सुनूँ' ।—तो आयतन होनेपर वहाँ वहाँ तू साक्षी-भावको प्राप्त होगा ।

“(३) तव (यदि) तू वत्स ! चाहेगा—‘दूसरे सखों = दूसरे प्राणियोंके चित्तको (अपने) चित्तद्वारा जानूँ—सराग-चित्त होनेपर सराग-चित्त है—यह जानूँ; वीतराग (= राग-रहित)-चित्त होनेपर, वीत-राग-चित्त है—यह जानूँ । स-द्वेष ०; वीत-द्वेष ० । स-मोह ० । वीत-मोह ० । विक्षिप्त-चित्त ०, सं-क्षिप्त (= एकाम्र)-चित्त ०, महद्गत (= विशाल)-चित्त ०, अ-महद्गत ०, स-उत्तर (= जिससे उत्तम भी है) चित्त ०, अन्-उत्तर-चित्त ० । समाहित (= समाधि-प्राप्त)-चित्त ०, अ-समाहित-चित्त ० । विमुक्त-चित्त होनेपर, विमुक्त-चित्त है—यह जानूँ; अ-विमुक्त-चित्त होनेपर, अ-विमुक्त चित्त है—यह जानूँ ।—तो आयतन होनेपर वहाँ वहाँ तू साक्षी भावको प्राप्त होगा ।

“(४) तव (यदि) तू वत्स ! चाहेगा—‘अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों (= पूर्व-जन्मों) को अनु-स्मरण करूँ—जैसे कि एक जन्मको भी, दो जन्मको भी ०’ इस प्रकार आकार और उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पूर्व निवासोंको स्मरण करूँ ।—० तू साक्षीभावको प्राप्त होगा ।

“(५) ० चाहेगा—‘मैं अमानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुसे अच्छे धुरे, सुवर्ण-दुर्वर्ण ० २ प्राणियोंको मरते उत्पन्न होते देखूँ, कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहिचानूँ—यह आप प्राणधारी ० २ स्वर्गलोकको प्राप्त हुये हैं, इस प्रकार अमानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुसे ० कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहिचानूँ ।’—० तू साक्षी भावको प्राप्त होगा ।

“(६) ० ३ चाहेगा—‘मैं आस्रवोंके क्षयसे आस्रवरहित चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरूँ ।’—० तू साक्षी (= साक्षात्कार करनेवाला) भावको प्राप्त होगा ।”

तव आयुष्मान् वत्स-गोत्र भगवान्के भाषणको अभिनन्दित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चले गये ।

तव आयुष्मान् वत्स-गोत्र एकाकी, एकान्तवासी ० ४ आत्म-संयमी हो विहरते, जल्दी ही ० ४ अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें ० २ प्राप्त कर विहरने लगे, ० ४ । आयुष्मान् वत्स-गोत्र अर्हत्तोंमेंसे एक हुये ।

उस समय बहुतसे भिक्षु भगवान्के दर्शनके लिये जा रहे थे । आयुष्मान् वत्स-गोत्रने दूरसे ही उन भिक्षुओंको जाते देखा । देखकर जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ...जाकर उन भिक्षुओंने कहा—

“हन्त ! आप आयुष्मानो कहाँ जा रहे हो ?”

“आवुस ! हम भगवान्के दर्शनके लिये जा रहे हैं ।”

“तो आयुष्मानो ! मेरे वचनसे भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करना; (और यह कहना)—‘भन्ते ! वत्स-गोत्र भिक्षु भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है, और यह कर्त्ता है—भगवान् ! मैंने (उस अभिज्ञाको) परिचीर्ण कर लिया (= आचरण कर लिया, पा लिया), सुगत ! मैंने परिचीर्ण कर लिया ।”

“अच्छा, आवुस !”—(कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् वत्स-गोत्रको उत्तर दिया ।

तव वह भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर...घँट ...वाले—

“भन्ते ! आयुष्मान् वत्स-गोत्र भगवान्के चरणोंमें शिरसे चंदना करते हैं, और यह कहते हैं—‘भगवान् ! मैंने परिचीर्ण कर लिया, सुगत ! मैंने परिचीर्ण कर लिया’ ।”

“भिक्षुओ ! पहिले मैंने चित्तसे चित्तको देखकर वत्सगोत्र भिक्षुके विषयमें जान लिया—‘वत्स-गोत्र भिक्षु त्रैविद्य (= तीन विद्याओं^३ का जाननेवाला), महर्दिक (= ऋद्धि-प्राप्त) = महानुभाव है’ । देवताओंने भी मुझे इस अर्थको कहा—‘वत्स-गोत्र भिक्षु, भन्ते ! त्रैविद्य, महर्दिक = महानुभाव है’ ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।

^३ विस्तारके लिये देखो पृष्ठ १५ ।

७४—दीर्घनख-सुत्तन्त (२३।४)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें, गृध्रकूट पर्वतपर शूकरखातामें विहार करते थे ।

तब दीर्घनख (= दीर्घनख) परिव्राजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ सम्मोदन^१ कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये दीर्घनख परिव्राजकने भगवान्से यह कहा—

“भो गौतम ! मैं इस वाद=इस दृष्टिका माननेवाला हूँ—‘समी (मत) मुझे पसन्द नहीं’ ।

“अग्निवेश ! क्या तुझे ‘समी मुझे पसन्द नहीं’—यह दृष्टिभी पसन्द नहीं है ?”

“भो गौतम ! यदि यह दृष्टि मुझे पसन्द हो, तो ‘यह भी वैसी ही हो, यह भी वैसी ही हो’ ।”

“इसलिये अग्निवेश ! तुझसे बहुत अधिक (पुरुष) लोकमें हैं, जो ऐसा कहते हैं—‘यह भी वैसा ही है, यह भी वैसा ही है’, (किन्तु) वह उस दृष्टिको नहीं छोड़ते, और दूसरी दृष्टिको ग्रहण करते हैं । और अग्निवेश ! ऐसे (पुरुष) लोकमें अत्यन्त कम हैं, जो ऐसा कहते हैं—‘यह भी वैसा ही है, यह भी वैसा ही है’ और उस दृष्टिको छोड़ देते हैं, और दूसरी दृष्टिको भी नहीं ग्रहण करते ।

“अग्निवेश ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण इस वाद = इस दृष्टिको माननेवाले हैं—‘मुझे समी (मत) पसन्द है (= खमति)’ । ० कोई कोई ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं—‘मुझे समी पसन्द नहीं’ । अग्निवेश ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस दृष्टिके माननेवाले हैं—‘मुझे कोई कोई (मत) पसन्द है, कोई कोई नहीं पसन्द है’ ।”

“अग्निवेश ! जो श्रमण-ब्राह्मण इस वाद = इस दृष्टिके माननेवाले हैं—‘समी मुझे पसन्द नहीं’, उनकी यह दृष्टि सराग (= रागयुक्त होनेकी अवस्था)के समीप है, संयोगके समीप है, अभिनन्दन के समीप है, अध्यवसान (= ग्रहण)के समीप है, उपादान (पानेकी कोशिश)के समीप है । अग्निवेश ! जो ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं—‘मुझे समी पसन्द है’; उनकी यह दृष्टि अ-संयोग = अ-संयोग, अन्-अभिनन्दन, अन्-अध्यवसान, अन्-उपादानके समीप है ।”

ऐसा कहनेपर दीर्घनख परिव्राजकने भगवान्से यह कहा—“आप गौतम मेरी दृष्टिका उत्कर्ष (= प्रशंसा) करते हैं, आप गौतम मेरी दृष्टिका सम्-उत्कर्ष करते हैं ।”

“अग्निवेश ! जो श्रमण-ब्राह्मण ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं—‘मुझे कोई कोई पसन्द है, कोई कोई नहीं पसन्द है’ । उनको जो दृष्टि पसन्द नहीं है, वह सरागके समीप है ०; उनको जो दृष्टि पसन्द नहीं है, वह अ-सरागके समीप है ० ।

^१ यह दीर्घनखका गोत्र था ।

“अग्निवेश ! जो श्रमण-ब्राह्मण ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं—‘सभी मुझे पसन्द हैं’; उनके विषयमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है—जो यह मेरी दृष्टि है—‘सभी मुझे पसन्द हैं’; इस दृष्टिको यदि मैं मजवृत्तीसे पकड़कर आग्रहकरके कहूँ—‘यही सच है, और (सय मत) झूठा है’, तो दो (वादियों)के साथ मेरा विग्रह (= विवाद) होगा—(१) वह श्रमण-ब्राह्मण, जो कि ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं—‘मुझे सभी पसन्द हैं’; और (२) वह ० जो कि ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं—‘मुझे कोई कोई पसन्द है, कोई कोई नहीं पसन्द है’ । इन दोनोंके साथ मेरा विग्रह होगा; विग्रह होनेपर विवाद होगा, विवाद होनेपर विघात (= पीड़ा) होगा, विघात होनेपर विहिंसा (= हिंसा) होगी । इस प्रकार अपनेमें विग्रह, विवाद, विघात, और विहिंसाको देखते हुये, उस दृष्टिको छोड़ देता है । इस प्रकार इन दृष्टियोंका प्रतिनिस्सर्ग (= त्याग) होता है ।

“अग्निवेश ! जो श्रमण-ब्राह्मण ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं—‘मुझे सब पसन्द नहीं हैं’ । इस वारेमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है—जो यह मेरी दृष्टि है—‘मुझे सब पसन्द नहीं हैं’; इस दृष्टिको यदि मैं ० आग्रहकरके कहूँ—‘यही सच है, और झूठ है’, तो दोके साथ मेरा विग्रह होगा—(१) वह ० जो कि ० इस दृष्टिको माननेवाले हैं—‘मुझे सब पसन्द है’; और (२) ०—‘मुझे कोई कोई पसन्द है, कोई कोई नहीं पसन्द है ।’ इन दोनोंके साथ मेरा विग्रह होगा ० । इस प्रकार इन दृष्टियोंका परित्याग होता है ।

“अग्निवेश ! जो श्रमण-ब्राह्मण ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं—‘मुझे कोई कोई पसन्द है, कोई कोई नहीं पसन्द है’ । इस वारेमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है—० जो यह मेरी दृष्टि है—‘मुझे कोई कोई ० तो दोके साथ विग्रह होगा—(१) ०—‘मुझे सब पसन्द है’; और (२) ०—‘मुझे सब पसन्द नहीं है’ । इन दोनोंके साथ मेरा विग्रह होगा ० । इस प्रकार इन दृष्टियोंका परित्याग होता है ।

“अग्निवेश ! यह काया रूपी (= रूपसे बनी)=चार महाभूतोंसे बनी, माता-पितासे उत्पन्न, दाल-भात (= ओदन-कुल्माष)से वर्द्धित, अनित्य-उत्सादन (= ० विनाश)-परिमर्दन-भेदन (= टूटना)-विध्वंसन धर्मों (= स्वभावों)वाली है, (इसे मुझे) अनित्यके तौरपर, दुःख-रोग-गंड (= फोड़ा)-शल्य (= फर, काँटा)-अघ-आवाधा (= बीमारी)-परकीय-नाशमान-शून्य-अनात्मा (= आत्मा नहीं)के तौरपर समझना चाहिये । इस कायाको अनित्यके तौरपर ० समझनेसे उसका इस कायामें छन्द (= राग), स्नेह, अन्वयता (= संबंधी भाव) नष्ट हो जाता है ।

“अग्निवेश ! यह तीन वेदनायें (अनुभव) हैं ?—(१) सुखा (= सुख रूप मालूम होने वाली) वेदना; (२) दुःखा वेदना; (३) अदुःख-असुखा-वेदना । अग्निवेश ! जिस समय (आदमी) सुखा वेदनाको अनुभव (वेदन) करता है, उस समय न दुःखा वेदनाको अनुभव करता है, नहीं अदुःख-असुखा वेदना को; सुखा वेदनाको ही उस समय अनुभव करता है । अग्निवेश ! जिस समय दुःखा वेदनाको अनुभव करता है ० । अग्निवेश ! जिस समय अदुःख-असुखा वेदनाको अनुभव करता है, उस समय न सुखा वेदनाको अनुभव करता है, नहीं दुःखा वेदनाको, ० ।

“अग्निवेश ! सुखा वेदना भी अनित्य, संस्कृत, (= कृत), = प्रतीत्य-समुत्पन्न (कारणसे उत्पन्न), क्षय-धर्मा (= क्षय स्वभाववाली) = ध्यय-धर्मा, विराग-धर्मा, निरोध-धर्मा है । अग्निवेश ! दुःखा वेदना भी अनित्य ० निरोध-धर्मा है । अग्निवेश ! अदुःख-असुखा वेदना अनित्य ० निरोध-धर्मा है । अग्निवेश ! ऐसा समझ श्रुतवान् (= बहुश्रुत) आर्य-श्रावक सुखा वेदनासे भी निर्वेद (= उदासीनता)को प्राप्त होता है, दुःखा वेदनासे भी निर्वेदको प्राप्त होता है, अदुःख-असुखा वेदनासे भी निर्वेदको प्राप्त होता है । निर्वेदको प्राप्त हो विरक्त होता है, विरागको प्राप्त

हो विमुक्त होता है, विमुक्त होनेपर—‘मैं विमुक्त हूँ’ यह ज्ञान होता है; ‘जन्म स्वतन्त्र हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ (करने)के लिये कुछ (शेष) नहीं है—यह जान लेता है । अग्निवेश ! इस प्रकार विमुक्त-चित्त (= मुक्त) भिक्षु न किसीके साथ संवाद करता है, न विवाद करता है; संसारमें जो कुछ कहा गया है, आप्रह-रहित हो उसीसे (कथन-) व्यवहार करता है ।”

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र भगवान्के पीछे खड़े हो, भगवान्को पंखा झल रहे थे । तब आयुष्मान् सारिपुत्रको यह हुआ—‘भगवान् हमें जानकर उन उन धर्मोंको छोड़नेको कहते हैं, सुगत हमें जानकर उन उन धर्मोंको त्यागनेको कहते हैं । इस प्रकार सोचते हुये आयुष्मान् सारिपुत्रका चित्त आस्रवों (= चित्त-मलों)से अलग हो मुक्त हो गया । और दीर्घनख परिव्राजकको (यह) विरज=विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ—‘जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह सब नाशमान (= निरोध-धर्मा) है’ ।

तब दृष्ट-धर्म (= जितने धर्मोंको देख लिया) = प्राप्त-धर्म, विदित-धर्म = पर्यवगाद-धर्म, संशय-रहित, वाद विवाद-रहित, वैशारद्य-प्राप्त (= मर्मज्ञ) शास्त्राके शासन (= बुद्धधर्म)में परम अद्भुत हो दीर्घनख परिव्राजकने भगवान्से यह कहा—‘आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा कर दे, ०^१ । आप गौतम आजसे मुझे अंजलियद् शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”

७५—मागन्दिय-सुत्तन्त (२।३।५)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् कुरु (देश)के, कम्मास-दम्म नामक कुरुओंके निगममें, भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मणकी अग्निशालामें तृण-आसनपर विहार करते थे ।

तब भगवान् पूर्वाह्नके समय पहिनकर, पात्र-चीवर ले कम्मास-दम्म (= कम्माप दम्म) में भिक्षाके लिए प्रविष्ट हुए । कम्मास दम्म में भिक्षाटन कर, भोजनसे निवृत्त हो, दिनके विहारके लिये एक वन-पण्डमें गये । उस वन-पण्डको धवगाहन कर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे ।

तब मागन्दिय परिव्राजक जंघाविहार (= टहलने)के लिये धूमता-टहलता, जहाँ भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मणकी अग्निशाला थी, वहाँ गया । मागन्दिय परिव्राजकने भारद्वाजगोत्र ब्राह्मणकी अग्निशालामें तृण-आसन (= तृण संस्तरक) बिछा देखा । देखकर भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मणसे कहा—

“आप भारद्वाजकी अग्निशालामें किसका तृण-आसन बिछा हुआ है; श्रमणका जैसा जान पड़ता है ?”

“भो मागंदिय ! शाक्य-पुत्र, शाक्यकुलसे प्रव्रजित (जो) श्रमण गौतम हैं । उन भगवान्का ऐसा संगल कीर्ति-शब्द (= यश) फैला हुआ है^१—‘वह भगवान् अर्हत्, सम्यक्-संबुद्ध, विद्या-चरण-संपन्न, सुगत, लोकविद्, पुरुषोंके-अनुपम, चाबुक-सवार, देवता और मनुष्योंके शास्ता भगवान् बुद्ध हैं । उन्हीं आप गौतमके लिये यह शय्या बिछी हुई है ।’”

“भो भारद्वाज ! यह बुरा देखना हुआ, जो हमने आप गौतमकी भुन-भू शय्याको देखा ।”

“रोको इस वचनको मागंदिय ! रोको इस वचनको मागंदिय ! उन आप गौतममें बहुतसे क्षत्रिय पंडित भी, ब्राह्मण पंडित भी, गृहपति-पंडित भी, श्रमण-पंडित भी अभिप्रसन्न (= श्रद्धावान्) हैं, आर्य न्याय कुशल-धर्ममें लाये गये हैं ।”

“हे भारद्वाज ! यदि मैं आप गौतमको सामने भी देखता, तो सामने भी उन्हें कहता—‘श्रमण गौतमकी भुन-भू ०’ । सो किस हेतु ?—यही हमारे सुत्तो (= सूत्रों, सूक्तों)में आता है ।”

“यदि, आप मागन्दियको बुरा न लगे, तो इस (वात)को मैं श्रमण-गौतमसे कहूँ ।”

“वेखटके आप भारद्वाज (मेरे) कहेको उनसे कहूँ ।”

भगवान्ने अमानुष विशुद्ध दिव्य-श्रोत्रसे भारद्वाज गोत्र ब्राह्मणके मागंदिय परिव्राजकके साथ होते इस कथा-संलापको सुना । तब भगवान् सार्यकाल ध्यानसे उठकर, जहाँ भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मणकी अग्निशाला थी, वहाँ गये; और बिछे तृण-आसनपर बैठ गये । तब भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्के साथ...संभोदनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे भार-

^१ देखो पृष्ठ २४, २५ भी ।

द्वाज-गोत्र ब्राह्मणसे भगवान्ने यह कहा—

“भारद्वाज ! इस तृण-आसनको लेकर तेरा मार्गदिय-परिव्राजकके नाय क्या कुछ बयासलाप हुआ ?”

ऐसा कहनेपर भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मण संविभ्र = रोमांचित हो भगवान्से यह बोला—

“यही हम आप गौतमसे कहनेवाले थे, कि आप गौतमने (उसे) अन्-आख्यात (= अ-कथितव्य) कर दिया ।”

यही क्या भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मण और भगवान्में हो रही थी, कि मार्गदिय परिव्राजक लंघा-विहारके लिये टहलता-धूमता, जहाँ भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मणकी अग्निशाला थी, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ “संमोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे मार्गदिय परिव्राजकसे भगवान्ने यह कहा—

“भागन्दिय ! चक्षु रूपाराम (= अच्छा रूप देखकर आनन्दित होनेवाला) = रूपरत रूप-समुदित है; वह (= आँख) तयागतकी दान्त (= संयत) गुप्त = रक्षित = संभृत है । (तयागत) उस (= चक्षु)के संवर (= संयम)के लिये धर्मोपदेश करते हैं । भागन्दिय ! यही सोचकर तुने कहा न—‘श्रमण गौतम भुन-नू है’ ?”

“भो गौतम ! यही सोचकर मैंने कहा—‘श्रमण गौतम भुन-नू है’ । सो किस हेतु ?—ऐसा ही हमारे सूत्रोंमें आता है ।”

“भागन्दिय ! श्रोत्र शब्दाराम ० । ० घ्राण गंधाराम ० । ० जिह्वा रसाराम ० । ० काया स्प्रष्टव्याराम ० । ० मन धर्माराम ० ।

“तो क्या मानता है, भागन्दिय ! यहाँ कोई (पुरुष) पहिले चक्षु द्वारा विज्ञेय दृष्ट, कान्त = मनाप = प्रियरूप, काम-युक्त, रंजनीय, रूपोंको भोग रहा हो । वह दूसरे समय रूपोंके समुदय (= उत्पत्ति), अस्न-गमन, आस्वाद, आदिनव (= दोष), निस्तरण (= निम्नरुनेके उपाय)को ठीकसे जानकर, रूप विषयक तृष्णाको छोड़े; रूप-विषयक जलनको हटाकर, (रूपकी) प्याससे रहित हो; (अपने) भीतर उपशात (= शांत)-चित्त हो विहरे । ऐसे (पुरुष)को भागन्दिय ! तेरे पास कहनेके लिये क्या है ?”

“कुछ नहीं, भो गौतम !”

“तो क्या मानता है, भागन्दिय ! ० श्रोत्र द्वारा विज्ञेय ० शब्दोंको भोग रहा हो ० । ० घ्राण द्वारा विज्ञेय ० गंधोंको भोग रहा हो ० । ० जिह्वा द्वारा विज्ञेय ० रसोंको भोग रहा हो ० । ० काया द्वारा विज्ञेय ० स्प्रष्टव्योंको भोग रहा हो ० ।

“भागन्दिय ! पहिले गृहस्थ होते समय मैं चक्षु द्वारा विज्ञेय दृष्ट ० रसोंको भोग रहा था । ० शब्दों ० । ० गंधों ० । ० रसों ० । ० स्प्रष्टव्यों ० । भागन्दिय ! उस समय मेरे तीन प्राणाद थे—एक वर्षाकालिक, एक हेमन्तिक, एक प्रीप्सफ । मैं वर्षाके चारों महीने वर्षाकालिक प्रासादमें, अ-सुरूपों (= स्त्रियों)के वाद्योंसे सेवित हो, प्रासादके नीचे न उतरता था । फिर दूसरे समय कामों (= विषय-भोगों)के समुदय, अस्न-गमन ० को अच्छी तरह जान काम-तृष्णाको छोड़ ० उपशात-चित्त हो । विहरता हूँ । (जय) मैं अन्य प्राणियोंको कामोंमें अ-वीनराग, काम-तृष्णा द्वारा खाये जाते, काम-दाहसे जलते हुये कामोंको सेवन करते देखता हूँ; तो मैं उनको स्पृहा नहीं करता, (उनमें) अभिरत नहीं होता । सो किस हेतु ?—भागन्दिय ! जो यह रति कामोंसे अलग, अकुशल-धर्मों (= पापों)से अलगमें हैं, (जो रति कि) दिव्य सुखोंको मान करती है, उस रतिमें रमते हीन (-रति)को स्पृहा नहीं करता, उसमें अभिरत नहीं होना ।

“जैसे मागन्धिय ! कोई आद्य, महाघनी; महाभोग (-संपन्न) गृहपति, या गृहपति-पुत्र पाँच काम-गुणों—चक्षु द्वारा ज्ञेय, इष्ट = कान्त, मनाप = प्रिय, कमनीय = रंजनीय रूपों, ० शब्दों, ० गंधों, ० रसों, ० स्पृष्टव्यों—से समर्पित = समंगीभूत (= संयुक्त) हो विहार करे । वह कायासे सुचरित, (= सुकर्म) करके, वचनसे सुचरित करके, मनसे सुचरित करके काया छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमें, त्रायस्त्रिंश देवोंके बीच उत्पन्न हो । वह वहाँ नन्दनवनमें अप्सरा-समुदायसे परिवारित (= धिरा) पाँच दिव्य कामगुणोंसे समर्पित, समंगीभूत हो बहार करे । वह किसी गृहपति या गृहपति-पुत्रको पाँच काम-गुणोंसे समर्पित, समंगीभूत हो बहार करते देखे । तो क्या मानता है मागन्धिय ! क्या वह नन्दनवनमें अप्सरा समुदायसे परिवारित, पाँच दिव्य काम-गुणोंसे समर्पित ० हो बहार करता, देवपुत्र; इस गृहपति या गृहपतिपुत्रको पाँच मानुष काम-गुणोंसे समर्पित ० हो बहार करते देख; मानुष काम-गुणोंकी ओर लौटना चाहेगा ?”

“नहीं, भो गौतम !”

“सो, किस हेतु ?”

“भो गौतम ! मानुष कामों (= भोगों)से दिव्य काम अभिक्रान्ततर (= उत्तम) = प्रणी-ततर हैं ।”

“ऐसे ही मागन्धिय ! पहिले गृहस्थ होते समय मैं ०^१ (जो रति कि) दिव्य सुखोंको मात करती है, उस रतिमें रमते हीन (-रति)की स्पृहा नहीं करता, उसमें अभिरत नहीं होता ।

“जैसे मागन्धिय ! सड़ा-शरीर, पका-शरीर, कीड़ोंसे खाया जाता, नखोंसे-धावके-मुखोंको-कुरेदता कोई कोढ़ी आदमी (आग)पर शरीरको तपाता हो । उसके मित्र-अमात्य, ज्ञाति-सलोहित (= भाई-वंद) शल्यकर्ता भिषक् (= वैद्य)को लायें । वह ० भिषक् उसकी चिकित्सा करे । उस चिकित्सासे वह कुष्ठसे मुक्त, निरोग स्वतंत्र, स्ववश, जहाँ-चाहे-तहाँ-जानेवाला हो जाये । (फिर) वह दूसरे सड़े-शरीर ० कोढ़ी आदमीको भौरपर शरीरको तपाता देखे, तो क्या मानता है, मागन्धिय ! क्या वह उस-कोढ़ीके भौरपर तपाने या औषध-सेवनकी स्पृहा (= इच्छा) करेगा ?”

“नहीं, भो गौतम !”

“सो, किस हेतु ?”

“भो गौतम ! रोग होनेपर ही भैषज्य (= चिकित्सा)का काम होता है, रोग न रहनेपर भैषज्यका काम नहीं होता ।”

“ऐसे ही मागन्धिय ! पहिले गृहस्थ होते समय मैं ०^१ ० उसमें अभिरत नहीं होता ।”

“जैसे मागन्धिय ! सड़ा-शरीर ० कोढ़ी ० चिकित्सासे कुष्ठसे मुक्त ० हो जाये । (तय) दो बलवान् पुरुष...वाहोंसे पकड़कर उसे भौर (की आग)पर डालें । तो क्या मानता है, मागन्धिय ! क्या वह पुरुष इधर उधर शरीरको नहीं हटावेगा ?”

“जरूर, भो गौतम !”

“सो किस हेतु ?”

“भो गौतम ! आग दुःख-स्पर्श (= दुःखके साथ झूने लायक), महा-ताप, महा-दाह-वाली है ।”

^१ देखो पृष्ठ २९३ ।

“तो क्या मानता है, भागन्दिय ! इसी समय वह आग दुःख-स्पर्श-महाताप-महादाहवाली है, या पहिले भी……?”

“ओ गौतम ! इस समय भी वह आग दुःख-स्पर्श ० है, और पहिले भी……थी । (किन्तु पहिले) यह सड़ा-शरीर ० उपहृत-इन्द्रिय (= अक्लके मारे) कोढ़ी आदमी दुःख-स्पर्श जगिमें भी ‘सुख है’—ऐसी विपरीत धारणा रखता था ।”

“ऐसे ही भागन्दिय ! ; काम (= विषयभोग) अतीतकालमें भी दुःख-स्पर्श—महाताप-महादाहवाले हैं; काम भविष्य-कालमें भी ०, इस समय वर्तमानमें भी दुःख-स्पर्श-महाताप-महादाह-वाले हैं । भागन्दिय ! यह कामोंमें अ-वीतराग, काम-नृष्णासे-खाये जाते, कामदाहसे-जलते उपहृत-इन्द्रिय (= हियेकी फूटीवाले) प्राणी दुःख-स्पर्शवाले कामोंमें ‘सुख है’—ऐसी विपरीत धारणा (= संज्ञा) रखते हैं ।

“जैसे, भागन्दिय ! सड़ा-शरीर ० कोढ़ी औरपर शरीरको तपाता हो । भागन्दिय ! जितना ही जितना वह ० कोढ़ी औरपर शरीरको तपावे, उतना ही उतना उसके घावके मुँहमें अधिक मल, अधिक दुर्गन्ध, अधिक पीय आवे । घावके मुँहके मृजलानेसे क्षणभरके लिये रस, आस्वाद मालूम होवे । इसी प्रकार भागन्दिय ! यह कामोंमें अ-वीतराग कामनृष्णासे-खाये-जाते, काम-दाहसे-जलते प्राणी कामोंका सेवन करते हैं । भागन्दिय ! जितना ही जितना कामोंमें अ-वीतराग ० प्राणी कामोंका सेवन करते हैं, उतना ही उतना उन प्राणियोंकी काम-नृष्णा बढ़ती है, काम-दाहसे (वह) जलते हैं; कामगुणों (के सेवन)से क्षणभरके लिये रस, आस्वाद मात्र मालूम होता है ।

“तो क्या मानता है, भागन्दिय ! क्या तुने देखा था सुना है, कि काम-गुणों (= विषय-भोगों)से समर्पित, समंगीभूत हो बहार करते, कोई राजा या राज-महामात्य, काम-नृष्णा बिना छोड़े, काम-दाह बिना त्यागे, पिपासा-रहित बन अपने अन्दर उपशांत-चित्त हो विहरता था, विहर रहा है, या विहरेगा ?”

“नहीं, ओ गौतम !”

“साधु, भागन्दिय ! मैंने भी यह नहीं देखा, नहीं सुना, कि ० कोई राजा या राजमहा-मात्य ० विहरेगा । यत्कि भागन्दिय ! जो भ्रमण या ब्राह्मण पिपासा-रहित बन, अपने अन्दर उपशांत-चित्त हो विहरे, विहरते हैं, या विहरेंगे, वह सभी कामोंके समुदय, अन्तगमन ०^१को ठीकसे जानकर, काम-नृष्णाको छोड़; काम-विषयक जलनको हटा, (कामकी) प्याससे रहित हो, अपने अन्दर उपशांत-चित्त हो विहरे थे, विहरते हैं, या विहरेंगे ।

तब भगवान्ने उसी समय इस उद्दानको कहा—

“आरोग्य (= निरोग रहना) परम लाभ है, निर्वाण परम सुख है ।

अमृतकी और लेजानेवाले मागोंमें अष्टांगिक मार्ग (बहुत)क्षेम (= मंगल)मय है ।”

ऐसा कहनेपर भागन्दिय परिघ्राजकने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य ! ओ गौतम ! अद्भुत !! ओ गौतम ! कैसा सु-भाषित (= ठीक कहा) आप गौतमने कहा—‘आरोग्य परम लाभ है, निर्वाण परम सुख है ।’ मैंने भी ओ गौतम ! (अपने) पूर्वके परिघ्राजक आचार्य-प्राचार्योंको कहते सुना है—‘आरोग्य परम लाभ है, निर्वाण परम सुख है ।’ ओ गौतम ! यह उससे मिल जाता है ।”

“भागन्दिय ! जो तूने पूर्वके परिव्राजक आचार्य-प्राचार्योंको कहते सुना है—‘आरोग्य ०’; उसमें क्या है आरोग्य, और क्या है निर्वाण ?”

ऐसा कहनेपर भागन्दिय परिव्राजक अपने शरीरको छूते हुये (बोला)—

“मो गौतम ! यह आरोग्य है, यह निर्वाण है, मो गौतम ! मैं इस समय अ-रोग, सुखी हूँ, मुझे कोई व्याधि नहीं है ।”

“जैसे, भागन्दिय ! जन्मान्ध पुरुष न देखे काले ०, ० सफेद रूपको, न देखे नीले रूपको, न देखे पीले रूपको, न देखे लाल रूपको, न देखे मजीठी रंग रूपको, न देखे सम-विषम (भूमि) को, न देखे तारोंके रूपको, न देखे चन्द्र-सूर्यको । वह आँखवालोंको कहते सुने—‘श्वेत वस्त्र बढ़िया होता है, सुन्दर-निर्मल-शुचि (होता है)’ । वह श्वेतकी खोजमें चले । उसे कोई पुरुष तेलकी स्याही लगे काले (ऊनी) कपड़ेसे वंचित करे—‘हे पुरुष ! यह बढ़िया, सुन्दर, निर्मल, शुचि श्वेतवस्त्र है’ । वह उसे परिग्रहण करे, प्रतिग्रहण करे, पहिने । पहिनकर सन्तुष्ट हो फूलकर वचन निकाले—‘अहो ! श्वेतवस्त्र बढ़िया होता है, सुन्दर-निर्मल-शुचि (होता है)’ । तो क्या मानता है, भागन्दिय ! क्या वह जन्मान्ध पुरुष जान-समझकर उस तेलकी स्याही लगे काले कपड़ेको परिग्रहण करता, प्रतिग्रहण करता, ० । पहिनकर ० वचन निकालता—‘अहो ! श्वेत वस्त्र ०’; या आँखवालेपर श्रद्धा करता ?”

“मो गौतम ! वह जन्मान्ध पुरुष न जान-समझकर ही उस तेलकी स्याही लगे ० प्रतिग्रहण करता है ० । ० आँखवालेपर श्रद्धा करता है ।”

“ऐसेही, भागन्दिय ! अन्धे नेत्रहीन अन्य-तीर्थिक (= दूसरे मतवाले) परिव्राजक आरोग्यको न जानते, निर्वाणको न देखते भी इस गाथाको कहते हैं—‘आरोग्य परम लाभ है, निर्वाण परम सुख है ।’ भागन्दिय ! पूर्वके अर्हत् सम्यक् संबुद्धोंने इस गाथाको कहा है—‘आरोग्य परम लाभ है, ० अष्टांगिक-मार्ग क्षेम है’ । सो अब धीरे धीरे अनादियों (= पृथग्जनों) में चली गई । भागन्दिय ! यह काया रोगमय, गंड (= फोड़ा)-मय, शल्य, (= काँटा)-मय अध-मय, व्याधि-मय है । सो तू इस रोगमय ० व्याधि-मय कायाको कह रहा है—‘मो गौतम ! यह आरोग्य है, यह निर्वाण है । भागन्दिय ! तुझे आर्य-चक्षु नहीं है, जिससे कि तू आरोग्यको जाने, निर्वाणको देखे ।”

“मैं आप गौतममें इतनी श्रद्धा रखता हूँ ; आप गौतमको अधिकार है, कि मुझे उस प्रकार धर्म-उपदेश करें, जिससे कि मैं आरोग्यको जान सकूँ, निर्वाणको देख सकूँ ।”

“जैसे भागन्दिय ! जो जन्मान्ध पुरुष ०^१ न देखे चन्द्र-सूर्यको । (तय) उसके मित्र-अमात्य, ज्ञाति-सलोहित शल्य-कर्ता भिषक्को लावें । वह शल्यकर्ता भिषक् उसकी चिकित्सा करे वह उस चिकित्सासे न आँखोंको उत्पन्न करे, न आँखोंको साफ करे । तो क्या मानता है, भागन्दिय ! क्या वह वैद्य सिर्फ हैरानी, परेशानीका ही मागी है न ?”

“हाँ, मो गौतम !”

“ऐसे ही भागन्दिय ! मैं तो तुझे धर्म-उपदेश करूँ—यह आरोग्य है, यह निर्वाण है; और तू उस आरोग्यको न जाने, उस निर्वाणको न देखे; तो यह मेरी (व्यर्थकी) परेशानी होगी, विहिंसा (= पीड़ा) होगी ।”

^१ देखो पृष्ठ १९६ ।

“मैं आप गौतममें इतनी श्रद्धा रखता (= प्रसन्न) हूँ; आप गौतमको अधिकार है, ० निर्वाणको देख सकूँ ।”

“जैसे, भागन्दिय ! जन्मान्ध पुरुष ०^१ को, न देखे चन्द्र-सूर्यको । वह आँखवालोंको कहते सुने ०^१ वह उसे परिग्रहण = प्रतिग्रहण करे, पहिने । (तब) उसके मित्र-अमात्य, ज्ञाति-सलोहित शल्यकर्ता भियकको लावें । वह ० चिकित्सा—ऊर्ध्व विरेचन (= उल्टी आनेकी दवा), अधोविरेचन (= जुलाय), अंजन, प्रत्यंजन, नत्थुकम्म (= नाकसे औषध-प्रदान) करे । वह उस भेषज्यसे आँखोंको उत्पन्न करे, आँखोंको साफ करे । आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, उस तेल-मसीसे लिपटे काले कपड़े (= साहुल-चीवर = काली मेड़के यालके कपड़ों)में उमका छन्द = राग नष्ट हो जाये । और वह उस (वंचक) पुरुषको अमित्र मानने छो, प्रत्यर्थि (= शत्रु) मानने लगे, यत्कि प्राणसे भी मारना चाहे—‘अरे, चिरकालसे यह पुरुष तेल-मसीकृत साहुल-चीवरसे मुझे वंचित = निकृत = प्रलब्ध करता रहा—‘हे पुरुष ! यह यदिया, सुन्दर, निर्मल, शुचि, श्वेत वस्त्र है ।’ ऐसे ही भागन्दिय ! मैं तुझे धर्मोपदेश करूँ—यह आरोग्य है, यह निर्वाण है, और तू आरोग्यको जाने, निर्वाणको देखे; तो आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, जो पाँच उपादान-स्कंधों में तेरा छन्द = राग है, वह नष्ट हो जाये । तुझे यह भी होवे—अरे, चिरकालसे यह चित्त मुझे वंचित = विकृत = प्रलब्ध करता रहा । मैं रूपको ही (अपना करके) ग्रहण (= उपादान) करता रहा, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञानको ही (अपना करके) ग्रहण करता रहा । मेरा उस उपादानके कारण भव, (= संसार), भवके कारण जाति (= जन्म) जातिके कारण जरा-मरण शोक-रोदन क्रंदन, दुःख = दौर्मनस्य परेशानी उत्पन्न होती रहीं । इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कंध (= दुःख-पुंज)की उत्पत्ति (= समुदय) होती है ।”

“मैं आप गौतममें इतनी श्रद्धा रखता हूँ, आप गौतमको अधिकार है, कि मुझे इन प्रकार धर्मोपदेश करें, जिसमें कि मैं इस आसनसे अनु-अन्ध होकर उठूँ ।”

“तो भागन्दिय ! तू सत्पुरुषोंका सेवन कर । जय तू सत्पुरुषोंको सेवन करेगा, तो सद्धर्मको सुनेगा । जय तू भागन्दिय ! सद्धर्मको सुनेगा, तो सद्धर्मके अनुसार आचरण करेगा । जय तू भागन्दिय ! सद्धर्मके अनुसार आचरण करेगा, तो स्वयंही जानेगा, स्वयंही देखेगा—‘यह रोग, गंद, शल्य है; यहाँ सारे रोग, गंद (= फोड़ा), शल्य (= काँटा) निरुद्ध (= नष्ट) होते हैं’ । तब तेरे उपादानके निरोधसे भव-निरोध, भव-निरोधसे जाति-निरोध, जाति-निरोधसे जरा-मरण शोक-परिदेव दुःख-दौर्मनस्य-उपायासोंका निरोध होता है । इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कंधका निरोध होता है ।”

ऐसा कहनेपर भागन्दिय परिव्राजकने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे आँधेको सीधा कर दे ०^२ यह मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । मन्ते ! मैं भगवान्के पास प्रमन्या पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ ।”

“भागन्दिय ! जो कोई श्रुतपूर्व अन्य-तीर्थिक इस धर्ममें प्रमन्या उपसंपदा चाहता है; वह चार भास तक परिवास करता है^३ ।”

^१ देखो पृष्ठ २९६ ।

^२ देखो पृष्ठ २६ ।

^३ देखो पृष्ठ २३३ ।

“यदि भन्ते ! ०^१ चार साल परिवास करते हैं ०^१ तो मैं चार वर्ष परिवास करूँगा ।”

सागन्दिय परिव्राजकने भगवान्‌के पास प्रव्रज्या उपसंपदा पाई ।

उपसम्पन्न होनेके बाद जल्दी ही आयुष्मान् सागन्दिय, एकाकी एकान्तवासी ०^१ आत्म-संयमी हो विहरते, जल्दी ही ० अनुपम ब्रह्मचर्य फलको इसी जन्ममें ०^२ प्राप्त कर विहरने लगे, ०^१ आयुष्मान् सागन्दिय अर्हतोंमेंसे एक हुये ।

७६—सन्दुक-सुत्तन्त (२।३।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे। उस समय पंचसौ परिम्राजकोंकी महापरिम्राजक-परिपद्के साथ, सन्दुक परिम्राजक पृश्नगुहामें^१ वास करता था।

आयुष्मान् आनन्दने सायंकाल ध्यानसे उठ, मिश्रुओंको संबोधित किया—

“आबुसो ! आओ जहाँ देवकट-सोष्म^२ (= देवकृत-धत्र = स्वाभाविक भगन-कृप) है, वहाँ देखनेके लिये चलो ।”

“अच्छा आबुस !” (कह) उन मिश्रुओंने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया। तब आयुष्मान् आनन्द बहुतसे मिश्रुओंके साथ, जहाँ देवकट-सोष्म था, वहाँ गये। उस समय सन्दुक परिम्राजक राजकथा राज-कथा, चोर-कथा, माहात्म्य-कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्ध-कथा, भङ्ग-कथा, पान-कथा, वस्त्र-कथा, शयन-कथा, गंध-कथा, माला-कथा, ज्ञाति (= कुल)-कथा, यान (= युद्ध-यात्रा)-कथा, ग्राम-कथा, निगम-कथा, नगर-कथा, जनपद-कथा, स्त्री-कथा, शूर-कथा, त्रिशिता (= चौरस्ता)-कथा, कुम्भ-स्थान (= पनघट)-कथा, पूर्वप्रेत (= पहिले मरोंकी)-कथा, नानारङ्ग-कथा, लोक-आख्यायिका, समुद्र-आख्यायिका, इतिभवाभव (= ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ)-कथा आदि निरर्थक कथा कहती, नाद करती, शोर मचाती, बड़ी भारी परिम्राजक-परिपद्के साथ, बैठ था। सन्दुक परिम्राजकने दूरहीसे आयुष्मान् आनन्दको आते देखा। देखकर अपनी परिपद्से कहा— ‘आप सब झुप हों। मत...शब्द करें। यह श्रमण गौतमका श्रावक श्रमण आनन्द आरहा है। श्रमण गौतमके जितने श्रावक कौशाम्बीमें वास करते हैं, उनमें एक, यह श्रमण आनन्द है। यह आयुष्मान् लोग निःशब्द-प्रेमी, अल्प-शब्द-प्रशंसक होते हैं। परिपद्को अल्पशब्द देख, संभव है (झूठ) भी आयें।’ तब वह परिम्राजक झुप होगये।

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ सन्दुक परिम्राजक था, वहाँ गये। सन्दुक परिम्राजकने आयुष्मान् आनन्दसे कहा—

“आइये आप आनन्द ! स्वागत है आप आनन्दका। चिरकालयाद आप आनन्द यहाँ आये। बैठिये आप आनन्द, यह आसन विछा है।”

आयुष्मान् आनन्द विछे आसनपर बैठ गये। सन्दुक परिम्राजक भी एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे, सन्दुक परिम्राजकसे आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“सन्दुक ! किस कथामें बैठे थे, पीचमें क्या फया होररी थी ?”

“जाने दीजिये इस कथाको, भो आनन्द ! जिस कथामें कि हम इस समय बैठे थे। ऐसी

^१ कोसम्के पास पमोसा (जि० इलाहाबाद) । ^२ पमोसामें कोई प्राकृतिक जल-कुंड था ।

क्या आप आनन्दको पीछे भी सुननेको दुर्लभ न होगी। अच्छा हो, आप आनन्द ही अपने आचार्यक (= धर्म)-विषयक धार्मिक-कथा कहें।”

“तो सन्दक ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।”

“अच्छा भो !” (कह) सन्दक परिव्राजकने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया। आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“सन्दक ! उन जानकार, देखनहार, सम्यक्संबुद्ध भगवान्ने चार अ-ब्रह्मचर्य-वास कहे हैं, और चार आश्रासन न देनेवाले ब्रह्मचर्य-वास (= संन्यास) कहे हैं; जिनमें विज्ञ-पुरुष अपनी शक्तिभर ब्रह्मचर्य-वास न करे। वास करनेपर न्याय (= निर्वाण), कुशल (= अच्छे)-धर्मको न पा सकेगा।

“हे आनन्द ! उन० भगवान्ने कौनसे चार अ-ब्रह्मचर्य वास० कहे हैं० ?”

(१) “सन्दक ! यहाँ एक शास्ता (= गुरु, पंथ चलाने वाला) ऐसा वाद (= दृष्टि) रखनेवाला होता है^१—‘नहीं है दान (का फल), नहीं है यज्ञ (का फल), नहीं है हवन (का फल) नहीं है सुकृत-दुष्कृत कर्मोंका फल = विपाक; यह लोक नहीं है, पर-लोक नहीं है, माता नहीं, पिता नहीं। औपपत्तिक (= अयोनिज, देव आदि) प्राणी नहीं हैं। लोकमें (ऐसे) सत्यको प्राप्त (= सम्यग्-गत) सत्यारूढ़ श्रमण ब्राह्मण नहीं हैं, जोकि इस लोक परलोकको स्वयं जान कर, साक्षात् कर, (दूसरोंको) जतलावेंगे। यह पुरुष चातुर्माहाभूतिक (= चार भूतोंका बना) है। जब मरता है, पृथिवी पृथिवी-काय (= पृथिवी)में मिल जाती है, चली जाती है। आप (= पानी) आप-कायमें मिल जाता० है। तेज (= अग्नि) तेज-कायमें मिल जाता० है। वायु वायु-कायमें मिल जाता० है। इन्द्रियाँ आकाशमें (चली) जाती हैं। पुरुष मृत (शरीर) को खाटपर ले जाते हैं। जलाने तक पद (= चिह्न) जान पड़ते हैं। (फिर) हड्डियाँ कवृतरके (पंखें) सी (सफेद) हो जाती हैं। (पूर्वकृत) आहुतियाँ राख (हो) रह जाती हैं। यह दान मूर्खोंका प्रज्ञापन (= उपदेश) है। जो कोई आस्तिक-वाद कहते हैं, वह उनका तुच्छ = झूठ है। मूर्ख या पंडित (सभी) शरीर छोड़ने पर उच्छिन्न हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, मरनेके बाद (कोई) नहीं रहता। इस विषयमें विज्ञपुरुष ऐसे विचारता है—‘यह आप शास्ता इस वाद (= दृष्टि) वाले हैं—नहीं है दान०’। यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो (पुण्य) बिना किये भी, मैंने कर लिया, (ब्रह्मचर्य) बिना वास किये भी, वास कर लिया। इस प्रकार नास्तिक गुरु और मैं—हम दोनोंही यहाँ बराबर श्रामण्य (= संन्यास)को प्राप्त हैं। मैं नहीं कहता—(हम) दोनों काया छोड़ उच्छिन्न = विनष्ट होंगे, मरनेके बाद नहीं रह जायेंगे। (फिर) यह आप शास्ता की (यह) नम्रता, मुंडता, उकड़ू-तप (= उक्कुटिकप्पधान) केश-श्मश्रु-नोचना फ़जूल है।’ और जो मैं पुत्राकीर्णहो, घर (= शयन)में वास करते, काशीके चंदनका मजा लेते, माला सुगंध-लेप धारण करते, सोना-चाँदीका रस लेते, मरने पर इन आप शास्ताके समान गति पाऊँगा। सो मैं क्या समझ कर, क्या देख कर, इन (नास्तिक-वादी) शास्ताके पास ब्रह्मचर्य पालन करूँ। (इस प्रकार) ‘यह अ-ब्रह्मचर्य-वास है’ समझ, वह, उस ब्रह्मचर्य (= साधुपन)से उदास हो, हट जाता है। यह सन्दक ! उन० भगवान्ने प्रथम अ-ब्रह्मचर्य-वास कहा है, जिसमें विज्ञ-पुरुष ०।

(२) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (= मत) वाला होता है—^२‘करते-

^१ देखो (अजितकेशकम्बली)।

^२ देखो (पूर्ण काश्यप)।

करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, शोक कराते, परेशान कराते, मयते-मयाते, प्राण मारते, चोरी करते, सँघ लगाते, गाँव छड़ते, घर छड़ते, रहजनी करते, पर-स्त्री-गमन-करते, झूठ योलते भी पाप नहीं किया जाता। झुरसे तेज चक्र-द्वारा जो इस पृथिवीके प्राणियोंका (कोई) एक माँसका खलियान, एक माँसका पुंज बनादे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं होगा; पापका आगमन नहीं होगा। यदि घात करते-कराते, काटते-कटाते, पकाते-पकवाते, गंगाके दाहिने तीर पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा। दान देते दान दिलाते, यज्ञ करते यज्ञ कराते, गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता। दान, (इन्द्रिय-) दम, संयम, सच्चेपन (= सच्च-व्रज)से पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता। सन्दक ! विश्व-पुरुष ऐसा विचारता है—यह आप शास्ता इस वाद = दृष्टि-वाले हैं—करते-करवाते ०। यदि इन आप शास्ताका यचन सच है ०। तो हम दोनों ही बराबर श्रामण्य (= संन्यास)को प्राप्त हैं, ...‘दोनोंहीके करते पाप नहीं किया जाता’। यह आप शास्ताकी नम्रता ०।०। यह सन्दक ! उन ० भगवान्ने द्वितीय अ-ब्रह्मचर्य-वास कहा है ०।

(३) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (= दृष्टि)वाला होता है—‘सत्त्वोंके संक्लेशका कोई हेतु = कोई प्रत्यय नहीं। विना हेतु विना प्रत्ययके प्राणी संक्लेश (= चित्त-मालिन्य)को प्राप्त होते हैं। प्राणियोंकी (चित्त-)विशुद्धिका कोई हेतु = प्रत्यय नहीं है। विना हेतु = प्रत्ययके प्राणी विशुद्ध होते हैं। यल नहीं, (चाहिये), धीर्य नहीं पुरुषका स्याम (= दृढ़ता) नहीं = पुरुष-पराक्रम नहीं (चाहिये), सभी सत्त्व = सभी प्राणी = सभी मृत = सभी जीव अ-वश = अ-यल = अ-धीर्य नियत (= भवितव्यता)के वशमें हो, उभों अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते हैं। ० यदि० इन आप शास्ताका यचन सत्य है ०। तो हम दोनों ही हेतु = प्रत्यय विना ही शुद्ध हो जायेंगे। ०। यह सन्दक ! भगवान्ने तृतीय अ-ब्रह्मचर्य-वास कहा है ०।

(४) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसी दृष्टि-वाला होता है—‘यह मात अकृत = अकृतविध = अ-निर्मित = निर्माता-रहित, अवष्य = कृतस्य, स्तम्भवत् (अचल) हैं; यह चल नहीं होते, विकारको प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरेको हानि पहुँचाते हैं; न एक दूसरेके सुग्य, दुःख, या सुख-दुःखके लिये पर्याप्त हैं। कौनसे सात ?—पृथिवी-काय, आप-काय, तेज-काय, वायु-काय, सुख, दुःख और जीव—यह सात। यह सात काय अकृत ० सुख-दुःखके योग्य नहीं हैं। यहाँ न हन्ता (= मारनेवाला) है, न घातयिता (= हनन करानेवाला), न सुननेवाला, न सुनानेवाला, न जाननेवाला न जतलानेवाला। जो तीक्ष्ण-शास्त्रसे शीश भी छेदते हैं, (तो भी) कोई किसीको प्राणसे नहीं मारता। सातों कायोंसे अलग, विवर (= खाली जगह)में शख (= हथियार) गिरता है। यह प्रधान-योनि—चौदह सौ-हजार (दूसरी) साठ-सौ, छियासठ-सौ, वीस पाँच सौ कर्म, और पाँच कर्म और तीन कर्म, (एक) कर्म, और आधा कर्म, पासठ प्रतिपद्, पासठ अन्तर-कल्प, छः अभिजाति, आठ पुरुषकी भूमियाँ, उंचास सौ आजीवक, उंचाम सौ परिम्राजक, उंचाम नागोंके आवास, बीससौ इन्द्रिय, तीससौ नरक, छत्तिस रजो-धातु, सात संज्ञवान् गर्भ, मात असंज्ञी गर्भ, सात निर्मयी गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात सरोवर, मान गाँठ (= पसुट), सात प्रपात, सातसौ प्रपात, सात स्वप्न, सातसौ स्वप्न—(इनमें) चौरासौ हजार महा-

कल्पों तक दौड़कर = आवागमनमें पड़कर, मूर्ख और पंडित (सभी) दुःखका अंत (= निर्वाण-प्राप्ति) करेंगे। वहाँ (यह) नहीं है—इस शील या व्रत, या तप, ब्रह्मचर्यसे मैं अपरिपक्व कर्मको पचाऊँगा, परिपक्व कर्मको भोगकर अन्त करूँगा। सुख, दुःख, द्रोण (-नाप) से नपे तुले हुए हैं, संसारमें घटाना बढ़ाना, उत्कर्ष-अपकर्ष नहीं होता। जैसे कि सूतकी गोली फेंकनेपर उधरती हुई गिरती है, ऐसे ही मूर्ख (= बाल) और पण्डित दौड़ कर = आवागमनमें पड़ कर, दुःखका अंत करेंगे। वहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसे विचारता है—यह आप शास्ता ऐसे वाद = दृष्टिवाले हैं ०। जैसे कि सूतकी गोली ०। यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो बिना किये भी मैंने कर लिया। ० यह आप शास्ताकी नग्नता ०। यह सन्दक ! उन ० भगवान् ने चतुर्थ अ-ब्रह्मचर्य-वास कहा है ०।

“सन्दक ! उन ० भगवान् ने यह चार अ-ब्रह्मचर्य-वास कहे हैं ०।”

“आश्चर्य ! भो आनन्द !! अद्भुत ! भो आनन्द !! जो उन ० भगवान् ने यह चार अ-ब्रह्मचर्य-वास कहे हैं ०। किन्तु, भो आनन्द ! उन ० भगवान् ने कौनसे चार अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य कहे हैं ० ?”

(१) “सन्दक ! यहाँ एक शास्ता सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अशेष-ज्ञान-दर्शनवाला होनेका दावा करता है^१—‘चलते, खड़े होते, सोते, जागते, सदा सर्वदा मुझे ज्ञान-दर्शन मौजूद (= प्रत्युपस्थित रहता है।’ (तो भी) वह सूने घर में जाता है, (वहाँ) भिक्षा भी नहीं पाता, कुक्कुर भी काट खाता है, चंड-हाथीसे भी सामना पड़ जाता है, चंड घोड़ेसे भी सामना पड़ जाता है, चंड-त्रैलसे भी ०। (सर्वज्ञ होनेपर भी) स्त्री-पुरुषोंके नाम-गोत्रको पूछता है। ग्राम-निगमका नाम और शास्ता पूछता है। (आप सर्वज्ञ होकर) यह क्या (पूछते हैं)’—पूछनेपर कहता है—‘सूने घरमें हमारा जाना वदा था, इसलिये गये। भिक्षा न मिलनी बदी थी, इसलिये न मिली। कुक्कुरका काटना वदा था ०। ० हाथीसे मिलना वदा था ०। ० वहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है—यह आप शास्ता ० दावा करते हैं ० (तब) वह—‘यह ब्रह्मचर्य (= पंथ) अनाश्वासिक (= मनको संतोष न देनेवाला) है’—यह जान, उस ब्रह्मचर्यसे उदास हो हट जाता है। यह सन्दक ! उस ० भगवान् ने प्रथम अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य कहा है ०।

(२) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता आनुश्रविक = अनुश्रव (श्रुति) को सत्य माननेवाला होता है। (श्रुतिमें) ऐसा, (स्मृतिमें) ऐसा, परम्परासे, पिट कसंप्रदाय (= ग्रंथ-प्रमाण) से, धर्मका उपदेश करता है। सन्दक ! आनुश्रविक = अनुश्रवको सच माननेवाले शास्ताका अनुश्रव सुश्रुत (= ठीक सुना) भी हो सकता है, दुःश्रुत भी; वैसा (= यथार्थ) भी हो सकता है, उलटा भी हो सकता है। यहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है—यह आप शास्ता आनुश्रविक हैं ०। वह—‘यह ब्रह्मचर्य अनाश्वासिक है’ ०। ० द्वितीय अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य कहा है ०।

(३) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता तार्किक = विमर्शी होता है। वह तर्कसे = विमर्शसे प्रात, अपनी प्रतिभासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है। सन्दक ! तार्किक = विमर्शक (= मीमांसक) शास्ताका (विचार) सुतर्कित भी हो सकता है, दुःतर्कित भी। जैसे (= यथार्थ) भी हो सकता है, उलटा भी हो सकता है ०। ०। ०। ० तृतीय अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य कहा है ०।

(४) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता^१ मन्द = अति-मूढ़ (= मोनुह) होना है । वह मन्द होनेसे, अति-मूढ़ होनेसे वैसे वैसे प्रश्न पूछनेपर, वचनसे विक्षेपको = अमरा-विक्षेपको प्राप्त होता है—‘ऐसा भी मेरा (मत) नहीं, वैसा (= तया) भी मेरा नहीं, अन्यथा भी मेरा (मत) नहीं, नहीं भी मेरा (मत) नहीं, न—नहीं भी मेरा (मत) नहीं ।’ यहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है ० । ० । ० । ० चतुर्थ अनाश्रयिक ब्रह्मचर्य कहा है ० ।

“सन्दक ! उन ० भगवान्ने यह चार अनाश्रयिक ब्रह्मचर्य कहे हैं ० ।”

“आश्रय ! मो आनन्द !! अद्भुत ! मो आनन्द !! जो यह उन ० भगवान्ने चार अनाश्रयिक ब्रह्मचर्य कहे हैं ० । किन्तु मो आनन्द ! वह शास्ता किस वाद = किस दृष्टिवाला होना चाहिये, जहाँ विज्ञ-पुरुष स्व-शक्तिभर ब्रह्मचर्य-वास करें, वास कर न्याय = कुदाल-धर्मकी आराधना करें ० ?”

“सन्दक ! यहाँ तथागत लोकमें उत्पन्न होते^२ हैं ० । उस धर्मको गृहपति या गृहपति-पुत्र सुनता है ० । वह संशयको छेड़ संशय-रहित होता है । वह इन पाँच नीवरणोंको हटा चित्तके दुर्बल करनेवाले उपक्लेशों (= चित्तमलों)को जान, कामोंसे अलग हो, अकुशल-धर्मोंसे अलग हो, प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । सन्दक ! जिस शास्ताके पास श्रावक इन् प्रकारके यद्दे (= उदार) विशेषको पावे, वहाँ विज्ञ-पुरुष स्वशक्तिभर ब्रह्मचर्य-वास करे ० ।

“और फिर सन्दक ! ० द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ० । ० । ० तृतीय-ध्यान ० । ० । ० चतुर्थ-ध्यान ० । ० । ०^३ पूर्वजन्मोंको स्मरण करता है ० । ० । ० कर्मानुसार जन्मते सत्त्वोंको जानता है ० । ० । ० ‘अब यहाँ दूसरा कुल करना नहीं रहा’—जानता है ० । ० । ०”

“मो आनन्द ! वह जो भिक्षु ० अर्हत् (= मुक्त) है, क्या वह कामोंका भोग करेगा ?”

“सन्दक ! जो वह भिक्षु ० अर्हत् है, वह (इन) पाँच बातोंमें असमर्थ है । क्षीण-आस्रव (= अर्हत्, मुक्त) भिक्षु (१) जानकर प्राण नहीं मार सकता । (२) चोरी नहीं कर सकता । (३) मैथुन...सेवन नहीं कर सकता । (४) जानकर झूठ नहीं बोल सकता । (५) क्षीणास्रव भिक्षु एकत्रित कर (अन्न पान आदि,) काम-भोगोंको भोगकरनेके अयोग्य है; जैसे कि वह पहिले गृही होते भोगता था । ० ।”

“मो आनन्द ! जो वह अर्हत् = क्षीणास्रव भिक्षु है, क्या उसे चलते-चैठने, सोते-जागते निरन्तर... (यह) ज्ञान दर्शन मौजूद रहता है—‘मेरे आस्रव (= चित्तमल) क्षीण होगये ।’

“तो सन्दक ! तेरे लिये एक उपमा देता हूँ । उपमासे भी कोई फोड़ें विज्ञ-पुरुष बटनेका मतलब समझ लेते हैं । सन्दक ! जैसे पुरुषके हाथ-पैर कटे हों, उसको चलते-चैठने, सोते-जागते निरन्तर (होता है), मेरे हाथ-पैर कटे हैं । इसी प्रकार सन्दक ! जो वह अर्हत् = क्षीणास्रव भिक्षु है, उसके ० निरन्तर...आस्रव क्षीण ही हैं, वह उसकी प्रत्यवेक्षा करके जानता है—‘मेरे-आस्रव क्षीण हैं ।’”

“मो आनन्द ! इस धर्म-विनय (= धर्म)में कितने मार्ग-दर्शक (= निर्याता) हैं ?”

“सन्दक ! एक साँ ही नहीं, दो साँ ही नहीं, तीन साँ ०, चार साँ ०, पाँच साँ ०, पत्तिक और भी अधिक निर्याता इस धर्म-विनयमें हैं ।”

“आश्रय ! मो आनन्द !! अद्भुत ! मो आनन्द !! न अपने धर्मका उत्कर्ष (= तारीक) करना, न पर-धर्मकी निन्दा करना, (ठीक) जगह (= आयतन)पर धर्म उपदेवाना !! इतने अधिक

^१ संजय बलाहृपुत्र ।

^२ देखो पृष्ठ २१३ ।

^३ देखो पृष्ठ १५ ।

मार्ग-दर्शक जान पड़ते !! यह आजीवक पूत-मरीके पूत तो अपनी बड़ाई करते हैं। तीनको ही मार्ग-दर्शक (= निर्याता) बतलाते हैं, जैसेकि—नन्द वात्स्य, कृश सांकृत्य और मक्खली गोसाल।”

तय सन्दक परिव्राजकने अपनी परिपदको संयोधित किया—

“आप सब श्रमण गौतमके पास ब्रह्मचर्य-वास करें। हमारे लिये तो लाम-सत्कार प्रशंसा छोड़ना, इस वक्त सुकर नहीं है।”

ऐसे सन्दक परिव्राजकने अपनी परिपदको भगवान्के पास ब्रह्मचर्य-वास करनेके लिये प्रेरित किया।

७७—महा-सकुलुदायि-सुत्तन्त (२।३।७)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे। उस समय बहुतसे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध (= अभिज्ञात) परिवाजक मोर-निवाप परिवाजकाराममें वाम करते थे; जैसे कि—अनुगार-चरचर और सकुल-उदायी परिवाजक तथा दूसरे अभिज्ञात अभिज्ञात परिवाजक।

तब भगवान् पूर्वाह्न-समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, राजगृहमें पिंड-चारके लिये प्रविष्ट हुये। भगवान्को यह हुआ—‘राजगृहमें पिंड-चारके लिये अभी बहुत सघेरा है, क्यों न मैं जहाँ मोर-निवाप परिवाजकाराम है, जहाँ सकुल-उदायी परिवाजक है, वहाँ चल्ँ’। तब भगवान् जहाँ मोर-निवाप परिवाजकाराम था, वहाँ गये। उस समय सकुल-उदायी परिवाजक ०^१ बहुत भारी परिवाजक-परिपदके साथ बैठा था। सकुल-उदायी परिवाजकने दूरसे ही भगवान्को भाते देखा। देखकर अपनी परिपदसे कहा—०।

भगवान् जहाँ सकुल-उदायी परिवाजक था, वहाँ गये। सकुल-उदायी परिवाजकने भगवान्से कहा—

“आइये भन्ते ! भगवान् ! स्वागत है, भन्ते ! भगवान् ! चिरकालयाद भगवान् यहाँ आये। भन्ते ! भगवान् ! बैठिये, यह आसन विछा है।”

भगवान् विछे आसनपर बैठे। सकुल-उदायी परिवाजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे सकुल-उदायी परिवाजकसे भगवान्ने कहा :—

“उदायी ! किस कथामें बैठे थे, क्या क्या धीचमें हो रही थी ?”

“जाने दीजिये, भन्ते ! इस कथाको, जिस कथामें हम इस समय बैठे थे। ऐसी क्या भन्ते ! आपको पीछे भी सुननी दुर्लभ न होगी। पिछले दिनों भन्ते ! कुनूहल-शालामें बैठे, एकत्रित हुए, नाना तीर्थों (= पन्थों)के श्रमण-ब्राह्मणोंके धीचमें यह क्या उत्पत्त हुई। अङ्ग-मगधोंका लाम है, अङ्ग-मगधोंको अच्छा लाम मिला; जहाँपर कि राजगृहमें (ऐसे २) संघपति = गणी = गणाचार्य ज्ञात = यशस्वी बहुतजनोंसे सुसम्मानित, तीर्थकर (= पंथ-स्थापक) वर्षावासके लिये आये हैं। यह पूर्णकाश्यप संघी, गणी, गणाचार्य, ज्ञात, यशस्वी बहुजन-सुसम्मानित तीर्थकर हैं, सो भी राजगृहमें वर्षावासके लिये आये हैं। ० पर मङ्गलजी गोसाल ०। ० अजित केश-कम्बली ०। ० प्रक्रुध कात्यायन ०। ० संजय वेदट्टि-पुत्त ०। ० निर्गठ नातपुत्त ०। यह श्रमण गौतम भी संघी ०। यह भी राजगृहमें वर्षावासके लिये

^१ देखो पृष्ठ २९९।

आये हैं। इन संघी ० मगवान् श्रमण ब्राह्मणोंमें कौन श्रावकों (= शिष्यों) से (अधिक) सत्कृत = गुरुकृत = मानित = पूजित हैं? किसको श्रावक सत्कार, गौरव, मान, पूजा कर विहरते हैं?’

“वहाँ किन्हींने ऐसा कहा—यह जो पूर्ण काश्यप संघी ० हैं, ० सो श्रावकोंसे न सत्कृत ० न पूजित हैं। पूर्ण काश्यपको श्रावक सत्कार, गौरव, मान पूजा करके नहीं विहरते। पहिले (एक समय) पूर्ण काश्यप अनेक-सौकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे। वहाँ पूर्ण काश्यपके एक श्रावकने शब्द किया—‘आप लोग इस बातको पूर्ण काश्यपसे मत पूछें। यह इसे नहीं जानते। हम इसे जानते हैं। हमें यह बात पूछें! हम इसे आप लोगोंको बतलायेंगे।’ उस वक्त पूर्ण काश्यप वाँह पकड़ कर, चिल्लाते थे—‘आप सब चुप रहें, शब्द मत करें। यह लोग आप सबसे नहीं पूछते। हमसे……पूछते हैं। हम इन्हें बतलायेंगे।’—(किन्तु) नहीं (चुप करा) पाते थे। पूर्ण काश्यपके बहुतसे श्रावक विवाद करके निकल गये—‘तू इस धर्म-विनयको नहीं जानता, मैं इस धर्म-विनयको जानता हूँ।’ ‘तू क्या इस धर्मको जानेगा?’ ‘तू मिथ्या-आरूढ़ है, मैं सत्य-आरूढ़ (= सम्यक्-प्रतिपन्न) हूँ।’ ‘मेरा (वचन) सहित (= सार्थक) है, तेरा अ-सहित है।’ ‘पहिले कहनेकी (बात तूने) पीछे कही, पीछे कहनेकी (बात) पहिले कही।’ ‘न किये (= अविचीर्ण) को तूने उलट दिया।’ ‘तेरा वाद निग्रहमें आगया।’ ‘वाद छोड़ानेके लिये (यत्न) कर।’ ‘यदि सक्ता है तो खोल ले।’ इस प्रकार पूर्ण काश्यप श्रावकोंसे न सत्कृत ० न पूजित हैं ०। वल्कि पूर्ण काश्यप सभाकी धिकार (= धम्मकोस)से धिकारे गये हैं।

“किसी किसीने कहा—यह मक्खली गोसाल संघी ० भी श्रावकोंसे न सत्कृत ० न पूजित हैं ०। ०। ०। ०। यह अजित केश-कम्बली ० भी ०। ०। ०। यह प्रफुघ कात्यायन ० भी ०। ०। ०। यह संजय वेल-द्विपुत्त ० भी ०। ०। ०। यह निगंठ नातपुत्त ० भी ०। ०।

“किसी किसीने कहा—यह श्रमण गौतम संघी ० हैं। और यह श्रावकोंसे ० पूजित हैं। श्रमण-गौतमका श्रावक सत्कार = गौरवकर, आलंब ले, विहरते हैं। पहिले एक समय श्रमण गौतम अनेक सौकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे। वहाँ श्रमण गौतमके एक शिष्यने खॉसा। दूसरे सब्रह्मचारी (= गुरुभाई)ने उसका पैर दवाया—‘आयुष्मान्! चुप रहें, आयुष्मान्! शब्द मत करें। शास्ता हमें धर्म-उपदेश कर रहे हैं।’ जिस समय श्रमण गौतम अनेकशत परिपद्को धर्म उपदेश देते हैं, उस समय श्रमण गौतम श्रावकोंका थूकने खॉसनेका (भी) शब्द नहीं होता। उनकी जनता प्रशंसा करती, अत्युत्थान करती है—‘जो हमें भगवान् धर्म उपदेश करेंगे, उसे सुनेंगे।’ श्रमण गौतमके जो श्रावक सब्रह्मचारियोंके साथ विवाद करके (भिक्षु-) शिक्षा (= नियम) को छोड़, हीन (गृहस्थ-आश्रम)को लौट जाते हैं, वह भी शास्ताके प्रशंसक होते हैं, धर्मके प्रशंसक होते हैं, संघके प्रशंसक होते हैं। दूसरेकी नहीं, अपनी ही निन्दा करते हैं—‘हम ही’… भाग्यहीन हैं, जो कि ऐसे स्वाख्यात धर्ममें प्रव्रजित हो, परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको जीवन भर पालन नहीं कर सके’, (और) वह आराम-सेवक (= आरामिक) हो या गृहस्थ (= उपासक) हो, पाँच शिक्षापदोंको ग्रहण कर रहते हैं। इस प्रकार श्रमण गौतम श्रावकोंसे ० पूजित हैं। श्रमण गौतमको श्रावक सत्कार = गौरव कर, आलम्ब ले विहरते हैं।”

“उदायी! तू किन किन कितने धर्मोंको देखता है, जिनसे सुझे श्रावक ० पूजते हैं ० ?”

“भन्ते! भगवान्में मैं पाँच धर्मोंको देखता हूँ, जिनसे भगवान्को श्रावक ० पूजते हैं ०। कौनसे पाँच?—भन्ते! भगवान् (१) अल्पाहारी अल्पाहारके प्रशंसक हैं, जो कि भन्ते! भगवान्

अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं; इसको मैं भन्ते ! भगवान्में प्रथम धर्म देखता हूँ, जिनसे भगवान्को श्रावक ० । ० (२) जैसे तैसे चीवर (= वस्त्र)से सन्तुष्ट रहते हैं, जैसे तैसे चीवरसे संतुष्टताके प्रशंसक ० । ० (३) जैसे तैसे पिंडपात (= भिक्षाभोजन)से संतुष्ट ०, ० संतुष्टता-प्रशंसक ० । ० (४) शयनासन (= घर, विस्तरा)से संतुष्ट, ० संतुष्टता-प्रशंसक ० । ० (५) एकान्तवासी, ० एकान्त-वास-प्रशंसक ० भन्ते ! भगवान् मैं इन पाँच धर्मोंको देखता हूँ ० ।”

“उदायी ! श्रमण गौतम अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं” इसमें यदि मुझे श्रावक ० पूजते, ० आलस्य ले विहरते; तो उदायी ! मेरे श्रावक कोसक (= पुत्रवा) भर आहार करनेवाले, अर्द्ध-कोसक आहारी, घाँस (= घाँस काटकर बनाया छोटा पतन) भर आहार करनेवाले, जाधा-घाँस-आहारी भी हैं । मैं उदायी ! कभी कभी इस पात्रभर खाता हूँ, अधिक भी खाता हूँ । यदि ‘ ० अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं’ इससे ० पूजते ० तो उदायी ! जो मेरे श्रावक ० जाधा-घाँस आहारी हैं, वह मुझे इस धर्मसे न सत्कार करते ० ।

“उदायी ! ‘ ० जैसे तैसे चीवरसे सन्तुष्ट ० संतुष्टता-प्रशंसक ० ’ इसमें यदि मुझे श्रावक ० पूजते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पाँसु-कूलिक = रुक्ष चीवर-धारी भी हैं—वह श्मशानसे कूड़ेके ढेरसे लत्ते-चीथड़े यतोरकर संघाटी (= भिक्षुका उपरका दोहरा वस्त्र) बना, धारण करते हैं । मैं उदायी ! किसी किसी समय दृढ़ शस्त्र-रुक्ष, लौका जैसे रोमवाले (= मलमली) गृहपतियोंके द्विये वस्त्रको भी धारण करता हूँ । ० ।

“उदायी ! ‘ ० जैसे तैसे पिंड-पातसे सन्तुष्ट, ० संतुष्टता-प्रशंसक ० ’ इससे यदि मुझे श्रावक ० पूजते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पिंड-पातिक (= मधुकरी-वाले), सपदानचारी (= निरन्तर चलते रह, भिक्षा माँगनेवाले) उच्छन्नमें रत भी हैं—वह गाँवमें भासनके लिये निमन्त्रित होनेपर भी, (निमन्त्रण) नहीं स्वीकार करते । मैं तो उदायी ! कभी कभी निमन्त्रणोंमें धानका भात, कालिमा-रहित अनेक सूप, अनेक व्यञ्जन (= तर्कारी) भी भोजन करता हूँ । ० ।

“उदायी ! ‘ ० जैसे तैसे शयनासनसे सन्तुष्ट, ० संतुष्टता-प्रशंसक ० ’ इससे यदि मुझे श्रावक ० पूजते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक वृक्ष-मूलिक (= वृक्षके नीचे सदा रहनेवाले), अब्भोकासिक (= अध्यक्षकाशिक = सदा चौड़ेमें रहनेवाले) भी हैं, वह आठ मास (वर्षाके चार मास छोड़) छतके नीचे नहीं आते । मैं तो उदायी ! कभी कभी लिपे-पोते घायु-रहित, विप्राङ्खिडकी-यन्द कोठों (= कूटागारों)में भी विहरता हूँ । ० ।

“उदायी ! ‘ ० एकान्तवासी एकान्तवास-प्रशंसक हैं ० ’ इससे यदि ० पूजते; तो उदायी ! मेरे श्रावक अरण्यक (= सदा अरण्यमें रहनेवाले), प्रान्त-शयनासन (= यन्त्रीसे दूर कुटीवाले) हैं; (वह) अरण्यमें वनप्रस्थ = प्रान्तके शयनासनोमें रह कर विहरते हैं । वह प्रत्येक अर्द्धमास प्रातिमोक्ष-उद्देश (= अपराध-स्वीकार)के लिये, सङ्घके मध्यमें आते हैं । मैं तो उदायी ! कभी कभी भिक्षुओं, भिक्षुणियों, उपासकों, उपासिकाओं, राजा, राज-महामात्यों, तीर्थिकों, तीर्थिक-श्रावकोंसे आकीर्ण हो विहरता हूँ । ० । इस प्रकार उदायी ! मुझे श्रावक इन पाँच धर्मोंमें नहीं ० पूजते ० ।

“उदायी दूसरे पाँच धर्म हैं, जिनसे श्रावक मुझे ० पूजते हैं ० । कौनसे पाँच ?—यहाँ उदायी ! (१) श्रावक मेरे शील (= आचार)में सन्मान करते हैं—श्रमण गौतम शीलवान् हैं । परम शील-स्कन्ध (= आचार-समुदाय)से संयुक्त हैं । जो कि उदायी ! श्रावक मेरे शीलमें विश्वास करते हैं—०; यह उदायी ! प्रथम धर्म है, जिसमें ० ।

“और फिर उदायी ! (२) श्रावक मुझे अभिक्रान्त (= सुन्दर) ज्ञान-दर्शन (= ज्ञान

का मनसे प्रत्यक्ष करने)से सम्मानित करते हैं—जानकर ही श्रमण गौतम कहते हैं—‘जानता हूँ’ । देखकर ही श्रमण गौतम कहते हैं—‘देखता हूँ’ । अनुभवकर (= अभिज्ञाय) ही श्रमण गौतम धर्म उपदेश करते हैं, बिना अनुभव किये नहीं । स-निदान (= कारण-सहित) श्रमण गौतम धर्म उपदेश करते हैं, अ-निदान नहीं । स-प्रतिहार्य (= सकारण) ०, अ-प्रतिहार्य नहीं । ० ।

“और फिर उदायी ! (३) श्रावक मुझे प्रज्ञासे सम्मानित करते हैं—श्रमण गौतम परम-प्रज्ञा-स्कंध (= उत्तम-ज्ञान-समुदाय)से युक्त हैं । उनके लिये ‘अनागत (= भविष्य)के वाद-विवादका मार्ग अन्-देखा है, (वह वर्तमानमें) उत्पन्न दूसरेके प्रवाद (= खंडन)को धर्मके साथ न रोक सकेंगे’ यह सम्भव नहीं । तो क्या मानते हो उदायी ! क्या मेरे श्रावक ऐसा जानते हुये ऐसा देखते हुये, बीच बीचमें बात टोकेंगे ?”

“नहीं, भन्ते !”

“उदायी ! मैं श्रावकोंके अनुशासनकी आकांक्षा नहीं रखता, वल्कि श्रावक मेरे ही अनुशासनको दोहराते हैं । ० ।

“और फिर उदायी ! (४) दुःखसे उत्तीर्ण, विगत-दुःख हो, श्रावक, मुझे आकर, दुःख आर्य-सत्यको पूछते हैं । पूछे जाने पर उनको मैं दुःख आर्य-सत्य व्याख्यान करता हूँ । प्रश्नके उत्तरसे मैं उनके चित्तको सन्तुष्ट करता हूँ । वह आकर मुझे दुःख-समुदाय आर्य-सत्य पूछते हैं ० । ० दुःख-निरोध ० । ० दुःख-निरोध-नामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्य पूछते हैं ० । ० ।

“और फिर उदायी ! (५) मैंने श्रावकोंको प्रतिपद् (= मार्ग) वतला दी है । जिस पर आरूढ़ हो श्रावक चारों स्मृति-प्रस्थानोंकी भावना करते हैं—भिक्षु कायामें कायानुपश्यी हो विहरते हैं ०^१, ० वेदानुपश्यी ०^१, ० चिन्तानुपश्यी ०, धर्ममें धर्मकी अनुपश्यना (= अनुभव) करते, तत्पर, स्मृति-सम्प्रजन्य युक्त हो, द्रोह = दौर्धनस्यको हटा कर लोकमें विहरते हैं । तिसमें बहुतसे मेरे श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त = अभिज्ञा-पारमिता-प्राप्त (= अर्हत्-पद-प्राप्त) हो विहरते हैं ।

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोंको (वह) प्रतिपद् वतला दी है; जिस पर आरूढ़ हो मेरे श्रावक चारों सस्यक्-प्रधानोंकी भावना करते हैं । उदायी ! भिक्षु, (१) (वर्तमानमें) अन्-उत्पन्न पाप = अ-कुशल (= बुरे) धर्माको न उत्पन्न होने देनेके लिये, छन्द (= रुचि) उत्पन्न करते हैं, कोशिश करते हैं = वीर्य-आरम्भ करते हैं, चित्तको निग्रह = प्रधान करते हैं । (२) उत्पन्न पाप = अ-कुशल-धर्मोंके विनाशके लिये ० । (३) अनुत्पन्न कुशल-धर्मोंकी उत्पत्तिके लिये ० । (४) उत्पन्न कुशल-धर्मोंकी स्थिति = असम्मोप, वृद्धि = विपुलताके लिये, भावना-पूर्ण कर छन्द उत्पन्न करते हैं ० । यहाँ भी बहुतसे मेरे श्रावक (अर्हत्-पद) प्राप्त हैं ।

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोंको प्रतिपद् वतला दी है, जिस पर आरूढ़ हो मेरे श्रावक चारों ऋद्धि-पादोंकी भावना करते हैं । यहाँ उदायी ! भिक्षु (१) छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी भावना करते हैं । (२) वीर्य-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी भावना करते हैं । (३) चित्त-समाधि ० । (४) विमर्ष-समाधि ० । यहाँ भी ० ।

“और फिर उदायी ! ० जिस पर आरूढ़ हो मेरे श्रावक पाँच इन्द्रियोंकी भावना करते हैं । उदायी ! यहाँ भिक्षु (१) उपशम = सम्बोधिकी ओर जानेवाली, अद्धा-इन्द्रियकी भावना

^१ देखो पृष्ठ ३५ ।

करते हैं । (२) वीर्य-इन्द्रिय ०, (३) स्मृति-इन्द्रिय ० (४) समाधि-इन्द्रिय ० । ० ।

“ ० । ० पाँच बलोंकी भावना करते हैं ।—० श्रद्धायल ०, वीर्य-यल ०, स्मृति-यल ०, समाधि-यल ०, प्रज्ञायल ० ।

“ ० । ० सात बोधि-अंगोंकी भावना करते हैं ।—यहाँ उदायी ! मित्रु विवेक-आश्रित, विराग-आश्रित, निरोध-आश्रित व्यवसर्ग-फलवाले (१) स्मृति-सम्योधि-अंगकी भावना करते हैं, ० (२) धर्म-विचय-सम्योध्यंगकी भावना करते हैं । ० (३) वीर्य-सम्योध्यंग ० । (४) प्रीति-सम्योध्यंग ० । ० (५) प्रश्रद्धि-सम्योध्यंग ० । ० (६) समाधि-सम्योध्यंग ० । ० (७) उपेक्षा-सम्योध्यंग ० । ० ।

“और फिर ० आर्य अष्टांगिक मार्गकी भावना करते हैं । उदायी ! यहाँ मित्रु (१) सम्यग्-दृष्टिकी भावना करते हैं । ० (२) सम्यक्-संकल्प ० । ० (३) सम्यग्-वाक् ० (४) ० सम्यक्-कर्मन्त ० । ० (५) सम्यग्-आजीव ० । ० (६) सम्यग्-न्यायाम ० । ० (७) सम्यक्-स्मृति ० । (८) सम्यक्-समाधि ० । ० ।

“आठ विमोक्षोंकी भावना करते हैं । (१) रूपी (= रूपवाला) रूपोंको देखते हैं, यह प्रथम विमोक्ष है । (२) शरीरके भीतर (= अध्यात्म) अ-रूप-संज्ञी (= रूप नहीं है)—के ज्ञान वाले), याहर रूपोंको देखते हैं ० । (३) शुभ ही अधिरुक्त (= रुक्त) होते हैं ० । (४) सर्वथा रूप-संज्ञा (= रूपके ख्याल)को अतिक्रमण कर, प्रतिहिंसाके रयालके लुप्त होनेसे, नाना-पनके ख्यालको मनमें न करनेसे ‘आकाश अनन्त है’ इस आकाश-आनन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरते हैं ० । (५) सर्वथा आकाशानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर ‘विज्ञान (= चेतना) अनन्त है’ इस विज्ञान-आनन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरते हैं ० । (६) सर्वथा विज्ञानानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर ‘कुछ नहीं है’—इस आर्किचन्य-आयतनको प्राप्त हो ० । (७) सर्वथा आर्किचन्या-यतनको अतिक्रमण कर, नैवसंज्ञान-असंज्ञा-आयतन (= जिस समाधिका आभास न चेतना हो कहा जा सकता है, न अचेतना ही)को प्राप्त हो ० । (८) सर्वथा नैव-संज्ञाना-संज्ञायतनको अतिक्रमण कर प्रज्ञा-वेदित-निरोध (पञ्जावेदित-निरोध)को प्राप्त हो विहरते हैं, यह आठवाँ विमोक्ष है । इससे और इसमें मेरे बहुतसे श्रावक*** (अर्हत्-पद प्राप्त हैं) ।

“और फिर उदायी ! ० आठ अभिभू-आयतनोंकी भावना करते हैं । (१) एक (मित्रु) शरीरके भीतर (= अध्यात्म) रूपका ख्यालवाला (= रूपसंज्ञी), याहर सु-वर्ण दुर्बर्ण क्षुद्र-रूपोंको देखता है । उन्हें अभिभूत कर विहरता है, यह प्रथम अभिभू-आयतन है । (२) अध्यात्ममें रूप-संज्ञी, याहर सु-वर्ण, दु-वर्ण अ-प्रमाण (= बहुत भारी) रूपोंको देखता है । ‘उन्हें अभिभूत-कर जानता हूँ, देखता हूँ’—इस ख्यालवाला होता है ० । (३) अध्यात्ममें अ-रूप-संज्ञी (= ‘रूप नहीं है’ इस ख्यालवाला), याहर सुवर्ण दुर्बर्ण क्षुद्र-रूपोंको देखता है—० । (४) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी, याहर सुवर्ण दुर्बर्ण अ-प्रमाण रूपोंको देखता है—० । (५) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी याहर नील - नीलवर्ण = नील-निदर्शन = नील-निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि अलम्बिका फूल नील = नील-वर्ण = नील-निदर्शन = नील-निभास; जैसेकि दोनों ओरसे विमृष्ट (कोमल, पिञ्जना) नील ० चनारसी (वाराणसेयक) वज्र; ऐसेही अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक (मित्रु) याहर नील ० रूपोंको देखता है—‘उनको अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूँ’ इसे जानता है ० । (६)

१ अ. क. “वहाँ (बनारसमें) कपास भी कोमल, सतकाठनेवाली तथा जुलाहे भी चतुर, अट भी सु-वि-स्निग्ध (है) । वहाँका बस दोनों ही ओरसे***कोमल और स्निग्ध होता है ।

अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक (भिक्षु) बाहर पीत (= पीला) = पीतवर्ण पीत-निदर्शन = पीत-निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि पीत ० कर्णिकारका फूल या जैसे वह ० पीत ० बनारसी वस्त्र ० । ० । (७) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी... (पुरुष) लोहित (= लाल) = लोहितवर्ण = लोहित-निदर्शन = लोहित-निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि लोहित ० बंधुजीवक (= अँडहुल) का फूल, या जैसे लाल ० बनारसी वस्त्र ० । ० । (८) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी... अवदात (= सफेद) ० रूपोंको देखता है । जैसेकि अवदात ० शुक्रतारा (= ओसधी-तारका), या जैसेकि सफेद ० बनारसी वस्त्र ० । ० ।

“और फिर उदायी ! ० दश कृत्स्न-आयतन (= कसिणायतन) की भावना करते हैं । (१) एक पुरुष ऊपर, नीचे, तिष्ठे, अद्वितीय, अप्रमाण पृथ्वी-कृत्स्न (= पृथ्वी-कसिण = सारी पृथिवी ही) जानता है । (२) ० आप-कृत्स्न (= सारा पानी) ० । (३) ० तेज-कृत्स्न (= सारा तेज) ० । (४) ० वायु-कृत्स्न (= सारी हवा ही) ० । (५) ० नील-कृत्स्न (= सारा नीला रंग) ० । (६) ० पीत-कृत्स्न ० । (७) लोहित-कृत्स्न ० । (८) ० अवदात-कृत्स्न (= सारा सफेद) ० । (९) ० आकाश-कृत्स्न ० । (१०) ० विज्ञान-कृत्स्न (= चेतनामय, चिन्मात्र) ० ।

“और फिर उदायी ! ० चार ध्यानोंकी भावना करने हैं । उदायी ! भिक्षु, कामोंसे अलग हो, अकुशल धर्मों (= बुरी बातों) से अलग हो वितर्क-विचार-आहति-चिन्ते-उत्पन्न प्रीति-सुख-रूप प्रथम-ध्यान^१को प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको, विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख-द्वारा श्लावित, परिश्लावित करता है, परिपूर्ण = परिस्फरण करता है । (उसकी) इस सारी कायाका कुछ भी (अंश) विवेक-ज प्रीति सुखसे अट्टता नहीं होता । जैसे कि उदायी ! दक्ष (= चतुर) नहापित (= नहलानेवाला), या नहापितका चेला (= अन्तेवासी) काँसेके थालमें स्नानीय-चूर्णको डालकर, पानी सुखा सुखा हिलावे । सो इसकी नहान-पिंडी शुभ (= स्वच्छता)-अनुगत, शुभ-परिगत शुभसे अन्दर-बाहर लिस हो पिघलती है । ऐसे ही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको विवेक-ज प्रीति सुखसे श्लावित आश्लावित करता है, परिपूर्ण = परिस्फरण करता है । ० ।

“और फिर उदायी ! भिक्षु वितर्क विचारोंके उपशांत होनेसे ०^१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुखसे श्लावित = आश्लावित करता है ० । जैसे उदायी ! पाताल फोड़कर निकला पानीका दह हो । उसके न पूर्व-दिशामें पानीके आनेका मार्ग हो, न पश्चिम-दिशामें, न उत्तर-दिशामें, न दक्षिण-दिशामें ० । देव भी समय समयपर अच्छी तरह धार न बरसावे, तो भी उस पानीके दह (= उदक-हृद)से शीतल वारिधारा फूटकर उस उदक-हृदको शीतल जलसे श्लावित, आश्लावित करे, परिपूर्ण-परिस्फरण करे; इस सारे उदक-हृदका कुछ भी (अंश) शीतल जलसे अट्टता न हो । ऐसे उदायी ! इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुखसे ० ।

“और फिर उदायी ! भिक्षु ०^१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको निष्प्रीतिक (= प्रीति-रहित) सुखसे श्लावित ० करता है ० । जैसे उदायी ! उत्पलनी (= उत्पल-समूह), पद्मिनी, पुण्डरीकिनीमें, कोई कोई उत्पल, पद्म, पुण्डरीक, पानीमें उत्पन्न, पानीमें बड़े, पानीसे (बाहर) न निकले, भीतर इवेही पोषित, मूलसे शिखा तक शीतल जलसे

^१ देखो पृष्ठ २५ ।

प्लावित ० होते हैं ० । ऐसे ही उदायी ! मिक्षु इसी कायाको निष्प्रीतिक ० ।

“और फिर उदायी ! ० १ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको, परिशुद्ध = परि-अवदात चित्तसे प्लावित कर बैठा होता है । ० । जैसे कि उदायी ! पुरुष अवदात (= श्वेत)-बखसे शिर तक छपेट कर बैठा हो । उसकी सारी कायाका कुञ्ज भी (भाग) श्वेत बखसे अनाच्छादित न हो । ऐसे ही उदायी ! मिक्षु इसी कायाको ० । वहाँ भी मेरे पहुतसे श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त, अभिज्ञा-पारमि-प्राप्त हैं ।

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोंको वह मार्ग घतला दिया है, जिस (मार्ग-) पर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक ऐसा जानते हैं—यह मेरा शरीर रूपवान्, चातुर्महामूर्तिक, माता-पितासे उत्पन्न, भात-दालसे बढ़ा, अनित्य = उच्छेद = परिमर्दन = भेदन = विध्वंसन धर्मवाला है । यह मेरा विज्ञान (= चेतना) यहाँ वैधा = प्रतिबद्ध है । जैसे उदायी ! शुभ्र उत्तम जातिकी, अठकानी, सुन्दर पालिशकी (= सुपरिकर्मकृत), स्वच्छ = विप्रसन्न, सर्व-आकार-युक्त वैदूर्य-मणि (= हीरा) हो । उसमें नील, पीत, लोहित, अवदात या पांडु सूत पिराया हो । उसको आँखवाला पुरुष हाथमें लेकर देखे—‘यह शुभ्र ० वैदूर्य-मणि है, ० सूत पिराया है’ । ऐसे ही उदायी ! मैंने ० घतला दिया है ० । तहाँ भी मेरे बहुतसे श्रावक ० ।

“और फिर उदायी ! ० मार्ग घतला दिया है, जिस मार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक, इस कायासे रूपवान् (= साकार), मनोमय, सर्वांग-प्रत्यंग-युक्त अलंङ्कित-इन्द्रियोंयुक्त दूसरी कायाको निर्माण करते हैं । जैसे उदायी ! पुरुष मूँजमेंसे लीक निकाले । उसको ऐसा हो—‘यह मूँज है, यह लीक । मूँज अलग है, लीक अलग है । मूँजसे ही लीक निकली है ।’ जैसे कि उदायी ! पुरुष म्यानसे तलवार निकाले । उसको ऐसा हो—‘यह तलवार है, यह म्यान है । तलवार अलग है, म्यान अलग । म्यानसे ही तलवार निकली है ।’ जैसे उदायी ! पुरुष माँपको पिटारीसे निकाले ० । ऐसे ही उदायी ! ० मार्ग घतला दिया है ० ।

“और फिर उदायी ! ० मार्ग घतला दिया है, जिस मार्गपर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके ऋद्धि-विध (= योग-चमत्कार)को अनुभव करते हैं । एक होकर बहुत होजाने हैं । बहुत होकर एक होते हैं । आविर्भाव, तिरोभाव (करते हैं) । जैसे नीत-पार प्राकार-पार पर्वत-पार आकाश-जैसे विना लेप (पार) होजाने हैं । पृथिवीमें भी दृयना-उतराना करते हैं, जैसे कि जलमें । पानीमें भी विना भीगे चलते हैं, जैसे कि पृथिवीमें । पक्षि (= शकुनी) की भौंति आसन-बांधे आकाशमें चलते हैं । इतने महर्द्धिक = महालुभाव (= तेजस्वी) इन चाँद-सूर्यको भी हाथसे चूते हैं । ब्रह्मलोक तक कायासे बढ़ाये रखते हैं । जैसे उदायी ! चतुर कुंभकार, या कुंभकारका चेला, सिंघाई मिट्टीसे जो जो विशेष भाजन चाहे, उसी उसीको घनावे = निष्पादन करे । या जैसे उदायी ! चतुर दन्तकार (= हाथीके दाँतका काम करनेवाला) या दंतवारवा चेला, सिंघाये दाँतसे जो जो दंत-विकृति (= दाँतकी चीज) चाहे, उसे घनावे, = निष्पादन करे । या जैसे उदायी ! चतुर सुवर्णकार या सुवर्णकारका चेला, माँचे सुवर्णसे जिन जिन सुवर्ण-विकृतिको चाहे उसे घनावे ० । ऐसे ही उदायी ! ० ।

“और फिर उदायी ! ० जिस मार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक विशुद्ध, अमानुष, दिव्य, धोत्र-धातु (= काम)से दिव्य और मानुष, दूरवर्ती और समीपवर्ती, दीनों ही तरहके ऋद्धियोंको सुनते हैं । जैसे कि उदायी ! घलवान् शंख-धमक (= शंख-धजानेवाला) ऋत्प-प्रयाससे धारों

दिशाओंको जतला दे । ऐसे ही उदायी ० ।

“और फिर उदायी ! ० जैसे मार्गपर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक दूसरे सत्त्वों = दूसरे पुद्गलों के चित्तको (अपने) चित्तद्वारा जानते हैं । सराग चित्तको ‘सराग-सहित (यह) चित्त है’ जानते हैं । वीतराग चित्तको ‘वीत-राग चित्त है’ जानते हैं । सद्द्वेष चित्तको ‘स-द्वेष चित्त है’, जानते हैं । वीत-द्वेष चित्तको ० । स-मोह चित्तको ० । वीत-मोह चित्तको ० । संक्षिप्त-चित्तको ० । विक्षिप्त-चित्तको ० । महद्गत (= विशाल)-चित्तको ० । अ-महद्गत-चित्तको ० । स-उत्तर (= जिससे बढ़ कर भी है)-चित्तको ० । अन्-उत्तर-चित्तको ० । समाहित (= एकाग्र)-चित्तको ० । अ-समाहित-चित्तको ० । विमुक्त (= मुक्त)-चित्तको ० । अ-विमुक्त-चित्तको ० । जैसे उदायी ! कोई शौकीन स्त्री या पुरुष, बालक या तरुण, परिशुद्ध = परि-अवदात दर्पण (= आदर्श) या स्वच्छ जलभरे पात्रमें अपने मुख-निमित्त (= सुखकी शकल)को देखते हुये, स-कणिक अंग होनेपर स-कणिकांग (= सदोप अंग) जाने, अ-कणिकांग होनेपर अ-कणिकांग जाने । ऐसे ही उदायी ० । ० ।

“और फिर उदायी ! जिस मार्गपर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों (= पूर्व जन्मों)को जानते हैं । जैसे कि, एक जाति (= जन्म) भी, दो जाति भी ०, तीन जाति भी, चार जाति भी, पाँच जाति भी, बीस जाति भी, तीस जाति भी, चालीस जाति भी, पचास जाति भी, सौ जाति भी, हजार जाति भी, सौ हजार जाति भी, अनेक संवर्त-कल्पों (= महाप्रलयों)को भी, अनेक विवर्त-कल्पों (= सृष्टियों)को भी, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पोंको भी, ‘मैं वहाँ इस नाम, इस गोत्र, इस वर्ण, इस आहार-वाला, ऐसे सुख-दुःखको अनुभव करने-वाला इतनी आयु-पर्यन्त था । सो मैं वहाँसे च्युत हो, वहाँ उत्पन्न हुआ । वहाँ भी मैं ० इतनी आयुपर्यन्त रहा । सो वहाँसे च्युत (= मृत) हो, वहाँ उत्पन्न हुआ’ । इस प्रकार स-आकार (= आकृति-सहित) स-उद्देश (= नाम-सहित) अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको अनुस्मरण करते हैं । जैसे उदायी ! पुरुष अपने ग्रामसे दूसरे ग्राममें जाये । उस ग्रामसे भी दूसरे ग्रामको जाये । वह उस ग्रामसे अपने ही ग्रामको लौट जाये । उसको ऐसा हो—मैं अपने ग्रामसे उस गाँवको गया, वहाँ ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे बैठा, ऐसे बोला, ऐसे चुप रहा । उस ग्रामसे भी उस ग्रामको गया । वहाँ भी ऐसे खड़ा हुआ ० ।

“और फिर उदायी ! ० जैसे मार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक विशुद्ध, अ-मानुष दिव्य, चक्षुसे, हीन, प्रणीत (= उत्पन्न), सुवर्ण दुर्वर्ण, सु-गत दुर्गत सत्त्वोंको च्युत होते, उत्पन्न होते देखते हैं । कर्मानुसार (गतिको) प्राप्त सत्त्वोंको जानते हैं—यह आप सत्त्व काय-दुश्चरितसे युक्त, वाग्-दुश्चरितसे युक्त, मन-दुश्चरितसे युक्त, आर्योंके निन्दक, मिथ्या-दृष्टि, मिथ्या-दृष्टि कर्मको स्वीकार करनेवाले (थे), वह काया छोड़ मरनेके बाद अपाय-दुर्गति = विनिपात = नर्कमें उत्पन्न हुये । और यह आप सत्त्व काय-सुचरितसे युक्त ० आर्योंके अन्-उपवादक (= अनिन्दक) सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-दृष्टिकर्मको स्वीकार करनेवाले (थे), वह सुगति = स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुये हैं’ । इस प्रकार ० दिव्य चक्षुसे ० देखते हैं । जैसे उदायी ! समान-द्वारवाले दो घर (हों), वहाँ आँखवाला पुरुष बीचमें खड़ा, मनुष्योंको घरमें प्रवेश करते भी, निकलते भी, अनुसंचरण विचरण करते भी देखे । ऐसे ही उदायी ! ० ।

“और फिर उदायी ! ० जिस मार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक आसत्त्वोंके विनाशसे अन्-आसत्त्व (= निर्मल) चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर, विहरते हैं । जैसे कि उदायी ! पर्वतसे घिरा स्वच्छ = विप्रसन्न = अन्-आविल

उदक-रूद (=जलाशय) हो । वहाँ आँसूवाला पुरुष तीरपर खड़ा सीपको...कंकड़-पत्थरको भी, चलते खड़े मत्स्य-कुंडको भी देखे । ऐसे ही उदायी ! ० ।

“यह है, उदायी ! पाँच धर्म जिनसे मुझे श्रावक ० पूजते हैं । ० ।”

भगवान् ने यह कहा, एकल-उदायी परिव्राजकने भगवान् के मापणका अनुमाँदन किया ।



७८—समण-मंडिक-सुत्तन्त (२।३।८)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके अराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय समण-मंडिका-पुत्त उग्गहमाण परिव्राजक सातसौ परिव्राजकोंकी बड़ी जमात (= परिषद्) के साथ समय-प्रवादक तिन्दुकाचीर^१ एरुसालक (नामक) मल्लिका (देवीके वनवाये) आराममें रहता था ।

तब पंचकांग (= पंचकांग) स्थपति (= थर्क) मध्याह्नमें भगवान्के दर्शनके लिये श्रावस्तीसे निकला । तब पंचकांग स्थपतिको यह हुआ—‘भगवान्के दर्शनका यह समय नहीं है, भगवान् ध्यानमें होंगे, अनो-भावना करनेवाले भिक्षुओंके भी दर्शनका यह समय नहीं, ... (वह) भी ध्यानमें होंगे । क्यों न मैं जहाँ समय-प्रवादक ० मल्लिकाराम है, जहाँ ० उग्गहमाण परिव्राजक है वहाँ चलूँ ।’ तब पंचकांग स्थपति जहाँ समय-प्रवादक ० मल्लिकाराम था, जहाँ ० उग्गहमाण परिव्राजक था, वहाँ गया ।

उस समय . उग्गहमाण परिव्राजक^१ ० अदि निरर्थक कथा कहती, नाद करती, शोर मचाती, बड़ी भारी परिव्राजक-परिषद्के साथ बैठाया । उग्गहमाण परिव्राजकने दूरसे ही पंचकांग स्थपतिको आते देखा । देखकर अपनी परिषद्से का—

“आप सब चुप हों, आप सब शब्द मत काँ। यह श्रमण गौतमका श्रावक पंचकांग स्थपति आरहा है । श्रमण गौतमके जितने श्वेतवस्त्रधारी गृहस्थ श्रावक श्रावस्तीमें बसते हैं, यह पंचकांग स्थपति उनमेंसे एक है । यह आयुष्मान् लोग स्वयं अल्पशब्द (= निःशब्द रहनेवाले), अल्पशब्द के अभ्यासी, अल्प-शब्द-प्रेमी, निःशब्द-प्रशंसक होते हैं । परिषद्को निःशब्द देख संभव है, (इधर) भी आयें ।”

तब वह परिव्राजक चुप होगये ।

तब पंचकांग स्थपति जहाँ . उग्गहमाण परिव्राजक था, वहाँ गया । जाकर उग्गहमाण परिव्राजकके साथ ...सम्मोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ पंचकांग स्थपतिसे ० उग्गहमाण परिव्राजकने यह कहा—

“स्थपति ! मैं चार अंगों (= बातों) से युक्त पुरुष = पुद्गलको सम्पन्न-कुशल (= सुकर्म-युक्त), परम-कुशल, उत्तम-गतिको-प्राप्त, श्रमण, अ-प्रोच्य (जिससे लड़ा नहीं जा सके) कहता हूँ । कौनसे चार (अंग) ?—यहाँ स्थपति ! (१) (पुरुष) कायासे पापकर्म नहीं करता; (२) न पाप (= बुरी)-वाणी बोलता है; (३) न पाप-संकल्प चिन्ता है; (४) न पाप-आजी-

^१ देखो सन्दक-सुत्तन्त-मज्झिम ७६ (पृष्ठ २९९) ।

विकासे रोजी कमाता है । स्थपति ! मैं इन अंगोंसे युक्त ० को ० अ-योध्य कहता हूँ ।”

तय पंचकांग स्थपतिने . उग्गहमाण परिव्राजकके नापणको न अभिनंदित किया, न खंडित किया । यिना अभिनंदित किये, यिना खंडन किये—भगवान्के पास इस भाषणका अर्थ पहुँगा— (यह सोच) आत्मनसे उठकर चला गया । तय पंचकांग स्थपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे पंचकांग स्थपतिने जो कुल . उग्गहमाण परिव्राजकके साथ कथासंलाप हुआ था वह सब भगवान्से कह सुनाया । ऐसा कहने पर भगवान्ने पंचकांग स्थपतिसे यह कहा—

“स्थपति ! ऐसा होनेपर तो . उग्गहमाण परिव्राजकके वचनानुसार उत्तान (ही) लो सकनेवाला अयोध छोटा वच्चा सम्पन्न-कुशल परमकुशल ० अयोध्य होगा । स्थपति ! ० छोटे वच्चेके अंग (= काया) (पूरी सामर्थ्य-युक्त) भी नहीं होते; (= चलना छोड़) वह कैसे काया से पाप कर्म करेगा ?—स्थपति ! ० छोटे वच्चे (= दहर-कुमार)को वाणी भी नहीं होती; रोना छोड़ वह कैसे वाणीसे पापकर्म करेगा ? स्थपति ! ० छोटे वच्चेको संकल्प ही नहीं होगा; हिंमना छोड़, वह क्या संकल्प करेगा ! स्थपति ! ० छोटे वच्चेको आजीव (= रोजी कमाना) ही नहीं होता ; भाताके दूधके अतिरिक्त वह क्या पाप-आजीव करेगा ? ऐसा होने पर तो ० उग्गहमाण परिव्राजकके वचनानुसार ० छोटा वच्चा ० अ-योध्य होगा ।

“स्थपति ! मैं (इन) चार अंगोंने युक्त पुरुष = पुद्गलको न सम्पन्न कुशल, परमकुशल ० अयोध्य कहता हूँ; वल्कि ० छोटे वच्चेसे विशेष कहता हूँ । कानसे चार ?—स्थपति ! (१) जो कायासे पाप कर्म नहीं करता; ० (४) न पाप-आजीविकासे रोजी कमाता है । ...”

“स्थपति ! मैं दश अंगोंने युक्त पुरुष = पुद्गलको सम्पन्न-कुशल, परम-कुशल ० अयोध्य कहता हूँ । स्थपति ! (१) यह अकुशल-शील (-दुराचार) कहाँ वेदितव्य (= भोगने योग्य) है—यह कहता हूँ । (२) स्थपति ! यहाँसे उत्पन्न अकुशल-शील कहाँ वेदितव्य है—० यह कहता हूँ । (३) स्थपति ! यहाँ सारे (= अशेष) अकुशल-शील विरुद्ध (= नष्ट) होते हैं, कहाँ वेदितव्य है—० । (४) स्थपति !

इस प्रकार प्रतिपन्न (= मार्गारूढ़) अकुशल-शीलों (= दुराचारों)के निरोधके लिये प्रतिपन्न भोगा है, कहाँ वेदितव्य है—० । (५) स्थपति ! यह कुशल शील (= सदाचार, सुधर्म) कहाँ कहाँ वेदितव्य है—० । (६) स्थपति ! यहाँसे उत्पन्न कुशलशील कहाँ वेदितव्य है—० । (स्थपति) ! यहाँ सारे कुशलशील निरुद्ध होते हैं—० । (८) स्थपति ! इन प्रकार प्रतिपन्न कुशल-शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है, कहाँ वेदितव्य है—० ।

“स्थपति ! (१) यह अकुशल-संकल्प (= बुरे संकल्प) कहाँ वेदितव्य है—यह कहता हूँ । (२) ० यहाँसे उत्पन्न अकुशल-संकल्प कहाँ वेदितव्य है—० । (३) यहाँ सारे अकुशल-संकल्प निरुद्ध होते हैं—० । (४) ० इस प्रकार प्रतिपन्न अकुशल-संकल्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है—० । (५) यह कुशल-संकल्प कहाँ वेदितव्य है—० । (६) ० यहाँसे उत्पन्न कुशल संकल्प कहाँ वेदितव्य है—० । (७) यहाँ सारे कुशल-संकल्प निरुद्ध होते हैं—० । (८) ० इस प्रकार प्रतिपन्न कुशल-संकल्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है—० ।

“(१) स्थपति ! अकुशल-शील (= दुष्कर्म) क्या है ?—अ-अकुशल (= बुरा) कायधर्म, अकुशल वचनकर्म, पाप-आजीविका (= पापीकी रोजी)—स्थपति ! यह अकुशल-शील बरे जाते हैं । स्थपति ! (२) यह अकुशल-शील कहाँसे उत्पन्न होते हैं ?—चित्तने उत्पन्न कहना चाहिये । चित्त क्या है ?—चित्तभी स्थपति ! बहुत अनेक प्रकार = नाना प्रकारका है—(१) यह चित्त

स-राग, स-द्वेष, स-मोह होता है। इन्हीं (राग-द्वेष-मोह-युक्त चित्तों)से अकुशलशील (=दुराचार) उत्पन्न होते हैं। (३) स्थपति ! यह सारे अकुशल-शील कहाँ निरुद्ध होते हैं ?—निरोध भी इनका, स्थपति ! कह चुके हैं—यहाँ स्थपति ! भिक्षु, काय-दुश्चरित (= शरीरसे होनेवाले पाप)को छोड़, काय-सुचरित की भावना (= अम्यास) करता है; वचन-दुश्चरितको छोड़ वचन-सुचरितकी भावना करता है; मनो-दुश्चरित छोड़, मनःसुचरितकी भावना करता है। मिथ्या-आजीव (= पापकी रोज़ी)को छोड़, सम्यग्-आजीव (= धर्मकी रोज़ी)से जीविका चलाता है। यहाँ (= ऐसा करनेपर) सारे अकुशल-शील निरुद्ध होते हैं। (४) स्थपति ! कैसे प्रतिपन्न होने पर अकुशल शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है—स्थपति ! यहाँ भिक्षु अनुत्पन्न पापों = अकुशल धर्मोंके न उत्पन्न होनेके लिये छन्द (= उद्योग) करता है = व्यायाम करता है = वीर्य-आरम्भ करता है, चित्तका निग्रह = रोक थाम, करता है। उत्पन्न पापों ० के प्रहाण (= विनाश)के लिये छन्द ० चित्तका निग्रह ० करता है। अनुत्पन्न कुशल-धर्मोंकी उत्पत्ति के लिये छन्द ०। उत्पन्न कुशल-धर्मोंकी स्थिति, अलोप, वृद्धि, विपुलताके लिये, भावनाके लिये, पूर्तिके लिये छन्द ०। स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपन्न होनेपर अकुशल शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है।

“स्थपति ! (५) क्या है कुशल-शील ?—कुशल-(= नेक) कायकर्म, कुशल-वचन कर्म, कुशल मनः=कर्म; स्थपति ! इन्हें मैं कुशल शील कहता हूँ।” (६) स्थपति ! यह कुशल शील कहाँसे उत्पन्न होते हैं ?—“चित्तसे उत्पन्न कहना चाहिये। क्या है चित्त ?—चित्त भी स्थपति ! बहुत अनेक प्रकार = नाना प्रकारका है—वह चित्त वीत-राग, वीत-द्वेष (= द्वेष-रहित) वीत-मोह होता है। इन्हींसे कुशल-शील उत्पन्न होते हैं। (७) स्थपति ! यह सारे कुशल शील कहाँ निरुद्ध होते हैं ?—निरोध भी इनका, स्थपति ! कह चुके हैं—यहाँ स्थपति ! भिक्षु शीलवान् होता है, किन्तु शील-समय (= शीलाभिमान) नहीं; और उस चेतो-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको ठीकसे जानता है, जहाँ इसके सारे कुशल-शील निरुद्ध होते हैं। (८) स्थपति ! कैसे प्रतिपन्न (= मार्गरूढ़) होनेपर, कुशल-शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है ?—स्थपति ! यहाँ भिक्षु अनुत्पन्न पापों ० के न उत्पन्न होनेके लिये ० वीर्यारम्भ (= उद्योगारम्भ) करता है, चित्तका निग्रह=रोक-थाम करता है। ० उत्पन्न पापों ० के प्रहाण (= नाश)के लिये ०। ० अनुत्पन्न कुशलोंकी उत्पत्तिके लिये ०। ० उत्पन्न कुशलोंकी स्थिति ० पूर्तिके लिये ०। स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपन्न होने पर ०।

“स्थपति ! (९) क्या है अकुशल-संकल्प ?—काम-संकल्प, व्यापाद-(= द्वेष)-संकल्प, विहिंसा (= हिंसा)-संकल्प। स्थपति ! यह अकुशल-संकल्प कहे जाते हैं। (२) स्थपति ! यह अकुशल-संकल्प कहाँसे उत्पन्न होते हैं ?—“संज्ञा (= ख्याल)से उत्पन्न कहना चाहिये। क्या है संज्ञा (= ख्याल) ?—संज्ञा भी बहुत अनेकविध = नाना प्रकार की है—(जैसे) काम-संज्ञा, व्यापार संज्ञा, विहिंसा संज्ञा यहाँसे अकुशल-संकल्प उत्पन्न होते हैं। (३) स्थपति ! यह सारे अकुशल-संकल्प कहाँ निरुद्ध होते हैं ?—यहाँ, स्थपति ! भिक्षुकामोंसे विरहित ०^१ प्रयत्न ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यहाँ यह सारे अकुशल-संकल्प निरुद्ध होते हैं। (४) स्थपति ! कैसा प्रतिपन्न अकुशल संकल्पोंके निरोधकेलिये प्रतिपन्न होता है ?—यहाँ, स्थपति ! भिक्षु अनुत्पन्न पाप = अकुशल धर्मोंके अनुत्पादके लिये ०। ० उत्पन्न ० अकुशल धर्मोंके प्रहाण के लिये ०। ० अनुत्पन्न कुशल-धर्मों (= भलाइयों) की उत्पत्तिके लिये ०। ० उत्पन्न कुशल-धर्मों

^१ देखो पृष्ठ २५।

की स्थिति ० पूर्तिकेलिये ० । स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपन्न अकुशल-संकल्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है ।

“स्थपति ! (५) क्या है कुशल-संकल्प (= अच्छा संकल्प) ?—नैष्काम्य (= काम रहित होनेका)-संकल्प, अ-व्यापाद-संकल्प, अ-विहिंसा-संकल्प ।” (६) स्थपति ! यह कुशल-संकल्प कहाँसे उत्पन्न होते हैं ?—“संज्ञासे उत्पन्न कहना चाहिये । क्या है, संज्ञा ?—संज्ञा भी बहुत अनेकविध = नाना प्रकारकी है—(जैसे) नैष्काम्य-संज्ञा, अ-व्यापाद-संज्ञा, अ-विहिंसा (= अहिंसा)-संज्ञा । यहाँसे कुशल संकल्पोंकी उत्पत्ति होती है । (७) स्थपति ! यह सारे कुशल-संकल्प कहाँ निरुद्ध होते हैं ?—“यहाँ स्थपति ! मिश्र वितर्क और विचारके शान्त होनेपर ०^१ द्वितीय ध्यानको प्राप्तहो विहरता है । यहाँ यह सारे कुशल संकल्प निरुद्ध होते हैं । (८) स्थपति ! कैसा प्रतिपन्न कुशल संकल्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है ?—यहाँ स्थपति ! मिश्र अनुत्पन्न पाप = अकुशल धर्मोंके अनुत्पादके लिये ० । ० उत्पन्न ० अकुशल धर्मोंके प्रहाणके लिये ० । ० अनुत्पन्न कुशलधर्मों की उत्पत्तिके लिये ० । उत्पन्न कुशल धर्मोंकी स्थिति ० पूर्तिके लिये ० । स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपन्न कुशल-संकल्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है ।

“स्थपति ! किन दश धर्मोंसे युक्त पुरुष = पुद्गल को मैं सम्पन्न कुशल । ० अ-योष्य कहता हूँ ?—यहाँ स्थपति ! मिश्र (१) अशैक्ष्य (= अशैक्ष्यकी) सम्यग्-दृष्टि ०^१ से युक्त होता है ; (२) अशैक्ष्य सम्यक्-संकल्प ० ; (३) अशैक्ष्य सम्यग्-वचन ० ; (४) अशैक्ष्य सम्यक्-कर्मान्त ० ; (५) अशैक्ष्य सम्यग्-आजीव ० ; (६) अशैक्ष्य सम्यग्-व्यायास ० ; (७) अशैक्ष्य सम्यक्-स्मृति ० ; (८) अशैक्ष्य सम्यक्-समाधि ० ; (९) अशैक्ष्य सम्यग्-ज्ञान ० ; (१०) अशैक्ष्य सम्यग्-वियुक्तिसे युक्त होता है । स्थपति ! इन दश धर्मोंसे युक्त पुरुष=पुद्गलको मैं सम्पन्न-कुशल ० कहता हूँ ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो पंचकाण स्थपतिने भगवान्के भाषणको अभिर्नन्दित किया ।

७६-चूल-सकुलुदायि-सुत्तन्त (२।३।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे। उस समय सकुल-उदायी परिव्राजक महती परिपद्के साथ परिव्राजकाराममें वास करता था।

भगवान् पूर्वाह्न समय ०। ०^१ जहाँ सकुल-उदायी परिव्राजक था, वहाँ गये। तब सकुल-उदायी परिव्राजकने भगवान्से कहा—“आइये भन्ते ०।”

“जाने दीजिये भन्ते ! इस कथाको ०। जब मैं भन्ते ! इस परिपद्के पास नहीं होता, तब यह परिपद् अनेक प्रकारकी व्यर्थ कथायें (= तिरच्छाण-कथा) कहती बैठती है। और जब भन्ते ! मैं इस परिपद्के पास होता हूँ, तब यह परिपद् मेरा ही मुख देखती बैठी रहती है—‘हमें श्रमण उदायी जो कहेगा, उसे सुनेंगे।’ जब भन्ते ! भगवान् इस परिपद्के पास होते हैं, तब मैं और यह परिपद् भगवान्का मुख ताकती बैठी रहती है—‘भगवान् हमें जो धर्म उपदेश करेंगे, उसे हम सुनेंगे।’”

“उदायी ! तुझे ही जो मालूम पड़े, मुझे कह !”

“पिछले दिनों भन्ते ! (जो वह) सर्वज्ञ=सर्वदर्शी, निखिल-ज्ञान-दर्शन (= ज्ञाता) होनेका दावा करते हैं—‘चलते, खड़े, सोते-जागते भी (मुझे) निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है।’ वह मेरे शुरुसे लेकर प्रश्न पूछनेपर, इधर उधर जाने लगे, बाहरकी कथामें जाने लगे। उन्होंने कोप, द्वेष और अविश्वास प्रकट किया। तब भन्ते ! मुझे भगवान्के ही प्रति प्रीति उत्पन्न हुई—‘अहो ! निश्चय भगवान् (हैं), अहो ! निश्चय सुगत (हैं), जो इन धर्मोंमें पंडित (= कुशल) हैं।’”

“कौन हैं यह उदायी ! सर्वज्ञ=सर्वदर्शी ०, जो कि तेरे शुरुसे लेकर प्रश्न पूछनेपर इधर उधर जाने लगे ० अविश्वास प्रकट किये ?”

“भन्ते ! निर्गंठ नाथ-पुत्त ।”

“उदायी ! जो अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंको जानता है ०, वह मुझे आरम्भ (= पूर्व-अंत) के विषयमें प्रश्न पूछे, और उसको मैं पूर्वान्तके विषयमें प्रश्न पूछूँ। वह मेरे पूर्वान्त-विषयक प्रश्न का उत्तर देकर, मेरे चित्तको प्रसन्न करे; और मैं उसके पूर्वान्त-विषयक प्रश्नका उत्तर देकर, उसके चित्तको प्रसन्न करूँ। जो उदायी ! दिव्य ० चक्षुसे ० सर्वोंको च्युत होते, उत्पन्न होते देखता है। वह मुझे दूसरे छोर (= अपर-अन्त) के विषयमें प्रश्न पूछे। मैं उसे दूसरे छोरके विषयमें प्रश्न पूछूँ। वह मेरे ० प्रश्नका उत्तर दे, मेरे चित्तको प्रसन्न करे; और ० मैं उसके चित्तको ०। या उदायी ! जाने दो पूर्व-अन्त, जाने दो अपर-अन्त। तुझे धर्म बतलाता हूँ—‘ऐसा होने पर, यह

^१ देखो सन्दक-सुत्तन्त, पृष्ठ २१९।

होता है, इसके उत्पन्न होनेसे, यह उत्पन्न होता है। इसके न होनेपर यह नहीं होता। इसके निरोध (= विनाश) होनेपर यह निरुद्ध होता है।^१

“भन्ते ! मैं, जो कुछ कि इसी शरीरमें अनुभव किया है, उसे भी आकार-उद्देश-सहित स्मरण नहीं कर सकता, कहाँसे भन्ते ! मैं अनेक-विहित पूर्व-निवासों (= पूर्व-जन्मों) को स्मरण करूँगा—०, जैसे कि भगवान् ? भन्ते ! मैं इस वक्क पांसु-पिशाचक (= डुडैल) को भी नहीं देखना, कहाँसे फिर मैं दिव्य ० चक्षुसे ० सत्त्वोंको च्युत ० उत्पन्न होते ० देखूँगा ०, जैसे कि भगवान् ? भन्ते ! भगवान् ने जो मुझे कहा—‘उदायी ! जाने दो पूर्वान्त ० इसके निरोध होने पर यह निरुद्ध होता है।’ यह मेरे लिये अधिक पसन्द जान पड़ता है। क्या भन्ते ! मैं अपने मत (= आचार्य-क) के अनुसार प्रश्नोत्तर दे, भगवान् के चित्तको प्रसन्न करूँ ?”

“उदायी ! तेरे (अपने) मतमें क्या होता है ?”

“हमारे मत (= आचार्यक)में भन्ते ! ऐसा होता है—‘यह परम-वर्ण (है), यह परम-वर्ण (है)।’

“उदायी ! जो यह तेरे आचार्यकमें ऐसा होता है—‘यह परम-वर्ण, यह परम-वर्ण’ वह कौनसा परम-वर्ण है ?”

“भन्ते ! जिस वर्णसे उत्तर-त्तर = या प्रणीततर (= उत्तमतर) दूसरा वर्ण नहीं है, वह परम-वर्ण है।”

“कौन है उदायी ! वह वर्ण, जिससे ० प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है ?”

“भन्ते ! जिस वर्ण (= रङ्ग)से ० प्रणीततर (= अधिक, उत्तम) दूसरा वर्ण नहीं है, वह परम-वर्ण है।”

“उदायी ! यह तेरी (यात) दीर्घ-(कालतक) भी चले—‘जिस वर्णसे ० प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं ०’ तो भी तू उस वर्णको नहीं यतला सकता। जैसे कि उदायी ! (कोई) पुरुष ऐसा कहे—‘मैं जो इस जनपद (= देश)में जनपद-कल्याणी (= सुन्दरियोंकी रानी) है, उन्को चाहता हूँ ० तो क्या मानते हो उदायी ! क्या ऐसा होने पर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक नहीं होता ?”

“अवश्य भन्ते ! ऐसा होने पर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक होता है।”

“इसी प्रकार तू उदायी !—‘जिस वर्णसे ० प्रणीत-त्तर दूसरा वर्ण नहीं, वह परम-वर्ण है’ कहता है, और उस वर्णको नहीं यतलाता।”

“जैसे भन्ते ! शुभ्र, उत्तम जातिकी अठकोणी, पालिश की हुई चैदूर्य-मणि (= हीरा), पांडु-कंयल (= लाल-दोशाले)में रखी, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है; मरने के बाद भी आत्मा इसी प्रकारके वर्णवाला हो, अरोग (= अ-विनाशी) होता है।”

“तो क्या मानते हो, उदायी ! शुभ्र ० चैदूर्य-मणि ० विरोचित होती है, और जो यह रात के अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है, इन दोनों वर्णों (= रङ्गों)में अधिक चमकीला (= अतिराम्यतर) और प्रणीत-त्तर है ?”

“जो यह भन्ते ! रातके अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है, यही इन दोनों वर्णोंमें अधिक चमकीला ० है।”

“तो क्या मानते हो, उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें जुगनू कीड़ा है और जो यह

रातके अंधकारमें तेलका प्रदीप (है); इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला या प्रणीत-तर है ?”

“भन्ते ! यह जो रातके अंधकारमें तेल-प्रदीप है ० ।”

“तो क्या मानते हो उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें तेल-प्रदीप है, और जो वह रातके अंधकारमें महान् अग्नि-स्कंध (= आगका ढेर) है । इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला ० है ?”

“भन्ते जो यह ० अग्नि-स्कंध ० ।”

“तो ० उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें महान् अग्निस्कंध है, और जो वह रातके भिन्न-सारमें मेघरहित स्वच्छ आकाशमें ओषधि-तारा (= शुक्र^१) है, इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला ० है ?”

“भन्ते जो यह ! ० ओषधि-तारा ० ।”

“तो ० उदायी ! जो वह ० ओषधि-तारा है, जो वह आधीरातको मेघ-रहित स्वच्छ आकाशमें उस दिनके उपवासकी पूर्णिमाका चन्द्र है ; इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला ० है ?”

“भन्ते ० जो वह चन्द्र ० ।”

“तो ० उदायी ! जो वह ० चन्द्र है, और जो वह वर्षाके पिछले मास, शरदके समय मेघ-रहित स्वच्छ आकाशमें मध्याह्नके समय सूर्य है; इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला ० है ?”

“भन्ते ! जो यह सूर्य ० ।”

“उदायी ! मैं ऐसे बहुतसे देवताओंको जानता हूँ, जिनमें इन चन्द्र-सूर्यका प्रकाश नहीं लगता । तब भी मैं नहीं कहता—‘जिस वर्णसे प्रणीत-तर ० दूसरा वर्णन हीं ०’ । और तू तो उदायी ! जो यह जुगन् क्रीड़ेसे भी हीन-तर निकृष्ट-तर वर्ण है, वही परम-वर्ण है, उसीका वर्ण (= तारीफ) बखानता है ।”

“कैसा यह अच्छा भगवान् ! कैसा यह अच्छा सुगत !”

“उदायी ! क्या तू ऐसे कह रहा है—‘कैसा यह अच्छा ० ।’”

“भन्ते ! हमारे आचार्यक (= मत)में ऐसा होता है,—‘यह परम-वर्ण है’ ‘यह परम-वर्ण है’ । सो हम भन्ते ! भगवान्के साथ अपने आचार्यकके विषयमें पूछने = अवगाहन करने = सम-अनुभाषण करनेपर रिक्त = तुच्छ = अपराधी (से) हैं ।”

“क्या उदायी ! लोक एकान्त-सुख (= सुख-मय) है ? एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये क्या (कोई) आकारवती (= सविस्तर) प्रतिपद् (= मार्ग) है ?”

“भन्ते ! हमारे आचार्यकमें ऐसा होता है—एकांत-सुखवाला लोक है, एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये आकार-वती प्रति-पद् भी है ।”

“कौन सी है उदायी ! ० आकारवती प्रतिपद् ?”

“ यहाँ भन्ते ! कोई (पुरुष) प्राणातिपातको छोड़, प्राण-हिंसासे विरत होता है । अदत्तादान (= बिना दिया लेना = चोरी) छोड़, अदत्तादानसे विरत होता है, ० काम-मिथ्याचार

^१ अ. क. “ओसधी-तारका = सुक्र-तारका (= शुक्रतारा) चूँकि उसके उदय-आरम्भसे ओषधि ग्रहण करते भी हैं, इसलिये ओसधीतारा कहा जाता है” ।

(= व्यवहार)से विरत होता है । ० सृष्टावाद (= झूठ बोलने)से विरत होता है । किसी एक तपोगुणको लेकर रहता है । यह है भन्ते ! ० आकारवती प्रतिपद् ।”

“ तो ० उदायी ! जिस समय प्राणातिपात-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा एकांत-सुखी (= केवल सुख अनुभव करने वाला) होता है, या सुख-दुःखी ?”

“ सुख-दुःखी, भन्ते !”

“ तो ० उदायी ! जिस समय ० अदत्तादान-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा एकांत सुखी होता है, या सुख-दुःखी ?”

“ सुख-दुःखी, भन्ते !”

“ तो ० उदायी ! जिस समय ० काम-मिथ्याचार-विरत ० । ० । सृष्टावाद ० । ० । ० किसी एक तपो-गुणसे युक्त होता है । क्या उस समय आत्मा एकांत-सुखी होता है, या सुख-दुःखी ?”

“ सुख-दुःखी भन्ते !”

“ तो क्या मानते हो, उदायी ! क्या व्यवकीर्ण (= मिश्रित) (पुरुष)को सुख-दुःख (मिश्रित) मार्ग (= प्रतिपद्)को पाकर, एकांत-सुखवाले लोकका साक्षात्कार होता है ?”

“ कैसा यह अच्छा ! भगवान् !! कैसा यह अच्छा ! सुगत !!”

“ उदायी ! क्या तू यह ऐसे कह रहा है—‘कैसा यह अच्छा ०’ ।”

“ भन्ते ! हमारे आचार्यक (= मत)में ऐसा होता है—एकांत-सुखवाला लोक है, एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपद् है । सो भन्ते ! हम भगवान्के ० मापण करने पर तुच्छ ० हैं । क्या भन्ते ! एकांत-सुखवाला लोक है ? एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपद् है ?”

“ है उदायी ! एकांत-सुख लोक, है आकारवती प्रतिपद् ।”

“ भन्ते ! एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपद् कौनसी है ?”

“ यहाँ उदायी ! भिक्षु ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० द्वितीय-ध्यानको ० । ० तृतीय-ध्यानको ० । यह है उदायी ! ० आकारवती प्रतिपद् ।”

“ भन्ते ! एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये यही आकारवती प्रतिपद् है ? इतने हीसे भन्ते ! उसको एकांत-सुखलोकका साक्षात्कार हो गया रहता है ?”

“ नहीं, उदायी ! इतनेसे एकांत-सुखवाले लोकका साक्षात्कार (नहीं) हो गया रहता, यह तो एकांत-सुखलोकके साक्षात्कारकी आकारवती प्रतिपद् है ।”

ऐसा कहनेपर सकुल-उदायी परिमाजककी परिपद् उन्नादिनी = उचराब्द—महादाब्द (= कोलाहल) करनेवाली हुई—यहाँ हम अपने मतसे नष्ट होंगे, यहाँ हम भ्रष्ट (= प्रणष्ट) होंगे । इससे अधिक उत्तम हम नहीं जानते । तब सकुल-उदायी परिमाजकने, उन परिमाजकोंको चुपकरा, भगवान्से कहा—

“ भन्ते ! कितनेसे इस (पुरुष)को एकान्त-सुखवाले लोकका साक्षात्कार होता है ?”

“ यहाँ उदायी ! भिक्षु सुखको भी छोड़ ० चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, (तब) जितने देवता एकान्त-सुखलोकमें उत्पन्न हैं, उन देवताओंके साथ ठहरता है, संलाप करता है,

साक्षात्कार करता है। इतनेसे उदायी ! इसको एकांत-सुखवाला लोक साक्षात्कृत (= प्रत्यक्ष) होता है।

“ उदायी ! इसी ० के लिये मेरे पास ब्रह्मचर्य नहीं पालन करते। उदायी ! दूसरे उत्तर-तर = प्रणीततर (= इससे भी उत्तम) धर्म हैं, जिनके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। ”

“ मन्ते ! वह धर्म ० कौनसे हैं ? ”

“ उदायी ! यहाँ लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं ०^१ बुद्ध भगवान् ०। वह इन पाँच नीवरणोंको छोड़ चित्तके उपक्लेशों (= मलों)को ० प्रथम-ध्यान ०, ० द्वितीय-ध्यान ०, ० तृतीय-ध्यान ०, ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरते हैं। यह भी उदायी ! धर्म उत्तर-तर = प्रणीत-तर है, जिसके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं। वह ०^२ अनेक प्रकारके पूर्व निवासको अनुस्मरण करते हैं ०। ०। च्युत और उत्पन्न होते प्राणियोंको जानते हैं ०। ०। ० दुःखनिरोध-गामिनी-प्रतिपद् ० आस्रव-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्को यथार्थतः जानते हैं ‘० यहाँ कुछ नहीं है’, जानते हैं, यह उदायी ! उत्तरतर ० धर्म है, जिसके ० लिये ० मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं। ”

ऐसा कहनेपर उदायी परिव्राजकने भगवान् (से अब्रज्या माँगी, तव उसकी परिपद्ने) कहा—

“ उदायी ! आप श्रमण गौतमके पास मत ब्रह्मचर्यवास करें (= मत शिष्य हों), मत आप उदायी आचार्य होकर अन्तेवासी (= शिष्य)की तरह वास करें, जैसे करका (= मटकी) होकर पुरवा होवे, इसी प्रकारकी यह सम्पत् (= अवस्था) आप उदायीकी होगी। आप उदायी ! श्रमण गौतम ०। ”

इस प्रकार सकुल-उदायी ० की परिपद्ने सकुल-उदायी ० को भगवान्के पास ब्रह्मचर्यपालन करनेमें विघ्न डाला।

^१ देखो पृष्ठ ११३।

^२ देखो पृष्ठ १५-१६।

८०—वेखणस-सुत्तन्त (२।३।१०)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथार्पिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब वेखणस (= वैखानस) परिव्राजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्के साथ...संमोदनकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े वेखणस परिव्राजकने भगवान्के पान यह उदान (= आनंदोच्छ्वासमें निकली वाक्यावली) उदाना—‘यह परम (= उत्तम) वर्ण है ।’

“क्या है, वह परम वर्ण ?”

“मो गौतम ! जिस वर्णसे अधिक अच्छा=प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, वह परम-वर्ण है ।”

“कात्यायन^१ ! वह कौनसा वर्ण है, जिस वर्णसे अधिक अच्छा = प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है ।”

“मो गौतम ! जिस वर्णसे अधिक अच्छा = प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, यह परम-वर्ण है ।”

“कात्यायन ! इस वचनको काहे लम्बा यढ़ाता चोल रहा है—‘मो गौतम ! जिस वर्णसे ० वह परमवर्ण है’; किन्तु उस वर्णको नहीं यतलाता । जैसे कात्यायन ! कोई पुरुष ऐसा फहे—इम जनपद (= देश)में जो जनपद-कल्याणी (= देशकी सुन्दरतम स्त्री) है, मैं उसको चाहता हूँ, उसकी कामना करता हूँ । उसको यदि (लोग) ऐसा पूछें—‘हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणीको तू चाहता है, कामना करता है; जानता है, वह क्षत्रियाणी है, ब्राह्मणी है, वैश्य-स्त्री है, या शूद्री है’ ?—ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ कहे । तब उससे पूछें—‘हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणीको तू चाहता है, (वह) अमुक नामवाली, अमुक गोत्रवाली है; लम्बी, छोटी या मझोली, है; काली, श्यामा या मंगुर (मल्लिके) वर्णकी है; अमुक ग्राम, निगम या नगरमें रहती है’ ?—ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ कहे । तब उससे यह पूछें—‘हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा; उसको तू चाहता है; उसकी तू कामना करता है’ ?—ऐसा पूछनेपर ‘हाँ’ कहे । तो क्या मानता है, कात्यायन ! ऐसा कहनेपर क्या उस पुरुषका कथन अर्थहीन नहीं होता ?”

“जरूर, मो गौतम ! ऐसा कहनेपर उस पुरुषका कथन अर्थहीन हो जाता है ।”

“ऐसे ही कात्यायन ! तू कहता है—‘मो गौतम ! जिस वर्णसे ० वह परमवर्ण है’, किन्तु उस वर्णको नहीं यतलाता ।

“जैसे मो गौतम ! शुभ्र उत्तम जातिकी अठकोणी पालिशकी हुई बँदूर्य-मणि (= हीरा) ०^२ ।

“ ०^२ और तू तो कात्यायन ! जो यह जुगनू कीदमे भी हीनतर निकृष्टतर वर्ण है, उन्कीको

^१ यह दस परिव्राजकका गोत्र था ।

^२ देखो पृष्ठ ३१९ ।

परमवर्ण (कहता है), उसीकी प्रशंसा करता है ।

“कात्यायन ! यह पाँच काम-गुण^१ (= विषयभोग) हैं । कौनसे पाँच ?—(१) इष्ट, कान्त ०^१ चक्षुद्वारा विज्ञेय रूप; (२) ०^१ श्रोत्र-विज्ञेय शब्द; (३) ०^१ घ्राण-विज्ञेय गंध; (४) ०^१ जिह्वा-विज्ञेय रस; (५) ०^१ काय-विज्ञेय स्पर्शव्य । कात्यायन ! यह पाँच काम-गुण हैं । कात्यायन ! इन पाँच काम-गुणोंको लेकर जो सुख = सौमनस्य उत्पन्न होता है, वह काम-सुख कहा जाता है । इस प्रकार कामोंसे काम-सुख और काम-सुखसे काम-अग्र (= श्रेष्ठ भोग) सुख श्रेष्ठ कहा जाता है ।”

ऐसा कहनेपर वेखणस परिव्राजकने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य ! भो गौतम ! अद्भुत !! भो गौतम ! क्या सुभाषित (= ठीक कहा) आप गौतमका है—कामोंसे काम-सुख, और कामसुख से कामाग्र-सुख श्रेष्ठ कहा जाता है ।”

“कात्यायन ! अन्य दृष्टिक (= दूसरा मत रखनेवाले) = अन्य-क्षान्तिक = अन्य-रुचिक, अन्यत्र-आयोग (= आसक्ति) वाले, अन्यत्र-आचार्यक (= दूसरा ज्ञान रखनेवाले) तेरे लिये काम, काम-सुख, कामाग्र-सुख—यह जानना दुष्कर है । कात्यायन ! जो वह भिक्षु अर्हत् ब्रह्मचर्य वालकर चुके, कृतकरणीय, भारमुक्त ०^२ क्षीणास्रव हैं, वह इस—काम, काम-सुख, कामाग्रसुखको जान सकते हैं ।”

“ऐसा कहने पर वेखणस परिव्राजक कुपित=असंतुष्ट-मना हो भगवान्को ही खुंसाते, भगवान् पर ही नाराज होते, भगवान् को—‘श्रमण गौतम ही (अज्ञताको) प्राप्त होगा’—(कह) भगवान्से यह बोला—

“इसी प्रकार यहाँ कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण पूर्वान्त (= आरम्भ के छोर)को विना जाने, पश्चिम-अन्तको विना देखे, यह दावा करते हैं—‘जन्म क्षीण होगया, ब्रह्मचर्यवास समाप्त होगया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ और करनेको नहीं—यह हम जानते हैं ।’ उनका यह कथन ह्रस्वक (छोटा) लामक रिक्त = तुच्छ ही होता है ।”

“कात्यायन ! जो श्रमण ब्राह्मण पूर्वान्त विना जाने ० यह दावा करते हैं—‘जन्म क्षीण होगया ० यह हम जानते हैं’ उनका यह धार्मिक निग्रह होता है । कात्यायन ! रहे पूर्वान्त, रहे पश्चिमान्त; कोई सरल, अ-शठ = अ-मायावी विज्ञ पुरुष आवे; मैं उसे अनुशासन करता हूँ, मैं (उसे) धर्मोपदेश करता हूँ । (मेरे) अनुशासनके अनुसार आचरण करते जल्दी ही स्वयं जानेगा, स्वयं देखेगा—‘इस प्रकार अविद्या (रूपी) बंधनसे मुक्ति होती है । जैसे, कात्यायन ! उतान सोनेवाला, अयोध छोटे वच्चेके (दो हाथों-दो पैरों) और पाँचवें कंठमें सूतके बंधन बँधे हों; उसके होश सँभालनेपर, इन्द्रियों (= ज्ञान)के परिपक्व होने पर वह बंधन चूट जाते हैं । वह ‘मैं मुक्त हूँ’ यही जानता है, बंधनको नहीं (जानता); ऐसे ही कात्यायन ! ० कोई ० विज्ञ पुरुष आवे ० स्वयं देखेगा—‘इस प्रकार अविद्या-बंधनसे मुक्ति होती है’ ।”

ऐसा कहने पर वेखणस परिव्राजकने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा करदे ०^३ यह मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आप गौतम आजसे मुझे अंजलियन्त शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”

(इति परिव्राजक वग्ग ॥ २।३ ॥)

^१ देखो पृष्ठ ९३ ।

^२ देखो पृष्ठ २८४ ।

^३ देखो पृष्ठ १५ ।

८१—घटिकार-सुत्तन्त (२।४।१)

त्यागमय गृहस-जीवन

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् महान् भिक्षुसंघके साथ कोसल (देश)में चारिका (= रामत, अमण) कर रहे थे ।

तब भगवान्ने मार्गसे हट कर एक स्थानपर स्मित (= मुस्कराहट) प्रकाशित किया । तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—‘क्या हेतु = क्या प्रत्यय है, भगवान्के स्मित करनेका ? तयागत बिना कारणके स्मित प्रकट नहीं किया करते ।’ तब आयुष्मान् आनन्द एक (धार्य) फंघे पर उत्तरा संगको करके, जिधर भगवान् थे, उधर अंजलि जोड़कर भगवान्से यह बोले—

“भन्ते ! क्या हेतु = क्या प्रत्यय है भगवान्के स्मित प्रकट करनेका ? भन्ते ! तयागत बिना कारणके स्मित प्रकट नहीं किया करते ।”

“आनन्द ! पूर्वकालमें इस प्रदेशमें ऋद्ध (= समृद्ध) = स्फीत, बहुजनाकीर्ण वेहलिंग नामक ग्राम-निगम था । वेहलिंगके समीप भगवान् काश्यप अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध विहार किये थे । आनन्द ! यहाँ भगवान् काश्यप अर्हत् सम्यक्-संबुद्धने वैठकर भिक्षु संघको उपदेश किया था ।”

तब आयुष्मान् आनन्दने चौपैती संघाटीको बिछा कर, भगवान्से यह कहा—

“तो भन्ते ! भगवान् वैठें, इस प्रकार यह स्थान दो अर्हत्तोंसे सेवित होगा ।”

भगवान् बिछे आसन पर...वैठकर आयुष्मान् आनन्दसे बोले—

“आनन्द ! पूर्वकालमें इस प्रदेशमें ऋद्ध = स्फीत, बहुजनाकीर्ण वेहलिंग नामक ग्राम-निगम था । वेहलिंगके समीप भगवान् काश्यप अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध विहार किये थे । यहाँ आनन्द ! भगवान् काश्यप ० का आराम था । यहाँ आनन्द ! भगवान् काश्यप ० भिक्षु-संघको उपदेश करते थे ।

“आनन्द ! वेहलिंग ग्राम-निगममें घटिकार नामक कुम्भकार (= कुम्हार) भगवान् काश्यप ०का अग्र-उपस्थाक (= प्रधानसेवक) रहता था । घटिकार कुम्भकारका जोतिपाल नामक माणवक (= ब्राह्मण-तरुण) प्रियमित्र था । तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल माणवक को सम्योधित किया—‘आओ चलें सौम्य जोतिपाल ! भगवान् काश्यप ० के दर्शनको । उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धका दर्शन साधु-सम्मत है ।’ ऐसा कहने पर आनन्द ! जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा—‘रहने दो सौम्य घटिकार ! उस मुंढक श्रमणकसे देखने से क्या (फल) ?’ दूसरी बार भी घटिकार ० । तीसरी बार भी घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल माणवकको सम्योधित किया—‘आओ चलें सौम्य जोतिपाल ! ० दर्शन साधु-सम्मत है ।’ तीसरी बार भी आनन्द ! जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा—‘रहने दो सौम्य घटिकार ! उस मुंढक श्रमणकके देखनेसे क्या ?’ तो सौम्य जोतिपाल ! आन-चूर्ण-पिण्ड (सोत्ति निनात्ति)लें

चलो नहानेके लिये नदी चलें ।' 'अच्छा, सौम्य'—(कह) जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्भकार को उत्तर दिया । तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकार और जोतिपाल माणवक सोत्ति-सिनातिको लेकर स्नानके लिये नदी गये । तब आनन्द घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल माणवकसे कहा—'सौम्य जोतिपाल ! यह पास में भगवान् काश्यप ० का आराम है; आओ चलें सौम्य जोतिपाल ! ० उन भगवान् ० का दर्शन साधु-सम्मत है ।' ऐसा कहनेपर आनन्द ! जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा—'रहने दो सौम्य घटिकार ! ० ।' दूसरी वार भी ० । तीसरी वार भी ० ।

“तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल माणवकका कपड़ा पकड़कर कहा—'सौम्य जोतिपाल ! यह पासमें भगवान् काश्यप ० का आराम है; आओ चलें सौम्य जोतिपाल ! ० उन भगवान् ० दर्शन साधु-सम्मत है' । तब आनन्द ! जोतिपाल माणवक कपड़ा समेटकर घटिकार कुम्भकारसे यह बोला—'रहने दो सौम्य घटिकार ! ० ।' तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकारने शिरसे नहाये जोतिपाल माणवकके केशपर हाथ फेरकर यह कहा—'सौम्य जोतिपाल ! यह पासमें ० दर्शन साधु-सम्मत है ।' तब आनन्द ! जोतिपाल माणवकको यह हुआ—आश्चर्य भो ! अद्भुत भो ! जोकि यह घटिकार कुम्भकार इतरजाति (= नीच जाति) का होते भी शिरसे नहाये हमारे केशको छू रहा है । यह छोटी बात न होगी; और घटिकार कुम्भकारसे बोला—'अच्छा, सौम्य घटिकार !' 'अच्छा, सौम्य जोतिपाल ! उन भगवान् ० का दर्शन वैसा साधु सम्मत है ।' 'तो सौम्य घटिकार ! छोड़ो चलूंगा' ।

“तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकार और जोतिपाल माणवक जहाँ भगवान् काश्यप अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध थे वहाँ गये । घटिकार कुम्भकार भगवान् काश्यप ० को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । जोतिपाल माणवक भी भगवान् काश्यप ० के साथ...सम्मोदनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे आनन्द ! घटिकार कुम्भकारने भगवान् काश्यप ० से यह कहा—'भन्ते ! यह जोतिपाल माणवक मेरा प्रियमित्र है, इसे भगवान् धर्मोपदेश करें' । तब आनन्द ! भगवान् काश्यप ० ने घटिकार कुम्भकार और जोतिपाल माणवकको धार्मिक कथाद्वारा संदर्शित = समादपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित किया । तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकार और जोतिपाल माणवक भगवान् काश्यप ० की धार्मिक कथाद्वारा ० समुत्तेजित संप्रशंसित हो, भगवान् काश्यप ० के भाषणको अभिनन्दित अनुमोदित कर, आसनसे उठ, भगवान् काश्यपको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चले गये ।

“तब आनन्द ! जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा—'अहो ! सौम्य घटिकार ! धर्म सुनते भी तो घरसे वेघर हो प्रव्रजित नहीं होता ।' क्यों सौम्य जोतिपाल ! तुम जानते हो, अंधे माता-पिताको मैं पोसता हूँ ?' 'तो सौम्य घटिकार ! मैं घरसे वेघर हो प्रव्रजित होता हूँ ?'

“तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकार और जोतिपाल माणवक जहाँ भगवान् काश्यप ० थे, वहाँ गये । ० एक ओर बैठे घटिकार कुम्भकारने भगवान् काश्यप ० से यह कहा—'भन्ते ! यह जोतिपाल माणवक मेरा प्रियमित्र है, इसे भगवान् प्रव्रजित करें ।' आनन्द ! जोतिपाल माणवकने भगवान् काश्यप ० के पास प्रव्रज्या उपसम्पदा पाई ।

“तब आनन्द ! जोतिपालके उपसम्पन्न (= भिक्षु) होनेके थोड़े ही समय बाद, पन्द्रह दिन बाद, भगवान् काश्यप ० वेहलिंगमें इच्छापूर्वक विहार कर वाराणसीकी ओर चल दिये । क्रमशः चारिका करते जहाँ वाराणसी है, वहाँ पहुँचे । वहाँ आनन्द ! भगवान् काश्यप ० वाराणसीमें ऋषिपत्तन मृगदावमें विहार करते थे । आनन्द ! काशिराज किकिने सुना—भगवान् काश्यप ०

वाराणसीमें पहुँच...ऋषिपतन मृगदावमें विहार करते हैं । तब आनन्द ! काशिराज काशिराज किकि उत्तमोत्तम यानोंको जुडवाकर, (एक) उत्तम यान (= रथ) पर (स्वयं) आरूढ़ हो उत्तमोत्तम यानोंके साथ थड़े ० राजसी ठाटघाटके साथ भगवान् काश्यप ० के दर्शनार्थ वाराणसी (= बनारस)से निकला । जितना यानका राज्ञा था, उतना यानसे जा (फिर) यानसे उतर पैदल ही जहाँ भगवान् काश्यप ० थे, वहाँ जाकर...भगवान् काश्यप ० को अभिवादन-कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे काशिराज किकिने भगवान् काश्यप ० ने धार्मिककपासे ० समुत्तेजित संप्रशंसित क्रिया । तब भगवान् काश्यप ० से ० संप्रशंसित हो काशिराज किकि भगवान् काश्यप ० से यह बोला—'भन्ते ! भगवान् भिक्षुसंघके साथ फलके लिये मेरा भोजन स्वीकार करें । भगवान् काश्यप ० ने मौनसे स्वीकार किया । तब आनन्द ! काशिराज किकिने भगवान् काश्यप ० की स्वीकृतिको जान कर, आसनसे उठ भगवान् काश्यप ० को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया ।

"तब आनन्द ! काशिराज किकिने उस रातके घीतनेपर अपने मकानपर कालिमारहित पंडुमुटिक (लाल धानका भात), अनेक व्यंजनों (= तिर्यंन)का उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा, भगवान् काश्यप ० को कालकी सूचना दी—'(भोजनका) काल है भन्ते ! भात तैयार है' । तब आनन्द ! पूर्वाह्नके समय पहिनकर पात्र-चीवर ले भिक्षुसंघके साथ भगवान् काश्यप ० जहाँ काशिराज किकिका घर था, वहाँ गये; जाकर भिक्षुसंघके साथ घिटे आसनपर बैठे । तब आनन्द ! काशिराज किकिने बुद्धप्रमुख भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य परोस संतर्पित = संप्रवारित किया ।

"तब आनन्द ! भगवान् काश्यप ० के भोजनकर हाथ हटा लेनेपर, काशिराज किकि एक नीचा आसन ले एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे काशिराज किकि भगवान् काश्यप ० से यह कहा—'भन्ते ! भगवान् वाराणसीमें वर्षावाल स्वीकार करें, इस प्रकारसे संघकी सेवा होगी ।' 'नहीं, महाराज ! वर्षावाल मेरा हो चुका' । दूसरी बार भी ० । तीसरी बार भी ० । तब आनन्द ! काशिराज किकिको 'भगवान् ० वाराणसीमें वर्षावास नहीं स्वीकार करते'—(सोच) दुःख हुआ, विमनता हुई । तब आनन्द ! काशिराज किकिने भगवान् काश्यप ० से यह कहा—'क्या भन्ते ! आपका मुझसे भी अच्छा कोई उपस्थानक (= सेवक) है ?' 'महाराज ! वेर्हलिंग नामक ग्राम-निगस है, वहाँ घटिकार नामक कुंभकार है, वह मेरा अग्र उपस्थानक है । तुझे महाराज !—भगवान् वाराणसीमें मेरा वर्षावास (निर्मग्नण) स्वीकार नहीं करते—(यह सोचकर) दुःख हुआ, वेमनता हुई; घटिकार कुंभकारको यह नहीं होती, न होंगेगी । महाराज ! घटिकार कुंभकार बुद्धकी शरण गया है, धर्मकी शरण गया है, संघकी शरण गया है । महाराज ! घटिकार कुंभकार प्राणातिपात (= हिंसा)से विरत, अदत्तादान (= चोरी)से विरत, काम-मिथ्याचारसे विरत, मृपावाद (= झूठ)से विरत, सुरा-मेरय-मद्य-प्रमादल्यान (= नशीली चीजों)से विरत है । महाराज ! घटिकार कुंभकार बुद्धमें अतीव श्रद्धायुक्त, धर्ममें ०, संघमें अतीव श्रद्धायुक्त है, कार्य-कान्त शीलें (= सुन्दर सदाचारों) युक्त है । महाराज ! घटिकार कुंभकार दुःख १ में (तत्त्व) में संशय-रहित है, दुःख-स्वमुदयमें संशय-रहित, दुःख-निरोधमें संशय-रहित, दुःखनिरोध गामिनी प्रतिपद् में संशय-रहित है । महाराज ! घटिकार कुंभकार पृथाहारी, ब्रह्मचारी, शीलवान् कल्याणधर्मा (= पुण्यात्मा) है । महाराज ! घटिकार कुंभकार मणिसुवर्ण-स्वामी, मोना-वर्षादी-

विरत है। महाराज ! घटिकार कुम्भकार मूसल (आदि कूटने खोदनेके हथियारों)-त्यागी है, अपने हाथसे पृथिवी को नहीं खोदता। उसके घर पर आनेवाले चूहे कुकुरोंको भी (भोजन) बाँट कर कहता है—यहाँ जो चावल, मूंग, या मटर जिस किसी भोजनको चाहता है, (याकी को) छोड़ उसे ले जाये। महाराज ! घटिकार कुम्भकार अंधे माता-पिताको पोसता है। महाराज ! घटिकार कुम्भकार पाँच अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षयसे उस (लोक) में औपपातिक (= देवता) हो निर्वाण पानेवाला है, उस लोकसे लौटकर न आनेवाला है।

“महाराज ! एक समय मैं वेहलिंग ग्राम-निगममें विहार करता था। तब महाराज ! पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले मैं जहाँ घटिकार कुम्भकारका घर है, वहाँ गया। जाकर घटिकार कुम्भकारके माता पितासे यह कहा—‘हन्त ! यह भार्गव कहाँ गया है ?’ ‘भन्ते ! आपका उपस्थाक वाहर गया हुआ है, इस हँडिया (= कुम्भी^१) से भात लेकर, वर्तन (= परियोग^१) से सूप (= दाल, व्यंजन) लेकर भोजन करें।’ तब महाराज ! मैंने कुम्भीसे भात और परियोगसे सूप ले भोजन कर, आसनसे उठकर चल दिया। तब महाराज ! घटिकार कुम्भकार जहाँ (उसके) माता-पिता थे, वहाँ गया; जाकर माता-पितासे यह बोला—‘कौन कुम्भीसे भात और परियोग से सूप ले भोजनकर आसनसे उठकर चला गया ?’ ‘तात ! भगवान् काश्यप ० कुम्भीसे भात ले ० भोजनकर ० चले गये।’ तब महाराज ! घटिकार कुम्भकारको यह हुआ—‘सुलाम है हो ! मेरा; (जो कि) मेरे ऊपर भगवान् काश्यप ० का इतना विश्वास है।’ तब महाराज ! घटिकार कुम्भकार को उस प्रीतसुख (= प्रसन्नताके सुख)ने अर्ध मासतक नहीं छोड़ा, (और) माता-पिताको सप्ताह भर (नहीं छोड़ा)।

“महाराज ! एक वार मैं उसी वेहलिंग ग्राम-निगममें विहार करता था। तब महाराज ! मैं पूर्वाह्न समय पहिनकर, पात्र-चीवरले जहाँ घटिकार कुम्भकारके माता पिता थे, वहाँ गया। जाकर ० माता-पितासे यह बोला—‘हन्त ! यह भार्गव कहाँ गया है ?’ ०^२ तब महाराज मैं कलोपी (= वर्तन)से कुल्भाप (= कुलथी), परियोगसे सूप ले, भोजनकर आसनसे उठकर चला गया।’ ०^२ माता-पिताको सप्ताह भर।

“महाराज ! एकवार मैं उसी वेहलिंग ग्राम-निगममें विहार करता था। उस समय (मेरी) गंधकुटी चूरही थी। तब महाराज ! मैंने भिक्षुओंसे कहा—‘जाओ भिक्षुओ ! घटिकार कुम्भकारके घर पर, तृण ढूँढो।’ ऐसा कहने पर महाराज ! भिक्षुओंने मुझे कहा—‘भन्ते ! घटिकार कुम्भकारके घरपर तृण नहीं है; (किंतु) नया छाया हुआ है।’ ‘जाओ भिक्षुओ ! घटिकार कुम्भकारके घरको तृण-विना कर दो।’ तब महाराज ! उन भिक्षुओंने घटिकार कुम्भकारके घरको तृण-विना कर दिया। तब महाराज ! घटिकार कुम्भकारके माता-पिताने भिक्षुओंसे यह कहा—‘कौन घरको उजाड़ रहे हैं ?’ ‘भिक्षु, भगिनी ! भगवान् काश्यप ० की गंधकुटी चूरही है।’ ‘ले जाओ, भन्ते ! ले जाओ मद्रसुखो ! तब महाराज ! घटिकार कुम्भकार जहाँ माता-पिता थे वहाँ गया। जाकर माता-पितासे बोला—‘किनने घरको उजाड़ दिया (= वेदानका कर दिया) ?’ ‘भिक्षु, तात ! भगवान् काश्यप ० की गंधकुटी चूरही थी।’ तब महाराज ! घटिकार कुम्भकार-पुत्रको ऐसा हुआ—‘सुलाम है हो ! ० माता-पिताको सप्ताह भर। तब महाराज ! वह सारा घर तीन मास तक आकाश-छद्म (= आकाशही जिसकी छत है) रहा, किन्तु नहीं चुआ। महाराज ! इस प्रकार

^१ कुम्भी भात पकानेके बड़े वर्तनका नाम है, और परियोग दाल आदि सूप पकाने लायक वर्तनका।

^२ ऊपर जैसे ही।

का है घटिकार कुम्भकार ।' 'मन्ते ! घटिकार कुम्भकारको लाभ है, ० सुलाम है, ० सु-लब्ध लाभ है, जिसपर भगवान्‌का इतना अधिक विश्वास है ।

“तय आनन्द ! काशिराज किसिने घटिकार कुम्भकारके पास पाँच सौ गाड़ी पंहु-मुटिक, शालीका चावल, और उसके योग्य सूपकी चीज भेजी । तय आनन्द ! उन राज-पुरुषोने घटिकार कुम्भकारके पास जाकर यह कहा—‘मन्ते (= स्वामी) ! यह पाँचसौ गाड़ी पंहु-मुटिक, शालीका चावल, और उसके योग्य सूपकी चीजें आपके पास काशिराज किसिने भेजी हैं, इन्हें मन्ते ! ध्वीकार करें ।’ ‘राजाको बहुत कृत्य है, बहुत करणीय हैं; मेरे लिये जरूरत नहीं, राजाकी ही (यह) हो ।’

“शायद, आनन्द ! तुझे ऐसा हो, वह जोतिपाल भाणवक कोई और होगा । आनन्द ! ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिये; मैं ही उस समय जोतिपाल भाणवक था ।”

भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान्‌के भाषणको अभिनन्दित किया ।



८२—रघुपाल-सुत्तन्त (२।४।२)

त्यागमय भिक्षु-जीवन । भोगोंकी असारता

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् कुरु (देश)में महाभिक्षु-संघके साथ चारिका करते, जहाँ धुल्लकोट्टित नामक कुरुओंका निगम (= कस्या) था, वहाँ पहुँचे ।

धुल्लकोट्टित (= स्थूलकोट्टित) वासी ब्राह्मण गृहपतियोंने सुना—शाक्यपुत्र ०^१ श्रमण गौतम धुल्लकोट्टितमें प्राप्त हुये हैं ० । ० ^१इस प्रकारके अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है । तब धुल्लकोट्टितके ब्राह्मण-गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । ० कोई कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे धुल्लकोट्टित-वासी ब्राह्मण गृहपतियोंको भगवान्ने धार्मिक कथासे संदर्शित, प्रेरित, समुत्तेजित, संप्रशंसित किया ।

उस समय उसी धुल्लकोट्टितके अग्र-कुलिकका पुत्र राष्ट्र-पाल उस परिपदमें बैठा था । तब राष्ट्र-पालको ऐसा हुआ जैसे भगवान् धर्म उपदेशकर रहे हैं, यह अत्यन्त परिशुद्ध संवसा धुला ब्रह्मचर्य-पालन गृहमें वास करते सुकर नहीं है । क्यों न मैं केश-श्मश्रु मुँदाकर, कापाय वस्त्र पहिनकर, घरसे बेघर हो प्रव्रजित होजाऊँ । तब धुल्लकोट्टित-वासी ब्राह्मण-गृहपति भगवान्से धार्मिक कथा द्वारा ० समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, भगवान्के भाषणको अभिनन्दन, अनुमोदनकर, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, चले गये । तब राष्ट्र-पाल कुलपुत्र ० ब्राह्मणोंके चले-जानेके थोड़ी ही देर बाद जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे राष्ट्रपाल कुल-पुत्रने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! जैसे जैसे मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह ० शंख-लिखित ब्रह्मचर्य-पालन गृहमें वास करते सुकर नहीं है । भन्ते ! मैं भगवान्के पास प्रव्रज्या पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ ।”

“राष्ट्र-पाल ! क्या तूने मातापितासे घरसे बेघर हो प्रव्रज्याके लिये आज्ञा पाई है ?”

“भन्ते ! ० आज्ञा नहीं पाई ।”

“राष्ट्रपाल ! माता-पितासे बिना आज्ञा पायेको तथागत प्रव्रजित नहीं करते ।”

“भन्ते ! सो मैं वैसा करूँगा, जिसमें माता-पिता मुझे ० प्रव्रज्याके लिये आज्ञा दें ।”

“तब राष्ट्रपाल कुल-पुत्र आसनसे उठकर, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर जहाँ माता-पिता थे, वहाँ गया । जाकर माता-पितासे कहा—

“अम्मा ! तात ! जैसे जैसे मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह ० शंख-लिखित (= छिले शंखकी तरह निर्मल ज्वेत) ब्रह्मचर्य-पालन, गृहमें वास करते सुकर नहीं है ।

^१ देखो पृष्ठ २४, १५८ ।

मैं ० प्रव्रजित होना चाहता हूँ । घरसे वेवर हो प्रव्रजित होनेके लिये मुझे आज्ञा दो ।”

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके माता-पिताने राष्ट्र-पाल ० से कहा—

“तात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे प्रिय = मनाप, सुखमें यदे, सुखमें पले एक पुत्रहो । तात राष्ट्रपाल ! तुम दुःख कुल भी नहीं जानते । आओ तात राष्ट्रपाल ! खाओ, पियो, विचरो । खाते-पीते-विचरते, कामोंका परिभोग करते, पुण्य करते, रमण करो । हम तुम्हें ० प्रव्रज्याके लिये आज्ञा न देंगे । मरनेपर भी हम तुमसे वे-चाह न होंगे, तो फिर कैसे हम तुम्हें जीते जी ० प्रव्रजित होने की आज्ञा देंगे ।”

दूसरी बार भी ० । तीसरी बार भी ० ।

तय राष्ट्रपाल कुलपुत्र माता-पिताके पास प्रव्रज्या (की आज्ञा)को न पा, वहीं नंगी धरती पर पड गया ।—‘यहीं मेरा मरण होगा, या प्रव्रज्या’ । तय ० माता-पिताने राष्ट्रपाल ० से कहा—

“तात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।”

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुल-पुत्र चुप रहा ।

० दूसरी बार भी ० । ० । तीसरी बार भी राष्ट्र-पाल कुल-पुत्र चुप रहा ।

तय राष्ट्रपाल ० के माता-पिता जहाँ राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके मित्र थे, वहाँ गये । जाकर—कहा—

“तातो ! यह राष्ट्रपाल कुल-पुत्र नंगी धरतीपर पड़ा है—‘यहीं मरण होगा या प्रव्रज्या’ । आओ तातो ! जहाँ राष्ट्रपाल है, वहाँ जाओ । जाकर राष्ट्रपाल ० को कहो—सौम्य राष्ट्रपाल ! तुम माता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।”

तय राष्ट्रपाल ० के मित्र राष्ट्रपाल ० के माता-पिता (की यात)को सुनकर, जहाँ राष्ट्रपाल ० था, वहाँ गये; जाकर ० कहा—

“सौम्य राष्ट्रपाल ! तुम माता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।”

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल ० चुप रहा । दूसरी बार भी ० । ० । तीसरी बार भी ० । ० ।

तय राष्ट्रपाल ० के मित्रों (= सहायक)ने ० राष्ट्रपाल ० के माता-पितासे कहा—

“अम्मा ! तात ! यह राष्ट्रपाल ० वहीं नंगी धरतीपर पड़ा है—‘यहीं मेरा मरण होगा, या प्रव्रज्या ।’ यदि तुम राष्ट्रपाल ० को ० अनुज्ञा न दोगे, तो वहीं उसका मरण होगा; यदि तुम ० आज्ञा दोगे, प्रव्रजित हुये भी उसे देखोगे; यदि राष्ट्रपाल ० प्रव्रज्यामें मन न लगा सदा, तो, उसकी और दूसरी क्या गति होगी ? यहीं लौट आयेगा । (अतः) राष्ट्रपाल ० को प्रव्रज्याकी अनुज्ञा दो ।”

“तातो ! हम राष्ट्रपाल ० की ० प्रव्रज्याकी अनुज्ञा (= स्वीकृति) देते हैं; लेकिन प्रव्रजित हो, माता-पिताको दर्शन देना होगा ।”

तय राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके सहायक ०, जाकर राष्ट्रपाल ० से बोले—

“सौम्य राष्ट्रपाल ! तू माता-पिताका प्रिय ० एक पुत्र है ० । माता-पितामे ० प्रव्रज्या के लिये तू अनुज्ञात है । लेकिन प्रव्रजित हो माता-पिताको दर्शन देना होगा ।”

तय राष्ट्रपाल ० उठकर, यल ग्रहणकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर ० एक धोर बैठे हुये ० भगवान्से कहा—

“भन्ते ! मैं माता-पितासे ० प्रव्रज्याके लिये अनुज्ञात हूँ । मुझे भगवान् प्रव्रजित करें ।”

राष्ट्रपाल ० ने भगवान्के पास प्रव्रज्या और उपसम्पदा प्राप्त की । तय आदुष्मान्

राष्ट्रपालके उपसंपन्न (= मिश्र होना) होनेके थोड़ी ही देरके बाद, आधा मास उपसम्पन्न होनेपर, भगवान् थुल्लकोट्टितमें यथेच्छ विहारकर जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके लिये चल पड़े। क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल...० आत्म-संयमी हो^१ विहरते जल्दी ही, जिसके लिये कुल-पुत्र ठीकसे घरसे वेधर हो प्रव्रजित होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञानकर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर विहरने लगे। 'जाति (= जन्म) क्षीण हो गई, ब्रह्मचर्य-पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, और यहाँ करनेको नहीं है'—जान लिया। आयुष्मान् राष्ट्रपाल अर्हंतोंमें एक हुये।

तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल जहाँ भगवान् थे, ...जाकर, भगवान्को अभिवादनकर...एक ओर बैठे...भगवान्से बोले—

“भन्ते ! यदि भगवान् अनुज्ञा दें, तो मैं माता-पिताको दर्शन देना चाहता हूँ।”

तब भगवान्ने मनसे राष्ट्रपालके मनके विचारको जाना। जब भगवान्ने जान लिया, राष्ट्रपाल कुल-पुत्र (मिश्र-) शिक्षाको छोड़, गृहस्थ बननेके अयोग्य है, तब भगवान्ने आयुष्मान् राष्ट्रपालसे कहा—

“राष्ट्रपाल ! जिसका इस वक्त समय समझ, (वैसाकर)।”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन सँभाल (= जिम्मे लगा), पात्र-चीवर ले, जिधर थुल्लकोट्टित था, उधर चारिकाके लिये चल पड़े। क्रमशः चारिका करते जहाँ थुल्लकोट्टित था, वहाँ पहुँचे। वहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपाल थुल्लकोट्टितमें राजा कौरव्यके मिगाचीर (नामक उद्यान)में विहार करते थे।

तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल पूर्वाह्न-समय पहन कर, पात्र चीवर ले, थुल्लकोट्टितमें पिंडिके लिये प्रविष्ट हुये। थुल्लकोट्टितमें बिना ठहरे पिंडिचार करते, जहाँ अपने पिताका घर था, वहाँ पहुँचे। उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता विचली द्वारशालामें बाल बनवा रहा था। पिताने दूरसे ही आयुष्मान् राष्ट्रपालको आते देखा। देखकर कहा—‘इन मुंडकों श्रमणकोंने मेरे प्रिय = मनाप एकलौते पुत्रको प्रव्रजित कर लिया।’ तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने अपने पिताके घरमें न दान पाया, न प्रत्याख्यान (= इन्कार), बल्कि फटकार ही पाई। उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपालकी ज्ञाति-दासी वासी कुल्माप (= दाल) फेंकना चाहती थी। तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने उस ज्ञाति-दासी (= जातिवालोंकी दासी)से कहा—

“भगिनी ! यदि वासी कुल्मापको फेंकना चाहती है, तो यहाँ मेरे पात्रमें डाल दे।”

तब ० ज्ञातिदासीने उस वासी कुल्मापको आयुष्मान् राष्ट्रपालके पात्रमें डालते समय, हाथों, पैरों, और स्वरको पहिचान लिया। तब ० ज्ञाति-दासी जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपालकी माता थी, वहाँ गई; जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालकी मातासे बोली—

“अरे ! अय्या !! जानती हो, आर्यपुत्र राष्ट्रपाल आये हैं ?”

“जे ! यदि सच बोलती है, तो अदासी होगी।”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालकी माता जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता था, वहाँ... जाकर...बोली—

“अरे ! गृहपति !! जानते हो, राष्ट्रपाल कुल-पुत्र आया है ?”

^१ अ. क. “बारह वर्ष विहरते।”

उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपाल उस यासी कुम्भापको किसी नीतके सहारे (देङ्कर) खा रहे थे। आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपाल थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालसे बोला—

“तात राष्ट्रपाल ! यासी ढ़ाल खाते हो। तो तात राष्ट्रपाल ! घर चलना चाहिये।”

“गृहपति ! घर छोड़ बेघर हुये हम प्रव्रजितोंका घर कहाँ ? गृहपति ! हम बेघरके हैं। तुम्हारे घर गया था, वहाँ न दान पाया, न प्रत्याप्यान, बल्कि फटकार ही पाई।”

“आओ, तात राष्ट्रपाल ! घर चले।”

“बस गृहपति ! आज मैं भोजन कर चुका।”

“तो तात राष्ट्रपाल ! कलका भोजन स्वीकार करो।”

आयुष्मान् राष्ट्रपालने मौनमे स्वीकार किया।

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता, आयुष्मान् राष्ट्रपालकी स्त्रीकृतिको जानकर, जहाँ अपना घर था, वहाँ जाकर, हिरण्य (= भण्डारी), सुवर्णकी बड़ी राशि करवा, घटाएँने ढँकवाकर, आयुष्मान् राष्ट्रपालकी स्त्रियोंको आमंत्रित किया—

“आओ यहुओ ! जिस अलंकारसे अलंकृत हो पहिले राष्ट्रपाल कुल-पुत्रको तुम प्रिय = मनाप होती थीं, उन अलंकारोंमे अलंकृत होओ” तब आयुष्मान् राष्ट्रपालके पिताने उस रातके धीत जाने पर, अपने घरमें उत्तम पाद्य भोज्य तय्यार कर, आयुष्मान् राष्ट्रपालको काल सूचित किया—‘काल है तात राष्ट्रपाल ! भोजन तय्यार है’। तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल पूर्वाह्न समय पहिन कर, पात्र चीत्र ले जहाँ उनके पिताका घर था, वहाँ गये। जाकर द्रिटे आसन पर बैठे। तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल का पिता हिरण्य, सुवर्णकी राशिको खोल कर आयुष्मान् राष्ट्रपालसे बोला—

“तात राष्ट्रपाल ! यह तेरी माताका (= मानक) धन है, पिताका, पितामहका अन्न है। तात राष्ट्रपाल ! भोग भी भोग सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो। आओ तुम तात राष्ट्रपाल ! (मिश्र-) शिक्षा (= दीक्षा) को छोड़ गृहस्थ बन, भोगोंको भोगो, और पुण्योंको करो।”

“अदि गृहपति ! तू मेरी पात करे, तो इस हिरण्य, सुवर्ण-सुंजको गादियोपर रखा, ढ़ुलवाकर गंगा नदीकी बीच धारमें ढ़ाल दे। सो किसलिये ? गृहपति ! इसके धारण तुझे शोच = परिदेव, दुःख = दौर्मनस्य = उपायास न उत्पन्न होंगे।”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालकी प्रत्येक आर्यायें पैर पकड़ आयुष्मान् राष्ट्रपालने बोली—

“आर्यपुत्र ! कैंसी वह अप्सरायें हैं, जिनके लिये तुम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो ?”

“बहिनो ! हम अप्सराओंके लिये ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर रहे हैं।”

भगिनी (= बहिन) कहकर हमें आर्य-पुत्र राष्ट्रपाल पुकारते हैं (शोच), तब यहाँ मूर्छित हो गिर पड़ीं। तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने पिताने कहा—

“गृहपति ! यदि भोजन देना है, तो दे। हमें कष्ट मत दे।”

“भोजन करो तात राष्ट्रपाल ! भोजन तय्यार है।”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालके पिताने उत्तम क्षाप भोज्यने अपने हाथ आयुष्मान् राष्ट्रपालको संतर्पित-संप्रवारित किया। तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने भोजनकर, पात्रने हाथ ढ़टा, रंगे रंगे यह गाथायें कहीं—

“देखो (इस) विचित्र यने पिय (= आकार) को, (जो) प्रणवर्ण, नमिन्त।

आतुर, बहुरूप-संकर (है); जिसकी स्थिति स्थिर (= ध्रुव) नहीं है ।

देखो विचित्र बने रूपको, (जो) मणि और कुंडलके साथ ।

हड्डी चमड़ेसे बँधा, वस्त्रके साथ शोभता है ।

महावर लगे पैर, चूर्णक (= पौडर) पोता सुँह ।

वालक (= मूर्ख) को मोहनेमें समर्थ है, पार-गवेषीको नहीं ।

घल पड़े केश, अंजन-अंजित नेत्र ।

वालकको मोहनेमें समर्थ हैं, पारगवेषीको नहीं ।

नई विचित्र अंजन-नालीकी भाँति अलंकृत (यह) सदा शरीर ।

वालकको ० ।

व्याधाने जाल फैलाया, (किन्तु) मृग जालमें नहीं आया ।

चाराको खाकर व्याधोंके रोते (छोड़) जा रहा हूँ ।”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने खड़े खड़े इन गाथाओंको कहकर, जहाँ कौरव्यका मिगाचीर (उद्यान) था, वहाँ गये । जाकर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे ।

तब राजा कौरव्यने मिगव (नामक माली) को संबोधित किया—

“सौम्य मिगव (= मृगयु) ! मिगाचीरको साफ करो, उद्यान-भूमि = सुभूमि देखनेके लिये जाऊँगा ।”

मिगवने राजा कौरव्य को “अच्छा देव !” कह कर, मिगाचीरको साफ करते, एक वृक्षके-नीचे दिनके विहारकेलिये बैठे आयुष्मान् राष्ट्रपालको देखा । देखकर जहाँ राजा कौरव्य था, वहाँ गया; जाकर कौरव्यसे बोला—

“देव ! मिगाचीर साफ है, और वहाँ इसी थुल्लकोट्टितके अग्रकुलिकका राष्ट्रपाल नामक कुल-पुत्र, जिसकी कि आप हमेशा तारीफ करते रहते हैं, एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठा है ।”

“तो सौम्य मिगव ! आज अब उद्यान-भूमि जाने दो, आज उन्हीं आप राष्ट्रपालकी उपासना (= सत्संग) करेंगे ।”

तब राजा कौरव्य, जो कुछ खाद्य भोज्य तय्यार था, सबको ‘छोड़दो !’ कह, अच्छे अच्छे यान जुतवा, (एक) अच्छे यानपर चढ़, अच्छे अच्छे यानोंके साथ बड़े राजसी ठाटसे आयुष्मान् राष्ट्रपालके दर्शनके लिये, थुल्लकोट्टितसे निकला । जितनी यानकी भूमि थी, उतना यानसे जा, (फिर) यानसे उतर पैदलही छोटी मंडलीके साथ जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपाल थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालके साथ ‘संमोदन किया’ (और) एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये राजा कौरव्यने आयुष्मान् राष्ट्रपालसे कहा—

“आप राष्ट्रपाल यहाँ गलीचे (= हत्थत्थर) पर बैठें ।”

“नहीं महाराज ! तुम बैठो, मैं अपने आसनपर बैठा हूँ ।”

राजा कौरव्य विछे आसनपर बैठ गया । बैठकर राजा कौरव्यने आयुष्मान् राष्ट्रपालसे कहा—

“हे राष्ट्रपाल । यह चार हानियाँ (= पारिजुब्ज) हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई पुरुष केश-श्मश्रु सुँडवा, कापाय वस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रव्रजित होते हैं । कौनसे चार ? जराहानि, व्याधि-हानि, भोग-हानि, ज्ञाति-हानि । कौन है हे राष्ट्रपाल ! जराहानि ? (१) हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुरुष) जीर्ण = वृद्ध = महल्लक = अंगगत = वयःप्राप्त होता है । वह ऐसा सोचता है, मैं इस समय जीर्ण = वृद्ध ० हूँ, अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना या प्राप्त भोगोंको

भोगना सुकर नहीं है। क्यों न मैं केश-श्मश्रु मुँदाकर कापाय वस्त्र पहिन ० प्रमजित हो जाऊँ। वह उस जरा-हानिसे युक्त हो ० प्रमजित होता है। हे राष्ट्रपाल ! यह जराहानि कही जाती है। लेकिन आप राष्ट्रपाल ! तरुण, बहुत काले केशोंवाले, सुन्दर यौवनसे युक्त, प्रथम वयनके हैं। सो आप राष्ट्रपालको जरा-हानि नहीं है। आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो प्रमजित हुये ? (२) हे राष्ट्रपाल ! व्याधि-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुरुष) रोगी, दुःखी, सख्त घोमार होता है, वह ऐसा सोचता है—'मैं अद्य रोगी, दुःखी, सख्त घोमार हूँ, अद्य मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त ०। यह व्याधिहानि कही जाती है। लेकिन आप राष्ट्रपाल इतल समष्ट, व्याधि-रहित, आतंक-रहित, न-अस्ति-शीत, न-अस्ति-उष्ण, सम-विपाकवाली पाचननाकि (= प्रहणो) से युक्त हैं, सो आप राष्ट्रपालको व्याधि-हानि नहीं है ० ? (३) हे राष्ट्रपाल ! भोग-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुरुष) आर्य, महाधनी, महाभोग-वान् होता है, उसके वह भोग क्रमशः क्षय हो जाते हैं। वह ऐसा सोचता है—'मैं पहिले आर्य ० था, सो मेरे वह भोग क्रमशः क्षय हो गये; अद्य मेरे लिये अ-प्राप्त भोगोंका प्राप्त करना ०। आप राष्ट्रपाल तो इसी घृत्कोट्टिनमें अग्रह-लिकके पुत्र हैं। सो आप राष्ट्रपालको भोग-हानि नहीं है ० ? (४) हे राष्ट्रपाल ! ज्ञाति-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! किसी (पुरुष)के बहुतसे मित्र, अमात्य, ज्ञाति (= जाति), सालोहित (= रक्तसंबन्धी) होते हैं, उसके वह जातिवाले क्रमशः क्षयको प्राप्त होते हैं। वह ऐसा सोचता है—'पहिले मेरे बहुतसे मित्र-अमात्य, जाति-विरादरी थी, वह मेरी जातिवाले क्रमशः क्षय हो गये; अद्य मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना ०। लेकिन आप राष्ट्रपालके तो इसी घृत्कोट्टिनमें बहुतसे मित्र-अमात्य, जाति-विरादरी हैं। सो आप राष्ट्रपालको ज्ञाति-हानि नहीं है। आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो प्रमजित हुये ? हे राष्ट्रपाल ! यह चार हानियाँ हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई (पुरुष) केश-श्मश्रु मुँदा, कापाय-वस्त्र पहिन, घरने बेघर हो प्रमजित होते हैं, वह आप राष्ट्रपालको नहीं है। आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर घरने बेघर हो प्रमजित हुये ?”

“महाराज ! उन भगवान्, जाननहार, देखनहार, अर्हत् सम्यक्-संयुद्धने चार धर्म-उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर, देखकर, सुनकर मैं घरसे बेघर हो प्रमजित हुआ। कौनसे चार ? (१) (यह) लोक (= संसार) अधुव (है), उपनीत हो रहा है, यह उम भगवान् ० ने प्रथम धर्म-उद्देश कहा है, जिसको देखकर ० प्रमजित हुआ। (२) लोक प्राण-रहित, आभासन-रहित है ०। (३) लोक अपना नहीं है, सब छोड़कर जाना है ०। (४) लोक कमतीवाला तृष्णाका दाम्य है ०। यह महाराज ! उन भगवान् ० ने चार धर्म-उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर ० मैं ० प्रमजित हुआ।”

“उपनीत हो रहा (= ले जाया जा रहा) है, 'लोक अधुव है' आप राष्ट्रपालके इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ?”

“तो क्या मानते हो, महाराज ! ये तुम (कमी) यौस-वर्षके, पचीस-वर्षके ? (उम तुम) संग्राममें हाथीकी सवारीमें होशियार, घोड़ेकी सवारीमें होशियार, रथकी सवारीमें होशियार, धनुषमें होशियार, तलवारमें होशियार, उरसे बलिष्ठ, बाहुसे बलिष्ठ ये ?”

“यत्कि हे राष्ट्रपाल ! मानों एक समय ऋद्धिमान् हो मैं अपने बलके समान (विग्रीको) देखता ही न था।”

“तो क्या मानते हो महाराज ! आज भी संग्राममें तुम वीमे ही ० उर-बली, बाहु-बली, सामर्थ्य-युक्त हो ?”

“नहीं हे राष्ट्रपाल ! इत वक्त मैं जीर्ण-वृद्ध ० हूँ, अस्ती-वर्षकी मेरी उम है। यत्कि एक

समय हे राष्ट्रपाल ! मैं 'यहाँ तक पैर (= पाद) रखूँ' (विचार) दूसरे (समय) चौथाई ही (दूर तक) रख सकता हूँ ।”

“महाराज ! उन भगवान् ० ने इसीको सोचकर कहा—‘उपनीत हो रहा है, लोक अधुव है,’ जिनको जानकर ० मैं ० प्रव्रजित हुआ ।”

“आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !! जो यह उन भगवान् ० का सुभाषित—‘उपनीत हो रहा है ० (=ले जाया जा रहा है), लोक अधुव है’ हे राष्ट्रपाल ! इस राज-कुलमें हस्ति-काय (काय = समुदाय) भी हैं, अश्व-काय भी, रथ-काय भी, पदाति-काय भी, जो हमारी आपत्तियोंमें युद्धके लिये हैं । ‘लोक त्राण-रहित, आश्वासन-रहित है’ यह (जो) आप राष्ट्रपालने कहा ? हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ?”

“तो क्या मानते हो महाराज ! है तुम्हें कोई आनुशायिक (= साथ रहनेवाली) बीमारी ?”

“हे राष्ट्रपाल ! मुझे आनुशायिक वायुरोग है । वल्कि एकवार तो मित्र-अमात्य जाति-विरादरी धेरकर खड़ी थी,—‘अव राजा कौरव्य मरेगा’ । ‘अव राजा कौरव्य मरेगा’ ।

“तो क्या मानते हो महाराज ! क्या तुमने मित्र-अमात्यों, जाति-विरादरीको पाया—‘आवे आप मेरे मित्र-अमात्य ०, सभी सत्त्व (= प्राणी), इस पीड़ाको वाँट लें, जिसमें मैं हल्की पीड़ा पाऊँ’, या तुमनेही उस वेदनाको सहा ?”

“राष्ट्रपाल ! उन मित्र अमात्यों ० मैंने नहीं पाया ०, वल्कि मैं ही उस वेदनाको सहता था ।”

“महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान् ० ने ० ।”

“आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !! ० । हे राष्ट्रपाल ! इस राजकुलमें बहुतसा हिरण्य (= अशर्फी) सुवर्ण भूमि और आकाशमें है । ‘लोक अपना नहीं (= अस्वक) है, सब छोड़कर जाना है’ यह आप राष्ट्रपालने कहा । हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ?”

“तो क्या मानते हो महाराज ! जैसे तुम आज कल पाँच काम गुणोंसे युक्त = समंगीभूत विचरते हो, वाद (जन्मान्तर)में भी तुम (उन्हें) पाओगे—‘ऐसेही मैं पाँच काम-गुणोंसे युक्त ० विचरूँ, या दूसरे इस भोगको पायेंगे ; और तुम अपने कर्मानुसार जाओगे ?”

“राष्ट्रपाल ! जैसे मैं इस वक्त पाँच काम-गुणोंसे युक्त ० विचरता हूँ, याद (= जन्मान्तर) में भी ऐसे ही मैं इन काम-गुणोंसे युक्त ० विचरने न पाऊँगा । वल्कि दूसरे इस भोगको लेंगे, मैं अपने कर्मानुसार जाऊँगा ।”

“महाराज इसीको सोचकर उन भगवान् ० ने ० ।”

“आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !! ० । ‘लोक कमतीवाला तृष्णाका दास है’ यह आप राष्ट्रपालने जो कहा ! हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका कैसे अर्थ समझना चाहिये ?”

“तो क्या मानते हो महाराज ! समृद्ध कुरु (देश)का स्वामित्व कर रहे हो ?”

“हाँ, हे राष्ट्रपाल ! समृद्ध कुरुका स्वामित्व कर रहा हूँ ।”

“तो क्या मानते हो महाराज ! तुम्हारा एक श्रद्धेय विश्वास-पात्र पुरुष पूर्व दिशासे आवे, वह तुम्हारे पास आकर ऐसा बोले—हे महाराज ! जानते हो, मैं पूर्व-दिशासे आ रहा हूँ । वहाँ मैंने बहुत समृद्ध = स्फीत, बहुत जनोंवाला, मनुष्योंसे आकीर्ण जनपद (= देश) देखा । वहाँ

यहुत हस्तिकाय, अश्रुकाय, रथकाय, पत्ति (= पैदल) -काय हैं। वहाँ बहुत दाँत, नृगचर्म हैं। वहाँ बहुत सा कृत्रिम-अकृत्रिम हिरण्य, सुवर्ण है। बहुत सी स्त्रियाँ प्राप्त होती हैं। वह इतनी ही सेनासे जीता जा सकता है; जीतिये महाराज !” तो क्या करोगे ?”

“हे राष्ट्रपाल ! उसे भी जीतकर मैं स्वामित्व करूँगा ।”

“तो क्या मानते हो महाराज ! • विश्वासपात्र पुरुष पश्चिम-दिशासे आवे • ।” • ।

“• उत्तर दिशासे • ।” • । “दक्षिण दिशासे • ।” • ।

“महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान् • ने • • ।”

आश्चर्य ! राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !!”

आयुष्मान् राष्ट्रपालने यह कहा । यह कहकर फिर यह भी कहा—

“लोकमें धनवान् मनुष्योंको देखता हूँ, (जो) वित्त पाकर मोहमे दान नहीं करते । लोभी हो धनका संचय करते हैं, और भी अधिक कामों (= मोगों) की चाह करते हैं ॥ १ ॥

“राजा बलपूर्वक पृथ्वीको जीत, सागर-पर्यन्त महीपर शासन करते । समुद्रके इस पारसे तू न हो, समुद्रके उस पारको भी चाहता है ॥ २ ॥

“राजाहीकी भाँति दूसरे बहुतसे पुरुष भी तृष्णा-रहित न हो मरण पाते हैं । कमतीवाले होकर ही शरीर छोड़ते हैं, लोकमें (किसी की) कामोंसे तृप्ति नहीं है ॥ ३ ॥

“जाति बाल बिखेरकर क्रन्दन करती है, और कहती है ‘हाय हमारा मर गया’ वस्त्रमें ढाँककर उसे लेजाकर, चितापर रखकर फिर जला देते हैं ॥ ४ ॥

“वह शूलसे झूँचा जाता, मोगोंको छोड़ एक वस्त्रके साथ जलाया जाता है । मरनेवालेके ज्ञाति-मित्र = सहाय रक्षक नहीं होते ॥ ५ ॥

“दायाद उसके धनको हरते हैं, प्राणी तो जहाँ कर्म है (वहाँ) जाता है । मरते हुयेके पीछे, पुत्र, दारा, धन, और राज्य नहीं जाता ॥ ६ ॥

“धन द्वारा लम्बी आयु नहीं पा सकता है, और न वित्त द्वारा जराको नाशकर सकता है । धीरोंने इस जीवनको स्वल्प, अ-शाश्वत, अंगुर कहा है ॥ ७ ॥

“धनी और दरिद्र (काम)-स्पर्शोंको छूते हैं, बाल और धीर (= पंडित) भी पँतेही हैं । बाल (= मूर्ख) मूर्खतासे विचलित हो पड़ता है, किंतु धीर स्पर्श-स्पृष्ट हो नहीं विचलित होता ॥ ८ ॥

“इसलिये धनसे प्रज्ञाही श्रेष्ठ है, जिससे कि (तत्त्व-) निश्चयको प्राप्त होता है । मुक्त न होनेसे वह मोहवशा आवागमनमें (पड़े) पाप कर्मोंको करते हैं ॥ ९ ॥

“(वह) लगातार संसार (= भवसागर)में पडकर गर्भ और परलोकको पाता है । अल्प-प्रज्ञावान् उसपर विश्वास कर गर्भ और परलोकको पाता रहता है ॥ १० ॥

“लेंघके ऊपर पकड़ा गया पापी चोर, जैसे अपने कामने मारा जाता है । इन्ही प्रकार पापी जनता मरकर दूसरे लोकमें अपने कामसे मारी जाती है ॥ ११ ॥

“विचित्र मधुर मनोरम काम (= भोग) नाना रूपसे चित्तको मयते हैं । इसलिये काम-भोगोंके दुष्परिणामको देखकर हे राजन् ! मैं प्रमजित हुआ हूँ ॥ १२ ॥

“वृक्षके फलकी भाँति तरुण और वृद्ध मनुष्य शरीर छोड़कर गिरते हैं । ऐसे भी देखकर प्रमजित हुआ ; (क्योंकि) न गिरनेवाला भिक्षुपन (= क्षामण्य) ही श्रेष्ठ है ॥ १३ ॥

८३—मखादेव-सुत्तन्त (२।४।३)

कल्याण-मार्ग

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् मिथिलामें मखादेव-आम्रवनमें विहार करते थे ।

एक जगह पर भगवान् मुस्करा उठे । तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—‘भगवान्के मुस्करानेका क्या कारण है ? क्या वजह है ? तथागत विना कारणके नहीं मुस्कराते । तब आयुष्मान् आनन्द चीवरको एक कंधेपर कर, जिधर भगवान् थे, उधर हाथ-जोड़ भगवान्से बोले—

“भन्ते ! भगवान्के मुस्करानेका क्या कारण है ० ?”

“आनन्द ! पूर्वकालमें इसी मिथिलामें मखादेव नामक धार्मिक, धर्म-राजा, राजा हुआ था । (वह) धर्ममें स्थित महाराजा, ब्राह्मणोंमें, गृहपतियोंमें निगमोंमें, (= कस्वों, नगरों)में जनपदों (= दीहातों)में धर्मसे वर्तता था । चतुर्दशी (= अमावास्या) पंचदशी पूर्णिमा, और पक्षकी अष्टमियोंको उपोसथ (= उपवासव्रत) रखता था । ...

“(उसने अपने शिरमें पके बाल देख) ज्येष्ठ पुत्र कुमारको...बुलवाकर कहा—

“तात ! कुमार ! मेरे देवदूत प्रकट होगये, शिरमें पके केश दिखाई पड़ रहे हैं । मैंने मानुष-कास (= भोग) भोग लिये अब दिव्य-भोगोंके खोजनेका समय है । आओ तात ! कुमार ! इस राज्यको तुम लो । मैं केश-श्मश्रु सुँड़ा, कापाय-वस्त्र पहिन, घरसे वेधर हो प्रव्रजित होऊँगा । सो तात ! जब तुम भी शिरमें पके बाल देखना, तो हजामको एक गाँव इनाम (= वर) दे, ज्येष्ठ-पुत्र कुमारको अच्छी प्रकार राज्यपर अनुशासन कर, केश-श्मश्रु सुँड़ा, वस्त्र पहिन ० प्रव्रजित होना । जिसमें यह मेरा स्थापित कल्याणवर्त्म (कल्याण-व्रट्ट) अनुप्रवर्तित रहे; तुम मेरे अन्तिम पुरुष मत होना । तात कुमार ! जिस पुरुष युगलके वर्तमान रहते इस प्रकारके कल्याण-वर्त्म (-मार्ग) का उच्छेद होता है, वह उनका अन्तिम पुरुष होता है ।”

“तब आनन्द ! राजा मखादेव नाईको एक गाँव इनाम दे, ज्येष्ठ-पुत्र कुमारको अच्छी तरह राज्यानुशासन कर, इसी मखादेव-अम्यवनमें शिर-दाढ़ी सुँड़ा ० प्रव्रजित हुआ । ...चह चार ब्रह्म-विहारोंकी भावनाकर शरीर छोड़ मरनेके बाद ब्रह्मलोकको प्राप्त हुआ । ...

“आनन्द ! राजा मखादेवके पुत्रनेमी... , राज मखादेवकी... परम्परामें पुत्र पौत्र आदि... इसी मखादेव-अम्यवनमें केश-श्मश्रु सुँड़ा... प्रव्रजित हुये । ... । निमि उन राजाओंका अन्तिम धार्मिक, धर्म-राजा, धर्ममें स्थित महाराजा हुआ । ... ।

“आनन्द ! पूर्वकालमें सुधर्मा नामक सभामें एकत्रित हुये त्रायविंश देवोंके बीचमें यह

^१ मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा नामक चार भावनायें ।

यात उत्पन्न हुई—‘लाम है अहो ! विदेहोंको, सुन्दर लाम हुआ है विदेहोंको; जिनका... निमि जैसा धार्मिक, धर्म-राजा, धर्म-स्थित महाराजा है; ... निमि भी आनन्द ! ... इसी मखादेव-अन्य-वर्त-में... प्रव्रजित हुआ...’।

“आनन्द ! राजा ^१ निमिका कलार-जनक नामक पुत्र हुआ । वह घर छोड़ घेघर हो प्रव्रजित नहीं हुआ । उसने उस कल्याण वर्त्मको उच्छिन्न कर दिया । वह उनका अन्तिम-पुरुष हुआ । ...”

“आनन्द ! इस समय मैंने भी यह कल्याण-वर्त्म स्थापित किया है; (जो कि) पुरात-निर्वेदके लिये, धिरागके लिये, निरोधके लिये=उपशमके लिये, अभिज्ञाके लिये, संयोगि (= बुद्धिमान) के लिये, निर्वाणके लिये है—(वह) यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है—जैने कि-सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वाक् ० कर्मान्त, ० आजीव, ० ध्यायाम, ० स्मृति, सम्यक्-समाधि । यह आनन्द ! मैंने कल्याण-वर्त्म स्थापित किया है ० । सो आनन्द ! मैं यह कहता हूँ ‘जिनमें तुम इस मेरे स्थापित कल्याण-मार्गको अनुप्रवर्तित करना (= चलाते रहा); तुम मेरे अन्तिम-पुरष मत होना...’।

भगवान् ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मात् आनन्दने भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया ।



^१ गगा, गंडक, कोती, हिमालयके बीचका प्रदेश (तिहुँत) ।

८४—माधुरिय-सुत्तन्त (२।४।४)

वर्ण-व्यवस्था (= जातिवाद) का खंडन

ऐसा मैंने सुना—

एक समय आयुष्मान् महाकात्यायन मथुरा (= मथुरा) में गुन्दवनमें विहार करते थे। मथुर (मथुराके) राजा अवन्तिपुत्र^१ ने सुना, कि श्रमण कात्यायन मथुरामें गुन्दवनमें विहार कर रहे हैं। उन आप कात्यायनका ऐसा कल्याण कीर्तिशब्द (= यश) उठा हुआ है—‘वह (श्रमण कात्यायन) पंडित = व्यक्त, मेधावी, बहुश्रुत, चित्तकथी कल्याण-प्रतिमावान बुद्ध हैं और अर्हत् हैं। ऐसे अर्हतोंका दर्शन अच्छा होता है।’

तब मथुर राजा अवन्तिपुत्र उत्तमोत्तम यानोंको जुतवाकर ०^२ आयुष्मान् महाकात्यायनके दर्शनार्थ मथुरासे निकला। जितना यानका रास्ता था, उतना यानसे जा, (फिर) यानसे उतर पैदल ही, जहाँ आयुष्मान् महाकात्यायन थे, वहाँ जाकर आयुष्मान् महाकात्यायनके साथ सम्मोदन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे ० राजा अवन्तिपुत्रने आयुष्मान् महाकात्यायनसे यह कहा—

“भो कात्यायन ! ब्राह्मण कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठवर्ण है, और वर्ण हीन (= नीच) हैं; ब्राह्मण ही शुद्धवर्ण है, और वर्ण कृष्ण हैं; ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अब्राह्मण नहीं ०^३ ब्रह्माके दायाद हैं।”

(१) “तो क्या मानते हो, महाराज ! यदि क्षत्रिय (अपने) धन-धान्य-चाँदी-सोनासे (करना) चाहे, तो उसका पूर्व-उत्थायी-पश्चात्-निपाती (= मालिकसे पहले उठनेवाला, मालिकके सो जानेके बाद सोनेवाला नौकर), क्या-काम है—पूछनेवाला, मनापचारी (= मनके अनुकूल करनेवाला), प्रियवादी क्षत्रिय भी होगा न ? ब्राह्मण भी ० ? वैश्य भी ० ? शूद्र भी ० ?”

“हे कात्यायन ! यदि क्षत्रिय ० चाहे, तो क्षत्रिय भी उसका प्रियवादी होगा; ब्राह्मण ०; वैश्य भी ०; शूद्र भी ०।”

“तो क्या मानते हो, महाराज ! ब्राह्मण यदि (अपने) धन ० से करना चाहे, तो ब्राह्मण भी उसका ० प्रियवादी होगा न ? वैश्य भी ० ? शूद्र भी ० ? क्षत्रिय भी ० ?”

“हे कात्यायन ! यदि ब्राह्मण ० चाहे, तो ब्राह्मण भी उसका ० प्रियवादी होगा; वैश्य भी ०; शूद्र भी ०; क्षत्रिय भी ०।”

“ ० महाराज ! वैश्य यदि ० चाहे ० ?”

“हे कात्यायन ! यदि वैश्य ० चाहे, तो वैश्य भी उसका ० प्रियवादी होगा; शूद्र भी ०;

^१ यह अवन्तीव्रत प्रद्योतकी कन्याका पुत्र था (अ. क.)। ^२ देखो पृष्ठ ३३४।

^३ देखो पृष्ठ ३८७।

क्षत्रिय भी ०; ब्राह्मण भी ० ।”

“० महाराज ! शूद्र यदि (अपने) घन ० से (करना) चाहे ० ?”

“हे कात्यायन ! यदि शूद्र ० चाहे, तो शूद्र भी उसका ० प्रियवादी होगा; क्षत्रिय भी ०; ब्राह्मण भी; वैश्य भी ० ।”

“तो क्या मानते हो महाराज ! ऐसा होने पर चारों वर्ण सम-सम (= बराबर) होने हैं या नहीं ? यहाँ तुम्हें कैसा होता है ?”

“जरूर हे कात्यायन ! ऐसा होनेपर चारोंवर्ण सम-सम होते हैं, यहाँ कोई भेद मैं नहीं देखता ।”

“इस प्रकारसे भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लोकमें यह दृष्टा (= घोष) ही भर है—‘ब्राह्मण ही श्रेष्ठवर्ण है ० ब्रह्माके दायाद हैं ।’”

(२) “तो क्या मानते हो, महाराज ! यहाँ क्षत्रिय प्राणि-हिंसक, चोर, दुराचारी ०’ मिथ्यादृष्टि हो; (तो क्या) काया छोड़ मरनेके याद ०’ नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ तुम्हें कैसा होता है ?”

“हे कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि प्राणिहिंसक ० हो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा; ऐसा सुझे होता है; अर्हत्तोसे भी मैंने यह सुना है ।”

“साधु, साधु (ठीक), महाराज ! ठीक ही तुम्हें महाराज ! ऐसा हो रहा है; और तुमने ठीक इसे अर्हत्तोसे सुना है ।”

“तो क्या मानते हो महाराज ! यहाँ ब्राह्मण प्राणि-हिंसक ० । ० वैश्य प्राणि-हिंसक ० ० शूद्र प्राणि-हिंसक ०; हो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ तुम्हें कैसा होना है ?”

“हे कात्यायन ! शूद्र भी ० यदि प्राणि-हिंसक ० हो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा; ऐसा सुझे होता है; अर्हत्तोसे भी मैंने यह सुना है ।”

“साधु, साधु, महाराज ! ठीक ही महाराज ! तुम्हें ऐसा हो रहा है, और तुमने ठीक इसे अर्हत्तोसे सुना है ।

“तो क्या मानते हो, महाराज ! ऐसा होने पर यह चारों वर्ण सम-सम होने हैं या नहीं ? यहाँ तुम्हें कैसा होता है ?”

“जरूर, हे कात्यायन ! ऐसा होनेपर यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं; यहाँ कोई भेद मैं नहीं देखता ।”

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लोकमें यह दृष्टा ही भर है—‘ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० ब्रह्माके दायाद हैं ।’

(३) “तो क्या मानते हो महाराज ! यहाँ कोई क्षत्रिय प्राणातिपातसे विरत हो, काम मिथ्याचार (= दुराचार) से विरत हो, मृपावाद ०, सुगली ०, ऋट वचन, पक्कादने विरत हो, अलोमी अ-द्वेषी, सन्यग्-दृष्टि (= सच्ची धारणावाला) हो; नो शरीरको छोड़ मरनेके याद (याद) सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ तुम्हें कैसा होता है ?

“हे कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि प्राणातिपातसे विरत हो, ० सन्यग्-दृष्टि हो; तो ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा । ऐसा सुझे होता है । अर्हत्तोसे भी मैंने यह सुना है ।”

“साधु, साधु महाराज ! ० तुमने ठीक ही इसे अर्हत्तोसे सुना है ।

“तो क्या मानते हो महाराज ! यहाँ कोई ब्राह्मण ० । ० यहाँ कोई वैश्य ० । ० यहाँ कोई शूद्र प्राणातिपातसे विरत हो ० सम्यग्-दृष्टि हो; तो ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? ० ।

“ ० उत्पन्न होगा ० । ”

“साधु, साधु, महाराज ! ० । ”

“ ० महाराज ! ऐसा होने पर यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं या नहीं ? ० ? ”

“जरूर, भो कात्यायन ! ० । ”

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लोकमें यह हल्ला ही भर है—
‘ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० ब्रह्माके दायाद हैं’ ।

“तो क्या मानते हो महाराज ! कोई क्षत्रिय सेंध मारे, गाँव लूटे, चोरी करे, घटमारी करे, परस्त्रीगमन करे, उसे (राज-) पुरुष पकड़कर तुझे दिखलावें—‘देव ! यह तेरा चोर है अपराधी है, इसको जो इच्छा हो वह दंड दे’; तो तू उसे क्या करेगा ?”

“हे कात्यायन ! मैं उसे प्राणदंड या काराबंधन या देश-निर्वासका दंड दूँगा, या जैसा कारण होगा वैसा करूँगा । सो किस हेतु ?—हे कात्यायन ! जो उसकी पहिले क्षत्रिय संज्ञा थी, वह अब अन्तर्धान हो गई; (अब) चोर ही उसकी संज्ञा है ।”

“तो क्या मानते हो महाराज ! कोई ब्राह्मण ० । ० वैश्य ० । ० शूद्र सेंध मारे ० तो तू उसे क्या करेगा ?”

“हे कात्यायन ! मैं उसे ० दंड दूँगा, ० (अब) चोर ही उसका नाम है ।”

“तो क्या मानते हो, महाराज ! ऐसा होने पर, यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं या नहीं ? ० ? ”

“जरूर; हे कात्यायन ! ० । ”

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लोकमें यह हल्ला ही भर है—
‘ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० ब्रह्माके दायाद हैं’ । (४) “तो क्या मानते हो, महाराज ! यहाँ कोई क्षत्रिय केश-दाढ़ी मुँडा कर कापाय वस्त्र पहिन घरसे बेघर (= अनागारिक) हो प्रव्रजित (= संन्यासी) हो; (वह) प्राणातिपातसे विरत, अदत्तादान ०, मृषावादसे विरत हो, एकाहारी ब्रह्मचारी, शीलवान् (= सदाचारी) कल्याणधर्मा हो; तो उसके साथ तू क्या करेगा ?”

“हे कात्यायन ! अभिवादन, प्रत्युत्थान करेंगे, धासन देंगे, चीवर-पिंडपात (= भिक्षा) शयन-आसन-नलान-प्रत्यय (= पथ्य)-भैषज्य (= दवा) प्रदान करेंगे, उसकी धार्मिक रक्षा=वरण = गुप्ति सम्पादित करेंगे । सो किस हेतु ?—हे कात्यायन ! जो उसकी पहिले क्षत्रिय संज्ञा थी, वह अब अन्तर्धान हो गई; (अब) श्रमणही उसकी संज्ञा है ।”

“ ० महाराज ! कोई ब्राह्मण ० । ० वैश्य ० । ० शूद्र केशदाढ़ी मुँडा कर ० प्रव्रजित हो; ० कल्याण-धर्मा (= पुण्यात्मा) हो; तो उसके साथ तू क्या करेगा ?”

“हे कात्यायन ! अभिवादन ० ‘करेंगे ० उसकी धार्मिक रक्षा ० संपादित करेंगे । सो किस हेतु ?—हे कात्यायन ! जो उसकी शूद्र संज्ञा थी, वह अब अन्तर्धान हो गई; अब श्रमण ही उसकी संज्ञा है ।”

“तो क्या मानते हो, महाराज ! ऐसा होने पर चारों वर्ण सम-सम होते हैं, या नहीं ? ० ? ”

“जरूर, हे कात्यायन ! ० । ”

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लोकमें यह हल्ला ही भर है—
‘ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० ब्रह्माके दायाद हैं’ ।”

ऐसा कहनेपर ० राजा अर्चतिपुत्रने आयुष्मान् महाकात्यायनसे यह कहा—

“आश्चर्य ! हे कात्यायन ! आश्चर्य !! हे कात्यायन ! जैसे आँधेको सीधा करदे ०^१ देने हो आप कात्यायनने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया; यह मैं आप कात्यायन की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आप कात्यायन आजसे मुझे अंजलियद्द शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”

“मत तुम, महाराज ! मेरी शरण जाओ । उसी भगवान्की तुम भी शरण जाओ, जिसकी शरण मैं गया हूँ ।”

“हे कात्यायन ! वह भगवान् अर्हत्, सम्यक्-संबुद्ध इस समय कहाँ विहार कर रहे हैं ?”

“महाराज ! वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध अब निर्वाणको प्राप्त हो गये ।”

“हे कात्यायन ! यदि उन भगवान्को दस योजन पर सुन पाते, तो हम दस योजन भी उन भगवान् ० के सम्बुद्धके दर्शनके लिये जाते ! ० दस योजन ० । ० तीस योजन ० । ० चालीस योजन ० । ० पचास योजन ० । ० सौ योजन ० । चूँकि हे कात्यायन ! वह भगवान् निर्वाणको प्राप्त हो गये, तो निर्वाण-प्राप्त भी उन भगवान्की हम शरण जाते हैं, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे आप कात्यायन मुझे अंजलियद्द शरणागत उपासक धारण करें ।

८५—बोधि-राजकुमार-सुत्तन्त (२।४।५)

बुद्ध-जीवनी (गृहत्यागसे बुद्धत्व-प्राप्ति तक)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् भर्ग (देश)में ^१सुंसुमारगिरिके भेस-कला-चन, मृगदावमें विहार करते थे । उस समय बोधि-राजकुमारने श्रमण या ब्राह्मण या किसी भी मनुष्यसे न भोगे कोक-नद नामक प्रासादको हालहीमें बनवाया था । तब बोधि-राजकुमारने संजिका-पुत्र ^२माणवकको संबोधित किया—

“आओ तुम सौम्य ! संजिका-पुत्र ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे, भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दनाकर, आरोग्य, अन्-आतंक, लघु-उत्थान (= शरीरकी कार्य-क्षमता) बल, अनुकूल विहार, पूछो—‘भन्ते ! बोधि-राजकुमार भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना कर आरोग्य ० पूछता है’ । और यह भी कहो—‘भन्ते ! भिक्षु-संघसहित भगवान्, बोधि-राजकुमार-का कलका भोजन स्वीकार करें ।’”

“अच्छा हो (= भो)’ कह संजिका-पुत्र माणवक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्से... (कुशल प्रश्न)...पूछ, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर संजिका-पुत्र माणवकने भगवान्से कहा—‘भो गौतम ! बोधि-राजकुमार आपके चरणोंमें ० । ० बोधिराज-कुमारका कलका भोजन स्वीकार करें ।’”

भगवान्ने भौन द्वारा स्वीकार किया । तब संजिका-पुत्र माणवक भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठ जहाँ बोधि-राजकुमार था, वहाँ गया । जाकर बोधि-राजकुमारसे बोला—

“आपके वचनसे मैंने उन गौतमसे कहा—‘भो गौतम ! बोधि-राजकुमार ० । श्रमण गौतमने स्वीकार किया ।’”

तब बोधि-राजकुमारने उस रातके वीतनेपर अपने घरमें उत्तम खादनीय-भोजनीय (पदार्थ) तैयार करवा, कोकनद-प्रासादको सफेद (= अवदात) धुल्लोंसे सीढ़ीके नीचे तक बिछवा, संजिका-पुत्र माणवकको संबोधित किया—

“आओ सौम्य ! संजिका-पुत्र ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाकर भगवान्से काल कहो—‘भन्ते ! काल है, मात (= भोजन) तैयार हो गया ।’”

“अच्छा मो !”...काल कहा... ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले, जहाँ बोधि-राजकुमारका घर (= निवेशन) था, वहाँ गये । उस समय बोधि-राजकुमार भगवान्की प्रतीक्षा करता हुआ, द्वार-क्रोष्ठक

^१ चुनार (? जि० मिर्जापुर) ।

^२ ब्राह्मण-तरुण ।

(= नौयतखाना) के बाहर खड़ा था । योधि-राजकुमारने दूरसे भगवान्‌को भाते देखा । दम्पते ही अगवानी कर भगवान्‌की वन्दनाकर, आगे आगे करके जहाँ कोंकनद-प्रासाद था, वहाँ ले गया । तब भगवान्‌ निचली सीढ़ीके पास खड़े हो गये । योधि-राजकुमारने भगवान्‌से कहा—“भन्ते! भगवान्‌ धुल्लोंपर चलें । सुगत! धुल्लोंपर चलें, ताकि (यह) चिरकाल तक मेरे हित और सुखके लिये हो ।”

ऐसा कहनेपर भगवान्‌ चुप रहे ।

दूसरी पार भी योधि-राजकुमारने० । तीसरी पार भी ० ।

तब भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनन्दकी ओर देखा । आयुष्मान्‌ आनन्दने योधि-राजकुमारसे कहा—

“राजकुमार ! धुल्लोंको समेट लो । भगवान्‌ पाँवड़े (= चैल-पंक्ति) पर न चढ़ेंगे । तथागत धानेवाली जनताका ब्याल कर रहे हैं ।”

योधि-राजकुमारने धुल्लोंको समेटया कर, कोंकनद-प्रासादके ऊपर आसन पिटवाये । भगवान्‌ कोंकनद-प्रासादपर चढ़, संघके साथ पिछे आसनपर बैठे । तब योधि-राजकुमारने बुद्धप्रमुष भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम खादनीय भोजनीय (पदार्थों) से संतर्पित किया, संतुष्ट किया । भगवान्‌के भोजन कर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, योधिराजकुमार एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये योधि-राजकुमारने भगवान्‌ने कहा—

“भन्ते ! मुझे ऐसा होता है, कि सुखमें सुख प्राप्य नहीं, दुःखमें सुख प्राप्य है ।”

“राजकुमार ! योधिसे पहिले = बुद्ध न हो योधि-सत्त्व होते समय, मुझे भी यही होता था—‘सुखमें सुख प्राप्य नहीं है, दुःखमें सुख प्राप्य है ।’ इसलिये राजकुमार ! मैं उस समय दहर (= नव-वयस्क) ही, यहूत काले काले केशवाला, सुन्दर (= मद्र) यौवनके साथ ही, प्रथम वयसमें, माता-पिताके अश्रुमुख होते, घरसे बेघर हो प्रब्रजित हुआ । इस प्रकार प्रमजित हो, जहाँ आलार-कालाम था, वहाँ गया । जाकर आलार-कालामसे कहा—‘आयुस कालाम ! इस धर्मविनयमें मैं ब्रह्मचर्य-वाल करना चाहता हूँ ।’ ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलार-कालामने मुझे कहा—‘विहरो आयुष्मान्‌ ! यह ऐसा धर्म है, जिसमें विद्म (= जानकार) पुरुष जल्द ही अपने आचार्यत्वको स्वयं जान कर = साक्षात् कर = प्राप्त कर विहार करेगा ।’ सो मैंने जल्द ही = क्षिप्र ही उस धर्म (= यात) को पूरा कर लिया । तब मैं उतने ही थोड़े-थुये मात्र = कहने कहाने मात्रसे, ज्ञानवाद और स्थविरवाद (= वृद्धोंका सिद्धान्त) कहने लगा—‘मैं जानता हूँ, देयता हूँ...’ । तब मेरे मनमें ऐसा हुआ—आलार-कालामने ‘इस धर्मको केवल श्रद्धासे स्वयं जान-कर = साक्षात् कर = प्राप्त कर, मैं विहरता हूँ’ यह मुझे नहीं पतलाया । जल्द आलार-कालाम इस धर्मको जानता देखता विहरता होगा । तब मैं जहाँ आलार-कालाम था, वहाँ गया । जापर आलार-कालामसे पूछा—‘आयुस कालाम ! तुम इस धर्मको स्वयं जान कर = साक्षात् कर = प्राप्त-कर (= उपसंपद्य) कहाँ पर्यन्त पतलाते हो ?’ ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलार-कालामने ‘आर्किचन्यायतन’ पतलाया ।

तब मुझे ऐसा हुआ—‘आलार-कालाम ही के पास श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है । आलार-कालामहीके पास धीर्य नहीं ० । ० सृष्टि ० । ० समाधि ० । ० प्रज्ञा ० । ० ब्रह्म ० । ० न, जिस धर्मको आलार-कालाम—‘स्वयं जान कर = साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरता हूँ’ करता है, उस धर्मको साक्षात्कार करनेके लिये मैं भी उद्योग करूँ । सो मैं यिना देर किये = क्षिप्र ही उस धर्मको स्वयं जान कर = साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरने लगा । तब मैंने राजकुमार !...आलार-कालामसे कहा—‘आयुस कालाम ! तुम इतना ही इस धर्मको स्वयं जान कर ० हम एगोंको पतलाते हो ?’—‘आयुस ! मैं इतना ही इस धर्मको स्वयं जान कर ० पतलाता हूँ ।’ आयुस !

इतना तो 'मैं भी इस धर्मको स्वयं जान कर ० विहरता हूँ ।' आवुस ! हमें लाम ! हमें सुलाम मिला, जो हम आयुष्मान् जैसे स-ब्रह्मचारी (= गुरु-भाई) को देखते हैं।... मैं जिस धर्मको स्वयं जान कर ० बतलाता (= उपदेश करता) हूँ; तुम भी उसी धर्मको स्वयं जान ० विहरते हो, तुम जिस धर्मको स्वयं ०; मैं भी उसी धर्मको ० । इस प्रकार मैं जिस धर्मको जानता हूँ, उस धर्मको तुम जानते हो । जिस धर्मको तुम जानते हो, उस धर्मको मैं जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुम, वैसा मैं; जैसा मैं, वैसे तुम हो । आवुस ! आओ अब हम दोनों ही इस गण (= जमात) को धारण करें ।' इस तरह मेरा आचार्य होते हुये भी, आलार-कालामने मुझ अन्तेवासी (= शिष्य) को अपने बराबरके स्थानपर स्थापित किया; बड़े सत्कार (= पूजा) से सत्कृत किया । तब मुझे यों हुआ—'यह धर्म न निर्वेद (= उदासीनता) के लिये है, न वैराग्यके लिये, न निरोधके लिये, न उपशम (= शांति) के लिये, न अभिज्ञा (= दिव्य-शक्ति) के लिये, न सम्बोधि (= परमज्ञान) के लिये, न निर्वाणके लिये है; 'आर्किचन्यायतन' तक उत्पन्न होनेहीके लिये (यह) है । सो मैं राजकुमार ! उस धर्मको अपर्याप्त मान, उस धर्मसे उदास हो चल दिया ।

“सो राजकुमार ! मैं 'क्या कुशल (= अच्छा) है' की गवेषणा करता, सर्वोत्तम श्रेष्ठ शान्तिपदको खोजता, जहाँ उद्दक राम-पुत्र था, वहाँ गया । जाकर उद्दक (= उद्दक) राम-पुत्रसे बोला—'आवुस ! इस धर्म-विनयमें मैं ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूँ ।' ऐसा कहनेपर राज-कुमार ! उद्दक राम-पुत्र मुझसे बोला—

“विहरो आयुष्मान् ! यह वैसा धर्म है, जिसमें विज्ञ पुरुष जल्दही अपने आचार्यस्वको, स्वयं जान कर = साक्षात् कर = प्राप्त कर विहार करेगा' । सो मैंने तुरन्त क्षिप्रही उस धर्मको पूरा कर लिया । सो मैं उतनेही ओठ-ढुये-मात्र = कहने कहाने मात्रसे ज्ञानवाद, और स्थविर-वाद कहने लगा—'मैं जानता हूँ, देखता हूँ'... । तब मुझे ऐसा हुआ—रामने मुझे यह न बतलाया 'मैं इस धर्मको केवल श्रद्धासे, स्वयं जान कर = साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरता हूँ' । जरूर राम इस धर्मको जानते देखते विहरता होगा । तब... उद्दक रामपुत्रसे मैंने पूछा—'आवुस रामपुत्र ! इस धर्मको स्वयं जान ० ० बतलाते हो ?' ऐसा कहने पर ! उद्दक राम-पुत्रने 'नैवसंज्ञा-नासंज्ञा-यतन' बतलाया । तब मेरे (मन)में हुआ—'उद्दक रामपुत्रके पासही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है ० । क्यों न ० । इस तरह मेरा आचार्य होते हुये उद्दक रामपुत्रने मुझ अन्तेवासीको अपने बराबरके स्थानपर स्थापित किया ० । ० सो मैं ! उस धर्मसे उदास हो चल दिया ।

“राजकुमार ! 'क्या अच्छा है' की गवेषणा करता (= किंकुसल-गवेली), सर्वोत्तम, श्रेष्ठ शान्तिपद को खोजते हुए, भगध में क्रमशः चारिका करते, जहाँ उरुवेला सेनानी-निगम (= ऋत्वा) था, वहाँ पहुँचा । वहाँ मैंने रमणीय भूमि-भाग, सुन्दर वन-खंड, बहती नदी श्वेत... सुप्रतिष्ठित, चारों ओर रमणीय ^१गोचर-ग्राम देखा । तब मुझे राजकुमार ! ऐसा हुआ—'रमणीय है, हो ! यह भूमि-भाग ० । प्रधान-इच्छुक कुल-पुत्रके ^२प्रधानके लिये यह बहुत ठीक (स्थान) है' । सो मैं 'प्रधानके लिये यह अलं (= ठीक) है, (सोच), वहाँ बैठ गया । मुझे (उस समय) अद्भुत, अ-श्रुत-पूर्व, तीन उपमार्थ मान हुई ।—

(१) 'जैसे ! गीला काष्ठ सींगे (= सस्नेह) पानीमें डाला जाये । (कोई) पुरुष 'भाग वनाऊँगा,' तेज प्रादुर्भूत करूँगा' (सोच), ^३उत्तरारणी लेकर आये । तो क्या वह पुरुष गीले

^१ भिक्षाटन-योग्य पाश्र्ववर्ती ग्राम । ^२ निर्वाण-प्राप्ति करानेवाली योग-शुक्ति । ^३ रग कर आग निकालनेकी लकड़ी ।

पानीमें पड़ी गीले काष्ठकी उत्तरारणीको ले कर, मथ कर अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ?”

“नहीं मन्ते !”

“सो किस लिये ?” “(एक तो वह) स्नेह-युक्त गीला काष्ठ है, फिर वह पानीमें डाला है । ...ऐसा करनेवाला वह पुरुष सिर्फ थकावट, पीड़ाका ही भागी होगा ।”

“ऐसेही राजकुमार ! जो ब्राह्मण काया द्वारा काम वासनाओंमें लग्न हो विचरते हैं । जो कुल भी इनका काम (= वासनाओं)में काम-रुचि = काम-स्नेह = काम-मूर्छा = काम-पिपासा = काम-परिदाह है, वह यदि भीतरसे नहीं चूटा है, नहीं क्षमित हुआ है तो प्रयत्नशील होनेपर भी वह श्रमण-ब्राह्मण दुःख (-द) तीव्र, कटु, वेदना (मात्र) सह रहे हैं । वह ज्ञान-दर्शन अनुत्तर-संयोग (= परम-ज्ञान)के अयोग्य है ।

“राजकुमार ! यह मुझे पहिली अद्भुत, अश्रुत-पूर्व उपमा मान हुई ।

(२) “और भी राजकुमार ! मुझे दूसरी अद्भुत अश्रुत-पूर्व उपमा मान हुई । राजकुमार ! जैसे स्नेह-युक्त गीला काष्ठ जलके पास स्थलपर फेंका हो । और कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर आये—‘अग्नि बनाऊँगा’ ‘तेज प्रादुर्भूत करूँगा’ । तो क्या समझते हो राजकुमार ! क्या वह पुरुष अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ?”

“नहीं मन्ते !”

“सो किस लिये ?”

“(एक तो) वह काष्ठ स्नेह-युक्त है, और पानीके पास स्थलपर फेंका हुआ भी है । “वह पुरुष सिर्फ थकावट, पीडा (मात्र)का ही भागी होगा ।”

“ऐसे ही, राजकुमार ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कायाके द्वारा वासनाओंमें लग्न हो विचरते हैं । ० अयोग्य हैं । राजकुमार ! मुझे यह दूसरी ० ।

(३) “और भी राजकुमार ! तीसरी अद्भुत अश्रुत-पूर्व उपमा मान हुई ।—जैसे नीरस शुष्क काष्ठ जलसे दूर स्थलपर फेंका है । और कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर आये—‘भाग बनाऊँगा’, ‘तेज प्रादुर्भूत करूँगा ।’ तो क्या...वह पुरुष नीरस-शुष्क, जलसे दूर फेंके काष्ठको, उत्तरारणीमें मथन करके अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ?

“हाँ मन्ते !”

“सो किस लिये ?”

“मन्ते ! वह नीरस सूखा काष्ठ है, और पानीसे दूर स्थलपर फेंका है ।”

“ऐसेही राजकुमार ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण, कायाद्वारा काम-वासनाओंसे अलग हो विचरते हैं । और जो उनका काम-वासनाओं ० काम-परिदाह है; वह भीतरमें भी सुप्रक्षीण (= क्षुब्ध) तरह छूट गया) है, सुक्षमित है । तो वह प्रयत्नशील श्रमण ब्राह्मण दुःख (-द), तीव्र, कटु वेदना नहीं भोगते । वह ज्ञान-दर्शन = अनुत्तर-संयोगके पात्र हैं । यदि वह प्रयत्नशील श्रमण ब्राह्मण दुःख, तीव्र, कटु वेदनाको भोगें भी, (तो भी) वह ज्ञान-दर्शन = अनुत्तर-संयोगके पात्र हैं । यह राजकुमार तीसरी ० ।

“तब राजकुमार ! मेरे (मनमें) हुआ—“क्यों न मैं दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिह्वाद्वारा तालूको दबा, मनसे मनको निग्रह करूँ, दपारूँ, संतापित करूँ । तब मेरे दाँतपर दाँत रखने, जिह्वामें तालू दबाने, मनसे मनको पकड़ने, दबाने, तपानेमें; कौनसे पत्नीना निरलता या; जैसे कि राजकुमार ! यलवान् पुरुष सीससे पकड़कर, कंधेसे पकड़कर, दुर्घट-न्तर पुरखी परदे, दबाये, गपाये,

ऐसे ही राजकुमार ! मेरे दाँतपर दाँत ० काँखसे पसीना निकलता था । उस समय मैंने न दयनेवाला वीर्य (= उद्योग) आरम्भ किया हुआ था, न भ्रूली स्मृति बनी थी, काया भी तत्पर थी ।

“तब मुझे यह हुआ—क्यों न मैं श्वासरहित ध्यान धरूँ ? सो मैंने राजकुमार ! मुख और नासिकासे श्वासका आना जाना रोक दिया । तब राजकुमार ! मेरे मुख और नासिकासे आश्वास-प्रश्वासके रुक जानेपर, कानके छिद्रोंसे निकलते वातों (= हवाओं) का बहुत अधिक शब्द होने लगा । जैसे कि—लोहारकी धौकनीसे धौकनेसे बहुत अधिक शब्द होता है; ऐसे ही ० । ० न दयनेवाला वीर्य आरम्भ किया हुआ था ० ।”

“तब मुझे यह हुआ—क्यों न मैं श्वास-रहित ध्यान करूँ ? सो मैंने राजकुमार ! मुखसे ० । तब मेरे मुख नासा और कर्णसे आश्वास-प्रश्वासके रुक जानेसे, मूर्धामें बहुत अधिक वात टकराते । जैसे बलवान् पुरुष तीक्ष्ण शिखरसे मूर्धा (= शिर) को मथे, ऐसे ही राजकुमार ! मेरे ० ।

“तब मुझे यह हुआ—क्यों न श्वास-रहित ध्यान धरूँ ?—सो मैंने मुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रश्वासको रोक दिया । तब मुझे मुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रश्वासके रुक जानेसे सीसमें बहुत अधिक सीस-वेदना (= शिर-दर्द) होती थी । ० न दयाने वाला ० ।”

“तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ—क्यों न श्वास-रहित ही ध्यान धरूँ ?—सो मैंने ० । ० रुक जानेपर बहुत अधिक वात पेट (= कुक्षि) को छेदते थे । जैसे कि दक्ष (= चतुर गो-घातक या गो-घातकका अन्तेवासी तेज गो-विकर्त्तन (= छुरा) से पेटको काटे; ऐसेही ० । न दयने-वाला ० ।

“तब मुझे यह हुआ—‘क्यों न श्वास-रहित ही ध्यान (फिर) धरूँ’ ० । राजकुमार ० । ० कायामें अत्यधिक दाह होता था । जैसे कि दो बलवान् पुरुष दुर्बलतर पुरुषको अनेक बाहोंमें पकड़कर अंगारोंपर तपावें; चारों ओर तपावें; ऐसे ही ० । न दवते ० ।

“देवता भी मुझे कहते थे—‘श्रमण गौतम मर गया ।’ कोई कोई देवता यों कहते थे—‘श्रमण गौतम नहीं मरा, न मरेगा; श्रमण गौतम अर्हत् है । अर्हत्का तो इस प्रकारका विहार होता ही है ।

“...मुझे यह हुआ—‘क्यों न आहार को विल्कुल ही छोड़ देना स्वीकार करूँ । तब देवताओंने मेरे पास आकर कहा—मार्प ! तुम आहारका विल्कुल छोड़ना स्वीकार करो । हम तुम्हारे रोम-कूपोंद्वारा दिव्य-ओज डाल देंगे; उसीसे तुम निर्वाह करोगे ।’... तब मुझे यह हुआ—मैं (अपनेको) सब तरहसे निराहारी जानूँगा और यह देवता रोमकूपोंद्वारा दिव्य ओज मेरे रोम-कूपोंके भीतर डालेंगे; मैं उसीसे निर्वाह करूँगा । यह मेरा (तप) मृपा होगा । सो मैंने उन देवताओंका प्रत्याख्यान किया—‘रहने दो’ ।

“तब मुझे यह हुआ—क्यों न मैं थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करूँ—पसर मर मूँग का जूस, या कुलथीका जूस या मटरका जूस, या अरहरका जूस—। सो मैं थोड़ा थोड़ा पसर पसर मूँगका जूस ० ग्रहण करने लगा । थोड़ा थोड़ा पसर पसर मर मूँगका जूस ० ग्रहण करते हुये, मेरा शरीर (दुर्बलताकी) चरम सीमाको पहुँच गया । जैसे आसीतिक (= वनस्पति विशेष) की गाँठें, ...वैसे ही उस अल्प आहारसे मेरे अंग प्रत्यंग हो गये । उस अल्प आहारसे जैसे ऊँटका पैर, वैसे ही मेरा कूहा (= आनिसद्) हो गया, ० जैसे सूओंकी पाँती (= चट्टनावली) वैसे ही ऊँचे नीचे मेरे पीठके काँटे हो गये । ० जैसे पुरानी शालाकी कड़ियाँ (= टोड़े = गोपानसी) अहँण-ग्रहण (= भोलुग-विलुगा) होती हैं, ऐसे ही मेरी पंसुलिया हो गई थी । जैसे गहरे कूयें (= उदपान) में पानीका तारा (= उदक-तारा) गहराईमें, बहुत दूर दिखाई देता है, उसी ० । जैसे कषा

तोड़ा कड़वा लौका हवा-धूपसे चिचुक (= संपुटित) जाता है मुझा जाता है; ऐसे ही मेरे शिर-की खाल चिचुक गई थी, मुझा गई थी ।...राजकुमार ! यदि मैं पेटकी खालको मसलता, तो पीठके काँटोंको पकड़ लेता था, पीठके काँटोंको मसलता तो पेटकी खालको पकड़ लेता था । उस अवपाहारसे मेरे पीठके काँटे और पेटकी खाल बिल्कुल सट गई थी ।...यदि मैं पावाना या मूत्र करता, वहीं महाराकर (= उपकुञ्ज) गिर पडता था । जब मैं कायाको सहराते (= अस्मासेन्तो) हुये, हाथसे गात्रको मसलता था; तो हाथसे गात्र मसलते वक्त, कायासे सड़ी जड़ वाले (= पूति-मूल) रोम झड़ पड़ते थे ।...मनुष्य भी मुझे देखकर कहते थे—‘श्रमण गौतम काला है’ । कोई कोई मनुष्य कहते थे—‘श्रमण गौतम काला नहीं है, झ्याम है ।’ कोई कोई मनुष्य यों कहते थे—‘श्रमण गौतम काला नहीं है, न झ्याम ही है, मंगुर-वर्ण (= मंगुरच्छवि) है’ । राजकुमार ! मेरा वैसा परि-शुद्ध परि-अवदात (= सफेद, गोरा) छवि-वर्ण (= चमड़ेका रङ्ग) नष्ट हो गया था ।

“तब मुझे यों हुआ—अतीत कालमें जिन किन्हीं श्रमणों ब्राह्मणोंने घोर दुःख, तीव्र और कट्ट वेदनायें सहीं, इतनेही पर्यन्त, (सही होंगे) इससे अधिक नहीं; मविष्य कालमें जो कोई श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख, तीव्र और कट्ट वेदनायें सहेंगे, इतने ही पर्यन्त, इससे अधिक नहीं । आजकल भी जो कोई श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख, तीव्र, और कट्ट वेदना सह रहे हैं ० । लेकिन राजकुमार ! मैंने उस दुष्कर कारिकासे उत्तर-मनुष्य-धर्म ^१अलमार्य-ज्ञान-दर्शन-विशेष न पाया । (विचार हुआ) बोधके लिये क्या कोई दूसरा मार्ग है ?

“तब राजकुमार ! मुझे यों हुआ—‘मालूम है मैंने यिता (शुद्धोदन) शाक्यके खेतपर जासुनकी ठंडी छायाके नीचे, बैठ, काम और अकुशल-धर्मोंको हटाकर प्रथम ध्यानको प्राप्त हो, विहार किया था । शायद वह मार्ग बोधिका हो । तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ—क्या मैं उस सुखसे डरता हूँ, जो सुख काम और अकुशल-धर्मोंसे भिन्नमें है । फिर मुझे, राजकुमार यह हुआ—मैं उस सुखसे नहीं डरता हूँ, जो सुख ० । तब मुझे, राजकुमार ! यह हुआ—इस प्रकार अत्यन्त कृश, पतले कायासे वह सुख मिलना सुकर नहीं, क्यों न मैं स्थूल आहार—मात-दाल (= कुल्माप) ग्रहण करूँ । सो मैं राजकुमार ! स्थूल आहार ओदन-कुल्माप ग्रहण करने लगा । उस समय राज-कुमार ! मेरे पास पाँच मिश्रु (इस आशासे) रहा करते थे; कि श्रमण गौतम जिस धर्मको प्राप्त करेगा, उसे हम लोगोंको (भी) बतलायेगा । लेकिन जब मैं स्थूल आहार ओदन कुल्माप ग्रहण करने लगा; तब वह पाँचों, मिश्रु, ‘श्रमण गौतम वाहुलिक, (= बहुत संग्रह करनेवाला) प्रधानसे विमुक्त, वाहुल्य परायण हो गया’ (समझ)-उदासीन हो, चले गये ।

“तब राजकुमार ! मैं स्थूल आहार ग्रहण कर, सबल हो काम और अकुशल-धर्मोंसे वर्जित, वितर्क तथा विचारसहित, एकान्ततासे उत्पन्न (= विवेकज), प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । वितर्क और विहारके उपशमित होनेपर, भीतरके संग्रसादन (= प्रसन्नता) = चित्तकी एकाग्रता-युक्त, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा ।...प्रीति और विरागकी उपेक्षा कर, ^२स्मृति और संग्रजन्यके साथ, कायासे सुखको अनुभव (= प्रतिबेदन) करता हुआ, विहरने लगा । जिसको कि धार्यजन उपेक्षक स्मृतिमान् और सुखविहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहार करने लगा ।...।

“सुख और दुःखके विनाश (= ग्रहण)से, पहिलेही सौमनस्य और दीर्घमनस्यके पहिले

अस्य हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्मृतिकी परिशुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यान-को प्राप्त हो विहार करने लगा ।

(१) “तव इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध = परि-अवदात, = अंगणरहित = उपक्लेश-रहित, मृदु हुये, काम-लायक, स्थिर = अचलता-प्राप्त = समाधिप्राप्त हो जाने पर, पूर्वजन्मोंकी स्मृतिके ज्ञान (= पूर्व-निवासानुस्मृति-ज्ञान)के लिये चित्तको मैंने झुकाया । फिर मैं पूर्वकृत अनेक पूर्व-निवासों (= जन्मों)को स्मरण करने लगा—जैसे एक जन्म भी, दो जन्म भी, ...। आकार-सहित उद्देश-रहित पूर्वकृत अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा । इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर हो आत्म-संयमयुक्त विहरते हुये, मुझे रातके पहिले याममें यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई; अविद्या गई, विद्या आई; तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ ।

(२) “सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध ० समाहित होनेपर, प्राणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान (= च्युति-उत्पाद-ज्ञान)के लिये मैंने चित्तको झुकाया । सो मनुष्य (के नेत्रों)से परेकी विशुद्ध दिव्य चक्षुसे, मैं अच्छे, बुरे, सुवर्ण, दुर्वर्ण, सु-गत, दुर्गत, भरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखने लगा । सो ० ...कर्मानुसार जन्मको प्राप्त प्राणियोंको जानने लगा । रातके विचले पहर (= याम)में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई । अविद्या गई ० ।

(३) “सो इस प्रकार चित्तके ० । आस्रवों (= चित्त-मल)के क्षयके ज्ञानके लिये मैंने चित्तको झुकाया—सो ‘यह ^१दुःख है’ इसे यथार्थसे जान लिया; ‘यह दुःख समुदय है’ इसे यथार्थसे जान लिया; ‘यह दुःख-निरोध है’ इसे यथार्थ से जान लिया; ‘यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् है’ इसे यथार्थसे जान लिया । ‘यह आस्रव है’ इन्हें यथार्थसे जान लिया; ‘यह आस्रव-समुदाय है’ इसे ०, ‘यह आस्रव-निरोध ०’ ‘यह आस्रव-निरोध = गामिनी-प्रतिपद् है’ इसे ० । सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त कामास्रवोंसे मुक्त हो गया, मवास्रवोंसे मुक्त होगया, अविद्यास्रवसे भी विमुक्त होगया । छूट (= विमुक्त) जानेपर ‘छूट गया (विमुक्त)’ ऐसा ज्ञान हुआ । ‘जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ (करणीय) नहीं’ इसे जाना । राजकुमार ! रातके पिछले याममें यह तृतीय विद्या प्राप्त ० अविद्या चली गई ० । ०^२ ।

“तव राजकुमार ! पंचवर्गीय भिक्षु मेरे द्वारा इस प्रकार उपदेशित हो = अनुशासित हो, अचिरहीमें जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे वेधर हो प्रव्रजित होते हैं, उस उत्तम ब्रह्मचर्यफलको, इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात् कर = उपलभकर, विहरने लगे ।”

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमारने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! कितनी देरमें तथागत (को) विनायक (= नेता) पा, भिक्षु जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे वेधर हो प्रव्रजित होते हैं, उस उत्तम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर = साक्षात् कर = उपलभकर, विहरने लगेगा ?”

“राजकुमार ! तुझसे ही यहाँ पूछता हूँ, जैसा तुझे ठीक लगे, वैसा बतला । हाथीवानी = अंकुश ग्रहणके शिल्प (= कला)में तू चतुर है न ?”

“भन्ते ! हाँ मैं हाथीवानी ० में चतुर हूँ ।”

“तो राजकुमार ! यदि कोई पुरुष—‘बोधि-राजकुमार हाथीवानी = अंकुश-ग्रहण-शिल्प जानता है, उसके पाससे हाथीवानी = अंकुश-ग्रहण शिल्पको सीखूँगा’ (सोचकर) आवे । और

^१ देखो पृष्ठ १५ ।

^२ देखो पृष्ठ १०७-८ ।

वह हो-श्रद्धारहित, (तो क्या) जितना श्रद्धा-सहित (मनुष्य) द्वारा पाया जा सकता है, (उतना) वह पावेगा ? वह हो बहुत-रोगी, (तो क्या) जितना अल्प-रोगी-द्वारा पाया जा सकता है, (उतना) वह पावेगा । ० शठ मायावी ०, अशठ अमायावी ०, आलसी ०, ० निरालस ० । दुःप्रज्ञ ०, प्रज्ञावान् ० तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी = अंकुश-ग्रहण शिल्पको सीखेगा ?”

“एक दोपसे मी युक्त पुरुष मेरे पास हाथीवानी = अंकुश-ग्रहण शिल्प नहीं सीख सकता, पाँचों दोपोंसे युक्तके लिये तो कहना ही क्या ?”

“तो राजकुमार ! यदि कोई मनुष्य ‘बोधि-राजकुमार हाथीवानी ० जानता है ० शिल्पको सीखूँगा’ (सोचकर) आवे । वह हो श्रद्धावान् ०; अल्प-रोगी ०; ० अशठ = अमायावी ०; निरालस ० । तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी = अंकुश-ग्रहण शिल्प सीख सकेगा ?”

“भन्ते ! एक वातसे युक्त मी पुरुष मेरे पास ० ।”

“इसी प्रकार राजकुमार ! निर्वाण-साधना (= प्रधान)के मी पाँच अंग हैं । कौनसे पाँच ?—(१) भिक्षु श्रद्धालु हो, तथागतकी बोधि (= परमज्ञान)पर श्रद्धा करता हो—‘कि वह भगवान्, अर्हत्, सम्यक-संबुद्ध, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, लोक-विद्, अन्-उत्तरपुरुष-दम्य-सारथी, देव-मनुष्यके शास्ता, बुद्ध, भगवान् हैं । (२) अल्प-रोगी = अल्प-आतङ्की, न बहुत शीत, न बहुत उष्ण, साधनायोग्य, सम-विपाकवाली मध्यम प्रकृति (= ग्रहणी)से युक्त हो । (३) अ-शठ = अ-मायावी हो; शास्ता (= गुरु) और विज्ञ स-ब्रह्मचारियोंमें, कुशल धर्मोंके उत्पादनमें निरालस हो; (४) कुशल धर्मोंमें कंधेसे जुधा न हटानेवाला, दृढ़-पराक्रमी बलिष्ठ हो । (५) उदय-प्रज्ञावान् हो, उदय-अस्त-गामिनी, आर्यनिर्वेधिक सम्यक् दुःख-क्षय-गामिनी प्रज्ञासे युक्त हो । राजकुमार ! प्रधानके यह पाँच अंग हैं ।

“राजकुमार ! इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु, तथागतको विनायक (= नेता) पा, अनुत्तर ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें सात वर्षोंमें, स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरेगा ।”

“राजकुमार ! छोड़ो सात वर्ष; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु ०, छः वर्षोंमें । ० पाँच वर्षोंमें । ० चार वर्षोंमें । ० तीन वर्षोंमें । ० दो वर्षोंमें । ० एक वर्षमें । ० सात मासमें । ० छः मासमें । ० पाँच मासमें । ० चार मासमें । ० तीन मासमें । ० दो मासमें । ० एक मासमें । ० सात रात-दिनमें । ० छः रात-दिनमें । ० पाँच रात-दिनमें । ० चार रात-दिनमें । ० तीन रात-दिनमें । ० दो रात-दिनमें । ० एक रात-दिनमें ।

“छोड़ो राजकुमार ! एक रात-दिन; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु, तथागतको विनायक पा, सायंकालको अनुशासन किया, प्रातःकाल विशेष (= निर्वाणपद)को प्राप्त कर सकता है, प्रातः अनुशासित सायं विशेष प्राप्त कर सकता है ।”

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमार बोला—“अहो ! बुद्ध !! अहो ! धर्म !! अहो ! धर्मका स्वाक्यात-पन (= उत्तम वर्णन) !! जहाँ कि सायं अनुशासित प्रातः विशेषको पा जाये, प्रातः अनुशासित सायं विशेषको पा जाये ।”

ऐसा बोलनेपर संजिका-पुत्रने बोधि-राजकुमारसे कहा—“ऐसाही है, हे भवान् बोधि !—‘अहो ! बुद्ध !! अहो ! धर्म !!, अहो ! धर्मका स्वाक्यात-पन ।’ (यह) तुम कहते हो; तो भी उस धर्म और भिक्षु-संघकी शरण नहीं जाते ?”

“सौम्य ! संजिका-पुत्र ! ऐसा मत कहो । सौम्य ! संजिका-पुत्र ! ऐसा मत कहो । सौम्य संजिका-पुत्र ! मैंने अय्या (= आर्या) के सुँहसे सुना, (उन्हींके) मुखसे ग्रहण किया है । सौम्य ! संजिका-पुत्र एकवार भगवान् कौशाभ्यीमें घोपिताराममें विहार करते थे । तब मेरी गर्भवती अय्या जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई, जाकर भगवान्से अभिवादन कर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठी मेरी अय्याने भगवान्से यों कहा—“भन्ते ! जो मेरे कोखमें यह कुमारी या कुमार है, वह भगवान्की, धर्मकी और भिक्षु-संघकी शरण जाता है । आजसे भगवान् इसे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।

“सौम्य ! संजिका-पुत्र ! एकवार भगवान् यहीं भर्गमें सुंसुमार-गिरिके भेपकलावन मृगदावमें विहरते थे, तब मेरी धाई (= धाती) मुझे गोदमें लेकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ी होगई । एक ओर खड़ी हुई मेरी धाईने भगवान्से कहा—भन्ते यह बोधि-राजकुमार भगवान्की, धर्मकी, और भिक्षु-संघकी ०

“^१सौम्य ! संजिकापुत्र ! यह मैं तीसरी बार भी भगवान्की, धर्मकी और भिक्षु-संघकी शरण जाता हूँ । आजसे भगवान् मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।”

^१ उदयनके जन्म और बोधिराजकुमारके जन्म आदिके बारेमें देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ४२१-२२ टि० ।

८६—अंगुलिमाल-सुत्तन्त (२।४।६)

अंगुलिमालका जीवन-परिवर्त (सभरेका भूला शामको रास्ते पर)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित्के राज्यमें रुद्र, लोहित-पाणि, मार-काटमें संलग्न, प्राणि-भूतोंमें दया-रहित अंगुलिमाल नामक डाकू (= चोर) था । उसने ग्रामोंको भी अ-ग्राम कर दिया था, निगमोंको भी अ-निगम ०, जन-पदको भी अ-जनपद ० । तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुए । श्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजन घाद..... शयनासन सँभाल, पात्र-चीवर ले जहाँ, डाकू अंगुलिमाल रहता था, उसी रास्ते चले । गोपालकों, पशुपालकों, कृपकों, राहगीरोंने भगवान्को, जिधर डाकू अंगुलिमाल था, उसी रास्तेपर (जाते) हुये देखा । देखकर भगवान्से यह कहा—

“मत श्रमण ! इस रास्ते जाओ । इस मार्गमें श्रमण ! ० अंगुलिमाल नामक डाकू रहता है । उसने ग्रामोंको भी अ-ग्राम ० । वह मनुष्योंको मार मारकर अंगुलियोंकी माला पहनता है । इस मार्गपर श्रमण ! वीस पुरुष, तीस पुरुष, चालीस ०, पचास पुरुष तक इकट्ठा होकर जाते हैं, वह भी अंगुलिमालके हाथमें पड़ जाते हैं ।”

ऐसा कहनेपर भगवान् मौन धारण कर चलते रहे ।

दूसरी बार भी गोपालकों ० । तीसरी बार भी गोपालकों ० ।

डाकू अंगुलिमालने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देखकर उसको यह हुआ—‘आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी (= भो) !! इस रास्ते दस पुरुष भी, ० पचास पुरुष भी इकट्ठा होकर चलते हैं, वह भी मेरे हाथमें पड़ जाते हैं । और यह श्रमण अकेला=अद्वितीय मानों मेरा तिरस्कार करता आ रहा है । क्यों न मैं इस श्रमणको जानसे मार दूँ ।’ तब डाकू अंगुलिमाल ढाल-तलवार (= असि-चर्म) लेकर तीर-धनुष चढ़ा, भगवान्के पीछे चला । तब भगवान्ने इस प्रकारका योग-बल प्रकट किया, कि डाकू अंगुलिमाल मामूली चालसे चलते भगवान्को सारे वेगसे दौड़कर भी न पा सकता था । तब डाकू अंगुलिमालको यह हुआ—‘आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी !! मैं पहिले दौड़ते हुये हाथीको भी पीछा करके पकड़ लेता था, ० घोड़ेको भी ०, ० रथको भी ०, ० मृगको भी पीछा करके पकड़ लेता था । किन्तु, मामूली चालसे चलते इस श्रमणको, सारे वेगसे दौड़कर भी नहीं पा सकता हूँ ।’ खड़ा होकर भगवान्से बोला—

“खड़ा रह, श्रमण !”

“मैं स्थित (= खड़ा) हूँ अंगुलिमाल ! तू भी स्थित हो ।”

तब डाकू अंगुलिमालको यह हुआ—‘यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण सत्यवादी सत्य-प्रतिज्ञ (होते हैं) ; किन्तु यह श्रमण जाते हुये भी ऐसा कहता है—‘मैं स्थित हूँ ० ।’ क्यों न मैं इस श्रमणसे पूछूँ । तब ० अंगुलिमालने गाथाजोंमें भगवान्से कहा—

“श्रमण ! जाते हुये ‘स्थित हूँ ।’ कहता है, मुझे खड़े हुयेको अस्थित कहता है ।

श्रमण ! तुझे यह बात प्युछता हूँ ‘कैसे तू स्थित और मैं अ-स्थित हूँ ?’ ॥१॥”

“अंगुलिमाल ! सारे प्राणियोंके प्रति दंड छोड़नेसे मैं सर्वदा स्थित हूँ ।

तू प्राणियोंमें अ-संयमी है, इसलिये मैं स्थित हूँ, और तू अ-स्थित है ॥२॥”

“मुझे महर्षिका पूजन क्रिये देर हुई, यह श्रमण महावनमें मिल गया ।

सो मैं धर्मयुक्त गाथाको सुनकर चिरकालके पापको छोड़ूँगा” ॥३॥

इस प्रकार डाकूने तलवार और हथियार खोह, प्रपात और नालेमें फेंक दिये ।

डाकूने सुगतके पैरोंकी वन्दना की, और वहीं उनसे प्रब्रज्या माँगी ॥४॥

बुद्ध करुणामय महर्षि, जो देवों सहित लोगके शास्ता (= गुरु) हैं ।

उसको ‘आ भिक्षु’ बोले, यही उसका संन्यास हुआ ॥५॥

तब भगवान् आयुष्मान् अंगुलिमालको अनुगामी-श्रमण बना जहाँ श्रावस्ती थी वहाँ, चारिकाके लिये चले । क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । श्रावस्तीमें भगवान् अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । उस समय राजा प्रसेनजित् कोसलके^१ अन्तः-पुरके द्वारपर बड़ा जन-समूह एकत्रित था । कोलाहल (= उच्च शब्द, महाशब्द) हो रहा था— ‘देव ! तेरे राज्यमें ० अंगुलिमाल नामक डाकू है । उसने ग्रामोंको भी अ-ग्राम ० । वह मनुष्योंको मार कर अंगुलियोंकी माला पहनता है । देव ! उसको रोक ।’

तब राजा प्रसेनजित् कोसल पाँच सौ घोड़-सवारोंके साथ मध्याह्नको श्रावस्तीसे निकल (और) जिघर आराम था, उधर गया । जितनी यानकी भूमि थी, उत्तनी यानसे जा, यानसे उतर पैदल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे राजा प्रसेनजित् कोसलसे भगवान्ने कहा—

“क्या महाराज ! तुझपर राजा मागध श्रेणिक विंवसार बिगड़ा है, या वैशालिक लिच्छवि, या दूसरे विरोधी राजा ?”

“मन्ते ! न मुखपर राजा मागध ० बिगड़ा है ० । मन्ते ! मेरे राज्यमें ० अंगुलि-माल नामक डाकू ० । मन्ते ! मैं उसीको निवारण करने जा रहा हूँ ।”

“यदि महाराज ! तू अंगुलि-मालको केश-श्मश्रु सुँडा, कापाय-वस्त्र पहिन, घरसे वेधर हो प्रब्रजित हुआ, प्राण-हिंसा-विरत, अदत्तादान-विरत, मृपावाद-विरत, एकाहारी, ब्रह्मचारी, शील-वान्, धर्मात्मा देखे, तो उसको क्या करे ?”

“हम मन्ते ! प्रत्युत्थान करेंगे, आसनके लिये निमंत्रित करेंगे, चीवर, पिंड-पात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भैषज्य परिष्कारोंसे निमंत्रित करेंगे; और उनकी धार्मिक रक्षा = आवरण = गुप्ति करेंगे । किंतु मन्ते ! उस दुःशील पापीको ऐसा शील-संयम कहाँसे होगा ?”

उस समय आयुष्मान् अंगुलिमाल भगवान्के अ-विदूर बैठे थे । तब भगवान्ने दाहिनी बाँहको पकड़ कर राजा प्रसेनजित् कोसलसे कहा—

“महाराज ! यह है अंगुलिमाल ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलको, मय हुआ, स्तब्धता हुई, रोमांच हुआ । तब भगवान्ने राजा प्रसेनजित् कोसलसे यह कहा—

“मत डरो, महाराज ! मत डरो महाराज ! (अब) इससे तुझे मय नहीं है ।” तब राजा

^१ नगरके भीतरी भागमें राजाके महल आदि होते थे, इसको अन्तःपुर, या राजकुल कहा जाता था ।

प्रसेनजित् कोसलको जो मय ० था, वह विलीन होगया ।

तब राजा प्रसेनजित् कोसल, जहाँ आयुष्मान् अंगुलिमाल थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् अंगुलिमालसे बोला—

“आर्य अंगुलिमाल हैं ?”

“हाँ, महाराज !”

“आर्यके पिता किस गोत्रके, और माता किस गोत्रकी ?”

“महाराज ! पिता गार्ग्य, माता मैत्रायणी ।”

“आर्य गार्ग्य मैत्रायणी-पुत्र अभि-रमण करें । मैं आर्य गार्ग्य मैत्रायणी-पुत्रकी चीवर, पिंड-पात, शयनासन, स्नान-प्रत्यय-भैषज्य परिष्कारोंसे सेवा करूँगा ।”

उस समय आयुष्मान् अंगुलिमाल आरण्यक, पिंडपातिक, पांसु-कूलिक, त्रैचीवरिक थे । तब आयुष्मान् अंगुलिमालने राजा प्रसेनजित् कोसलसे कहा—

“महाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभि-वादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे भगवान्से यह बोला—

“आश्चर्य मन्ते ! अद्भुत मन्ते !! कैसे मन्ते ! भगवान् अदान्तोंको दमन करते, अशान्तोंको शमन करते, अ-परिनिर्वृत्तोंको परिनिर्वाण कराते हैं । मन्ते ! जिनको हम दंडसे भी, शस्त्रसे भी दमन न कर सके, उनको मन्ते ! भगवान्ने विना दंडके, विना शस्त्रके दमन कर दिया । अच्छा, मन्ते ! हम जाते हैं, हम बहु-कृत्य = बहु-करणीय (= बहुत कामवाले) हैं ।”

“जिसका महाराज ! तू काल समझता है (वैसा कर) ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसल आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया ।

तब आयुष्मान् अंगुलिमाल पूर्वाह्न समय पहिनकर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें विना ठहरे, पिंड-चार करते आयुष्मान् अंगुलिमालने एक स्त्रीको मूढ-गर्मा = विघात-गर्मा (= मरे गर्भवाली) देखा । देखकर उनको यह हुआ—‘हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं !! हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं ।’ तब आयुष्मान् अंगुलिमाल श्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजनो-परान्त जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् अंगुलिमालने भगवान्से कहा—

“मैं मन्ते ! पूर्वाह्न समय पहिन कर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुआ । श्रावस्तीमें ० मैंने एक स्त्रीको मूढ-गर्मा ० देखा । ‘० हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं’ ।”

“तो अंगुलिमाल ! जहाँ वह स्त्री है, वहाँ जा । जाकर उस स्त्रीसे कह—भगिनि ! यदि मैं जन्मसे, जानकर प्राणि-वध करना नहीं जानता, (तो) उस सत्यसे तेरा मंगल हो; गर्भका मंगल हो ।”

“मन्ते ! यह तो निश्चय मेरा जान कर झूठ बोलना होगा । मन्ते मैंने जान कर बहुतसे प्राणि-वध किये हैं ।”

“अंगुलिमाल ! तू जहाँ वह स्त्री है वहाँ जाकर यह कह—‘भगिनि ! यदि मैंने आर्य-जन्ममें पैदा हो (कर) जान कर प्राणि-वध करना नहीं जाना, (तो) इस सत्य से ० ।”

“अच्छा मन्ते !” आयुष्मान् अंगुलिमालने जाकर उस स्त्रीसे कहा—

“भगिनि ! यदि मैंने आर्य जन्ममें पैदा हो, जान कर प्राणि-वध ० ।”

तब स्त्रीका मंगल होगया, गर्भका भी मंगल होगया ।

आयुष्मान् अंगुलिमाल एकाकी...अप्रमत्त = उद्योगी संयमी हो विहार करते न-चिरमें ही, जिसके लिये कुल-पुत्र...प्रव्रजित होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर = साक्षात्कार कर = प्राप्त कर विहार करने लगे । 'जन्म क्षय होगया, ब्रह्मचर्य-पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, अब और करनेको यहाँ नहीं है' (इसे) जान लिया । आयुष्मान् अंगुलिमाल अर्हत्तोंमें एक हुये ।

आयुष्मान् अंगुलिमाल पूर्वाह्न समय पहिन कर, पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । किसी दूसरेका फेंका डेला आयुष्मान्के शरीरपर लगा; दूसरेका फेंका डंडा ० ; दूसरेका फेंका कंकड़ ० । तब आयुष्मान् अंगुलिमाल बहते-खून, फटे-शिर, टूटे-पात्र, फटी संघाटीके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । भगवान्ने दूरसे ही आयुष्मान् अंगुलिमालको आते देखा । देखकर आयुष्मान् अंगुलिमालसे कहा—

“ब्राह्मण ! तूने कबूल कर लिया । ब्राह्मण ! तूने कबूल कर लिया । जिस कर्म-फलके लिये अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, नर्कमें पचना पड़ता, उस कर्म-विपाकको ब्राह्मण ! तू इसी जन्ममें भोग रहा है ।”

तब आयुष्मान् अंगुलिमालने एकान्तमें ध्यानावस्थित हो विमुक्त-सुखको अनुभव करते, उसी समय यह उद्दान कहा—

“जो पहिले अर्जित कर पीछे, उसे मार्जित करता है ।

वह भेघसे मुक्त चन्द्रमाकी भाँति इस लोकको प्रभासित करता है ॥ १ ॥

जिसका किया पाप-कर्म पुण्य (= कुशल)से ढँका जाता है ।

वह भेघसे मुक्त ० ॥ २ ॥

जो संसारमें तरुण भिक्षु बुद्ध-शासनमें जुटता है । वह ० ॥ ३ ॥

दिशायें मेरी धर्म-कथाको सुनें, दिशायें मेरे बुद्ध-शासनमें जुड़ें ।

वह संत पुरुष दिशाओंको सेवन करें, जो धर्मके लिये ही प्रेरित करते हैं ॥ ४ ॥

दिशायें मेरे क्षांति-वादियों, मैत्री-प्रशंसकोंके धर्मको;

समयपर सुनें, और उसके अनुसार चलें ॥ ५ ॥

वह मुझे या दूसरे किसीको भी नहीं झारेगा ।

(वह) परम शांतिको पाकर स्थावर जंगमकी रक्षा करेगा ॥६॥

(जैसे) नाली-वाले पानी ले जाते हैं, इपु-कार शरको सीधा करते हैं ।

बढ़ई लकड़ीको सीधा करते हैं, (वैसे ही) पंडित अपनेको दमन करते हैं ॥७॥

कोई दंडसे दमन करते हैं, (कोई) शस्त्र और कोड़ासे भी ।

तथागत-द्वारा बिना दंड, बिना शस्त्रके ही मैं दमन किया गया हूँ ॥८॥

पहिलेके हिंसक मेरा नाम आज अहिंसक है ।

आज मैं यथार्थ-नामवाला हूँ, किसीकी हिंसा नहीं करता ॥९॥

पहिले मैं ^१अंगुलिमाल नामसे प्रसिद्ध चोर था ।

यदी याद (= महा-ओघ) में डूबते बुद्धकी शरण आया ॥१०॥

^१ अंगुलिमाल-चरित्र, देखो बुद्धचर्या ३७१-७२ टि० ।

पहिले मैं अंगुलिमाल नामसे प्रसिद्ध खून-रंगे हाथवाला (= लोहित-पाणि) था ।

देखो शरणागतिको ? भव-जाल सिमट गया ॥११॥

बहुत दुर्गतिमें ले जानेवाले कर्मोंको करके ।

कर्म-विपाकसे स्पृष्ट (= लगा) (था) (जिन)से उन्नत हो भोजन करता हूँ ॥१२॥

वाल = दुर्बुद्धि जन, प्रमाद (= आलस्य)में लगे रहते हैं ।

मेधावी (पुरुष) अ-प्रमादकी, श्रेष्ठ धनकी मूर्ति रक्षा करते हैं ॥१३॥

मत प्रमादमें जुबो, मत काम-रतिका संग करो ।

अप्रमाद-मुक्त हो ध्यान करते (मनुष्य) विपुल सुखको पाता है ॥१४॥

(यहाँ मेरा आना) स्वागत है, अप-गत (= दुरागत) नहीं,

यह मेरी (मंत्रणा) दुर्मंत्रणा नहीं ।

प्रतिमान (= ज्ञान) होनेवाले धर्मोंमें जो श्रेष्ठ है, उस (निर्वाण)को मैंने पा लिया ॥१५॥

स्वागत है, अपगत नहीं, यह मेरा दुर्मंत्रण नहीं ।

तीनों विद्याओंको पा लिया, बुद्धके शासनको कर लिया ॥१६॥



८७—प्रियजातिक-सुत्तन्त (२।४।७)

प्रियोंसे शोक, दुःखकी उत्पत्ति

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें...जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय एक गृहपति (= वैश्य)का प्रिय = मनाप एकलौता-पुत्र मर गया था । उसके मरनेसे (उसे) न काम (= कर्मान्त) अच्छा लगता था, न भोजन अच्छा लगता था—‘कहाँ हो (मेरे) एकलौते-पुत्रक ? कहाँ हो (मेरे) एकलौते-पुत्रक ?’ तब वह गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया ।...अभिवादन कर एक ओर बैठे उस गृहपतिसे भगवान्ने कहा—

“गृहपति ! तेरी इन्द्रियाँ (= चेष्टायें) चित्तमें स्थित नहीं जान पड़तीं; क्या तेरी इन्द्रियोंमें कोई खराबी (= अन्यथात्त्व) तो नहीं है ?”

“भन्ते ! क्यों न मेरी इन्द्रियाँ अन्यथात्त्वको प्राप्त होंगी ? भन्ते ! मेरा प्रिय = मनाप एकलौता-पुत्र मर गया । उसके मरनेसे न काम अच्छा लगता है, न भोजन अच्छा लगता है । सो मैं आदाहन (= चिता)के पास जाकर क्रंदन करता हूँ—‘कहाँ हो एकलौते-पुत्रक (= पुतवा) !”

“ऐसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक = प्रियसे उत्पन्न होनेवाले ही हैं, गृहपति ! (यह) शोक, परिदेव (= क्रंदन), दुःख = दौर्मनस्य, उपायास (= परेशानी) ?”

“भन्ते ! यह ऐसा क्यों होगा—‘प्रिय जातिक ० हैं शोक ० उपायास ?”

वह गृहपति भगवान्के भाषणको न अभिनन्दन कर, निंदा कर आसनसे उठकर चला गया । उस समय बहुतसे जुआरी (= अक्ष-धूर्त) भगवान्के अदूरमें जुआ खेल रहे थे । तब वह गृहपति जहाँ वह जुआरी थे, वहाँ गया, जाकर उन जुआरियोंसे बोला—

“मैं जी ! जहाँ श्रमण गौतम है, वहाँ...जाकर...अभिवादन कर एक ओर बैठे मुझे श्रमण गौतम ने कहा—‘गृहपति ! तेरी इन्द्रियाँ (= चेष्टायें) अपने चित्तमें स्थित-सी नहीं हैं ० प्रिय जातिक ० शोक ० हैं’ । प्रियजातिक = प्रियसे उत्पन्न तो, आनन्द = सौमनस्य हैं । तब मैं श्रमण गौतमके भाषणको न अभिनन्दन कर ० चला आया ।”

“यह ऐसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक = प्रिय-उत्पन्न तो हैं गृहपति ! आनन्द = सौमनस्य ।”

तब वह गृहपति ‘जुआरी भी मुझसे सहमत हैं’ (सोच) चला गया । यह कयावस्तु (= चर्चा) क्रमशः राज-अन्तःपुरमें चली गई । तब राजा प्रसेनजित् कोसलने मल्लिका देवीको आमंत्रित किया—

“मल्लिका ! तेरे श्रमण गौतमने यह भाषण किया है—‘प्रिय-जातिक = प्रिय-उत्पन्न हैं शोक ० उपायास’ ।”

“यदि महाराज ! भगवान्ने ऐसा भाषण किया है, तो यह ऐसा ही है ।”

“ऐसा ही है मल्लिका ! जो जो श्रमण गौतम भाषण करता है, उस उसको ही तू अनुमोदन करती है—‘यदि महाराज ! भगवान्ने ०’। जैसे कि आचार्य जो जो अन्तेवासीको कहता है, उस उसको ही उसका अन्तेवासी अनुमोदन करता है—‘यह ऐसा ही है आचार्य । ० आचार्य !’ ऐसे ही तू मल्लिका ! जो जो श्रमण ० । चल परे हट मल्लिका !”

तब मल्लिका देवीने नाली-जंघ ब्राह्मणको आमंत्रित किया—

“आओ तुम ब्राह्मण ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ। जाकर मेरे वचनसे भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करना;—(कुशलक्षेम) पूछना—‘भन्ते ! मल्लिकादेवी भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करती है;—(= कुशलक्षेम) पूछती है।’ और यह भी कहना—‘क्या भन्ते ! भगवान्ने यह वचन कहा है—‘प्रिय जातिक ० हैं, शोक ० उपायास’। भगवान् जैसा तुम्हें उत्तर दें, उसे अच्छी तरह सीख कर, मुझे आकर कहना; तथागत व्यर्थ नहीं धोल्ते ।”

‘अच्छा भवती !’—‘नाली-जंघ ब्राह्मण—‘जहाँ भगवान् थे, वहाँ—‘जाकर, भगवान्के साथ संमोदन कर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे नाली-जंघ ब्राह्मणने भगवान्से कहा—

‘हे गौतम ! मल्लिका देवी ! आप गौतमके चरणोंमें शिरसे वन्दना करती है ० । और यह पूछती है—‘क्या भन्ते ! भगवान्ने यह वचन कहा है—‘प्रिय जातिक ० हैं, शोक ० उपायास’ ?”

“यह ऐसा ही है ब्राह्मण ! ऐसा ही है ब्राह्मण ! प्रिय जातिक = प्रिय-उत्पन्न हैं ब्राह्मण ! शोक ० उपायास । इसे इस प्रकारसे भी—‘जानना चाहिये कि कैसे—‘प्रिय जातिक ० शोक’ ? पहिले समयमें (= भूत पूर्वमें) ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तीकी एक स्त्रीकी माता मर गई थी; वह उसकी मृत्युसे उन्मत्त=विक्षिप्त-चित्त हो एक सड़कसे दूसरी सड़कपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्ते-पर जाकर कहती थी—‘क्या मेरी माको देखा, क्या मेरी माको देखा ।’ इस प्रकारसे भी ब्राह्मण ! जानना चाहिये कि कैसे ० । पहिले समयमें ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तीमें एक स्त्रीका पिता मर गया था ० । ० भाई मर गया था ० । ० भगिनी मर गई थी ० । पुत्र मर गया था ० । ० दुहिता मर गई थी ० । ० स्वामी (= पति) मर गया था ० ।

“पूर्व कालमें ० एक पुरुषकी माता ०—० भार्या ० ।”

“पूर्वकालमें ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तीकी एक स्त्री पीहर गई । उसके भाई-यन्धु उसे उसके पतिसे छीनकर, दूसरेको देना चाहते थे; और वह नहीं चाहती थी। तब उस स्त्रीने पतिसे यह कहा—‘आर्यपुत्र ! यह मेरे भाई-यन्धु मुझे तुमसे छीनकर दूसरेको देना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहती ।’ तब उस पुरुषने—‘दोनों मरकर इकट्ठा उत्पन्न होंगे’ (सोच) उस स्त्रीको दो टुकड़ेकर, अपनेको भी मार डाला । इस प्रकारसे भी ब्राह्मण ! जानना चाहिये ।”

तब नाली-जंघ ब्राह्मण भगवान्के भाषणको अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर आसनसे उठ कर, जहाँ मल्लिकादेवी थी, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ जो कथा-संलाप हुआ था, वह सब मल्लिकादेवीसे कह सुनाया । तब मल्लिकादेवी जहाँ राजा प्रसेनजित् था, वहाँ गई; जाकर राजा प्रसेनजित् कोसलसे बोली—

“तो क्या मानते हो महाराज तुम्हें^१ वजिरी (= वज्रिणी) कुमारी प्रिय है न ?”

“हाँ, मल्लिका ! वजिरी कुमारी मुझे प्रिय है ।”

^१ अ. क. “वजिरी नामक राजाकी एकलौती पुत्री ।”

“तो क्या मानते हो, महाराज ! यदि तुम्हारी वजिरी कुमारीको कोई विपरिणाम (= संकट) या अन्यथात्व होवे, तो क्या तुम्हें शोक ० उपायास उत्पन्न होंगे ?

“मल्लिका ! वजिरी कुमारीके विपरिणाम-अन्यथात्वसे मेरे जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है, ‘शोक ० उत्पन्न होगा’ की तो बात ही क्या ?”

“महाराज ! उन भगवान् जाननहार, देखनहार अर्हत् सम्यक्-संबुद्धने यही सोचकर कहा है—‘प्रिय-जातिक ० ।’ तो क्या मानते हो महाराज ! वासम क्षत्रिया तुम्हें प्रिय है न ?”

“हाँ, मल्लिका ! वासम-क्षत्रिया मुझे प्रिय है ।”

“तो क्या मानते हो महाराज ! वासम क्षत्रियाको कोई विपरिणाम = अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हें शोक ० उत्पन्न होंगे ?”

“मल्लिका ! ० जीवन का भी अन्यथात्व हो सकता है ० ।”

“महाराज ! ० यही सोच कर ० कहा है ० । तो क्या मानते हो महाराज ! विदुडम सेनापति तुम्हें प्रिय है न ?” ० । ० ।

“० । तो क्या मानते हो महाराज ! मैं तुम्हें प्रिय हूँ न ?”

“हाँ मल्लिके ! तू मुझे प्रिय है ।”

“तो क्या मानते हो, महाराज ! मुझे कोई विपरिणाम, अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हें शोक ० उत्पन्न होंगे ?”

“मल्लिका ! ० जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है ० ।”

“महाराज ! ० यही सोचकर कहा है ० । तो क्या मानते हो, महाराज ! काशी और कोसल (के निवासी) तुम्हें प्रिय हैं न ?”

“हाँ मल्लिके ! काशी-कोसल मेरें प्रिय हैं । काशी-कोसलोंके अनुभाव (= वरकत) से ही तो हम काशिकचन्दनको भोगते हैं, माला, गंध, विलेपन (= उवटन) धारण करते हैं ।”

तो ० महाराज ! काशी-कोसलोंके विपरिणाम = अन्यथात्व (= संकट)से, क्या तुम्हें शोक ० उत्पन्न होंगे ?”

“० जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता ० है ?”

“महाराज ! उन भगवान् ० ने यही सोचकर कहा है—‘प्रिय-जातिक = प्रियसे उत्पन्न हैं, शोक ० ।’

“आश्चर्य ! मल्लिके !! आश्चर्य ! मल्लिके !! कैसे वह भगवान् हैं !!! मानों प्रज्ञासे बेधकर देखते हैं । आओ, मल्लिके ! हम दोनों...।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलने आसनसे उठकर, उत्तरासंग (= चद्दर) को एक (धार्य) कंधेपर रख, जिधर भगवान् थे, उधर अंजली जोड़ तीन वार उदान कहा—

“^१ उन भगवान्, अर्हत्, सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है; उन भगवान् अर्हत् सम्यक् सम्युद्धको नमस्कार है; उन भगवान् अर्हत्, सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है ।”

^१ “नमो तस्स भगवतो अरहत्तो सम्मा सम्बुद्धस्स ।”

८८—बाहीतिय-सुत्तन्त (२।४।८)

बुद्ध निन्दित कर्म नहीं कर सकते

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्ती ० जेतवणमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् आनन्द पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिन कर, पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें... पिंड-चार करके... दिनके विहारके लिये जहाँ मृगार-भाताका प्रासाद पूर्वोराम था, वहाँ चले । उस समय राजा प्रसेनजित् ० एकपुंडरीक नाग (= हाथी) पर चढ़कर, मण्याहमें श्रावस्तीसे बाहर जा रहा था । राजा प्रसेनजित् ० ने दूरसे आयुष्मान् आनन्दको आते देखा । देखकर सिरिवड्ड (श्रीवर्द्ध) महामात्यको आमंत्रित किया—

“सौम्य सिरिवड्ड ! यह आयुष्मान् आनन्द हैं न ?”

“हाँ महाराज !...।”...

तब राजा ० ने एक आदमीको आमंत्रित किया—

“आओ, हे पुरुष ! जहाँ आयुष्मान् आनन्द हैं, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान् आनन्दके पैरोंमें बंदना करना...”, और यह भी कहना—‘मन्ते ! यदि आयुष्मान् आनन्दको कोई बहुत जरूरी काम न हो, तो मन्ते ! आयुष्मान् आनन्द कृपाकर एक मिनट (= सुहूर्त) ठहर जायें ।’

“अच्छा देव !”

आयुष्मान् आनन्दने मौनसे स्वीकार किया ।

तब राजा प्रसेनजित् जितना नागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उतर पैदल ही... जाकर... अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो, आयुष्मान् आनन्दसे बोला—

“मन्ते ! यदि आयुष्मान् आनन्दको कोई अत्यावश्यक काम न हो, तो अच्छा हो मन्ते ! आयुष्मान् आनन्द जहाँ अचिरवती नदीका तीर है, कृपा कर वहाँ चलें ।”

आयुष्मान् आनन्दने मौनसे स्वीकार किया ।

तब आयुष्मान् आनन्द, जहाँ अचिरवती नदी का तट था, वहाँ गये । जाकर एक वृक्षके नीचे विछे आसनपर बैठे । तब राजा प्रसेनजित् ० जाकर, नागसे उतर पैदल ही... जाकर... अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुये राजा ० ने... यह कहा—

“मन्ते ! आयुष्मान् आनन्द यहाँ कालीनपर बैठें ।”

“नहीं महाराज ! तुम बैठो, मैं अपने आसनपर बैठूँ ।”

राजा प्रसेनजित् ० विछे आसनपर बैठे । बैठ कर... बोला—

“मन्ते ! क्या वह भगवान् ऐसा कायिक आचरण कर सकते हैं, जो कायिक आचरण, श्रमणों, ब्राह्मणों और विज्ञोंसे निन्दित (= उपारम्भ) है ?”

“नहीं महाराज ! वह भगवान् ० !”

“क्या मन्ते ! ० कायिक आचरण कर सकते हैं ० ?” “नहीं महाराज !”

“आश्चर्य ! मन्ते !! अद्भुत ! मन्ते !! जो हम (दूसरे) श्रमणोंसे नहीं पूरा कर (जान) सके, वह मन्ते ! आयुष्मान् आनन्दने प्रश्नका उत्तर दे पूरा कर दिया । मन्ते ! जो वह बाल = अव्यक्त (= मूर्ख) बिना सोचे, बिना थाह लगाये, दूसरोंका वर्ण (= प्रशंसा) या अ-वर्ण मापण करते हैं, उसे हम सार मानकर नहीं स्वीकार करते । और मन्ते ! जो वह पंडित = व्यक्त = मेघावी (= पुरुष) सोचकर, थाह लगाकर दूसरोंका वर्ण या अवर्ण मापण करते हैं; उसे हम सार मानकर स्वीकार करते हैं । मन्ते ! आनन्द ! कौन कायिक आचरण श्रमणों, ब्राह्मणों, विज्ञोंसे निन्दित है ?”

“महाराज ! जो कायिक-आचरण अ-कुशल (= बुरा) है ।”

“मन्ते ! अकुशल कायिक आचरण क्या है ?” “महाराज ! जो कायिक आचरण स-अवद्य (= सदोष) है ।” “० सावद्य क्या है ?” “जो ० स-व्यापाद्य (= हिंसायुक्त) है ।” “० स-व्यापाद्य क्या है ?” “जो ० दुःख विपाक (= अन्तमें दुःख देनेवाला) है ।”

“० दुःख-विपाक क्या है ?”

“महाराज ! जो कायिक आचरण अपनी पीड़ाके लिये होता है, पर-पीड़ाके लिये होता है; दोनोंकी पीड़ाके लिये होता है । उससे अ-कुशल-धर्म (= पाप) बढ़ते हैं, कुशल-धर्म नाश होते हैं । इस प्रकारका कायिक आचरण महाराज ! ० निन्दित है ।”

“मन्ते आनन्द ! कौन वाचिक-आचरण श्रमणों-ब्राह्मणों-विज्ञोंसे निन्दित है ?” ० । “महाराज ! जो वाचिक-आचरण अपनी पीड़ाके लिये है ० ।”

“० कौन मानसिक आचरण ० ?” ० ।

“मन्ते ! आनन्द ! क्या वह भगवान् सभी अकुशल धर्मों (= बुराइयों)का विनाश वर्णन करते हैं ?”

“महाराज ! तथागत सभी अकुशल धर्मोंसे रहित हैं, सभी कुशल-धर्मोंसे युक्त हैं ।”

“मन्ते आनन्द ! कौन कायिक आचरण (= काय-समाचार) श्रमणों-ब्राह्मणों-विज्ञोंसे अनिन्दित है ?”

“महाराज ! जो कायिक आचरण कुशल है । ० । ० अनवद्य ० । ० । ० अव्यापाद्य ० । ० । ० सुख विपाक ० । ० । जो ० न अपनी पीड़ाके लिये होता है, न पर-पीड़ाके लिये; न दोनोंकी पीड़ाके लिये होता है । उससे अकुशल-धर्म नाश होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं । ० ।

० वाचिक आचरण कुशल हैं ? ० मानसिक आचरण कुशल हैं ? ० ।

“मन्ते आनन्द ! क्या वह भगवान् सभी कुशल धर्मोंकी प्राप्तिको वर्णन करते हैं ?”

“महाराज ! तथागत सभी अकुशल-धर्मोंसे रहित हैं, सभी कुशल-धर्मोंसे युक्त हैं ।”

“आश्चर्य ! मन्ते !! अद्भुत ! मन्ते !! कितना सुन्दर कथन (= सुभाषित) है, मन्ते ! आयुष्मान् आनन्दका !!! मन्ते ! आयुष्मान् आनन्दके इस सुभाषितसे हम परम प्रसन्न हैं । मन्ते ! आयुष्मान् आनन्दके सुभाषितसे इस प्रकार प्रसन्न हुये, हम हाथी-रत्न भी आयुष्मान्को देते, यदि वह आयुष्मान् आनन्दको विहित (= ग्राह्य = कल्प्य) होता, ० अश्व-रत्न (= श्रेष्ठ घोड़ा) भी ०, ० अच्छा गाँव भी ० । किन्तु मन्ते ! आनन्द ! हम इसे जानते हैं, यह आयुष्मान्को ग्राह्य नहीं है । मेरे पास राजा आगध अजातशत्रु, वैदेही-पुत्रकी भेजी...यह सोलह हाथ लम्बी, आठ हाथ चौड़ी बाहीतिक^१ है, उसे आयुष्मान् आनन्द कृपा-करके स्वीकार करें ।”

^१ अ. क. “बाहीत राष्ट्रमें पैदा होनेवाले बलका यह नाम है ।” सतलज और घ्यासके बीचका प्रदेश बाहीत देश है । पाणिनीय (४ : २ : १७ । ५ : ३ : ११४) ने इसे ही बाहीक लिखा है ।

“नहीं महाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।”

“मन्ते ! यह अचिरवती नदी आयुष्मान् आनन्दने देखी है, और हमने सी । जव ऊपर पर्वतपर महामेघ बरसता है, तब यह अचिरवती, दोनों तटोंको भर कर बहती है । ऐसे ही मन्ते ! इस वाहीतियसे आयुष्मान् आनन्द अपना त्रिचीवर बनावेंगे, जो आयुष्मान् आनन्दके चीवर हैं, उन्हें सम्रह्यचारी वाँट लेंगे । इस प्रकार हमारी दक्षिणा (= दान) मानों भर कर बहती हुई (= संविस्थ्यन्दन्ती) होगी । मन्ते ! आयुष्मान् आनन्द मेरी वाहीतिकको स्वीकार करें ।”

आयुष्मान् आनन्दने वाहीतिकको स्वीकार किया । तब राजा ० ने कहा—

“अच्छा मन्ते ! अब हम जाते हैं, (= हम) बहु-कृत्य, बहु-करणीय हैं ।”

“जिसका महाराज ! तुम काल समझते हो ।”

तब राजा प्रसेनजित् ० आयुष्मान् आनन्दके माषणको अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर, आसनसे उठ, ० अमिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया ।

राजा ० के जानेके थोड़ी देर बाद, आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । एक ओर बैठ आयुष्मान् आनन्दने जो कुछ राजा प्रसेनजित् ० के साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब भगवान्को सुना दिया, और वह वाहीतिक भी भगवान्को अर्पण कर दी । तब भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! राजा प्रसेनजित् ० को लाम है, ० सुलाम मिला है, जो राजा ० आनन्दका दर्शन सेवन पाता है ।”

यह भगवान्ने कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के माषणका अभिनन्दन किया ।

८६—धम्मचेतिय-सुत्तन्त (२।४।६)

भोगोंके दुष्परिणाम । बुद्धकी प्रज्ञा

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् शाक्य (देश)में, मेतल्लूप (= मेतल्लुम्प) नामक शाक्योंके निगममें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित् कोसल किसी कामसे नगरकमें आया हुआ था । तब राजा प्रसेनजित् कोसलने 'दीर्घ कारायणको आमंत्रित किया—

“सौम्य कारायण ! सुन्दर यानोंको जुड़वाओ, सुभूमि देखनेके लिये उद्यान-भूमि जायेंगे ।”

“अच्छा देव !”...

“देव ! सुन्दर-सुन्दर यान जुत गये, अब जिसका देव काल समझते हों ।”

तब राजा प्रसेनजित् ० भद्र (= सुन्दर) यानपर आरूढ़ हो, भद्र-भद्र यानोंके साथ, वड़े राजसी ठाटसे नगरकसे निकल कर, जहाँ आराम था, वहाँ गया । जितनी यानकी भूमि थी, उतना यानसे जा, यानसे उतर पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ । राजा प्रसेनजित्ने टहलते हुये आराममें शब्द-रहित, घोप-रहित, निर्जन, ... ध्यान योग्य मनोहर वृक्ष-मूलोंको देखा । देखकर भगवान्की ही स्मृति उत्पन्न हुई—यह वैसे ही ० मनोहर वृक्षमूल हैं, जहाँपर हम भगवान् ० सम्यक् संबुद्धकी उपासना (= सत्संग) करते थे । तब राजा ० ने दीर्घ कारायणसे पूछा—

“सौम्य कारायण ! यह ० मनोहर वृक्षमूल हैं, जहाँपर ० । सौम्य कारायण ! इस समय वह भगवान् ० कहाँ विहरते हैं ?”

“महाराज ! शाक्योंका मेतल्लूप नामक निगम (= कस्वा) है, वह भगवान् ० वहाँ पर विहर रहे हैं ।”

“सौम्य कारायण ! नगरकसे कितनी दूरपर शाक्योंका वह मेतल्लूप निगम है ?”

“महाराज ! दूर नहीं है, तीन योजन है । वाकी वचे दिनमें पहुँचा जा सकता है ।”

“तो सौम्य कारायण ! जुड़वा भद्र यानोंको, हम भगवान् ० के दर्शनके लिये वहाँ चलेंगे ।” “अच्छा देव !”...

...तब राजा प्रसेनजित् सुन्दर यानपर आरूढ़ हो ० नगरकसे निकलकर, ...उसी वचे दिनमें शाक्योंके निगम मेतल्लूपमें पहुँच गया । जहाँ आराम था, वहाँ चला । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे उतर कर पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ ।

उस समय बहुतसे भिक्षु सुली जगहमें टहल रहे थे ० । राजा प्रसेनजित्ने वहीं खड्ग और

^१ देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ४७३ ।

उष्णीष दीर्घ कारायणको दे दिया । दीर्घ कारायणने सोचा—‘मुझे राजा यहीं ठहरा रहा है; इसलिये मुझे यहाँ खड़ा रहना होगा ।’ तब राजा ० जहाँ वह द्वारवन्द विहार था ० गया । भगवान्ने दर्वाजा खोल दिया । राजा ० विहार (= गंधकुटी)में प्रविष्ट हो, भगवान्के चरणोंमें शिरसे पड़कर १ ० ।

“क्या है महाराज ! क्या घात देखकर महाराज ! इस शरीरमें इतना गौरव दिखलाते हो, विचित्र उपहार (= संमान) प्रदर्शन कर रहे हो ?”

“भन्ते ! भगवान्में मेरा धर्म-अन्वय (= धर्म-संवन्ध) है—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, संघ सुमार्गपर आरुढ़ है । भन्ते ! किन्हीं किन्हीं श्रमण ब्राह्मणोंको मैं स्वल्प-कालिक (= पर्यंतक) ब्रह्मचर्य पालन करते देखता हूँ—दश वर्ष, बीस वर्ष, तीस वर्ष, चालीस वर्ष भी । वह दूसरे समय सु-स्नात, सु-विलिप्त, केश-श्मश्रु बनवा (= कल्पित कर) पाँच कामगुणोंसे समर्पित = सम्-अंगीभूत हो, विचरण करते हैं । भन्ते ! भिक्षुओंको मैं देखता हूँ, जीवनभर ‘‘परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करते हैं । भन्ते ! यहाँसे बाहर दूसरा इतना परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य नहीं देखता । भन्ते ! यह भी (कारण है) कि भगवान्में मुझे धर्म-दर्शन (= धर्म-अन्वय) होता है,—‘भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, संघ सु-प्रतिपन्न (= सुमार्गरुढ़) है ।

“और फिर भन्ते ! राजा भी राजाओंसे विवाद करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रियके साथ विवाद करते हैं, ब्राह्मण भी ० , गृहपति (= वैश्य) भी ० , माता भी पुत्रके साथ ० , पुत्र भी माताके साथ ० , पिता भी पुत्रके साथ ० , पुत्र भी पिताके साथ ० , भाई भी भाईके साथ ० , भाई भी वहिनके साथ ० , वहिन भी भाईके साथ ० , मित्र भी मित्रके साथ ० । किन्तु यहाँ भन्ते ! मैं भिक्षुओंको समय (= एकराय), संमोदमान (= एक दूसरेसे मुदित), विवाद-रहित, दूध-जल-यने, एक दूसरेको प्रिय-चक्षुसे देखता विहार करता देखता हूँ । भन्ते ! यहाँसे बाहर मैं (कहीं) ऐसी एकराय परिपद् नहीं देखता । यह भी भन्ते ! ० ।

“और फिर भन्ते ! मैं (एक) आरामसे (दूसरे) आराममें, (एक) उद्यानसे (दूसरे) उद्यानमें, टहलता हूँ, विचरता हूँ; वहाँ मैं किन्हीं-किन्हीं श्रमण ब्राह्मणोंको कृश, रुक्ष, दुर्बल, पीले-पीले, नाडी बँधे गात्रवाले (देखता हूँ); मानों लोगोंके दर्शन करनेसे आँखको बंद कर रहे हैं । तब भन्ते ! मुझे ऐसा होता है—‘निश्चय यह आयुष्मान् या तो वेमन (= अन्-अभिरत) हो ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, या इन्होंने कोई छिपा हुआ पापकर्म किया है, जिससे कि यह आयुष्मान् कृश ० । उनके पास जाकर मैं ऐसे पूछता हूँ—‘आयुष्मानो ! तुम कृश ० ?’ वह मुझे कहते हैं—‘महाराज ! हमें बंधुक-रोग (= कुल-रोग) है ।’ किन्तु भन्ते ! मैं यहाँ भिक्षुओंको दृष्ट, प्रदृष्ट = उदग्र, अभिरत = प्रसन्न-इन्द्रिय उत्सुकता-रहित, रोमांच-रहित, ‘‘मृदु-चित्तसे विहार करते देखता हूँ । यह भी भन्ते ! ० ।

“और फिर भन्ते ! मैं मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा हूँ, मारने योग्यको मरवा सकता हूँ, ‘‘निर्वासन योग्यका निर्वासन कर सकता हूँ । ऐसा होते भी भन्ते ! मेरे (राज-) कार्यमें बैठे वक्, (लोग) बीच-बीचमें घात डाल देते हैं । उनको मैं (कहता हूँ)—‘मैं (काम करने) नहीं पाता, आप लोग कार्य करनेके लिये बैठे वक् बीच बीचमें घात मत डालें; आप घात समाप्त हो जाने तक प्रतीक्षा करें ।’ तो (भी) ‘‘बीच-बीचमें घात डाल ही देते हैं । किंतु यहाँ भन्ते ! मैं भिक्षुओंको देखता हूँ, जिस समय भगवान् अनेक शतकी परिपद्को धर्म-उपदेश करते हैं; उस

समय भगवान्‌के श्रावकोंके थूकने खाँसनेका भी शब्द नहीं होता। भन्ते ! पहिले एक समय भगवान्‌ अनेक शत परिपद्‌को धर्म-उपदेश कर रहे थे; उस समय भगवान्‌के एक श्रावक (= शिष्य) ने खाँसा। तब उसे एक सन्नह्वारीने घुटनेको दबाकर इशारा किया—आयुष्मान्‌ निःशब्द हो, आयुष्मान्‌ शब्द मत करें, शास्ता भगवान्‌ हमें धर्म-उपदेश कर रहे हैं। तब मुझे ऐसा हुआ—‘आइचर्य है जी ! अद्भुत है जी !! जो बिना दंडके ही, बिना शस्त्रके ही, इस प्रकारकी विनय-युक्त (= विनीत) परिपद्‌ !!!’ यहाँसे बाहर भन्ते ! मैं दूसरी इस प्रकारकी सु-विनीत परिपद्‌ नहीं देखता। यह भी ०।

“और फिर भन्ते ! मैं किन्हीं किन्हीं निपुण, कृतपरप्रवाद (= प्रौढ शास्त्रार्थी) वाल-वेधी क्षत्रिय-पंडितोंको देखता हूँ; (जो) मानों (अपनी) प्रज्ञा-गत (युक्तियोंसे) (दूसरेके) दृष्टि-गत (= मतविषयक बातों)को टुकड़े टुकड़े करे डालते हैं। वह सुनते हैं—‘श्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आवेगा’ वह प्रश्न तय्यार करते हैं—इस प्रश्नको हम श्रमण गौतमके पास जाकर पूछेंगे; ऐसा पूछनेपर यदि ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस प्रकार उससे वाद रोपेंगे। वह सुनते हैं—‘श्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आ गया’। वह जहाँ भगवान्‌ (होते हैं) वहाँ जाते हैं। वह भगवान्‌की धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शित हो, प्रेरित हो, समुत्तेजित हो, संप्रहर्षित हो, भगवान्‌से प्रश्न भी नहीं पूछते, वाद कहाँसे रोपेंगे ? वल्कि भगवान्‌के श्रावक ही बन जाते हैं। यह भी ०।

“और फिर भन्ते ! मैं किन्हीं किन्हीं ० ब्राह्मण पंडितों ०।”

“ ० गृहपति पंडितों ०।”

“ ० श्रमण पंडितों ०। भगवान्‌से प्रश्न भी नहीं पूछते, वाद कहाँसे रोपेंगे; वल्कि भगवान्‌से ही घरसे बेघर हो प्रव्रज्या माँगते हैं। उन्हें भगवान्‌ प्रव्रजित करते हैं। वह इस प्रकार प्रव्रजित हो एकाकी ० आत्म-संयमी हो विहरते, जल्दी ही जिसके लिये कुल-पुत्र ० प्रव्रजित होते हैं, उस अनुत्तर (= सर्वोत्तम) ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरते हैं। वह ऐसा कहते हैं—हम नष्ट थे, हम प्र-नष्ट थे; हम पहिले अ-श्रमण होते ही ‘श्रमण हैं’ का दावा करते थे; अ-ब्राह्मण होते ‘ब्राह्मण हैं’ का दावा करते थे। अर्हत् न होते ‘अर्हत् हैं’ का दावा करते थे। अब हैं हम श्रमण, ० ब्राह्मण, ० अर्हत्। यह भी ०।

“और फिर भन्ते ! यह ऋषिदत्त और पुराण स्थपति (= फीलवान्‌) मेरे ही (भोजनसे) भोजनवाले, मेरे ही (पानसे) पानवाले हैं, मैं ही उनके जीवनका प्रदाता, उनके यशका प्रदाता हूँ; तो भी (वह) मेरेमें उतना सन्मान नहीं करते, जितना कि भगवान्‌में। पहिले एक बार भन्ते ! मैं चढ़ाईके लिये जाता था। ऋषिदत्त और पुराण स्थपतिने खोज कर एक भीड़वाले आवसथ (= सराय)में वास किया। तब भन्ते ! वह ऋषिदत्त और पुराण बहुत रात धर्म-कथामें विता, जिस दिशामें भगवान्‌के होनेको सुना था, उधर शिर कर, मुझे पैरकी ओर करके लेट गये। तब मुझे ऐसा हुआ—‘आइचर्य है जी ! अद्भुत है जी !! यह ऋषिदत्त, और पुराण स्थपति मेरे ही भोजनसे भोजनवाले ०। यह आयुष्मान्‌ उन भगवान्‌के शासनमें (= श्रद्धालु) हो, पहिलेसे अवश्य कोई विशेष देखते होंगे। यह भी ०।

“और फिर भन्ते ! भगवान्‌ भी क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ, भगवान्‌ भी कोसलक (= कोसलवासी, कोसल-गोत्रज) हैं, मैं भी कोसलक हूँ। भगवान्‌ भी अस्ती वर्षके, मैं भी अस्ती वर्षका। भन्ते ! जो भगवान्‌ भी क्षत्रिय ०, इससे भी भन्ते ! मुझे योग्य ही है, भगवान्‌का परम सन्मान करना, विचित्र गौरव प्रदर्शित करना। हन्त ! भन्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहुकृत्य

यहु-करणीय हैं ।”

“महाराज ! जिसका तुम काल समझते हो (वैसा करो) ”

तब राजा प्रसेन-जित् ० आसनसे उठ, भगवान्‌को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया ।

राजा ० के जानेके थोड़ी ही देर बाद भगवान्‌ने भिक्षुओंसे कहा—

“भिक्षुओ ! यह राजा प्रसेनजित् ० धर्म-चैत्योंको भाषणकर, आसनसे उठकर चला गया । भिक्षुओ ! धर्म-चैत्योंको सीखो, ० धर्म-चैत्योंको पूरा करो, ० धर्म-चैत्योंको धारण करो । भिक्षुओ ! धर्म-चैत्य सार्थक और आदि (= शुद्ध) ब्रह्मचर्यके हैं ।”

भगवान्‌ने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणका अभिनंदन किया ।

१ अ. क. “राजगृह जाते हुये रास्तेमें कु-अन्न भोजन किया, और बहुत पानी पिया । सुकुमार स्वभाव होनेसे भोजन अच्छी तरह नहीं पचा । वह राजगृहके द्वारोंके बन्द हो जानेपर संध्या (= विकाल) को वहाँ पहुँचा ।...। नगरके बाहर (धर्म-)शालामें लेटा । उसको रातके समय दस्त- (= बुढ़ान) लगने शुरू हुये । कुछ बार वह बाहर गया । फिर पैरसे चलनेमें असमर्थ हो, उस स्त्रीके अंकमें पड़कर बड़े मोर ही मर गया ।...। राजा (अजातशत्रु)ने...विहूडभके निग्रहके लिये भेरी बजाकर सेना जमा की...। अमात्योंने पैरों पर पड़कर...रोका...।”

६०—कण्णत्थलक-सुत्तन्त (२।४।१०)

सर्वज्ञता असंभव । वर्ण-व्यवस्था-खंडन । देव, ब्रह्मा

ऐसा मैंने सुना—

एक समय मगवान् उज्जुका^१ (= उज्ज्जा = उरुज्जा)में कण्णत्थलक (= कर्ण-स्थलक) मृग-दावमें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित् कोसल किसी कामसे उज्जुका (= ऋजुका)में आया हुआ था, राजा प्रसेनजित् कोसलने एक आदमीको आमंत्रित किया—

“भाओो हे पुरुष ! जहाँ मगवान् हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे मगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करना । अल्पावाधा (= आरोग्य) = अल्पातंक लघु-उत्थान (= फुर्ती) धल, प्राशु-विहार (= सुख पूर्वक विहरना) पूछना—‘मन्ते ! राजा प्रसेनजित् कोसल मगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है ० । और यह भी कहना—मन्ते ! आज भोजनोपरान्त, कलेऊ करनेपर, राजा प्रसेनजित् कोसल मगवान्के दर्शनार्थ आयेगा’ ।”

“अच्छा देव !”

सोमा और सकुला (दोनों) वहिनोंने सुना—‘आज राजा...मगवान्के दर्शनार्थ जायेगा । तब सोमा, सकुला वहिनोंने राजा प्रसेनजित् ० के पास, परोसनेके समय जाकर कहा—

“तो महाराज ! हमारे भी वचनसे मगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करना । अल्पावाधा ० पूछना—० ।

तब राजा प्रसेनजित् कोसल कलेऊ करके भोजनोपरान्त जहाँ मगवान् थे, वहाँ गया; जाकर मगवान्को अभिवादन कर...एक ओर बैठ मगवान्से बोला—

“मन्ते ! सोमा और सकुला (दोनों) वहिनें मगवान्के चरणोंको शिरसे वन्दना करती हैं ० ।”

“क्या महाराज ! सोमा और सकुला वहिनोंको दूसरा दूत नहीं मिला ?”

“मन्ते ! सोमा और सकुला वहिनोंने सुना, कि आज राजा...मगवान्के दर्शनार्थ जायेगा...। आकर मुझे यह कहा...।”

“सुखिनी होवें महाराज ! सोमा और सकुला (दोनों) वहिनें ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलने मगवान्से यह कहा—

“मन्ते ! मैंने यह सुना है, कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—‘ऐसा (कोई) श्रमण या

^१अ. क. “उस राष्ट्रका और नगरका भी यही नाम (था) ।.....। उस नगरके अविदू (= समीप) कण्णत्थलक नामक एक रमणीय भूभाग था.....।” ^२अ. क. “यह दोनों वहिनें राजाकी स्त्रियों थीं ।”

ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी (हो), निःशेष ज्ञान दर्शनको जाने, यह सम्भव नहीं है ।' मन्ते ! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—'ऐसा (कोई) ० ।' क्या मन्ते ! वह भगवान्‌के धारमें सच कहते हैं ? भगवान्‌को असत्य = अभूतसे लाञ्छन तो नहीं लगाते ? धर्मके अनुसार कहते हैं, कोई धर्मासुरी कथन (= वादासुवाद) गहणीय (= निंदनीय) तो नहीं होता ?”

“महाराज ! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतमने ऐसा कहा है—'ऐसा (कोई) श्रमण या ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ = सर्वदर्शी (होगा); निःशेष ज्ञान दर्शनको जानेगा, यह सम्भव नहीं है ।' वह मेरे धारमें सच नहीं कहते, वह असत्य = अभूतसे मुझे लाञ्छन लगाते हैं ।”

तब राजा प्रसेनजित् ० ने विह्वल सेनापतिको आमंत्रित किया—

“सेनापति ! आज राजान्तःपुरमें किसने घात (= कथावस्तु) कही थी ?”

“महाराज ! आकाश-गोत्र संजय ब्राह्मणने ।”

तब राजा प्रसेनजित्ने ० एक पुरुषको आमंत्रित किया—

“आओ, रे पुरुष ! मेरे वचनसे ० संजय ब्राह्मणको कहो—'मन्ते ! तुन्हें राजा प्रसेनजित् बुलाते हैं ' ।”

“अच्छा देव !”

“तब राजा प्रसेनजित् ० ने भगवान्‌से कहा—

“मन्ते ! शायद आपने कुछ और सोच (यह) वचन कहा हो, आदमी अन्यथा..... न कहेगा ।”

“तो मन्ते ! जो वचन कहा उसे कैसे भगवान्‌ जानते हैं ?” “महाराज ! मैं जानता हूँ— जो वचन (मैंने) कहा ।”

“महाराज ! मैंने जो वचन कहा उसे इस प्रकार जानता हूँ—'ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं, जो एकही धार (= सकृद् एव) सय जानेगा = सय देखेगा, यह सम्भव नहीं ।'”

“मन्ते ! भगवान्‌ने हेतु-रूप कहा; सहेतु-रूप मन्ते ! भगवान्‌ने कहा—'ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं जो एकही धार सय जानेगा = सब देखेगा, यह सम्भव नहीं ।' मन्ते ! यह चार वर्ण हैं—क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र । मन्ते ! इन चारो वर्णोंमें है कोई विभेद, है कोई नाग-करण ?”

“महाराज ! ० इन चार वर्णोंमें अमिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ने (= अंजलि-कर्म) = सामीची-कर्ममें दो वर्ण अग्र (= श्रेष्ठ) कहे जाते हैं—क्षत्रिय और ब्राह्मण ।”

“मन्ते ! मैं भगवान्‌से इस जन्मके सय धर्मको नहीं पूछता, मैं परलोकके सग्यन्ध (= सांपरायिक)में पूछता हूँ....।”

“महाराज ! यह पाँच प्रधानीय अंग हैं । कौनसे पाँच ? महाराज ! मिथु (१) श्रद्धालु होता है । तयागतकी बोधि (= बुद्ध-ज्ञान) पर श्रद्धा करता—'ऐसे वह भगवान्‌ अर्हत् ० ।' (२) अल्पावाध (= अरोग) ० होता है । (३) दाठ = मायावी नहीं होता है ० (४) ० आरब्ध-वीर्य (= उद्योगशील) होता है । (५) प्रज्ञावान्‌ होता है ० । महाराज ! यह पाँच प्रधानीय अंग हैं । महाराज ! चार वर्ण—ब्राह्मण ० शूद्र हैं । वह यदि पाँच प्रधानीय-अंगोंसे युक्त हों, तो वह उनके दीर्घ-रात्र (= चिरकाल) तक हित, सुखके लिये होगा ।”

“भन्ते ! चार वणं ० हैं । और यदि वह प्रधानीय-अंगोंसे युक्त हों । तो भन्ते ! क्या उनमें भेद = नानाकरण नहीं होगा ?”

“महाराज ! उनका प्रधान, नानान्त (= भेद) नहीं करता । जैसेकि महाराज ! दो दमनीय हाथी, दमनीय घोड़े, = बैल, सु-दान्त = सु-विनीत (अच्छी प्रकार सिखलाये) हों, दो दमनीय हाथी, ० घोड़े, ० बैल अ-दान्त = अ-विनीत (= बिना सिखलाये) हों तो महाराज ! जो वह ० सु-दान्त, सु-विनीत हैं, क्या वह दान्त होनेसे दान्त-पदको पाते हैं = दान्त होनेसे दान्त-भूमिको प्राप्त होते हैं ?”

“हाँ भन्ते !”

“और जो महाराज ! अ-दान्त, अविनीत हैं, क्या वह अदान्त (बिना सिखाये) ० ही, दान्त = पदको पाते हैं, अदान्त ही दान्तभूमिको प्राप्त हो सकते हैं ? जैसेकि वह दो ० सुदान्त = सुविनीत ?”

“नहीं, भन्ते ?”

“ऐसेही महाराज ! जोकि श्रद्धालु, निरोग, अशठ = असायावी, आरब्ध-वीर्य, प्रज्ञावान् द्वारा प्राप्य (वस्तु) है, उसे अ-श्रद्ध, बहुरोगी, शठ = सायावी, आलसी, दुष्प्रज्ञ पायेगा, यह संभव नहीं है ।”

“भन्ते ! भगवान् ने हेतु-रूप (= ठीक) कहा ० भन्ते ! चारों वणं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र हैं, और वह यदि इन प्रधानीय अंगोंसे युक्त हों = सम्यक् प्रधानवाले हों । तो भन्ते ! क्या उनमें (कुछ) भेद नहीं होगा = कुछ नाना करण नहीं होगा ?”

“महाराज ! मैं उनमें कुछ भी ‘यह जोकि विमुक्तिका विमुक्तिले भेद (= नानाकरण) है’ नहीं कहता । जैसे महाराज ! (एक) पुरुष सूखे शाककी लकड़ीको लेकर अग्नि तैयार करे, तेज प्रादुर्भूत करे, और दूसरा पुरुष सूखे शाल (= साखू)-काष्ठसे आग तैयार करे ०; और दूसरा पुरुष सूखे आमके काष्ठसे ०; और दूसरा पुरुष सूखे गूलर-काष्ठसे ०; तो क्या मानते हो महाराज ! क्या उन नाना काष्ठोंसे बनाई आगोंका, लौसे लौका, रंगसे रंगका, आभासे आभाका कोई भेद होगा ?”

“नहीं, भन्ते !”

“ऐसे ही महाराज ! जिस तेज (= मुक्ति)को वीर्य (= उद्योग) तैयार करता है । उसमें, इस विमुक्तिले दूसरी विमुक्तिमें कुछ भी भेद मैं नहीं कहता हूँ ।”

“भन्ते ! भगवान् ने हेतुरूप (= ठीक) कहा ० । क्या भन्ते ! देव (= देवता) हैं ?”

“महाराज ! व क्या ऐसा कह रहा है—‘भन्ते ! क्या देव हैं’ ?”

“कि भन्ते ! क्या देवता मनुष्यलोकमें आनेवाले होते हैं, या मनुष्यलोकमें आनेवाले नहीं होते ?”

“महाराज ! जो वह देवता लोभ-रहित हैं, वह मनुष्यलोक (इत्यत्त)में आनेवाले होते हैं, जो लोभ-रहित हैं, वह ० नहीं आनेवाले होते हैं ।”

ऐसा कहनेपर विड्डम सेनापतिने भगवान् से कहा—

“भन्ते ! जो वह देवता लोभ-रहित मनुष्यलोकमें न आनेवाले हैं, क्या वह देवता अपने स्थानसे च्युत होंगे = प्रव्रजित होंगे ?”

तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—“यह विड्डम सेनापति राजा प्रसेनजित् कोसलका पुत्र है, मैं भगवान् का पुत्र हूँ; यह समय है, जब पुत्रको, निमंत्रित करे ।” और आयुष्मान् आनन्द

ने विद्वडभ सेनापतिको आमंत्रित किया—

“तो सेनापति ! तुम्हें ही पूछता हूँ, जैसा तुम्हें ठीक जैसा कहो। तो सेनापति ! जितना राजा प्रसेनजित् कोसलका राज्य (= विजित) है, जहाँपर कि राजा प्रसेनजित् ० ऐश्वर्य = आधिपत्य करता है; राजा प्रसेनजित् ० श्रमण या ब्राह्मणको; पुण्यवान् या अपुण्यवान्को, ब्रह्मचर्यवान् या अब्रह्मचर्यवान्को, क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?”

“० सकता हूँ ।”

“तो क्या मानते हो सेनापति ! जितना राजा प्रसेनजित् ० का अ-विजित (= राज्यसे बाहर) है, जहाँ ० आधिपत्य नहीं करता है, ० क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?”

“० नहीं सकता ।”

“तो क्या मानते हो सेनापति ! क्या तुमने त्र्यस्त्रिंश देवोंको सुना है ?”

“हाँ, भो ! मैंने त्र्यस्त्रिंश देव सुने हैं, आप राजा-प्रसेनजित् कोसलने भी त्र्यस्त्रिंश देव सुने हैं ।”

“तो क्या मानते हो सेनापति ! क्या राजा-प्रसेनजित् कोसल त्र्यस्त्रिंश देवोंको उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?”

“त्र्यस्त्रिंश देवोंको राजा प्रसेनजित् ० देखनेको भी नहीं पा सकता, कहाँसे उनको स्थानसे हटाये या निकालेगा ?”

“ऐसे ही सेनापति ! जो देवता लोभ-सहित हैं, वह मनुष्य-लोकमें आते हैं, जो लोभ-रहित हैं, वह ० नहीं आते। वह देखनेको भी नहीं पाये जा सकते, कहाँसे उस स्थानसे हटाये या निकाले जायेंगे ?”

तय राजा प्रसेनजित् कोसलने भगवान्से कहा—

“मन्ते ! यह कौन नामवाला मिछु है ?”

“आनन्द नामक महाराज !”

“ओ हो ! आनन्द हैं !! ओहो ! आनन्द-रूप हैं !! मन्ते ! आयुष्मान् आनन्द ठीक कहते हैं। मन्ते ! क्या ब्रह्मा है ?”

“तू क्या महाराज ! ऐसे कहता है,—मन्ते ! क्या ब्रह्मा है ?”

“मन्ते ! क्या वह ब्रह्मा मनुष्यलोकमें आता है, या मनुष्य-लोकमें नहीं आता ?”

“महाराज ! जो...ब्रह्मा लोभ-सहित है ० आता है, लोभ-रहित ० नहीं आता ।”

तय एक पुरुषने राजा प्रसेनजित् ० से कहा—

“महाराज ! आकाश-गोत्र संजय ब्राह्मण आ गया ।”

तय राजा प्रसेनजित् ० ने ० संजय ब्राह्मणसे कहा—

“ब्राह्मण ! किसने इस बात (= कथा-वस्तु)को राज-अन्तःपुरमें कहा था ?”

“महाराज ! विद्वडभ सेनापतिने ।”

विद्वडभ सेनापतिने कहा—“महाराज ! आकाश-गोत्र संजय ब्राह्मणने ।”

तय एक पुरुषने राजा प्रसेनजित्से कहा—

“जानेका समय है, महाराज !”

तय राजा प्रसेनजित् ० भगवान्से यह बोला—

“हमने मन्ते ! भगवान्से सर्वज्ञता पूछी, भगवान्ने सर्वज्ञता यतलाई, वह हमको रचती है, पसन्द है, उससे हम सन्तुष्ट हैं। चारों वर्णकी शुद्धि (= चातुर्वर्णी शुद्धि) ० पूछी ०। देवों

के विषयमें ० पूछा ० । ब्रह्माके विषयमें ० पूछा ० । जो जो ही मन्ते ! हमने भगवान्से पूछा, वही वही भगवान्ने यत्तलाया ; और वह हमको रुचता है, पसन्द है, उससे हम सन्तुष्ट हैं । अच्छा तो मन्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहु-कृत्य हैं, बहु-करणीय हैं ।”

“जिसका महाराज ! तू (इस समय) काल समझे ।”

तब राजा प्रसेनजित् ० भगवान्के भाषणको अभिनन्दित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया ।

(इति ९—राजवग्ग २१४)

६१—ब्रह्मायु-सुत्तन्त (२।५।१)

महापुरुष-लक्षण । बुद्धका रूप, गमन, गृहसँके घरमें प्रवेश, भोजनका ढंग । ब्राह्मण, वेदगू आदिकी व्याख्या

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् पाँच सौ मिथुओंके महामिथु-संघके साथ विदेह (देश)में चारिका कर रहे थे ।

उस समय (एक) जीर्ण = वृद्ध = महल्लक = अध्वगत = वयःप्राप्त जन्मसे १२० वर्षोंका ब्रह्मायु नामक ब्राह्मण मिथिला (-नगर)में बसता था । (वह) पाँचवें इतिहास और निघंटु-केटुम (= कल्प), अक्षरप्रमेद (= शिक्षा-निरुक्त)-सहित तीनों वेदों^१का पारंगत, पद-ज्ञ, वैयाकरण, लोकायत (-शास्त्र) तथा महापुरुषलक्षण (= सामुद्रिक शास्त्र)में परिपूर्ण था । ब्रह्मायु ब्राह्मणने सुना—शाक्यकुलसे प्रव्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम पाँचसौ मिथुओंके महान् मिथु-संघके साथ विदेहमें चारिका कर रहे हैं । उन आप गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द फैला हुआ है—‘वह भगवान् अर्हत् हैं^२ ० भगवान् बुद्ध हैं । वह ब्रह्मलोक सहित ०^३ ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करते हैं । ऐसे अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है ।

उस समय ब्रह्मायु ब्राह्मणका उत्तर नामक भाणवक शिष्य था, (जोकि) पाँचवे इतिहास और निघंटु-केटुम-अक्षरप्रमेद-सहित तीनों वेदोंका पारंगत, पदज्ञ, वैयाकरण, लोकायत (-शास्त्र) तथा महापुरुषलक्षणमें परिपूर्ण था । तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने उत्तर भाणवकको संयोधित किया—

“तात, उत्तर^३ ! यह शाक्यकुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम ० विदेहमें चारिका कर रहे हैं । उन आप गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द फैला हुआ है—० ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करते हैं । ऐसे अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है । आओ, तात, उत्तर ! जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ जाओ । जाकर, श्रमण गौतमको जानो, कि आप गौतमका शब्द यथार्थ फैला हुआ है; या अयथार्थ ? क्या आप गौतम वैसे हैं, या नहीं ! तेरे द्वारा हम आप गौतमको जानेंगे ।”

“कैसे, मो ! मैं उन गौतमको जानूँगा—कि आप गौतमका (कीर्ति-) शब्द यथार्थ फैला हुआ है, या अ-यथार्थ ? क्या आप गौतम वैसे हैं या नहीं ?

“तात, उत्तर ! हमारे संजोंमें यत्तीस महापुरुष-लक्षण आये हैं, जिनसे युक्त पुरुषकी येही गतियाँ होती हैं, और नहीं । यदि वह घरमें रहता है; तो जनपदों (के राजपदपर) स्थिरताको प्राप्त, चारों छोरों (तक पृथिवी)को जीतनेवाला, सात रत्नोंसे युक्त धार्मिक धर्मराज चक्रवर्ती राजा होता है । उसके यह सात रत्न होते हैं—(१) चक्र-रत्न, (२) हस्ति-रत्न, (३) अजय-रत्न,

^१ उस समय (ई. पू. पाँचवीं, छठीं शताब्दी तक) अथर्वको वेदमें नहीं शामिल किया गया था ।

^२ देखो पृष्ठ ११३ ।

^३ तुलना करो अम्बडसुत्त (दी. नि.) ।

(४) मणि-रत्न, (५) स्त्री-रत्न, (६) गृहपति-रत्न, और (७) सातवाँ परिणायक-रत्न । सहस्राधिक इसके पर-सैन्य-प्रसर्दक, शूर, वीर पुत्र होते हैं । वह सागर-पर्यन्त इस पृथिवीको विना दण्ड, विना शस्त्रके धर्मसे जीत कर शासन करता है । यदि वह घरसे वेधरहो प्रव्रजित होता है, तो कपाट-खुला अर्हत्, सम्यक्-संबुद्ध होता है । तात उत्तर ! तुम्हारा मंत्रोंका दाता हूँ, और तुम प्रतिगृहीता हो ।”

ब्रह्मायु ब्राह्मणको—‘हाँ, भो !’ कह, उत्तर माणवक आसनसे उठ अभिवादनकर प्रदक्षिणा कर विदेहमें जिधर भगवान् थे, उधर चारिका (= यात्रा)पर चल पड़ा । क्रमशः चारिका करते जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ ‘‘सम्मोदनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये उत्तर माणवक भगवान्के शरीरमें वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंको हूँद रहा था । उत्तर माणवक ने भगवान्के शरीरमें दोको छोड़ वत्तीस महापुरुषलक्षणोंमेंसे अधिकांशको देख लिया । सुदीर्घ जिह्वा और कोपाच्छादित वस्त्रि दोके वारेमें सन्देहमें पडा हुआ था । तब भगवान्को यह हुआ— ‘यह उत्तर माणवक मेरे शरीरमें वत्तीस महापुरुषलक्षणोंको देख रहा है । उत्तर माणवक मेरे शरीर में दोको छोड़ ० सन्देहमें पडा हुआ है ।’

तब भगवान्ने इस प्रकारका ऋद्धि-प्रभाव प्रकट किया, कि उत्तर माणवकने भगवान्की कोपाच्छादित वस्त्रिको देख लिया । तब भगवान्ने जिह्वाको निकालकर उससे दोनों कानोंकी जड़को छू दिया, नाकके दोनों छिद्रोंको छू दिया, जिह्वासे ललाटको आच्छादित कर दिया । तब उत्तर माणवकको यह हुआ—‘श्रमण गौतम वत्तीस महापुरुष लक्षणोंसे युक्त है । क्यों न मैं श्रमण गौतमका अनुगमन करूँ, और उसके ईर्यापथ (= चाल ढाल)को देखूँ’ । तब उत्तर माणवक छः मास तक अनपायिनी (= न छोड़नेवाली) छायाकी माँति भगवान्के पीछे पीछे फिरता रहा । तब सात मासके बाद उत्तर माणवक विदेह(-देश)में जहाँ मिथिला है, वहाँ चारिकाके लिये चला । क्रमशः चारिका करते जहाँ मिथिला थी, जहाँ ब्रह्मायु, ब्राह्मण था, वहाँ पहुँचा । पहुँच कर ब्रह्मायु ब्राह्मणको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे ब्रह्मायु ब्राह्मणसे उत्तर माणवकने यह कहा—

“क्या तात उत्तर ! वैसा होते भगवान् गौतमका (कीर्ति-) शब्द सत्यके अनुसार ही उठा हुआ है, अन्यथा तो नहीं है ? क्या वह आप गौतम वैसे ही हैं, अन्यादृश नहीं हैं ?”

“भो ! वैसा होते भगवान् गौतमका (कीर्ति-) शब्द सत्यके अनुसार (= यथार्थ) ही उठा हुआ है, अन्यथा नहीं । वह आप गौतम वैसे ही हैं, अन्यादृश नहीं । भो ! आप गौतम वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं ।—(१) आप गौतम सुप्रतिष्ठित-पाद (= जिसका पैर जमीन पर बराबर बैठता हो) हैं, यह भी आप महापुरुष गौतमके महापुरुष-लक्षणोंमें एक है । (२) आप गौतमके नोत्रे पैरके तलत्रेमें सर्वाकार-परिपूर्ण नामि-नेमि (= पुट्टी)-युक्त सहस्र-अरों वाले, चक्र हैं । (३) आप गौतम आयत-पाणि (= चौड़ी मुट्ठीवाले) हैं । (४) ० दीर्घ-अंगुल ० । (५) ० मृदु-तरुण-हस्त-पाद ० । (६) ० जाल-हस्त-पाद (= अंगुलियोंके बीच वत्तके पंजेकी माँति चमड़ा) ० । (७) ० उस्संखपाद (= गुल्फ ऊपर अवस्थित हैं, जिस पादमें) ० । (८) ० एणीजंघ (= मृग जैसा पेंडुली वाला भाग जिसका हो) ० । (९) (सीधे) खड़े विना झुके वह आप गौतम दोनों जाँघोंको अपने हाथके तलवोंसे छूते हैं (= आजानु-वाहु) ० । (१०) कोपाच्छादित वस्त्रिगुह्य (= पुरुष-इन्द्रिय) ० । (११) सुवर्ण-वर्ण ० कंचनसमान त्वचावाले ० । (१२) सूक्ष्म-छवि (छवि = ऊपरी चमड़ा) है ० जिससे कायापर मैल-धूल नहीं चिपटती ० । (१३) एकैकलोम, एक एक रोम कूपमें उनके एक एक रोम हैं ० । (१४) ० ऊर्ध्वात्र-लोमा, ० उनके अंजनसमान नीले तथा प्रदक्षिणा (धार्यसे दाहिनी ओर)

से कुंडलित लोभोके तिर ऊपरको उठे हैं ० । (१५) ब्राह्म-ऋजु-गात्र (= लम्बे अकृष्टिल शरीर वाले) ० । (१६) सप्त-उत्सव (= सातों अंगोंमें पूर्ण आकारवाले) ० । (१७) सिंह-पूर्वार्द्ध-काय (= छाती आदि शरीरका ऊपरी भाग सिंहकी भाँति जिसका हो) ० । (१८) चितान्त-रास (= दोनों कंधोंका विचला भाग जिसका चित = पूर्ण है) ० । (१९) न्यप्रोथ-परिमंडल है, ०, जितनी काया उसके अनुसार व्यायाम (= चौड़ाई), जितनी चौड़ाई उतनी काया ० । (२०) समवर्त-स्कंध (= समान परिमाणके कंधेवाले) ० । (२१) रसना-सगी (= सुन्दर शिराओंवाले) ० । (२२) सिंह-हनु (= सिंहसमान पूर्ण ढोड़ीवाले) ० । (२३) चन्वालीस-दन्त ० । (२४) सम-दन्त ० । (२५) अ-विवर-दन्त ० । (२६) सु-शुद्ध-दाद (= खूब सफेद दाढ़वाले) ० । (२७) प्रभूत-जिह्व (लम्बी जीभवाले) ० । (२८) ब्रह्म-स्वर, करबिक (पक्षीसे) स्वरवाले ० । (२९) अमिनील-नेत्र (= अतसी पुष्प जैसी नीली आँखों-वाले) ० । (३०) गो-पद्मा (= गाय जैसी पलकवाले) ० । (३१) इस आप गौतमके माँहोंके बीचमें श्वेत क्रोमल कपास सी ऊर्णा (= रोम-राजी) हैं ० । (३२) उष्णीपशीर्ष (= पगड़ी जैसे चारों ओर समानाकार शिरवाले) हैं आप गौतम, यह भी आप महापुरप गौतमके महापुरुष लक्षणोंमें हैं । भो ! आप गौतम इन वत्सीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं ।

“वह भगवान् चलते वक्त पहिले दाहिना ही पैर उठाते हैं । वह न बहुत दूरसे पैर उठाते हैं, न बहुत समीप रखते हैं ! वह न अति शीघ्र चलते हैं, न अति शूनः चलते हैं । न जानुसे जानुको घट्टित करते चलते हैं; न गुल्फ (= घुट्टी) से गुल्फको घट्टित (= रगडते) चलते हैं । चलते वक्त न वह शक्यि (= उरु) को ऊपर उठाते हैं; न शक्यिको नवाते हैं, न शक्यिका सन्नामन (= घुमाना) करते हैं, न विनामन (= हिलाना) करते हैं । चलते वक्त आप गौतमका निचला शरीर ही हिलता है, काय-बल (= शरीर फेंकने) से नहीं चलते । विना अवलोकन करते वह आप गौतम सारी कायासे अवलोकन जैसे करते हैं । वह न ऊपरकी ओर अवलोकन करते हैं, न नीचेकी ओर अवलोकन करते हैं, न चारों ओर देखते चलते हैं । युगमात्र (= चार हाथ) देखते हैं, उससे आगे उनकी सुली शान-दृष्टि होती है ।

“वह गृहस्थोंके घरके भीतर (= अन्तरघर) कायाका उन्नामन (= ऊपर उठाना) करते हैं, न अन्नामन करते हैं, न कायाको सन्नामन करते हैं, न विनामन करते हैं । वह न आसनसे दूर न अतिसमीप (काया) को पलटते हैं । न हाथका अवलंब लेकर आसनपर बैठते हैं, न आसनपर कायाको फेंकते हैं । वह अन्तरघरमें न हाथकी चंचलता दिखलाते हैं, न पैर की चंचलता दिखलाते हैं; न जानु पर जानु रखकर बैठते हैं, न गुल्फको गुल्फपर चढ़ाकर ०, न हाथको ठुट्टीपर रखकर बैठते हैं । वह अन्तरघरमें बैठे हुये न स्तब्ध होते हैं, न काँपते हैं, न हिलते हैं, न परित्रास (= चंचलता) को प्राप्त होते हैं वह आप गौतम विना स्तब्धतारहित, कम्पनरहित, वे जनरहित, परित्रासरहित, रोमांचरहित, विवेकयुक्त हो अन्तरघरमें बैठते हैं ।

“वह पात्रमें जल ग्रहण करते वक्त न पात्रको ऊपर उठाते हैं, न पात्रका अन्नामन (= नचाना) करते हैं, न पात्रको सन्नामन करते हैं, न पात्रको विनामन करते हैं । यह आंदन (= भात) न बहुत अधिक न बहुत कम ग्रहण करते हैं । आप गौतम व्यंजन (= तैवन) जो व्यंजनकी मात्रासे ग्रहण करते हैं, ग्राममें अधिक मात्रामें व्यंजन नहीं ग्रहण करते । दो तीन घार करके आप गौतम मुखमें आसको चवा कर खाते हैं । भातका जूठन अलग होकर उनके शरीरपर नहीं गिरता । भातका जूठन मुँहमें बँचे रहते वह दूसरा आस (मुँहमें) नहीं ढालते । आप गौतम रसको प्रतिसंवेदन (= अनुभव) करते आहार ग्रहण करते हैं, किन्तु रसमें रागको प्रतिसंवेदन

करते नहीं। आप गौतम आठ अंगों (= वातों) से युक्त आहार ग्रहण करते हैं—न चपलताके लिये, न मद्दके लिये, न मंडनके लिये, न विभूषणके लिये; जितना (आहार) इस कायाकी स्थिति और यापनके लिये, (भूखकी) पीड़ाकी शांतिके लिये, ब्रह्मचर्यकी सहायताके लिये (आवश्यक है उतना ही ग्रहण करते हैं); इस प्रकार (इस आहारकी मद्दसे) पुरानी वेदना (= भोग) को हटायेंगे, नई वेदनाको उत्पन्न न होने देंगे, मेरी (शरीर-)यात्रा भी होगी, निर्दापता और सरल विहार भी होगा।

“वह भोजनके वाद पानी जल ग्रहण करते न पात्रका उन्नामन करते हैं, न अवनामन, सन्नामन या विनामन करते हैं। वह मात्रासे न बहुत कम न बहुत अधिक जल ग्रहण करते हैं। वह न पात्रको बुलबुल करते धोते हैं, न उलटते हुये पात्रको धोते हैं; न पात्रको भूमिपर फेंक कर हाथ धोते हैं। (उनके) हाथ धोते वक्त पात्र धुल जाते हैं, पात्र धोते वक्त हाथ धुल जाते हैं। वह पात्रके जलको न अति-दूर (से) छोड़ते हैं, न अति-समीपसे, न घुमाते छोड़ते हैं। वह भोजन कर चुकने पर न पात्रको भूमिपर फेंकते हैं, न, अति-दूर न अति-समीप (रखते हैं)। न पात्रसे वेपर्वा होते हैं, न सर्वदा उसकी रक्षामें ही तत्पर रहते हैं।

“भोजनोपरान्त वह थोड़ी देर चुपचाप बैठते हैं, और अनुमोदन (= भोजन संबंधी अनुमोदन) के कालको अति-क्रमण करते हैं। भोजनोपरान्त वह उस भोजनका अनुमोदन करते हैं, उसकी निंदा नहीं करते। और भक्त (= मात) नहीं चाहते। उस (भिक्षु-)परिपद्को धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शन = समादपन = समुत्तेजन = संप्रशंसन करते हैं। धार्मिक कथा द्वारा संदर्शन ० करके आसनसे उठ कर चले जाते हैं।

“वह न अति-शीघ्र चलते हैं, न अति-शनैः चलते हैं; न हूटनेकी इच्छा (जैसे) चलते हैं। आप गौतमके शरीरमें चीवर न अत्यन्त ऊपर रहता है, न अत्यन्त नीचे, न कायामें अत्यधिक सटा, न कायासे अत्यधिक निकला हुआ। आप गौतमके शरीरसे हवा चीवर उड़ाती नहीं। आप गौतमके शरीरमें मल भी नहीं चिमटता।

“वह आरामके भीतर विछे आसन पर बैठते हैं। बैठकर पैर पखारते हैं। आप गौतम पादके मंडनमें तत्पर हो नहीं विहरते। वह पाद पखार कर, शरीरको सीधा रख, स्मृति (= होश) को सामने रखकर बैठते हैं। वह न आत्म-पीड़ाके लिये सोचते हैं, न पर-पीड़ाके लिये सोचते हैं, न दोनों (आत्म-पर-)पीड़ाके लिये सोचते हैं। आप गौतम आत्महित, पर-हित, उभय-हित, लोक-हितको चिन्तन करते ही आसीन रहते हैं।

“वह आरामके भीतर परिपद्में धर्मोपदेश करते हैं। न उस परिपद्को उत्साहित (= उठाते) करते हैं, न अपसादित (= गिराते) करते हैं। वल्कि धार्मिक कथा द्वारा उस परिपद्को संदर्शित, समादपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित करते हैं। आप गौतमके मुखसे घोष आठ अंगों (= वातों) के सहित निकलता है—(१) प्रासाणिक, (२) विज्ञेय, (३) मंजु, (४) श्रवणीय, (५) विन्दु (= सारयुक्त), (६) अविसारि (= अ-कट्ट), (७) गंभीर, और (८) निर्नादी (= खनखन)। परिपद् (के परिमाण) के अनुसार स्वरसे आप गौतम उपदेशते हैं, उनका घोष परिपद्से बाहर नहीं जाता, आप गौतमकी धार्मिक कथासे संदर्शित ० (श्रोतागण) आसनसे उठकर विना (मुड़कर) देखते चले जाते हैं, (किन्तु) भावसे छोड़े नहीं (जाते)।

“भो ! हमने आप गौतमको गमन करते देखा, हमने आप गौतमको खड़े हुये देखा, अन्तरमें प्रवेश करते देखा; अन्तर-घर (= गृहस्थके घर) में चुपचाप बैठे देखा; भोजनोपरान्त (भोजनको) अनुमोदन करते देखा। आरामको जाते देखा। आरामके भीतर चुपचाप बैठे देखा,

आरामके भीतर परिपक्वको धर्मोपदेश करते देखा । आप गौतम ऐसे ऐसे हैं, इससे भी अधिक हैं ।”

ऐसा कहनेपर ब्रह्मायु ब्राह्मणने आसनसे उठकर, उत्तरासंगको एक कंधेपर कर, जिस (दिशाकी) ओर भगवान् थे, उधर अंजलि जोड़ तीन बार उद्दान उदाना—“उन भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है, उन भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है, उन भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है । क्या कमी उन आप गौतमके साथ हमारा समागम होगा ! क्या कुछ कया-संलाप होगा !”

तब भगवान् क्रमशः विदेहमें चारिका करते, जहाँ मिथिला थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ मिथिला में भगवान् भस्त्रादेव-आम्रवनमें विहार करते थे । मैथिल ब्राह्मण गृहपतियोंने सुना—“शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम विदेहमें चारिका करते पाँच सौके महान् भिक्षु-संघके साथ मिथिलामें प्राप्त हुये हैं; और मिथिलामें भस्त्रादेव-आम्रवनमें विहार करते हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा कल्याण कीर्तिशब्द उठा हुआ है—वह भगवान् अर्हत् ०^१ ऐसे अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है ।”

तब मैथिल ब्राह्मण गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये ०^२ कोई कोई चुपचाप हो एक ओर बैठ गये ।

ब्रह्मायु ब्राह्मण ने सुना—“शाक्यकुलसे प्रव्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम ० मिथिलामें प्राप्त हुये हैं । और मिथिलामें भस्त्रादेव-आम्रवनमें विहार करते हैं । तब ब्रह्मायु ब्राह्मण बहुतसे भाणवों के साथ जहाँ भस्त्रादेव-अम्रवन था, वहाँ गया । तब ब्रह्मायु ब्राह्मणको आम्रवनके पास जानेपर यह हुआ—“यह मेरे लिये ठीक नहीं, कि बिना पहिले सूचित किये मैं दर्शनके लिये जाऊँ ।”

तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने एक भाणव(= विद्यार्थी)से कहा—“आओ भाणवक ! तुम जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे श्रमण गौतमको अल्पावाधा (= आरोग्य) = अल्पातङ्क; लघुत्थान (= फुर्ती) बल, प्राशु-विहार (= सुख पूर्वक विहारना) पूछना, ‘भो गौतम ! ब्रह्मायु ब्राह्मण आप गौतमकी अल्पावाधा (= आरोग्य) ० पूछता है’ । और यह भी कहना—‘ब्रह्मायु ब्राह्मण जीर्ण = वृद्ध = महल्लक, = अध्वगत = वयोनुप्राप्त, जन्ममे एक सौ बीस वर्षका है । वह आप गौतमके दर्शनकी इच्छा रखता है’ ।”

“अच्छा, भो”—(कह) वह भाणवक ब्रह्मायु ब्राह्मणको उत्तर दे, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्के साथ...संमोदन कर एक ओर...खडा हो...भगवान्से बोला—

“भो गौतम ! ब्रह्मायु ब्राह्मण आप गौतमकी अल्पावाधा ० पूछता है । ० भो गौतम ! ब्रह्मायु ब्राह्मण ० वृद्ध ० एक सौ बीस वर्षका है । वह ०^३ तीनों वेदोंका पारंगत ० महापुरप लक्षणमें परिपूर्ण है । मिथिलामें जितने ब्राह्मण गृहपति बसते हैं, ब्रह्मायु ब्राह्मण, भोग, मंत्र (वेद), आयु और यज्ञ...सय तरह उनमें अग्र (= श्रेष्ठ) है, वह आप गौतम का दर्शन चाहता है ।”

“भाणवक ! ब्रह्मायु ब्राह्मण इस वक्त जिसका काल समझे (वैसा करे) ।”

तब वह भाणवक जहाँ ब्रह्मायु ब्राह्मण था, वहाँ गया; जाकर ब्रह्मायु ब्राह्मणसे बोला—

“भो ! श्रमण गौतमने आपको अवकाश दे दिया, अब आप जिसका काल समझें ।”

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । उस (ब्राह्मण-) परिपक्वने दूरमे ही ब्रह्मायु ब्राह्मणको आते देखा । देखते ही ज्ञात (= प्रसिद्ध) और यशस्वी, उसके लिये अवकाश कर दिया । तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने उस परिपक्वसे यह कहा—

^१ देखो पृष्ठ १५८ ।

^२ देखो पृष्ठ १६८ ।

^३ देखो पृष्ठ ३८६ ।

“नहीं, भो ! आप सब अपने आसनपर बैठें । मैं यहाँ श्रमण गौतमके समीप बैठूँगा ।”

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ संमोदन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठा ब्रह्मायु ब्राह्मण, भगवान्के शरीरमें महापुरुष लक्षणोंको ढूँढ़ रहा था ०^१ दोके वारमें संदेहमें पड़ा हुआ था । तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने भगवान्से गाथाओं द्वारा कहा—

“जो मैंने वत्तीस महापुरुष-लक्षण सुने हैं ।
उनमें से दोको आप गौतमके शरीरमें नहीं देखता ।
नरोत्तम ! क्या आपका वस्तिगुह्य कोपाच्छादित है -
स्त्री-इन्द्रिय-समान ? जीभ छोटी तो नहीं ?
दीर्घजिह्व तो हो ? जैसे हम उसे जानें,
(वैसे) इसे थोडा निकालें । ऋषे ! शंका दूर करें;
इस जन्मके हितके लिये और पर-जन्ममें सुखके लिये ।
आज्ञा पाकर जो कुछ अभीष्ट है, पूछूँगा ।”

भगवान्को यह हुआ—‘यह ब्रह्मायु ब्राह्मण मेरे शरीरमें वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंको देख रहा है ०^१ जिह्वासे ललाटको आच्छादितकर दिया । तब भगवान्ने ब्रह्मायु ब्राह्मणसे गाथाओंमें कहा—

“जो तूने वत्तीस महापुरुष-लक्षण सुने हैं ।
वह सब मेरे शरीरमें हैं, ब्राह्मण ! तुझे संदेह मत हो ।
अभिज्ञेय, अभिज्ञात हो गया, भावनीयको भावित कर लिया ;
प्रहातव्यको प्रहीण कर दिया, इसलिये ब्राह्मण ! मैं बुद्ध हूँ ।
इस जन्मके हितार्थ और जन्मान्तरके सुखार्थ ;
छुट्टी है, जो कुछ अभीष्ट हो पूछो ।”

ब्रह्मायु ब्राह्मणको यह हुआ—‘श्रमण गौतमने मुझे अवकाश दे दिया । क्या मैं श्रमण गौतमसे इस लोकके संबंधमें पूछूँ, या परलोकके संबंधमें (पूछूँ) ? तब ब्रह्मायु ब्राह्मणको यह हुआ—‘इस लोककी बातोंमें मैं चतुर हूँ, दूसरे भी मुझसे इहलौलिक बात पूछते हैं; क्यों न मैं श्रमण गौतमसे साम्परायिक (= परलोक-संबंधी) बातहीको पूछूँ’ । तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने भगवान्से गाथाओंमें कहा—

“भो ! कैसे ब्राह्मण होता है, कैसे वेदगू होता है ?
भो ! त्रैविद्य कैसे होता है, श्रोत्रिय क्या कहा जाता है ?
भो ! अर्हत् कैसे होता है, कैसे केवली होता है ?
भो ! मुनि कैसे होता है, बुद्ध क्या कहा जाता है ?”
तब भगवान्ने ब्रह्मायु ब्राह्मणको गाथाओंमें उत्तर दिया—
“जो पूर्व जन्मको जानता है, स्वर्ग-नरकको जानता है ।
और (जो) जन्मके क्षयको प्राप्त, अभिज्ञा तत्पर (है, वह) मुनि है ।
जो रागोंसे विलकुल मुक्त, विशुद्ध-चित्तको जानता है ।
जन्म-मरण जिसका नष्ट हो गया, ब्रह्मचर्य (पूरा हो गया, वह) केवली है ।
सारे धर्मोंके पारगू (= पारंग)-तादिको बुद्ध कहा जाता है ।”

^१ देखो पृष्ठ ३८३ ।

ऐसा कहनेपर ब्रह्मायु ब्राह्मण उत्तरासंगको एक कंधेपर कर भगवान्के चरणोंमें शिर रख, भगवान्के चरणोंको मुखसे चूमता, हाथको भी फेरता; नाम भी सुनाता—“भो गौतम ! मैं ब्रह्मायु ब्राह्मण हूँ” “भो गौतम ! मैं ब्रह्मायु ब्राह्मण हूँ”

तब वह परिपक्व विस्मित चकित हो गई—“आश्चर्य मो ! अद्भुत मो ! श्रमणकी महर्द्धिकता (= दिव्यशक्ति), महानुभावताको; जो कि ब्रह्मायु ब्राह्मण जैसा ज्ञात = यशस्वी इस प्रकार की परम नम्रता कर रहा है।”

तब भगवान्ने ब्रह्मायु ब्राह्मणसे यह कहा—

“अलम्, ब्राह्मण उठो, बैठो अपने आसनपर ब्राह्मण ! तुम्हारा चित्त मेरेमें प्रसन्न है।”

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण उठकर अपने आसनपर बैठा।

तब भगवान्ने ब्रह्मायु ब्राह्मणके लिये अनुपूर्विकथा जैसे—दान-कथा, शील-कथा, स्वर्ग-कथा, काम वासनाओंके दुष्परिमाण, अपकार, दोष; निष्कामताका साहाय्य प्रकाशित किया। जब भगवान्ने ब्रह्मायु ब्राह्मणको मव्य-चित्त = मृदु-चित्त, अनाच्छादित-चित्त, आह्लादित-चित्त, प्रसन्न-चित्त देखा; तब जो बुद्धोंकी उठानेवाली देशना (= उपदेश) है—दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग—उसे प्रकाशित किया। जैसे कालिमा-रहित ज्वेत वस्त्र अच्छो तरह रंग पकड़ता है; वैसे ही ब्रह्मायु ब्राह्मणको उसी आसनपर, ० ‘जो कुछ समुदय-धर्म (= उत्पन्न होनेवाला) है, वह निरोध-धर्म (= नाशमान) है’—यह विरज = विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ।

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण दृष्टधर्म = प्राप्त-धर्म = विदित-धर्म पर्यवगाढ़-धर्म, तीर्ण-विचिकित्त (= संशय-रहित), कथोपकथन-विरत, वैशारद्य-प्राप्त (= निपुण), शास्ताके शासनमें अति श्रद्धावान् हो, भगवान्से यह बोला—

“आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम !! जैसे औंधेको सीधा कर दे ०^१ आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें। भिक्षु-संघके साथ आप गौतम कलका मेरा भोजन स्वीकार करें।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया।

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण भगवान्की स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादन कर, प्रदाक्षिणा कर चला गया।

तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने उस रातके धीत जानेपर, अपने घरपर उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार कर भगवान्को कालकी सूचना दी—

“समय हो गया, भो गौतम ! भोजन तैयार है।”

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले जहाँ ब्रह्मायु ब्राह्मणका घर था, वहाँ गये; जाकर भिक्षु-संघके साथ बिछे आसनपर बैठे। तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य परोस कर, बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको संतर्पित = संभवारित किया।

तब भगवान् उस सप्ताहके धीतनेपर विदेह (देश) में चारिकाके लिये चल दिये। भगवान्के चले जानेके थोड़े ही समय याद ब्रह्मायु ब्राह्मणने काल किया।

तब यहूतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! ब्रह्मायु ब्राह्मण मर गया, उसकी क्या गति = क्या अभिसम्पराय है ?”

^१ देखो पृष्ठ १६।

“भिक्षुओ ! ब्रह्मायु ब्राह्मण पंडित-था, धर्मके अनुसार चलनेवाला था, धर्मके विषयमें उसने मुझे पीड़ित नहीं किया । भिक्षुओ ! ब्रह्मायु ब्राह्मण पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके क्षयसे औप-पात्तिक (= देवता) हो, वहाँ निर्वाण प्राप्त करनेवाला है, उस लोकसे न लौट कर आनेवाला है ।”
 भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

६२—सेल-सुत्तन्त (२।५।२)

बुद्ध और धर्मके गुण । सेल ब्राह्मणकी प्रव्रज्या

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् साढ़े दारह सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ, अंगुत्तराप (देशमें) चारिका करते हुये, जहाँपर... आपण नामक निगम (=कस्या) था, वहाँ पहुँचे ।

केणिय जटिलने सुना—शाक्य-कुलसे प्रव्रजित, शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम साढ़े दारह सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ, अंगुत्तरापमें चारिका करते हुए, आपणमें आये हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा कल्याण कीर्ति-शब्द फैला हुआ है ० । ०^१ । इस प्रकारके अर्हत्तोंका दर्शन उत्तम होता है ।

तब केणिय जटिल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्के साथ...संमोदन कर, ... (कुशल-प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे केणिय जटिलको भगवान्ने धर्मके उपदेश द्वारा संदर्शन, समादपन, समुत्तेजन, संप्रशंसन किया । भगवान्के धर्म-उपदेश-द्वारा संदर्शित...हो, केणिय जटिलने भगवान्से कहा—

“आप गौतम भिक्षु-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

ऐसा कहनेपर भगवान्ने केणिय जटिलसे कहा—

“केणिय ! भिक्षु-संघ बड़ा है, साढ़े दारह सौ भिक्षु हैं; और तुम ब्राह्मणोंमें प्रसन्न (= श्रद्धालु) हो ।”

दूसरी धार भी केणिय जटिलने भगवान्से कहा—

“क्या हुआ, भो गौतम ! जो बड़ा भिक्षु-संघ है, साढ़े दारह सौ भिक्षु हैं, और मैं ब्राह्मणोंमें प्रसन्न हूँ ? आप गौतम भिक्षु-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

दूसरी धार भी भगवान्ने केणिय जटिलसे यही कहा—० ।

० तीसरी धार भी केणिय जटिलने भगवान्से यही कहा—० ।

भगवान्ने मौन रह स्वीकार किया ।

तब केणिय जटिल भगवान्की स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ, जहाँ उसका आश्रम था, वहाँ गया । जाकर मित्र-अमात्य, जाति-धिरादरीवालोंसे योला—

“आप सब मेरे मित्र-अमात्य, जाति-धिरादरी सुनें—मैंने भिक्षु-संघ-सहित श्रमण गौतम-को कलके भोजनके लिये निमंत्रित किया है, सो आप लोग शरीरसे सेवा करें ।”

“अच्छा, हो !” केणिय जटिलसे, ० मित्र-अमात्य, जाति-धिरादरीने कहा । (उनमेंसे) कोई चूल्हा खोदने लगे, कोई लकड़ी फाड़ने लगे, कोई यर्तन घोने लगे, कोई पानीके भटके

^१ देखो पृष्ठ १५८ ।

(= मणिक) रखने लगे, कोई आसन बिछाने लगे । केणिय जटिल स्वयं पट-मंडप (= मंडल-माल) तैयार करने लगा ।

उस समय निघण्टु, कल्प (= केदुम)—अक्षर-भ्रमेद सहित तीनों वेद तथा पाँचवें इतिहासमें पारङ्गत, पदक (= कवि), वैयाकरण, लोकायत (शास्त्र) तथा महापुरुरूप-लक्षण (= सामुद्रिक-शास्त्र)में निपुण (= अनवय), शैल नामक ब्राह्मण आपणमें, वास करता था; और तीन सौ विद्यार्थियों (= माणवक)को मंत्र (= वेद) पढ़ाता था । उस समय शैल ब्राह्मण केणिय जटिलमें अत्यन्त प्रसन्न (= श्रद्धावान्) था ।...। तब (वह) तीन सौ माणवकोंके साथ जंघा-विहार (= चहल-कदमी)के लिये दहलता हुआ, जहाँ केणिय जटिलका आश्रम था, वहाँ गया । शैल ब्राह्मणने देखा कि केणिय जटिलके जटिलों (= जटाधारी, वाणप्रस्थी शिष्यों) में, कोई चूल्हा खोद रहे हैं ०, तथा केणिय जटिल स्वयं मंडल-माल तय्यार कर (रहा है) । देखकर (उसने) केणिय जटिलसे कहा—

“क्या आप केणियके यहाँ आवाह होगा, विवाह होगा, या महा-यज्ञ आ पहुँचा है ? क्या बल-काय (= सेना)-सहित मगध-राज श्रेणिक विंवासार, कलके भोजनके लिये निमंत्रित किया गया है ?”

“नहीं, शैल ! न मेरे यहाँ आवाह होगा, न विवाह होगा और न बल-काय-सहित मगध-राज श्रेणिक विंवासार कलके भोजनके लिये निमंत्रित है, बल्कि मेरे यहाँ महायज्ञ है । शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम साढ़े वारह सौ भिक्षुओंके महामिभु-संघ-के साथ अंगुत्तरापमें चारिका करते, आपणमें आये हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द फैला हुआ है—वह भगवान् अर्हत्, सम्यक्-संबुद्ध, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, लोकविद्, अनुत्तर (= अनुपम) पुरुषोंके चाबुक-सवार, देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान् हैं । वह भिक्षु-संघ-सहित कल मेरे यहाँ निमंत्रित हुये हैं । ० ।

“हे केणिय ! (क्या) ‘बुद्ध’ कह रहे हो ?”

“हे शैल ! (हाँ) ‘बुद्ध’ कह रहा हूँ ।”

“० बुद्ध कह रहे हो ?”

“० बुद्ध कह रहा हूँ ।”

“० बुद्ध कह रहे हो ?”

“० बुद्ध कह रहा हूँ ।”

तब शैल ब्राह्मणको हुआ—‘बुद्ध’ ऐसा घोष (= आवाज) भी लोकमें दुर्लभ है । हमारे मंत्रोंमें महापुरुषोंके बत्तीस लक्षण आए हुए हैं, जिनसे युक्त महापुरुषकी दोही गतियाँ हैं । यदि वह घरमें वास करता है, तो चारों छोर तकका राज्यवाला, धार्मिक धर्म-राजा चक्रवर्ती...राजा (होता) है...। वह सागर-पर्यन्त इस पृथिवीको बिना दण्ड-शास्त्रसे, धर्मसे विजय कर शासन करता है । और यदि घर छोड़ बेघर हो प्रव्रजित होता है, (तो) लोकमें आच्छादन-रहित जर्ह्व सम्यक्-संबुद्ध होता है ।”—“हे केणिय ! तो फिर कहाँ वह आप गौतम अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध, इस समय विहार करते हैं ?”

ऐसा कहने पर केणिय जटिलने दाहिनी बाँह पकड़ कर, शैल ब्राह्मणसे यह कहा—

“हे शैल ! जहाँ वह नील वन-पाँती है ।”

तब शैल तीन सौ माणवकोंके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । तब शैल ब्राह्मणने उन माणवकोंसे कहा—

“आप लोग निःशब्द (= अल्प-शब्द) हो, पैरके वाद पैर रखते आँ। सिहोंकी माँति वह भगवान् अकेले विचरनेवाले, (और) दुर्लभ होते हैं। और जब मैं श्रमण गौतमके साथ संवाद करूँ, तो आप लोग मेरे बीचमें बात न उठावें। आप लोग मेरे (कथन)की समाप्ति तक चुप रहें।”

तब शैल ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्के साथ सम्मोदनकर... (= कुशल प्रश्न पूछ)...एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ शैल ब्राह्मण भगवान्के शरीरमें महापुरुषोंके वत्तीस लक्षण खोजने लगा। शैल ब्राह्मणने वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंमेंसे दोको छोड़ अधिकांश भगवान्के शरीरमें देख लिये। दो महापुरुष-लक्षणों—झिल्लीसे ढँकी पुरुष-गुहोंद्रिय, और अति-दीर्घ-जिह्वा—के बारेमें...सन्देहमें था...। तब भगवान्ने इस प्रकारका योग-यत्न प्रकट किया, जिससे कि शैल ब्राह्मणने भगवान्के क्रोप-आच्छादित वस्ति-गुहाको देखा। फिर भगवान्ने जीभ निकालकर (उससे) दोनों कारोंके श्रोतको छुआ...; सारे ललाट-मंडलको जीभसे ढाँक दिया। तब शैल ब्राह्मणको ऐसा (विचार) हुआ—श्रमण गौतम अ-परिपूर्ण नहीं, परिपूर्ण वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त है। लेकिन कह नहीं सकता—बुद्ध हैं, या नहीं। बुद्ध = महल्लक ब्राह्मणों आचार्य-प्रचार्योंको कहते सुना है—कि जो अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध होते हैं, वह अपने गुण कहे जानेपर अपनेको प्रकाशित करते हैं। क्यों न मैं श्रमण गौतमके सम्मुख उपयुक्त गायामोंसे स्तुति करूँ। तब शैल ब्राह्मण भगवान्के सामने उपयुक्त गायामोंसे स्तुति करने लगा—

“परिपूर्ण-काया सुन्दर रुचि (= कांति) वाले, सुजान, चारु-दर्शन,

सुवर्णवर्ण हो भगवान् ! सु-शुद्ध-दाँत हो, (और) वीर्यवान् ॥ १ ॥

सुजात (= सुन्दर जन्मवाले) पुरुषके जो व्यंजन (= लक्षण) होते हैं,

वह सभी महापुरुष-लक्षण तुम्हारी कायामें (हैं) ॥ २ ॥

प्रसन्न (= निर्मल)-नेत्र, सुसुख, यद्दे सीधे, प्रताप-वान्,

(आप) श्रमण-संघके बीचमें आदित्यकी माँति विराजते हो ॥ ३ ॥

कल्याण-दर्शन, भो भिक्षु ! कंचन-समान शरीरवाले !

ऐसे उत्तम वर्णवाले तुम्हें श्रमण-भाव (= भिक्षु होने)में क्या (रक्खा) है ? ॥ ४ ॥

तुम तो चारों छोरके राज्यवाले, जम्बूद्वीपके स्वामी।

रथर्षभ, चक्रवर्ती, राजा हो सकते हो ॥ ५ ॥

क्षत्रिय भोज-राजा (= मांडलिक-राजा) तुम्हारे अनुयायी होंगे।

भो गौतम ! राजाधिराज मनुजेन्द्र हो, राज्य करो ॥ ६ ॥”

(भगवान्—) “शैल ! मैं राजा हूँ; अनुपम धर्मराजा।

मैं न पलटनेवाला...चक्र धर्मके साथ चला रहा हूँ ॥ ७ ॥”

(शैलब्राह्मण—) “अनुपम धर्म-राजा संबुद्ध (अपनेको) कहते हो ?

भो गौतम ! ‘धर्मसे चक्र चला रहा हूँ’ कह रहे हो ॥ ८ ॥

कौन सा आप शास्ताका दन्तप (= नाग) श्रावक सेनापति है ?

कौन इस चलाये धर्म-चक्रको अनु-चालन कर रहा है ॥ ९ ॥

(भगवान्—) “शैल !) मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम धर्म-चक्रको।

तथागतका अनुजात (= पीछे उत्पन्न) सारिपुत्र अनुचालितकर रहा है ॥ १० ॥

ज्ञातव्यको जान लिया, भावनीयकी भावना करली।

परित्याज्यको छोड़ दिया, अतः हे ब्राह्मण ! मैं बुद्ध हूँ ॥ ११ ॥

ब्राह्मण ! मेरे विषयमें संशयको हटाओ, छोड़ो ।

बार बार संबुद्धोंका दर्शन दुर्लभ है ॥ १२ ॥

लोकमें जिसका बार बार प्रादुर्भाव दुर्लभ है ,

वह मैं (राग आदि) शल्यका छेदनेवाला अनुपम, संबुद्ध हूँ ॥ १३ ॥

ब्रह्म-भूत तुलना-रहित, मार (= रागादि शत्रु)-सेनाका प्रमर्दक ,

(मुझे) देखकर कौन न संतुष्ट होगा, चाहे वह कृष्ण-^१अभिजातिक क्यों न हो ॥ १४ ॥”

(शैल—) “जो मुझे चाहता है, (वह मेरे) पीछे आवे, जो नहीं चाहता, वह जावे ।

(मैं) यहाँ उत्तम-प्रज्ञावाले (बुद्ध)के पास प्रव्रजित होऊँगा ॥ १५ ॥”

(शैलके शिष्य—) “यदि आपको यह सम्यक्-संबुद्धका शासन (= धर्म) रुचता है ।

(तो) हम भी वर-प्रज्ञके पास प्रव्रजित होंगे ॥ १६ ॥

यह जितने तीन सौ ब्राह्मण हाथ-जोड़े हैं ।

(वह) समी भगवन् ! तुम्हारे पास ब्रह्मचर्यचरण करेंगे ॥ १७ ॥

(भगवान्—“शैल !) (यह) ^२साँदष्टिक ^३अकालिक ^४स्वाख्यात ब्रह्मचर्य है ।

जहाँ प्रमाद-शून्य सीखनेवालेकी प्रव्रज्या अ-सोघ है ॥ १८ ॥”

शैल ब्राह्मणने परिपद्-सहित भगवान्के पास प्रव्रज्या और उपसंपदा पाई ।

तब केणिय जटिलने उस रातके वीतनेपर, अपने आश्रममें उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा, भगवान्को कालकी सूचना दिलवाई...। तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ केणिय जटिलका आश्रम था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर भिक्षु-संघके साथ बैठे । तब केणिय जटिलने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे, संतर्पित किया, पूर्ण किया । केणिय जटिल भगवान्के भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये केणिय जटिलको भगवान्ने इन गाथाओंसे (दान-) अनुमोदन किया—

“यज्ञोंमें मुख अग्नि-होत्र है, छन्दोंमें मुख (= मुख्य) ^१सावित्री है ।

मनुष्योंमें मुख राजा है, नदियोंमें मुख सागर है ॥ १ ॥

नक्षत्रोंमें मुख चन्द्रमा है, तपनेवालों में मुख आदित्य है ।

इच्छितोंमें (मुख) पुण्य (है), यजन (= पूजा) करनेमें मुख संघ है ॥ २ ॥”

भगवान् केणिय जटिलको इन गाथाओंसे अनुमोदित कर आसनसे उठकर चल दिये ।

तब आयुष्मान् शैल परिपद्-सहित एकान्तमें प्रमाद-रहित, उद्योग-युक्त, आत्म-निग्रही हो विहरते अचिरमें ही, जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्यके अन्त (= निर्वाण) को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर, विहरने लगे । ‘जन्म क्षय हो गया, ब्रह्मचर्य-त्रास पूरा हो गया । करणीय कर लिया गया, और यहाँ कुछ करना नहीं’—यह जान गये । परिपद्-सहित आयुष्मान् शैल अर्हत् हुये ।

तब आयुष्मान् शैलने शास्ता (= बुद्ध)के पास जाकर, चीवरको (दक्षिण कंधा नंगा रख) एक कंधेपर (रख), जिघर भगवान् थे, उधर अञ्जलि जोड़, भगवान्से गाथाओंमें कहा—

“भो चक्षु-मान् ! जो मैं आजसे आठ दिन पूर्व तुम्हारी शरण आया ।

भो भगवान् ! तुम्हारे शासन में सातही रातमें मैं दांत हो गया ॥ १ ॥

^१ दुर्गुणोंसे भरा ।

^२ प्रत्यक्ष फल-प्रद ।

^३ न कालान्तरमें फल-प्रद ।

^४ सुन्दर प्रकारसे व्याख्यान किया गया ।

^५ सावित्री गायत्री ।

तुम्हीं बुद्ध हो, तुम्हीं शास्ता हो, तुम्हीं मार-विजयी मुनि हो ।

तुम (राग आदि) अनुशयोंको छिन्नकर, (स्वयं) उत्तीर्ण हो, इस प्रजाको तारते हो ॥२॥

उपधि तुम्हारी हट गई, आसन्न तुम्हारे विदारित हो गये ।

सिंह-समान, मव(-सागर)की मीपणतासे रहित, तुम 'उपादान-रहित हो ॥३॥

यह तीन सौ मिश्रु हाथ जोड़े खड़े हैं ।

हे वीर ! पाद प्रसारित करो, (यह) नाग (= पाप-रहित) शास्ताकी वंदना करें ॥४॥'

६३—अस्सत्तायण-सुत्तन्त (२।५।३)

वर्ण-व्यवस्थाका खंडन

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार कर रहे थे ।

उस समय नाना देशोंके पाँच सौ ब्राह्मण किसी कामसे श्रावस्तीमें ठहरे थे । तब उन ब्राह्मणोंको यह (विचार) हुआ—यह श्रमण गौतम चारों वर्णोंकी शुद्धि (= चातुर्वर्णी सुद्धि) का उपदेश करता है । कौन है जो श्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कर सके ? उस समय श्रावस्ती में आश्वलायन नामक निर्वंदु-केटुभ (= कल्प)-अक्षर-प्रभेद (= शिक्षा)-सहित तीनों वेदों तथा पाँचवे इतिहासमें भी पारङ्गत, पदक (= कवि), वैयाकरण, लोकायत महापुरुष-लक्षण (शास्त्रों) में निपुण, वपित (= सुण्डित)-शिर, तरुण माणवक (= विद्यार्थी) रहता था । तब उन ब्राह्मणों को यह हुआ—यह श्रावस्तीमें आश्वलायन ० माणवक रहता है, यह श्रमण गौतमसे इस विषय में वाद कर सकता है ।

तब वह ब्राह्मण जहाँ आश्वलायन माणवक था, वहाँ गये जाकर आश्वलायन माणवकसे बोले—

“आश्वलायन ! यह श्रमण गौतम^१ चातुर्वर्णी शुद्धि उपदेश करता है । जाइये आप आश्वलायन श्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कीजिये ।”

ऐसा कहनेपर आश्वलायन माणवकने उन ब्राह्मणोंसे कहा—

“श्रमण गौतम धर्मवादी है । धर्मवादी वाद करनेमें दुष्प्रति-संन्य (= वाद करनेमें दुष्कर) होते हैं । मैं श्रमण गौतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता ।”

दूसरी वार भी उन ब्राह्मणोंने आश्वलायन माणवकसे कहा ० ।

तीसरी वार भी उन ब्राह्मणोंने आश्वलायन माणवकसे कहा—

“मो आश्वलायन ! यह श्रमण गौतम चातुर्वर्णी शुद्धिका उपदेश करता है । जाइये आप आश्वलायन श्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कीजिये । आप आश्वलायन युद्धमें यिनत पराजित हुये ही मत पराजित हो जायें ।”

ऐसा कहनेपर आश्वलायन माणवकने उन ब्राह्मणोंसे कहा—

“...मैं श्रवण गौतमके साथ नहीं (पार) पा सकता । श्रमण गौतम धर्म-वादी है । मैं श्रमण गौतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता । तो भी मैं आप लोगोंके कहनेसे जाऊँगा ।”

तब आश्वलायन माणवक बड़े मारी ब्राह्मण-गणके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये ।

^१ केवल ब्राह्मणोंको नहीं, चारों वर्णोंकी ध्यान आदिसे पाप-शुद्धि मिलाओ माधुरिय सुत्त (३४०-४३) में ।

जाकर मगवान्के साथ ० लंमोदन कर ।।। (कुशल-प्रश्न-पूछ) ...एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये आश्वलायन माणवकने मगवान्से कहा—

“भो गौतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—‘ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण छोटे हैं । ब्राह्मण ही शुद्ध वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण हैं । ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अ-ब्राह्मण नहीं । ब्राह्मण ही ब्रह्माके औरस पुत्र हैं, सुप्तसे उत्पन्न, ब्रह्म-ज ब्रह्म-निर्मित, ब्रह्माके दयादा हैं’ । इस विषयमें आप गौतम क्या कहते हैं ।”

“लेकिन आश्वलायन ! ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणियाँ ऋतुमती, गर्भिणी, जनन करती, पिलाती देखी जाती हैं । योनिसे उत्पन्न होते हुए भी वह (ब्राह्मण) ऐसा कहते हैं—‘ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० !!!”

“यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही करते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ ० ।”

“तो क्या मानते हो आश्वलायन ! तुमने सुना है कि ‘यवन और कम्बोजमें और दूसरे भी सीमान्त देशोंमें दो ही वर्ण होते हैं—आर्य और दास (= गुलाम) । आर्य ही दास हो (यक) ता है, दास ही आर्य हो (सक)ता है ?”

“हाँ, भो ! मैंने सुना है कि यवन और कम्बोजमें ० ।”

“आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या यल = क्या आश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—‘ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० ?”

“यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं ० ।”

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्षत्रिय, प्राणि-हिंसक, चोर, दुराचारी, झूठा, दुःख-खोर, कटुभाषी, यकवादी, लोभी, द्वेषी, मिथ्या-दृष्टि (= झूठी धारणावाला) हो; (तो क्या) काया छोड़, मरनेके बाद अपाय = दुर्गति = विनिपात = नरकमें उत्पन्न होगा, या नहीं ? ब्राह्मण प्राणि-हिंसक ० हो ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? वैश्य ० ? शूद्र ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ?”

“भो गौतम ! क्षत्रिय भी प्राणि-हिंसक ० हो ० नरकमें उत्पन्न होगा । ब्राह्मण भी ० । वैश्य भी ० । शूद्र भी ० । सभी चारों वर्ण भो गौतम ! प्राणि-हिंसक ० हो ० नरकमें उत्पन्न होंगे ।”

“तो फिर आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या यल = क्या आश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं ० ।”

“० फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं ० ।”

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही प्राणि-हिंसासे विरत होता है, चोरीसे विरत होता है, दुराचार ०, झूठ ०, चुगली ० , कटुयचन ० , यकवादसे विरत होता है, अ-लोभी, अ-द्वेषी, सम्यक्-दृष्टि (= सच्ची दृष्टिवाला) हो, शरीर छोड़ मरनेके बाद, सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है; क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं ?”

“नहीं, भो गौतम ! क्षत्रिय भी प्राणि-हिंसा-विरत ० सुगति स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न हो सकता है, ब्राह्मण भी ० , वैश्य भी ० , शूद्र भी ० , सभी चारों वर्ण ० ।”

“आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या यल ० ? । ०

१ रूसी तुर्किस्तान (?) जहाँ सिकन्दरके बाद यवन (ग्रीक) लोग बसे हुये थे; अथवा यूनान ।

२ काफिरस्तान (अफगानिस्तान), अथवा ईरान ।

“ तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही वैर-रहित द्वेष-रहित भैत्रचित्तकी भावना कर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं ?”

“ नहीं, भो गौतम ! क्षत्रिय भी इस स्थानमें, भावना कर सकता है ० । ० । सभी चारों भावना कर सकते हैं ।

“ यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल ० ?” ० ।

“ तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही मंगल (= स्वस्ति) स्नान-चूर्ण लेकर नदीको जा, मैल धो सकता है, क्षत्रिय नहीं ० ?”

“ नहीं, भो गौतम ! क्षत्रिय भी मंगल स्नान-चूर्ण ले, नदी जा मैल धो सकता है ०, सभी चारों वर्ण ० ।”

“ यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल ० ?” ० ।

“ तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! (यदि) यहाँ मूर्द्धा-भिषिक्त क्षत्रिय राजा, नाना जातिके सौ-पुरुष इकट्ठे करे (और उन्हें कहे)—आवे आप सब, जो कि क्षत्रिय कुलसे, ब्राह्मण-कुलसे और राजन्य (= राजसंतान) कुलसे उत्पन्न हैं; और शाल (= साखू)की या सरल (= वृक्ष)की या चन्दनकी या पद्म (काष्ठ)की उत्तरारणी लेकर आग बनावे, तेज प्रादुर्भूत करें । (और) आप भी आवे जो कि चण्डालकुलसे, निपादकुलसे वसोर (= वेणु)-कुलसे रथकार-कुलसे, पुष्क-सकुलसे उत्पन्न हुये हैं, और कुत्तेके पीनेकी, सूअरके पीनेकी कठरीकी, घोयोकी कठरीकी, या रेंडकी लकड़ीकी उत्तरारणी लेकर, आग बनावे, तेज प्रादुर्भूत करें । तो क्या मानते हो, आश्वलायन क्षत्रिय-ब्राह्मण-वैश्य-शूद्रकुलोंसे उत्पन्नों-द्वारा शाल-सरल-चन्दन-पद्मकी उत्तरारणीको लेकर, जो आग उत्पन्नकी गई है, तेज प्रादुर्भूत किया गया, क्या वही अर्चिमान् (= लौवाला), वर्णवान् प्रभास्वर अग्नि होगा ? उसी आगसे अग्निका काम लिया जा सकता है ? और जो वह चांडाल-निपाद-वसोर-रथकार-पुष्क-सकुलोत्पन्नों द्वारा श्वपान-कठरीकी शूकर-पान-कठरीकी, रेंड-काष्ठकी उत्तरारणीको लेकर उत्पन्न आग है, प्रादुर्भूत तेज (है), वह अर्चिमान् वर्णवान् प्रभास्वर न होगा ? उस आगसे अग्निका काम नहीं लिया जा सकेगा ?”

“ नहीं, भो गौतम ! जो वह क्षत्रिय ० कुलोत्पन्न द्वारा ० आग बनाई गई है ० वह भी अर्चिमान् ० आग होगी, उस आगसे भी अग्निका काम लिया जा सकता है; और जो वह चांडाल ० कुलोत्पन्न द्वारा ० आग बनाई गई है ० वह भी अर्चिमान् ० आग होगी । सभी आगसे अग्निका काम लिया जा सकता है ।”

“ यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंका क्या बल ० ?” ० ।

“ तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! यदि क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवास करे । उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो । जो वह क्षत्रिय-कुमार द्वारा ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्या वह माताके समान और पिताके समान, ‘क्षत्रिय (है)’, ‘ब्राह्मण (है)’ कहा जाना चाहिये ?” “ भो गौतम ! ० कहा जाना चाहिये ।”

“ ० आश्वलायन ! यदि ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवास करे ० ‘ब्राह्मण (है)’ कहा जाना चाहिये ?” “ ० ‘ब्राह्मण (है)’ कहा जाना चाहिये ।”

“ ० आश्वलायन ! यहाँ घोड़ीको गदहेसे जोड़ा खिलाये, उनके जोड़से किशोर (= बछड़ा) उत्पन्न हो । क्या वह माता ० पिताके समान, ‘घोड़ा है’ ‘गदहा है’ कहा जाना चाहिये ?”

“ ... भो गौतम ! वह अश्वतर (= खच्चर) होता है । यहाँ ... भेद देखता हूँ । उन दूसरोंमें कुछ भेद नहीं देखता ।”

“० आश्वलायन ! यहाँ दो माणवक जमुवे माई हों । एक अध्यायन करनेवाला, और उपनीत (= उपनयन द्वारा गुरुके पास प्राप्त) है; दूसरा अन्-अध्यायक और अन्-उपनीत (है) । श्राद्ध, यज्ञ या पाहुनाई (= पाहुणे) में, ब्राह्मण जिसको प्रथम भोजन करायेंगे ?”

“भो गौतम ! जो वह माणवक अध्यायक और उपनीत है, उसीको ० प्रथम भोजन करायेंगे । अन्-अध्यायक अन्-उपनीतको देनेसे क्या महाफल होगा ?”

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! यहाँ दो माणवक जमुये माई हों । एक अध्यायक उपनीत, (किन्तु) दुःशील (= दुराचारी) पाप-धर्मा (= पापी) हो; दूसरा अन्-अध्यायक अन्-उपनीत, (किन्तु) शीलवान् कल्याण-धर्मा । इनमें किसको ब्राह्मण साध्य या यज्ञ या पाहुनाईमें प्रथम भोजन करायेंगे ?”

“भो गौतम ! जो वह माणवक अन्-अध्यायक, अन्-उपनीत, (किन्तु) शील-वान् कल्याण-धर्म है, उसीको ब्राह्मण ० प्रथम भोजन करायेंगे । दुःशील = पाप-धर्मको दान देनेसे क्या महा-फल होगा ?”

“आश्वलायन ! पहिले तू जातिपर पहुँचा, जातिपर जाकर मंत्रों पर पहुँचा, मन्त्रोंपर जाकर अब तू चातुर्वर्णी शुद्धिपर आगया, जिसका कि मैं उपदेश करता हूँ ।”

ऐसा कहनेपर आश्वलायन माणवक चुप होगया, मूक हो गया, ...अधोमुख चिन्तित, निष्प्रतिम हो बैठा ।

तब मगवान्ने आश्वलायन माणवकको चुप मूक ० निष्प्रतिम बैठे देख...कहा—

“पूर्वकालमें आश्वलायन ! जंगलमें, पर्णकुटियोंमें वास करते हुये सात ब्राह्मण-ऋषियोंको, इस प्रकारकी पाप-दृष्टि (= दुरी धारणा) उत्पन्न हुई—ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण है ० । आश्वलायन ! तब असित देवल ऋषिने सुना, ० सात ब्राह्मण ऋषियोंको दूष प्रकारकी पाप-दृष्टि उत्पन्न हुई है ० । तब आश्वलायन ! असित देवल ऋषि सिर-दादी सुँडा भंजीठके रंगका (= राल) घुम्ना पहिन, खडाऊपर चढ़, सोने-चाँदीका दंड धारणकर, सातों ब्राह्मण ऋषियोंको कुटीके आँगनमें प्रादुर्भूत हुये । तब आश्वलायन ! असित देवल ऋषि सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके आँगनमें दहलते हुये कहने लगे—‘हैं ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहाँ चले गये ? हैं ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहाँ चले गये ?’ तब आश्वलायन ! उन सातों ब्राह्मण ऋषियोंको हुआ—‘कौन है यह गँवार लड़के-सी तरह सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके आँगनमें दहलते ऐसे कह रहा है—हैं ! आप ० सच्चा नाँ हूसे शाप देवें ।’ तब आश्वलायन ! सात ब्राह्मण-ऋषियोंने असित देवल ऋषिको शाप दिया—‘शूद्र ! (= वृषल) मस्म हो जा ।’ जैसे जैसे आश्वलायन ! सात ब्राह्मण ऋषि असित देवल ऋषिको शाप देते थे, वैसेही वैसे...देवल ऋषि अधिक सुन्दर, अधिक दर्शनीय = अधिक प्रासादिक होते जा रहे थे । तब आश्वलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषियोंको हुआ—‘हमारा तप ध्यर्थ है, ब्रह्मचर्य निष्फल हैं । हम पहिले जिसको शाप देते—‘वृषल ! मस्म होजा’, मस्मही होता था । इतको हम जैसे जैसे शाप देते हैं, वैसे वैसे यह अभिरूप-तर, दर्शनीय-तर, प्रासादिक-तर, होता जा रहा है ।’ (देवलने कहा)—‘आप लोगों का तप ध्यर्थ नहीं, ब्रह्मचर्य निष्फल नहीं, आप लोगोंका मन जो मेरे प्रति दूषित हो गया है, उसे छोड़ दें ।’ (उन्होंने कहा)—‘जो मनोपदोस (= मानसिक दुर्भाव) है, उसे हम छोड़ते हैं, आप कौन हैं ?’ ‘आप लोगोंने असित देवल ऋषिको सुना है ?’ ‘हाँ, भो !’ ‘वही मैं हूँ ।’

“तब आश्वलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषि, असित देवल ऋषिको अमिवादन करनेके लिये पास गये । असित देवल ऋषिने कहा—‘मैंने सुना...कि ‘अरण्यके भीतर पर्णकुटियोंमें वास

करते, सात ० ऋषियोंको इस प्रकारकी ० उत्पन्न हुई है—ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण है ० ।' 'हाँ भो !' 'जानते हैं आप, कि जननी = माता ब्राह्मणहीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?' "नहीं ।" 'जानते हैं आप, कि जननी = माताकी माता सात पीढ़ी तक मातामहयुगल (= नानी) ब्राह्मणहीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?' 'नहीं भो !' 'जानते हैं आप कि जनिता = पिता ० पितामह-युगल (= दादा) सातवीं पीढ़ी तक ब्राह्मणीहीके पास गये, अ-ब्राह्मणीके पास नहीं ?' 'नहीं भो !' 'जानते हैं आप, गर्भ कैसे ठहरता है ?' 'हाँ जानते हैं भो ! जब माता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है, और गंधर्व (= उत्पन्न होने वाला सत्त्व) उपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ ठहरता है ।' 'जानते हैं आप, कि यह गंधर्व क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र होता है ?' 'नहीं भो ! हम नहीं जानते, कि वह गंधर्व ० ।' 'जब ऐसा (है) तब जानते हो कि तुम कौन हो ?' 'भो ! हम नहीं जानते हम कौन हैं ।'

'हे आश्वलायन ! असित देवल ऋषि-द्वारा जातिवादके विषयमें पूछे जानेपर, "वह सातों ब्राह्मण ऋषि भी (उत्तर) न दे सके; तो फिर आज तुम "क्या (उत्तर) दोगे; (जब कि) अपनी सारी पण्डिताई-सहित तुम उनके रसोईदार (= दर्विग्राहक) (के समान) हो ।"

ऐसा कहने पर आश्वलायन माणवकने भगवान्से कहा—“आश्चर्य ! भो गौतम !! आश्चर्य ! भो गौतम !! ० । आजसे मुझे अंजलि-वद्द उपासक धारण करें ।”

६४—घोटमुख-सुत्तन्त (२।५।४)

चार प्रकारके पुरुष (आत्मंतप...)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय आयुष्मान् उदयन वाराणसीमें खेमिय-अम्यवनमें विहार करते थे ।

उस समय घोटमुख ब्राह्मण किसी कामसे बनारस (वाराणसी) आया हुआ था । तब घोटमुख-ब्राह्मण जंघा-विहारके लिये धूमते टहलते जहाँ खेमिय-अम्यवन (= क्षेमिक-आम्रवन) था, वहाँ गया ! उस समय आयुष्मान् उदयन खुली जगहमें टहल रहे थे ।

तब घोटमुख ब्राह्मण जहाँ आयुष्मान् उदयन थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् उदयनके साथ...संभोदन कर, आयुष्मान् उदयनके पीछे पीछे ० टहलते हुये यह बोला—

“अहो श्रमण ! मुझे ऐसा होता है—धार्मिक प्रव्रज्या (= संन्यास) नहीं है । आप जैसोंके अ-दर्शन (= न देखे जाने)मे ही यह है; किन्तु जो धर्म यहाँ है (वही) हमारे लिये प्रमाण है ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् उदयन चञ्चल (= टहलनेके चतुरे)से उतर कर, विहार (= कोठरी)में प्रविष्ट हो बिछे आसनपर बैठे । घोटमुख ब्राह्मण भी विहारमें प्रविष्ट हो एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये घोटमुख ब्राह्मणके आयुष्मान् उदयनने यह कहा—

“ब्राह्मण ! आसन मौजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बैठो ।”

“आप उदयनकी इसी (आज्ञा)की प्रतीक्षामें हम नहीं बैठते थे । मेरे जैता (पुरुष) बिना निमंत्रणके कैसे (स्वयं आकर) आसन पर बैठ जायेगा ।”

तब घोटमुख (= घोड़े जैसा झुँहवाला) ब्राह्मण एक नीचा आसन ले कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे घोटमुख ब्राह्मणने आयुष्मान् उदयनसे यह कहा—

“अहो श्रमण ! मुझे ऐसा होता है—० किन्तु जो धर्म यहाँ है, (वही हमारे लिये प्रमाण है) ।”

“ब्राह्मण ! यदि मेरी (कोई बात)को स्वीकरणीय समझना, तो स्वीकार करना, गंडनीय समझना, तो खंडन करना । जिस मेरे कथनका अर्थ न समझना, उसे मुझसे ही पूछना—‘भो उदयन ! यह कैसे है, इसका क्या अर्थ है ?’—इस प्रकार हमारा यहाँ क्या-संलाप हो ।”

“आप उदयनकी स्वीकरणीय (बात)को स्वीकार करूँगा, खंडनीयको खंडन करूँगा । आप उदयनकी जिस बातका अर्थ न समझूँगा, उसे आपसे ही पूछूँगा—‘हे उदयन यह कैसे है, इसका क्या अर्थ है’—इस प्रकार हमारा क्या-संलाप हो ।”

“ब्राह्मण ! लोकमें चार (प्रकारके) पुद्गल (= पुरुष) विद्यमान हैं । कौनसे चार ?— ब्राह्मण ! (१) यहाँ कई पुद्गल आत्मंतप अपनेको संताप देनेवाले कामोंमें लगा होता है; (२)

० परंतप ०^१ ; (३) ० आत्मंतप-परंतप ० ; (४) ० न-आत्मन्तप-न-परंतप ०^१ सुखानुभवी ब्रह्मभूत (= विशुद्ध)-आत्मासे विहरता है । ब्राह्मण ! इन चार पुद्गलोंमें कौन सा तुम्हारे चित्तको पसन्द आता है ?”

“भो उदयन ! ०^१ जो यह अनात्मंतप-अ-परंतप ० पुद्गल है, वह ० मुझे पसंद है ।”

“ब्राह्मण ! क्यों यह तीन पुद्गल तुम्हारे चित्तको पसंद नहीं हैं ?”

“भो उदयन ? ०^२ (जो) ब्रह्मभूत आत्मासे विहरता है, ० यह पुद्गल मेरे चित्तको पसन्द आता है ।”

“ब्राह्मण ! यह दो (प्रकारकी) परिपद् होती है । कौन सी दो ?—(१) ब्राह्मण ! यहाँ एक परिपद् मणि-कुंडलमें सारस्व (= धन आदि)में रक्त (= अनुरक्त) होती है; पुत्र-भार्या चाहती है, दास-दासी ०, क्षेत्र-वास्तु (= खेत-मकान) ०, सोना-चाँदी चाहती है । और (२) ब्राह्मण ! यहाँ एक परिपद् मणि-कुंडलोंके विषयमें, सारस्वमें नहीं रक्त होती, पुत्रभार्या छोड़ ० सोना-चाँदी छोड़ घरसे वे घर हो प्रव्रजित हुई है । ब्राह्मण ! जो यह पुद्गल न आत्मंतप ०, न परंतप ०, न-आत्मंतप-न-परंतप ० है, वह अनात्मंतप-अपरंतप पुद्गल इसी जन्ममें शांत, निर्वाण-प्राप्त, शीतल (-स्वभाव) सुखानुभवी, ब्रह्मभूत आत्मासे विहरता है । ब्राह्मण ! इस पुद्गलको तू किस परिपद् (= मंडल)में अधिक देखता है ? जो यह सारस्वमें रक्त होती है ०; उसमें; या जो कि ० सारस्वमें नहीं रक्त होती ० उसमें ?”

“भो उदयन ! जो यह पुद्गल ० अनात्मंतप-अपरंतप है ०, उसको इस परिपद्में अधिक देखता हूँ, जो कि ० सारस्वमें रक्त नहीं होती, ० बेघर हो प्रव्रजित हुई है ।”

“ब्राह्मण ! अभी तूने कहा था, हम ऐसा जानते हैं—अहो श्रमण ! मुझे ऐसा होता है ०^३ ?”

“तो भो उदयन ! मैंने सदोष बात कही; ‘है धार्मिक प्रव्रज्या’—ऐसा मुझे होता है, ऐसा मुझे आप उदयन समझें । आप उदयनने जो यह चार पुद्गल, विस्तारसे न विभाजित कर संक्षेपसे कहें; अच्छा हो आप उदयन कृपाकर उन चारों पुद्गलोंको मुझे विस्तारसे कहें ।”

“तो ब्राह्मण ! सुनो अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा भो !”—(कह) घोटमुख ब्राह्मणने आयुष्मान् उदयनको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् उदयनने यह कहा—“ब्राह्मण ! कौनसा पुद्गल आत्मंतप, अपनेको सतानेवाले कामोंमें लग्न है—ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुद्गल ! अचेलक ०^४ ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके आ-तापन परितापनके व्यापारमें लग्न हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह पुद्गल आत्मंतप ० कहा जाता है ।

“ब्राह्मण ! कौनसा पुद्गल परंतप ० है ?—ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुद्गल औरधिक (= भेद मारनेवाला) ०^५ दूसरे क्रूर व्यवसाय हैं (उनका करनेवाला होता है) ०^५ ।

“ब्राह्मण ! कौनसा पुद्गल आत्मंतप-परंतप ० है ?—यहाँ कोई पुरुष मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा होता है ०^६ इसके दास ०^६ मी ०^६ होते कामोंको करते हैं । ०^६ ।

“ब्राह्मण ! कौनसा पुद्गल अनात्मंतप-अपरंतप ० है ?—ब्राह्मण ! यहाँ लोकमें तथागत ०^७ चतुर्थध्यानको प्राप्त हो विहरता है । सो वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र परिशुद्ध ०^७ अय

^१ देखो पृष्ठ ४८, २०६-७ ।

^२ देखो पृष्ठ २०६ ।

^३ देखो पृष्ठ ५४-५५ ।

^४ देखो पृष्ठ २०६-७ ।

^५ देखो पृष्ठ २०७ ।

^६ देखो पृष्ठ १५८ ।

^७ देखो पृष्ठ १५-१६ (वाक्यमें उत्तम पुरुषके स्थानमें प्रथम पुरुष करके) ।

यहाँ करनेके लिये कुछ शेष नहीं है'—यह जान लेता है । ब्राह्मण ! यह कहा जाता है अनात्मंतप-
अपरंतप ० पुद्गल ० ।”

ऐसा कहनेपर घोटमुख ब्राह्मणने आयुष्मान् उदयनसे यह कहा—

“आश्चर्य ! भो उदयन ! आश्चर्य भो उदयन ! जैसे औषेको सीधा करदे ० ^१ ऐसे ही आप उदयनने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया; यह मैं आप उदयनकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे आप उदयन मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”

“मत तू ब्राह्मण ! मेरी शरण जा, उसी भगवान्की तू मी शरण जा, जिसकी शरण मैं गया हूँ ।”

“भो उदयन ! वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध कहाँ विहार कर रहे हैं ?” ० ^२ तो निर्वाण प्राप्त भी उन भगवान्की हम शरण जाते हैं, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे आप उदयन मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।

“भो उदयन ! मुझे अंग-राजा दैनिक नित्य भिक्षा देता है, उनमेंसे मैं आप उदयनको एक नित्य भिक्षा देता हूँ ।”

“ब्राह्मण ! अंग-राजा तुझे क्या दैनिक नित्य-भिक्षा देता है ?”

“भो उदयन ! पाँच सौ कार्षापण (= कहापण, एक सिका) ।”

“ब्राह्मण ! हमारे लिये सोना-चाँदी ग्रहण करना कल्प्य (= विरतिहित) नहीं है ।”

“यदि वह आप उदयनको कल्प्य नहीं है, तो आप उदयनके लिये, विहार (= निवास-स्थान) बनवाऊँगा ।”

“यदि ब्राह्मण ! तू मेरे लिये विहार बनवाना चाहता है, तो पाटलिपुत्र (= पटना) में संघकी उपस्थान-शाला (= समागृह) बनवा दे ।”

“आप उदयनके इस (कथन)से मैं और मी सन्तुष्ट, प्रसन्न हुआ, जो कि आप उदयन मुझे संघको दान देनेके लिये कहते हैं । सो मैं भो उदयन ! इस नित्य-भिक्षा और दूसरी नित्य-भिक्षासे पाटलिपुत्रमें संघकेलिये उपस्थान-शाला बनवाऊँगा ।”

तब घोटमुख ब्राह्मणने इस नित्य-भिक्षा और दूसरी नित्य-भिक्षासे पाटलिपुत्रमें संघके लिये उपस्थान-शाला बनवाई; जो आज भी घोटमुखी कही जाती है ।

^१ देखो पृष्ठ १६ ।

^२ देखो माधुरिय-सुत्तन्त, पृष्ठ १४३ ।

६५—चंकिसुत्तन्त (२।५।५)

बुद्धके गुण । ब्राह्मणोंके वेद और उनके कर्ता । सत्यकी रक्षा और प्राप्तिके उपाय

ऐसा मैंने सुना—

एक समय महा-भिक्षुसंघके साथ भगवान् कोसलमें चारिका करते जहाँ ओपसाद नामक कोसलोंका ब्राह्मण-ग्राम था वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् ओपसादसे उत्तर देववन (नामक) शाल-वनमें विहार करते थे ।

उस समय चंकि ब्राह्मण, जनाकीर्ण, वृण-काष्ठ-उदक-धान्य-सम्पन्न, राजभोग्य, राजा प्रसेनजित् कोसलद्वारा प्रदत्त, राज-दायज, ब्रह्मदेय, ओपसादका स्वामी हो, वास करता था ।

ओपसादवासी ब्राह्मणोंने सुना—शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम कोसलमें चारिका करते, महा-भिक्षु-संघके साथ ओपसादमें पहुँचे हैं, और ओपसादमें, ओपसादसे उत्तर देववन शाल-वनमें विहार करते हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल कीर्तिशब्द उठा हुआ है ०^१ परिशुद्ध^१ ब्रह्मचर्य प्रकाशित करते हैं, इस प्रकारके अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है ।

तब ओपसाद-वासी ब्राह्मण-गृहस्थ ओपसादसे निकलकर, झुण्डके झुण्ड उत्तर मुँहकी ओर जहाँ देववन शालवन था, उधर जाने लगे । उस समय चंकि ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये प्रासाद-के ऊपर गया हुआ था । चंकि ब्राह्मणने देखा कि ओपसाद-वासी ब्राह्मण-गृहस्थ उत्तर मुँहकी ओर उधर जा रहे हैं । देखकर क्षत्ता (= महामात्य) को संबोधित किया—

“क्या है, हे क्षत्ता ! (कि) ओपसाद-वासी ब्राह्मण-गृहस्थ ० जहाँ देववन शाल-वन है, उधर जा रहे हैं ?”

“हे चंकि ! शाक्य कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र, श्रमण गौतम कोसलमें चारिका करते महाभिक्षु-संघके साथ ० देववन शालवनमें विहार कर रहे हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगलकीर्ति-शब्द उठा हुआ है ० । उन्हीं भगवान् गौतमके दर्शनके लिये जा रहे हैं ।”

“तो क्षत्ता ! जहाँ ओपसादक ब्राह्मण-गृहपति हैं, वहाँ जाओ । जाकर ओपसादक ब्राह्मण गृहपतियोंसे ऐसा कहो—चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है—‘थोड़ी देर आप सब ठहरें, चंकि ब्राह्मण-मी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा’ ।”

चंकि ब्राह्मणसे “अच्छा भो !” कह, वह क्षत्ता जहाँ ओपसादक ब्राह्मण थे वहाँ गया । जाकर ० बोला—

“चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है—‘थोड़ी देर आप सब ठहरें, चंकि ब्राह्मण भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा’ ।”

^१ देखो पृष्ठ १५८ ।

उस समय नाना देशोंके पाँच सौ ब्राह्मण किसी कामसे ओपसादमें वास करते थे। उन ब्राह्मणोंने सुना कि चंकि ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेवाला है। तब वह ब्राह्मण जहाँ चंकि ब्राह्मण था, वहाँ गये। जाकर चंकि ब्राह्मणसे बोले—

“सचमुच आप चंकि श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेवाले हैं ?”

“हाँ भो ! मुझे यह हो रहा है, मैं भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाऊँ।”

“आप चंकि ! गौतमके दर्शनार्थ मत जायें। आपको श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाना उचित नहीं है। श्रमण गौतमको ही आप चंकिके दर्शनार्थ जाना योग्य है। आप चंकि दोनों ओरसे सुजात (= कुलीन) हैं, मातासे भी, पितासे भी; पितामह-युगलकी सात पीढ़ियों तक, जाति-वादसे अक्षिप्त = अन्-उपविलिप्त (= अ-निन्दित) हैं। जो आप चंकि दोनों ओरसे सुजात हैं ०; इस कारणसे भी आप चंकि श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेके योग्य नहीं हैं। श्रमण गौतम ही आप चंकिके दर्शनार्थ आने योग्य है। आप चंकि आढ्य, महाधनी, महामोगवाले हैं; इस अंगसे भी ०। आप चंकि ० तीनों वेदोंके पारंगत ०। आप चंकि अभिरूप = दर्शनीय = प्रासादिक, परम-वर्ण-सुन्दरतासे युक्त, ब्रह्मवर्ण वाले, ब्रह्मवर्चस्वी, दर्शनके लिये अल्प भी अवकाश न रखनेवाले ०। आप चंकि शीलवान् वृद्धशीली (= बड़ी हुई शीलवाले) वृद्धशीलसे युक्त हैं ०। आप चंकि कल्याण-वचन बोलनेवाले = कल्याण-वाक्करण = पौर (= नागरिक, सम्य) वाणीसे युक्त ०। आप चंकि बहुतोंके आचार्य-प्राचार्य हैं, तीन सौ भाणवकोंको मंत्र पढ़ाते हैं ०। आप चंकि राजा प्रसेनजित् कोसलसे सत्कृत = गुरुकृत = मानित, पूजित = अपचित हैं। आप चंकि पौष्करसाति ब्राह्मणसे ० हैं। आप चंकि ० ओपसादके स्वामी हो बसते हैं। इस अंगसे भी आप चंकि श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं। श्रमण गौतम ही आप चंकिके दर्शनार्थ आने योग्य है।”

“तो भो ! मेरी भी सुनो—(कैसे) हमी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, वह आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं। भो ! श्रमण गौतम दोनों ओरसे सुजात हैं ०; इस अंगसे भी हमी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं। श्रमण गौतम बहुत सा भूमिस्थ और आकाशस्थ हिरण्य सुवर्ण छोड़कर, प्रव्रजित हुये हैं ०। श्रमण गौतम बहुत काले केशवाले, मद्ग्यौवनसे संयुक्त, अतितरुण, प्रथम वयसमें ही घरसे वेधर हो, प्रव्रजित हुये ०। श्रमण गौतम माता-पिताको अनिच्छुक अश्रुमुख रोते हुये, (छोड़), शिर-दाढ़ी मुँडाकर, कापाय-वस्त्र पहिन, घरसे वेधर हो प्रव्रजित हुये ०। श्रमण गौतम अभिरूप = दर्शनीय ० ब्रह्मवर्चस्वी, दर्शनके लिये अल्प भी अवकाश न रखनेवाले ०। श्रमण गौतम शीलवान् ०। श्रमण गौतम कल्याण-वचन बोलनेवाले ०। श्रमण गौतम बहुतोंके आचार्य-प्राचार्य हैं ०। ० काम-राग-विहीन ०। प्रपंच-रहित ०। श्रमण गौतम कर्मवादी, क्रियावादी, ब्राह्मण-संतानके निरुपाय अग्रणी हैं ०। श्रमण गौतम अदीन-क्षत्रिय-कुल, उच्च-कुलसे प्रव्रजित हुये ०। ० महाधनी, महाभोगवान् आढ्य-कुलसे प्रव्रजित हुये ०। श्रमण गौतमको देशके बाहरसे, राष्ट्रके बाहरसे भी (लोग) पूछनेको आते हैं ०। श्रमण गौतमकी अनेक सहस्र देवता (अपने) प्राणोंसे शरणागत हुये हैं ०। श्रमण गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द उठा हुआ है ०। ०। श्रमण गौतम धर्चीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं ०। श्रमण गौतमकी राजा मागध श्रेणिक विम्बसार पुत्र-दार-सहित ० ब्राह्मण पौष्कर-साति ०। ०। श्रमण गौतम भो ! ओपसादमें प्राप्त हुये हैं, ओपसादमें ० देववन शालवनमें विहार कर रहे हैं। जो कोई श्रमण या ब्राह्मण हमारे गाँव-खेतमें आते हैं, वह अतिथि होते हैं। अतिथि सत्करणीय = गुरुकरणीय = माननीय = पूजनीय है। चूँकि भो ! श्रमण गौतम ओपसादमें प्राप्त हुये ०। (अतः) हमारे अतिथि हैं।

श्रमण गौतम अतिथि हो हमारे सत्करणीय ० । इस अंगसे भी । इतना ही मो ! मैं उन आप गौतमका गुण कहता हूँ, लेकिन वह आप गौतम इतनेही गुणवाले नहीं हैं । वह आप गौतम अपरिमाण-गुणवाले हैं । एक एक अंगसे भी युक्त होनेपर, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शन करनेके लिये आने योग्य नहीं हैं, वल्कि हमीं उन आप गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं । इसलिये हम सभी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ चलें ।”

तब चंकि ब्राह्मण महान् ब्राह्मणोंके गणके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ...संनोदन कर...एक ओर बैठ गया ।...उस समय भगवान् वृद्ध वृद्ध ब्राह्मणोंके साथ कुछ (बात करते) बैठे हुये थे ।

उस समय कापथिक नामक तरुण, मुण्डित-शिर, जन्मसे सोलह वर्षका, ...तीनों वेदोंका पारंगत माणवक परिपद्में बैठा था । वह बड़े बड़े ब्राह्मणोंके भगवान्के साथ बातचीत करते समय, वीच वीचमें बोल उठता था । तब भगवान्ने कापथिक माणवकको मना किया ।

“आयुष्मान् भारद्वाज ! बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणोंके बात करनेमें बात मत डालो । आयुष्मान् भारद्वाज ! क्या ससास होने दो !”

(भगवान्के) ऐसा कहने पर चंकि ब्राह्मणने भगवान्से कहा—

“आप गौतम कापथिक माणवकको मत रोकें; कापथिक माणवक कुल-पुत्र (= कुलीन) है०, बहुश्रुत है ०, सुवक्ता ०, पंडित ० । कापथिक माणवक आप गौतमके साथ इस बातमें वाद कर सकता है ।”

तब भगवान्को हुआ—अवश्य कापथिक माणवककी कथा त्रिवेद-प्रवचन (= वेदाध्ययन) सम्बन्धी होगी, जिससे कि ब्राह्मण इसे आगे कर रहे हैं । उस समय कापथिक माणवकको (विचार) हुआ—‘जब श्रमण गौतम मेरी आँखकी ओर आँख लायेगा, तब मैं श्रमण गौतमसे प्रश्न पूछूँगा’ । तब भगवान्ने (अपने) चित्तसे कापथिक माणवकके चित्त-वितर्कको जानकर, जिधर कापथिक माणवक था, उधर (अपनी) आँख फेरी । तब कापथिक माणवकको हुआ—‘श्रमण गौतम मुझे देख रहा है, क्यों न मैं श्रमण गौतमसे प्रश्न पूछूँ ?’ तब कापथिक माणवकने भगवान्से कहा—

“भो गौतम ! जो यह ब्राह्मणोंका पुराना मंत्रपद (= वेद) इस परम्परासे, पिटक^१ (= वचन समूह)-सम्प्रदायसे है । उसमें ब्राह्मण पूर्ण रूपसे निष्ठा (= श्रद्धा) रखते हैं—‘यही सत्य है, और सब झूठा’ । इस विषयमें आप गौतम क्या कहते हैं ?”

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोंमें एक भी ब्राह्मण है, जो कहे—मैं इसे जानता हूँ, इसे देखता हूँ, यही सच है, और झूठ है ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका एक आचार्य भी ०, एक आचार्य-प्राचार्य भी, परमाचार्योंकी सात पीढ़ी तक भी ० । ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि, ० अट्टक, वामक ०, उन्होंने भी क्या कहा—‘हम इसको जानते हैं, हम इसको देखते हैं, यही सच है और झूठ है ?’

“नहीं, हे गौतम !”

^१ अ. क. “(अट्टक आदि ऋषियोंने) दिव्य-चक्षुसे देखकर भगवान् काश्यप सम्यक्-संबुद्धके वचनके साथ मिलाकर, मंत्रोंको पर-हिंसा-शून्य, ग्रंथित किया था । उसमें दूसरे ब्राह्मणोंने प्राणि-हिंसा आदि डालकर तीन वेद बना, बुद्ध-वचनसे विरुद्ध कर दिया ।”

“इस प्रकार भारद्वाज ! ब्राह्मणोंमें एक भी ब्राह्मण नहीं है, जो कहे ०।०। जैने भारद्वाज ! अंध-वेषु-परंपरा (= अंधोंकी लकड़ीका ताँता) लगी हो, पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचका भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता। ऐसेही भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका कथन अंध-वेषु (= अंधेकी लकड़ी)के समान है, पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचका भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता। तो क्या मानते हो, भारद्वाज ! क्या ऐसा होनेपर ब्राह्मणों की श्रद्धा अ-मूलक नहीं होजाती ?”

“हे गौतम ! नहीं, ब्राह्मण श्रद्धाहीकी उपासना नहीं करते, अनुश्रव (= श्रुति) की भी उपासना करते हैं।”

“पहिले भारद्वाज ! तू श्रद्धा (= निष्ठ) पर पहुँचा था, अब अनुश्रव कहता है। भारद्वाज ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक (= फल) देनेवाले हैं। कौनसे पाँच ? (१) श्रद्धा, (२) रुचि, (३) अनुश्रव, (४) आकार-परिवर्तिक, (५) दृष्टि-निष्पानाक्ष (= दिष्टिनिज्ज्ञानकक्ष)। भारद्वाज ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक देनेवाले हैं। भारद्वाज ! सुन्दर-तौरसे श्रद्धा किया भी रिक्त = तुच्छ और मृषा हो सकता है, सुश्रद्धा न किया भी यथार्थ = तथ्य = अन्-अन्यथा हो सकता है। सुरुचि किया भी ०। सु-अनुश्रुत किया भी ०। सु-परिवर्तिक किया भी। सु-निष्पान किया भी ० रिक्त = तुच्छ और मृषा हो सकता है। सु-निष्पान न किया भी यथार्थ = तथ्य = अनन्यथा हो सकता है। भारद्वाज ! सत्यानुरक्षक विज्ञ पुरुषको यहाँ एकांशसे (सोलहो आना) निष्ठा करना योग्य नहीं है, कि—‘यही सत्य है, और याकी सिध्या है।’”

“हे गौतम ! सत्यानुरक्षा (= सत्यकी रक्षा) कैसे होती है ? सत्यका अनुरक्षण कैसे किया जाता है, हम आप गौतमसे सत्यानुरक्षण पूछते हैं ?”

“भारद्वाज ! पुरुषको यदि श्रद्धा होती है ‘यह मेरी श्रद्धा है’, कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है। किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता—‘यही सत्य है और (सब) झूठा !’ भारद्वाज ! यदि पुरुषको रुचि होती है। ‘यह मेरी रुचि है’ कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है। किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता—‘यदि सत्य है, और झूठा !’

“भारद्वाज ! यदि पुरुषको अनुश्रव होता है। ‘यह मेरा अनुश्रव है’ कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है। किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता—‘यही सत्य है, और झूठा !’ भारद्वाज ! यदि पुरुषको आकार-परिवर्तिक होता है। ‘यह मेरा आकार-वितर्क है’ कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है, किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता—‘यही सत्य है, और झूठा !’ भारद्वाज ! यदि पुत्पत्रो दृष्टि-निष्पानाक्ष होता है, ‘यह मेरा दृष्टि-निष्पानाक्ष’, कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है। किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता ‘यही सत्य है और झूठा !’ इतने से भारद्वाज सत्य-अनुरक्षण होता है। इतनेसे सत्यकी अनुरक्षा की जाती है। इतनेसे हम सत्यका अनुरक्षण (= रक्षण) प्रज्ञापित करते हैं; किन्तु (इतनेसे) सत्यका अनुबोध (= बोध) नहीं होता।”

“मो गौतम ! इतनेसे सत्यानुरक्षण होता है, इतनेसे सत्यकी अनुरक्षाकी जाती है; इतने से सत्यका रक्षण हम भी देखते हैं। हे गौतम ! सत्यका बोध कितनेसे होता है, कितनेसे (नर) सच वृक्षता है ? मो गौतम ! हम इसे आपसे पूछते हैं।”

“भारद्वाज ! भिक्षु किसी ग्राम या निगमको आश्रय कर विहरता है। (कोई) गृहपति (= गृहस्थ) या गृहपति-पुत्र जाकर लोभ, द्वेष, मोह (इन) तीन धर्मोंके विषयमें उसकी परीक्षा करता है—‘क्या इस आयुष्मान्को वैसा लोभनीय धर्म (= चात) है, जिस प्रकारके

लोम-सम्बन्धी धर्मके कारण न जानते 'जानता हूँ' कहें; न देखते 'देखता हूँ' कहें। या वैसा उपदेश करें, जो दूसरोंके लिये दीर्घकाल तक अहित और दुःखके लिये हो। इन आयुष्मानका काय-समाचार (= कायिक-आचरण) (और) वचन-समाचार (= वाचिक-आचरण) वैसा है, जैसा कि अलोमीका। (या) यह आयुष्मान् जिस धर्मका उपदेश करते हैं (क्या) वह धर्म गंभीर, दुर्दृश = दुर्बोध, शांत, प्रणीत (= उत्तम), अतर्कावचर (= तर्कसे अप्राप्य) निपुण = पंडित वेदनीय है ? वह धर्म लोमी-द्वारा उपदेश करना सुगम (तो) नहीं है ?”

“जब खोजते हुये लोम-सम्बन्धी धर्मोंसे (उसे) विशुद्ध पाता है। तब आगे द्वेष-सम्बन्धी धर्मोंके विषयमें उसकी परीक्षा करता है—‘क्या इस आयुष्मान्को वैसा द्वेष-सम्बन्धी धर्म है ०; वह धर्म, द्वेषी द्वारा उपदेश करना (तो) सुगम नहीं ?”

“जब परीक्षा करते हुये, द्वेष-सम्बन्धी धर्मोंसे उसे विशुद्ध पाता है। तब आगे मोह-सम्बन्धी धर्मोंके विषयमें उसको टटोलता है—‘क्या इस आयुष्मान्को वैसा मोह-सम्बन्धी धर्म तो है ०, वह धर्म ०, मोही (= मूढ़) द्वारा उपदेश करना सुगम (तो) नहीं ?

“जब टटोलते हुये उसे लोमनीय, द्वेषनीय, मोहनीय धर्मोंसे विशुद्ध पाता है; तब उसमें श्रद्धा स्थापित करता है। श्रद्धावान् हो पास जाता है, पास जाके परि-उपासन (= सेवन) करता है। पर्युपासना करके कान लगाता है, कान लगाके धर्म सुनता है। सुनकर धर्मको धारण करता है। धारण किये हुये धर्मोंके अर्थकी परीक्षा करता है। अर्थकी परीक्षा करके धर्म ध्यान करने लायक होते हैं। धर्मके निध्यान (ध्यान) योग्य होनेसे स्मृति रुचि (= छन्द) उत्पन्न होती है। छन्दवाला (= रुचिवाला) उत्साह (= प्रयत्न) करता है। उत्साह करते उत्थान (= तोलन) करता है। तोलन करते पराक्रम (= पढ़हन) करता है। पराक्रमी हो, इसी क्रियामें ही परम-सत्यका साक्षात्कार (= दर्शन) करता है, प्रज्ञासे उसे वेधकर देखता है। इतनेसे मारद्वाज ! सत्य-बोध होता है, इतनेसे सच बूझता है। इतनेसे हम सत्य-अनुबोध वतलाते हैं, किन्तु (इतनेहीसे) सत्य-अनुपत्ति नहीं होती।”

“हे गौतम ! इतनेसे सत्यानुबोध होता है, इतनेसे सच बूझता है, इतनेसे हममी सत्यानुबोध देखते हैं। परन्तु हे गौतम ! सत्य-अनुपत्ति कितनेसे होती है, कितनेसे सचको पाता है, हम आप गौतमसे सत्यानुपत्ति (= सत्य-प्राप्ति) पूछते हैं ?”

“मारद्वाज ! उन्हीं धर्मोंके सेवने, भावना करने, बढ़ानेसे सत्य-प्राप्ति होती है। इतनेसे मारद्वाज सत्य-प्राप्ति होती है, सचको पाता है, इतनेसे हम सत्य-प्राप्ति वतलाते हैं।”

“इतनेसे हे गौतम ! सत्य-प्राप्ति होती है ० हम भी इतनेसे सत्य-प्राप्ति देखते हैं। हे गौतम ! सत्य-प्राप्तिका कौन धर्म अधिक उपकारी (= बहुकार) है, सत्य-प्राप्तिके लिये अधिक उपकारी धर्मको हम आप गौतमसे पूछते हैं।”

“भारद्वाज ! सत्य-प्राप्तिका बहुकारी धर्म ‘प्रधान’ है। यदि प्रधान (= प्रयत्न) न करे, तो सत्यको (भी) प्राप्त न करे। चूँकि ‘प्रधान’ करता है, इसीलिये सचको पाता है, इसलिये सत्य-प्राप्तिके लिये बहुकारी धर्म ‘प्रधान’ है।”

“प्रधानके लिये हे गौतम ! कौन धर्म बहुकारी है। प्रधानके बहुकारी धर्मको हम आप गौतमसे पूछते हैं ?”

“भारद्वाज ! प्रधानका बहुकारी उत्थान है, यदि उत्थान (= उद्योग) न करे, तो प्रधान नहीं कर सकता। चूँकि उत्थान करता है, इसलिये प्रधान करता है। इसलिये उत्थान प्रधानका बहुकारी है।”

“ ० । ० उत्साह वत्यान (= तुलना) का बहुकारी । ” “ ० । ० छन्द उत्साहका ० । ”
 “ ० । ० धम्म-निज्झानक्ख (= धर्म-निष्पानाक्ष) छन्दका ० । ” “ अर्थ-उपपरीक्षा (= अर्थका
 परीक्षण) धर्म-निष्पानाक्षका ० । ” “ ० । ० धर्म-धारणा ० । ” “ धर्म-श्रवण ० । ” “ ० । ० कान
 लगाना (= श्रोत्र-अवधान) ० । ” “ पयुं पासन (= सेवा) ० । ” “ ० । ० पास जाना ० । ”
 “ ० । ० श्रद्धा ० । ”

“सत्य-अनुरक्षणको हमने आप गौतमसे पूछा । आप गौतमने सत्यानुरक्षण हमें बतलाया,
 वह हमें रुचता भी है, = खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैं । सत्य-अनुबोध (= सचको वृत्तना)
 को हमने आप गौतमसे पूछा । ० । सत्य-प्राप्ति ० । ० । सत्य-प्राप्तिके बहुकारी धर्मको हमने आप
 गौतमसे पूछा । सत्य-प्राप्तिके बहुकारी धर्मको आप गौतमने बतलाया । वह हमें रुचता भी है=
 खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैं । जिस जिलीको हमने आप गौतमसे पूछा, उस उसीको आप
 गौतमने (हमें) बतलाया । और वह हृदको रुचता भी है=खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैं ।

“हे गौतम ! पहिले हम ऐसा जानते थे, कहाँ इभ्य (= नीच), काले, ब्रह्माके पैरसे
 उत्पन्न (= शूद्र), सुंडक-श्रमण, और कहाँ धर्मका जानना । आप गौतमने मुझमें “श्रमण-प्रेम =
 श्रमण-प्रसाद ० । आजसे आप गौतम मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें । ”

६६-फासुकारि-सुत्तन्त (२।५।६)

वर्णव्यवस्थाका खण्डन

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब फासुकारि ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ 'संमोदन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे फासुकारि (= प्राशुकारी) ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—

“भो गौतम ! ब्राह्मण चार (प्रकारकी) परिचर्या (= सेवाधर्म) बतलाते हैं—ब्राह्मणकी परिचर्या बतलाते हैं, क्षत्रियकी परिचर्या ०, वैश्यकी परिचर्या ०, और शूद्रकी परिचर्या । वहाँ भो गौतम ! ब्राह्मण ब्राह्मणकी परिचर्या इस प्रकार कहते हैं—ब्राह्मणका परिचरण (= सेवा) करे, क्षत्रिय ब्राह्मणका परिचरण करे, वैश्य ब्राह्मणका परिचरण करे, शूद्र ब्राह्मणका परिचरण करे...। वहाँ, भो गौतम ! ब्राह्मण क्षत्रियकी परिचर्या इस प्रकार कहते हैं—क्षत्रिय क्षत्रियको परिचरण करे, वैश्य ०, और शूद्र क्षत्रियको परिचरण करे...। वहाँ, भो गौतम ! ब्राह्मण वैश्यकी परिचर्या इस प्रकार बतलाते हैं—वैश्य वैश्यको परिचरण करे, और शूद्र वैश्यको परिचरण करे...। भो गौतम ! ब्राह्मण शूद्रकी परिचर्या इस प्रकार बतलाते हैं—शूद्र ही शूद्रको परिचरण करे—; यह भो गौतम ! ब्राह्मण शूद्रकी परिचर्या बतलाते हैं । भो गौतम ! ब्राह्मण यह चार (प्रकारकी) परिचर्या बतलाते हैं इस विषयमें आप गौतम क्या कहते हैं ?”

“क्या ब्राह्मण ! सारी दुनियाँ (= लोक) ब्राह्मणोंको इसके लिये अनुज्ञा देती है; कि इन चारों परिचर्याओंको वह प्रज्ञापन करे ?”—“नहीं, भो गौतम !”

“जैसे; ब्राह्मण ! कोई अ-स्वक = अन-आह्व्य, दरिद्र पुरुष हो; अनिच्छु होते भी उसके लिये एक बाँटी (भाग) लगा दी जाय—हे पुरुष ! यह तुम्हारे खानेके लिये मांस है और (इसका) मूल्य देना; इसी प्रकार ब्राह्मण ! (अन्य संसारके) श्रमण-ब्राह्मणोंकी अनुज्ञाके बिना ही (खामखा) ब्राह्मणोंका इन चार परिचर्याओंको प्रज्ञापन करते हैं । ब्राह्मण ! न मैं सभी परिचर्याओंको परिचरणीय (= सेवनीय) कहता हूँ, नहीं मैं सभीको अ-परिचरणीय कहता हूँ । ब्राह्मण ! जिसको परिचरण; करते (जिसे) परिचर्याके हेतु अहित (= पापीय) होता है, हित (= श्रेय) (कर्म) नहीं होता, उसे मैं परिचरणीय नहीं कहता । जिसको परिचरण करते, (जिस) परिचर्याके हेतु हित होता है, अहित नहीं; उसे मैं परिचरणीय कहता हूँ । ब्राह्मण ! क्षत्रियको भी पूछें—जिसको परिचरण करते (जिस) परिचर्याके हेतु तेरे लिये अहित होता है, हित न हो; और जिसको परिचरण करते (जिस) परिचर्याके हेतु तेरे लिये हित होता है, अहित नहीं; (इन दोनों)में किसे तू परिचरण करेगा ?—तो ब्राह्मण ! क्षत्रिय भी ठीकसे उत्तर देते यही उत्तर देगा—जिसको परिचरण करते, (जिस) परिचर्याके हेतु हित होता है, अच्छा नहीं, उसे मैं नहीं परिचरण करूँगा; और जिसको परिचरण करते (जिस) परिचर्याके हेतु हित होता है, अहित नहीं; उसे मैं परिचरण

करूँगा। ब्राह्मण ! ब्राह्मणसे भी पूछें—० । ० वैश्यसे भी पूछें—० । ० शूद्रसे भी पूछें—० ।

(१) “ब्राह्मण ! मैं उच्च कुलीनताको श्रेय-हित (अच्छी) नहीं बतलाता, न मैं उच्च कुलीनताको पापीया (= अहित-शुरी) बतलाता हूँ । (२) ब्राह्मण ! मैं उदार वर्णता (= ऊँचे वर्णका होना, या अच्छे रंगका होना, को श्रेय नहीं बतलाता, न मैं उदार वर्णताको पापीय बतलाता हूँ । (३) ब्राह्मण ! मैं उदार-मोगता (= बहुत धन-धान्य सम्पन्न होना)को श्रेय कहता हूँ, न मैं उदार माँगताको पापीय कहता हूँ ।

“ब्राह्मण ऊँचे कुल वाला भी कोई कोई प्राणातिपाती (= हिंसक) होता है, अदत्तादायी (= चोर) ०, काम मिथ्याचारी ०, मृषावादी ०, पिशुनभाषी (= चुगुलखोर) ०, परुष-भाषी ०, संप्रलापी (= बकवादी) ०, अमिष्यालु (= लोभी) ०, व्यापन्न-चित्त (= द्वेषी) ०, मिथ्या दृष्टि (= झूठी धारणा वाला) होता है । इसलिये ब्राह्मण ! मैं उच्चकुलीनताको श्रेय नहीं कहता । ऊँचे कुलवाला भी प्राणातिपात-विरत (= अहिंसक) होता है, अदत्तादान-विरत (= अ-चौर) ०, काम मिथ्याचार-विरत ०, मृषावाद-विरत ०, पिशुन भाषण-विरत ०, परुष-भाषण-विरत ०, संप्रलाप-विरत ०, अन्-अमिष्यालु ०, अ-व्यापन्न-चित्त ० (और) सम्यग्-दृष्टि होता है । इसलिये ब्राह्मण ! मैं उच्चकुलीनताको पापीय नहीं कहता ।

“ब्राह्मण ! उदार-वर्णवाला भी कोई कोई प्राणातिपाती ० ; ० उदार वर्णवाला भी कोई कोई प्राणातिपात-विरत ० । ० उदार मोगवाला भी कोई कोई प्राणातिपाती ० । ० उदारमोग वाला भी कोई कोई प्राणातिपात-विरत ० सम्यग्-दृष्टि होता है, इसलिये ब्राह्मण ! मैं उदारवर्णता को पापीय नहीं कहता ।

“ब्राह्मण ! न मैं सबको परिचरणीय कहता हूँ, और न मैं सबको अ-परिचरणीय (= अ-सेवनीय) कहता हूँ । ब्राह्मण ! जिसको परिचरण करते = परिचर्या के हेतु श्रद्धा बढ़ती है, शील (= सदाचार) बढ़ता है, श्रुत (= ज्ञान) बढ़ता है, त्याग बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है; उसे मैं परिचरणीय (= परिचरितव्य) कहता हूँ ।”

ऐसा कहनेपर फासुकारी ब्राह्मण भगवान्से यह बोला—

“भो गौतम ! ब्राह्मण चार (प्रकार के) स्व-धन (= अपना धन) बतलाते हैं—(१) भिक्षाचर्या-को ब्राह्मण का स्वधन बतलाते हैं; भिक्षाचर्या स्वधनको अतिक्रमण करनेवाला ब्राह्मण अदत्तको लेनेवाले गोपकी माँति अकृत्य-कारी होता है । भो गौतम ! ब्राह्मण इसे ब्राह्मणोंका स्व-धन बतलाते हैं । (२) भो गौतम ! ब्राह्मण धनुकलाप (= शस्त्र-शिल्प) को क्षत्रियका स्वधन बतलाते हैं । धनुकलाप (रूपी) स्वधनको अतिक्रमण करनेवाला क्षत्रिय ० अकृत्यकारी होता । ० । (३) ० कृषि, गोरक्ष्य (= गोपालन)को वैश्यका स्वधन बतलाते हैं । ० । (४) ० असितव्याभंगि (लकड़ी काटने ढोने आदि)को शूद्रका धन बतलाते हैं । असितव्यभंगि (रूपी) स्वधनको अतिक्रमण करनेवाला शूद्र अदत्तको लेनेवाले गोपकी माँति अकृत्यकारी (= पापकारी) होता है । भो गौतम ! ब्राह्मण यह चार (प्रकार के) स्वधन बतलाते हैं । यहाँ आप गौतम क्या कहते हैं ?”

“क्या ब्राह्मण ! सारी दुनिया ब्राह्मणोंको इसके लिये अनुज्ञा देती है ? इन चार स्वधनोंको प्रज्ञापन करें ?”

“नहीं, भो गौतम !”

“जैसे ब्राह्मण ! कोई ०^१ दृष्टि पुरुष हो ०^१ ब्राह्मणोंका इन चार धनोंका प्रज्ञापन करना है ।”

“ब्राह्मण ! मैं लोकोत्तर आर्यधर्म को पुरुषका स्वधन प्रज्ञापन करता हूँ । ब्राह्मण ! माता-पिताके पुराने कुलवंशको अनुस्मरण करते जहाँ इस (पुरुष)का जन्म होता है, वही उसकी संज्ञा होती है । क्षत्रिय-कुलमें उत्पन्न होनेपर क्षत्रिय इसकी संज्ञा होती है । ब्राह्मण ० । वैश्य ० । शूद्रकुलमें उत्पन्न होनेपर शूद्र इसकी संज्ञा होती है ।

“जैसे ब्राह्मण ! जिस जिल प्रत्यय (= आश्रय)को लेकर आग जलती है, वही वही (उसकी) संज्ञा होती है । काष्ठके आश्रयसे जो आग जलती है, काष्ठ-अग्नि उसकी संज्ञा होती है । शकलिका (= चैली) ० । गोमय (= उपले)के आश्रयसे जो आग जलती है, गोमय-अग्नि उसकी संज्ञा होती है । इस प्रकार हे ब्राह्मण ! मैं लोकोत्तर आर्यधर्मको पुरुषका स्वधन प्रज्ञापन करता (= कहता) हूँ । ० जहाँ इसका जन्म होता है, वहीं इसकी संज्ञा होती है ० शूद्र इसकी संज्ञा होती है ।

“ब्राह्मण ! क्षत्रियकुलसे भी यदि घरसे बेघर हो प्रव्रजित होता है । और वह तथागतके जतलाये धर्म (= धर्म-विनय)को पा, प्राणातिपातसे विरत होता है ०^१ सम्यग्-दृष्टि होता है; तो वह न्याय = कुशल-धर्म (= निर्वाण)का आराधन करनेवाला होता है । ब्राह्मणकुल से ० । वैश्यकुलसे ० । शूद्रकुलसे ० तो वह न्याय कुशल धर्मका आराधन करनेवाला होता है ।

“तो क्या मानते हो, ब्राह्मण ! क्या ब्राह्मण ही इस प्रदेशमें वैर-रहित व्यापाद (= द्वेष)-रहित मैत्री चित्तकी भावना कर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं ?”

“नहीं, हे गौतम ! क्षत्रिय भी इस प्रदेशमें वैर-रहित, व्यापाद-रहित मैत्रीचित्तकी भावना कर सकता है । ब्राह्मण भी ०; वैश्य भी ०, शूद्र भी ० सारे चारों वर्ण इस प्रदेश में ० मैत्री चित्तकी भावना कर सकते हैं ।”

“इसी प्रकार ब्राह्मण ! क्षत्रियकुल से भी यदि घरसे बेघर ० । सम्यग्-दृष्टि होता है; तो वह न्याय कुशल धर्म का आराधक होता है । ब्राह्मणकुलसे ० । वैश्यकुलसे ० । शूद्रकुलसे ० तो वह न्याय कुशल धर्मका आराधक होता है ।

“तो क्या मानते हो ब्राह्मण !! क्या ब्राह्मण ही (= स्नान-चूर्णपिंड (= सोत्ति-सिनाति) ले, नदीपर जा मँल धो सकता है; क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं ?”

“नहीं, भो गौतम ! क्षत्रिय भी ०; वैश्य भी ०; शूद्र भी स्नान-चूर्ण-पिंड (= आजकलका साबुन जैसा कोई पदार्थ) ले नदीपर जा मँल धो सकता है । सारे चारों वर्ण ० ।”

“ऐसे ही ब्राह्मण ! क्षत्रिय कुलसे यदि घरसे बेघर ० । ० सम्यग्-दृष्टि हो; तो वह न्याय-कुशल-धर्मका आराधक होता है । ब्राह्मण कुलसे ० । वैश्य कुलसे ० । शूद्र कुलसे ० तो वह न्याय-कुशल-धर्मका आराधक होता है ।

“तो क्या मानते हो, ब्राह्मण ! (यदि) वहाँ मूर्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा नाना जातिके सँ पुरुष इकट्ठा करे (और उन्हें कहे—) आवें आप सय ०^२ उस आगसे अग्निका काम नहीं लिया जा सकेगा ?”

“नहीं, भो गौतम ! जो वह क्षत्रिय ० कुलोत्पन्न द्वारा ० आग बनाई गई है ०, वह भी अर्चिमान् ० आग होगी, उस आगसे भी आगका काम लिया जा सकता है । और जो वह चांडाल ० कुलोत्पन्न द्वारा ० अग्नि बनाई गई है ० वह भी अर्चिमान् ० अग्नि होगी । सभी आगसे आगका काम लिया जा सकता है ।”

^१ देखो पृष्ठ ४०१ ।

^२ देखो पृष्ठ ३८८ ।

“ऐसे ही ब्राह्मण ! क्षत्रियकुलसे भी यदि घरसे बेघर ० । ० सम्यग्-दृष्टि हो; तो वह न्याय-कुशल-धर्मका आराधक होता है । ब्राह्मणकुलसे भी ० । वैश्यकुलसे भी ० । शूद्रकुलसे भी ० तो वह न्याय-कुशल-धर्मका आराधक होता है ।”

ऐसा कहनेपर फासुकारि ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—“आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा कर दे ०^१ आप गौतम आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”

६७—धानंजानि-सुतन्त (२।५।७)

अपना अपना किया अपने अपने साथ

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलंदक-निवापमें विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र बड़े भिक्षु-संघके साथ दक्षिणागिरिमें चारिका कर रहे थे । तब कोई भिक्षु राजगृहमें वर्षावास कर, जहाँ दक्षिणागिरि था, जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रके साथ...संमोदनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे उस भिक्षु से आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—

“आवुस ! भगवान् निरोग हैं न, बलवान् हैं न ?”

“आवुस ! भगवान् निरोग हैं, बलवान् हैं ।”

“आवुस ! भिक्षु-संघ निरोग है न, बलवान् है न ?”

“आवुस ! भिक्षु-संघ भी निरोग है, बलवान् है ।”

“आवुस ! वहाँ तण्डुलपल्लु द्वारमें धानंजानि नामक ब्राह्मण रहता है । आवुस ! धानंजानि ब्राह्मण निरोग है न, बलवान् है न ?”

“आवुस ! धानंजानि ब्राह्मण निरोग है बलवान् (= तगड़ा) है ।”

“आवुस ! धानंजानि ब्राह्मण अ-प्रमत्त (= प्रमाद-रहित) है न ?”

“आवुस ! धानंजानि ब्राह्मणको अप्रमाद कहाँसे । आवुस ! धानंजानि ब्राह्मण राजाका सहारा ले, ब्राह्मण गृहस्थोंको लट्टता है (= विलुम्पति), ब्राह्मण-गृहपतियोंका सहारा ले राजाको लट्टता है । जो श्रद्धालुकुलसे लाई उसकी श्रद्धालु भार्या थी, वह भी मर गई । अश्रद्धालुकुलसे दूसरी भार्या (अथ) लाया है ।”

“आवुस ! दुःश्रुत (= न सुनने योग्य) हमने सुना ! दुःश्रुत हमने सुना !! जो कि हमने धानंजानि ब्राह्मणको प्रमत्त सुना । क्या कभी किसी समय धानंजानि ब्राह्मणके साथ हमारा समागम होगा ! क्या हमारा उसके साथ कुछ कथा-संलाप होगा !!”

तब आयुष्मान् सारिपुत्र दक्षिणागिरिमें इच्छानुसार विहार कर, जहाँ राजगृह था, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते, जहाँ राजगृह है, वहाँ पहुँचे । वहाँ राजगृहमें आयुष्मान् सारिपुत्र वेणुवन कलंदक-निवापमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् सारिपुत्र पूर्वाह्न समय पहिनकर, पात्रचीवर ले राजगृहमें मिश्राके लिये प्रविष्ट हुये । उस समय धानंजानि ब्राह्मण नगरके बाहर गोष्ठ (= वयान) में गायें दुहा रहा था । तब आयुष्मान् सारिपुत्र राजगृहमें पिंडचार कर, भोजनान्तर पिंडपातसे छुट्टी पा जहाँ धानंजानि ब्राह्मण था, वहाँ गये । धानंजानि ब्राह्मणने दूरसे ही आयुष्मान् सारिपुत्रको आते देखा । देखकर जहाँ

आयुष्मान् सारिपुत्र थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह बोला—

“भो सारिपुत्र ! यह दूध है इसे पियें, तब तक भोजनका समय होता है ।”

“अलम् (= बस) ब्राह्मण ! आज मैं भोजन-कृत्य समाप्तकर चुका हूँ । असुक घृक्षके नीचे मेरा दिनका विहार होगा; वहाँ आना ।”

“अच्छा, भो !”—(कह) धानंजानि ब्राह्मणने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

तब धानंजानि ब्राह्मण प्रातराश कर, भोजनोपरांत जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रके साथ...सम्मोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे धानंजानि ब्राह्मणसे आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—

“धानंजानि ! अ-प्रमत्त (= दुष्कर्ममें प्रमादी सुकर्ममें रत) तो हो ?”

“भो सारिपुत्र ! कहाँसे हम जैसोंको अ-प्रमाद होगा, जिन्हें कि माता-पिताको पोषण करना हो, पुत्र-द्वाराको पोषण करना हो, दास-कर्मकरोंको पोषण करना हो; मित्र-अमात्योंका काम करना हो, जाति-भाइयों (= ज्ञाति-सलोहित)का काम करना हो, अतिथियोंका ०, पूर्व-प्रेतों (= पितरों)का ०, देवताओंका ०, राजाका राज-कार्य करना हो, और इस (अपने) शरीरको भी तर्पित वर्द्धित करना हो ?”

“तो क्या मानते हो, धानंजानि ! यहाँ कोई (पुरुष) माता-पिताके लिये अ-धर्मचारी = विपम-चारी होवे । (उस) अधर्मचर्या विपमचर्याके लिये उसे नरकपाल नरकमें ले जायें; क्या वह यह (कहने) पा सकता है—‘मैं माता-पिताके लिये अधर्मचारी = विपमचारी हुआ, नरकपालो ! मत मुझे नरकमें (डालो)’ ? या उसके माता-पिता यह (कहने) पा सकते हैं—‘यह हमारे लिये, अधर्मचारी = विपमचारी हुआ, नरकपालो ! मत इसे नरकमें डालो’ ?”

“नहीं, भो सारिपुत्र ! वल्कि उसे चिल्लातेहीको नरकपाल (= निरय-पाल) नरकमें डाल देंगे ।”

“तो क्या मानते हो, धानंजानि ! यहाँ कोई पुत्र-द्वाराके लिये अधर्मचारी = विपमचारी होवे । ० । ० दास-कर्मकर पुरुषोंके लिये ० । ० मित्र-अमात्यों (= यार दोस्तों)के लिये ० । ज्ञाति-सालोहितों (= भाई-बंधों)के लिये ० । ० अतिथियोंके लिये ० । ० पूर्व-प्रेतोंके लिये ० । ० देवताओंके लिये ० । ० राजाके लिये ० । ० कायाके तर्पण वर्द्धनके लिये अधर्मचारी ० होवे । ० क्या वह यह (कहने) पा सकता है—‘मैं शरीरके तर्पण वर्द्धनके लिए अधर्मचारी = विपमचारी हुआ, नरकपालो ! मत मुझे नरकमें (डालो)’ ? या दूसरे यह (कहने) पा सकते हैं—‘यह काया के तर्पण वर्द्धनके लिये अधर्मचारी = विपमचारी हुआ, नरकपालो ! मत इसे नरकमें (डालो)’ ?”

“नहीं, भो सारिपुत्र ! वल्कि उस चिल्लातेहीको नरकपाल नरकमें डाल देंगे ।”

“तो क्या मानते हो, धानंजानि ! जो कि माता-पिताके हेतु अधर्मचारी = विपमचारी होना है, और जो कि माता-पिताके हेतु धर्मचारी = समचारी होना; इन दोनों (कर्मों)में कौन श्रेय (= अच्छा) है ?”

“भो सारिपुत्र ! माता-पिताके हेतु अधर्मचारी = विपमचारी होना, यह श्रेय नहीं; किन्तु जोकि माता-पिताके हेतु धर्मचारी-समचारी होना है, यही श्रेय है । अधर्मचर्या = विपम-चर्यासे भो सारिपुत्र ! धर्मचर्या = समचर्या श्रेय है ।”

“धानंजानि ! दूसरे भी स-हेतुक (= फलदायक) धार्मिक कर्मान्त (= पेशे) हैं, जिनसे माता-पिताका पोषण किया जा सकता है, किन्तु पाप-कर्मको न करना और पुण्य-मार्गको ग्रहण करना (चाहिये) ।

“तो क्या मानते हो, धानंजानि ! जोकि पुत्र-द्वाराके हेतु अधर्मचारी = विपमचारी होना

० । ० दास-कर्मकर-पुरुषोंके हेतु ० । ० मित्र-अमात्योंके हेतु ० । ० ज्ञाति-सालोहितोंके हेतु ० । ० अतिथियोंके हेतु ० । ० पूर्व-भ्रेतोंके हेतु ० । ० देवताओंके हेतु ० । ० राजाके हेतु ० । ० कायाके तर्पण वर्द्धनके हेतु ० पुण्यमार्गका ग्रहण करना (चाहिये) ।”

तब धानंजानि ब्राह्मण आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणको अभिनन्दित अनुमोदितकर आसनसे उठकर चला गया ।

दूसरे समय धानंजानि ब्राह्मण दुःखित = व्याधित बहुत बीमार हुआ । तब धानंजानि ब्राह्मणने किसी पुरुषको बुलाया—‘आओ हे पुरुष ! तुम जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ; जाकर मेरे वचनसे भगवान्के चरणोंको, शिरसे वंदना करो—भन्ते ! धानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, वह भगवान्के चरणोंको शिरसे वंदना करता है’ । (फिर) जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र हों, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान् सारिपुत्रके चरणोंको, शिरसे वंदना करो—भन्ते ! धानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, वह आयुष्मान् सारिपुत्रके चरणोंको, शिरसे वंदना करता है; और यह भी कहो—‘अच्छा हो, भन्ते ! यदि आयुष्मान् सारिपुत्र कृपा कर जहाँ धानंजानि ब्राह्मणका घर है, वहाँ चलें’ ।”

“अच्छा, भन्ते (= स्वामी) !”—(कह) वह पुरुष धानंजानि ब्राह्मणको उत्तर दे, जहाँ भगवान् थे, वहाँ...जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे उस पुरुषने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! धानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, वह भगवान्के चरणोंको, शिरसे वंदना करता है ।” (फिर) जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रको अभिवादन कर एक ओर बैठे...आयुष्मान् सारिपुत्रसे बोला—“भन्ते ! धानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, ० अच्छा हो, भन्ते ! यदि आयुष्मान् सारिपुत्र कृपाकर जहाँ धानंजानि ब्राह्मणका घर है, वहाँ चलें ।”

आयुष्मान् सारिपुत्रने मौनसे स्वीकार किया । तब आयुष्मान् सारिपुत्र पहिनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ धानंजानि ब्राह्मणका घर था, वहाँ गये; जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठकर आयुष्मान् सारिपुत्रने धानंजानि ब्राह्मणसे यह कहा—

“धानंजानि ! ठीक तो है ? (काल-)यापन तो हो रहा है, दुःखा वेदनार्ये हट तो रही हैं, लौट तो नहीं रही हैं ? (व्याधिका) हटना तो मालूम हो रहा है; लौटना तो नहीं मालूम हो रहा है ?”

“भो सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है, नहीं यापन हो रहा है, भारी दुःखमय वेदनार्ये आ रही हैं, हटती नहीं हैं, (पीड़ाका) आना ही जान पड़ता है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिपुत्र ! (कोई) बलवान् पुरुष तीक्ष्ण शिखरसे शिरको मथित करे, ऐसे ही, भो सारिपुत्र ! बड़े जोरकी हवा मेरे शिरको ताड़न करती है । भो सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है ० (पीड़ाका) आना ही जान पड़ता है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिपुत्र ! (कोई) बलवान् पुरुष मजबूत रस्सीसे शिरको... (जोरसे) बाँध दे; ऐसे ही भो सारिपुत्र ! मुझे बड़े जोरकी सीसवेदना है । नहीं ० । जैसे, भो सारिपुत्र ! चतुर गोघातक या गोघातकका अन्तेवासी तेज गो-विकर्तन (= गाय काटनेके छुरे)से पेटको काटे ऐसे ही, भो सारिपुत्र ! जोरसे वायु मेरे पेटको काट रहे हैं । नहीं ० । जैसे, भो सारिपुत्र ! दो बलवान् पुरुष (किली) अति दुर्बल पुरुषको अनेक बाहोंसे पकड़कर भौर (की आग)पर तपायें, संतपायें; ऐसे ही, भो सारिपुत्र ! मेरे शरीरमें अत्यधिक दाह हो रहा है । मुझे ठीक नहीं, ० ।”

“तो क्या मानते हो, धानंजानि ! नरक अच्छा (= श्रेय) है, या तिर्यग् (= पशु)-योनि ?”

“नरकसे, भो सारिपुत्र ! तिर्यग्-योनि अच्छी है ।”

“तो क्या मानते हो; धानंजानि ! तिर्यग्-योनि अच्छी है, या प्रेतलोक ?”

“० प्रेतलोक ० ।”

“० प्रेतलोक अच्छा है, या मनुष्य ?”—“० मनुष्य ० ।”

“० मनुष्य अच्छे हैं, या चातुर्महाराजिक देव ?”—“० चातुर्महाराजिक देव ० ।”

“० चातुर्महाराजिक देव ०, या त्रायस्त्रिंश देव ?”—“० त्रायस्त्रिंश देव ० ।”

“० त्रायस्त्रिंश देव ०, या याम देव ?”—“० याम देव ० ।”

“० याम देव ०, या तुषित देव ?”—“० तुषित देव ० ।”

“० तुषित देव ०, या निर्माणरति देव ?”—“० निर्माणरति देव ० ।”

“० निर्माणरति देव ०, या परनिर्मितवशवर्ती देव ?”—“० परनिर्मितवशवर्ती देव ० ।”

“तो क्या मानते हो, धानंजानि ! परनिर्मितवशवर्ती देव अच्छे हैं, या ब्रह्मलोक ?”

“ब्रह्मलोक आप सारिपुत्र कह रहे हैं ! ब्रह्मलोक आप सारिपुत्र कह रहे हैं !!”

तब आयुष्मान् सारिपुत्रको यह हुआ—“यह ब्राह्मण ब्रह्मलोकके श्रद्धालु हैं; क्यों न मैं धानंजानि ब्राह्मणको ब्रह्मोंकी सहव्यता (= सारूप्य) का मार्ग उपदेशूँ ।”—

“धानंजानि ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका मार्ग तुझे उपदेशता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह मनमें करो कहता हूँ ।”

“अच्छा, भो !”—(कह) धानंजानि ब्राह्मणने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया । आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—

“क्या है, धानंजानि ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका मार्ग ?—(१) यहाँ धानंजानि ! भिक्षु भैत्रीपूर्ण चित्तसे ० ^१ सारे लोकको पूर्ण कर विहार करता है यह भी धानंजानि ब्रह्मोंकी सहव्यताका मार्ग है । और फिर धानंजानि ! (२) कर्णापूर्ण चित्तसे ० ^१ । (३) और फिर धानंजानि ! मुदितापूर्ण चित्तसे ० ^१ । ० (४) उपेक्षापूर्ण चित्तसे ० ^१ सारे लोकको पूर्ण कर विहारता है । यह भी धानंजानि ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका मार्ग है ।”

“तो, भो सारिपुत्र ! मेरे वचनसे भगवान्‌के चरणोंमें शिरसे वंदना करें—‘भन्ते ! धानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, वह भगवान्‌के चरणोंको, शिरसे वंदना करता है ।”

तब आयुष्मान् सारिपुत्रने धानंजानि ब्राह्मणको स-करणीय (= जहाँ पहुँचकर आगे भी कर्तव्य करनेको चाकी रहता है), हित, ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित कर आसनसे उठ चल दिये । तब आयुष्मान् सारिपुत्रके चले जानेके थोड़े ही समय याद धानंजानि ब्राह्मण मर गया; और (जाकर) ब्रह्मलोकमें उत्पन्न हुआ ।

तब भगवान्‌ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! यह सारिपुत्र धानंजानि ब्राह्मणको स-करणीय, हित (रूप) ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित कर आसनसे उठकर चल दिया !”

तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्‌से यह कहा—

“भन्ते ! धानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, वह भगवान्‌के चरणोंको, शिरसे वंदना करता है ।”

“क्यों सारिपुत्र ! तूने धानंजानि ब्राह्मणको स-करणिय, हित, ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित कर आसनसे उठकर चला आया ?”

“भन्ते ! सुझे ऐसा हुआ—ब्राह्मण ब्रह्मलोकके प्रति श्रद्धालु होते हैं; क्यों न मैं धानंजानि ब्राह्मणको, ब्रह्मोंकी सहच्यताका मार्ग उपदेशूँ ।”

“सारिपुत्र ! धानंजानि ब्राह्मण मर गया, और (जाकर) ब्रह्मलोकमें उत्पन्न हुआ है ।”

६८—वासेट्ट-सुत्तन्त' (२।५।८)

वर्णव्यवस्था-खंडन

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् इच्छानंगलमें इच्छानंगलके वनपण्डमें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे अभिज्ञात अभिज्ञात (= प्रतिष्ठित) ब्राह्मण महाशाल (= महाघनी) जैसे कि—चंकि ब्राह्मण, तारुक्ख (= तारुक्ष) ब्राह्मण, जानुस्सोणि ब्राह्मण, तोदेप्य ब्राह्मण, तथा दूसरे अभिज्ञात अभिज्ञात ब्राह्मण महाशाल, इच्छानंगलमें वास करते थे ।

तब वासिष्ठ और भारद्वाज दो माणवों (= छात्रों)की, जंघाविहारके लिये टहलते घूमते वक्त यह बात बीचमें चल पडी—'ब्राह्मण कैसे होता है भो ?' ।

भारद्वाज माणवने कहा—“जब (पुरुष) दोनों ओरसे मातासे भी पितासे भी सुजात होता है, (माता-पिता) दोनों ओरके पितामहोंकी सात पीढ़ी तक विशुद्ध वंशवाले, जातिवादसे अ-क्षिप्त = अ-निन्दित हों—इतनेसे, भो ! ब्राह्मण होता है ।”

वाशिष्ठ माणवने यह कहा—“जब (आदमी) शीलवान् और ब्रत-संपन्न होता है, इतनेसे, भो ! ब्राह्मण होता है ।”

भारद्वाज माणव वाशिष्ठ माणवको नहीं समझा सका, वाशिष्ठ माणव भारद्वाज माणवको नहीं समझा सका ।

तब वाशिष्ठ माणवने भारद्वाज माणवको संवोधित किया—

“यह शाक्यकुलसे प्रव्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम इच्छानंगलके वनखंडमें विहार करते हैं । उन आय गौतमका ऐसा कल्याण कीर्तिशब्द उठा हुआ है—‘वह भगवान् ०^१ बुद्ध भगवान् हैं’ । चलो, भो भारद्वाज ! जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ चलें । चलकर श्रमण गौतमसे इस घातको पूछें, जैसा श्रमण गौतम बतलायेंगे, वैसा धारण करेंगे ।”

“अच्छा, भो !”—(कह) भारद्वाज माणवने वाशिष्ठ माणवको उत्तर दिया—

तब वाशिष्ठ और भारद्वाज माणव जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्के साथ... सम्मोदन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे वाशिष्ठ माणवने भगवान्से गाथाओंमें कहा—

“भो ! हम अनुज्ञात-प्रतिज्ञात^३ त्रैविध्य^४ हैं ।

मैं पौष्करसातिका और यह तारुक्षके माणवक^५ हैं । (१) ॥

^१ यह सूत्र सुत्तनिपति (सुत्तपिटक)में २ीं आया है ।

^२ देखो पृष्ठ २५८ ।

^३ प्रसिद्ध ।

^४ तीनों वेदोंके शाता ।

^५ विद्यार्थी ।

त्रैविद्यांका जो आख्यान^१ है, उसमें हम केवली^२ हैं ।
 पद, व्याकरण (और) जल्प^३में हम (अपने) आचार्यके समान हैं ॥ (२) ॥
 गौतम ! ऐसे हम (दोनों)का जाति-वादके विषयमें विवाद है ।
 भारद्वाज कहता है—‘जाति^४से ब्राह्मण होता है’ ॥ (३) ॥
 चक्षुमन् ! मैं कर्मसे कहता हूँ, ऐसा (आप) जानें ।
 हम दोनों एक दूसरेको समझा नहीं सकते ।
 (तब) संबुद्ध करके विश्रुत भगवान्के पास आये हैं ॥ (४) ॥
 अक्षय चंद्रमाको जैसे लोग जाकर हाथ जोड़,
 वन्दना करके नमस्कार करते हैं, ऐसे ही लोकमें गौतमको (भी) ॥ (५) ॥
 लोकवे-चक्षु-(जैसे)-उत्पन्न (आप) गौतमसे हम पूछते हैं—
 ‘जन्मसे ब्राह्मण होता है, या कर्मसे’ ?
 हम अजानोंको बतावें, जिसमें हम ब्राह्मणको जानें” ॥ (६) ॥

(भगवान्—“वाशिष्ठ !)—

सो तुम्हें मैं क्रमशः यथार्थतः कहता हूँ ।
 प्राणियोंकी जातियोंमें एक दूसरेसे जातिका भेद है ॥ (७) ॥
 तृण और घृक्षमें भी; जानते हो (इसके लिये) वह प्रतिज्ञा नहीं करते,
 जातिका लिंग है; उनमें जातियाँ एक दूसरेसे (भिन्न) हैं ॥ (८) ॥
 फिर कीट, पतंगसे चींटी तक,
 जातिका लिंग है; उनमें ० ॥ (९) ॥
 छोटे बड़े चौपायोंमें भी तुम जानते हो,
 जातिका लिंग है; उनमें ० ॥ (१०) ॥
 लम्बी पीठवाले पादोदर^५ साँपको भी जानते हो,
 जातिका लिंग ० ॥ (११) ॥
 फिर जलचर पानीकी मछलियोंको भी जानते हो,
 जातिका लिंग है ० ॥ (१२) ॥
 फिर आकाशचारी पत्रयान^६ पक्षियोंको भी जानते हों,
 जातिका लिंग है ० ॥ (१३) ॥
 जैसा इन जातियोंमें जातिका अलग अलग लिंग है ।
 इस प्रकारका जाति-लिंग मनुष्योंमें अलग अलग नहीं है ॥ (१४) ॥
 न केशोंमें, न शिरमें, न कानमें, न आँखमें ।
 न मुखमें, न नासिकामें, न ओठ और भौंमें ।
 न ग्रीवामें, न कंधेमें, न पीठमें, न पेटमें ॥ (१५) ॥
 न श्रोणीमें, न उरमें, न गोप्यस्थानमें, न मूथुनमें ।
 न हाथमें, न पैरमें, न अंगुली और नखमें ॥ (१६) ॥

^१ व्य.ख्यान, पाठ्य विषय ।

^२ अद्वितीय ।

^३ वाद ।

^४ जन्म ।

^५ उदर है पादका काम देता, जिसका ।

^६ पंख ही निनका यान (= सवारी) है

न जंघामें, न उरूमें, न वर्णं या स्वरमैं ।

जैसा कि अन्य जातियोंमें है, (वैसा) जातिका कोई (प्रयक्) लिंग नहीं ॥ (१०) ॥

मनुष्योंके शरीर शरीरमें यह (भेदक लिंग) नहीं मिलता ।

मनुष्योंमें भेद (सिर्पा) संज्ञामें है ॥ (१८) ॥

मनुष्योंमें जो गौरक्षासे जीविका करता है ।

वाशिष्ट ! ऐसेको कृपक जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ (१९) ॥

मनुष्योंमें जो किसी शिल्पसे जीविका करता है ।

वाशिष्ट ! ऐसेको शिल्पी जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ (२०) ॥

मनुष्योंमें जो व्यापारसे जीविका करता है ।

वाशिष्ट ! ऐसेको यनिया जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ (२१) ॥

मनुष्योंमें जो पर-प्रेषण^१से जीविका करता है ।

वाशिष्ट ! ऐसेको प्रेष्यक^२ जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ (२२) ॥

मनुष्योंमें जो अदत्तादानसे जीता है ।

वाशिष्ट ! ऐसेको चोर जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ (२३) ॥

मनुष्योंमें जो ह्यु-अन्नसे जीता है ।

वाशिष्ट ! ऐसेको योधाजीवी^३ जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ (२४) ॥

मनुष्योंमें जो पुरोहितीसे जीता है ।

वाशिष्ट ! ऐसेको याजक जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ (२५) ॥

मनुष्योंमें जो ग्राम राष्ट्रका उपभोग करता है ।

वाशिष्ट ! ऐसेको राजा जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ (२६) ॥

^१भाता और योनिसे उत्पन्न होनेके कारण मैं ब्राह्मण नहीं कहता ।

वह 'भो-वादी' ^१है, वह (तो) संग्रही है !

मैं ब्राह्मण उसे कहता हूँ, जो अपरिग्रही = न लेनेवाला है ॥ (२७) ॥

जो सारे संयोजनों (= वंघनों)को काटकर, भय नहीं खाता ।

जो संग और आसक्तिसे विरत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (२८) ॥

नन्दी (= क्रोध), वरत्रा (= नृणा रूपी रस्सी) सन्दान (= ६२ प्रकारके मतवाद-रूपी पगहे), और हनुक्रम (= सुँहपर वंघनेके जावे)को काट एवं परिघ (= जूए)को फँक जो बुद्ध (= ज्ञानी) हुआ, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (२९) ॥

जो बिना दूषित (चित्त) किये गाली, घघ और बन्धनको सहन करता है, क्षमा यलही जिसके बल (= सेना)का सेनापति है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३०) ॥

जो अक्रोधी, द्रती, शीलवान्, बहुश्रुत, संयमी (= दान्त) और अन्तिम शरीरवाला है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३१) ॥

कमलके पत्तेपर जल, और आरेंके नोकपर सरसो, की माँति जो भोगोंमें लिप्त नहीं होता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३२) ॥

^१ पठवनियाका काम । ^२ पठवनिया (= मालिकके भेजे अनुसार काम करनेवाला) । ^३ सिपाही ।

^४ यहाँसे "जो पूर्व जन्मको जानता है ०" तक धम्मपद ३९६-४२३ (२६:१४-४१) में आया है ।

^५ उस समय ब्राह्मण ब्राह्मणको ही "भो" कहकर संबोधित करते थे ।

जो यहीं (= इसी जन्ममें) अपने दुःखोंके विनाशको जान लेता है, जिसने अपने योद्धको उतार फेंका और जो आसक्तिरहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३३) ॥

जो गम्भीर प्रज्ञावाला, मेधावी, मार्ग-अमार्गका ज्ञाता, उत्तम पदार्थ (= सत्य)को पाये है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३४) ॥

घरवाले (= गृहस्थ) और बेघरवाले दोनोंहीमें जो लिस नहीं होता, जो बिना ठिकानेके घूमता तथा बेचाह है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३५) ॥

चर-अचर (सभी) प्राणियोंमें प्रहारित हो, जो न मारता है, न मारनेकी प्रेरणा करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३६) ॥

जो विरोधियोंके बीच विरोध-रहित रहता है, जो दंडधारियोंके बीच (दण्ड-)रहित है, संग्राहियोंमें जो संग्रहरहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३७) ॥

आरेके ऊपर सरसोंकी भाँति, जिसके (चित्तसे) राग, द्वेष, मान, डाह, फेंक दिये गये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३८) ॥

(जो इस प्रकारकी) अकर्कश, आदरयुक्त (तथा) सच्ची वाणीको बोले; कि, जिससे कुछ भी पीड़ा न होवे, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३९) ॥

(चीज) चाहे दीर्घ हो या ह्रस्व, मोटी हो या पतली, शुभ हो या अशुभ, जो संसारमें (किसी भी) बिना दी चीजको नहीं लेता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (४०) ॥

इस लोक और परलोकके विषयमें जिसकी आशायें (= चाह) नहीं रह गई हैं, जो आज्ञारहित और आसक्तिरहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (४१) ॥

जिसको आलय (= तृष्णा) नहीं है, जो भली प्रकार जानकर अकथ (-पद)का कहने-वाला है, जिसने गाढ़े अमृतको पालिया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (४२) ॥

जिसने यहाँ पुण्य और पाप दोनोंकी आसक्तिको छोड़ दिया, जो शोकरहित, निर्मल, (और) शुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (४३) ॥

जो चन्द्रमाकी भाँति विमल, शुद्ध, स्वच्छ = अनाविल है, (तथा जिसकी) सभी जन्मोंकी तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (४४) ॥

जिसने इस दुर्गम संसार, (= जन्म-मरण)के चक्रमें डालनेवाले मोह (रूपी) उल्टे मार्गको त्याग दिया, जो (संसारसे) पारंगत, ध्यानी तथा तीर्ण (= तर गया) है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (४५) ॥

जो यहाँ भोगोंको छोड़, बेघर हो प्रव्रजित (= संन्यासी) हो गया है, जिसके भोग और जन्म नष्ट हो गये, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (४६) ॥

जो यहाँ तृष्णाको छोड़, बेघर बन प्रव्रजित है, जिसकी तृष्णा और (पुनर्-)जन्म नष्ट हो गये, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (४७) ॥

मासुप (-भोगोंके) लाभोंको छोड़, दिव्य (भोगोंके) लाभको भी (जिसने) त्याग दिया, सारे ही लाभोंमें जो आसक्त नहीं है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (४८) ॥

रति और अरति (= घृणा)को छोड़, जो शीतल-स्वभाव (तथा) क्लेशरहित है, (जो ऐसा) सर्वलोकविजयी, वीर है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (४९) ॥

जो प्राणियोंकी च्युति (= मृत्यु) और उत्पत्तिको भली प्रकार जानता है, (जो) आसक्ति-रहित सुगत (= सुंदर गतिको प्राप्त) और बुद्ध (= ज्ञानी) है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (५०) ॥

जिसकी गति (= पहुँच) को देवता, गंधर्व, और मनुष्य नहीं जानते, क्षीणास्त्रव (= रागादि-रहित) और अर्हत्त्व है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (५१) ॥

जिसके पूर्व और पश्चात् और मध्यमें कुछ नहीं है, जो परिग्रह-रहित = आदान-रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (५२) ॥

(जो) ऋषभ (= श्रेष्ठ), प्रवर, वीर, महर्षि, विजेता, अकम्प्य, स्नातक और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (५३) ॥

जो पूर्व जन्मको जानता है, स्वर्ग और कुगतिको देखता है ।

और जिसका (पुनर्-)जन्म क्षीण होगया; जो अभिज्ञा-परायण^१ मुनि है ।

सारे कृत्य जिसके समाप्त होगये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (५४) ॥

लोकमें यह संज्ञायें हैं, (यह) कल्पित नाम-नात्र हैं ।

वहाँ वहाँ कल्पित (करके) लोक-व्यवहारसे चला आया है ॥ (५५) ॥

अज्ञोंकी धारणामें चिर कालसे (यह) घुसा हुआ है ।

जाननेवाले नहीं कहते—'ब्राह्मण जन्मसे होता है' ॥ (५६) ॥

जन्मसे न ब्राह्मण होता है, न जन्मसे अ-ब्राह्मण ।

कर्मसे ब्राह्मण होता है, (और) कर्मसे अ-ब्राह्मण ॥ (५७) ॥

कर्मसे कृपक होता है (और) कर्मसे शिल्पी ।

कर्मसे वनिया होता है, (और) कर्मसे प्रेप्यक ॥ (५८) ॥

कर्मसे चोर होता है, (और) योधा जीव भी कर्मसे ।

कर्मसे याजक होता है, (और) राजा भी कर्मसे ॥ (५९) ॥

^२प्रतीत्य समुत्पाद्-दर्शी (और) कर्म-विपाक-कोविद,

पंडित (जन) इस प्रकार कर्मको यथार्थसे जानते हैं ॥ (६०) ॥

लोक कर्मसे चल रहा है, प्रजा कर्मसे चल रही है ।

चलते हुये रखके (चक्केकी) आणीकी भाँति प्राणी कर्ममें बँधे हैं ॥ (६१) ॥

तप, ब्रह्मचर्य, संयम और दम,

इनसे ब्राह्मण होता है, यही उत्तम ब्राह्मण है ॥ (६२) ॥

तीन ^३विद्याओंसे युक्त, शान्त (और) पुनर्जन्म-रहित,

वाशिष्ठ ! ऐसोंको (तुम) विज्ञोंके ब्रह्मा (और) शक जानो ॥ (६३) ॥^४

ऐसा कहनेपर वाशिष्ठ और मारद्वाज माणवकोंने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे औषेको सीधा कर दे ०^५ यह हम भगवान् गौतमकी शरण जाते हैं, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आप गौतम आजले हमें अंजलियद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”

^१ अभिज्ञा (= दिव्य शक्तियाँ) छः हैं । देखो पृष्ठ २५३ ।

^२ कार्य कारण नियमसे सभी चीजें उत्पन्न हैं, यह सिद्धान्त प्रतीत्य-समुत्पाद् कहा जाता है ।

^३ देखो पृष्ठ १५ ।

^४ देखो पृष्ठ १६ ।

६६—सुभ-सुत्तन्त (२।५।६)

गृहस्थ और संन्यासकी तुलना, ब्रह्मलोकका मार्ग

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे उस समय तौदेव्य-पुत्र शुभ माणवक किसी कामसे श्रावस्तीमें (आकर) एक गृहपतिके घरमें रहता था । तब तौदेव्य-पुत्र शुभ माणवकने, जिस गृहपतिके घरमें रहता था, उससे पूछा—
“गृहपति ! मैंने यह सुना है कि श्रावस्ती अर्हत्तोसे रहित नहीं है । आज किस श्रमण या ब्राह्मणकी पर्युपासना (= सत्संग) करूँ ?”

“मन्ते ! यह भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते हैं । मन्ते ! उन भगवान्की पर्युपासना करो ।”

तब . शुभ माणवक उस गृहपतिकी (बात) सुनकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्के साथ...सम्मोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे . शुभ माणवकने भगवान्से यह कहा—

“भो गौतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—गृहस्थ ही न्याय-कुशल-धर्म (= निर्वाण)का आराधक होता है, प्रव्रजित (= संन्यासी) नहीं...। यहाँ आप गौतम क्या कहते हैं ?”

“माणव ! मैं यहाँ विभज्यवादी^१ (= विमज्जवाद) हूँ । एकांशवादी नहीं । गृहीके लिये भी और प्रव्रजितके लिये भी मैं मिथ्या-प्रतिपत्ति (= झूठे विश्वास)की प्रशंसा नहीं करता । चाहे गृही हो, चाहे प्रव्रजित, मिथ्या प्रतिज्ञावाला होनेपर मिथ्या प्रतिपत्तिके कारण वह न्याय-कुशल-धर्मका आराधक नहीं होगा । माणव ! गृहीके लिये भी और प्रव्रजितके लिये भी, मैं सम्यग्-प्रतिपत्ति (= ठीक विश्वास)की प्रशंसा करता हूँ । चाहे गृही हो, चाहे प्रव्रजित, सम्यक्-प्रतिपत्तिवाला होनेपर सम्यक् प्रतिपत्तिके कारण न्याय-कुशल-धर्मका आराधक होगा ।”

“भो गौतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—(यह) गृह-वास (= गृहस्थी)का कर्मस्थान (= कर्म, पेशा) महा-अर्थ, महा-कृत्य, महा-अधिकरण, महा-समारम्भवाला है, (इसलिये) यह महाफल (दायी) है । यह प्रव्रज्या-कर्म-स्थान अल्पार्थ, अल्प-कृत्य, अल्प-अधिकरण, अल्प-समारम्भवाला है, (इसलिये) यह अल्पफल (दायी) है । यहाँ आप गौतम क्या कहते हैं ?”

“माणव ! यहाँ भी मैं विभज्यवादी हूँ, एकांशवादी नहीं । (१) है माणव ! ऐसा महार्थ, महाकृत्य, महाधिकरण, महासमारम्भवाला कर्म-स्थान, (जो) पूरा न उतरनेपर अल्प-फल

^१ विभाग करके अच्छेको अच्छा, बुरेको बुरा कहनेवाला; न कि सबको एक ही लाठीसे ढाँकनेवाला (= एकांशवादी) ।

(-दायी) होता है। (२) है माणव ऐसा (भी) महार्थ ० कर्मस्थान, (जो) पूरा उतरनेपर अल्प-फल(-दायी) होता है। (३) है माणव! ऐसा अल्पार्थ, अल्प-कृत्य, अल्पाधिकरण, अल्पारम्भवाला कर्मस्थान (जो) न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है। (४) है माणव! ऐसा (भी) अल्पार्थ ० कर्मस्थान, (जो) पूरा उतरनेपर महाफल होता है।

“क्या है, माणव! (वह) कर्मस्थान (१) जो महार्थ, महाकृत्य, महाधिकरण, महासमारम्भवाला है, (किन्तु) और न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है?—माणव! कृपि (ऐसा) कर्मस्थान है, जो कि महार्थ ० महासमारम्भवाला है, किन्तु न पूरा उतरनेपर अल्प-फल (= कम-फल, अ-फल) होता है। (२) क्या है ० महासमारम्भवाला ०, (और) पूरा उतरनेपर महाफल होता है?—माणव! कृपि ही ०। (३) क्या है ० अल्पारम्भवाला ०, (और) न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है?—माणव! वाणिज्य ०। (४) क्या है ० अल्पारम्भवाला ०, (किन्तु) पूरा उतरनेपर महाफल होता है?—माणव! वाणिज्य ही ०। जैसे माणव! कृपि कर्मस्थान ० महासमारम्भवाला है, (किन्तु) न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है; ऐसे ही माणव! गृह-वास (= गृहस्थ)-कर्मस्थान ० महासमारम्भवाला है, (किन्तु) न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है। जैसे, माणव कृपि कर्मस्थान ही ० महासमारम्भवाला है; (और) पूरा उतरनेपर महाफल होता है; ऐसे ही ० गृहवास कर्मस्थान ०। जैसे ० वाणिज्य कर्मस्थान ० अल्प-समारम्भवाला है; और न पूरा उतरनेपर अल्पफल होता है; वैसे ही माणव! प्रव्रज्या-कर्मस्थान ०। जैसे ० वाणिज्य कर्मस्थान ० अल्पसमारम्भवाला है; (किन्तु) पूरा उतरनेपर महाफल होता है; वैसे ही माणव! प्रव्रज्या कर्मस्थान ०।”

“भो गौतम! ब्राह्मण पुण्यके करने, तथा कुशल (= पुण्य) के आराधनके लिये पाँच धर्म प्रज्ञापन करते हैं ० ?”

“माणव! ब्राह्मण पुण्यके करने ० के लिये, जिन पाँच धर्मोंको प्रज्ञापन करते हैं, यदि तुझे भारी न हो, तो उन्हें इस परिपदमें कहो।”

“नहीं है तुझे भारी, भो गौतम! जहाँ कि आप या आप जैसे बैठे हों।”

“तो माणव! कहो।”

“भो गौतम! (१) पुण्यके करने, तथा कुशलके आराधनके लिये सत्य, यह प्रथम धर्म ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हैं। (२) ० तप, यह द्वितीय धर्म ०। (३) ० ब्रह्मचर्य ०, यह तृतीय धर्म ०। (४) ० अध्ययन यह चतुर्थ धर्म ०। (५) ० त्याग यह पंचम धर्म ०। भो गौतम! ब्राह्मण पुण्य करनेके लिये, तथा कुशलके आराधनके लिये इन पाँच धर्मोंको प्रज्ञापन करते हैं।”

“माणव! क्या ब्राह्मणोंमें कोई भी ब्राह्मण है, जो यह कहे—‘मैं इन पाँच धर्मोंको स्वयं जानकर, साक्षात्कारकर’ (इनके) विपाकको जतलाता हूँ?’”

“नहीं, भो गौतम!”

“माणव! क्या ब्राह्मणोंका एक आचार्य भी, एक आचार्य-प्राचार्य भी सात पीढ़ीतक महाचार्य-युगल भी ऐसा है; जो यह कहे—‘मैं ० जतलाता हूँ?’”

“नहीं, भो गौतम!”

“माणव! जो वह मंत्रों (= वेदों)के कर्ता, मंत्रोंके प्रवक्ता (= अध्यापक) ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि थे, जिनके गीत (= गाने) संगीत, प्रोक्त पुराने मंत्र-पद (= वेदवचन) को, आज भी ब्राह्मण उनके अनुसार जाते हैं, उनके अनुसार भाषण करते हैं, (पूर्वज ऋषियोंके) भाषणके

अनुसार भाषण करते हैं; वाचनके अनुसार वाचन करते हैं; (वह पूर्वज ऋषि) जैसे कि—अष्टक (= अष्टक), वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अंगिरा, भारद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, ऋगु; (क्या) उन्होंने भी ऐसा कहा है—

‘हम इन पाँच धर्मोंको स्वयं जान कर साक्षात्कार कर (इनके) विपाकको जतलाते हैं’ ?

“नहीं, भो गौतम !”

“इस प्रकार माणव ! ब्राह्मणोंमें कोई एक ब्राह्मण भी नहीं है, जो यह कहे—‘मैं ० जतलाता हूँ’ । ब्राह्मणोंका ० सात पीढ़ी तक महाचार्य युगल भी नहीं है ० । ब्राह्मणोंके ० पूर्वज ऋषियोंने ० भी नहीं कहा था—‘हम ० जतलाते हैं’ ।”

“नहीं, भो गौतम !”

“जैसे माणव ! अंध-वेणि-परंपरा (= लगातार अंधोंकी पाँती) जुड़ी हो, अगला भी नहीं देखता, विचला भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता; ऐसा ही माणव ! अन्ध-वेणि-परंपरा-सदृश ब्राह्मणोंका कहना जान पड़ता है,—पहिला भी नहीं देखता, विचला भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता ।”

ऐसा कहनेपर ० शुभ माणव भगवान्के अंध-वेणि-परंपरा कहनेसे कुपित, असन्तुष्ट हो भगवान्को ही खुंसाते, भगवान्को ही नाराज होते, भगवान्को—‘श्रमण गौतम खराब है’—कहते जैसे, भगवान्से यह बोला—

“भो गौतम ! सुभग-वनिक औपमन्यव सुभग-वनिक (= सुभगवन^१-निवासी) औपमन्यव पौष्करसाति ब्राह्मण ऐसा कहता है—यह कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण उत्तर-मनुष्य-धर्म (= अलौकिक शक्ति) = अलमार्य ज्ञान-दर्शन-विशेषका ऐसेही (फ़ज़ूल) दावा करते हैं । उनका यह कथन छोटा, नामक^२, रिक्त = तुच्छही होता है । कैसे मनुष्य होकर कोई उत्तर-मनुष्य-धर्म अलमार्य-ज्ञान-दर्शन-विशेषको जानेगा, साक्षात्कार करेगा ? यह संभव नहीं ।”

“तो क्या माणव ! ० पौष्करसाति ब्राह्मण सभी श्रमण ब्राह्मणोंके चित्तकी घातको जानता है ?”

“भो गौतम ! अपनी पूर्णिका दासीके चित्तकी घातको भी सुभग-वनिक औपमन्यव पौष्करसाति ब्राह्मण नहीं जानता; कहाँसे सारे श्रमण-ब्राह्मणोंके चित्तकी घात जानेगा ?”

“जैसे माणव ! जन्मांध पुरुष कृष्ण-शुक्ल रूपोंको न देखे, नीले रूपोंको न देखे, पीले रूपोंको न देखे, लाल रूपोंको न देखे, मजीठी रूपोंको न देखे, सम-विषम (भूमि)को न देखे, तारोंके रूपको न देखे, चन्द्र-सूर्यको न देखे । वह यह बोले—नहीं हैं कृष्ण-शुक्ल रूपोंके देखने वाले, ०, नहीं हैं चन्द्र-सूर्यके देखनेवाले । मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं देखता; इसलिये नहीं हैं । माणव ! वह वैसा कहते वह न कहेगा ?”

“नहीं, भो गौतम ! है कृष्ण-शुक्ल रूप, ०, हैं चंद्र-सूर्य के देखनेवाले । मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं देखता, इसलिये नहीं हैं—ऐसा कहते, वह ठीक नहीं कहेगा ।”

“ऐसे ही माणव ! ० पौष्करसाति ब्राह्मण अंधा, नेत्रहीन है, वह उत्तर-मनुष्य-धर्म अलमार्य-ज्ञान दर्शन-विशेषको जानेगा-देखेगा, यह संभव नहीं ।

“तो क्या मानते हो, माणव ! जो वह कोसल (वासी) ब्राह्मण महाशाल हैं, जैसे कि—चंकि ब्राह्मण, तारुक्ष ब्राह्मण, पौष्करसाति ब्राह्मण, जानुश्रोणि ब्राह्मण, या तुम्हारा पिता

^१ उक्त्वा दामे सुभगवनका यह स्वामी था ।

तौदेय्य । कौनसा उनका वचन अच्छा है, जो वह संवृति (= लोक सम्मति)-अनुसार बोलें, या जो वह संवृति-विरुद्ध बोलें ?”

“संवृति-अनुसार, मो गौतम !”

“कौनसा उनका वचन अच्छा है, जो वह मंत्र-अनुसार बोलें, या जो वह मंत्र-विरुद्ध बोलें ?”

“मंत्रानुसार, हो गौतम !”

“० जो वह प्रतिसंस्थान (= सोच-समझ) कर बोलें, या जो न-प्रतिसंस्थान कर बोलें ?”

“प्रतिसंस्थान कर, मो गौतम !”

“० जो वह सार्थक बोलें, या जो वह निरर्थक बोलें ?”

“सार्थक, भो गौतम !”

“तो क्या मानते हो, माणव ! ऐसा होने पर ० पौष्करसाति ब्राह्मणने संवृति-अनुसार बात कही, या संवृति-विरुद्ध ?”

“ संवृति-विरुद्ध, भो गौतम !”

“० मंत्रानुसार या मंत्र-विरुद्ध ?”—“मंत्र-विरुद्ध ० ।”

“० प्रतिसंस्थान करके, या न प्रतिसंस्थान करके ?”—“न प्रतिसंस्थान करके ० ।”

“० सार्थक या निरर्थक ?”—“निरर्थक ० ।”

“माणव ! यह पाँच नीवरण^१ (= आवरण) हैं । कौनसे पाँच ?—(१) कामच्छन्द (= विषयोंका राग)-नीवरण, (२) व्यापाद् (= द्वेष)-नीवरण, (३) स्त्यान-मृद् (= शरीर-मनका आलस्य)-नीवरण, (४) औद्धत्य-कौकृत्य (= उद्धतपन-हिचकिचाहट)-नीवरण, (५) विचिकित्सा (= संशय)-नीवरण । माणव ! यह पाँच नीवरण हैं । ० पौष्करसाति^२ ब्राह्मण पाँच नीवरणोंसे आवृत = निवृत (= ढँका) = अववृत, पर्यवनद् (= चारों ओरसे बँधा) है; वह अहो ! उत्तर अनुव्यघर्म, अलमार्यज्ञानदर्शन-विशेषको जानेगा, देखेगा, यह सम्भव नहीं ।

“माणव यह पाँच काम-गुण (= विषयभोग) हैं । कौनसे पाँच ?—(१) इष्ट=कान्त, मनाप-प्रिय, कमनीय, रंजनीय, चक्षु-विज्ञेय (= आँखसे ज्ञेय) रूप; (२) ०^१ श्रोत्र-विज्ञेय शब्द; (३) ०^१ घ्राण-विज्ञेय गंध; (४) ०^१ जिह्वा-विज्ञेय रस; (५) ० काय-विज्ञेय स्पृष्टव्य । माणव ! यह पाँच काम-गुण हैं । ० पौष्करसाति ब्राह्मण इन पाँच गुणोंको, प्रथित (= गँथा), सूक्ष्मित (= बेहोवा), अप्यापन्न, अदोष-दर्शी, निकलनेकी-बुद्धि-न-रखनेवाला हो भोगता है; वह अहो ! ० ।

“तो क्या मानते हो माणव ! जो आग तृण, काष्ठके उपादानको लेकर जलाई जाती है, और जो तृण-काष्ठके उपादानको बिना लिये जले; (दोनोंमें) कौन आग (अधिक) अर्चिमान, वर्णवान्, और प्रभास्वर होगी ?”

“यदि, भो गौतम ! तृण-काष्ठ-उपादानके बिना आग जलाई जा सके, तो वह आग (अधिक) अर्चिमान्, वर्णवान् और प्रभास्वर होगी ।”

“माणव ! इसका स्थान नहीं, इसका अवकाश नहीं, कि ऋद्धिको छोड़, तृण-काष्ठ-उपादान

^१ देखो पृष्ठ ९३ ।

^२ पौष्करसादि भी पाठ होता है ।

के बिना आग जले^१ । जैसे माणव ! तृण-काष्ठ-उपादानसे आग जलती है, उसीके समान माणव ! मैं इस प्रीति (= आनन्द)को कहता हूँ, जो प्रीति कि पाँच काम-गुणों (= विषयों)को लेकर (होती है) । जैसे माणव ! तृण-काष्ठ-उपादानके बिना आग जले, उसीके समान माणव ! मैं इस प्रीतिको कहता हूँ, जो प्रीति कि कामोंके बिना, अकुशल-धर्मों (= पापों)के बिना (उत्पन्न होती है) ।

“माणव ! कौनसी प्रीति कामोंके बिना, अकुशल धर्मोंके बिना (उत्पन्न होती है) ? —यहाँ, माणव ! भिक्षु कामोंसे विरहित ^० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । माणव ! यह भी प्रीति कामोंके बिना, अकुशल धर्मोंके बिना (उत्पन्न होती है) । और फिर माणव ! भिक्षु वितर्क और विचारके शांत होनेपर ^० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । माणव ! यह भी ^० ।

“माणव ! पुण्यके करने, तथा कुशलके आराधनके लिये जिन पाँच धर्मोंको ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हैं; उनमेंसे किसको वह पुण्यके करने, तथा कुशलके आराधनके लिये सबसे अधिक फलदायी कहते हैं ?”

“भो गौतम ! ^० जिन पाँच धर्मोंको ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हैं, उनमें त्याग धर्मको वह ^० सबसे अधिक फलदायी कहते हैं ।”

“तो क्या मानते हो, माणव ! यहाँ किसी ब्राह्मणके यहाँ महायज्ञ उपस्थित हो । तब दो ब्राह्मण आवें—अमुक ब्राह्मणके यज्ञको अनुभव (= उपभोग) करें । उनमेंसे एक ब्राह्मणको यह हो—भोजनके समय प्रथम-आसन, प्रथम-जल, तथा प्रथम पिंड में ही पाऊँ, दूसरा ब्राह्मण न पावे—भोजनके समय प्रथम-आसन, प्रथम-जल, प्रथम-पिंड । हो सकता है, माणव ! कि दूसरा ही ब्राह्मण ^० प्रथम-पिंड पावे, और वह ब्राह्मण न पावे ^० । तब—‘मुझे ^० प्रथम-पिंड नहीं मिला’—(यह सोच) वह कुपित, असन्तुष्ट होवे । माणव ! ब्राह्मण इसका क्या विपाक बतलाते हैं ?”

“भो गौतम ! ब्राह्मण इसलिये ऐसा दान नहीं देते, कि उससे दूसरा कुपित, असन्तुष्ट होवे; वल्कि ब्राह्मण अनुकम्पाके ख्यालसे (= अनुकम्पा-जातिक) ही दान देते हैं ।”

“ऐसा होनेपर माणव ! ब्राह्मणोंके लिये यह अनुकम्पा-जातिक, छोटी पुण्य-क्रिया-वस्तु हुई ।”

“ऐसा होने पर, भो गौतम ! ^० अनुकम्पा-जातिक छोटी पुण्य क्रिया-वस्तु हुई ।”

“माणव ! पुण्यके करने (= पुण्य क्रिया) ^० के लिये जिन पाँच धर्मोंको ब्राह्मण प्रज्ञापन करते (= बतलाते) हैं, उन पाँच धर्मोंको तुम कितने अधिक पाते हो, गृहस्थोंमें या प्रव्रजितोंमें ?

“^० जिन पाँच धर्मोंको ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हैं, उन पाँच धर्मोंको प्रव्रजितोंमें अधिक पाता हूँ, गृहस्थोंमें कम । ... गृहस्थ महार्थ = महाकृत्य, महाधिकरण, महासमारम्भ हैं, (वह) सदा, निरन्तर सत्यवादी नहीं हो सकता । ... प्रव्रजित अल्पार्थ = अल्पकृत्य, अल्पाधिकरण, अल्पारम्भ होता है, (वह) सदा, निरन्तर सत्यवादी हो सकता है । ... गृहस्थ ^० महासमारम्भ है, (वह) सदा, निरन्तर तपस्वी नहीं हो सकता ^० । ^० ब्रह्मचारी नहीं हो सकता ^० । ^० स्वाध्याय-ग्रहण नहीं हो सकता । ... प्रव्रजित ^० अल्पारम्भ होता है, (वह) सदा, निरन्तर स्वाध्याय-ग्रहण हो सकता है । पुण्य क्रिया ^० के लिये जिन पाँच धर्मोंको ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हैं, उन पाँच धर्मोंको मैं प्रव्रजितोंमें अधिक पाता हूँ, गृहस्थोंमें कम ।”

“माणव ! पुण्य-क्रिया ^० के लिये ब्राह्मण जिन पाँच धर्मोंको प्रज्ञापन करते हैं, मैं उन्हें

^१ यह वाक्य पूर्व-पर-प्रसंगके अनुकूल नहीं है । ^२ देखो पृष्ठ १५ ।

वैर-रहित = व्यापाद-रहित चित्तकी भावनाके लिये परिष्कार (= सहायक सामग्री) कहता हूँ ।

“यहाँ, माणव ! भिक्षु सत्यवादी होता है; वह ‘मैं सत्यवादी हूँ’—(यह सोच) अर्थ-वेदको पाता है, धर्म-वेद (= धर्मज्ञान)को पाता है, और धर्म सम्यग्धी प्रभोदको पाता है । कुशल-उपसंहित (= पुण्यमय) प्रभोदको मैं वैर-रहित = व्यापाद रहित-चित्तकी भावनाके लिये परिष्कार कहता हूँ ।...”

ऐसा कहने पर ० शुभ माणवने भगवान्से यह कहा—

“मैंने यह सुना है, भो गौतम ! कि अमण गौतम ब्रह्मोंकी सहव्यता (= सरूपता)का मार्ग उपदेशता है ।”

“तो क्या मानते हो, माणव ! नलकार-ग्राम (= नलकार-ग्राम) यहाँसे समीप है, नलकार-ग्राम यहाँसे दूर नहीं है ?”

“हाँ, भो गौतम ! नलकार-ग्राम यहाँसे समीप है, ० यहाँसे दूर नहीं ।”

“तो क्या मानते हो, माणव ! यहाँ कोई पुरुष, नलकार-ग्राममें जन्मे-वदे (वहीं) रहते पुरुषसे नलकार-ग्रामका मार्ग पूछें; तो माणव ! क्या नलकार-ग्राममें जन्मे-वदे पुरुषको नलकार-ग्राम का मार्ग पूछने पर दुविधा या जड़ता होगी ?”

“नहीं, भो गौतम !”

“सो क्यों ?”

“भो गौतम ! वह पुरुष नलकार-ग्राममें जन्मा-वदा है, उसको नलकार-ग्रामके सभी मार्ग सुविदित हैं ।”

“माणव ! नलकार-ग्राममें जन्मे-वदे उस पुरुषको नलकार-ग्रामका मार्ग पूछनेपर दुविधा, जड़ता हो सकती है, किन्तु तयागतको ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक-गामी मार्ग पूछनेपर दुविधा, जड़ता नहीं हो सकती। माणव ! मैं ब्रह्मोंको जानता हूँ; ब्रह्मलोकको, और ब्रह्मलोक-गामी मार्ग (= प्रतिपद्)को, और जैसे प्रतिपल (= मार्गारूढ) होनेपर ब्रह्मलोकमें उत्पन्न (होगा) उसे भी जानता हूँ ।”

“सुना है मैंने, भो गौतम ! अमण गौतम ब्रह्मोंकी सहव्यताका मार्ग देखता है; अच्छा हो, आप गौतम मुझे ब्रह्मोंकी सहव्यताका ही मार्ग उपदेशें ।”

“तो, माणव ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भो !”—(कह) ० शुभ माणवने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“क्या है माणव ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका मार्ग ?—यहाँ माणव ! भिक्षु मैत्रीपूर्ण चित्तसे ०^१ सारे लोकको पूर्णकर-विहरता है । माणव ! इस प्रकार मैत्री—चेतो-विमुक्ति (= मैत्रीभावना)के भावित करनेपर जितने प्रमाणमें काम किया जाता है, वह वहीं तक नहीं रह जाता, वहीं तक अवस्थित नहीं रहता है । जैसे माणव ! बलवान् शंख-प्रजानेवाला थोड़े प्रयाससे चारों दिशाओंको गुँजा दे; ऐसे ही माणव ! मैत्री, चेतोविमुक्तिके साथ जितने प्रमाणमें ० अवस्थित नहीं रहता । यह भी माणव ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका मार्ग है ।

“और फिर माणव ! भिक्षु कर्णा-पूर्ण चित्त से ० सारे लोकको पूर्ण कर विहरता है ० । ० मुदिता-पूर्ण चित्त से ० । ० उपेक्षा पूर्ण चित्तसे सारे लोकको पूर्ण कर विहरता है । माणव ! इस प्रकार उपेक्षा-चेतोविमुक्तिके भावित करनेपर ० वहीं तक अवस्थित नहीं रहता । यह भी

माणव ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका मार्ग है ।”

ऐसा कहनेपर तैदेव्य-पुत्र शुभ माणवने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा कर दे ०^१ यह मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आप गौतम आजसे मुझे अंजलियद्द शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”

तब ० शुभ माणव भगवान्के भाषणको अभिनन्दित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया ।

उस समय जानुश्रोणि ब्राह्मण दिन-दिनको (दोपहरको) सारे श्वेत वर्णके घोड़ीके रथपर सवार हो श्रावस्तीसे बाहर जा रहा था । तब जानुश्रोणि ब्राह्मणने ० शुभ माणवको दूरसे ही धाते देखा । देख कर ० शुभ माणवसे यह बोला—

“हन्त ! कहाँसे आप भारद्वाज दिन-दिनको आ रहे हैं ?”

“यहाँसे, भो ! मैं श्रमण गौतमके पाससे आ रहा हूँ ।”

“आप भारद्वाज श्रमण गौतमकी प्रज्ञा = व्यक्तताके बारेमें क्या समझते हैं, पंडित जान पड़ता है ?”

“भो ! कहाँ मैं और कहाँ श्रमण गौतमकी प्रज्ञा = व्यक्तताको जानूँगा । जो वैसा ही हो, वही श्रमण गौतमकी प्रज्ञा = व्यक्तताको जाने ।”

“आप भारद्वाज ! बड़ी उदार प्रशंसासे श्रमण गौतमको प्रशंसते हैं ।”

“भो ! क्या मैं, और क्या श्रमण गौतमको प्रशंसूँगा । वह आप गौतम प्रशंसित हैं, देव-यजुष्योंमें श्रेष्ठ हैं । ब्राह्मण पुण्य-क्रिया = कुशलाराधनके लिये जिन पाँच धर्मोंको बतलाते हैं; उन्हें श्रमण गौतम वैर-रहित = व्यापाद-रहित चित्तकी भावना करनेके लिये चित्तका परिष्कार (= सहायक सामग्री) बतलाते हैं ।”

ऐसा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्मण सर्वश्वेत बड़वा-रथसे उतर कर उत्तरासंग (= उपरने) को (जनेऊकी भाँति) एक (दाहिने) कंधेपर कर, जिधर भगवान् थे, उधर अंजलि जोड़ उद्दान (= चित्तोल्लाससे निकला शब्द) कहा—

“ लाम है, राजा प्रसेनजित् कोसलको; सुंदर लाम मिले हैं राजा प्रसेनजित् कोसलको; जिसके राज्य (= विजित)में तथागत अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध विहर रहे हैं ।”

१००—संगारव-सुत्तन्त (२।५।१०)

बुद्ध-जावनी (तपश्चर्या)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् महान् भिक्षुसंघके साथ कोसल (देश)में चारिका करते थे ।

उस समय मंडलकप्प (= मंडल कल्प)में धानंजानी नामक ब्राह्मणी रहती थी, (जो) बुद्ध, धर्म, संघमें अभिप्रसन्ना (= श्रद्धालु) थी । तब (एक समय) धानंजानी ब्राह्मणी ने (अँचलेका कोना) पकड़ कर (= पकखलेत्त्वा) उदान उदाना—

“उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धको नमस्कार ।

उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धको नमस्कार ।

उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धको नमस्कार ।”

उस समय मंडलकप्पमें संगारव नामक माणव (= तरुण ब्राह्मण पंडित) रहता था, (जो कि) पाँचवे इतिहास और (चौथे) निघंटु-केटुभ-अक्षर-प्रभेद-सहित तीनों वेदोंका पारंगत, पदज्ञ, वैयाकरण, लोकायत (-शास्त्र) तथा महापुरुष-लक्षण (-शास्त्र)में परिपूर्ण था । संगारव माणवने धानंजानी ब्राह्मणीको (उक्त) वाणी उच्चारण करते सुना । सुनकर, धानंजानी ब्राह्मणीसे यह बोला—

“अ-भंगला है यह धानंजानी ब्राह्मणी, नष्टा है यह धानंजानी ब्राह्मणी; जो ब्राह्मणोंके विद्यमान होते, उस मुंडक श्रमणककी प्रशंसा करती है ।”

“तात ! भद्रमुख ! तुम उन भगवान्के शील प्रज्ञाको नहीं जानते । यदि, तात ! भद्रमुख ! तुम उन भगवान्के शील, प्रज्ञानको जानते होते; तो, तात ! भद्रमुख ! तुम उन भगवान्का निंदन = परिभाषण न करना चाहते ।”

“तो भवति ! जब श्रमण गौतम मंडलकप्प में आवें, तो मुझे कहियो ।”

“अच्छा, भद्रमुख !”—(कह) धानंजानी ब्राह्मणीने संगारव माणवको उत्तर दिया ।

तब भगवान् कोसलमें क्रमशः चारिका करते, जहाँ मंडल-कप्प था, वहाँ पहुँचे । वहाँ मंडलकप्पमें भगवान् तौदेय्य ब्राह्मणोंके आसके धागमें विहार करते थे ।

धानंजानी ब्राह्मणीने सुना, कि भगवान् मंडलकप्पमें पहुँच गये, और ० तौदेय्य (= तौदेय्य) ब्राह्मणोंके आश्र-वनमें विहार करते हैं । तब धानंजानी ब्राह्मणी जहाँ संगारव माणव था, वहाँ गई ; जाकर संगारव माणवसे यह बोली—

“तात ! भद्रमुख ! वह भगवान् मंडलकप्पमें पहुँच गये हैं, और ० तौदेय्य ब्राह्मणोंके आश्र-वनमें विहार करते हैं । अब तात ! भद्रमुख ! जिसका काल समझो (वह करो) ।”

“अच्छा, भवति !”—(कह) संगारव माणवने धानंजानी ब्राह्मणीको उत्तर दे, जहाँ भग-

वान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌के साथ...संमोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे संगारव माणवने भगवान्‌से यह कहा—

“भो गौतम ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण दृष्ट-धर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त (= इसी शरीरमें जान कर, निर्वाणको-प्राप्त) हो आदि ब्रह्मचर्य (= शुद्ध-ब्रह्मचर्य) (प्रचार करने)का दावा करते हैं । वहाँ, भो गौतम ! जो श्रमण-ब्राह्मण दृष्ट-धर्म-व्यवसान-पारमी-प्राप्त हो आदि-ब्रह्म-चर्यका दावा करते हैं, उनमें आप कौन हैं ?”

“दृष्टधर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त हो आदि ब्रह्मचर्यके दावा करनेवालोंमें भी, भारद्वाज ! मैं भेद कहता हूँ । (१) भारद्वाज ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण धानुश्रविक (= अनुश्रवको माननेवाले) हैं; वह अनुश्रव (= श्रुति)से दृष्टधर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त हो आदि ब्रह्मचर्यका दावा करते हैं; जैसे कि त्रैविद्य (= तीनों वेदोंके अनुयायी) ब्राह्मण । (२) हैं, भारद्वाज ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण केवल श्रद्धा मात्रसे दृष्टधर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त हो आदि ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले, जैसे कि तार्किक = विमर्शी । (३) हैं, भारद्वाज ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण पहले न सुने गये धर्मोंमेंसे स्वयं धर्मको जानकर दृष्टधर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त हो आदि ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले होते हैं । वहाँ, भारद्वाज ! जो श्रमण-ब्राह्मण पहिले न सुने गये ० आदि-ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले हैं, मैं उनमेंसे हूँ । सो इस पर्याय (= कथन)से, भारद्वाज ! तुम्हें जानना चाहिये, कि जो श्रमण-ब्राह्मण पहिले न सुने गये । ० आदि ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले हैं, मैं उनमेंसे हूँ ।

“यहाँ भारद्वाज ! बोधिसे पहिले = बुद्ध न हो बोधिसत्त्व होते समय, मुझे ऐसा हुआ— ‘गृह-वास जंजाल है, मूलका मार्ग है । प्रव्रज्या मैदान (सा खुला स्थान) है । इस नितान्त सर्वथा-परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे (उज्ज्वल) ब्रह्मचर्यका पालन घरमें रहते सुकर नहीं है । क्यों न मैं शिर-दाढी मुँडा, कापाय-वस्त्र पहन, घरसे वेधर (= अनागारिक) हो प्रव्रजित हो जाऊँ । सो मैं भारद्वाज ! दूसरे समय दहर (तरुण) ही, बहुत काले काले केशोंवाला, सुंदर यौवनके साथ ही, प्रथम वयसमें, अश्रुमुख माता-पिताके रोते, घरसे वेधर हो प्रव्रजित हुआ ।

“इस प्रकार प्रव्रजित हो, ‘क्या कुशल (= अच्छा)’ का खोजी (वन), अनुपम शांति-पदको ढूँढते, जहाँ आलार कालाम था, वहाँ गया । जाकर आलार कालामसे बोला—‘आबुस कालाम ! मैं इस धर्म-विनय (= धर्म)में ब्रह्मचर्य-वास करना चाहता हूँ ?’ ०^१ भारद्वाज ! रातके तीसरे पहर यह तीसरी विद्या मुझे प्राप्त हुई; अविद्या गई, विद्या आई; तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ ।”

यह कहनेपर संगारव माणवने भगवान्‌से यह कहा—

“अहो ! आप गौतमका प्रधान (= ध्यान-तत्परता) अद्वित (= उत्तम)-प्रधान था । अहो ! आप गौतमका प्रधान सत्पुरुष-प्रधान था; जैसा कि वह आप अर्हत् सम्यक्संबुद्धका (प्रधान था) । भो गौतम ! क्या देव हैं ?”

“भारद्वाज ! मुझे स्थान (= कारण)से विदित है, कि देव हैं ।”

“क्या है, भो गौतम ! जो—‘क्या देव हैं’—पूछनेपर—भारद्वाज ! मुझे स्थानसे विदित है—‘कि देव हैं’—कहते हो । ऐसा होने पर, भो गौतम ! (तुम्हारा कथन) क्या तुच्छ = मृषा नहीं होता ?”

^१ देखो बोधिराजकुमारसुत्त (३४५-५२), (राजकुमारकी जगह भारद्वाजको संबोधन) ।

“मारद्वाज ! ‘क्या देव हैं’—पूछने पर, जो ‘देव हैं’ कहे; स्थानसे विदित होने पर—‘मुझे विदित हैं’—कहे; तभी यहाँ विद्वां पुरुषको पूर्णरूपेण विद्वास करना चाहिये—‘देव हैं’ ।”

“क्यों नहीं, भो गौतम ! आरम्भमें ही मुझे (आपने) यह कह दिया ?”

“मारद्वाज ! लोकमें ऊँचे (शब्द)से यह प्रकट है—‘देव हैं’ ।”

ऐसा कहने पर संगारव भाणवने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे ऋषिको सीधा करदे ०^१ यह मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्रु-संघकी भी । आप गौतम आजसे मुझे अंजलिपद शरणागत उपासक धारण करें ।”

१० (इति ब्राह्मण-वग २।५)

उपरि-परिणामक

[३-तृतीय-पञ्चाशक १०१-१५२]

१०१—देवदह-सुत्तन्त (३।१।१)

कायिक तपस्याकी निस्तारता । मानस तप ही लाभप्रद । भिक्षु-आश्रमका मुख

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् शाक्य (देश) में, शाक्योंके निगम देवदह^१ में विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ !”—“भदन्त !” ।...

भगवान्ने कहा—“भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वाद^२= इस दृष्टिवाले हैं—‘जो कुछ भी यह पुरुष=पुद्गल सुख, दुःख, या अदुःख, असुख अनुभव करता है, वह सब पहिले कियेके कारण । इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्याद्वारा अन्त करनेसे, नये कर्मोंके न करनेसे, मविष्य में विपाक-रहित (= अन्-अवलम्ब) (होता है) । विपाक-रहित होनेसे कर्म-क्षय, कर्म-क्षयसे दुःख-क्षय, दुःख-क्षयसे, वेदनाक्षय, वेदना-क्षयसे, सभी दुःख जीर्ण हो जाते हैं ।

“भिक्षुओ ! वह निगंठ मेरे ऐसा पृष्ठनेपर ‘हाँ’ कहते हैं । उनको मैं यह कहता हूँ—‘आवुसो निर्गंठो ! क्या तुम जानते हो—हम पहिले ये ही, हम नहीं न थे ?’—‘नहीं आवुस !’ ‘क्या तुम आवुसो निर्गंठो ! जानते हो—हमने पूर्वमें पाप-कर्म किया ही है, नहीं नहीं किया है ?’—‘नहीं आवुस !’ ‘क्या तुम आवुसो निर्गंठो ! जानते हो—ऐसा ऐसा पाप-कर्म किया है ?’—‘नहीं आवुस !’ ‘क्या० जानते हो—इतना दुःख नाश हो गया, इतना दुःख नाश करना है, इतना दुःख नाश हो जानेपर, सब दुःख नाश हो जायेगा ?’—‘नहीं आवुस !’ ‘क्या० जानते हो—इसी जन्ममें अकुशल (= बुरे) धर्मोंका प्रहाण (= विनाश) और कुशल-धर्मोंका लाभ (होना है) ?’—‘नहीं आवुस !’ ‘इस प्रकार आवुसो निर्गंठो ! तुम नहीं जानते—हम पहिले ये, या नहीं० इसी जन्ममें अकुशल-धर्मोंका प्रहाण होना है, और कुशल-धर्मोंका लाभ । ऐसा होनेपर आयुष्मान् निर्गंठोंका यह कथन युक्त नहीं—‘जो कुछ भी यह पुरुष=पुद्गल० अनुभव करता है० । यदि आवुसो निर्गंठो ! तुम जानते होते—‘हम पहिले ये ही० ।’ ऐसा होनेपर आयुष्मान् निर्गंठोंका यह कथन युक्त होता—‘जो कुछ भी यह पुरुष० । आवुसो निर्गंठो ! जैसे (कोई) पुरुष विपत्ते उपलिस गादे शल्य (= शरके-फल) से विद्ध हो । वह शल्यके कारण दुःखद, कटु, तीव्र वेदना अनुभव करता हो । उसके मित्र=अमात्य, जाति-धिरादरी उसे शल्य-चिकित्सकके पास ले जायँ ।

^१ म. क. “देव कहते हैं, राजाओं को । वहाँ शाक्य राजाओंकी सुन्दर मंगल-पुष्करिणी थी, जिम पर पहरा रहता था । वह देवोंका दह (= पुष्करिणी) होनेके कारण देवदह कही जाती थी । उसीको देख कर वह निगम (= कस्ता) भी देवदह कहा जाता था । भगवान् उम निगमके सहारे लुम्बिनावनमें वास करते थे ।” ^२ निगंठ नात-पुत्तका सिद्धान्त ।

वह शल्य-चिकित्सक शस्त्रसे उसके व्रण (= घाव)के मुखको काटे । वह शस्त्रसे व्रण-मुखके काटनेसे भी दुःखद, कटु, तीव्र वेदनाको अनुभव करे । शल्य-चिकित्सक खोजनेकी शलाकासे शल्यको खोजे । वह ० शलाकाद्वारा शल्यके खोजनेके कारण भी दुःखद ० वेदना अनुभव करे । वह शल्य-चिकित्सक उसके शल्यको निकाले; वह शल्यके निकालनेके कारण भी ० वेदना अनुभव करे । शल्य-चिकित्सक उसके व्रण-मुखपर दवाई रखे, ० । वह दूसरे समय घावके पुर जानेसे निरोग, सुखी...स्वयंवंशी, इच्छानुसार फिरनेवाला, हो जाये । उसको यह हो—‘मैं पहिले ० शल्यसे विद्ध था ० दवाई रखनेके कारण भी दुःखद ० वेदना अनुभव करता था । सो मैं अब ० निरोग, सुखी ० हूँ ।’ ऐसे ही आवुसो निगंठो ! यदि तुम जानते हो—‘हम पहिले थे ही, नहीं नहीं थे’ ० । ऐसा होनेपर आयुष्मान् निगंठोंका यह कथन युक्त होता—‘जो कुछ भी ०’ । चूँकि आवुसो निगंठो ! तुम नहीं जानते—‘हम पहिले थे ०’; इसलिये आयुष्मान् निगंठोंका यह कथन युक्त नहीं—‘जो कुछ भी ०’ ।

“ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! उन निगंठोंने सुझे कहा—‘आवुस ! निगंठ नातपुत्त सर्वज्ञ=सर्वदर्शी, अखिल ज्ञान = दर्शनको जानते हैं । चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा निरंतर (उन्हें) ज्ञान=दर्शन उपस्थित रहता है; वह ऐसा कहते हैं—‘आवुसो निगंठो ! जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस कड़वी दुष्कर कारिका (= तपस्या)से नाश करो, और जो इस वक्त यहाँ तुम काय-वचन-मनसे रक्षित (= संवृत) हो, यह भविष्यके लिये पापका न करना हुआ । इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त होनेसे, और नये कर्मोंके न करनेसे, भविष्यमें (तुम) अन-अवस्रव (होंगे) । भविष्यमें अवस्रव न होनेसे, कर्मका क्षय; कर्मके क्षयसे दुःख-क्षय; दुःख-क्षयसे वेदना-क्षय; वेदना-क्षयसे सभी दुःख नष्ट=निर्जर्ण हो जायेंगे’ । यह हमको रुचता है = खमता है । इससे हम संतुष्ट हैं ।”

“ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! मैंने उन निगंठोंसे यह कहा—आवुसो निगंठो ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाकवाले हैं । कौनसे पाँच ? (१) श्रद्धा, (२) रुचि, (३) अनुश्रव, (४) आकार-परिवितर्क, (५) दृष्टि-निध्यान-क्षान्ति । आवुसो निगंठो ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाकवाले हैं । यहाँ आयुष्मान् निगंठोंके अतीत-अंश-वादी शास्त्रा (= निगंठ नातपुत्त)में आपकी क्या श्रद्धा, क्या रुचि, क्या अनुश्रव, क्या आकार-परिवितर्क, क्या दृष्टि-निध्यान-क्षान्ति है ?” भिक्षुओ ! निगंठोंके पास ऐसा कहकर भी मैं धर्मसे कोई भी वाद-परिहार (= उत्तर) नहीं देखता ।”

“और फिर भिक्षुओ ! मैं उन निगंठोंसे यह कहता हूँ—‘तो क्या मानते हो, आवुसो निगंठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम (= साधना) तीव्र होता है, = प्रधान तीव्र (होता है) । उस समय (उस) उपक्रम-सम्बन्धी दुःखद, तीव्र, कटुक, वेदना अनुभव करते हो, जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र नहीं होता = प्रधान तीव्र नहीं (होता), उस समय ० वेदना अनुभव नहीं करते ?” —‘जिस समय आवुस ! हमारा उपक्रम तीव्र होता है ०, उस समय ० तीव्र ० वेदना अनुभव करते हैं । जिस समय ० उपक्रम तीव्र नहीं होता ०, ० तीव्र ० वेदना अनुभव नहीं करते ।’

“इस प्रकार आवुसो निगंठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम = प्रधान तीव्र होता है, उस समय, तीव्र वेदना अनुभव करते हो; जिस समय तुम्हारा उपक्रम ० तीव्र नहीं होता, ० तीव्र वेदना अनुभव नहीं करते । ऐसा होनेपर आयुष्मान् निगंठोंका यह कथन युक्त नहीं—‘जो कुछ भी यह पुरुष = पुद्गल ० । यदि आवुसो निगंठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र ० होता है, उस समय दुःखद ० वेदना रहती ही है; जिस समय तुम्हारा तीव्र ० नहीं होता, उस समय दुःखद ० वेदना नहीं रहती; ऐसा होनेपर ० यह कथन युक्त नहीं—जो कुछ भी ० ।

“क्योंकि आवुसो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र ० होता है, उस समय दुःखद ० वेदना अनुभव करते हो; जिस समय ० उपक्रम ० तीव्र नहीं होता, ० तीव्र वेदना अनुभव नहीं करते; तो तुम स्वयंही उपक्रम-संयन्त्री दुःखद ० वेदना अनुभव करते; अविद्याने, अज्ञानसे, मोहसे उलटा समझ रहे हो—‘जो कुछ भी ०’। भिक्षुओ ! निगंठोंके पास ऐसा कहकर भी मैंने धर्मसे कोई भी वाद-परिहार (उनकी ओरसे) नहीं देखा ।

“और फिर भिक्षुओ ! मैं उन निगंठोंसे ऐसा कहता हूँ—‘तो क्या मानते हो आवुसो निगंठो ! जो यह इसी जन्ममें वेदनीय (= भोगा जानेवाला) कर्म है, वह उपक्रमसे = या प्रधानसे संपराय (= दूसरे जन्ममें) वेदनीय किया जा सकता है ?’—‘नहीं, आवुस !’ ‘और जो यह जन्मान्तर (= संपराय)-वेदनीय कर्म है, वह—उपक्रमसे ० इस जन्ममें वेदनीय—किया जा सकता है ?’—‘नहीं आवुस !’ ‘तो क्या मानते हो आवुसो ! निगंठो ! जो यह सुख-वेदनीय (= सुख भोग करानेवाला) कर्म है, क्या वह उपक्रमसे = या प्रधानसे दुःख-वेदनीय किया जा सकता है ?’—‘नहीं आवुस !’ ‘० जो यह दुःख-वेदनीय कर्म है, क्या वह उपक्रमसे ० सुप्त-वेदनीय किया जा सकता है ?’—‘नहीं आवुस !’ ‘तो क्या मानते हो आवुसो निगंठो ! जो यह परिपक्व (-अवस्था = बुढ़ापा)में वेदनीय कर्म है, क्या वह उपक्रमसे ० अपरिपक्व-वेदनीय किया जा सकता है ?’—‘नहीं आवुस !’ ‘० जो यह अ-परिपक्व (= शैशव, जवानी)-वेदनीय कर्म है, क्या वह ० परिपक्व-वेदनीय किया जा सकता है ?’—‘नहीं आवुस !’ ‘तो क्या मानते हो, आवुसो निगंठो ! जो यह बहु-वेदनीय कर्म है, क्या वह ० अल्प-वेदनीय किया जा सकता है ?’ ‘नहीं आवुस !’ ‘० जो यह अल्प-वेदनीय कर्म है ० ?’—‘नहीं आवुस !’ ‘तो क्या मानते हो आवुसो निगंठो ! जो यह वेदनीय (= भोगानेवाला) कर्म है, क्या वह ० उपक्रमसे ० अ-वेदनीय किया जा सकता है ?’—‘नहीं आवुस !’ ‘० अवेदनीय कर्म ० वेदनीय किया जा सकता है ?’—‘नहीं ०’। ‘इस प्रकार आवुसो निगंठो ! जो यह इसी जन्ममें वेदनीय कर्म है ० । ० अवेदनीय कर्म है, वह भी वेदनीय नहीं किया जा सकता । ऐसा होनेपर आयुष्मान् निगंठोंका उपक्रम निष्फल हो जाता है, प्रधान निष्फल हो जाता है ।

“भिक्षुओ ! निगंठ लोग इस वाद (के मानने)वाले हैं । ऐसे वादवाले निगंठोंके वाद = अनुवाद धर्मानुसार दस स्थानोंमें निदनीय (= अयुक्त) होते हैं । यदि भिक्षुओ ! प्राणी पहिले किये (कर्मों)के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो भिक्षुओ ! निगंठ लोग अवश्य पहिले बुरे काम करनेवाले थे, जो इस वक्त इस प्रकार दुःखद, तीव्र, कष्ट वेदनायें भोग रहे हैं । यदि भिक्षुओ ! प्राणी ईश्वरके बनानेके कारण (= ईश्वर-निर्माण-हेतु) सुख दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निगंठ लोग पापी (= बुरे) ईश्वर द्वारा बनाये गये हैं, जोकि इस वक्त ०, दुःखद ० वेदनायें भोग रहे हैं । यदि भिक्षुओ ! प्राणी संगति (= भावी)के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निगंठ लोग पाप (= बुरी) संगति (= भावी)वाले थे, जो इस वक्त ० । यदि भिक्षुओ ! प्राणी अभिजातिके कारण ० । यदि ० इसी जन्मके उपक्रमके कारण सुप्त दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निगंठोंका इस जन्मका उपक्रम बुरा (= पाप) है, जोकि इस वक्त ० दुःखद ० वेदनायें भोग रहे हैं ।

“यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्व किये (कर्मों)के कारण सुख दुःख भोग रहे हैं, तो निगंठ गर्हणीय हैं । यदि ० ईश्वरके निर्माणके कारण ० । मवितन्व्यता (= संगति)के कारण ० । ० अभिजातिके कारण ० । ० इसी जन्मके उपक्रमके कारण सुप्त दुःख भोगते हैं, तो निगंठ गर्हणीय हैं । भिक्षुओ ! निगंठ ऐसा सत (= वाद) रखते हैं । ऐसे वादवाले निगंठोंके वाद = अनुवाद धर्मा-

नुसार दस स्थानोंमें निन्दनीय होते हैं। इस प्रकार भिक्षुओ ! (उनका) उपक्रम निष्फल होता है, प्रधान निष्फल होता है।

“भिक्षुओ ! पाँच उपक्रम सफल हैं, प्रधान सफल है।—भिक्षुओ ! (१) भिक्षु दुःखसे अन्-अभिभूत (= अ-पीड़ित) शरीरको दुःखसे अभिभूत नहीं करता। (२) धार्मिक सुखका परित्याग नहीं करता। (३) उस सुखमें अधिक दृवा (= मूर्छित) नहीं हो जाता। (४) वह ऐसा जानता है—इस दुःख-कारणके संस्कारके अभ्यास करने वालेको, संस्कारके अभ्यास से, विराग होता है, (५) इस दुःख-निदानकी उपेक्षा करनेवालेको उपेक्षाकी भावना करनेसे, विराग होता है। जिस दुःख-निदानसे संस्कारके अभ्यास करनेसे संस्कारके अभ्याससे विराग होता है, वह उस संस्कारको अभ्यास करता है। जिस दुःख-निदानकी उपेक्षा करनेसे, उपेक्षाकी भावना करनेसे, विराग होता है; उस उपेक्षाकी भावना करता है। उस उस दुःख-निदानके संस्कारके अभ्याससे विराग होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीर्ण होता है। उस उस दुःख-निदान की उपेक्षाकी भावना करने वालेको विराग होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीर्ण होता है।

“भिक्षुओ ! जैसे पुरुष (किसी) स्त्रीमें अनुरक्त हो, प्रतिबद्धचित्त, तीव्र-रागी = तीव्र-अपेक्षी हो। वह उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ खड़ी, यात करती, जग्घन करती = हँसती देखे। तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ ० हँसती देख, क्या उस पुरुषको शोक = परिदेव, दुःख = दौर्मनस्य = उपायास उत्पन्न नहीं होंगे ?”

“हाँ, मन्ते ?”

“सो किसलिये ?”

“वह पुरुष मन्ते ! उस स्त्रीमें अनुरक्त ० है। इसलिये उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ ० हँसती देख, उस पुरुषको शोक ० उत्पन्न होंगे।”

“तब भिक्षुओ ! उस पुरुषको ऐसा हो—मैं इस स्त्रीमें अनुरक्त ० हूँ। सो इस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ ० हँसते देख शोक ० उत्पन्न होते हैं। क्यों न मैं जो मेरा इस स्त्रीमें छन्द = राग है, उसको छोड़ दूँ। वह (फिर) जो उस स्त्रीमें उसका छन्द = राग है, उसे छोड़ दे। फिर दूसरे समय वह उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ ० हँसते देखे, तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ ० हँसते देख, उस पुरुषको शोक ० उत्पन्न होंगे ?”

“नहीं मन्ते !”

“सो किसलिये ?”

“वह पुरुष मन्ते ! उस स्त्रीसे वीत-राग है, इसलिये उस स्त्रीको ० हँसते देख, उस पुरुषको शोक ० उत्पन्न नहीं होते।”

“ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु दुःखसे अन्-अभिभूत शरीरको, दुःखसे अभिभूत नहीं करता ० इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीर्ण होता है। इस प्रकार भिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है, प्रधान सफल होता है।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु ऐसा सोचता है—सुख-पूर्वक विहार करते भी मेरे अ-कुशल धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं, (लेकिन) अपनेको दुःखमें लगाते अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल धर्म बढ़ते हैं; क्यों न मैं दुःखमें अपनेको लगाऊँ। इस प्रकार वह अपनेको दुःखमें लगाता है। दुःखमें अपनेको लगाते हुये उसके अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं। वह उसके याद दुःखमें अपनेको नहीं लगाता। सो किसलिये ?—भिक्षुओ ! वह भिक्षु जिसके लिये दुःखमें अपनेको

लगाता था, वह उसका मतलब पूरा हो गया; इसलिये दूसरे समय दुःखमें अपनेको नहीं लगाता। जैसे मिश्रुओ ! इपुकार (= वाण बनानेवाला लोहार) दो अंगारों (= अलात) पर तेजन (= वाण-फल) को तपाता... है, सीधा करता है...। जब मिश्रुओ ! इपुकारका तेजन दो अंगारोंपर आतापित = परितापित (हो चुका) होता है, सीधा (हो गया)... होता है। तो फिर दूसरी बार वह इपुकार तेजनको दो अंगारोंपर आतापित परितापित नहीं करता, (नहीं) सीधा करता...। सो किसलिये ?—मिश्रुओ ! जिस मतलबसे इपुकार... आतापित परितापित कर रहा था...। वह उसका मतलब पूरा हो गया। इसलिये दूसरी बार ०। ऐसे ही मिश्रुओ ! मिश्रु ऐसा सोचता है—सुख-पूर्वक विहार करते मेरे अकुशल-धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं ० इसलिये दूसरे समय दुःखमें अपनेको नहीं लगाता। इस प्रकार भी मिश्रुओ ! उपक्रम सफल होता है, प्रधान सफल होता है।

“और फिर मिश्रुओ ! यहाँ लोकमें तथागत अर्हत्त्व, सम्यक्संबुद्ध विद्या-आचरण-युक्त सुगत ०^१ उत्पन्न होते हैं। ० धर्म-उपदेश करते हैं। ०। घर छोड़ बेघर हो प्रव्रजित होता है। ०। वह इस आर्य-शील स्कंधसे संयुक्त हो, अपनेमें निर्दोष सुख अनुभव करता है। ० वह इस आर्य-इन्द्रिय-संवरसे युक्त होता है। ०। वह इस आर्य-शील-स्कंधसे युक्त हो, इस आर्य इन्द्रिय-संवरसे ०, इस आर्य स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्त-वास-स्थान, वृक्षके नीचे, पर्वत, कंदरा, गिरिगुदा, श्मशान, वन-प्रस्थ, मैदान, पयालका ढेर, सेवन करता है। वह भोजनके बाद... आसन मार शरीर को सीधा रख, स्मृतिको संमुख उपस्थित कर, बैठता है। वह लोकमें लोभ (= अभिध्या) को छोड़, अभिध्या-रहित चित्तसे विहरता है, अभिध्यासे चित्तसे परिशुद्ध करता है। व्यापाद् = प्रद्वेष (= द्वेष) को छोड़, अ-व्यापन्न चित्त हो, सब प्राणियोंको हित = अनुकम्पक हो विहरता है ०। स्थान-भृद् छोड़ ०, औद्धत्य-कौकृत्य छोड़ ०, विचिकित्सा छोड़ ०। वह इन पाँच चित्तके नीवरणोंको छोड़ ०^२ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। उसका मिश्रुओ ! उपक्रम सफल होता है ०।

“और फिर मिश्रुओ ! ० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो ०। ० उपक्रम सफल होता है ०।

“और फिर ०। ० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो ०। इस प्रकार भी ०।

“और फिर ०। ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो ०। इस प्रकार भी ०।

“वह इस प्रकार समाहित-चित्त ०^३ अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको अनुस्मरण करता है। इस प्रकार भी ०।

“वह इस प्रकार समाहित-चित्त ० दिव्य-चक्षुसे प्राणियोंको च्युत होते, उत्पन्न होने जानता है। इस प्रकार भी ०।

“वह इस प्रकार समाहित-चित्त ० ‘जन्म क्तम हो गया’, जानता है। इस प्रकार भी ०।

“मिश्रुओ ! तथागत ऐसे वाद् (के मानने) वाले हैं। ऐसे वादवाले तथागतकी धर्मानुसार (= न्यायानुसार) प्रशंसाके दस स्थान होते हैं—(१) यदि मिश्रुओ ! प्राणी पूर्व किये कर्मोंके कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो अवश्य मिश्रुओ ! तथागत पहिलेके पुण्य करनेवाले रहे हैं, जो कि इस समय आस्रव (= मल)-विहीन सुख-वेदनाको अनुभव करते हैं। (२) यदि मिश्रुओ ० ईश्वर-निर्माणके कारण ०; तो अवश्य मिश्रुओ ! तथागत अच्छे ईश्वरसे निर्मित हैं, जो कि इस समय ०। (३) ० भवितव्यताके कारण ०; तथागत उत्तम भवितव्यतावाले हैं ०। (४)

० अभिजातिके कारण ० ; तथागत उत्तम अभिजातिवाले ० । (५) ० इसी जन्मके उपक्रमके कारण ० ; ० तथागत इस जन्मके सुन्दर उपक्रमवाले ० । (६) यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्वकृत (कर्मों)के कारण सुख-दुःख अनुभव करते हैं, तो तथागत प्रशंसनीय हैं ; यदि पूर्वकृत (कर्मों)के कारण सुख-दुःख नहीं अनुभव करते, तो (भी) तथागत प्रशंसनीय हैं । (७) यदि भिक्षुओ ! प्राणी ईश्वर-निर्माणके कारण ०, ० ईश्वर निर्माणके कारण नहीं ० । (८) भवितव्यताके कारण ० ; भवितव्यताके कारण नहीं ० । (९) ० अभिजातिके कारण नहीं ० ; ० । (१०) ० इस जन्मके उपक्रमके कारण ० ; इस जन्मके उपक्रमके कारण नहीं ० । भिक्षुओ ! तथागत इस वाद (के मानने) वाले हैं । ० । ”

भगवान्ने यह कहा ; संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

१०२—पंचतय-सुत्तन्त (३।१।२)

आत्मवाद आदि नाना मत-वाद

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

अपरान्त-दृष्टि

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण अपरान्त-कल्पिक (= मरनेके बादकी अवस्थामें) मत (रखनेवाले) = अपरान्तानुदृष्टि होते हैं। वह अपरान्त (= मरनेके बाद) को लेकर अनेक प्रकारके मत प्रतिपादन (= अधियुक्ति)के पद कहते हैं—(१)^१ ‘मरनेके बाद आत्मा संज्ञी (= बाहोश), निरोग (= नित्य) होता है’—यह कोई कोई कहते हैं। (२) ‘मरनेके बाद आत्मा अ-संज्ञी (= अचेतन), निरोग (= नित्य) होता है’—यह कोई कोई कहते हैं। (३) ‘० न-संज्ञी-न-असंज्ञी, निरोग होता है’—०। (४) या विद्यमान ही सत्त्वके उच्छेद = विनाश = विभव को मानते हैं। (५) या इसी शरीर (= दृष्ट-धर्म)में निर्वाणको कोई कोई यतलाते हैं। इस प्रकार होते हुये आत्माको मरनेके बाद निरोग यतलाते हैं। यह पाँच होकर तीन होते हैं, तीन होकर पाँच होते हैं। पंच-तय (= पंच-त्रय = पाँच तीन)का नाम कथन (= उद्देश) है।

(१) “यहाँ भिक्षुओ ! जो श्रमण-ब्राह्मण मरनेके बाद संज्ञी, अरोग आत्माको यतलाते हैं, वह आप श्रमण ब्राह्मण,^२ यातो (१) मरणानंतर (उल) संज्ञी, अरोग आत्माको रूपी (= साकार) यतलाते हैं। या (२) ० आत्माको अ-रूपी यतलाते हैं। या (३) ० आत्माको रूपी-अरूपी यतलाते हैं। या (४) ० आत्माको न-रूपी-नारूपी यतलाते हैं। या (५) ० आत्माको एकरव-संज्ञी^३ यतलाते हैं। या (६) ० आत्माको नानात्व-संज्ञी^४ ०। या (७) ० परीक्ष-संज्ञी^५ ०। या (८) ० अप्रमाण-संज्ञी ०^६। या इससे विरत कोई कोईके लिये विशग-

^१ (१) आत्मा मरनेके बाद मरता नहीं; वह होशके साथ नित्य बना रहता है। (२) नित्य बना तो रहता है, किन्तु उसमें होश (= ज्ञान) नहीं होता, जैसे नैयायिकोंके अपवर्गमें। इन्हीं दोनों बातोंको मिलाने और निषेध करनेसे तीसरे चौथे मत बनते हैं। ^३ नित्य चेतन आत्माको मानने वाले अनेक मत हैं, जिन्हें यहाँ दिया है। ^४ आत्माओंके अनेक होने पर मरनेके बाद उनका नाम या रोग चेतना (= संज्ञा) एक होनेसे उन्हें एकत्व-संज्ञी कहते हैं। ^५ जिनको अपने नानापनका ज्ञान रहता है। ^६ जिनकी मत्ता (= ज्ञान) अल्प (= परिमित) होती है। ^७ जिनकी संज्ञा अतिमदान् होती है।

कृत्स्न^१ (= विज्जाण-कसिण)को अप्रमाण (= अतिविशाल), आर्निज्य (= निश्चल) कहते हैं ।
भिक्षुओ ! इन्हें तथागत अच्छी तरह जानते हैं ।

“भिक्षुओ ! जो आप श्रमण-ब्राह्मण (१) ० आत्माको रूपी (= साकार) बतलाते हैं । ० । (२) ० अप्रमाण-संज्ञी बतलाते हैं । किन्तु रूप-संज्ञा, या अरूप-संज्ञा, या एकरव-संज्ञा या नानास्व-संज्ञा—इन संज्ञाओंमें जो (संज्ञा), परिशुद्ध, परम = अग्र = अनुपम कही जाती है; (वह) ‘कुछ-नहीं’ (= नत्थि किंचि)—इस आर्किचन्य- (= नहीं-कुछ-पन)-आयतन (= लोक) है, (ऐसा इस प्राणिलोकको) कोई कोई अप्रमाण, आर्निज्य बतलाते हैं । ‘सो यह संस्कृत (= कृत, बनावटी) है, स्थूल है; और संस्कारों (= कृतों, बने हुआंका) निरोध = (विनाश) होता है’—भिक्षुओ ! यह जानकर उससे निस्सरण-दर्शी (= निकासका रास्ता जानने वाले) तथागत, उससे विरत हैं ।

(२) “वहाँ, भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण मरनेके बाद आत्माको नित्य और अचेतन मानते हैं । वह आप श्रमण ब्राह्मण, या तो (१) मरनेके बाद (उस) नित्य और अ-चेतन आत्माको रूपी (= साकार) मानते हैं । या (२) ० अ-रूपी ० । या (३) ० रूपी-अरूपी ० । या (४) ० नरूपी-नारूपी ० । वहाँ, भिक्षुओ ! जो श्रमण-ब्राह्मण आत्माको संज्ञी (= चेतन) माननेवाले हैं, उन्हें यह (= असंज्ञीवादी) निन्दते हैं, सो किस हेतु ?—संज्ञा (= होश) रोग (समान) है, संज्ञा गंड (= फोड़ा) है, संज्ञा शल्य (-समान) है । अ-संज्ञा ही शान्त है, प्रणीत (= उत्तम) है । भिक्षुओ ! तथागत इन (वादों)को जानते हैं ।

“भिक्षुओ ! जो आप श्रमण-ब्राह्मण मरनेके बाद आत्माको नित्य और अचेतन बतलाते हैं । ० रूपी ०, ० अरूपी ०, ० रूपी-अरूपी ०, नरूपी-नारूपी बतलाते हैं । भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण ऐसा कहे—‘मैं रूपसे भिन्न; वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कारोंसे भिन्नमें विज्ञानके आवागमन, जन्म-मरण, वृद्धि = विरुद्धि = वैपुल्यको मानूँगा’—इसके लिये स्थान (= कारण) नहीं है । ‘सो यह संस्कृत है ० संस्कारोंका निरोध होता है’—भिक्षुओ ! यह जानकर उससे निस्सरण-दर्शी तथागत उससे विरत हैं ।

(३) “वहाँ, भिक्षुओ ! जो आप श्रमण-ब्राह्मण मरनेके बाद आत्माका नित्य और नचेतन-नाचेतन (= नसंज्ञी-नासंज्ञी) मानते हैं, वह आप श्रमण-ब्राह्मण, या तो (१) मरनेके बाद (उस) नित्य न-चेतन-ना-चेतन आत्माको रूपी मानते हैं । या (२) ० अ-रूपी ० । या (३) ० रूपी-अरूपी ० । या (४) ० नरूपी-नारूपी ० । वहाँ भिक्षुओ ! जो श्रमण-ब्राह्मण आत्माको संज्ञी (= चेतन) मानते हैं, उन्हें यह निन्दते हैं; और जो ० असंज्ञी मानते हैं, उन्हें भी यह निन्दते हैं । सो किस हेतु ?—संज्ञा रोग है, ० गंड है, ० शल्य है; और अ-संज्ञा संमोह (= मूढ़ता) है; यह जो नैवसंज्ञा-नासंज्ञा (= न-चेतन-नाचेतन) है, यही शान्त है, यही प्रणीत है । भिक्षुओ ! तथागत इन (वादों)को जानते हैं ।

“भिक्षुओ ! जो आप श्रमण-ब्राह्मण (१) मरनेके बाद आत्माको नित्य और नचेतन-नाचेतन मानते हैं ० (४) नरूपी-नारूपी मानते हैं । भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण-ब्राह्मण दृष्ट, श्रुत, स्मृत, विज्ञेय इस आयतन (= नचेतन-नाचेतन = नैव-संज्ञा-नासंज्ञावाले लोक)के संस्कार (= क्रिया) मात्रसे प्राप्ति मानते हैं; तो भिक्षुओ ! इस आयतनकी प्राप्तिका यह व्यसन (= क्षय) कहा जाता है । भिक्षुओ ! यह आयतन संस्कार-समापत्ति (= की जानेवाली समाधि)से प्राप्य कहा जाता

^१ जो जीवलोक विज्ञानमय है ।

है। मिश्रुओ! यह आयतन संस्कार-अवशेष (= संस्कारसे बची)-समापत्तिसे प्राप्य कहा जाना है। 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं।

(४) "वहाँ मिश्रुओ! जो आप श्रमण-ब्राह्मण विद्यमान् ही सत्त्वका उच्छेद = विनाश = विमवको मानते हैं। वह, आत्माको नित्य और चेतन माननेवाले श्रमण-ब्राह्मणोंको निन्दते हैं; आत्माको नित्य और अचेतन माननेवाले श्रमण ब्राह्मणोंको निन्दते हैं; आत्माको नित्य और नचेतन-नाचेतन माननेवाले श्रमण ब्राह्मणोंको निन्दते हैं। सो किस हेतु ?—यह सारे आप श्रमण-ब्राह्मण ऊर्ध्वतर (= आगे की लोक-यात्राको अनुसरण करनेवाले) हैं, लोम (= आसक्ति)की ही यात करते हैं—'भरकर ऐसा होलँगा, भरकर ऐसा होलँगा।' जैसा कि यनियेको यनीजीको जाते समय ऐसा हो—'इससे मुझे इतना लाम होगा, इससे यह लँगा'—इसी प्रकार यह आप श्रमण-ब्राह्मण यनिया जैसे जान पढते हैं। 'मिश्रुओ! तथागत इस (वाद)को जानते हैं।

"मिश्रुओ! जो आप श्रमण ब्राह्मण विद्यमानही सत्त्व (= चेतन-संतति) का उच्छेद ० मानते हैं; वह सत्त्वाय (= नित्य आत्म मानने)के मयसे सत्त्वायके प्रति घृणासे (प्रेमा मानते हुये भी) सत्त्वायके ही पीछे लगे हुये हैं, सत्त्वायके पीछे ही चक्कर काट रहे हैं। जैसे कि खंभे या खँटेमें डंडेसे बँधा कुत्ता उसी खंभे या खँटेका चक्कर काटता है; वैसे ही वह सत्त्वायके मयसे ० सत्त्वायके पीछे ही चक्कर काट रहे हैं। 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं।

"मिश्रुओ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण अपरान्त-कल्पिक = अपरान्तानुदृष्टि (= मरनेके बादकी कल्पना करने वाले) अनेक प्रकारके स्वमत प्रतिपादक वचनको करते हैं, वह सप्त इन्हों पाँच (= पंच) आयतनों (= खानों) के बारेमें कहते हैं, या इनमेंसे किसी एकके बारेमें।

पूर्वान्त-दृष्टि

"मिश्रुओ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण पूर्वान्त-कल्पिक = पूर्वान्तानुदृष्टि (= संसारके आदिके विषयमें कल्पना करनेवाले) अनेक प्रकारके जो स्वमत प्रतिपादक वचन कहते हैं^१। (१) 'लोक और आत्मा शाश्वत (= अनादि) हैं' यही सच है, और सय झूठ है—प्रेमा कोई कोई कहते हैं। (२) 'लोक और आत्मा अ-शाश्वत (= सादि) हैं, यही सच है, और सय झूठ है—प्रेमा कोई कोई श्रमण ब्राह्मण कहते हैं। (३) 'लोक और आत्मा शाश्वत भी अशाश्वत भी हैं ०।' (४) ० न-शाश्वत-न-अशाश्वत ०। (५) ० अन्तवान् ०। (६) ० अनन्त ०। (७) ० अन्तवान्-अनन्त ०। (८) ० न-अन्तवान्-न-अनन्त ०। (९) ० एकर-संज्ञी ०। (१०) ० नानाच-संज्ञी ०। (११) ० परीत्त-संज्ञी ०। (१२) ० अप्रमाण-संज्ञी ०। (१३) ० एकान्तसुखी ०। (१४) ० एकान्त-दुःखी ०। (१५) ० सुखी-दुःखी ०। (१६) लोक और आत्मा असुखी-अदुःखी हैं, यही सच है, और सय झूठ—प्रेमा कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण कहते हैं।

"वहाँ, मिश्रुओ! जो श्रमण-ब्राह्मण इस वाद = दृष्टि वाले हैं—(१) 'लोक और आत्मा शाश्वत हैं', यही सच है, और सय झूठ; उनको श्रद्धा, रुचि, अनुश्रव (= श्रुति) पोथी-पत्रा, आकार-परिवितर्क और दृष्टि-निष्ठान-ज्ञान्ति परे, स्वयं अपने भीतर ही परिशुद्ध = पर्ययदात

^१ ऊपर चार ही आयतनोंपर विशेष कहा है, पाँचवें कृष्टमर्म-निर्वाण पर क्यादा नहीं कहा है।

^२ इन प्रथम चार शाश्वतवाद, दूसरे चार एकत्र शाश्वतवाद. तीसरे चार अन्तान्तिक वाद. चौथे चार अनरा विक्षेपिकवाद हैं।

ज्ञान होगा, यह सम्भव नहीं। भिक्षुओ ! स्वयं अपने भीतर परिशुद्ध = पर्यवदात ज्ञान न होने पर, जो कुछ ज्ञान मात्र वह श्रमण-ब्राह्मण बतलाते हैं, वह भी उन ० का उपादान (= आग्रह, दुराग्रह) ही कहा जाता है। 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं। (२—१६) ० वहाँ भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वाद = दृष्टिवाले हैं—(२) 'लोक और आत्मा अशाश्वत हैं' ० । ० (१६) 'लोक और आत्मा असुखी-अदुःखी हैं' यही सच है, और सच झूठ; उनको श्रद्धा ० दृष्टि-निष्चान्त-शान्तिसे परे, स्वयं अपने भीतर ही परिशुद्ध ० ज्ञान होगा, यह सम्भव नहीं । ० । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं ।

पूर्वान्तापरान्त-भिन्न दृष्टियाँ

(१७) "यहाँ, भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण पूर्वान्त वाली दृष्टिको भी छोड़, अपरान्त वाली दृष्टिको भी छोड़, काम-संयोजनों (= विषय-बंधनों) को न रख, प्रविवेका (= एकान्त चिन्तनकी), प्रीति (= सुख) को प्राप्त कर विहरता है—'यही शान्त है, यही प्रणीत है, जो कि इस प्रविवेका प्रीतिको प्राप्त कर विहर रहा हूँ।' इसे तथागत जानते हैं—यह श्रमण ० प्रीतिको प्राप्त कर विहरता है। (जब) उसकी वह प्रविवेका प्रीति निरुद्ध होती है, तो दौर्मनस्य (= चित्त-खेद) उत्पन्न होता है। दौर्मनस्यके निरुद्ध होने पर प्रविवेका प्रीति उत्पन्न होती है। जैसे, भिक्षुओ ! जिसे छाया छोड़ती है, इसे आतप (= धूप) पकड़ता है; जिसे धूप छोड़ती है, उसे छाया पकड़ती है। ऐसेही भिक्षुओ ! प्रविवेका प्रीतिके निरुद्ध होने पर दौर्मनस्य उत्पन्न होता है, दौर्मनस्यके निरुद्ध होने पर प्रविवेका प्रीति उत्पन्न होती है। सो इसे तथागत जानते हैं—यह आप श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्तवाली दृष्टिको भी छोड़, ० दौर्मनस्यके निरुद्ध होने पर प्रविवेका प्रीति उत्पन्न होती है। 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं ।

(१८) "और यहाँ भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्तवाली दृष्टिको भी छोड़, अपरान्तवाली दृष्टिको भी छोड़, काम-संयोजनों (= विषय-बंधनों) को बिल्कुल अधिष्ठान न कर प्रविवेका प्रीतिको (भी) अतिक्रमण कर निरामिष (= निर्विषय) सुखको प्राप्त कर विहरता है—'यह शान्त है, यह प्रणीत (= उत्तम) है, जो कि यह निरामिष सुखको प्राप्त कर विहर रहा हूँ, सो इसे तथागत जानते हैं ० । (जब) उसका वह निरामिष सुख निरुद्ध होता है, तो निरामिष सुखके निरुद्ध होने पर प्रविवेका प्रीति उत्पन्न होती है, और प्रविवेका प्रीतिके निरुद्ध होने पर निरामिष सुख उत्पन्न होता है। जैसे भिक्षुओ ! जिसे छाया छोड़ती है, उसे आतप, उसे धूप पकड़ती है, (= फरति, पंजावी फड़ना) ० । और प्रविवेका प्रीतिके निरुद्ध होने पर निरामिष सुख उत्पन्न होता है। 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं ।

"यहाँ भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्तवाली दृष्टिको छोड़, अपरान्त-दृष्टि छोड़, ०, निरामिष सुखको भी अतिक्रमण कर अदुःख-असुखा (= सुख दुःख दोनोंसे रहित) वेदनाको प्राप्त कर विहरता है। 'यह शान्त है, यह प्रणीत है, जो कि यह अदुःख-असुखा वेदनाको प्राप्त कर विहर रहा हूँ।' सो इसे तथागत जानते हैं ० । (जब) उसकी अदुःख-असुखा वेदना निरुद्ध होती है, तो अदुःख-असुखा वेदनाके निरुद्ध होने पर निरामिष सुख उत्पन्न होता है। और निरामिष सुखके निरुद्ध होने पर, अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है। जैसे भिक्षुओ ! जिसे छाया छोड़ती है, उसे धूप पकड़ती है ० । और निरामिष सुखके निरुद्ध होनेपर अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है। 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं ।

"यहाँ भिक्षुओ ! ० अदुःख-असुखा वेदनाको भी अतिक्रमणकर,—'मैं शान्त हूँ, मैं निवृत्त (= निर्वाण प्राप्त) हूँ, मैं अनुपादान (= आग्रह-रहित) हूँ'—देखता है। सो इसे तथागत

जानते हैं—यह आप श्रमण या ब्राह्मण '० अनुपादान हूँ'—देखते हैं। जरूर यह आयुष्मान् निर्वाणके अनुकूल (= सम्पाय) प्रतिपद् (= मार्ग) को ही मानते हैं; किन्तु यह आप श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्त-दृष्टिका भी उपादान करते हैं, अपरान्त-दृष्टि ०, काम संयोजन ०, प्रदिवेका प्रीति ०, निरामिष सुख ०, अदुःख-असुखा वेदना ०, और जो यह आयुष्मान्—'मैं शान्त हूँ ० मैं अनुपादान हूँ' देखते हैं, यह भी आप श्रमण-ब्राह्मणका उपादान (= किसी मतमें आग्रह) ही कहा जाता है। 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं।'।

“मिश्रुओ ! यह तथागतने अनुपम श्रेष्ठ शान्तिपदका साक्षात्कार किया (= अभिसंबुद्ध) है, जो कि इन छहों स्पर्श-आयतनों (= चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय और मनके विषयों) के समुदय (= उत्पत्ति), अस्वगमन (= नाश), आस्वाद, आदिनव (= दुस्परिणाम) और निस्सरण (= निकासके रास्ते) को यथार्थसे जान कर, उपादान (= आग्रह, या ग्रहण) न कर विमोक्ष (= मोक्ष, मुक्ति) है। सो यह मिश्रुओ ! तथागतने अनुपम ० शान्ति-पदका साक्षात्कार किया, ० उपादान न कर विमोक्ष है।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिश्रुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

१०३—किन्ति-सुत्तन्त (३।१।३)

मेलजोलका ढंग

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् कुसिनारामें बलिहरण वन-पण्डमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! तुम्हें मेरे विषयमें क्या होता है—क्या (= किन्ति) श्रमण गौतम चीवर (= वस्त्र)के लिये धर्म उपदेशते हैं, ० पिंड पात (= भोजन)के लिये ०, ० शयन-आसनके लिये ०, ० अच्छे-अच्छे-जन्मके लिये ० ?”

“नहीं, भन्ते ! हमें ऐसा (नहीं) होता—श्रमण गौतम चीवरके लिये धर्म उपदेशते हैं ०, ० ।”

“भिक्षुओ ! यदि तुम्हें यह नहीं होता—श्रमण गौतम चीवरके लिये ०, ० । तो फिर तुम्हें मेरे विषयमें क्या होता है ?”

“भन्ते ! भगवान्के विषयमें हमें ऐसा होता है—‘भगवान् हितैपी अनुकम्पक हैं; अनुकम्पा करके धर्म उपदेशते हैं’ ।”

“भिक्षुओ ! तुम्हें मेरे विषयमें यह होता है—‘भगवान् हितैपी ० ।’ तो भिक्षुओ ! मेरे उपदेशित धर्मोंका, जैसे कि—(१-४) चार स्मृति-प्रस्थान^१, (५-८) चार सम्यक्-प्रधान, (९-१२) चार ऋद्धिपाद, (१३-१७) पाँच इन्द्रिय, (१८-२२) पाँच बाल (१३-२९) सात बोध्यंग^२, (३०-३७) आर्य अष्टांगिक-मार्गका प्रसन्न, एकतायुक्त, विवाद-रहित अभ्यास करो ।

“भिक्षुओ ! इस प्रकार ० विवादरहित हो अभ्यास करते जो दो भिक्षु धर्मके विषय (= अमिधर्म)में भिन्नमत रखनेवाले हों, तो यदि तुम्हें ऐसा हो—‘इन आयुष्मानोंका (कथन) अर्थमें भी भिन्न है, शब्द (= व्यंजन)में भी भिन्न है’; तो वहाँ पहले पक्षमें जिस भिक्षुको सु-वच-तर (= अधिक मधुरभाषी, अधिक सुवक्ता) समझो, उसे जा कर कहना—‘आयुष्मानोंका कथन अर्थमें भिन्न है, व्यंजनमें भी भिन्न है, इससे जानिये कि आयुष्मानोंका अर्थमें भी भिन्न है ० । मत आयुष्मानो ! विवाद करो’ । तब दूसरे पक्षवालोंमें जिस भिक्षुको सु-वच-तर समझो, उसे जा कर कहना—‘आयुष्मानोंका ० अर्थमें भी भिन्न है ० । मत आयुष्मानो ! विवाद करो’ । इस प्रकार उल्टा-समझे हुये (= दुर्गृहीत)को उल्टा-समझा जानो । और ० उल्टा-समझा जान कर, जो

^१ यही सैनीस बोधिपाक्षिक धर्म हैं, जो कि बुद्धकी शिक्षाके निचोड़ हैं । देखो महासकुलुद्रायि-सुत्तन्त ३०८-१० । ^२ देखो सतिपछान सुत्तन्त पृष्ठ ३५-३९ ।

धर्म^१, और जो विनय^२ है, उसे मापो ।

“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो—‘इन आयुष्मानोंका (कथन) अर्थमें ही मित्र है, व्यंजनमें समान है’, तो वहाँ पहिले पक्षमें जिस मिश्रुको सुवचतर समझो, ० मत आयुष्मानो ! विवाद करो’ । इस प्रकार दुर्गृहीतको दुर्गृहीत जानो, सुगृहीत (= ठीक समझे हुये)को सुगृहीत जानो । और ० सुगृहीतको सुगृहीत जानकर, जो धर्म है, और जो विनय है, उसे भापो ।

“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो—‘इन आयुष्मानोंका (कथन) अर्थमें समान है, व्यंजनहीमें नाना है’, तो वहाँ ० जिस मिश्रुको सुवचतर समझो, ० मत आयुष्मानो ! विवाद करो’ । इस प्रकार दुर्गृहीतको दुर्गृहीत जानो, सुगृहीतको सुगृहीत जानो । ०, ० जो धर्म है, और जो विनय है, उसे भापो ।

“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो—‘इन आयुष्मानोंका (कथन) अर्थमें भी समान है, व्यंजनमें भी समान है’, ०, ० मत आयुष्मानो विवाद करो’ । ०, ० जो धर्म है, और जो विनय है, उसे भापो ।

“मिश्रुओ ! इस प्रकार ० विवादरहित हो अभ्यास करते (= सीखते) यदि किसी मिश्रुसे कोई कसूर (= आपत्ति) हो जाये, व्यतिक्रम हो जाये, तो मिश्रुओ ! वहाँ अभियोग (= खोदना) लानेकी जल्दी नहीं करनी चाहिये; (पहिले) आदमी (= पुद्गल)की परीक्षा करनी चाहिये—‘ऐसा (अभियोग) करनेपर मुझे तकलीफ तो न होगी, उस आदमीको हानि (= उपघात) तो न होगा ? वह (= अपराधी) आदमी अक्रोधो, कीना-न-रखनेवाला (= अन-उपनारी) अ-मन्द-दृष्टि (= समझदार) सुप्रति-निस्सर्गी (= आसानीसे त्यागनेवाला) तो है ? क्या मैं उस आदमीको बुराईसे हटाकर, भलाईमें प्रतिष्ठित कर सकता हूँ ?’ यदि मिश्रुओ ! ऐसा हो, (तो दोष) कहना ठीक हो ।

“यदि, मिश्रुओ ! ऐसा हो—‘(ऐसा करनेपर) मुझे तो तकलीफ न होगी, किन्तु, उस आदमीका उपघात होगा । वह आदमी क्रोधी, उपनाही, मन्द-दृष्टि, सुप्रतिनिस्सर्गी है । (किन्तु) मैं उस आदमीको बुराईसे हटाकर, भलाईमें प्रतिष्ठित कर सकता हूँ । यह छोटी घात है, यदि उस आदमीको थोड़ा उपघात (= कष्ट) हो; यही बड़ी घात है, जो मैं उस आदमीको बुराईसे हटाकर, भलाईमें प्रतिष्ठित कर सकूँगा ।’ यदि मिश्रुओ ! ऐसा हो, तो कहना चाहिये ।

“यदि मिश्रुओ ! ऐसा हो—‘मुझे तकलीफ होगी, किन्तु उस आदमीका उपघात न होगा । वह आदमी अक्रोधी, अनुपनाही, अमन्द-दृष्टि, (किन्तु) दुष्प्रतिनिस्सर्गी (= मुश्किलने छोड़ने वाला) है । (तोमी) मैं उस आदमीको बुराईसे हटाकर, भलाईमें प्रतिष्ठित कर सकता हूँ । यह छोटी घात है, यदि मुझे थोड़ीसी तकलीफ हो; यही बड़ी घात है, जो मैं उस आदमीको ० भलाईमें प्रतिष्ठित कर सकूँगा ।’ यदि, मिश्रुओ ! ऐसा हो, तो कहना चाहिये ।

“यदि मिश्रुओ ! ऐसा हो—‘मुझे भी तकलीफ होगी, उस आदमीको भी तकलीफ होगी । वह आदमी क्रोधी, उपनाही, मन्ददृष्टि (= मन्दबुद्धि) दुष्प्रतिनिस्सर्गी है । मैं उस आदमीको

^१ बुद्ध द्वारा समय समयपर दिये नाना विषयके उपदेश, जो पाँचे सूत्रपिटकमें संगृहीत हुये, और जो ‘ऐसा मैंने सुना’से शुरु होते हैं । ^२ मिश्रु मिश्रुणियोंके आचार-नियम या प्रातिमोक्ष जो पाँचे विनय-पिटकमें संगृहीत हुये । सूत्रपिटक और विनयपिटकमें अभिघम्म (= अभिधर्म) शब्द धर्म-विषयक (= सूत्र-विषयक) अर्थ में आता है । अभिधर्मपिटक सूत्रोंमें ही आये गंभीर संक्षिप्त दार्शनिक वाक्यावलि (= नाप्रकाश) का लेकर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीके बाद बना है ।

बुराईसे हटाकर, मलाईमें प्रतिष्ठित नहीं कर सकता । भिक्षुओ ! इस प्रकारके पुद्गलके लिये उपेक्षा करनी चाहिये ।

“भिक्षुओ ! इस प्रकार ० विवाद-रहित हो, अभ्यास करते यदि परस्पर वचनका अन्तर पड़ जाये, समझमें फर्क पड़ जाये, या चित्तमें आघात (= बुरा भाव), अ-विश्वास, असंतोष (उन्पन्न हो जाये); तो यहाँ पहिले पक्षवालेमें जिस भिक्षुको सु-वच-तर समझे, उसे जाकर कहे— ‘आवुस ! ० विवाद-रहित हो, अभ्यास करते जो हम लोगोंका परस्पर वचनका अन्तर पड़ गया, ० उसको जाननेवाला निन्दा करेगा न ?’ ठीकसे उत्तर देते हुये उस (सु-वच-तर) भिक्षुको कहना चाहिये—‘आवुस ! ०, ० जो हमलोगोंका परस्पर वचनका अन्तर पड़ गया ०, उसको जाननेवाला निन्दा करेगा । ‘आवुस ! इस धर्म (= वात, दोष)को छोड़े विना निर्वाणका साक्षात्कार किया जा सकता है ?’ ठीकसे उत्तर देते हुये उस भिक्षुको कहना चाहिये—‘आवुस ! इस धर्मको छोड़े विना निर्वाणका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता ।’ फिर दूसरे पक्षवालोंमें जिस भिक्षुको सु-वच-तर समझे, उसे जाकर कहे—०^१ इस धर्मको छोड़े विना निर्वाणका साक्षात्कार नहीं किया सकता ।

“भिक्षु ! उस (मेलजोल करानेवाले) भिक्षुको यदि दूसरा यह पूछे—‘आयुष्मान्ने इन भिक्षुओंको बुराईसे हटाकर मलाईमें प्रतिष्ठित किया ?’ तो यथार्थ उत्तर देते हुये वह भिक्षु यह कहे—‘आवुस ! मैं जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । भगवान्ने सुझे धर्म उपदेशा । उस धर्मको सुनकर, मैंने उन भिक्षुओंसे कहा । उस धर्मको सुनकर वह भिक्षु बुराई छोड़, मलाईमें प्रतिष्ठित हुये । भिक्षुओ ! इस प्रकार उत्तर देते हुये वह भिक्षु न अपनेको श्लाघेगा, न दूसरेको निन्देगा, धर्मके अनुसार ही उत्तर देगा, और न किसी धर्मानुसारी वादानुवादमें वह निन्दाका पात्र होगा ।’ भगवान्ने यह कहा, सन्नुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के मापणको अभिनन्दित किया ।

^१ पहिले पक्षवालोंके लिये कहे जैसा ही ।

१०४—सामगाम-सुचन्त (३।१।४)

बुद्धके मूल उपदेश । सर्वमें विवाद होनेका कारण । सात प्रकारके फैसले । मेल-जोलका ढङ्ग
ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् शाक्य (देवा)में, सामगाममें विहार करते थे ।

उस समय निगंठ नात-पुत्त (= जैन तीर्थङ्कर महावीर) अभी अभी पावामें मरे ^१ थे । उनके मरनेपर निगंठ (= जैन साधु) लोग दो भाग हो, भंडन = कलह = विवाद करते, एक दूसरेको मुखरूपी शक्तिसे छेदते विहार रहे थे—‘तू इस धर्म-विनय (= धर्म)को नहीं जानता, मैं इस धर्म-विनयको जानता हूँ’ । ‘तू क्या इस धर्म-विनयको जानेगा, तू मिथ्यारूढ़ है, मैं सत्यारूढ़ हूँ’ । ‘मेरा (कथन अर्थ-)सहित है, तेरा अ-सहित है’ । ‘तूने पूर्व बोलने (की बात)को पीछे बोला; पीछे बोलने (की बात)को पहिले बोला’ । ‘तेरा (वाद) विना-विचारका उलटा है’ । ‘तूने वाद रोपा, तू निग्रह-स्थानमें आ गया’ । ‘जा वादसे छूटनेके लिये फिरता फिर’ । ‘यदि सकता है तो समेट’ । नातपुत्तीय निगंठोंमें मानों युद्ध (= बध) ही हो रहा था ।

निगंठके श्रावक (= शिष्य) जो गृही श्वेत वस्त्रधारी, (थे) वह भी नात-पुत्तीय निगंठोंमें (वैसे ही) निर्विण्ण = विरक्त = प्रतिवाण-रूप थे, जैसे कि (नात-पुत्तके) दुर्भाष्यात (= ठीक से न कहे गये), दुष्प्रवेदित (= ठीकसे न साक्षात्कार किये गये), अनैर्वाणिक (= पार न लगाने-वाले), अन्-उपशम-संवर्तनिक (= न-शांति-गामी), अ-सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेदित (= किसी बुद्धमें न जाने गये), प्रतिष्ठा (= नींव)-रहित = भिक्षु-स्वरूप, आश्रय-रहित धर्म-विनयमें (थे) ।

तब ^२ सुन्द समणुद्देश पावामें वर्षावास कर, जहाँ सामगाम था, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर चैठे सुन्द श्रमणोद्देशने आयुष्मान् आनन्दसे कहा—

“भन्ते ! निगंठ नातपुत्त अभी अभी पावामें मरे हैं । उसके मरनेपर ० नात-पुत्तीय निगंठोंमें मानों युद्ध ही हो रहा है । ० आश्रय-रहित धर्म-विनयमें (थे) ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने सुन्द श्रमणोद्देशसे कहा—

“आवुस सुन्द ! भगवान्के दर्शनके लिये यह घात भेंट-रूप है । जाओ आवुस सुन्द !

^१ अ. क. “यह नात-पुत्त तो नालन्दा-वासी था, वह कैसे क्यों पावामें मरा ? सत्य-जामी उपालि गृहपतिके दश गाथाओंसे भाषित बुद्ध गुणोंको सुनकर, उसने गर्म खून फेंक दिया । तब अस्वरथ ही उसे पावा ले गये । वह वहाँ मरा ।”

^२ अ. क. “यह स्थविर धर्मसेनापति (= सारिपुत्र)के छोटे भाई थे । उपसम्पन्न न होनेके समय भिक्षु लोग उनको सुन्द समणुद्देश कहा करते थे, स्थविर ही जानेपर भी वही कहते रहे ।”

जहाँ भगवान् हैं, वहाँ चलें । चलकर यह बात भगवान्को कहें ।” — “अच्छा भन्ते !”.....

तब आयुष्मान् आनन्द और चुन्द श्रमणोद्देश जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! यह चुन्द समणुद्देश ऐसा कह रहे हैं—‘भन्ते ! निगंठ नातपुत्त अभी अभी पावामें मरे हैं ० ।’ तब भन्ते ! मुझे ऐसा होता है, भगवान्के वाद भी (कहीं) संघमें ऐसा ही विवाद मत उत्पन्न हो । वह विवाद बहुत जनोके अहितके लिये, बहुत जनोके असुखके लिये, बहुत जनोके अनर्थके लिये, देव मनुष्योके अहित और दुःखके लिये (होगा) ।”

“तो क्या मानते हो आनन्द ! मैंने साक्षात्कार कर जिन धर्मोंका उपदेश किया, जैसे कि—(१) चार स्मृति प्रस्थान, (२) चार सम्यक् प्रधान, (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पाँच इन्द्रियाँ, (५) पाँच बल, (६) सात बोध्यंग, (७) आर्य आष्टांगिक मार्ग । आनन्द ! क्या इन धर्मोंमें दो मिश्रुओंका भी अनेक मत (दीखता) है ?”

“भन्ते ! भगवान्ने जो यह धर्म साक्षात्कार कर उपदेश किये हैं, जैसे कि—(१) चार स्मृति-प्रस्थान ० । इन धर्मोंमें भन्ते ! मैं दो मिश्रुओंका भी अनेक मत नहीं देखता । लेकिन भन्ते ! जो पुद्गल भगवान्के आश्रयसे विहरते हैं, वह भगवान्के न रहनेके बाद, संघमें आजीव (= जीविका)के विषयमें, प्रातिमोक्ष (= मिश्रु नियम)के विषयमें विवाद पैदा कर सकते हैं, वह विवाद बहुत जनोके अहितके लिये, बहुत जनोके असुखके लिये, बहुत जनोके अनर्थ = अहितके लिये, देव-मनुष्योके ० दुःखके लिये होगा ।”

“आनन्द ! जो यह आजीवके विषयमें या प्रातिमोक्षके विषयमें विवाद है, वह अल्प-मात्रक (= छोटा) है । मार्ग या प्रतिपदके विषयमें यदि संघमें विवाद... उत्पन्न हो, वह विवाद ० अहितके लिये ० । आनन्द ! यह छः विवादके मूल हैं । कौनसे छः ? आनन्द ! यहाँ मिश्रु (१) क्रोधो, पाखंडी (= उपनाही) होता है । जो मिश्रु आनन्द । क्रोधो उपनाही होता है, वह शास्ता (= गुरु)में गौरव-रहित, आश्रय-रहित हो विहरता है, धर्ममें भी ०, संघमें भी ०, शिक्षा (= मिश्रु-नियम)में त्रुटि करनेवाला होता है । जो मिश्रु आनन्द ! शास्तामें ० गौरव-रहित ०, शिक्षामें त्रुटि करनेवाला होता है, वही संघमें विवाद पैदा करता है । वह विवाद बहुत जनोके अहितके लिये ० होता है । इसलिये आनन्द ! इस प्रकारके विवाद-मूलको यदि तुम अपनेमें या दूसरेमें देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-मूलके विनाशके लिये प्रयत्न करना । ० यदि ० यदि ० देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-मूलको, भविष्यमें न होने देनेके लिये उपाय करना, इस प्रकार इस पापी विवाद-मूलकी भविष्यमें अनुत्पत्ति होगी । (२) और फिर आनन्द ! मिश्रु, सर्पी, पलासी होता है, जो मिश्रु आनन्द ! सर्पी ० । (३) ईर्ष्यालु, मत्सरी ० । (४) शठ, मायावी ० । (५) ० पापेच्छु (= वद-नीयत), सिष्या-दृष्टि ० । (६) दृष्टि-परामर्षी, आधान-ग्राही ० । आनन्द ! यदि अपनेमें या दूसरेमें इस प्रकारके विवाद-मूलको देखना, वहाँ आनन्द ! तुम इस पापी विवाद-मूलके विनाशके लिये प्रयत्न करना, ० इस पापी विवाद-मूलकी भविष्यमें अनुत्पत्तिके लिये उपाय करना, इस प्रकार इस पापी (= दुष्ट) विवाद-मूलका प्रहाण (= विनाश) होता है; इस प्रकार ० इस पापी विवाद-मूलकी भविष्यमें अनुत्पत्ति होती है । आनन्द ! यह छः विवाद-मूल हैं ।

“आनन्द ! यह चार अधिकरण हैं । कौनसे चार ? ^१ (१) विवाद-अधिकरण, (२)

^१ तुलना करो चुल्लवग्ग ४ (समय-बंधक) देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ४८३-८४ टि० ।

अनुवाद-अधिकरण, (३) आपत्ति-अधिकरण, (४) कृत्य-अधिकरण ।

“आनन्द ! यह सात अधिकरण-शमथ हैं, जिन्हें तव तव (= समय समयपर) उत्पन्न हुये अधिकरणों (झगड़ों)के शमथ = उपशम (शांति)के लिये देना चाहिये—(१) संमुख-विनय देना चाहिये, (२) स्मृति-विनय ०, (३) अ-मूढ़-विनय ० । (४) प्रतिज्ञात-करण, (५) यद्भूयसिक, (६) तत्पापीयसिक, (७) तिणवत्चारक ।”

(१) “आनन्द ! संमुख विनय कैसे होता है ?...आनन्द ! मिश्रु विवाद करते हैं, धर्म है या अधर्म, विनय है या अविनय । आनन्द ! उन सभी मिश्रुओंको एक जगह एकत्रित होना चाहिये । एकत्रित हो धर्म (रूपी) रस्तीका (ज्ञानसे) परीक्षण करना चाहिये, जैसे वह शांत हो, वैसे उस अधिकरण (= झगड़े)को शांत करना चाहिये । इस प्रकार आनन्द ! संमुख-विनय होता है, इस प्रकार संमुख-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं अधिकरणोंका शमन होता है ।

(२) “कैसे आनन्द ! स्मृति-विनय होता है ? यहाँ आनन्द ! मिश्रु मिश्रुपर पाराजिक या पाराजिक-समान (= सामन्तक) आपत्ति (= दोष)का आरोप करते हैं—‘स्मरण करो आवुस ! तुम पाराजिक या पाराजिक-समान, ऐसी बड़ी (= गुरुक) आपत्तिसे आपन्न हुये, वह ऐसा उत्तर देता है—आवुस ! मुझे याद (= स्मृति) नहीं कि मैं ० ऐसी गुरुक-आपत्तिसे आपन्न हूँ । उस मिश्रुको आनन्द ! स्मृति-विनय देना चाहिये । इस प्रकार आनन्द ! स्मृति-विनय होता है । इस स्मृति विनयसे भी किन्हीं किन्हीं झगड़ोंका निघटारा होता है ।

(३) “आनन्द ! अमूढ़-विनय कैसे होता है ? यहाँ आनन्द ! मिश्रु मिश्रुपर गुरुक-आपत्तिका आरोप करता है ! वह ऐसा उत्तर देता है—‘आवुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि मैं ० आपत्तिसे आपन्न हूँ । तव वह छोडते हुयेको लपेटता है—‘तो आयुष्मान् ! अच्छी तरह वृषो, क्या तुम स्मरण करते हो, कि तुम ० ऐसी ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?’ वह ऐसा उत्तर देवे—‘मैं आवुस ! पागल हो गया था, मति-भ्रम (हो गया था,), उन्मत्त हो मैंने बहुतसा श्रमण-विरुद्ध आचरण किया, भाषण किया, मुझे वह स्मरण नहीं होता । मूढ़ (= वेहोश) हो, मैंने वह किया । उस मिश्रुको आनन्द ! अमूढ़-विनय देना चाहिये । इस अमूढ़-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं झगड़ों का निघटारा होता है ।

(४) “आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण कैसे होता है ?...आनन्द ! मिश्रु आरोप करनेपर या आरोप न करनेपर भी आपत्ति (= दोष)को स्मरण करता है, खोलता है, स्पष्ट करता है । उस मिश्रुको (अपनेसे) वृद्धतर मिश्रुके पास जाकर, चीवरको एक (पायें) कंधेपर करके, पाद-वंदनाकर, उकड़ूँ वैठ हाथ जोड़, ऐसा कहना चाहिये—‘मन्ते ! मैं इस नामकी आपत्तिसे आपन्न हुआ हूँ, उसकी मैं प्रतिदेशना (= निवेदन) करता हूँ’ । वह (दूसरा मिश्रु) ऐसा कहे—‘देखते हो (उस दोषको) ? ‘देखता हूँ’ । ‘आगेसे (इन्द्रिय-) रक्षा करना’ ।—‘रक्षा करूँगा’ । इस प्रकार आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण (= स्वीकार=Confession) होता है । ० ।

(५) “आनन्द ! यद्भूयसिक कैसे होता है ?—आनन्द ! यदि वह मिश्रु उन अधिकरणको उस आवास (= मठ)में शांत न कर सकें । तो आनन्द ! उन सभी मिश्रुओंको जिस आवास में अधिक मिश्रु हैं, उसमें जाना चाहिये । वहाँ सबको एक जगह एकत्रित होना चाहिये । एकत्रित हो धर्म-नेत्री (= धर्म-रूपी रस्ती)का समनुमार्जन (= परीक्षण) करना चाहिये । धर्म-नेत्रीका समनुमार्जन कर ० ।

(६) “आनन्द ! तत्पापीयसिका (= तत्स पापीयसिका) कैसे होती है ? यहाँ आनन्द ! मिश्रु मिश्रुको ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आरोप करते हैं—‘आयुष्मान् स्मरण करो ० तुम ऐसी

गुरुक-आपत्ति आपन्न हुये ?' वह ऐसा उत्तर देता है—'आवुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि मैं ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ ।' उसको छोड़ते हुयेको वह लपेटता है—'आयुप्मान् अच्छी तरह वृक्षो—क्या तुम्हें स्मरण है, कि तुम ० ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?' वह ऐसा उत्तर देवे—'आवुस ! मैं स्मरण नहीं करता कि मैं, ० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हुआ । स्मरण करता हूँ आवुस ! कि मैं इस प्रकारकी छोटी (= अल्पमात्रक) आपत्तिसे आपन्न हुआ ।' खोलते हुये उसको वह फिर लपेटता है—'आयुप्मान् अच्छी तरह वृक्षो ० ?' वह ऐसा उत्तर दे—'आवुस ! मैं इस प्रकार की (= अमुख) छोटी आपत्तिमें आपन्न हुआ, बिना पूछे ही स्वीकार करता हूँ; तो क्या मैं ० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हो पूछनेपर न स्वीकार करूँगा ?' वह ऐसा कहता है—'आवुस ! तुम इस छोटी आपत्तिको भी बिना पूछे नहीं स्वीकार करते, तो क्या तुम ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हो पूछनेपर स्वीकार करोगे ? तो आयुप्मान् ! अच्छी तरह वृक्षो ०'। वह यदि बोले—'आवुस ! स्मरण करता हूँ; मैं ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ हूँ । दवं (= सहसा)से, ख (= प्रमाद) से मैंने यह कहा—'मैं स्मरण नहीं करता, कि मैं ० ऐसी'। इस प्रकार आनन्द ! 'तस्सपापीयसिका' (= उसकी और भी कड़ी आपत्ति) होती है । ऐसे भी यहाँ किन्हीं किन्हीं अधिकरणोंका निवटारा होता है ।

(७) "आनन्द ! 'तिण-वत्थारक' कैसे होता है । आनन्द ! यहाँ भंडन = कलह = विवाद से युक्त हो विहरते (समय), भिक्षु बहुतसे-विरुद्ध आचरण, भाषण, किये होते हैं । उन सभी भिक्षुओंको एकराय हो एकत्रित होना चाहिये । एकत्र हो एक पक्षवालोंमेंसे चतुर भिक्षुको आसन से उठकर चीवरको एक कंधेपर कर हाथ जोड़ संघको ज्ञापित करना चाहिये—

'भन्ते ! संघ सुने, भंडन=कलह = विवादसे युक्त हो विहरते (समय) हमने बहुतसे श्रमण-विरुद्ध आचरण...किये हैं, यदि संघ उचित समझे, तो जो इन आयुप्मानोंका दोष है, और जो मेरा दोष है, इन आयुप्मानोंके लिये भी और अपने लिये भी, मैं तिणवत्थारक (= घाससे ढाँकना जैसा)से वयान करूँ, (लेकिन) स्थूल-वच (= बड़ा दोष), गृही-प्रतिसंयुक्त (= गृहस्थ-संबंधी) छोड़ कर । तव (दूसरे) पक्षवालोंमेंसे चतुर भिक्षुको आसनसे उठकर ० । ० । इस प्रकार आनन्द ! तिणवत्थारक (= तृणसे ढाँकने जैसा) होता है ।

"आनन्द ! यह छः धर्म साराणीय त्रिय-करण, गुरु-करण हैं; संग्रह, अ-विवाद, सामग्री (= एकता) = एकीभावके लिये हैं । कौनसे छः ? (१) आनन्द ! भिक्षुका सग्रह-चारियोंमें, गुप्त भी प्रकट भी, मैत्रीभाव-युक्त काथिक कर्म हो; यह भी धर्म साराणीय ० । (२) और फिर आनन्द ! ० मैत्रीभाव-युक्त वाचिक कर्म ० । (३) ० मैत्रीभावयुक्त मानसकर्म ० । (४) और फिर आनन्द ! जो कुछ भिक्षुको धार्मिक लाभ, धर्मसे लब्ध होते हैं, अन्तमें पात्र चुपड़ने मात्र भी; वैसे लाभोंको बिना बाँटे उपभोग न करनेवाला हो, शीलवान् स-ब्रह्मचारियोंके साथ सह-भोगी हो; यह भी धर्म ० । (५) और फिर आनन्द ! जो वह शील (= आचार) कि अखंड=अ-छिद्र, अ-शवल = अ-कल्मष, सेवनीय, पंडितोंसे प्रशंसित, अ-निन्दित, समाधि-सहायक हैं, वैसे शीलोंमें शील-श्रमण-भावयुक्त हो, गुप्त भी और प्रकट भी सग्रहचारियोंके साथ विहार करता हो; यह भी धर्म ० । (६) और फिर आनन्द ! जो यह दृष्टि (= सिद्धान्त), आर्य है, नैर्याणिक = उसके (अनुमार) करनेवालेको दुःख-क्षयको ले जाती है, वैसी दृष्टिसे श्रमण-भाव (= विचारोंके श्रमण-पन)से युक्त हो; गुप्त भी, और प्रकट भी सग्रहचारियोंके साथ विहार करता हो; यह भी धर्म ० । आनन्द ! यह छः धर्म साराणीय ० हैं ।

मगवान्ने यह कहा ; संतुष्ट हो आयुप्मान् आनन्दने मगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

१०५—सुनकवत्त-सुत्तन्त (३।१।५)

ध्यान । चित्त-संयम

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कूटागारशालामें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे भिक्षुओंने भगवान्के पास (अपनी) आज्ञा (= निर्वाण-प्राप्ति) यखानी थी—‘जन्म (= आवागमन) खतम हो गया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा होगया, करना था सो कर लिया, और कुछ करनेको यहाँ (वाकी) नहीं है—यह मैं जानता हूँ ।’

सुनकवत्त (= सुनक्षत्र) लिच्छवि-पुत्रने सुना, कि बहुतसे भिक्षुओंने भगवान्के पास आज्ञा यखानी है—० । तब सुनकवत्त लिच्छवि-पुत्र, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सुनकवत्त ० ने भगवान्मे यह कहा—

“मन्ते ! मैंने सुना, कि बहुतसे भिक्षुओंने भगवान्के पास आज्ञा यखानी है—० । मन्ते ! जिन भिक्षुओंने भगवान्के पास आज्ञा यखानी है—०; क्या मन्ते ! उन्होंने...ठीक ही आज्ञा यखानी है, या यहाँ कोई कोई भिक्षु (ऐसे भी) हैं; जिन्होंने अभिमानके लिये आज्ञा यखानी है ?”

“सुनकवत्त ! जिन भिक्षुओंने मेरे पास आज्ञा यखानी है—०; (उनमें) हैं ऐसे भिक्षु जिन्होंने ठीक ही आज्ञा यखानी है; हैं (उनमें) ऐसे भिक्षु भी जिन्होंने अभिमान (= अतिमान)के लिये आज्ञा यखानी है । उनमें, सुनकवत्त ! जिन भिक्षुओंने ठीक ही आज्ञा यखानी है, उनका वह (कथन) वैसा ही है; किन्तु, जिन भिक्षुओंने अभिमानके लिये आज्ञा यखानी है; उनके विषयमें तथागतको ऐसा होता है—‘इन्हें धर्म उपदेशूंगा’ ।...और फिर यहाँ, कोई कोई मोघ-पुरुष प्रश्न बनाकर, तथागतके पास आकर पूछते हैं । तब सुनकवत्त ! जो कि तथागतको यह होता रहा—‘इन्हें धर्म उपदेशूंगा’, उसमें भी फर्क पढ जाता है ।”

“भगवान् ! इसीका काल है, सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान् धर्म उपदेशें । भगवान्से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।”

“तो, सुनकवत्त ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा मन्ते !”—(कह) सुनकवत्त लिच्छविपुत्रने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“सुनकवत्त ! यह पाँच कामगुण हैं । कौनसे पाँच ?—(१) इष्ट ०^१ चक्षुर्विज्ञेय रूप, शब्द, ० गंध, ० रस, ० स्पर्शव्य । सुनकवत्त ! यह पाँच काम-गुण हैं । हो सकता है, सुनकवत्त ! यहाँ कोई पुरुष सांसारिक कामका इच्छुक (= लोक-आमिष-अधिसुक्त) हो । सुन-

^१ विस्तारके लिये देखो पृष्ठ १३ ।

क्वत्त ! सांसारिक लामके इच्छुक पुरुष=पुद्गलकी वात उसके अनुरूप ही होती है, उसके अनुरूप ही वह सोचता-विचारता है, वैसे ही पुरुषका सेवन करता है, वैसेहीके साथ संसर्ग रखता है । आर्निज्य (= सुख-दुःखसे परेकी समाधि) संबन्धिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता, नहीं कान देता, न चित्तको उपस्थित करता है, न उस (वैया कहनेवाले) पुरुषको भजता है, न उसके साथ संसर्ग रखता है । जैसे, सुनक्वत्त ! कोई पुरुष अपने गाँवसे या निगमसे चिरकालसे प्रवासी हुआ हो; वह उस ग्राम या निगमसे थोड़ेही दिन पूर्व आये पुरुषको देखे । वह उस पुरुषसे उस ग्राम-निगमका कुशल-मंगल, सुमिश्रता, अरोगता पूछे । उसको वह पुरुष उस ग्राम-निगमकी ० आरोगता बतलावे । तो क्या मानते हो, सुनक्वत्त ! क्या वह (चिरप्रवासी) पुरुष, उस (अचिरप्रवासी) पुरुष (की वात)को सुनना चाहेगा, काम देगा, चित्तको अन्यत्रसे उपस्थित करेगा, उस पुरुषको भजेगा, उस पुरुषके साथ संसर्ग करेगा ?”

“हाँ, मन्ते !”

“ऐसे ही सुनक्वत्त ! सांसारिक लामके इच्छुक पुरुष = पुद्गलकी वात उसके अनुरूपही होती है ० न उसके साथ संसर्ग करता है ।”

“हो सकता है, सुनक्वत्त ! यहाँ कोई पुरुष आर्निज्यका अनुरागी (= अधिमुक्त) । सुनक्वत्त ! आर्निज्य-अनुरागी पुरुषकी कथा उसके अनुरूप होती है ० वैसेहीके साथ संसर्ग रखता है । सांसारिक-लाम-संबन्धिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न उसके साथ संसर्ग रखता है । जैसे, सुनक्वत्त ! ढँपेसे दूदा पीला पत्ता फिर होनेके अयोग्य है; ऐसे ही सुनक्वत्त ! ...आर्निज्य-अनुरागी पुरुष ० के जो सांसारिक-लामके फंदे थे, वह टूट गये । उसे ऐसा कहना चाहिये—आर्निज्यानुरागी पुरुष ० सांसारिक-लामके बंधनोंसे बेलुड़ा है ।

“हो सकता है, सुनक्वत्त ! यहाँ कोई पुरुष आर्किचन्य-आयतन-अनुरागी हो । सुनक्वत्त ! आर्किचन्यायतनानुरागी पुरुषकी कथा उसके अनुरूप होती है ०, आर्निज्य-संबन्धिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न उस (कहनेवाले)के साथ संसर्ग रखता है । जैसे, सुनक्वत्त ! कोई दो टुकड़े हुई शिला न-जुड़नेवाली होती है; ऐसेही सुनक्वत्त ! आर्किचन्यायतनानुरागी पुरुष ० के जो आर्निज्य सम्बन्धी फंदे थे, वह टूट गये । उसे ऐसा समझना चाहिये—‘आर्किचन्यायतनानुरागी पुरुष ० आर्निज्य-बंधनोंसे बेलुड़ा है ।

“हो सकता है, सुनक्वत्त ! ० नैवसंज्ञा-नासंज्ञा-आयतन-अनुरागी हो । ०^१ । जैसे, सुनक्वत्त ! भोजन कर चुका पुरुष मनोन्न भोजनको बमन करदे । तो क्या सुनक्वत्त ! उस पुरुषकी उस उवान्तके खानेकी फिर इच्छा होगी ?”

“नहीं, मन्ते !”

“सो क्यों ?”

“मन्ते ! वह उवान्त घृणाकी चीज है ।”

“ऐसेही, सुनक्वत्त ! नैव संज्ञा-नासंज्ञायतनानुरागी पुरुष ० आर्किचन्यायतनके बंधनोंसे बेलुड़ा है ।

“हो सकता है, सुनक्वत्त ! ० सम्यक्-निर्वाण-अनुरागी हो । ०^२ । जैसे, सुनक्वत्त ! शिर कटा ताड़ फिर बढ़ने लायक नहीं होता । ऐसेही, सुनक्वत्त ! सम्यक्-निर्वाणानुरागी पुरुष ० के जो

^१ पूर्व जैसे ही, सिर्फ आर्निज्यके स्थानपर आर्किचन्यायतन आवेगा ।

^२ पूर्व जैसा ही, नैव-संज्ञा ० के योगसे ।

नैव-संज्ञा-नासंज्ञायतन-सम्बन्धी फंदे थे, वह छिन्न हो गये, उन्मूलित हो गये, शिर-कटे ताड़ जैसे हो गये, अभावको प्राप्त हो गये, अविष्यमें न उगने-लायक हो गये । उसे ऐसा समझना चाहिये—सम्यक्-निर्वाणानुरागी पुरुष ० नैवसंज्ञा-नासंज्ञा-यतनके वंधनोंसे वे-जुडा है ।

“हो सकता है, सुनक्वत्त ! कि किसी भिक्षुको ऐसा हो—‘श्रमण (= बुद्ध) ने तृष्णाको शल्य (= वाणका कर) कहा है, अविद्याको विष-दोष, जो कि छन्द-राग (= लोभ) और व्याप (= द्रोह, द्वेष)से रोपी जाती है । सो उस तृष्णा (रूपी) शल्यको मैंने फेंक दिया अविद्या (रूपी) विष दोषको हटा दिया । वैसा न होते ही मैं सम्यक्-निर्वाण-अनुरागी हूँ—ऐसा माननेवाला (= एवं मानी) हो । और वह, जो धर्म (वातें) कि सम्यक्-निर्वाणानुरागी पुरुषके लिये अ-हित (= अ-सम्पाय) हैं, उनमें लग्न हो; आँखसे अ-हित रूपको देखकर, (उसमें) अनुयुक्त हो’ कानसे अहित शब्दको सुनकर, (उसमें) अनुयुक्त हो; ०; कायासे अहित रम्यद्वयको स्पर्श कर उसमें अनुयुक्त हो; मनसे अहित धर्मको जानकर उसमें अनुयुक्त हो । तब आँखसे अ-हित रूपमें अनुयुक्त होते ०, मनसे अहित धर्ममें अनुयुक्त होते, उसके चित्त राग ध्वस्त करे । वह रागके द्वारा ध्वस्त चित्तसे मरणको प्राप्त हो, या मरण-तुल्य दुःखको ।

“जैसे, सुनक्वत्त ! कोई पुरुष गाढ़े विषके बुझे शल्यसे विंधा हो । उसके चार-दोस्त भाई-बंध शल्यकर्ता भिषक्को ला उपस्थित करें । वह शल्यकर्ता भिषक् शल्यके घावके मुखसे चारों ओर से काटदे, फिर ऐपणी (औजार)से खोजकर शल्यको निकालदे, फिर निःशेष जान किन्तु स-शेष विष-दोषको दूर करे । (फिर) वह (रोगीको) ऐसा कहे—‘हे पुरुष ! तेरा शल्य निकल गया, विष-दोष निःशेषकरके हटा दिया गया; अब तुझे खतरा नहीं । (किन्तु) (१) तू पथ्य (= सम्पाय) भोजनहीको खाना; अ-पथ्य भोजनके खानेसे, कहीं तेरा घाव ग्रहने न लगे । (२) समय समयपर घावको धोना (३) समय समयपर घणके मुखपर लेप करना; समय समयपर घण-मुखके न धोनेसे, समय समयपर घणमुखके न लेप करनेसे, कहीं पीय-लोहू तेरे घण-मुपमें न भर जाये । (४) हवा-धूपमें चलना-फिरना मत; हवा-धूपमें चलने-फिरनेसे कहीं मैल-टूँड तेरे घण-मुख (= घाव)में न चले जायें । हे पुरुष ! (५) घावकी हिफाजत करना, ‘‘१’ (तय) उस (रोगी)को ऐसा हो—‘शल्य निकल गया, विष-दोष निःशेष हट गया । अब मुझे खतरा नहीं ।’ (और) वह अ-पथ्य भोजन खाये । अपथ्य भोजन करनेसे उसका घाव ग्रहने लगे । वह समय समयपर न घावको धोवे, न ० लेप करे । ० न धोवे, ० न लेपनेसे उसकी घावमें पीय-लोहू भर जाये । वह हवा-धूपमें चले-फिरे; ० चलने-फिरनेसे उसकी घावमें मैल-टूँड (= रज-श्लक) चले जायें । वह न घावकी हिफाजत करे, उसकी इस अ-पथ्य क्रिया, और उस सशेष-विष-दोषापनयन—इन दोनोंसे घाव भारी हो जाये । वह घावके भारी होनेसे मरणको प्राप्त होवे, या मरण-तुल्य दुःखको । ऐसे ही सुनक्वत्त ! होसकता है किसी भिक्षुको ऐसा हो—श्रमणने तृष्णाको शल्य कहा है ०^१ वह रागद्वारा ध्वस्त चित्तसे मरणको प्राप्त हो, या मरण-तुल्य दुःखको ।

“हो सकता है, सुनक्वत्त ! कि किसी भिक्षुको ऐसा हो—‘श्रमणने तृष्णाको शल्य कहा है ०^१ वैसा होते—‘मैं सम्यक्-निर्वाण-अनुरागी हूँ—ऐसा समझनेवाला । और वह, जो धर्म कि सम्यक्-निर्वाणानुरागी पुरुषके लिये अहित हैं, उनमें लग्न न हो; आँखसे अहित रूपको देखकर उसमें अनुयुक्त (= लग्न) न हो, ०, मनसे अहित धर्मको जानकर उसमें अनुयुक्त न हो, ० अनुयुक्त न होते उसके चित्तको राग न ध्वस्त करे । वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तसे न मरणको प्राप्त हो,

^१ देखो ऊपर ।

न मरण-तुल्य दुःखको ।

“जैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष गाढे विपमें दुस्रे शल्यसे विंधा हो ०^१ निःशेष जान निःशेष विपदोपको दूर करे; (फिर) वह ऐसा कहे—‘हे पुरुष ! ०^१ घावकी हिफाजत करना, ...’ । वह पथ्य भोजन खाये, पथ्य भोजन खानेसे उसका न वहने लगे; ० पीव-लोहू न मरे; ० घावमें मैल-टूँड़ न जाये । वह घावकी हिफाजत करे । उसकी इस पथ्य-क्रिया और उस निःशेष विपदोपापनयन—इन दोनोंसे घाव न बढे । वह छवि (= ऊपरी चमड़ा)-सहित भरे घावके कारण न मरणको प्राप्त हो, न मरण-तुल्य दुःखको । ऐसेही सुनक्खत्त ! हो सकता है, किसी भिक्षुको ऐसा हो—श्रमणने तृष्णाको शल्य कहा है ०^१ वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तसे न मरणको प्राप्त हो, न मरण-तुल्य दुःखको ।

“सुनक्खत्त ! अर्थ (= वात)को समझानेके लिये मैंने यह उपमा दी है । यहाँ यह अर्थ है—व्रण (= घाव) यह छः आध्यात्मिक (= शरीर संबन्धी) आयतनोंका नाम है । विप-दोप... यह अविद्याका नाम है । शल्य यह...तृष्णाका नाम है । पेषणा यह...स्मृति (= होश रखने) का नाम है । शस्त्र यह...आर्य-प्रज्ञाका नाम है । शल्यकर्ता भिषक् यह...तथागत-अर्हत् सम्यक्-संबुद्धका नाम है ।

“सुनक्खत्त ! जो भिक्षु छः स्पर्शायतनों (= चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मनके (त्रिपयों)में संयमी है, ‘उपाधि (= विषय-संग्रह) दुःखका मूल है’—इसे जान उपधि-रहित हो, उपधिके क्षयसे मुक्त हो गया है, वह उपधिमें कायाको लगायेगा, या चित्तको देगा, यह संभव नहीं । जैसे, सुनक्खत्त ! आवखोरा (= आपानीय-कांस) वर्णवान् (= सुन्दर वर्ण), गंधवान् हो, (किन्तु) विपसे लिप्त हो । तब कोई जीवनका इच्छुक, मरणका अनिच्छुक नहीं, सुखाकांक्षी, दुःख-विरोधी पुरुष आवे । तो क्या मानते हो, सुनक्खत्त ! क्या वह पुरुष उस आवखोरेसे पियेगा । यदि जानता है, कि इससे पीनेसे मैं मरणको प्राप्त होऊँगा, या मरण-तुल्य दुःखको ?”

“नहीं, भन्ते !”

“ऐसे ही, सुनक्खत्त ! जो भिक्षु छः स्पर्शायतनोंमें संयमी है ०^२ वह उपधिमें कायाको लगायेगा, या चित्तको देगा, यह संभव नहीं ।

“जैसे, सुनक्खत्त ! ज़हरीला साँप (= आशीविप) हो । तब कोई जीवनका इच्छुक ० पुरुष आवे । तो क्या मानते हो, सुनक्खत्त ! क्या वह पुरुष उस ज़हरीले (= घोर विप) साँपको अपना हाथ या अँगुली देगा; यदि जानता है, कि इसके डँसनेसे मैं मरणको प्राप्त होऊँगा या मरण-तुल्य दुःखको ?”

“नहीं, भन्ते !”

“ऐसे ही, सुनक्खत्त ! जो भिक्षु छः स्पर्शायतनोंमें संयमी है ०^२ वह उपधिमें कायाको लगायेगा, या चित्तको देगा, यह संभव नहीं ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो, सुनक्खत्त लिच्छविपुत्रने भगवान्के भाषणको अभि-नन्दित किया ।

^१ देखो पृष्ठ ४४७ ।

^२ देखो ऊपर ।

१०६—आर्नैज-सप्पाय-सुत्तन्त (३।१।६)

• भोग निस्तार है

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् कुरु (देश)में, कुरुओंके कम्मासदम्म (= कल्माप-दम्य) नामक निगम (= कस्त्रे)में विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” कह उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! काम (= विषय भोग) अनित्य, सुच्छ-मृषा (झूठा), नाशमान हैं । भिक्षुओ ! यह मायासे बने, बच्चोंके यहलाव हैं । भिक्षुओ ! जो कि यह ऐहिक (= दृष्ट-धर्मों, इस शरीरके) काम हैं, और जो पारलौकिक (सांपरायिक) काम हैं; जो कि ऐहिक काम-संज्ञा (= विषयों का ख्याल) और जो पारलौकिक काम संज्ञा है, यह दोनों मार का फंदा है, मार का विषय है, मार का (फँसानेके लिये फँका) चारा (= निवाप) है, मार का एक गोचर (= लक्ष्य) है । यहाँ यह पापक = अ-कुशल (= बुरे) मनके (भाव) उत्पन्न होते हैं—अभिष्या (= लोभ) भी, व्यापार (= द्वेष) सारम्म (= पोषा) भी; और वह इसे अभ्यास करनेवाले आर्य श्रावकके अन्तराय (= विघ्न) होते हैं ।

(१) “वहाँ भिक्षुओ ! आर्य-श्रावक यह सोचता है—‘जो यह ऐहिक काम हैं ० आर्यश्रावक के अन्तराय होते हैं । क्यों न मैं विपुल = महङ्गत (= विशाल) चित्तसे लोकको अभिभूत (= वश में) कर, मनसे अधिष्ठित कर विहरूँ (इस प्रकार) जो अभिष्या, व्यापाद, सारम्म—मानसिक बुराईयाँ न होंगी । उनके नाश (= प्रहाण)से मेरा चित्त अ-परीत = अ-प्रमाण (= विद्याल), सु-भावित (= सुसंयत) होगा ।’ उसके इस प्रकार संलग्न (= प्रतिपन्न) होने पर, बहुतायतसे इस प्रकार विहरने पर आयतन (= स्थान)में चित्त प्रसन्न होता है । सं-प्रसाद (= पूरी प्रसन्नता, चित्त शुद्धि) होने पर उसी समय वह आर्नैजको प्राप्त होता है, या प्रज्ञाद्वारा मुक्त होता है; और काया छोड़ मरने के बाद, यह जगह (= संभव) है, कि उस प्रकार लग्न विद्यान (= जीवन) आर्नैजको प्राप्त होवे । भिक्षुओ ! आर्नैज-सत्प्राय (= आर्नैज-सप्पाय = आर्नैज-उपयोगी)की यह प्रथम प्रतिपदा (= मार्ग) कही जाती है ।

(२) और फिर भिक्षुओ ! आर्यश्रावक यह सोचता है—‘जो यह ऐहिक काम हैं ० और जो पारलौकिक काम संज्ञा है । जो कुल रूप—चार महाभूत हैं, और चारो महानूतोंको लेकर जो रूप हैं; वह मार का फंदा है ०^१ आर्यश्रावकके विघ्न होते हैं । क्यों न मैं विपुल ० चित्तसे ० विहरूँ ० ।

^१ ऊपर आये जैसा ।

० मेरा चित्त ० सुमापित होगा' । उसके इस प्रकार संलग्न होने पर ० । संप्रसाद होने पर उसी समय वह आनंजको प्राप्त होता है ० । और यह संभव है, कि काया छोड़ मरनेके बाद, इस प्रकार लग्न विज्ञान (= जीवन) आनंजको प्राप्त होवे । भिक्षुओ ! आनंज-सप्पायकी (यह) दूसरी प्रतिपदा कही जाती है ।

(३) और "फिर ० जो पारलौकिक काम-संज्ञा है । जो ऐहिक रूप हैं, जो पारलौकिक रूप है; जो ऐहिक रूप-संज्ञा है, जो पारलौकिक रूप-संज्ञा है । वह दोनों अनित्य हैं । जो अनित्य (= नाशमान) है, उसको अभिनंदित करना, अभिवंदित करना, उचित नहीं ।" उसके इस प्रकार संलग्न होने पर ०, ० । भिक्षुओ ! ० तीसरी प्रतिपदा कही जाती है ।

(१) "और फिर ० जो पारलौकिक काम-संज्ञा ०^१ जो पारलौकिक रूप संज्ञा है, और जो आनंज-संज्ञा (= आनंजपदका ख्याल) यह सारी संज्ञायें (= ख्याल) जहाँ बिल्कुल ही निरुद्ध होती हैं, वह आर्किचन्यायतन शान्त, प्रणीत (= उत्तम) है । उसके इस प्रकार संलग्न होने पर, बहुतायतसे इस प्रकार विहरने पर आयतनमें चित्त प्रसन्न होता है । संप्रसाद होने पर उसी समय वह आर्किचन्यायतनको प्राप्त होता है, या प्रज्ञाद्वारा मुक्त होता है; और (अन्यथा) काया छोड़ मरने बाद, यह जगह है, कि उस प्रकार लग्न विज्ञान (= जीवन) आर्किचन्यायतनको प्राप्त होवे । भिक्षुओ ! आर्किचन्यायतन-सत्प्रायकी प्रथम प्रतिपदा कही जाती है ।

(२) "और फिर भिक्षुओ ! आर्यश्रावक, अरण्य, वृक्षके नीचे या शून्य गृहमें रहते हुये यह सोचता है—'यह (सब संसार) आत्मा या आत्मीयसे शून्य है'—उसके इस प्रकार संलग्न होने पर ०^१ उस प्रकार लग्न विज्ञान आर्किचन्यायतन को प्राप्त होवे । ० दूसरी प्रतिपदा कही जाती है ।

(३) "०—'न मैं कहीं किसीका कुछ हूँ, न मेरा कहीं किसीमें कुछ है' । उसके इस प्रकार संलग्न होने पर ०^१, ० । ० तीसरी प्रतिपदा कही जाती है ।

"और फिर भिक्षुओ ! आर्य श्रावक यह सोचता है—जो कुछ ऐहिक काम है, जो कुछ पारलौकिक काम—है; ० काम-संज्ञा ०; ० रूप ०; ० जो कुछ ऐहिक रूप-संज्ञा है, और जो कुछ पारलौकिक रूपसंज्ञा है, और जो आर्किचन्यायतन-संज्ञा है—यह सारी संज्ञायें जहाँ बिल्कुल निरुद्ध होती हैं, वह नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन शान्त, प्रणीत है । उसके इस प्रकार संलग्न होने पर ० । संप्रसाद होने पर, उसी समय वह नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त होता है, या प्रज्ञाद्वारा मुक्त होता है, (अन्यथा) काया छोड़ मरनेके बाद, संभव है, कि उस प्रकार लग्न विज्ञान नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त होवे । भिक्षुओ ! यह नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन की प्रतिपदा कही जाती है ।"

ऐसा कहने पर आयुष्मान् आनंदने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! यहाँ (कोई) भिक्षु इस प्रकार प्रतिपन्न (= समझनेवाला) है—'न होता, न मेरा होता, न होगा; न मेरा होगा; जो है, जो विद्यमान है, उसे मैं त्यागता हूँ'—इस प्रकार (वह) उपेक्षाको प्राप्त करता है । क्या भन्ते ! ऐसा भिक्षु परिनिर्वायी (= निर्वाण प्राप्त करने वाला है ?"

"आनन्द ! कोई ऐसा भिक्षु निर्वाण प्राप्त कर सकता है । कोई ऐसा भिक्षु नहीं भी... प्राप्त कर सकता है ।"

"भन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कि कोई ऐसा भिक्षु निर्वाण प्राप्त कर सकता है, कोई ऐसा भिक्षु नहीं भी... प्राप्त कर सकता है ?"

“आनन्द ! यहाँ (जो) मिश्रु इस प्रकार प्रतिपन्न है—‘न होता, ०, उसे मैं त्यागता हूँ’—इस प्रकार उपेक्षा को प्राप्त करता है । (तय) जो उस उपेक्षाको अभिनंदित = अभिवंदित करता है, उसमें आसक्त हो रहता है;... (तो) विज्ञान (= चित्त-प्रवाह) उसमें निश्चित (= लिप्त) होता है, उसको उपादान (= ग्रहणकी इच्छा, आसक्ति) करनेवाला होता है । आनन्द ! उसको उपादान करनेवाला मिश्रु निर्वाणको नहीं प्राप्त होता ।”

“मन्ते ! कहाँ वह मिश्रु उपादान (= ग्रहण) करते, उपादान करता है ?”

“आनन्द ! नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको ।”

“मन्ते ! वह उपादान करते भी श्रेष्ठ उपादानको उपादान कर रहा है ।”

“आनन्द ! वह मिश्रु उपादान करते हुये, श्रेष्ठ उपादानको उपादान कर रहा है । आनन्द ! यही श्रेष्ठ उपादान है, जो कि (यह) नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन है । आनन्द ! यहाँ इस प्रकार समझनेवाला होता है—‘न होता, ० उसे मैं त्यागता हूँ’—इस प्रकार वह उपेक्षाको प्राप्त करता है । (किन्तु) वह इस उपेक्षाको अभिनंदित = अभिवंदित नहीं करता, उसमें आसक्त नहीं होता; ...तो विज्ञान उसमें निश्चित (= लिप्त) नहीं होता, उसको उपादान करनेवाला नहीं होता । आनन्द ! उसको उपादान करनेवाला मिश्रु निर्वाणको प्राप्त होता है ।”

“आश्चर्य मन्ते ! अद्भुत ! कारण-कारणसे (= निस्साय) मन्ते ! भगवान्ने हमें ओष-निस्तरण (= संसार-प्रवाहको पार होना) बतलाया । मन्ते ! क्या है आर्य-विमोक्ष ?”

“यहाँ, आनन्द ! आर्यश्रावक यह सोचता है—जो कुछ ऐहिक काम ०, जो आनंज-संज्ञा आर्किचन्यायतन-संज्ञा है, जो नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञा है, यह सत्क्राय है; यहाँ तक सत्क्राय है । उत्पन्न न हो, चित्तका जो विमोक्ष (मोक्ष, छूटना) है, यह अमृत है ।

“आनन्द ! इस प्रकार मैंने आनंज-संप्पाय प्रतिपदा उपदेशी, नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन प्रतिपदा उपदेशी, कारण (कह कह कर) ओष-निस्तरणको उपदेशा, आर्य-विमोक्षको उपदेशा । आनन्द ! जो कुछ अनुकम्पा करके, अनुकम्पक, हितैषी शास्ता (= गुरु)को करना चाहिये, वह मैंने तुम्हारे लिये कह दिया । आनन्द ! यह वृक्ष-मूल (= वृक्षोंकी) छाया है, यह शून्य-गृह है, आनन्द ! (इनमें बैठकर) ध्यान करो, मत प्रमाद (= गफलत) करो; मत पीछे अफसोस करना । तुम्हारे लिये यह हमारी सीख (अनुशासन) है ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनंदने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

१०७—गणक-भोगलान-सुत्तन्त (३।१।७)

क्रमशः धर्ममें प्रगति

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें मृगारमाताके प्रासाद पूर्वोराममें विहार करते थे ।

तब गणक-भोगलान (= मौद्गल्यायन) ब्राह्मण, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्के साथ...संभोदन कर एक थोर बैठा । एक ओर बैठे गणक-भोगलान ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—

“जैसे, भो गौतम ! इस मृगार-माताके प्रासादमें अंतिम सोपानके कलेवरतक क्रमिक (= दर्जे-बदर्जे) शिक्षा, क्रमिक क्रिया, क्रमिक प्रतिपदा (= रास्ता) देखी जाती है । इन ब्राह्मणोंके अध्ययनमें भी, भो गौतम ! क्रमिक शिक्षा ० देखी जाती है । इन धनुर्धरोंके ह्यु-अस्त्रमें भी क्रमिक शिक्षा ० देखी जाती है । हम गणकों = गणनासे जीविका करनेवालोंके संख्यान (= गणन, Account) में भी क्रमिक शिक्षा ० देखी जाती है । हम अन्तेवासी (विद्यार्थी) पाकर पहिले यह गिनवाते हैं—एकका एक, दुक्के दो, तिक्के तीन, चउक्के चार, पँचयें पाँच, छक्के छः, सत्ते सात, अट्टे आठ, नवाई नौ, दहाई दस । भो गौतम ! हम सौ (तक) भी (इसी तरह) गिनवाते हैं । क्या, भो गौतम ! इस (आपके) धर्म-विनय (= धर्म)में भी इसी प्रकार क्रमिक शिक्षा... बतलाई जा सकती है ?”

“बतलाई जा सकती है, ब्राह्मण ! इस धर्म-विनयमें भी क्रमिक शिक्षा ० । जैसे, ब्राह्मण ! चतुर चातुकसवार, उत्तम खेतके (= आजानीय) भद्र अश्वको पाकर पहिले मुँहमें (लगाम) पकड़ानेकी क्रिया (= कारण) सिखलाता है, फिर आगेकी क्रिया बतलाता है; ऐसे ही ब्राह्मण ! तथागत दम्य (= संयत) बनाने लायक पुरुष को पाकर पहिले इस प्रकार सिखाते (= विनय देते) हैं—‘आ, भिक्षु ! तू शीलवान् बन, प्रातिमोक्ष (= भिक्षु-नियम) संवर (संयम) से संयत हो, आचार-गोचर (= सदाचार) से सम्पन्न (= युक्त) हो, अणुमात्र वद्य (= दोष) में मय खाते विहर, शिक्षा-पदों (= भिक्षु-नियमों) को ग्रहणकर (उनका) अभ्यास कर ० ।

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु शीलवान् होता है, ० शिक्षापदोंको स्वीकार कर (उनका) अभ्यास कर लेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते (= ले चलते) हैं—‘आ, भिक्षु ! तू इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार (= संयत-इन्द्रिय) हो—चक्षुसे रूपको देख निमित्तप्राही, अनुव्यंजन-प्राही मत हो ० ^१ चक्षु-इन्द्रियका संवर (= संयम) कर । श्रोत्रसे शब्दको सुन ०, घ्राणसे गंधको सूँघ ०, जिह्वासे रसको चख ०, कायासे स्पृष्टव्यको छू ०, मनसे धर्मको जान ० मन-इन्द्रियका संवर कर’ ।

^१ देखो शृष्ठ १५८ ।

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार हो लेता है; तब उसे तयागत आगेका विनय देते हैं—‘आ, भिक्षु ! तू भोजनमें मात्रा (= परिमाण) का प्याल रखनेवाला बन, ०^१ सुखपूर्वक विहार होवेगा ।’

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु भोजनमें मात्रा हो लेता है; तब उसे तयागत आगेका विनय देते हैं—‘आ, भिक्षु ! तू जागरणमें तत्पर हो ०^१ अन्तिम याममें उठकर टहलने बैठने या (अन्य) आचरणीय धर्मोंसे चित्तको शुद्ध कर’ ।

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु जागरणमें तत्पर हो लेता है; तब उसे तयागत आगेका विनय देते हैं—‘आ, भिक्षु ! तू स्मृति^१ संप्रजन्य^१ से संयुक्त हो; आने-जानेमें ०^१ धोलने, चुप रहनेमें संप्रजानकारी हो’ ।

“०—‘आ, भिक्षु ! तू एकान्तमें—०^२ वासकर ० । विचिन्तित्तासे चित्तको शुद्ध करता है । वह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे हटा ०^३ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ।

“ब्राह्मण ! जो भिक्षु शैक्ष्य (= जिन्हें अभी सीखना बाकी है, जो अभी निर्वाणको नहीं प्राप्त हुये), मनकी (शुद्ध-अवस्था)को न-प्राप्त हैं, जो अनुपम योग-क्षेम (= निर्वाण)की इच्छासे विहार रहे हैं, उनके लिये मेरी सीख इस प्रकार होती है; और जो भिक्षु अर्हत् क्षीणाश्रय (= चित्त-मल-विमुक्त), (ब्रह्मचय-) वास-पूरा कर चुके, कृत-कृत्य, भार-मुक्त, सद्-अर्थ (= निर्वाण)-प्राप्त, मव-बंधन-विहीन, ठीकसे-जानकर-मुक्त हैं; उनके लिये यह धार्तं (धर्म) इसी शरीरमें सुख पूर्वक विहारके लिये, तथा स्मृति-संप्रजन्य (= होश-चेत) के लिये है ।”

पेसा कहनेपर गणक मोगलान ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—

“क्या आप गौतमके श्रावक (= शिष्य) आप गौतमके इस प्रकार अश्रवाद = अनुशासन (= उपदेश) करनेपर सभी अत्यन्त-निष्ठावाले निर्वाणको आराधन करते हैं, या कोई कोई नहीं आराधन करते ?”

“ब्राह्मण ! मेरे कोई कोई श्रावक, ० अनुशासन करने पर अत्यन्त निष्ठावाले निर्वाणको आराधन करते हैं, कोई कोई नहीं भी आराधन करते ।”

“भो गौतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो निर्वाणके रहते, निर्वाण-नामो प्रतिपदा (= मार्ग)के रहते, आप गौतम (जैसे) (मार्ग-) देष्टा रहते भी, कोई कोई आप गौतमके श्रावक ० अनुशासन करने पर भी, ० निर्वाणको आराधन करते हैं, और कोई कोई नहीं आराधन करते ?”

“तो, ब्राह्मण ! तुझे ही पूछता हूँ; जैसा तुम्हें ठीक मालूम हो, वैसे इसका उत्तर दो । तो क्या मानते हो, ब्राह्मण ! राजगृहको जानेवाले मार्गसे तुम सुपरिचित हो न ?”

“हाँ, भो ! मैं राजगृह-गामी मार्गसे सुपरिचित हूँ ।”

“तो क्या मानते हो, ब्राह्मण ! यहाँ कोई राजगृह जाने वाला पुरुष आवे; और तुम्हारे पान आकर यह कहे—‘भन्ते ! मैं राजगृह जाना चाहता हूँ, सो मुझे राजगृहका मार्ग पतलाइये ।’ तब उसे तुम यह पतलाओ—‘हे पुरुष ! यह मार्ग राजगृहको जाता है, इससे थोड़ा जाओ । इससे थोड़ा जाकर असुक नामवाला गाँव देखोगे । वहाँसे थोड़ा (आगे) जाओ; ... थोड़ा जाकर, असुक नामवाला गाँव देखोगे । वहाँसे थोड़ा (आगे) जाओ; ... थोड़ा जाकर, राजगृहके आराम-सौन्दर्य, वन-सौन्दर्य, भूमि-सौन्दर्य, पुष्करिणी-सौन्दर्यको देखोगे’ । वह तुम्हारे पेसा कहने, पेसा उपदेशने पर

^१ देखो पृष्ठ १५८ ।

^२ देखो पृष्ठ ९३ ।

^३ देखो पृष्ठ १५ ।

कुरास्ता पकड़ पीछेकी ओर चला जाये । फिर दूसरा राजगृह जानेवाला पुरुष आवे; और तुम्हारे पास आकर यह कहे—‘भन्ते ! ०’ । ०—‘हे पुरुष ! ० पुष्करिणी सौंदर्यको देखोगे’ । वह तुम्हारे ऐसा कहने ० पर स्वस्ति पूर्वक राजगृह चला जाये । ब्राह्मण ! क्या हेतु है, क्या प्रन्त्यय है, जो राजगृहके रहते, राजगृह-गामी मार्गके रहते, तुम (जैसे) (मार्ग-) देष्टाके रहते, तुम्हारे द्वारा इस प्रकार उपदेशित = अनुशासित होनेपर भी एक पुरुष कुरास्ता पकड़ पीछेकी ओर चला जाता है; और दूसरा स्वस्ति पूर्वक राजगृह पहुँच जाता है ?”

“भो गौतम ! यहाँ मैं क्या कहूँ ? भो गौतम ! मैं तो मार्ग बतलानेवाला (= मार्ग-क्यायी) हूँ ।”

“ऐसे ही, ब्राह्मण ! निर्वाणके रहते, निर्वाणगामिनी प्रतिपदाके मेरे (जैसे) (मार्ग-) देष्टाके रहते भी, कोई कोई मेरे श्रावक ० अनुशासन करने पर भी, ० निर्वाणको आराधन करते हैं, और कोई कोई नहीं आराधन करते । ब्राह्मण ! यहाँ मैं क्या कहूँ ? ब्राह्मण ! तथागत तो मार्ग बतलानेवाले हैं ।”

ऐसा कहनेपर गणक भोगलान ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—

“भो गौतम ! जो पुद्गल (= पुरुष) कि हैं—अश्रद्धालु, शंशयात्मा (= विचिकित्स), श्रद्धापूर्वक-घरसे-बेघर हो-न-प्रव्रजित, शठ = सायावी, कैटुमी (= ढोंगी), उद्धत = उन्नत, चपल, सुखर, असंयत-भापी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनमें अ-मात्रा-ज्ञ, जागरणमें न-तत्पर, श्रामण्य (= भिक्षुके कर्त्तव्य)के-अनिच्छुक, शिक्षा (= भिक्षु-नियम)में-गौरव-रहित, वाहुलिक (= बटोरू) =साथलिक, भागनेमें पहिले होनेवाले, प्रविवेक (= एकान्त चिन्तन)में जूआ-फँक-देनेवाले, कुसीदी (= आलसी), हीनवीर्य (= अनुद्योगी), सुपित-स्मृति (= बे-होश), अ-संप्रजान (= अचेत), अ-समाहित = भ्रान्त-चित्त, दुष्प्रज्ञ, एड-मूक (= भेड और गूँगे जैसे); उनके साथ आप गौतम निवास नहीं करते । और जो कुल-पुत्र कि हैं—श्रद्धापूर्वक घरसे-बेघर हो-प्रव्रजित, अ-शठ=अ-सायावी, अ-कैटुमी, अन्-उद्धत=अन्-उन्नत, अ-चपल, अ-सुखर, संयत-भापी, संयत-इन्द्रिय, भोजनमें-मात्रा-ज्ञ, जागरणमें-तत्पर, श्रामण्यके-इच्छुक, शिक्षामें-तीव्र-गौरव-युक्त, न-वाहुलिक = न-साथलिक, भागनेमें—जूआ फँक-देनेवाले, प्रविवेकमें-पहिले-होनेवाले, आरब्ध-वीर्य (= उद्योगी), प्रहितात्मा (समाहित), उपस्थित-स्मृति (= होशवाले), सम्प्रजान (= स-चेत), समाहित=एकाग्रचित्त, प्रज्ञावान्, अन्-एड-मूक; उनके साथ आप गौतम निवास करते हैं ।

“जैसे, भो गौतम ! जितने मूल-गंध (= जड़ोंमें होने वाले सुगंधित द्रव्य) हैं, कालानु-सारिक (= खल) उनमें सर्वश्रेष्ठ है; जितने सार-गंध (= सारमें होनेवाले सुगंधित द्रव्य) हैं, लोहित-चन्दन (= लाल चंदन) उनमें सर्वश्रेष्ठ है; जितने पुष्प-गंध हैं, वार्षिका (= जूही) उनमें सर्वश्रेष्ठ है; ऐसे ही आप गौतमका वाद (= मत) आजकलके दूसरे वादोंमें सर्वश्रेष्ठ है ।

“आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य ! भो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा करदे ०’ आप गौतम आजने सुझे अंजलिबद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार करें ।”

१०८—गोपक-मोगलान-सुत्तन्त (३।१।८)

बुद्धके बाद भिक्षुओंका मार्ग देखा

ऐसा मैंने सुना—

एक समय—भगवान्‌के परिनिर्वाणके थोड़ेही समय बाद, आयुष्मान् आनन्द राजगृहमें वेणुवज कलन्दक-निवापमें विहार करते थे ।

उस समय मगधराज अजातशत्रु चैदेहिपुत्र, राजा प्रद्योतके भयसे नगरको सुरक्षित कर रहा था । तब आयुष्मान् आनन्द पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र-चीवरले राजगृहमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—राजगृहमें भिक्षाचारके लिये अभी बहुत सवेरा है; क्यों न मैं, जहाँ गोपक मोगलान (= मौद्गल्यायन) ब्राह्मणकी खेती (= कर्मान्त) है, जहाँ गोपक मोगलान ब्राह्मण है, वहाँ चले । तब आयुष्मान् आनन्द, जहाँ गोपक मोगलान ब्राह्मण ० था, वहाँ गये । गोपक मोगलान ब्राह्मणने दूरसे ही आयुष्मान् आनन्दको धाते देखा । देख कर आयुष्मान् आनन्दसे यह बोला—

“आइये, आप आनन्द; स्वागत है, आप आनन्दका । चिरकालके बाद आप आनन्दका यहाँ आना हुआ । आप आनन्द बैठिये, यह आसन बिछा है ।”

आयुष्मान् आनन्द बिछे आसनपर बैठ गये । गोपक मोगलान ब्राह्मण भी एक नीचे आसनको लेकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे गोपक मोगलान ब्राह्मणने आयुष्मान् आनन्द से यह कहा—

“भो आनन्द ! क्या आप सयमें एक भिक्षु भी (कोई) ऐसा है, जो कि सारेके सारे, मय तरहसे सारे उन धर्मों (= गुणों)से युक्त हो, जिनसे संयुक्त कि आप गौतम अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध थे ?”

“नहीं, ब्राह्मण ! हममें एक भिक्षु भी ऐसा (नहीं) है, जो कि सारेके सारे ० जिनसे संयुक्त कि वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध थे । ब्राह्मण वह भगवान् अनुत्पन्न मार्गके उरपादक, न-जानने मार्गके जाननहार, अन-आख्यात (= न कहे) मार्गके आख्याता, मार्गज्ञ, मार्ग-विद्, मार्ग-कोविद् थे । पीछेसे आये आजकलके श्रावक (= बुद्ध-शिष्य) मार्ग-अनुगामी हो विहर रहे हैं ।”

आयुष्मान् आनन्द और गोपक मोगलान ब्राह्मणके बीच यह कथा चल रही थी, कि उती समय मगध-महामात्य चस्सकार (= चर्षकार) ब्राह्मण राजगृहमें होते (सैनिक तैयारीके) कामों की देख भाल करते जो गोपक मोगलान ब्राह्मणका कर्मान्त (= स्वकार-वार) था, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् आनन्दके साथ...संभोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे ० चर्षकार ब्राह्मणने आयुष्मान् आनन्दसे यह कहा—

“भो आनन्द ! किस बातको करते आप लोग बैठे थे, आप दोनोंमें क्या बात चल रही थी ?”

“ब्राह्मण ! अभी सुझेसे गोपक भोगलान ब्राह्मण पूछ रहा था—‘भो आनन्द ! क्या एक भिक्षु भी ० संबुद्ध थे ?’ ऐसा पूछने पर, ब्राह्मण ! मैंने गोपक भोगलान ब्राह्मणसे यह कहा—‘नहीं, ब्राह्मण ! ० आजकलके श्रावक मार्ग-अनुगामी हो विहर रहे हैं’ । ब्राह्मण ! गोपक भोगलान ब्राह्मणके साथ हमारी यह कथा चल रही थी, कि तुम पहुँचे ।”

“भो आनन्द ! क्या आप सबमें एक भिक्षुको भी उन आप गौतमने (यह कह) स्थापित किया है—‘मेरे बाद यह तुम्हारा प्रतिशरण (= आश्रयदाता) होगा’ जिसका कि इस समय आप लोग अनुसरण करते हैं ?”

“नहीं, ब्राह्मण ! उन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धने एक भिक्षुको भी नहीं स्थापित किया—‘मेरे बाद यह तुम्हारा प्रतिशरण होगा, जिसका कि इस समय हम अनुसरण कर रहे हों ।”

“भो आनन्द ! क्या आपमें एक भिक्षु भी ऐसा है, जो संघसे सम्मत हो, बहुतसे स्थविर भिक्षुओं द्वारा (यह कह कर) स्थापित किया गया हो—‘भगवान्के बाद यह हमारा प्रतिशरण होगा’; जिसका कि इस समय आप लोग अनुसरण करते हों ?”

“नहीं, ब्राह्मण ! एक भिक्षु भी ऐसा (नहीं) है, जो संघसे ० जिसका कि इस समय हम अनुसरण कर रहे हों ।”

“भो आनन्द ! इस प्रकार प्रतिशरण-रहित होने पर एकता (= सामग्री) का क्या हेतु है ?”

“ब्राह्मण ! हम प्रतिशरण-रहित नहीं हैं; ब्राह्मण ! हम धर्म-प्रतिशरण (= धर्म है शरण जिनका) हैं ।”

“भो आनन्द !—‘आप सबमें एक भिक्षुको भी उन आप गौतमने स्थापित किया है ० ?’—पूछनेपर—‘नहीं, ब्राह्मण ! ०’ ।—कहते हो । ‘भो आनन्द !—‘० एक भिक्षु भी ० संघसे सम्मत ० ?’—पूछने पर—‘नहीं, ब्राह्मण ! ०’ ।—कहते हो । ‘भो आनन्द ! ० प्रतिशरण-रहित ० ?’—पूछने पर—‘० हम धर्म-प्रतिशरण हैं’—कहते हो । भो आनन्द ! आपके इस कथनका अर्थ कैसे समझना चाहिये ?”

“ब्राह्मण ! उन जाननेवाले ० भगवान् ० ने भिक्षुओंके शिक्षाप्रद (= नियम)को प्रज्ञापन किया है, प्रातिमोक्ष कथित किया है । सो प्रत्येक उपोसथ (= अमावास्या, पूर्णिमा)को, हम जितने (भिक्षु) एक गाँव-खेतके पास विहरते हैं, वह सब एक जगह एकत्रित होते हैं, एकत्रित हो...उस (प्रातिमोक्ष)को अध्ययन (= पाठ) करते हैं । उसके पाठ करते समय यदि किसी भिक्षुसे कोई आपत्ति (= पाप)-न्यातिक्रम (= क्रूर) हुआ रहता है, तो उसका (प्रतीकार) धर्मके अनुसार, शास्ति (= उपदेश)के अनुसार कराते हैं । हम नहीं कराते, धर्म (प्रतीकार) कराता है ।”

“भो आनन्द ! क्या इस समय एक भिक्षु भी आप सबने ऐसा है, जिसका आप सब सत्कार = गुरुकार, मानन = पूजन करते हों । सत्कार = गुरुकार करके उसके समीप विहार करते हों ?”

“है, ब्राह्मण ! ऐसा एक भिक्षु, जिसका हम सत्कार ० करके उसके समीप विहार करते हों”

“भो, आनन्द !—‘आप सबमें एक भिक्षुको भी ०^१ हम धर्म-प्रतिशरण हैं’—कहते हो ।
—‘भो आनन्द ! क्या ० एक भिक्षु भी ० ऐसा है, जिसका आप सय सत्कार ० करके, उसके
समीप विहार करते हैं ?—पूछने पर—है ० ऐसा एक भिक्षु ०,—कहते हैं । भो आनन्द ! आपके
इस कथनका अर्थ कैसे समझना चाहिये ?”

“ब्राह्मण उन ० भगवान् अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्धने दश प्रसादनीय (= श्रद्धा उत्पादन
करनेवाले) धर्म कहे हैं; जिसमें वह धर्म होते हैं, उसका हम सत्कार = गुरुकार, मानन = पूजन
करते हैं । सत्कार = गुरुकार करके, उसके समीप विहार करते हैं । कौनसे दस ?—

(१) “यहाँ, ब्राह्मण ! भिक्षु शीलवान, प्रातिमोक्ष-संवर (= भिक्षु-नियमरूपी संयम) से
संबृत् (= संयत) होता है, आचार-गोचर (= सदाचार) से सम्पन्न हो ०^२ शिक्षापदोंको ग्रहण
कर अभ्यास करता है ।

(२) “(जो भिक्षु) बहुश्रुत, श्रुतधर (= पदको धारण करने वाला), श्रुत-संचयी होता
है । जो वह धर्म भादिकल्याण, मध्य-कल्याण, पर्यवसान (= अन्त्य)-कल्याण हैं, सार्थक = स-
व्यंजन हैं, (और जो) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्यकी प्रशंसा करते हैं; वैसे धर्म (= उपदेश)
उसने बहुत सुने होते हैं; धारण किये (होते हैं), वचनसे परिचित, मनसे समीक्षित, और दृष्टि
(= दर्शन, = दिलकी आँख) से सुप्रतिविद्ध (= सुविदित) होते हैं ।

(३) “(जो भिक्षु), वस्त्र, भोजन, शयन-आसन और रोगीके पथ्य-औषधमें (थोड़ेसे)
सन्तुष्ट रहनेवाला होता है ।

(४) “आभिचेतसिक (= चित्त सम्यन्धी) इसी शरीरमें सुख-पूर्वक विहार करनेके उप-
योगी चारों ध्यानोंका पूर्णतया लामी, अ-कृच्छ्र-लामी = बिना कठिनाईके-प्राप्त करनेवाला होता है ।

(५) “अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंको अनुभव करता है—एक होकर ० अनेक हो जाता है,
आविर्भाव ०^३ (इसी) कायासे ब्रह्मलोक-पर्यन्त (सय)को अपने वशमें करनेवाला होता है ।

(६) “अमानुष विशुद्ध दिव्य श्रोत्र इन्द्रिय (= घातु)से उभय प्रकारके शब्दोंको सुनता
है—दिव्य (शब्दों)को भी, और मानुष (शब्दों)को भी, दूरवालेको भी और समीपवाले
(शब्द)को भी ।

(७) “दूसरे सच्चों, दूसरे पुद्गलों (= व्यक्तियों)के चित्तोंको अपने चित्तमे देखकर जान
लेता है—०^४ अ-विमुक्त चित्तके होने पर ‘अ-विमुक्त चित्त है’—जानता है ।

(८) “अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों (= पूर्व जन्मों)को जानता है, जैसे कि एक जन्मको
भी ०^५ ।

(९) “अ-मानुष विशुद्ध दिव्य चक्षुसे अच्छे घुरे, सुवर्ण दुर्बर्ण ०^६ प्राणियोंको पहि-
चानता है ।

(१०) “(जो भिक्षु) आश्रवोंके क्षयसे जो आस्रव रहित चित्तकी विमुक्ति है, प्रज्ञा द्वारा
विमुक्ति (= मुक्ति) है, उसे इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर, विहार करता है ।

“ब्राह्मण ! उन ०^१ भगवान् ० यह दश प्रसादनीय धर्म कहे हैं ०^१ उनके समीप हम
विहार करते हैं ।”

ऐसा कहने पर ० वर्षकार ब्राह्मणने उपनन्द सेनापतिको मन्योषित किया—

^१ पृष्ठ ४५६ के सारे पैरेकी आवृत्ति । ^२ देखो पृष्ठ २३ । ^३ देखो पृष्ठ १५ ।

^४ देखो पृष्ठ १५ । ^५ देखो ऊपर ।

“तो क्या मानते हो, सेनापति ! ऐसा होनेपर यह आप लोग सत्करणीयहीका सत्कार कर रहे हैं, गुरुकरणीयहीका गुरुकार कर रहे हैं, माननीय ०, पूजनीयहीकी पूजा कर रहे हैं न ?”

“जरूर, यह आप लोग ० पूजनीयहीकी पूजा कर रहे हैं; ऐसे (पुरुष)का यदि यह आप लोग सत्कार न करें ० पूजा न करें; तो कैसेका सत्कार ० पूजा करेंगे, (किसका) सत्कार ० पूजा करके उसके समीप (= सहारे) विहार करेंगे ?”

तब भगध-महामात्य (= भगधका महामन्त्री)ने आयुष्मान् आनन्दसे यह कहा—

“कहाँ आप आनन्द इस समय विहार करते (= रहते) हैं ?”

“वेणुवनमें, ब्राह्मण ! इस समय मैं रहता हूँ ।”

“भो आनन्द ! वेणुवन रमणीय, अल्प-शब्द = अल्प-निर्घोष, विजन-त्रात (= आदमियोंकी भीड़से रहित), मनुष्योंसे एकान्त, ध्यानके लायक तो है न ?”

“हाँ, ब्राह्मण ! वेणुवन ० ध्यानके लायक है, क्योंकि तुम्हारे जैसे रक्षक = गोपक जो हैं ।”

“अच्छा तो भो आनन्द ! वेणुवन ० ध्यानके लायक है, जहाँ कि आप लोगों जैसे ध्यायी = ध्यान-शीली (रहते हैं) । आप लोग ध्यायी = ध्यानशीली हैं । एक समय, भो आनन्द ! वह आप गौतम वैशालीमें महावनकी कूटागार-शालामे विहार करते थे । तब, भो आनन्द ! मैं जहाँ महावनमें कूटागार-शाला थी, जहाँ आप गौतम थे, वहाँ गया । वहाँ आप गौतम अनेक प्रकारसे ध्यानकी बात कर रहे थे । वह आप गौतम ध्यायी थे, ध्यान-शीली थे । वह आप गौतम इस सबको वर्णित (= प्रशंसित) कर रहे थे ।”

“ब्राह्मण ! वह भगवान् सभी ध्यानकी प्रशंसा न करते थे ।”

“किस प्रकारके ध्यानकी वह आप गौतम प्रशंसा न करते थे ?”

“ब्राह्मण ! यहाँ कोई (पुरुष) काम-राग (= विषय-कामना)से पर्युत्थित (= व्याप्त) = काम-राग-परेत चित्तसे विहरता है, (वह) उत्पन्न काम-रागके निस्सरण (= निकास)को नहीं जानता । वह काम-राग (= विषय-कामना)को ही बीचमें करके ध्यान = प्र-ध्यान = नि-ध्यान = अप-ध्यान करता है । व्यापाद् (= द्वेष)से पर्युत्थित ० । सत्यान्न-मृद्ध (= शारीरिक मानसिक आलस्य)से पर्युत्थित ० । औद्धत्य-कौकृत्य (= उद्धतपन्ना, हिचकिचाहट)से पर्युत्थित ० । विचिकित्सा (= संशय)से पर्युत्थित ० । ब्राह्मण ! वह भगवान् इस प्रकारके ध्यानकी प्रशंसा न करते थे ।

“ब्राह्मण ! किस प्रकारके ध्यानकी वह भगवान् प्रशंसा करते थे ?—ब्राह्मण ! यहाँ भिक्षु कामोंसे विरहित ०^१ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वितर्क और विचारके शान्त होने पर ०^१ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । प्रीतिसे विरक्त हो ०^१ तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । सुख और दुःखके परित्यागसे^१ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण ! वह भगवान् इस प्रकारके ध्यानकी प्रशंसा करते थे ।”

“भो आनन्द ! वह आप गौतम निन्दनीय ध्यानकी निन्दा करते थे, प्रशंसनीयकी प्रशंसा करते थे । हन्त, अब, भो आनन्द ! हम जायेंगे; हम बहु-कृत्य = बहुकरणीय हैं ।”

“ब्राह्मण ! जिसका इस समय तुम काल समझते हो (वैसा करो) ।”

तब भगध-महामात्य धर्षणकार ब्राह्मण आयुष्मान् आनन्दके भाषणको अभिनन्दित = अनुमोदितकर, आसनसे उठकर चला गया ।

तय मगध-महामात्य ० के चले जानेके थीड़ीही देर बाद गोपक मोगलान ब्राह्मणे आयुष्मान् आनंदसे यह कहा—

“जो हजने आप आनंदसे पूछा था, वह हमें आप आनंदने नहीं यतलाया ?”

“ब्राह्मण ! हजने कहा न—‘नहीं, ब्राह्मण ! हममें एक भिन्न भी ऐसा नहीं है ० १ काज-कलके श्रावक मार्ग-अनुयायी ही विहर रहे हैं ।”

१०६—महा-पुराणम-सुत्तन्त (३।१।६)

स्कंध । आत्मवाद-खंडन

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें, मृगारमाताके प्रासाद पूर्वाराममें विहार करते थे ।

उस समय भगवान् उस दिनके उपोसथकी पंचदशी = पूर्णिमाकी रातको भिक्षुसंघसे घिरे खुली जगहमें बैठे थे । तब एक भिक्षु आसनसे उठ उत्तरासंगको एक कंधेपर रख, भगवान्की ओर हाथ जोड़े भगवान्से यह बोला—

“भन्ते ! भगवान्से कुछ बात पूछूँ, यदि भगवान् प्रश्नके उत्तर देनेकी आज्ञा करते हैं ?”

“तो, भिक्षु ! अपने आसनपर बैठकर, जो चाहता है, पूछ ।”

तब वह भिक्षु अपने आसनपर बैठकर भगवान्से यह बोला—

“भन्ते ! यह हैं न पाँच उपादान-स्कंध; जैसे कि—(१) रूप-उपादान-स्कंध, (२) वेदना ०, (३) संज्ञा ०, (४) संस्कार ०, (५) विज्ञान ० ?”

“(हाँ,) भिक्षु ! यह पाँच उपादान-स्कंध हैं; जैसे कि—(१) रूप ०, (५) विज्ञान ० ।”

“साधु, भन्ते !” (कह) उस भिक्षुने भगवान्के भाषणको अभिनंदित = अनुमोदित कर, भगवान्से क्षाणिका प्रश्न पूछा—

“भन्ते ! यह पाँच उपादान-स्कंध किंमूलक (= क्या जड़वाले) हैं ?”

“भिक्षु ! यह पाँच उपादान-स्कंध छन्द (= राग) मूलक हैं ।”

“भन्ते ! उपादान और पाँच उपादान-स्कंध एक ही हैं, या पाँच उपादान-स्कंधोंसे अलग उपादान है ?”

“भिक्षु ! उपादान और उपादान-स्कंध एक नहीं हैं; और न पाँच उपादान-स्कंधोंसे अलग उपादान है । भिक्षु ! पाँच उपादान-स्कंधोंमें जो छन्द = राग है, वही वहाँ उपादान है ।”

“क्या, भन्ते ! पाँच उपादान-स्कंधोंमें छन्द = रागका वैमत्त्य (= वेमत्तता = मिश्रमत होता) हो सकती है ?”

भगवान्ने कहा—“हो सकती है, भिक्षु ! यहाँ...किसी (पुरुष)को ऐसा होता है— भविष्यकालमें मैं इस रूपवाला होऊँ । ० इस वेदनावाला ० । ० इस संज्ञावाला ० । ० इस संस्कारवाला ० । ० इस विज्ञानवाला होऊँ । भिक्षु ! इस प्रकार पाँच उपादान-स्कंधोंमें छन्द = रागकी वेमत्तता हो सकती है ।”

“भन्ते ! कितने तकका...स्कंध नाम है ?”

“भिक्षु ! जो कोई भूत-भविष्य-वर्तमानका, शरीरके भीतर (= आध्यात्मिक) या याहरका,

स्थूल या सूक्ष्म, हीन या प्रणीत (= उत्तम) दूरस्थ या समीपस्थ रूप (= पृथिवी+जल+तेज+वायु) है, यह रूप-स्कंध है। जो कोई • वेदना • । • संज्ञा • । • संस्कार • । जो कोई भूत-भविष्य-वर्तमानका, (शरीरके) भीतर या बाहरका, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या प्रणीत, दूरस्थ या समीपस्थ विज्ञान है, या विज्ञान-स्कंध है। मिश्र ! इतनेका नाम स्कंध है।”

“भन्ते ! रूप-स्कंधके प्रज्ञापन (= जतलाने)में क्या हेतु = प्रत्यय है ? = वेदना-स्कंध • ? • संज्ञा-स्कंध • ? संस्कार स्कंध • । विज्ञान स्कंधके प्रज्ञापनमें क्या-हेतु = प्रत्यय है ?”

“मिश्र ! चार महाभूत (= पृथिवी, जल, तेज, वायु) हेतु हैं, रूपके प्रज्ञानमें, चार महाभूतोंके कारण (= प्रत्यय) रूप-स्कंधका प्रज्ञापन होता है। स्पर्श (= इन्द्रिय-विषयका संयोग) हेतु = प्रत्यय है, वेदना-स्कंधके प्रज्ञापनके लिये। स्पर्श हेतु • है, संज्ञा स्कंध • । • संस्कारके प्रज्ञापनके लिये। मिश्र ! नाम-रूप हेतु = प्रत्यय हैं, विज्ञान-स्कंधके प्रज्ञापनके लिये।”

“भन्ते ! सत्काय-दृष्टि (= नित्य आत्माकी धारणा) होती है ?”

“मिश्र ! आर्योंके दर्शनसे वंचित •^१ अज्ञ, अनादी (जन) रूपको आत्माके तौरपर, या आत्माको रूपवान्, अथवा रूपमें आत्माको, या आत्मामें रूपको समझता है। वेदनाको • । संज्ञाको • । संस्कारको • । विज्ञानको आत्माके तौरपर, या आत्माको विज्ञानवान्, अथवा विज्ञानमें आत्माको, या आत्मामें विज्ञानको समझता है। मिश्र ! इस प्रकार सत्काय-दृष्टि होती है।”

“भन्ते ! किस प्रकार सत्काय-दृष्टि नहीं होती ?”

“मिश्र ! आर्योंके दर्शनको प्राप्त •^२ बहुश्रुत आर्यं श्रावक न रूपको आत्माके तौरपर, न आत्माको रूपवान्, न रूपमें आत्माको, न आत्मामें रूपको समझता है। • वेदना • । • संज्ञा • । • संस्कार • । • विज्ञान • । मिश्र ! इस प्रकार सत्काय-दृष्टि नहीं होती।”

“भन्ते ! रूपका क्या आस्वाद (= स्वाद) है, क्या आदिनव (= दुष्परिणाम) है, क्या निस्सरण (= निकासका रास्ता) है ? वेदना • ? संज्ञा • ? संस्कार • ? विज्ञान • ?”

“मिश्र ! जो रूपको लेकर सुख = सौमनस्य उत्पन्न होता है, वह रूपका आस्वाद है। जो कि रूप अ-नित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मा (= विकारी, परिवर्तन शील) है, यह रूपका दुष्परिणाम है। जो रूपमें छन्द = रागका हटाना, छन्द = रागका प्रहाण है, यह रूपका निस्सरण है। मिश्र ! जो वेदनाको ले कर • । • संज्ञाको लेकर • । • संस्कारको ले कर • । • विज्ञान-को ले कर • ।”

“भन्ते ! कैसे जानते-समझते इस स-विज्ञानक (= चेतना-युक्त) कायामें, या बाहरी (दुनियामें) सभी निमित्तों (= लिंग आकार आदि)में अहंकार-भ्रमकारको अभिमान और अनुशय (= संस्कार) नहीं होते ?”

“मिश्र ! जो कोई भूत-भविष्य-वर्तमानका, शरीरके भीतर या बाहरका, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या प्रणीत, दूरस्थ या समीपस्थ रूप है; (वह) सय रूप—‘न यह मेरा है’, ‘न यह मैं हूँ’, और ‘न यह मेरा आत्मा है’—इस प्रकार इसे ठीकसे यथार्थ-प्रज्ञासे देखता है। जो कोई • वेदना • । • संज्ञा • । • संस्कार • । • विज्ञान • । मिश्र ! इस प्रकार जानते-समझते • अहंकार-भ्रमकारके अभिमान और अनुशय नहीं होते।”

तब एक मिश्रके मनमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—‘इम् प्रकार, भो ! रूप अनात्मा

(= आत्मा नहीं) है, वेदना अनात्मा, संज्ञा अनात्मा, संस्कार अनात्मा, विज्ञान अनात्मा (= अनत्ता) है । अनात्माके किये कर्म किस आत्मामें संयुक्त होंगे ?”

तब भगवान् ने उस भिक्षुके चित्तके वितर्कको अपने मनसे जानकर भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! इसकी संभावना (= स्यात्) है, कि कोई अविद्याप्रसूत, अविद्वान् मोघ-पुरुष (फजूल का आदमी) वृष्णापरवश-चित्तसे शास्ता (= गुरु) के शासन (= उपदेश)को अतिक्रमण करना चाहे—‘इस प्रकार मो, रूप अनात्मा है ० अनात्माके किये कर्म किस आत्मामें संयुक्त होंगे ?’ भिक्षुओ ! कारणके साथ मैंने तहाँ तहाँ उन उन धर्मोंमें तुम्हें प्राप्त कराया है । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य ?”

“अनित्य है, भन्ते !”

“जो अनित्य है, वह दुःख (-रूप) है, या सुख (-रूप) ?”

“दुःख है भन्ते !”

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मा (= परिवर्तनशील) है; क्या उसको ऐसा समझना ठीक है—‘यह (अनित्य वस्तु) मेरा है’, ‘यह मैं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा है’ ?”

“नहीं, भन्ते !”

“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! वेदना नित्य है या अनित्य ?

“० संज्ञा । ० संस्कार ० ।”

तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! विज्ञान नित्य है, या अनित्य ?”

“अनित्य है, भन्ते !”

“जो अनित्य है, वह दुःख है, या सुख ?”

“दुःख है, भन्ते !”

“जो, अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मा है; क्या उसको ऐसा समझना ठीक है—‘यह मेरा है’, ‘यह मैं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा है’ ?”

“नहीं, भन्ते !”

“इसलिये भिक्षुओ ! जो कोई भूत-भविष्य-वर्तमानका ० रूप है; (वह) सब रूप—‘न यह मेरा है’ ०^१ सब विज्ञान—‘न यह मेरा है’ ० । इस प्रकार इसे ठीकसे, यथार्थ प्रज्ञा द्वारा समझना चाहिये ।

“भिक्षुओ ! इस प्रकार समझते बहुश्रुत आर्यश्रावक रूपसे निर्वेद (= उदासी)को प्राप्त होता है, वेदनासे ०, संज्ञा से ० । संस्कारसे ० । विज्ञानसे ० । निर्वेदको प्राप्त हो विरक्त होता है, विरागके कारण विमुक्त होता है । विमुक्त होनेपर ‘मैं विमुक्त हूँ’—यह ज्ञान होता है, (जन्म) (= आवागमन) क्षीण होगया, ब्रह्मचर्यवास (पूरा) हो चुका, करना था सो किया जा चुका, और कुछ यहाँ करनेको (शेष) नहीं है—जानता है ।”

भगवान् ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान् के भाषणको अभिनन्दित किया ।

उस उपदेशके कहे जाते समय साठ भिक्षुओंका चित्त आस्रवों (= चित्तमलों)से उपादान रहित हो झूट (= विमुक्त हो) गया ।

११०—चूल-पुराणम-सुत्तन्त (३।१।१०)

सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें मृगारमाताके आसाद पूर्वोराममें विहार करते थे ।

उस समय भगवान् उस दिनके उपोसथकी^१ पंचदशी = पूर्णिमाकी रातको भिक्षुसंघमें धिरे, खुली जगहमें बैठे थे । तब भगवान्ने चुपचाप (बैठे) भिक्षु-संघको देखकर, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! क्या अ-सत्पुरुष अ-सत्पुरुषको जान सकता है—‘यह आप अ-सत्पुरुष हैं—?’”

“नहीं, मन्ते !”

“साधु, भिक्षुओ ! इसकी गुंजाइश (= अवकाश) नहीं, कि अ-सत्पुरुष अ-सत्पुरुषको जान सके—‘यह ०’ । भिक्षुओ ! क्या अ-सत्पुरुष सत्पुरुषको जान सकता है—‘यह आप सत्पुरुष हैं’ ?”

“नहीं, मन्ते !”

“साधु, भिक्षुओ ! इसकी गुंजाइश नहीं ० । भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष अ-सत्तन्तमें युक्त है । अ-सत्पुरुषों का मक्त, अ-सत्पुरुष-चिन्ती, अ-सत्पुरुष-मन्त्री, अ-सत्पुरुष-भाषी, अ-सत्पुरुष-कर्मान्त (= ० कामवाला), अ-सत्पुरुष-दृष्टि होता है, अ-सत्पुरुषोंको दान देनेवाला होता है । कैसे ० अ-सत्तन्तसे युक्त होता है ?—भिक्षुओ ! यहाँ अ-सत्पुरुष अ-श्रद्धालु, निर्लज्ज, संकोच रहित, अल्प-श्रुत (= अज्ञ), कुलीदी (= आलसी), सुपित-रुमृति (= बेहोदा), दुष्प्रज्ञ...होता है । भिक्षुओ ! इस प्रकार अ-सत्पुरुष अ-सत्तन्तसे युक्त होता है ।

“कैसे, भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष अ-सत्पुरुषोंका भक्त होता है ?—भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुषके मित्र = सहाय होते हैं, वह श्रमण-ब्राह्मण, जो कि अश्रद्धालु ० दुष्प्रज्ञ होते हैं ।

“कैसे भिक्षुओ ! ० अ-सत्पुरुष-चिन्ती होता है ?—भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष आत्म-पीडाका भी चिन्तन करता है, पर-पीडा ०, उभय-पीडाका भी चिन्तन करता है । इस प्रकार ० ।

“० अ-सत्पुरुष-मन्त्री होता है ?—भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष आत्म-पीडाकी भी मंत्रणा करता है, ० पर-पीडा ०, उभय-पीडा ० ।

“कैसे ० अ-सत्पुरुष-वाची होता है ?—भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष मृषावादी (= झूठा) होता, चुगुलबोर, कटुभाषी, प्रलापी होता है । इस प्रकार ० ।

“कैसे ० अ-सत्पुरुष-कर्मान्त होता है ?—भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष हिंसक होता है, चोर, व्यभिचारी होता है । इस प्रकार ० ।

^१ भिक्षुसंघके अधिवेशनके दिन ।

“कैसे ० अ-सत्पुरुष-दृष्टि होता है ?—भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष इस प्रकारकी दृष्टि (= धारणा) वाला होता है—‘दान नहीं, यज्ञ नहीं ०’^१ । इस प्रकार ० ।

“कैसे ० अ-सत्पुरुष-दान देता है ?—भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष अ-सत्कार-पूर्वक दान देता है, अपने हाथसे दान नहीं देता, बेख्याल किये दान देता है, निकृष्ट (द्रव्यका) दान देता है, (प्रति-फलके) न-लौटकर आनेकी दृष्टिसे दान देता है । इस प्रकार ० ।

“भिक्षुओ ! वह असत्पुरुष इस प्रकार अ-सद्धर्मसे युक्त हो ० । असत्पुरुषोंको दान दे, काया छोड़ मरनेके बाद जो अ-सत्पुरुषोंकी गति होती है, उसमें उत्पन्न होता है । भिक्षुओ ! क्या है, अ-सत्पुरुषोंकी गति ? नरक और तिर्यक्- (= पशु-) योनि ।

“भिक्षुओ ! क्या सत्पुरुष सत्पुरुषको जानेगा—‘यह आप सत्पुरुष हैं’ ?”

“हाँ, मन्ते !”

“साधु, भिक्षुओ ! इसकी गुंजाइश है, कि सत्पुरुष सत्पुरुषको जाने—० । भिक्षुओ ! क्या सत्पुरुष अ-सत्पुरुषको जानेगा—‘यह आप अ-सत्पुरुष हैं’ ?”

“हाँ, मन्ते !”

“साधु, भिक्षुओ !” इसकी गुंजाइश है ० ।

“भिक्षुओ ! सत्पुरुष सद्धर्मसे युक्त होता है, सत्पुरुष-भक्त, सत्पुरुष-चिन्ती, सत्पुरुष-मंत्री, सत्पुरुष-वाची, सत्पुरुष-कर्मान्त, सत्पुरुष-दृष्टि होता है, सत्पुरुषोंको दान देनेवाला होता है ।

“भिक्षुओ ! कैसे सत्पुरुष सद्धर्मसे युक्त होता है ?—भिक्षुओ ! सत्पुरुष श्रद्धालु, लजाशील, संकोची, बहुश्रुत भारब्धवीर्य (= उद्योगी), उपस्थित-स्मृति (= बाहोश), प्रज्ञावान् होता है । इस प्रकार भिक्षुओ ! सत्पुरुष सद्धर्मसे युक्त होता है ।

“कैसे ० सत्पुरुष-भक्त ० ?—सत्पुरुषके मित्र = सहाय होते हैं, वह श्रमण-ब्राह्मण, जो कि श्रद्धालु ० प्रज्ञावान् होते हैं । इस प्रकार ० ।

“कैसे ० सत्पुरुष-चिन्ती ० ?—० न आत्म-पीडाका चिंतन करता है, न पर-पीडाका ०, न उभय पीडाका ० ।

“कैसे ० सत्पुरुष-मंत्री ० ?—० न आत्म-पीडाके लिये मंत्रणा करता है, न पर-पीडा ०, न उभय-पीडा ० ।

“कैसे ० सत्पुरुष-वाची ० ?—० झूठसे विरत होता है, जुगलीसे ०, कठोर वचनसे ०, यकवादसे विरत होता है । इस प्रकार ० ।

“कैसे ० सत्पुरुष-कर्मान्त ० ?—० हिंसासे विरत होता है, चोरीसे ०, व्यभिचारसे विरत होता है । इस प्रकार ० ।

“कैसे ० सत्पुरुष-दृष्टि ० ?—० दान है, यज्ञ है ०^२ । इस प्रकार ० ।

“कैसे ० सत्पुरुष-दान देता है ?—० सत्कार-पूर्वक दान देता है, अपने हाथसे देता है, ख्याल करके देता है, परिशुद्ध (वस्तुका) दान देता है । (फलके) लौट कर आनेकी दृष्टिसे दान देता है । इस प्रकार ० ।

“भिक्षुओ ! सत्पुरुष इस प्रकार सद्धर्मसे युक्त हो । ० । सत्पुरुषोंको दान दे, काया छोड़

^१ देखो पृष्ठ ३०० ।

^२ देखो पृष्ठ २३९ ।

मरनेके बाद, जो सत्सुरूपोंकी गति होती है, उसमें उत्पन्न होता है । भिक्षुओ ! क्या है, सत्सुरूपों की गति ? देवताओंका महत्त्व और मनुष्योंका महा महत्त्व ।”

भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषण को अभिनन्दित किया ।

(११—इति देवदत्त-वग्ग ३।१)



१११—अनुपद-सुत्तन्त (३।२।१)

सारिपुत्रके गुण, प्रज्ञा, समाधि आदि

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! सारिपुत्र पंडित है, ० महाप्रज्ञ, ० नाना-प्रज्ञ, ० मास्वर-प्रज्ञ, ० जवन (= ० क्षिप्रगति)-प्रज्ञ, ० निष्क (= शुद्ध)-प्रज्ञ, ० निर्वेधिक (= तह तक पहुँचने की)-प्रज्ञ है । भिक्षुओ ! सारिपुत्र आध भास तक अनुपद-धम्म-विसेस (= अनुपद-धर्म-विशेष) की विपश्यनाको विपश्यन (= दिलकी आँखसे देखना) करता है ।

“भिक्षुओ ! सारिपुत्रकी यह अनुपद-धर्म-विशेषकी विपश्यना है—भिक्षुओ ! सारिपुत्र कामोंसे विरहित ०^१ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । प्रथम ध्यानमें जो धर्म हैं (जैसे)—वितर्क^२ विचार^३ प्रीति (= हर्षका सारे शरीर और चित्तपर प्रभाव) सुख, चित्तकी-एकाग्रता, स्पर्श (= इन्द्रिय-विषयका संपर्क), वेदना (= स्पर्शके वाद विषयके संबंधका जो सुख, दुःख आदि रूपमें अनुभव), संज्ञा (= संजानना, समझना), चेतना (= चिंतन), चित्त (= मन), छन्द (= राग), अधिमोक्ष (= झुकाव), वीर्य (= उद्योग), स्मृति, उपेक्षा, मनसिकार (= मनमें करना)—वह धर्म इसके व्यवस्थित होते हैं; वह धर्म इसको विदित हो उत्पन्न होते हैं; विदित हो स्थित होते हैं, विदित ही अस्त होते हैं । वह ऐसा जानता है—इस प्रकार पहिले न हुये धर्म उत्पन्न होते हैं, होकर प्रवेदित (= अनुभवगम्य होते हैं) । वह उन धर्मोंमें अन्-उपाय = अन्-अपाय, अन्-आसक्त, = अ-प्रतिवद्ध = विप्रसुक्त = विसंयुक्त अ-वद्ध चित्तसे विहरता है । वह जानता है—(इससे) आगे भी निस्सरण (= निकलनेका मार्ग) है; उसके (अभ्यास) बढ़ानेसे 'है'—यह उसको (निश्चय) होता है ।

“और फिर भिक्षुओ ! सारिपुत्र, वितर्क और विचारके शांत होनेपर ०^१ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । द्वितीय ध्यानमें जो धर्म हैं; (जैसे) आध्यात्मिक संप्रसाद (= विषयमें चित्तका अलेप होना), प्रीति, सुख ०^३ मनसिकार; वह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं । ०^३ ।

“ ० प्रीतिसे विरक्त हो ०^१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । तृतीय ध्यानमें जो

^१ देखो पृष्ठ १५ ।

^२ चित्तकी स्थूलावस्था वितर्क है, सूक्ष्मावस्था विचार ।

^३ प्रथम ध्यान जैसा यहाँ भी ।

धर्म हैं, (जैसे)—उपेक्षा, सुख, स्मृति, संप्रजन्य, चित्त-एकाग्रता ० मनसिकार : वह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ० ।

“ ० सुख और दुःखके परित्यागसे ०^१ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । चतुर्थ-ध्यान में जो धर्म हैं, (जैसे) उपेक्षा, अदुःख-असुखा वेदना, पश्यी वेदना = संज्ञा, चेतना, चित्त, छन्द, अधिमोक्ष, वीर्य, स्मृति, उपेक्षा, मनसिकार—यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ०^२ ।

“ ० रूप (= Matter)-संज्ञाको सर्वथा छोड़ने से, प्रतिहिंसाको संज्ञा (= व्यालों) के सर्वथा अस्त हो जाने से, नानापनकी संज्ञाको मनमें न करनेसे—‘आकाश अनन्त है’—इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । आकाशानन्त्यायतनमें जो धर्म हैं, (जैसे) आकाशानन्त्यायतनकी संज्ञा, चित्तैकाग्रता, स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना, चित्त, छन्द, अधिमोक्ष, वीर्य, स्मृति, उपेक्षा, मनसिकार—यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ०^३ ।

“ ० आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर ‘विज्ञान अनन्त है’—इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । विज्ञानानन्त्यायतनमें जो धर्म हैं, (जैसे) विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञा, चित्तैकाग्रता, स्पर्श ० मनसिकार—यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ०^४ ।

“ ० विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर—कुछ नहीं (= ‘नहीं किंचित्’)—इस आर्किचन्य (= न-कुछ-भी-पना)-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । आर्किचन्यायतनमें जो धर्म हैं, (जैसे) आर्किचन्यायतन-संज्ञा, चित्तैकाग्रता, स्पर्श ० मनसिकार—यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ०^५ ।

“ ० आर्किचन्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता है । वह उस समापत्ति (= समाधि)से स्मृति (= होश) के साथ उठता है, ० उठकर जो धर्म व्यतीत = निरुद्ध = विपरिणत हो गये हैं, उन धर्मोंको देखता है । इस प्रकारसे मुझे यह धर्म (= चित्त-प्रवाहका एक रूप) पहले न हुये धर्म उत्पन्न होते हैं, होकर प्रतिवेदित होते हैं ०^६ ।

“और फिर मिश्रुओ ! सारिपुत्त नैवसंज्ञानासंज्ञायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, संज्ञा-वेदित-निरोध (= जिस समाधिमें संज्ञा और वेदनाका अभाव होता है) । ० प्रज्ञासे देकर उसके आस्रव (= चित्तमल) क्षीण होते हैं । वह उस समापत्तिमें स्मृतिके साथ उठता है, ० उठ कर जो धर्म व्यतीत = निरुद्ध = विपरिणत होगये हैं, उन धर्मोंको देखता है—‘इस प्रकार मुझे यह धर्म पहिले न हुये उत्पन्न होते हैं, होकर प्रतिवेदित (= अनुभव-गम्य) होते हैं ०^७ यह जानता है—(इससे) आगे निस्स्वरण नहीं है; और उसके (अभ्यासको) यद्गनेसे ‘नहीं है’—यह उसको (निश्चय) होता है ।

“मिश्रुओ ! जिसको ठीकसे कहते हुये कहना होता है—‘आर्य-शीलमें वशित्व-प्राप्त (= अधिकार-प्राप्त) है, पारमि-प्राप्त (= पारंगत) है । आर्य-समाधिमें ०, आर्य-प्रज्ञा में, आर्य-विमुक्तिमें वशित्व प्राप्त, पारमि प्राप्त हैं; तो ठीक कहते हुये, उसे सारिपुत्तके लिये ही फटना होगा—आर्य-शीलमें वशित्व-प्राप्त ० ।

“मिश्रुओ ! जिसको ठीकसे कहते हुये कहना होता है—(यह) मुझसे उत्पन्न, धर्मसे उत्पन्न, धर्म-निर्मित, धर्म-दायाद (= धर्मका वारिस), न-आमिप-दायाद (= धनका दायाद

नहीं) भगवान्का औरस (= हृदय या मनसे उत्पन्न) पुत्र है; तो ठीकसे कहते हुये सारिपुत्तके लिये ही कहना होगा—मुखसे उत्पन्न ० ।

“भिक्षुओ ! तथागतके चलाये (= प्रवर्तित) अनुत्तर (= अद्वितीय = अनुपम) धर्म-चक्र (धर्मके चक्का = धर्म)को सारिपुत्त ठीकसे अनु-प्रवर्तित कर रहा है ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।

११२-छविबिसोधन-सुत्तन्त (३।२।२)

अर्हत्की पहिचान

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।
वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“(यदि कोई) भिक्षु आज्ञा (= अर्हत्-पद-प्राप्ति)की घोषणा करे—‘जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो गया, करना या सो कर लिया, और हृउ (करनेके लिये) यहाँ नहीं है’—जानता हूँ । तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुके भाषणको न अभिनन्दित करना चाहिये, न खंडित (= निन्दित) करना चाहिये । अभिनन्दन, प्रतिक्रोशन (= निन्दन) न कर प्रश्न पूछना चाहिये—‘आबुस ! उन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान् अर्हत्, सम्यक् संबुद्धने चार व्यवहार अच्छी तरह बतलाये हैं । कौनसे चार ?—(१) दृष्ट (= देखे हुये)में दृष्ट-यादिता (= देखा हुआ कहना); (२) श्रुत (= सुने)में श्रुत-वादिता; (३) स्मृत (= याद किये)में स्मृतवादिता; (४) विज्ञात (= जाने)में विज्ञातवादिता । आबुस ! उन ० भगवान् ० ने यह चार व्यवहार अच्छी तरह बतलाये हैं । इन चार व्यवहारोंमें कैसे जानते कैसे देखते (आप) आयुष्मान् का चित्त आस्रवों (= चित्तमलों)से विमुक्त हो गया ?’ भिक्षुओ ! (जो) भिक्षु क्षीण-आस्रव, (ब्रह्मचर्य -)वास-समाप्त, कृतकृत्य, मुक्त-भार, सच्चे अर्थ (= निर्वाण)को प्राप्त, मय-बंधन-मुक्त, सम्यग्-जानकर विमुक्त (होता है), (उस)के उत्तर देते वक्त यह अनुधर्म (= नियम, प्रकृति) होते हैं—‘आबुस ! दृष्टमें अन्-उपाय = अन्-अपाय^१ = अ-निःश्रित = अ-प्रद, ० विप्रमुक्त = विसंयुक्त अ-मर्यादित चित्तसे विहरता हूँ । आबुस ! श्रुतमें ० । स्मृतमें ० । विज्ञातमें ० । आबुस ! इस प्रकार जानते देखते मेरा चित्त इन चार व्यवहारोंमें आस्रवोंसे विमुक्त हो गया ।

“(तब) भिक्षुओ ! उस भिक्षुके कथनको ‘साधु (= ठीक)’ कह अभिनन्दित=भ्रुमोदित करना चाहिये । ० अभिनन्दित अनुमोदित कर आगेका प्रश्न पूछना चाहिये—‘आयुस ! उन ० भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धने यह पाँच उपादान-स्कंध अच्छी तरह बतलाये हैं । कौनसे पाँच ? जैसे कि—रूप-उपादान-स्कंध, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान’—इन पाँच उपादान-स्कंधोंके विषयमें कैसे जानते देखते आयुष्मान्का चित्त आस्रवोंसे विमुक्त हो गया ?’ ० उसके उत्तर देते वक्त यह अनुधर्म होते हैं—‘आबुसो ! मैं रूपको अ-यल, विराग (= रागके अयोग्य), न-आश्वासन-प्रद, जानकर रूपके संबन्धमें जो उपाय=उपादान=चित्तके अधिष्ठान, अभिनिवेश (= ममता) =

^१ विशेषके लिये देखो पृष्ठ ४६६ ।

अनुशय थे, उनके क्षय, विराग, निरोध, त्याग = प्रतिनिस्सर्गसे मेरा चित्त मुक्त हुआ—यह जानता हूँ । ० वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । ० विज्ञान ० । आवुसो ! इस प्रकार पाँच उपादान स्कंधोंके संबंधमें जानते देखते मेरा चित्त आस्रवोंसे विमुक्त हो गया ० ।

“तव भिक्षुओ ! ० ‘साधु’ कह ० अभिनंदित = अनुमोदित कर आगेका प्रश्न पूछना चाहिये—‘आवुस ! ० यह छः धातुयें ० वतलाई हैं । कौन सी छः ?—(१) पृथिवी-धातु, (२) आप (= जल) ०, (३) तेज ०, (४) वायु ०, (५) आकाश ०, और (६) विज्ञान-धातु । ... इन छः धातुओंके विषयमें कैसे जानते देखते ० ?’ ० यह अनुधर्म होते हैं—‘आवुसो ! न मैंने पृथिवी धातु को आत्माके तौर पर ग्रहण किया, न पृथिवीमें आत्माको आश्रित ग्रहण किया । पृथिवी धातुके निःश्रित (= आश्रित) जो उपाय ० अनुशय, उनके विराग ० प्रतिनिस्सर्गसे मेरा चित्त विमुक्त हुआ—यह जानता हूँ । ० तेज धातु ० । ० वायु धातु ० । ० आकाश धातु ० । ० विज्ञान ० । आवुसो ! इस प्रकार इन छः धातुओंके विषयमें जानते देखते ० ।

“०—आगेका प्रश्न ०—‘आवुस ! ० यह छः आध्यात्मिक (= शरीर संबंधी) और बाह्य आयतन ० वतलाये हैं । कौनसे छः ?—(१) चक्षु और रूप, (२) श्रोत्र और शब्द, (३) घ्राण और गंध, (४) जिह्वा और रस, (५) काया और स्पर्शव्य, (६) मन और धर्म । ... इन छः आयतनोंके विषयमें कैसे जानते देखते ० ?’ ० यह अनुधर्म होते हैं—‘आवुसो ! चक्षुमें, रूपमें, चक्षुर्विज्ञान (= चक्षु द्वारा मिलनेवाले ज्ञान) में, और चक्षु-विज्ञान द्वारा विज्ञेय धर्मों (= पदार्थों) में जो छन्द=राग, नन्दी=तृष्णा, और जो उपाय ० अनुशय थे, उनके क्षयसे ० मेरा चित्त विमुक्त हुआ—यह जानता हूँ । श्रोत्र, शब्द, श्रोत्र-विज्ञान ० । घ्राण, गंध, घ्राण-विज्ञान ० । जिह्वा, रस, जिह्वा-विज्ञान ० । काया, स्पर्शव्य, काय-विज्ञान ० । मन, धर्म, मनोविज्ञान ०, आवुसो ! इस प्रकार इन छः आध्यात्मिक बाह्य आयतनोंके विषयमें जानते ० ।

“० आगेका प्रश्न ०—‘आवुस ! ० इस स-विज्ञानक (= जीवित) कायामें, और बाहर के सारे निमित्तों (= आकृति आदि) में कैसे जानते देखते अहङ्कार, ममकार, मान, अनुशय^१ अच्छी प्रकार नष्ट हुये ? ० यह अनुधर्म होते हैं—‘आवुसो ! पहिले गृहस्थ होते समय मैं अजान था । तब मुझे तथागत या तथागत आवाकने धर्म उपदेशा । उस धर्मको सुनकर मुझे तथागतके विषयमें श्रद्धा हुई । उस श्रद्धासे युक्त हो मैं सोचने लगा—गृहवास जंजाल है ०^२ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । सो इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध = पर्यवदात, अंगण-रहित = उपक्लेश (= मल)-रहित, मृदुभूत = कार्योपयोगी, स्थिर = अचलता-प्राप्त (और) समाधि-युक्त हो जाने पर आस्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये मैंने चित्तको झुकाया । फिर मैंने—‘यह दुःख है’ इसे यथार्थसे जान लिया ०^३ ‘अब यहाँ (करने)के लिये कुछ (शेष) नहीं है’—इसे जान लिया । आवुसो ! इस प्रकार इस सविज्ञानक कायामें ० अच्छी प्रकार नष्ट हुये ।”

“तव, भिक्षुओ ! उस भिक्षुके कथनको ‘साधु’—(कह) अभिनंदित अनुमोदित कर उसे ऐसा कहना—‘लाभ है हमें आवुस ! सुलभ मिला हमें आवुस ! जो कि हम आप जैसे सब्रह-चारीको देखते हैं’ ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

^१ राग, प्रतिव, मान, अविद्या, दृष्टि, और विचिकित्सा, सत्काय-दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, अन्तग्राह-दृष्टि, दृष्टि-परामर्श शालज्जत-परामर्श (१०) ।

^२ देखो पृष्ठ १५८ ।

^३ देखो पृष्ठ १६ ।

११३—सत्पुरुष-धम्म (३।२।३)

सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! तुम्हें सत्पुरुष (-ों का) धर्म और अ-सत्पुरुष-धर्म उपदेशता हूँ । उसको सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा, मन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! क्या है, अ-सत्पुरुष-धर्म ?—(१)—(क) भिक्षुओ ! (यदि) अ-सत्पुरुष ऊँचे कुलसे प्रव्रजित (= संन्यासी) हुआ रहता है । वह ख्याल करता है—‘मैं ऊँचे कुलसे प्रव्रजित हुआ हूँ, और यह दूसरे भिक्षु ऊँचे कुल से नहीं प्रव्रजित हुये हैं । सो वह उस उच्च-कुलीनता के कारण अपने लिये अभिमान करता है, दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । भिक्षुओ ! यह है, अ-सत्पुरुष-धर्म ।

(१)—(ख) “भिक्षुओ ! सत्पुरुष यह ख्याल करता है—‘उच्च-कुलीनताके कारण लोम-धर्म (= लोभ) नहीं नष्ट हुआ करते, द्वेष-धर्म ०, मोह-धर्म नष्ट नहीं हुआ करते । चाहे ऊँचे-कुल से न प्रव्रजित हुआ हो ; किन्तु यदि वह है धर्म-मार्ग पर आरुढ़, ठीक मार्ग पर आरुढ़, धर्मा-नुसार आचरण करनेवाला; तो वह पूज्य है, वह प्रशंसनीय है ।’ वह प्रतिपत्ति (= प्राप्ति) का ही ख्याल कर, उच्च-कुलीनताके कारण न अपने लिये अभिमान करता है, न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है, भिक्षुओ ! यह है सत्पुरुष-धर्म ।

(२)—(क) “और फिर भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष महाकुलसे प्रव्रजित हुआ रहता है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । भिक्षुओ ! यह है अ-सत्पुरुष-धर्म ।

(२)—(ख) “ ० सत्पुरुष महाकुलसे प्रव्रजित हुआ रहता है । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(३)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष महाभोग (= महाधनी) कुलसे ० । ० ।

(३)—(ख) “ ० सत्पुरुष महाभोग कुलसे ० । ० ।

(४)—(क) “ ० उदार-भोग (= महाधनी) कुलसे ० । ० ।

(४)—(ख) “ ० सत्पुरुष उदारभोगकुल से ० । ० ।

(५)—(क) “ ० और फिर भिक्षुओ ! (कोई) अ-सत्पुरुष ज्ञात (= प्रसिद्ध) यदास्वी होता है । वह ख्याल करता है—‘मैं ज्ञात, यशस्वी हूँ, यह दूसरे भिक्षु अल्पज्ञात अल्पदाकि हैं ।’

वह उस अपनी विज्ञानताके कारण अपने लिये अभिमान करता है, दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । भिक्षुओ ! यह है, अ-सत्पुरुष-धर्म ।

(५)—(ख) “ ० सत्पुरुष ज्ञात, यशस्वी होता है । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । भिक्षुओ ! यह है, सत्पुरुष-धर्म ।

(६)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष वस्त्र, भोजन, शयन-आसन, पथ्य-औपधका पानेवाला होता है । वह ख्याल करता है—० । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(६)—(ख) “ ० सत्पुरुष वस्त्र, ० पानेवाला होता है । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(७)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष बहु-श्रुत होता है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(७)—(ख) “ ० सत्पुरुष बहु-श्रुत होता है । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(८)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष विनयधर^१ होता है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(८)—(ख) “ ० सत्पुरुष विनयधर होता है । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(९)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष धर्म-कथिक (= व्याख्याता) होता है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(९)—(ख) “ ० सत्पुरुष धर्मकथिक होता है । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(१०)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष आरण्यक (= वनवासी) होता है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(१०)—(ख) “ ० सत्पुरुष आरण्यक होता है । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(११)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष पांसु-कूलिक (= चीथदेधारी) होता है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(११)—(ख) “ ० सत्पुरुष पांसुकूलिक होता है । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(१२)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष पिंडपातिक (= मधूकडीवाला) होता है ० दूसरोंको नीची-निगाहसे देखता है । ० ।

(१२)—(ख) “ ० सत्पुरुष पिंडपातिक होता है । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(१३)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष वृक्षमूलिक (= घरके भीतर न रहकर, सदा वृक्षके नीचे रहनेवाला) होता है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(१३)—(ख) “ ० सत्पुरुष वृक्षमूलिक होता है । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

^१ भिक्षुओंके नियमोंका जानकार ।

(१४)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष श्मशानिक (= श्मशानमें रहनेवाला) होता है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(१४)—(ख) “ ० सत्पुरुष श्मशानिक होता है । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(१५)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष कामोंसे विरहित ०^१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(१५)—(ख) “ ० सत्पुरुष ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह ऐसा ख्याल करता है—‘प्रथम-ध्यानकी प्राप्तिके बाद भी भगवान्ने अ-तन्मयता होने (की बात) कही है । जो जो ख्याल करते हैं, उससे वह अन्यथा ही होता है ।’ वह उस अ-तन्मयताको ख्याल कर, उस प्रथम-ध्यानकी प्राप्तिसे न अपने लिये अभिमान करता है, न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । भिक्षुओ ! यह है सत्पुरुष-धर्म ।

(१६)—(क)—“ ० अ-सत्पुरुष ०^१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० । दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(१६)—(ख) “ ० सत्पुरुष ०^१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० उस अ-तन्मयताको ख्यालकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(१७)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष ०^१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(१७)—(ख) “ ० सत्पुरुष ० तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० उस अ-तन्मयताको ख्यालकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(१८)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष ०^१ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(१८)—(ख) “ ० सत्पुरुष ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० उस अ-तन्मयताको ख्यालकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(१९)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष रूपसंज्ञाको सर्वथा छोड़नेसे ०^२ आकाशानन्त्यायतनकी प्राप्त हो विहरता है । ० । दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(१९)—(ख) “ ० सत्पुरुष ०^२ आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० उस अ-तन्मयताको ख्यालकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(२०)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष ०^२ विज्ञान-आनन्द-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(२०)—(ख) “ ० सत्पुरुष ०^२ विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० उस अ-तन्मयताका ख्यालकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(२१)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष ०^२ आर्किचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(२१)—(ख) “ ० सत्पुरुष ०^२ आर्किचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० उस अ-तन्मयताका ख्यालकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

^१ देखो पृष्ठ १५ ।

^२ देखो पृष्ठ २७-२८ ।

(२२)—(क) “ ० अ-सत्पुरुष ०^१ नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० ।

(२२)—(ख) “ ० सत्पुरुष ०^१ नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० उस अ-तन्मयताका ख्याल कर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । भिक्षुओ ! यह है सत्पुरुष-धर्म ।

(२३)—और फिर भिक्षुओ ! सत्पुरुष नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको भी सर्वथा अतिक्रमणकर, संज्ञा-वेदित-निरोध को प्राप्त हो विहरता है । प्रज्ञासे उसे देख कितने ही (उसके) आस्रव (= चित्तमल) नष्ट होजाते हैं । भिक्षुओ ! यह भिक्षु न कुछ मान करता है, न कहीं मान करता है, और न किसी के साथ मान करता है ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।

११४—सेवितव्य-नसेवितव्य-सुत्तन्त (३।२।४)

सेवनीय, अ-सेवनीय

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जैतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“मदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! तुम्हें सेवितव्य-असेवितव्य (= सेवन-योग्य, न-सेवन योग्य) धर्म-पर्याय (= धर्मोपदेश) उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।”

“अच्छा, मन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“ (१) भिक्षुओ ! मैं काय-समाचार (= कायिक कर्म)को दो प्रकारका कहता हूँ, सेवनीय, अ-सेवनीय; वह काय-समाचार अन्योन्य है । (२) • वाक्-समाचार (= वाचिक कर्म) • । (३) भिक्षुओ ! मैं मनः समाचार (= मानसिक कर्म)को दो प्रकारका कहता हूँ—सेवनीय, असेवनीय । वह मन-समाचार अन्योन्य है । (४) भिक्षुओ ! मैं चित्त-उत्पाद (= चित्त या विचारोंकी उत्पत्ति)को दो प्रकारका कहता हूँ—सेवनीय, अ-सेवनीय । यह चित्त-उत्पाद अन्योन्य है । (५) • संज्ञा-लामको • । (६) दृष्टि-लामको • । (७) • आत्मभाव (= शरीर)-लामको • ।”

ऐसा कहने पर आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से यह कहा—“मन्ते ! भगवान्के इम संक्षिप्त, विस्तारसे अ-विभाजित मापणका मैं इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ • ।”—(१) ‘भिक्षुओ ! मैं काय समाचारको दो प्रकारका कहता हूँ • ।’ यह जो भगवान्ने कहा, किम ऐतुने कहा ?—मन्ते ! जिस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराईयाँ (= अकुशल धर्म) बढ़ती हैं, मलाइयाँ (= कुशल धर्म) क्षीण होती हैं; इस प्रकारका कायिक कर्म अ-सेवनीय है । और मन्ते ! जिस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराईयाँ क्षीण होती हैं, मलाइयाँ बढ़ती हैं; इस प्रकारका कायिक कर्म सेवनीय है । मन्ते ! किस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराईयाँ बढ़ती हैं • ?—यहाँ, मन्ते ! (१) कोई (पुरुष) हिंसक, क्रूर, लोहितपाणि (= मूनसे रंगे हाथोंवाला), भारकाटमें रत, सारे प्राणियोंके प्रति निर्दयी होता है । (२) अट्टिजाइयाँ (= चोर) • । (३) कामोंमें व्यभिचारी • । अन्तमें माला मात्र भी जिनपर टाठ दी गई है । मन्ते ! इस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करने से बुराईयाँ बढ़ती हैं, मलाइयाँ क्षीण होती हैं । मन्ते ! किस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराईयाँ क्षीण होती हैं • ?—यहाँ मन्ते ! (१)

१ देखो पृष्ठ १६८-६९ ।

कोई (पुरुष) प्राणातिपात (= हिंसा) छोड़ प्राणातिपातसे विरत होता है ०^१ । (२) ० अदिन्नादान (= चोरी)से विरत होता है ०^१ । (३) ० काम-मिथ्याचारसे विरत होता है ०^१ । मन्ते ! इस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० । 'मिक्षुओ ! मैं काय-समाचार दो प्रकारका कहता हूँ ०'—यह जो भगवान्ने कहा; इसी हेतुसे कहा ।

(२) “ ‘मिक्षुओ ! मैं वाक्-समाचार दो प्रकारका कहता हूँ’—यह जो भगवान्ने कहा, किस हेतुसे कहा ?—मन्ते ! जिस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ० इस प्रकारका वाचिक कर्म अ-सेवनीय है । ० सेवन करनेसे भलाइयाँ बढ़ती हैं, इस प्रकारका वाचिक कर्म सेवनीय है । ० किस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ?—० (१) कोई (पुरुष) मिथ्यावादी होता है, सभामें ०^१ । (२) ० चुगुलखोर ०^१ । ० (३) ० कटुभापी ०^१ । (४) ० प्रलापी ०^१ निस्तार वाणीका बोलनेवाला होता है । मन्ते ! इस प्रकार ० भलाइयाँ क्षीण होती हैं । ० किस प्रकारके वाचिक कर्मसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० ?—० कोई (पुरुष) (१) ० मृपावादसे विरत होता है । सभामें ०^१ । (२) ० पिशुन-वचन (= चुगली) से विरत ०^१ । (३) ० परुषवचनसे विरत ०^१ । (४) प्रलापसे विरत ०^१ सारवाली वाणीका बोलनेवाला होता है । इस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं । ० भगवान्ने कहा, इसी हेतुसे कहा ।

(३) “ ‘मिक्षुओ ! मैं मनःसमाचार दो प्रकारका कहता हूँ ०’—यह जो भगवान्ने कहा, किस हेतुसे कहा ?—० जिस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, ० अ-सेवनीय हैं । ० सेवन करनेसे भलाइयाँ बढ़ती हैं, ० सेवनीय ० । ० किस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ?—० कोई (पुरुष) (१) ० अभिध्यालु (= लोभी) होता है ०^१ । ० (२) ० व्यापन्न-चित्त (= द्वेषी) ०^१ । (३) मिथ्यादृष्टि ०^१ ऐसे श्रमण-ब्राह्मण नहीं, ० जो ० स्वयं जान कर ० जतलायेंगे । मन्ते ! इस प्रकार ० भलाइयाँ क्षीण होती हैं । ० किस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० ?—कोई (पुरुष) (१) अभिध्या-रहित (= निर्लोभी) होता है ०^१ । (२) ० अ-व्यापन्न-चित्त ०^१ । (३) ० सम्यग्-दृष्टि ०^१ । ० इस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं । ० भगवान्ने कहा, इसी हेतुसे कहा ।

(४) “ ‘मिक्षुओ ? मैं चित्त-उत्पादको दो प्रकारका कहता हूँ ०’—यह जो भगवान्ने कहा, किस हेतुसे कहा ?—० जिस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, ० अ-सेवनीय हैं । ० सेवनसे भलाइयाँ बढ़ती हैं, ० सेवनीय ० । ० किस प्रकारके ० सेवनसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ० ?—यहाँ मन्ते ! (१) कोई (पुरुष) अभिध्यालु (= लोभी) होता है, (वह) अभिध्या (= लोभ) युक्त चित्तसे विहरता है । (२) व्यापाद-युक्त चित्त ० । ० (३) ० विहिंसा-युक्त चित्तसे विहरता है । इस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ० । ० किस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० ?—० कोई (पुरुष) (१) अन्-अभिध्यालु होता है ० । (वह) अभिध्या-रहित चित्तसे विहरता है । (२) व्यापाद-रहित चित्तसे ० । (३) ० विहिंसा-रहित चित्तसे ० । ० इस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० । ० भगवान्ने कहा, इसी हेतुसे कहा ।

(५) “ ‘मिक्षुओ ! मैं संज्ञा-लाभको दो प्रकारका कहता हूँ ०’—यह जो भगवान्ने

कहा, किस हेतुसे कहा ?—०।०।० किस प्रकारके संज्ञा-लामसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ?—(१)
 ० कोई (पुरुष) अमिध्यालु होता है, (वह) अमिध्या (= लोभ) युक्त संज्ञासे विहरता है ।
 (२) ० व्यापाद-युक्त संज्ञासे ० । (३) ० विहिंसा-युक्त संज्ञासे ० । इस प्रकार ० बुराइयाँ
 बढ़ती हैं ० । ० किस प्रकारके संज्ञा-लामसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ?—(१) ० अमिध्या-
 रहित संज्ञासे विहरता है । (२) ० व्यापाद-रहित संज्ञासे ० । (३) विहिंसा-रहित संज्ञासे
 ० । ० इस प्रकारके संज्ञा-लामके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० । ० भगवान्ने कहा, इसी
 हेतुसे कहा ।

(६) “‘मिक्षुओ ! मैं दृष्टि (= धारणा)-लामको दो प्रकारका कहता हूँ ०’—यह जो
 भगवान्ने कहा, किस हेतुसे कहा ?—०।०।० किस प्रकारके दृष्टि-लामसे बुराइयाँ बढ़ती हैं
 ० ?—० यहाँ कोई (पुरुष) इस दृष्टिवाला होता है—‘दान कुछ नहीं ०’ स्वयं जान कर ० जत-
 लायेंगे । इस प्रकारके दृष्टि लामसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ० । ० किस प्रकारके दृष्टि लामसे बुराइयाँ
 क्षीण होती हैं ० ?—यहाँ कोई (पुरुष) इस दृष्टिवाला होता है—‘यज्ञ है ०’ ऐसे ध्रमण प्राप्ति
 हैं, ० जतलायेंगे । इस प्रकारके दृष्टि-लामसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० । ० भगवान्ने कहा, इसी
 हेतुसे कहा ।

(७) “‘मिक्षुओ ! मैं आत्म-भाव (= शरीर)-लामको दो प्रकारका कहता हूँ ०’—
 यह जो भगवान्ने कहा, किस हेतुसे कहा ?—०।०।० किस प्रकारके आत्मभाव-लामसे बुराइयाँ
 बढ़ती हैं ० ?—व्यापाद (= द्वेष)-युक्त आत्मभाव-लामके निर्माण करनेसे, पूर्णता प्राप्त करनेके
 लिये बुराइयाँ बढ़ती हैं, भलाइयाँ क्षीण होती हैं । व्यापादरहित आत्मभाव-लामके निर्माण
 करनेसे, पूर्णता प्राप्त करनेके लिये, बुराइयाँ क्षीण होती हैं, भलाइयाँ बढ़ती हैं । ० भगवान्ने
 कहा, इसी हेतुसे कहा ।

“भन्ते ! भगवान्के इस संक्षिप्त ० १ भाषणका मैं इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ।”

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! तुम, सारिपुत्र ! मेरे इस संक्षिप्त भाषणका ठीक ही इस प्रकार
 विस्तारसे अर्थ जानते हो ।”

“सारिपुत्र ! (१) मैं चक्षुर्विज्ञेय (= चक्षुद्वारा ज्ञेय) रूपोंको दो प्रकारका कहना
 हूँ—सेवनीय, अ-सेवनीय... (२) श्रोत्रविज्ञेय शब्दको ० । (३) घ्राण-विज्ञेय गंधको ० ।
 (४) जिह्वाविज्ञेय रसको ० । (५) काय-विज्ञेय स्पर्शको ० । (६) मनो-विज्ञेय धर्मको ० ।”

ऐसा कहनेपर आधुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्ने यह कहा—“भन्ते ! भगवान्के इस संक्षिप्त
 ० १ भाषणका मैं इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ—

(१) “सारिपुत्र ! मैं चक्षुर्विज्ञेय रूपोंको दो प्रकारका कहता हूँ—‘सेवनीय, अ-सेवनीय’—
 यह जो भगवान्ने कहा, किस हेतुसे कहा ?—भन्ते ! जिस प्रकारके चक्षुर्विज्ञेय रूपोंके सेवन
 करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, भलाइयाँ क्षीण होती हैं, इस प्रकारके चक्षुर्विज्ञेय रूप अ-सेवनीय हैं ।
 और, भन्ते ! जिस प्रकारके चक्षुर्विज्ञेय रूपोंके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं, भलाइयाँ
 बढ़ती हैं, इस प्रकारके चक्षुर्विज्ञेय रूप सेवनीय हैं ० । ० श्रोत्र-विज्ञेय शब्द ० । ० घ्राण-विज्ञेय
 गंध ० । ० जिह्वाविज्ञेय रस ० । ० काय-विज्ञेय स्पर्श ० । ० मनोविज्ञेय धर्म ० इस प्रकारके
 मनोविज्ञेय धर्म सेवनीय हैं । ० । भन्ते ! भगवान्के इस संक्षिप्त भाषणका मैं इस प्रकार विस्तारसे
 अर्थ जानता हूँ ।”

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! तुम ० ठीक ही इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो ।”

“सारिपुत्र ! मैं चीवरको दो प्रकारका कहता हूँ—सेवितव्य, अ-सेवितव्य । ० पिंडपात (= भिक्षा) ० । ० शयन-आसन ० । ० ग्राम ० । ० निगम ० । ० नगर ० । ० जनपद (= देश) ० । ० पुद्गल (= व्यक्ति) ० ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से यह कहा—“० मैं, इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ—‘सारिपुत्र ! मैं चीवरको दो प्रकारका कहता हूँ—०’—यह जो भगवान्ने कहा, किस हेतुसे कहा ?—मन्ते ! जिस प्रकारके चीवरके सेवन करनेसे घुराइयाँ बढ़ती हैं, भलाइयाँ क्षीण होती हैं; उस प्रकारका चीवर अ-सेवनीय है । जिस प्रकारके चीवरके सेवन करनेसे घुराइयाँ क्षीण होती हैं, भलाइयाँ बढ़ती हैं, उस प्रकारका चीवर सेवनीय है । ० पिंडपात ० । ० शयन-आसन ० । ० ग्राम ० । ० निगम ० । ० नगर ० इस प्रकारका नगर सेवनीय है । ० । मन्ते ! ० मैं इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ।”

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! तुम ० ठीक ही इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो ।”

“सारिपुत्र ! इस मेरे संक्षिप्त भाषणका इस प्रकार विस्तारसे अर्थ यदि सारे क्षत्रिय जानें, तो यह सारे क्षत्रियोंको दीर्घ काल तक हित-सुखके लिये हो । ० सारे ब्राह्मण ० । ० सारे वैश्य ० । ० सारे शूद्र ० । ० इस मेरे संक्षिप्त भाषणका इस प्रकार विस्तारसे अर्थ यदि देव-मार (= प्रजापति)-ब्रह्मा-सहित सारा लोक, देव-मानुष-श्रमण-ब्राह्मणसहित प्रजा (= जनता) जाने, तो यह” (उसके) लिये दीर्घकाल तक हित-सुखके लिये हो ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।

११५—बहु-धातुक-सुत्तन्त (३।२।५)

धातुयें । दृष्टिप्राप्त पुरुष । स्थान-अस्थानका जानकार

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! जो कोई भय उत्पन्न होता है, वह सभी बाल (=मूर्ख) से ही उत्पन्न होता है, पंडितसे नहीं । जो कोई उपद्रव उत्पन्न होते हैं, वह सभी पालसे ही उत्पन्न होते हैं, पंडितसे नहीं । जो कोई उपसर्ग (= दिक्कतें) ० । जैसे, भिक्षुओ ! तृणके घर या नरकट (= नल) के घरसे निकली आग सुंदर लिये, वायुरहित, कुंठे लगे, त्रिदकी-किगट-बंध कूटागारों (= महलों)को जला देती है; इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई भय ० पंडितसे नहीं । इस प्रकार, भिक्षुओ ! बाल स-भय है, पंडित अ-भय; पाल स-उपद्रव है, पंडित अन्-उपद्रव; बाल स-उपसर्ग है, पंडित अन्-उपसर्ग । भिक्षुओ ! पंडितसे भय नहीं, पंडितसे उपद्रव नहीं, ० उपसर्ग नहीं । इसलिये भिक्षुओ !—‘हम पंडित=विमर्शक (= भीमात्मक) होंगे’—यह तुम्हें सीध लेनी चाहिये ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनंदने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! किन्तसे भिक्षुको पंडित=विमर्शक कहा जा सकता है ?”

“आनन्द ! जब भिक्षु धातु-कुशल (= धातुका सुंदर जानकार) होता है, आयतन-कुशल ०, प्रतीत्य-समुत्पाद-कुशल ०, स्थान-अस्थान-कुशल होता है । इतनेसे, आनन्द ! भिक्षुको पंडित कहा जा सकता है । आनन्द ! यह अठारह धातुयें हैं—(१) चक्षु धातु, (२) रूप ०, (३) चक्षुर्विज्ञान धातु, (४) श्रोत्र ०, (५) शब्द ०, (६) श्रोत्र-विज्ञान ०, (७) घ्राण ०, (८) गंध ०, (९) घ्राण-विज्ञान ०, (१०) जिह्वा ०, (११) रस ०, (१२) जिह्वा-विज्ञान ०, (१३) काय ०, (१४) स्पर्श ०, (१५) काय-विज्ञान ०, (१६) मनोपातु, (१७) धर्म-धातु, (१८) मनोविज्ञान-धातु । आनन्द ! इन अठारह धातुओंको जानना-देगता है, तब भिक्षुको धातु-कुशल कहा जा सकता है ।

“क्या, भन्ते ! और भी पर्याय (= विकल्प) है, जिससे कि भिक्षु धातु-कुशल कहा जा सके ?”

“है, आनन्द ! यह छः धातुयें हैं—(१) पृथिवीधातु, (२) आप (= जल)-धातु, (३) तेज ०, (४) वायु ०, (५) आकाश ०, (६) विज्ञान-धातु । आनन्द ! जब भिक्षु इन छः धातुओंको जानता देखता है, इतनेसे भी धातु-कुशल कहा जा सकता है ।”

“क्या, भन्ते ! और भी पर्याय है ० ?”

“है, आनंद ! यह छः धातुयें हैं—(१) सुख-धातु, (२) दुःख ०, (३) सौमनस्य ०, (४) दौर्मनस्य ०, (५) उपेक्षा ०, (६) अविद्या-धातु । आनंद ! जय भिक्षु ० ।”

“क्या, भन्ते ! और भी पर्याय है ० ?”

“है, आनंद ! यह छः धातुयें (-चित्त) हैं—(१) कामधातु, (२) निष्काम ०, (३) व्यापाद ०, (४) अ-व्यापाद ०, (५) विहिंसा ०, (६) अ-विहिंसा-धातु । आनंद ! जय भिक्षु ० ।”

“क्या, भन्ते ! और भी पर्याय है ० ?”

“है, आनंद ! यह तीन धातुयें (= लोक) हैं—(१) काम-धातु, (२) रूप-धातु, (३) अ-रूप-धातु । आनंद ! जय भिक्षु ० ।”

“क्या, भन्ते ! और भी पर्याय है ० ?”

“है, आनंद ! यह दो धातुयें (= लोक) हैं—(१) संस्कृत (= कृत) धातु, और (२) अ-संस्कृत-धातु । आनंद ! जय भिक्षु ० ।”

“कितनेसे, भन्ते ! भिक्षुको आयतन-कुशल कहा जा सकता है ?”

“आनंद ! यह आध्यात्मिक (= शरीरके भीतरके) ग्राह्य आयतन हैं—(१) चक्षु और रूप, (२) श्रोत्र और शब्द, (३) घ्राण और गंध, (४) जिह्वा और रस, (५) काय और स्पर्श, (६) मन और धर्म । आनंद ! जय भिक्षु ० ।”

“कितनेसे, भन्ते ! भिक्षुको प्रतीत्य-समुत्पाद कुशल कहा जा सकता है ?”

“आनंद ! यहाँ भिक्षु यह जानता है—‘इसके होनेपर यह होता है’; ‘इसके उत्पन्न होनेपर यह उत्पन्न होता है’ । ‘इसके न होनेपर यह नहीं होता’; ‘इसके निरोध (= नाश) होनेपर इसका निरोध होता है’ । जो कि यह अविद्याके कारण संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण पद्-आयतन, पद्-आयतनके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके कारण जरा-मरण, शोक—रोना काँदना, दुःख-दौर्मनस्य, हैरानी-परेशानी उत्पन्न होती है । इस प्रकार इस केवल दुःख-पुंजकी उत्पत्ति होती है । अविद्याके अशेष विराग, और निरोधसे संस्कारका निरोध होता है, संस्कार-निरोधसे विज्ञान-निरोध, विज्ञान-निरोधसे नाम-रूपका निरोध, नाम-रूपके निरोधसे पद्-आयतनका निरोध, पद्-आयतन-निरोधसे स्पर्श-निरोध, स्पर्श-निरोधसे वेदना-निरोध, वेदना-निरोधसे तृष्णाका निरोध, तृष्णा-निरोधसे उपादान-निरोध, उपादान-निरोधसे भव-निरोध, भव-निरोधसे जातिका निरोध, जाति-निरोधसे जरा-मरण, शोक परिदेव, दुःख-दौर्मनस्य, उपायास का निरोध होता है । इस प्रकार इस केवल दुःख-पुंज (आवागमन)का निरोध होता है । इतनेसे, आनंद ! भिक्षुको प्रतीत्य-समुत्पाद-कुशल कहा जा सकता है ।

“आनंद ! ‘इसका स्थान नहीं, इसके लिये अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप्त (= सचे दर्शन को जाननेवाला) पुद्गल (= पुरुष) किसी संस्कार (= क्रिया, कृति)को नित्यके तौर पर ग्रहण करे’—इस स्थानको जानता है । इसके लिये स्थान है, कि पृथग्जन (= अज्ञ) किसी संस्कारको नित्यके तौर पर ग्रहण करे—इसे जानता है । ‘अ-स्थान है, अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप्त पुद्गल किसी संस्कारको सुखके तौर पर ग्रहण करे’—इसका स्थान नहीं (= अ-स्थान) इसे जानता है । ‘स्थान है, अवकाश है, जो पृथग्जन किसी संस्कारको सुखके तौरपर ग्रहण करे—यह स्थान (= संभव) है—इसे जानता है । ‘अस्थान है=अवकाश है, कि दृष्टि-प्राप्त पुद्गल किसी धर्मको

आत्माके तौर पर ग्रहण करे—यह स्थान नहीं है’—इसे जानता है। ‘स्थान है ० जो पृथग्जन किसी धर्मको आत्माके तौरपर ग्रहण करे—यह स्थान है’—इसे जानता है। ‘अस्थान (= असंभव) है, अनवकाश है, जो दृष्टि-प्राप्त माताकी हत्या करे—यह स्थान नहीं है’—इसे जानता है। ‘स्थान है, अवकाश है, जो पृथग्जन माताकी हत्या करे—यह स्थान है’—इसे जानता है। ‘अस्थान है ०, जो दृष्टि-प्राप्त पिताकी हत्या करे—०’ इसे जानता है। ‘स्थान है ० जो पृथग्जन पिताकी हत्या करे—०—इसे जानता है। ‘अस्थान है ० जो दृष्टि-प्राप्त दुष्ट चित्तसे तयागतके (शरीरसे) लोहू निकाले—० इसे जानता है। ‘स्थान है ० जो पृथग्जन ० लोहू निकाले—० इसे जानता है। ‘अस्थान है ० जो दृष्टि-प्राप्त संघ-भेद (= संघमें फूट) करे—० यह जानता है। ‘स्थान है ० जो पृथग्जन संघ-भेद करे—० यह जानता है। ‘अस्थान है ०, जो दृष्टि-प्राप्त ० (बुद्धको छोड़) दूसरेको अपना शास्त्र (= गुरु) बनावे—०—यह जानता है। ‘स्थान है, जो पृथग्जन ० दूसरेको शास्त्र बनावे—०—यह जानता है। ‘अस्थान है ० जो एक लोक-धातु (= लोक)में पूर्व-पश्चात् न हो (एक कालमें) दो अर्हत्-सम्पक्-संबुद्ध उत्पन्न हों—यह स्थान नहीं’—इसे जानता है। ‘स्थान है ०, जो एक लोक धातुमें एक अर्हत् सम्पक् संबुद्ध उत्पन्न हों—यह स्थान है’—इसे जानता है। ‘अस्थान है ०, जो एकलोक धातुमें एक कालमें (= पूर्व-पीछे नहीं) दो राजा चक्रवर्ती उत्पन्न हों—०—यह जानता है। ‘स्थान है ०, जो एक लोक धातुमें एक-कालमें एक राजा चक्रवर्ती उत्पन्न हो—०—इसे जानता है। ‘अस्थान है ०, जो स्त्री अर्हत् सम्पक्-संबुद्ध हो—०—०। ‘स्थान है ०, जो पुरुष अर्हत् सम्पक्-संबुद्ध हो—०—०। ‘अस्थान है ०, जो स्त्री राजा चक्रवर्ती है—०—०। ‘स्थान है ०, जो पुरुष राजा चक्रवर्ती हो—०—०। ‘अस्थान है ०, जो, स्त्री शक्र-पद, मार (= प्रजापति)-पद या ब्रह्माके पदपर आरुढ़ हो—०—०। ‘स्थान है ०, जो पुरुष शक्रपद ०—०—०। ‘अस्थान है ०, जो कायिक दुराचारका दृष्ट = कान्त = मनाप (= प्रिय) विपाक हो—०—०। ‘स्थान है ०, जो ० अन्-इष्ट = अ-कान्त = अ-मनाप विपाक हो ०—०। ‘अस्थान है ०, जो वाग्-दुश्चरितका इष्ट ०—०—०। स्थान है ०, जो वाग्-दुश्चरित (= वाचिक दुराचार)का अनिष्ट ०—०—०। ‘अस्थान है ०, जो मनो दुश्चरितका इष्ट ०—०—०। स्थान है ०, जो मनो दुश्चरितका अनिष्ट ०—०—०। ‘अस्थान है ० जो काय-सुचरितका अनिष्ट ०—०—०। स्थान है ०, जो काय-सुचरितका इष्ट ०—०—०। ‘अस्थान है ०, जो वाक्-सुचरितका अनिष्ट ०—०—०। स्थान है ०, जो वाक्-सुचरितका इष्ट ०—०—०। ‘अस्थान है ०, जो मनः सुचरितका अनिष्ट ० विपाक हो—०—०। स्थान है ०, जो मनःसुचरितका इष्ट ० विपाक हो—०—०। ‘अस्थान है ०, जो काय-दुश्चरितसे युक्त होते काया छोड़ मरनेके बाद सुगति = स्वर्गलोकमें उत्पन्न हो, यह स्थान नहीं—यह जानता है। स्थान है ०, जो ० अपाय = दुर्गति = विनिपात, नरकमें उत्पन्न हो—यह स्थान है—यह जानता है। ‘अस्थान है ०, जो वाग्-दुश्चरित ० स्वर्गमें —०—०। स्थान है ०, जो वाग्-दुश्चरित ० नरकमें ०—०—०। ‘अस्थान है ०, जो मनो-दुश्चरित ० स्वर्गमें —०—०। स्थान है ०, जो मनोदुश्चरित ०—नरकमें —०—०। ‘अस्थान है ०, जो काय-सुचरित से युक्त होते काया छोड़ मरनेके बाद अपाय = दुर्गति = विनिपात = नरकमें उत्पन्न हो—यह स्थान नहीं—जानता है। स्थान है ०, जो काय-सुचरित ०, सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न हो—यह स्थान है—यह जानता है। ‘अस्थान है ०, जो वाक्-सुचरित ०, नरकमें —०—०। स्थान है ०, जो ० स्वर्गमें—०—०। ‘अस्थान है ०, जो मनःसुचरित ०, नरकमें—०—०। स्थान है ०, जो मनःसुचरित ०—स्वर्गमें—०—०।

“आनन्द ! इतनेसे बहुत स्थान-अस्थानमें कुशल कहा जा सकता है।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनंदने भगवान्को यह कहा—

“आश्रय्य ! भन्ते ! अद्भुत !! भन्ते ! किस नामका भन्ते ! यह धर्म-पर्याय (= धर्म-उपदेश) है ?”

“तो आनन्द ! तू इस धर्मपर्यायको बहुधातुक यह भी धारण कर सकता है । चतुःपरिवर्त यह भी ० । धर्मादर्श यह भी ० । अमृतदुन्दुभि यह भी ० । अनुत्तर-संग्राम-विजय यह भी ० ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनंदने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।



११६—इसिगिलि-सुत्तन्त (३।२।६)

ऋषि-गिरिके प्रत्येकबुद्ध

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें ऋषिगिरि (= इसिगिलि) पर्वतपर विहार करते थे ।

तब भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“देखते हो, भिक्षुओ ! तुम इस वैभार पर्वतको ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! इस वैभार पर्वतकी (पहिले) दूसरीही संज्ञा थी, दूसरीही प्रज्ञप्ति (= नाम) थी ।”

“देखते हो, भिक्षुओ ! तुम इस पांडव-पर्वतको ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! इस पांडव पर्वतकी (पहिले) दूसरी ही संज्ञा थी ० ।”

“देखते हो, भिक्षुओ ! तुम इस वैपुल्य-पर्वतको ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! इस वैपुल्य पर्वतकी (पहिले) दूसरी ही संज्ञा थी ० ।”

“देखते हो, भिक्षुओ ! तुम इस गृध्रकूट पर्वतको ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! इस गृध्रकूट पर्वतकी (पहिले) दूसरी ही संज्ञा थी ० ।”

“देखते हो, भिक्षुओ ! तुम इस ऋषिगिलि पर्वतको ?”

“हाँ, भन्ते !”

“भिक्षुओ ! इस ऋषि-गिलि-पर्वतकी (पहिले) दूसरी ही संज्ञा थी ० । भिक्षुओ ! पूर्व-कालमें इस ऋषिगिलि पर्वतमें पाँच सौ प्रत्येकबुद्ध^१ चिर-निवासी थे । यह इस पर्वतमें प्रयेग करते दिखाई देते थे, प्रविष्ट हो जानेपर नहीं दिखाई पडते थे । यह देव मनुष्य कहते यह पर्वत इन ऋषियोंको गिलता (= निगलता) है; (इस प्रकार) ‘ऋषि-गिलि’ (= ऋषियोंको निगलने-वाला) ‘ऋषि-गिलि’ यही संज्ञा हो गई । भिक्षुओ ! (उन) प्रत्येकबुद्धोंके नाम तुम्हें पतलाता हूँ । भिक्षुओ ! प्रत्येकबुद्धोंके नाम तुम्हें कीर्तित करता हूँ । भिक्षुओ ! प्रत्येकबुद्धोंके नाम तुम्हें देशता (= पतलाता) हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

^१ तीन प्रकारके मुक्त पुरुषोंमें एक ।

“अच्छा भन्ते !”—(कह) उन मिश्रुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—

“मिश्रुओ ! अरिष्ट (= अरिष्ट) नामक प्रत्येकबुद्ध इस ऋषिगिरि पर्वतके चिर-निवासी थे । ० उप-अरिष्ट (= उपरिष्ट) ० । ० तगर-सिखी (= नगर-शिखी) ० । ० यशस्वी (= यशस्वी) ० । ० सुदर्शन (= सुदस्तन) ० । ० प्रियदर्शी (= प्रियदर्शी) ० । ० गंधार ० । ० पिंडोल ० । ० उप-ऋषभ (= उपात्म) ० । ० नीथ ० । ० तत ० । ० श्रुतवान् (= सुतवा) ० । ० भावितात्मा (= भावित्त) ० ।

“जो प्राणियोंके सार, दुःख-रहित, आशा-रहित, प्रत्येक-योधि^१ को प्राप्त हुये ।

उन ध्यानी नरोत्तमोंका नाम कहता हूँ, सुनो ।

अरिष्ट, उपाष्टि, तगर-शिखी ।

यशस्वी, सुदर्शन, प्रियदर्शी, (यह) सु-संबुद्ध ।

गंधार, पिंडोल, और उपर्षभ ।

नीथ, तत, श्रुतवान्, भावितात्मा ।

शुभ, शुभ, मतुल, और अष्टम ।

अष्ट सुमेध, अनिघ, सुदाठ ।

(यह) प्रत्येकबुद्ध भव-बंधन-मुक्त (हुये)

महानुभाव भिणु, भिग, दो जाली, सुनिके अष्टक

तव कौसल्य, फिर सुवाह बुद्ध

उपनेमिप, नेमिप उपशान्तचित्त ।

तव श्रद्ध और पंडित विरज,

काल, उपकाल, विजित, और जित्

अंग, वंग, और गुप्तिजित् ।

पश्यीने दुःखकी जड़ उपधि (= लोभ) को छोड़ दिया ।

अपराजित्तने मार-सेनाको जीता ।

शास्ता, प्रवक्ता, और सभंग, लोमहर्ष,

उच्चांगमाय, असित, अनास्रव ।

मनोमय, मानच्छित्, और वन्धुमान् ।

तव विमुक्त, विमल और केतुमान् ।

केतुस्परग, और आर्य्य मातंग ।

तव अच्युत-अच्युतांग, व्यासांग ।

सुमंगल, दर्विल, सुप्रतिष्ठित ।

असेच्य, क्षेम्याभिरत, और सोरत ।

दुरन्वय, संघ, और उज्जय भी ।

दूसरे सुनि सेच्य, अनोमनिक्रम ।

आनन्द, नन्द, उपनन्द (यह) वारह ।

अंतिम शरीरधारी भारद्वाज ।

^१ प्रत्येकबुद्धोंका परमज्ञान ।

बोधि, महानाम, और उत्तर भी ।
 कौसी, शिखो, सुन्दर, भारद्वाज ।
 तिप्य, उपतिप्य भव-ग्रन्धन-च्छेदक ।
 उपशिखी, और वृष्णाछेदक शिखरी ।
 वीतराग मंगल बुद्ध हुये,
 दुःखमूल जालिनी (= वृष्णा)को छेद करपमने ।
 उपनीत धात-पदको प्राप्त हुये ।
 उपोसथ सुन्दर और सत्य नामवाले ।
 जेत, जयन्त, पद्म, और उत्पल ।
 पद्मोत्तर, रक्षित और पर्वत ।
 मानसाध्य, वीतराग शोभित ।
 और सु-वि-मुक्त-चित्त कृष्ण बुद्ध ।
 यह और दूसरे महानुभाव ।
 भवग्रन्धन-मुक्त प्रत्येकबुद्ध ।
 उन सभी सर्व संसर्गत्यागी ।
 असंख्य, निर्वाण-प्राप्त महर्षियोंको वन्दो ।”

११७—महा-चत्तारीसक-सुत्तन्त (३।२।७)

ठीक समाधि आदि

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब भगवान्ने भिक्षुओंको सम्योधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

“भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! उपनिषद् (= रहस्य) और परिष्कार (= सहायक सामग्री)-सहित तुम्हें आर्य सम्यक्समाधिको उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! क्या है उपनिषद्-परिष्कार-सहित आर्य सम्यक्समाधि ?—जैसे कि सम्यग्-दृष्टि (= ठीक धारणा), सम्यक्संकल्प, सम्यक्वाक्, सम्यक्कर्मान्त, सम्यग्-आजीव, सम्यग्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति । भिक्षुओ ! इन सात अंगों (= बातों)से चित्तकी एकाग्रता परिष्कृत होती है । भिक्षुओ ! यह उपनिषद्-सहित अथवा परिष्कार-सहित आर्य सम्यक्समाधि कही जाती है । यहाँ, भिक्षुओ ! सम्यग्-दृष्टि पूर्वगामी होती है । किस प्रकार भिक्षुओ ! सम्यग्-दृष्टि पूर्वगामी होती है, मिथ्या दृष्टिको—‘मिथ्या दृष्टि है’—जानता है ? सम्यग्-दृष्टिको—‘सम्यग्-दृष्टि है’—जानता है । यह उसकी सम्यग्-दृष्टि है । क्या है, भिक्षुओ ! मिथ्यादृष्टि (= झूठी धारणा) ?—‘दान कुछ नहीं ०^१ स्वयं जानकर ० जतलायेंगे’—यह भिक्षुओ ! मिथ्या दृष्टि है । क्या है भिक्षुओ ! सम्यग्-दृष्टि ?—भिक्षुओ ! मैं सम्यग् दृष्टि दो प्रकारकी कहता हूँ । भिक्षुओ ! (एक) सम्यग् दृष्टि सास्त्रव (= समल), उपाधि नामक विपाकको देनेवाली पुण्य-भागीय है । भिक्षुओ ! (एक) सम्यग्-दृष्टि आर्य, अनास्त्रव (= मल रहित) लोकोत्तर (= अलौकिक) मार्गका अंग है । भिक्षुओ ! क्या है ० अनास्त्रव सम्यग्-दृष्टि ?—‘दान है ०^१ स्वयं जानकर ० जतलायेंगे’...। क्या है, भिक्षुओ ! ० अनास्त्रव आर्य सम्यग्-दृष्टि !—भिक्षुओ ! जो वह आर्य-मार्ग सम्यद् आर्य-चित्त = अनास्त्रव-चित्तके आर्यमार्गकी भावना (= अभ्यास) करते प्रज्ञा, प्रज्ञा-इन्द्रिय, प्रज्ञाबल, धर्मविचय संबोधि-अंग, सम्यग्-दृष्टि मार्गका अंग है...। जो वह मिथ्या दृष्टिके छोड़नेके लिये प्रयत्न करता है, और सम्यग्-दृष्टिकी प्राप्तिके लिये; यह सम्यग्-व्यायाम (= ठीक उद्योग) है । जो वह स्मृतिपूर्वक मिथ्यादृष्टिको छोड़ता है, स्मृतिपूर्वक सम्यग्-दृष्टिको ग्रहण कर विहरता है; सो यह सम्यग्-स्मृति है । इस प्रकार यह तीन धर्म (= बातें) जैसे

^१ देखो पृष्ठ ३०० ।

कि—सम्यग्-दृष्टि, सम्यग्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति, सम्यग्-दृष्टिका अनुगमन करते = अनु-परिवर्तन-करते हैं; उनमें, भिक्षुओ ! सम्यग्-दृष्टि पूर्वगामी होती है ।

“कैसे भिक्षुओ ! सम्यग्-दृष्टि पूर्वगामी होती है ?—मिथ्या-संकल्पको ‘मिथ्या-संकल्प है’—जानता है । सम्यक्-संकल्पको ‘सम्यक्-संकल्प है’—जानता है; यह उसकी सम्यग्-दृष्टि होती है । क्या है, भिक्षुओ ! मिथ्या-संकल्प ? काम (= विषयका)-संकल्प, व्यापाद (= द्वेष)-संकल्प, विहिंसा (= हिंसा)-संकल्प—यह, भिक्षुओ ! मिथ्या-संकल्प है । क्या है, भिक्षुओ ! सम्यक्-संकल्प ?—भिक्षुओ मैं सम्यक्-संकल्पको दो प्रकारका यतलाता हूँ—(१) भिक्षुओ ! सम्यक्-संकल्प सास्त्र, ० पुण्य भागीय है; (२) भिक्षुओ ! सम्यक्-संकल्प आर्य, अनास्रव, लोकोत्तर मार्गका अंग है । भिक्षुओ ! क्या है, ० सास्त्र सम्यक्-संकल्प ? नैष्कान्य (= निष्कामता)-संकल्प, अ-व्यापाद-संकल्प, अ-हिंसा-संकल्प—यह, भिक्षुओ ! ० सास्त्र सम्यक्-संकल्प है । क्या है, भिक्षुओ ० अनास्रव सम्यक्-संकल्प ? भिक्षुओ ! जो आर्यमार्ग-संयुक्त, आर्य-चित्त = अनास्रव-चित्तके आर्य-मार्गकी भावना करते, तर्कचित्तक, संकल्प, अर्पणा, व्यर्पणा (= तन्मयता), चित्तका अभि-निरोपण, वाचिक संस्कार—यह है, भिक्षुओ ! ० अनास्रव सम्यक्-संकल्प । जो मिथ्या संवन्धके प्रहाण (= नाश) और सम्यक्-संकल्पकी प्राप्तिके लिये, व्यायाम (= उद्योग) करता है; यह सम्यग्-व्यायाम है । वह जो स्मृति पूर्वक मिथ्या-संकल्पको छोड़ता है, और स्मृति-पूर्वक सम्यक्-संकल्पको प्रहणकर विहरता है,—यह सम्यक्-स्मृति है । इस प्रकार यह तीन धर्म, जैसे कि—सम्यग्-दृष्टि, सम्यग्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति—सम्यक्-संकल्पका अनुगमन = अनु-परिवर्तन करते हैं । वहाँ, भिक्षुओ ! सम्यग् दृष्टि-पूर्वगामी है ।

“कैसे भिक्षुओ ! सम्यग्-दृष्टि पूर्वगामी होती है ?—मिथ्या-वचनको ‘मिथ्यावचन’—जानता है; सम्यग् (= सत्य) वचन को ‘सम्यग्-वचन है’—जानता है—जो यह होती है, उसकी सम्यग्-दृष्टि । क्या है, भिक्षुओ ! मिथ्यावचन ?—मृपावाद (= झूठ), चुगली, कटुवचन, धकवाद—यह है, भिक्षुओ ! मिथ्यावचन । क्या है, भिक्षुओ ! सम्यग्-वचन ?—भिक्षुओ ! सम्यग्-वचनको मैं दो प्रकारका यतलाता हूँ—(१) सम्यग्-वचन, सास्त्र, विषय उपधिसे पुण्यभागीय होता है; (२) सम्यग्-वचन, आर्य = अनास्रव, लोकोत्तर-मार्गका अंग है । क्या है भिक्षुओ ! ० सास्त्र सम्यग्-वचन ?—झूठ-चुगली-कटुवचन-धकवादसे विरत होना—यह है, भिक्षुओ ! ० सास्त्र सम्यग्-वचन । क्या है, भिक्षुओ ! अनास्रव सम्यग्-वचन ?—भिक्षुओ ! जो आर्यमार्ग-संयुक्त आर्य-चित्त = अनास्रव-चित्तके आर्य-मार्गकी भावना करते, चार वाचिक दुष्कर्मों (= झूठ, चुगली, कटुवचन, धकवाद)से अ-रति, वि-रति = प्रति-वि-रति = विरमण—यह है, भिक्षुओ ! ० अनास्रव सम्यग्-वचन । वह जो मिथ्या-वचनके प्रहाण, और सम्यग्-वचनकी प्राप्तिके लिये व्यायाम करता है; यह सम्यग् व्यायाम है । वह जो स्मृति-पूर्वक मिथ्या-वचन को छोड़ता है; और स्मृति पूर्वक सम्यग्-वचनको प्रहण कर विहरता है; यह सम्यक्-स्मृति है । इन प्रकार यह तीन धर्म ० ।

“कैसे, भिक्षुओ ! सम्यग्-दृष्टि पूर्वगामी होती है ?—मिथ्याकर्मन्त (= अनुचित्त कर्म) को ‘मिथ्या कर्मन्त है’—जानता है । सम्यक्-कर्मन्तको ‘सम्यक् कर्मन्त है’—जानता है; जो यह होती है, उसकी सम्यग्-दृष्टि । क्या है, भिक्षुओ ! मिथ्याकर्मन्त ?—हिंसा, चोरी, प्य-मिचार—यह है, भिक्षुओ ! मिथ्याकर्मन्त । क्या है, भिक्षुओ ! सम्यक्-कर्मन्त ?—भिक्षुओ ! सम्यक्-कर्मन्तको मैं दो प्रकारका यतलाता हूँ—(१) सम्यक्-कर्मन्त सास्त्र ०; (२) सम्यक्-कर्मन्त अनास्रव ० । क्या है, भिक्षुओ ! ० सास्त्र सम्यक्-कर्मन्त ? हिंसा-चोरी-प्यमिचारसे

विरत होना—० । क्या है, भिक्षुओ ! ० अनास्रव सम्यक्-कर्मान्त ?—० जो ० आर्यमार्गकी भावना करते तीन कायिक दुष्कर्मोंसे ० विरति ०—० । वह जो मिथ्या कर्मान्तके प्रहाण और सम्यक् कर्मान्तकी प्राप्तिके लिये व्यायाम करता है; यह सम्यग् व्यायाम है । ० स्मृति-पूर्वक सम्यक् वचनको ग्रहण कर विहरता है; यह सम्यक्-स्मृति है । इस प्रकार यह तीन धर्म ० ।

“कैसे, भिक्षुओ ! सम्यग् दृष्टि पूर्वगामी होती है ?—वह सम्यग् आजीवको ‘सम्यग् आजीव है’—जानता है; मिथ्या-आजीवको ‘मिथ्या-आजीव है’—जानता है—० यह ० सम्यग्-दृष्टि । क्या है ० मिथ्या-आजीव ?—कुहना (= पाखंड द्वारा चंचना), लयना (= वात बनाना), नैमित्तिकता (= दैवज्ञका पेशा), निष्पेक्षिकता (= जादूगरी), लामसे लाभकी खोज—यह है, भिक्षुओ ! मिथ्या-आजीव । क्या है, ० सम्यग्-आजीव ?—० दो प्रकारका घतलाता हूँ—(१) सम्यग्-आजीव सास्रव ०; (२) सम्यग्-आजीव अनास्रव । क्या है ० सास्रव सम्यग्-आजीव ?—भिक्षुओ ! यहाँ आर्यश्रावक मिथ्याजीवको छोड़ सम्यगाजीवसे जीविका करता है—यह है, भिक्षुओ ! ० सास्रव सम्यग् आजीव । क्या है, ० अनास्रव सम्यगाजीव ?—० जो ० आर्यमार्गकी भावना करते, मिथ्या-आजीवसे ० विरति ०—० । ० मिथ्याजीवके प्रहाण और सम्यगाजीवकी प्राप्तिकेलिये व्यायाम करता है; यह सम्यग्-व्यायाम है । ० स्मृति-पूर्वक सम्यगाजीवको ग्रहणकर विहरता है, यह सम्यक्-स्मृति है । इस प्रकार यह तीन धर्म ० ।

“कैसे भिक्षुओ ! सम्यग्-दृष्टि पूर्वगामी होती है ?—

भिक्षुओ ! सम्यग्-दृष्टि उसको सम्यक्-संकल्प होता है । सम्यक्-संकल्पको सम्यग् वचन ०, सम्यग्-वचनको सम्यक्-कर्मान्त ०, सम्यक्-कर्मान्तको सम्यगाजीव ०, सम्यगाजीवको सम्यग्-व्यायाम ०, सम्यग्-व्यायामको सम्यक्-स्मृति ०, सम्यक्-स्मृतिको सम्यक्-समाधि ०, सम्यक्-समाधिको सम्यग्-ज्ञान ०, सम्यग्-ज्ञानको सम्यग्-विमुक्ति होती है । इस प्रकार, भिक्षुओ ! आठ अंगोंसे युक्त है, शैक्ष्य (= निर्वाण-पदका उम्मीदवार) की प्रातिपद् (= मार्ग); और दश अंगोंसे युक्त है अर्हत् । वहाँ, भिक्षुओ ! ज्ञानसे बहुतसी बुराइयाँ (= अ-कुशल धर्म) चलीजाती हैं, (और) भावनाकी परिपूर्णताको प्राप्त होती हैं । यहाँ सम्यग्-दृष्टि पूर्वगामी होती है ।

“कैसे, भिक्षुओ ! सम्यग्-दृष्टि पूर्वगामी होती है ?—भिक्षुओ ! सम्यग्-दृष्टिसे मिथ्यादृष्टि नष्ट (= निजीर्ण) होती है, और मिथ्यादृष्टिके कारण जो अनेक पाप, बुराइयाँ (= अकुशल-धर्म) होती हैं वह भी इसके नष्ट होते हैं । सम्यग्-दृष्टिके कारण अनेक मलाइयाँ (= कुशल धर्म) भावनाकी परिपूर्णताको प्राप्त होती हैं । भिक्षुओ ! सम्यक्-संकल्पसे मिथ्या-संकल्प नष्ट होती है, और मिथ्या-संकल्पके कारण जो अनेक पाप = बुराइयाँ होती हैं, वह भी इसके नष्ट होते हैं । सम्यक्-संकल्पके कारण अनेक मलाइयाँ भावनाकी परिपूर्णताको प्राप्त होती हैं । ० सम्यग्-वचन ० । ० सम्यक्-कर्मान्त ० । ० सम्यग्-आजीव ० । ० सम्यग्-व्यायाम ० । ० सम्यक्-स्मृति ० । ० सम्यक्-समाधि ० । ० सम्यग्-ज्ञान ० । ० सम्यग्-विमुक्ति ० ।

“इस प्रकार, भिक्षुओ ! कुशल (= अच्छे)-पक्षके वीस, और अकुशल (= बुरे) पक्षके वीस, (दोनों मिलकर) महा-चत्तारीसक (= महान् चव्वालीस) धर्म-पर्याय प्रचारित (= प्रवर्तित) किया गया, (जो कि) किसी श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मासे, या लोकमें किसीसे प्रतितव्यं (= मोड़ा) नहीं किया जा सकता । भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस महाचत्तारीसक-धर्म-पर्याय (= ० धर्मोपदेश)को गर्हणीय = निन्दनीय समझेगा; उसके लिये इसी समय (= दृष्ट-धर्ममें) धर्मानुसारी दश वाद-अनुवादोंमें निन्दाका पात्र होगा—(१) यदि आप सम्यग्-दृष्टिको निन्दते हैं; तो जो मिथ्या-दृष्टि श्रमण ब्राह्मण हैं, वह आपके पूज्य =

प्रशंसनीय होंगे । (२) यदि आप सम्यक्-संकल्पको निन्दते हैं; तो जो मिथ्या-संकल्प श्रमण-ब्राह्मण हैं, वह आपके पूज्य-प्रशंसनीय होंगे । (३) ० सम्यग्-वचन ० । (४) ० सम्यक्-कर्मान्त ० । (५) ० सम्यग्-आजीव ० । (६) ० सम्यग्-व्यायाम ० । (७) ० सम्यक्-स्मृति ० । (८) ० सम्यक्-समाधि ० । (९) ० सम्यग्-ज्ञान ० । (१०) ० सम्यग्-विमुक्ति ० । भिक्षुओ ! जो कोई ० निन्दनीय समझेगा, ० निन्दाका पात्र होगा । जो कि उत्कल-निवासी ० अहेतुवाद = अ-क्रियवाद = नास्तिकवादके माननेवाले, उत्कल(-देवा) निवासी वस्तु (= वर्ष) और भञ्ज (= भण्य) थे, वह भी (ईस) महा-चत्तारीसक धर्मपर्यायको गर्हणीय = निन्दनीय नहीं समझते । सो किसहेतु ? निन्दा, रोष, उपालम्भके मयसे ।”

भगवान् ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान् के भाषणको अभिनन्दित किया ।

११८—आनापान-सति-सुत्तन्त (३।२।८)

प्राणायाम । ध्यान

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान्, आयुष्मान् सारिपुत्र, ० महामौद्गल्यायन, ० महाकाश्यप, ० महाकात्यायन, ० महाकोट्टित (= कोष्ठिल), ० महाकप्पिन, ० महान्चुन्द, ० अनुरुद्ध, ० रेवत, आनन्द, और दूसरे अभिजात (= प्रसिद्ध) अभिजात स्थविर श्रावकों (= शिष्यों) के साथ श्रावस्तीमें, मृगारमातके प्रासाद, पूर्वाराममें विहार करते थे ।

उस समय स्थविर (= वृद्ध)-भिक्षु नये भिक्षुओंको उपदेश = अनुशासन करते थे । कोई कोई स्थविर भिक्षु दस भिक्षुओंको भी उपदेश ० करते थे; कोई कोई स्थविर भिक्षु बीस भिक्षुओंको भी ०; ० तीस ०; चालीस भिक्षुओंको भी ० । स्थविर भिक्षुओं द्वारा उपदेशित = अनुशासित हो, वह नये भिक्षु अच्छी तरह (= उदार) पूर्वके वाद पीछे आनेवाले (विषय)को समझते थे ।

उस समय, उपोसथको पंचदशी प्रवारणाकी पूर्णिमा^१की रातको, भगवान् भिक्षुसंघसे घिरे खुली जगहमें बैठे थे । तब भगवान्ने चुपचाप (बैठे) भिक्षुसंघको देखकर, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! मैंने इस प्रतिपद् (= मार्ग)के लिये उद्योग किया है, इस प्रतिपद्के लिये मैं उद्योग-युक्त-चित्तवाला रहा हूँ । इसलिये भिक्षुओ ! संतुष्ट (= सोमत्त) हो, अप्राप्तकी प्राप्ति = अनधिगतके अधिगत, न-साक्षात्कार कियेके साक्षात्कारके लिये और भी उद्योग (= वीर्यारम्भ) करो । भिक्षुओ ! यहीं श्रावस्तीमें मैं कौमुदी (= चाँदनी; पूर्णिमा) चातुर्मासीको वितारूँगा ।”

जनपदवासी (= देहातके) भिक्षुओंने सुना, कि भगवान् कौमुदी चातुर्मासी (= कार्तिक-पूर्णिमा)को श्रावस्तीमें ही वितारूँगे । तब जनपदवासी भिक्षु भगवान्के दर्शनके लिये श्रावस्तीमें आने लगे । वह स्थविर भिक्षु और भी सन्तुष्ट हो नये भिक्षुओंको उपदेश = अनुशासन करते । कोई कोई ० दस भिक्षुओंको भी ० । ० । ० चालीस भिक्षुओंको भी ० । ० वह नये भिक्षु ० और भी ० समझते थे ।

उस समय उपोसथको पंचदशी पूर्णा चातुर्मासी कौमुदी पूर्णिमाकी रातको भगवान् भिक्षुसंघसे घिरे खुली जगहमें बैठे थे । तब भगवान्ने चुपचाप (बैठे) भिक्षुसंघको देख कर, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! यह परिपद् प्रलाप (= शोर-गुल)-रहित है, = निष्प्रलाप है...”, सारमें प्रतिष्ठित, शुद्ध है यह परिपद्; उस प्रकारकी, भिक्षुओ ! यह भिक्षुसंघ है । उस प्रकारकी,

^१ आश्विन पूर्णिमा, जिस दिन भिक्षुओंका वर्षावास समाप्त होता है ।

मिथुओ ! यह परिपद् है इस प्रकारकी यह परिपद् आहुणेय = पाहुणेय (= अतिथि सत्कारके योग्य), दक्षिणेय (= दान-पात्र) अंजलिय-करणीय (= हाथ जोड़ने योग्य), लोकमें पुप्यके (बोने)का अनुपम क्षेत्र (खेत) है। मिथुओ ! (यह) उस प्रकारका मिथुसंघ है, ० उम प्रकारकी परिपद् है; जैसी परिपद्को थोड़ा देने पर बहुत (फल) होता है; बहुत (दान) देने पर बहुत (फल) होता है।... (यह) उस प्रकारका मिथु-संघ है, (यह) उस प्रकारकी परिपद् है; जिस प्रकार (की परिपद्)का लोगोको दर्शन भी दुर्लभ है। ० जिस प्रकार (की परिपद्)को योजनों दूर होने पर (पायेयकी) पोटली बाँधकर भी जाना योग्य है।... मिथुओ ! इस मिथु-संघमें (ब्रह्मचर्य) वास-समाप्त किये, कृतकृत्य, मारसुक, सद-अर्थ (= निर्वाण)को-प्राप्त, भव-बंधन-मुक्त सम्यग्-ज्ञान द्वारा मुक्त क्षीणाश्रव (= मल-रहित) अर्हत् मिथु है।... मिथुओ ! इस मिथु-संघमें ऐसे मिथु हैं, जो पाँच अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षयसे, औपपातिक (= देव) हो वहाँ (स्वर्गलोकमें) निर्वाण प्राप्त करनेवाले, उम लोकमें यहाँ न आनेवाले (= अनागामी) हैं।... ० ऐसे मिथु हैं, जो तीन संयोजनोंके क्षयसे राग-द्वेष-मोहके निर्दल (= तनु) हो जानेसे सहदागामी हैं, (वह) एक ही बार (और) इस लोकमें आकर दुःखवा अन्त करेंगे। मिथुओ ! इस मिथु-संघमें इस प्रकारके भी मिथु हैं, जो तीन संयोजनोंके क्षयसे स्रोतआपन्न, (निर्वाण-मार्गसे) न-पतित-होनेवाले, नियत (= निश्चित), सम्प्रोधि-परायण (= परमज्ञानको प्राप्त करनेवाले) हैं। ० जो चारों स्मृति-प्रस्थानकी भावनामें तत्पर हो विहरते हैं। ०। ०। जो चार सम्यक्-प्रधानोंकी भावनामें तत्पर हो विहरते हैं। ०। ०। चार ऋद्धिपादों ०। ०। चार इन्द्रियों ०। ०। पाँच बलों ०। ०। सात घोष्यगों ०। ०। ० आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ०। ०। ० मैत्री-भावना तत्पर हो विहरते हैं। ०। ० करुणा-भावना ०। ०। ० मुदिता-भावना ०। ०। ० उपेक्षा-भावना ०। ०। ० अशुभ-भावना ०। ०। ० अनित्य-संज्ञा ०। ०। ० आनापान-सति (= प्राणायाम)-भावना ०। ०।

“मिथुओ ! आनापानसतिकी भावना करनेपर, (उसके अभ्यासको) घड़नेपर यह महा-फल प्रद = महानृशंस्य होती है। मिथुओ ! अनापान-सतिकी भावना = यहुलीकरण करनेपर चार स्मृति-प्रस्थानोंको परिपूर्ण करती है। भावना = यहुलीकरण करनेपर चार स्मृति-प्रस्थान मात घोष्यगोंको परिपूर्ण करते हैं। ० सात घोष्यद्ग विद्या और विमुक्तिको परिपूर्ण करते हैं। ०

“मिथुओ ! किस प्रकार भावना = यहुलीकरण करनेपर, आनापानसति माहाफलप्रद होती है ?—मिथुओ ! अरण्य-वृक्ष मूल या शून्यागारमें बैठता है क्षायन मार, कायाको सीधा रख, स्मृतिको सन्मुख उपस्थित कर, वह स्मृति (= होन) पूर्वक श्वास लेता है, स्मृतिपूर्वक श्वास छोड़ता है। दीर्घ श्वास लेते समय—‘दीर्घ श्वास ले रहा हूँ’—जानता है। दीर्घ श्वास छोड़ते ०। ह्रस्व-श्वास लेते समय—‘ह्रस्व श्वास ले रहा हूँ’—जानता है। ह्रस्व-श्वास छोड़ते ०। ‘सारी काया (की ग्यति)को अनुभव (= संवेदन) करते श्वास हँगा’—सीखता है। ० श्वास छोड़गा’—मीलता (= अभ्यास करता) है। ‘कायिक संस्कारों (= हर्कतों, क्रियाओं)को रोक कर श्वास हँगा’—अभ्यास करता है। ० श्वास छोड़गा’—अभ्यास करता है। ‘प्रीति-अनुभव करते आश्वास (= श्वास लेना) ० प्रश्वास (= श्वास छोड़ना) हँगा’—अभ्यास करता है। ० सुख-मनुभव करते ०। ०। ० चित्त-संस्कारों (= चित्तकी क्रियाओं)को अनुभव करते ०। ०। ० चित्त-संस्कारको रोक पर ०। ०। ० चित्तको अनुभव करते ०। ०। ० चित्तको प्रमुदित करते ०। ०। ० चित्तको समानित करते ०। ०। ० चित्तको विमुक्त करते ०। ०। ० (मनी वस्तुओंके) अनित्य (होने)का

ख्याल करते ० । ० । ० विरागका ख्याल करते ० । ० । ० निरोधका ख्याल करते ० । ० । ० प्रतिनिस्सर्ग (= त्याग) का ख्याल करते ० । ० । भिक्षुओ ! इस प्रकार भावित = बहुलीकृत आनापानसति महाफलप्रद = महानृदांस होती है ।

“भिक्षुओ ! किस प्रकार भावित = बहुलीकृत आनापानसति चार स्मृति प्रस्थानोंको परिपूर्ण करती है ?—(१) जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु दीर्घ श्वास लेते ‘दीर्घ श्वास ले रहा हूँ’—जानता है ! दीर्घ श्वास छोड़ते ० । ह्रस्व-श्वास लेते ० । ह्रस्व श्वास छोड़ते ० सारी कायाको अनुभव करते ० । ० । कायिक संस्कारोंको रोक कर ० । ० । उस समय, भिक्षुओ ! भिक्षु लोकमें अभिध्या (= लोभ) और दौर्मनस्यको हटाकर, स्मृति-संप्रजन्य-पूर्वक स्मृतिमान् हो, कायामें कायानुपश्यी होकर विहरता है । भिक्षुओ ! इस आश्वास-प्रश्वासको मैं कायामें दूसरी काया कहता हूँ । इसलिये उस समय, भिक्षुओ ! भिक्षु ० कायानुपश्यी होकर विहरता है । (२) जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु प्रीति अनुभव करते ० । ० । ० सुख ० । ० । ० चित्त-संस्कारोंको अनुभव करते ० । ० । ० चित्त-संस्कारको रोक कर ० । ० । उस समय, भिक्षुओ ! भिक्षु लोकमें अभिध्या और दौर्मनस्यको हटाकर, स्मृति-संप्रजन्य-पूर्वक स्मृतिमान् हो, वेदनाओंमें वेदानुपश्यी होकर विहरता है । भिक्षुओ ! आश्वास-प्रश्वासको इस प्रकार अच्छी तरह मनमें करनेको मैं वेदनाओंमें इसे एक वेदना कहता हूँ । इसलिये उस समय भिक्षुओ ! भिक्षु ० वेदानुपश्यी होकर विहरता है । (३) जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु चित्तको अनुभव करते ० । ० चित्त को प्रमुदित करते ० । ० चित्तको समाहित करते । ० चित्तको विमुक्त करते ० । उस समय भिक्षुओ ! भिक्षु ० स्मृतिमान् हो चित्तमें चित्तानुपश्यी होकर विहरता है । (४) जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु अनित्यका ख्याल करते ० । ० विरागका ख्याल करते ० । ० निरोधका ख्याल करते ० । ० प्रतिनिस्सर्गका ख्याल करते ० । उस समय, भिक्षुओ ! भिक्षु ० स्मृतिमान् हो धर्मोंमें धर्मानुपश्यी होकर विहरता है । सो वह अभिध्या-दौर्मनस्योंके नाशको प्रज्ञासे देख देखकर, अच्छी तरह... उपेक्षित होती है । इसलिये, भिक्षुओ ! उस समय भिक्षु ० स्मृतिमान् हो धर्मोंमें धर्मानुपश्यी होकर विहरता है । भिक्षुओ ! इस प्रकार भावित = बहुलीकृत आनापानसति चार स्मृतिप्रस्थानोंको परिपूर्ण करती है ।

“भिक्षुओ ! किस प्रकार भावित = बहुलीकृत चार स्मृतिप्रस्थान सात बोध्यंगोंको परिपूर्ण करते हैं ?—(१) भिक्षुओ ! जिस समय भिक्षु ० स्मृतिमान् हो कायामें कायानुपश्यी हो विहरता है; उस समय इसकी स्मृति उपस्थित = असंमुपित रहती है । जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षुकी स्मृति उपस्थित ० रहती है; उस समय वह भिक्षु स्मृति-संबोध्यंगमें लग्न रहता है; उस समय भिक्षु स्मृति संबोध्यंगकी भावना करता है । उस समय भावना द्वारा भिक्षुका स्मृति-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । (२) वह वहाँ वहाँ विहार करते उस धर्मकी प्रज्ञासे (= विचयन = छान-धीन) प्रविचयन = सीमासन करता है । जिस समय ० वहाँ वहाँ ० धर्मकी प्रज्ञासे विचयन ० करता है, उस समय वह भिक्षु धर्म-विचय-संबोध्यंगमें लग्न रहता है; उस समय भिक्षु धर्म-विचय सं० भावना करता है । उस समय भावना द्वारा भिक्षुका धर्म-विचय-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । (३) उस धर्मकी प्रज्ञासे विचयन ० करते ० उस भिक्षुने वीर्य (= उद्योग) आरम्भ किया होता है । (वह) भिक्षु उस समय वीर्य-संबोध्यंगको भावना करता हुआ होता है । उस समय भावनाद्वारा भिक्षुका वीर्य-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । (४) आरब्धवीर्य (= उद्योगी)को निरामिप (= विषयोंसे परेकी) प्रीति उत्पन्न होती है । जिस समय ० आरब्ध-वीर्य भिक्षुको निरामिपप्रीति उत्पन्न होती है; उस समय भिक्षु प्रीति-संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय भिक्षु प्रीति संबो-

ध्यंगकी भावना करता है । ० उस समय भावना द्वारा मिश्रुका प्रीति संघोर्ध्यंग परिपूर्ण होता है । (५) प्रीतिमान् (साधक)की काया और चित्त मी प्रश्रब्ध (= शान्त) होता है ०^१ प्रश्रब्धि-संघोर्ध्यंग परिपूर्ण होता है । (६) प्रश्रब्ध काय और सुखीका चित्त समाहित (= समाधि प्राप्त = एकाग्र) होता है ०^२ समाधि-संघोर्ध्यंग परिपूर्ण होता है । (७) वह जैसे जैसे समाहित चित्त अच्छी तरह उपेक्षायुक्त होता है । जिस समय, मिश्रुओ ! मिश्रु जैसे जैसे अच्छी तरह उपेक्षायुक्त होता है । मिश्रुने उस समय उपेक्षा-संघोर्ध्यंगको आरंभ किया होता है । ०^३ उस समय मिश्रुका उपेक्षा-संघोर्ध्यंग परिपूर्ण होता है ! मिश्रुओ ! जिस समय मिश्रु ० स्मृतिमान् हो वेदनाओंमें वेदनालुपश्यी, चित्तमें चित्तानुपश्यी, धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है; उस समय उसकी स्मृति उपस्थित = अ-संमुपित होती है ०^४ उस समय मिश्रुका उपेक्षा-संघोर्ध्यंग परिपूर्ण होता है । मिश्रुओ ! इस प्रकार भावित = बहुलीकृत चारों स्मृतिप्रस्थान सात घोर्ध्यंगोंको परिपूर्ण करते हैं ।

“मिश्रुओ ! किस प्रकार भावित = बहुलीकृत सात घोर्ध्यंग विद्या, विमुक्तिको परिपूर्ण करते हैं ?—यहाँ, मिश्रुओ ! मिश्रु विवेक-विराग-निरोधपर अवलंबित तथा त्याग (= व्यवसर्ग) परिणामवाले स्मृति-संघोर्ध्यंगकी भावना (= अभ्यास) करता है । ० धर्म विचय ० । ० धीर्य ० । ० प्रीति ० । ० प्रश्रब्धि ० । ० समाधि ० । ० उपेक्षा ० । मिश्रुओ ! इस प्रकार भावित = बहुलीकृत होनेपर सात संघोर्ध्यंग विद्या और विमुक्तिको परिपूर्ण करते हैं”

भगवान्ने यह कहा, सन्धुष्ट हो उन मिश्रुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

^१ ऊपर जैसे, प्रीतिकी जगह प्रश्रब्धि रखकर ।

^२ ऊपर जैसे, प्रश्रब्धिकी जगह समाधि रखकर ।

^३ ऊपर जैसे, समाधिकी जगह उपेक्षा रखकर ।

^४ ऊपरकी आशुत्ति ।

११६—कायगता सति-सुत्तन्त (३।२।६)

काया योग

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब, भोजनोपरान्त उपस्थान-शालामें एकत्रित बैठे बहुतसे भिक्षुओंकी आपसमें यह वात शुरू हुई—“आश्चर्य ! आवुसो ! अद्भुत !! आवुसो ! जो उन जाननेवाले, देखनेवाले-भगवान् अर्हत् सम्यक्-संशुद्धने कहा है, कि कायगतासति (= कायगत स्मृति) भावित = बहुलीकृत होनेपर महाफलप्रद = महानृशंस होती है ।”

उन भिक्षुओंकी आपसमें यह कथा (= वात) हो रही थी । तब भगवान् सायंकाल ध्यानसे उठकर, जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठकर भगवान्-ने भिक्षुओंको संयोधित किया—

“भिक्षुओ ! इस समय क्या वात ले कर तुम बैठे थे ? तुम्हारी आपसमें क्या वात हो रही थी ?”

“मन्ते ! भोजनोपरान्त यहाँ उपस्थानशालामें बैठे हमलोगोंकी आपसमें यह वात शुरू हुई— ० महानृशंस होती है । मन्ते ! हमारी आपसमें यह वात हो रही थी, कि भगवान् आ गये ।”

“भिक्षुओ ! किस प्रकार भावित = बहुलीकृत होनेपर कायगत-स्मृति महाफलप्रद ० होती है ?—यहाँ, भिक्षुओ ! भिक्षु अरण्य ० १ कायिक संस्कारोंको रोककर ० श्वास छोड़ूँगा’— सीखता है । इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर और संयमयुक्त हो विहरते उसके जो लोमपूर्ण स्वर-संकल्प थे, वह नष्ट होजाते हैं । उनके नष्ट होनेपर अपने भीतर ही चित्त स्थित होता है, बैठ जाता है, एकाग्र होता है = समाहित होता है । भिक्षुओ ! इस प्रकार भिक्षु कायगत-स्मृतिकी भावना करता है ।

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु जाते हुए ‘जाता हूँ’ जानता है ० २ वैसे ही वैसे जानता है । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० समाहित होता है । भिक्षुओ ! इस प्रकार भी भिक्षु कायगत-स्मृतिकी भावना करता है ।

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु जानते हुये गमन-आगमन करता है ० ३ जागता, बोलता, चुप रहता है । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवेसे ऊपर ० ३ यह तंडुल है । ० इस काया में हैं ० । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

१ देखो पृष्ठ ४९१ ।

२ देखो पृष्ठ ३६-३७ ।

३ देखो पृष्ठ १५ ।

“और फिर, मिश्रुओ ! मिश्रु इस कायाको (इसकी) स्थितिके अनुसार ०^१ काटकर चौरस्तेपर बैठा हो । ऐसे ही मिश्रुओ ! ० रचनाके अनुसार देखता है ०^१ । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

“और फिर, मिश्रुओ ! मिश्रु एक दिनके मरे ०^२ इससे न बच सकनेवाली है । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

“और फिर, मिश्रुओ ! मिश्रु कौओंसे खाये जाते ०^३ इसी अपनी कायापर घटावे—यह भी काया ० । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

“और फिर, मिश्रुओ ! मिश्रु मांस-लहू-नसोंसे बँधे ०^३ फँकी देखे ० । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

“० मांस-रहित लोहू लगे ०^२ (अपनी) कायापर घटावे ० । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

“० शंखके समान वर्णवाली सफेद हड्डी युक्तसे शरीर ०^३ चूर्ण होगई हड्डियोंवाले ० । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

“और फिर, मिश्रुओ ! मिश्रु-कामोंसे विरहित ०^१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखसे अभिस्यंदित = परिस्यंदित = पूर्ण करता है, व्यास करता है^१, इसके शरीरका कोई भी भाग विवेक-ज प्रीति-सुखसे अ-व्यास नहीं रहता ।

“जैसे, मिश्रुओ ! चतुर नापित (= नहापक, नहलानेवाला) या नापितका अन्तेवासी काँसेकी थालीमें स्नानचूर्ण डालकर पानीका छीटा दे दे (उसे) मिगोवे । सो वह स्नान-पिंठी स्नेह (= गीलेपन) से अनुगत, परिगत चारों ओर भीतर बाहर स्नेहसे व्यास हो, किन्तु पघरती न हो; इसी प्रकार मिश्रुओ ! मिश्रु इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखमें ० । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

“और फिर, मिश्रुओ ! वितर्क और विचारके ज्ञात होनेपर ०^१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, वह इसी कायाको समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखसे ० व्यास करता है । उनके शरीरका कोई भी भाग समाधिज प्रीति-सुखसे अ-व्यास नहीं रहता ।

“जैसे, मिश्रुओ ! पातालफोड़ गंभीर उदक-हृद (= जलकुंड) हो । उसमें न पूर्वमें जल आनेका मार्ग हो, न पश्चिम०, न दक्षिण०, न उत्तर० । देव भी समय समयपर ठीकसे जगधारा उसमें न डाले, तो भी उस उदक-हृदसे शीतल जलकी धार फूट-निकल, उन्नी उदक-हृदको शीतल जल से अभिस्यंदित=परिस्यंदित, परिपूर्ण=परिस्फुरित करे । उस उदक-हृदका कोई भी भाग शीतल-जल से अ-व्यास नहीं रहे । इसी प्रकार, मिश्रुओ ! मिश्रु इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुखमें ० । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

“और फिर, मिश्रुओ ! मिश्रु प्रीतिसे विरक्त हो ०^१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको प्रीति-रहित सुखसे ० व्यास करता है । ० कोई भी भाग प्रीति रहित-सुखमें अ-व्यास नहीं रहता ।

“जैसे, मिश्रुओ ! उत्पलिनी^२, पद्मिनी, पुंडरीकिनीमें कोई कोई उत्पल, पद्म, या पुंडरीक उदकमें उत्पन्न, उदकमें यद्धित, उदकसे बाहर न निकल भीतर हूये ही पोषित होते हैं । वह जड़ से चोटी तक शीतल जलसे ० व्यास होते हैं । उस उत्पल, पद्म या पुंडरीककी सारी फायाका कोई भी भाग शीतल जलसे अ-व्यास नहीं होता । इसी प्रकार, मिश्रुओ ! मिश्रु इसी कायाको प्रीति-

^१ देखो पृष्ठ १५ ।

^२ देखो पृष्ठ ३६-३७ ।

^३ नील कमलका समूह उत्पलिनी, लाल कमलका समूह पद्मिनी, श्वेत कमलका समूह पुंडरीकिनी ।

रहित सुखसे ० । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु सुख और दुःखके परित्यागसे ० ^१ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको परिशुद्ध = पर्यवदात चित्तसे व्यास कर बैठता है । कोई भी भाग परिशुद्ध ० चित्तसे अ-व्यास नहीं रहता ।

“जैसे, भिक्षुओ ! (कोई) पुरुष श्वेत (= अवदात) वस्त्रसे शिर तक ढाँक कर बैठा हो । ० कोई भी भाग श्वेत वस्त्रसे अनाच्छादित न हो । इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु इसी कायाको परिशुद्ध ० चित्तसे व्यास कर बैठता है । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

“भिक्षुओ ! जिसने काय-गत-स्मृति भावित=बहुलीकृत की है; उसको अन्तर्गत हैं सभी विद्या-भागीय कुशल धर्म ।

“जैसे, भिक्षुओ ! जिसने महासमुद्रको (अपने) चित्तसे व्यास कर लिया है, उसको अन्तर्गत हैं, समुद्रको जानेवाली सभी छोटी नदियाँ । इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मृति ० । भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मृतिको भावित = बहुलीकृत नहीं किया, उसमें मारको मौका मिलता है, उसमें मारको आरम्भण (= आलंघ) मिल जाता है । जैसे, भिक्षुओ ! (कोई) पुरुष मारी शिला-खंडको गीली मिट्टीके ढेरपर फेंके, तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या वह मारी शिला-खंड उस गीली मिट्टीके ढेरमें घुस जायेगा या नहीं ?”

“हाँ, मन्ते !”

“इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मृतिको भावित ० नहीं किया ० ।

“जैसे, भिक्षुओ ! सूखा काष्ठ-खंड पानीसे दूर स्थलपर फेंका हो; तब अग्नि उत्पन्न करने, तेज-प्रादुर्भाव करनेकी इच्छासे (कोई) पुरुष उत्तरारणी लेकर आये । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष उस सूखे काष्ठ-खंड—जो कि पानीसे दूर स्थलपर फेंका है—को उत्तरारणी से रगड़ते आग उत्पन्न कर सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ?”

“हाँ, मन्ते !”

“इसी प्रकार, जिसने काय-गत-स्मृति भावित की है ० ।

“जैसे, भिक्षुओ ! जलका मटका (= उदक-मणिका) रिक्त=तुच्छ घटौंचीपर रक्वा हो । तब (कोई) पुरुष पानीका मार लेकर आये । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष पानी को ढाल सकता है ?”

“हाँ, मन्ते !”

“इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने ० नहीं भावितकी ० । भिक्षुओ ! जिसने ० भावित ० की है, उसमें मार मौका नहीं पाता, आलम्बन नहीं पाता ।

“जैसे, भिक्षुओ ! गीला हरा काष्ठ पानीके पास स्थलपर फेंका हो, तब अग्नि उत्पन्न करने, तेज-प्रादुर्भाव करनेकी इच्छासे (कोई) पुरुष उत्तरारणी लेकर आये । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष उस गीले हरे काष्ठको—जो कि पानीके पास स्थलपर फेंका है—उत्तरारणीसे रगड़ कर आग उत्पन्न कर सकेगा ० ?”

“नहीं मन्ते !”

“इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने काय-गत-स्मृति नहीं भावित की । ०

“जैसे, भिक्षुओ ! पानीसे लयालय मरा, काकपेय (= जिसके ऊपर काँआ बैठ आसानीसे

^१ देखो पृष्ठ १५ ।

पानी पी सकता है) जलका मटका घड़ौंचीपर रक्ता हो । तब (कोई) पुरुष पानीका नार लेकर आये । तो क्या मानते हो, मिथुओ ! क्या वह पुरुष पानीको ढाल सकता है ?”

“नहीं, मन्ते !”

“इसी प्रकार, मिथुओ ! जिसने कायगत-स्मृति भावितकी, उसनें भारको मौका नहीं मिलता ० ।

“मिथुओ ! जिसने कायगत-स्मृतिको भावित ० किया है, वह अभिज्ञाने साक्षात्कार-वर्णीय जिस जिस धर्ममें, अभिज्ञाने साक्षात्कार करनेके लिये चित्तको झुकाता है; आयतन (= स्थान) होनेपर उसे साक्षात्कार कर लेता है ।

“जैसे, मिथुओ ! पानीसे लवालब भरा ० जलका मटका घिड़ौंचीपर रक्ता हो; उसको धलवान् पुरुष जिघर जिघरसे मारे, पानी आता है । ऐमेही ० । इसी प्रकार मिथुओ ! जिसने ० भावित ० किया है ० ।

“जैसे, मिथुओ ! समतल भूमिपर घाँघ घँधी, पानीसे लवालब मरी, काकरेया घाँघोर पुष्प-रिणी हो, उसकी आली (= घाँघ)को धलवान् पुरुष जिघर जिघरसे हटाये, उधर उधरहीसे जल आये ।”

“हाँ, मन्ते !”

“इसी प्रकार मिथुओ ! ० भावित किया । ० ।

“जैसे, मिथुओ ! सुभूमि (= याग)में सड़कके चौरस्ते (= चतुर्माहापथ)पर घोंडे जुता, कोड़े-ढँगा आजानेय (= अच्छी जातिके घोड़ेका) रथ खड़ा हो । तब उसपर चतुर अद्भुत-दृग्-सारथी = युग्याचार्य (= रथवान्) चढ़कर, वायें हायमें यागढोर, और दाहिने हायमें कोड़ा लें जिघर चाहे उधर लेजावे, ले आवे । ऐसेही ० इसी प्रकार मिथुओ ! जिसने ० भावित ० किया है ० ।

“मिथुओ ! जिसने कायगत स्मृतिको स्मृतिसे आसेवित = भावित = पहलीदृग् = पानी-कृत = वस्तूकृत, अनुष्ठित = परिचित = सुसमारब्ध किया है; (उसको) दस लाभ (= आनन्द) होने चाहिये—(१) वह अ-रति-रतिसह होता है—उसको अ-रति (= उदायी) परान नहीं कर सकती, वह उत्पन्न अरतिको दयाकर विहरता है । (२) मय-भैरव-सह होता है—मय-भैरव उसको परास्त नहीं कर सकता; वह उत्पन्न मय गैरवको दयाकर विहरता है । (३) शीत उष्ण, भूख-प्यास, दंश-भशक-त्रात-आतप (= ० धूप)-सरीसृपोंके स्पर्श (= आघात) और दुरक्त, दुराग वचनोंको सहन कर सकता है; उत्पन्न दुःख, तीव्र, परुष = कट्ट, प्रतिकूल = अ-मनाप, प्राणहर शारीरिक वेदनाओंको (सहर्ष) स्वीकार करनेवाला होता है । (४) इसी जन्ममें सुख-विहार-उपयोगी चारो चैतसिक ध्यानोका—कृच्छ्रता विना—कठिनाई विना—पूर्णरूपेण लाभो होता है । (५) वह अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंको अनुभव करता है—एक होकर बहुत होता है ० । (६) ० दिव्य-श्रोत्र ० । (७) दूसरे प्राणियों पुद्गलोंके चित्तको अपने चित्त द्वारा जानता है ० । (८) वह अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करता है ० । (९) ० दिव्यचक्षु ० । (१०) आस्रवोंके क्षयसे अनास्रव चेतोविमुक्ति ० । मिथुओ ! जिसने कायगत-स्मृतिको ० ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिथुओंने भगवान्के भाषणको अभिन्नदित किया ।

१२०—संखारुत्पत्ति-सुत्तन्त (३।२।१०)

पुण्य-संस्कारोंका विपाक

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! संखारुत्पत्ति (= संस्कार-उत्पत्ति)को तुम्हें उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! यहाँ भिक्षु श्रद्धासे युक्त होता है, शीलसे ०, श्रुत (= विद्या)से ०, त्यागसे ०, प्रज्ञासे ० । उसको ऐसा होता है—‘अहोवत ! मैं काया छोड़ मरनेके बाद महाधनी (= महाशाल) क्षत्रियोंके बीच जन्मूँ’ । वह उस चित्तको धारण करता है, उस चित्तका अधिष्ठान करता है, उस चित्तकी भावना करता है । उसके वह संस्कार, वह विहार, इस प्रकार भावित = बहुलीकृत हो, वहाँ (= लोकान्तर) उत्पत्तिके लिये (समर्थ) होते हैं । भिक्षुओ ! यह मार्ग है = यह प्रतिपदा है, वहाँ उत्पत्तिके लिये ।

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु श्रद्धासे युक्त होता है ०, ० ।—अहोवत ! मैं ० ब्राह्मण-महाशालोंके बीचमें जन्मूँ” । ० ।

“० —अहोवत ! मैं ० गृहपति (= वैश्य)-महाशालोंके बीचमें जन्मूँ । ० ।

(१) “० प्रज्ञासे युक्त होता है । उसने सुना होता है—‘चातुर्महाराजिक देवता दीर्घायु, सुंदर और बहुत सुखसम्पन्न होते हैं ।’ उसको यह होता है—‘अहोवत ! मैं काया छोड़, मरनेके बाद चातुर्महाराजिक देवोंमें जन्मूँ’ । वह उस चित्तको ० ।

(२) “० सुना होता है—त्रयस्त्रिंश देव ० ।

(३) “० सुना होता है—याम-देव ० ।

(४) “० सुना होता है—तुषित देव ० ।

(५) “० सुना होता है—निर्माणरति ० ।

(६) “० सुना होता है—परनिर्मितवशवर्ती ० ।

(७) “० सुना होता है—साहस्र ब्रह्मा दीर्घायु, सुन्दर, बहुत सुख-सम्पन्न होता है । भिक्षुओ ! साहस्र ब्रह्मा साहस्री-लोकधातु (= एक हजार ब्रह्मांड)को स्फरण कर = परिग्रहण कर विहरता है । वहाँ जो भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह भी ० परिग्रहण कर विहरते हैं । जैसे

मिश्रुओ ! आँखवाला पुरुष एक आमलक (= आँवले) को हाथमें ले प्रत्यवेक्षण करे (= दिहारे) ; ऐसे ही मिश्रुओ ! साहस्र ब्रह्मा ० । वहाँ ० प्राणी ० भी ० परिग्रहण कर दिहते हैं । उप (पुरुष) को ऐसा होता है—“अहोवत ! मैं काया छोड़ मरनेके बाद साहस्र ब्रह्माकी महत्त्वना (= समान-भोग-भागिता) में जन्मूँ ० ।

(८) “ ० सुना होता है—द्विसाहस्र ब्रह्मा ० ।

(९) “ ० सुना होता है—चतुः साहस्र ब्रह्मा ० ।

(१०) “ ० सुना होता है—पंच साहस्र ब्रह्मा ० । ० पंच साहस्री लोक-धानु ० । जैसे, मिश्रुओ ! आँखवाला पुरुष पाँच आमलकको हाथमें ले प्रत्यवेक्षण करे ० ।

(११) “ ० सुना होता है—दश-साहस्र-ब्रह्मा ० । ० दश-साहस्री लोकधानु ० । जैसे, मिश्रुओ ! शुभ्र, उत्तमजातिकी अठकोणी, पालिश की हुई वैदूर्य-मणि (= हीरा) पांशु-मन्य (= लाल दोशाले) में रखी, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है; इसी प्रकार, मिश्रुओ ! दशसाहस्र ब्रह्मा दश साहस्री लोक-धानुको स्पर्ण कर = परिग्रहण कर विदरता है । वहाँ जो भी प्राणी ० ।

(१२) “ ० सुना होता है—शतसाहस्र ब्रह्मा ० । ० शतसाहस्री लोकधानु ० । जैसे, मिश्रुओ ! निष्क जाम्बूनद (सुवर्ण) चतुर कर्मायुध (= सुनार) द्वारा उल्कामुष (= मट्टी) में अच्छी प्रकार तपाकर, लाल दोशालेमें रखवा भासित होता है, चमकता है, विरोचित होता है; इसी प्रकार मिश्रुओ ! शतसाहस्र ब्रह्मा ० ।

(१३) “ ० सुना होता है—आम देव दीर्घायु ० ।

(१४) “ ० सुना होता है—परीत्ताम देव ० ।

(१५) “ ० सुना होता है—अ-प्रमाणाम देव ० ।

(१६) “ ० सुना होता है—आभास्वर देव ० ।

(१७) “ ० सुना होता है—परीत्तशुभ देव ० ।

(१८) “ ० सुना होता है—अ-प्रमाण-शुभ देव ० ।

(१९) “ ० सुना होता है—शुभकृत्स्न देव ० ।

(२०) “ ० सुना होता है—बृहत्फल देव ० ।

(२१) “ ० सुना होता है—अ-विभ देव ० ।

(२२) “ ० सुना होता है—अ-त्तप्य देव ० ।

(२३) “ ० सुना होता है—सुदर्श देव ० ।

(२४) “ ० सुना होता है—सुदर्शा देव ० ।

(२५) “ ० सुना होता है—अ-कनिष्ट देव ० ।

(२६) “ ० सुना होता है—आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त देव ० ।

(२७) “ ० सुना होता है—विज्ञानन्त्यायतनको प्राप्त देव ० ।

(२८) “ ० सुना होता है—आफिंचन्यायतनको प्राप्त देव ० ।

(२९) “ ० सुना होता है—नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त देव ० ।

“और फिर, मिश्रुओ ! मिश्रु ध्रुवा ०, शील ०, ध्रुत ०, त्याग ०, प्रज्ञामे दुःख होता है । उसको ऐसा होता है—“अहोवत ! मैं आस्रवों (= चित्त-मलों) के क्षयमें आस्रव-रहित जेतो-

विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरूँ—(और) वह आस्रवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरता है। भिक्षुओ ! यह भिक्षु कहीं नहीं उत्पन्न होता, कहीं नहीं उत्पन्न होकर विहरता ।”

भगवान् ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान् के मापणको अभिनन्दित किया ।

(१२—इति अलुपद-वग्ग ३।२)

१२१-चूल-सुञ्जता-सुचन्त (३।३।१)

चित्तकी शून्यताका योग

ऐसा मैंने सुना—

एक समय मगवान् श्रावस्तीमें, भृगार-माताके प्रासाद पूर्वोराममें विहार करने थे ।

तब आयुष्मान् आनन्द सायङ्कालको प्रतिलैकलयन (= ध्यान) से उठकर जहाँ मगवान् थे, वहाँ गये । जाकर मगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने मगवान्से यह कहा—

“मन्ते ! एक समय मगवान् शाक्य (देश)में नगरक नामक शाक्योंके निगम (= कस्बे) में विहार करते थे । वहाँ मैंने, मन्ते ! मगवान्के मुखसे सुना, संयुक्तसे प्रहण किया—‘आनन्द इस समय मैं अधिकतर शून्यता-विहारसे विहरता हूँ’ । क्या, मन्ते ! मैंने इसे ठीकसे सुना, ठीकसे प्रहण किया, ठीकसे मनमें किया, ठीकसे धारण किया ?”

“हाँ, आनन्द ! तूने यह ठीकसे सुना ० । आनन्द ! पहिले भी, और इन समय भी मैं अधिकतर शून्यता-विहारसे विहरता हूँ । जैसे आनन्द ! यह भृगारमाताका प्रासाद हाथी-गाय-घोडा-घोड़ीमे शून्य है; सोना-चाँदीमे शून्य है; स्त्री-पुरुष-सन्निपात (= ० जमावड़े)से शून्य है; किन्तु यह एक मिश्र-संघसे अ-शून्य नहीं; ऐसे ही, आनन्द ! मिश्र ग्राम-संज्ञा (= गाँवके ख्याल) को मनमें न कर, मनुष्य-संज्ञा मनमें न कर, एक अरण्य-संज्ञाको ले मनमें करता है । अरण्य-संज्ञा में उसका चित्त प्रस्कंदित = प्रसन्न होता है; ठहरता है, लगता है । वह यह जानता है—ग्राम-संज्ञाको लेकर जो दरय (= खेद) थे, वह नहीं हैं; मनुष्य-संज्ञाको लेकर जो दरय थे, वह भी नहीं हैं; किन्तु अकेली अरण्य-संज्ञाको लेकर यह दरय-मात्रा है ही । वह जानता है—यह जो ग्राम-संज्ञा (= गाँवका ख्याल) है, यह संज्ञा शून्य है । वह जानता है—यह जो मनुष्य-संज्ञा है ० । इस अकेली अरण्य-संज्ञाको ले कर अ-शून्यता तो है ही । इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, उसमे उमे शून्य देखता है; और जो वहाँ पाकी रहता है, उस विद्यमानको ‘यह है’—जानता है । ऐसे भी आनन्द ! यह यथार्थ = अ-विपर्यस्त, परिशुद्ध शून्यतामें उसका प्रवेश होता है ।

“और फिर, आनन्द ! मिश्र मनुष्य-संज्ञाको ०, अरण्य-संज्ञाको मनमें न कर, केवल पृथिवी-संज्ञा मात्रको लेकर मनमें करता है । पृथिवी-संज्ञामें उसका ‘चित्त ० धरता है ० । जैसे, आनन्द ! बैलका चमड़ा सौ काँटासे तना पल्लि (= शिकन)के दिना होता है; ऐसे ही आनन्द ! वह मिश्र इस पृथिवीके ऊँचे नीचे तट, नदी घाट, खाँड, कंटकस्थान, पर्वतकी विपन्नता—मनोको मनमें न कर, एक मात्र पृथिवी-संज्ञाको ही लेकर मनमें करता है । पृथिवी-संज्ञामें उसका चित्त ० ठहरता है ० । वह ऐसा जानता है—मनुष्य-संज्ञाको लेकर जो दरय थे, वह नहीं हैं । अरण्य-संज्ञाको लेकर जो दरय थे, वह नहीं हैं । किन्तु केवल पृथिवी-संज्ञाको लेकर दरय तो हैं ही । वह

जानता है—वह जो मनुष्य-संज्ञा है, वह (यहाँ) शून्य है; ० जो अरण्य-संज्ञा है, वह भी शून्य है; किन्तु इस केवल पृथिवी-संज्ञाको लेकर अ-शून्यता तो है ही । इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता ० । इस प्रकार भी आनन्द ! यथार्थ ० शून्यतामें उसका प्रवेश होता है ।

“और फिर, आनन्द ! भिक्षु अरण्य-संज्ञाको ०, पृथिवी-संज्ञाको मनमें न कर, केवल अन्तरहित आकाशके आयतन (= अधिकरण, स्थान) (= अकाशानन्त्यायतन)की संज्ञा (= खाल)को लेकर मनमें करता है । आकाशानन्त्यायतन-संज्ञामें उसका चित्त ० ठहरता है ० । वह ऐसा जानता है—अरण्य संज्ञा ०, पृथिवी-संज्ञाको लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं । किन्तु आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको लेकर द्रथ तो हैं ही । ० अरण्य-संज्ञा ० शून्य है; ० पृथिवी-संज्ञा ० शून्य है; किन्तु इस केवल आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको लेकर अशून्यता तो है ही । इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता ० । ऐसे भी, आनन्द । यथार्थ ० शून्यतामें उसका प्रवेश होता है ।

“और फिर, आनन्द ! भिक्षु पृथिवी-संज्ञाको मनमें न कर आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको मनमें न कर, अन्तरहित-विज्ञानके आयतन (= विज्ञानानन्त्यायतन)की संज्ञाको लेकर मनमें करता है । ०^१ ।

“० आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको मनमें न कर, विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाको भी मनमें न कर, केवल आर्किचन्य (= नहीं-कुछ-पन)-आयतनकी संज्ञाको लेकर मनमें करता है ० २ ।

“० विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाको मनमें न कर, आर्किचन्यायतन-संज्ञाको भी मनमें न कर, केवल नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञाको लेकर मनमें करता है ० २ ।

“० आर्किचन्यायतन-संज्ञाको मनमें न कर, नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञाको भी मनमें न कर, केवल अ-निमित्त (= लिंग आदि रहित) चेतःसमाधिको लेकर मनमें करता है । ० आर्किचन्यायतन-संज्ञाको लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं; नैवसंज्ञानासंज्ञायतन-संज्ञाको लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं; किन्तु जीवन (= जीवित)के कारण इसी पद्-आयतनवाली कायाको लेकर यह द्रथ तो है ही । ० आर्किचन्यायतन-संज्ञा ० शून्य है; ० नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञा ० शून्य है; किन्तु जीवनके कारण, इसी पद्-आयतनवाली कायाको लेकर अ-शून्यता तो है ही । इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता ० । ऐसे भी आनन्द ! ० ।

“० आर्किचन्यायतन-संज्ञाको मनमें न कर, नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञाको भी मनमें न कर, (जो) केवल अ-निमित्त चेतःसमाधिको लेकर मनमें करता है; (सो) उसका चित्त अनिमित्त चेतः समाधिमें ० ठहरता है ० । वह ऐसा जानता है—चूँकि यह अनिमित्त चेतःसमाधि अभिसंस्कृत (= कृत) है, चिन्तन करते (यह) अभिसंस्कृत (= कृत) हुई है । जो अभिसंस्कृत (= कृत) है, वह अ-नित्य है, नाशमान (= निरोधधर्मा) है—यह जानता है । तब इस प्रकार जानते-देखते उसका चित्त काम-आस्रवों (= भोगेच्छा सम्यन्धी चित्त कालुष्यों)से मुक्त होता है, ० भव-आस्रव (= जन्मान्तरकी लालसा रूपी आस्रव) ०, अविद्या-आस्रवों (= अज्ञान ०)से भी मुक्त होता है । विमुक्त होने पर ‘विमुक्त हूँ’—ज्ञान होता है । ‘आवागमन स्वप्न होगया, (ब्रह्मचर्य-) वास पूरा होगया, करना था, सो कर लिया, और यहाँके लिये (कुछ जोष) नहीं है—जानता है । वह ऐसा जानता है—‘काम-आस्रवको लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं । भव-आस्रव ० अविद्या-आस्रवको लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं; किन्तु जीवनके कारण, इसी पद्-आयतनवाली काया-

^१ ऊपरकी तरह ही, (अरण्य-संज्ञाको छोड़, और विज्ञानानन्त्यायतनको जोड़) ।

^२ ऊपर जैसे ही (प्रथम-संज्ञाको छोड़, और नई संज्ञा जोड़) ।

को लेकर दरय तो है ही। वह जानता है—कामासत्र सम्यन्धी संज्ञासे यह शून्य है। ० नवा-
सत्र ०। ० अविद्यासत्र-सम्यन्धी संज्ञासे यह शून्य है; किन्तु, ० इसी पदायतनवाली कापाको
लेकर अशून्यता तो है ही। इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, उससे उसे शून्य देखता है, और जो
वहाँ याकी रहता है, उस विद्यमानको—‘यह है’—जानता है। ऐसे, आनन्द ! यह यथायं =
अ-विपर्यस्त, परिशुद्ध परम-अनुत्तर (= सर्वोत्तम) शून्यतामें प्रवेश होता है।

“आनन्द ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण अतीतकालमें परमानुत्तर-शून्यताको प्राप्त कर विहरे,
वह सभी इसी परमानुत्तर-शून्यताको प्राप्त कर विहरे। ० भविष्यकालमें ० विहरेंगे, वह सभी
इसी परमानुत्तर-शून्यताको प्राप्त कर विहरेंगे। ० वर्तमानकालमें ० विहरते हैं, वह सभी इसी
परमानुत्तर-शून्यताको प्राप्त कर विहरते हैं। इसलिये, आनन्द ! ‘परिशुद्ध, परमानुत्तर शून्यताको
प्राप्त कर विहरूँगा’—यह तुझे सीखना चाहिये।”

भगवान् ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनन्द ने भगवान् के भाषणको अभिनन्दित
किया।

१२२—महा-सुञ्जता-सुत्तन्त (३।३।२)

चित्तकी शून्यताका योग

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् शाक्य(-देश)में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे ।

तब भगवान्ने पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले कपिलवस्तुमें भिक्षाके लिये प्रवेश किया । कपिलवस्तुमें भिक्षादन कर, भोजनोपरान्त, भिक्षासे निवृत्त हो दिनके विहारके लिये जहाँ काल-खेमक शाक्यका विहार था, वहाँ गये । उस समय काल-खेमक शाक्यके विहारमें बहुतसे शयन-भासन लगे हुये थे । भगवान्ने ० बहुतसे शयनासन लगे हुये देखे । देखकर भगवान्को यह हुआ—‘यहाँ काल-खेमक शाक्यके विहारमें बहुतसे शयनासन लगे हुये हैं; यहाँ बहुतसे भिक्षु विहरते होंगे ।’

उस समय आयुष्मान् आनन्द, बहुतसे भिक्षुओंके साथ घटाय शाक्यके विहारमें चीवर-कर्म (= भिक्षुवस्त्रकी सिलाई) कर रहे थे । तब भगवान् सायंकालको ध्यानसे उठकर जहाँ घटाय शाक्यका विहार था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठकर भगवान्ने आयुष्मान् आनन्द को संबोधित किया—

“आनन्द ! कालखेमक शाक्यके विहारमें बहुतसे शयनासन लगे हुये हैं, यहाँ बहुतसे भिक्षु विहार करते हैं ?”

“भन्ते ! ० विहारमें बहुतसे शयनासन लगे हुये हैं; यहाँ बहुतसे भिक्षु विहार करते हैं । भन्ते ! यह हम लोगोंका चीवर-कार (= वस्त्र सीने)का समय है ।”

“आनन्द ! संगणिका(= जमात-वंदीमें)राम, संगणिकारत, संगणिकारामतामें संलग्न, गणाराम = गण-रत, गण (= जमात)में प्रसुदित भिक्षु नहीं शोभा देता । आनन्द ! वह ० गण में प्रसुदित भिक्षु निष्कामताके सुख, प्रविवेक (= एकांत-चित्तन)-सुख, उपशम (= समाधि)-सुख सम्बोध-सुख, चित्तैकाग्रता-सुखका इच्छानुसार लाभो, बिना कठिनाईके लाभो = अकृच्छ्रलामो होगा; इसके लिये जगह नहीं । आनन्द ! जो भिक्षु गणसे अलग अकेला विहरता है; उसके लिये आशा रखनी चाहिये, कि वह उस निष्कामताके सुख ० का ० अकृच्छ्रलामो होगा; इसके लिये जगह है । आनन्द ! वह ० गणमें प्रसुदित भिक्षु तात्कालिकी (= सामयिक) कान्त (= प्रिय) चेतोविमुक्तिको प्राप्त हो विहरेंगा, या न करते सार्वकालिकी (= असामयिक)को—इसके लिये स्थान नहीं । आनन्द ! जो भिक्षु गणसे अलग अकेला विहरता है; उसके लिये आशा रखनी चाहिये; कि वह तात्कालिकी कान्त चेतोविमुक्तिको प्राप्त हो विहरेंगा ० या न करते हुये सार्व-कालिकीको—इसके लिये स्थान है । आनन्द ! मैं एक रूप (= पदार्थ) भी ऐसा नहीं देखता, जिसमें रक्त, यथा-भिरतको, रूपका विपरिणाम = अन्यथाभावके कारण, शोक, परिदेव (= रोना-काँदना), दुःख,

दोर्मनस्य, उपायास (= हैरानी-परेशानी) न उत्पन्न हो। आनन्द ! तयागतने इन् नारे निमित्तों (= लिंग, आकृति आदि) को मनमें न कर, आध्यात्मिक (= भीतरी) शून्यताको प्राप्तकर विहरनेको अच्छी तरह वृक्षा (= अभि-सं-बुद्ध) है। वहाँ, यदि जानन्द ! इन् विहारसे विहरते तयागतके पास मिश्रु, मिश्रुणी, उपासक, उपानिका, राजा, राज-महामात्य, तीर्थिक, तीर्थिक-श्रावक आते हैं; तो तयागत विवेक (= एकाग्रताकी ओर) झुके = विवेक-प्रवण = विवेक-प्राग्भार, एकाकी, निष्कामता-रत, सारे आस्रव (= चित्तमल)-श्यानीय धर्मोंसे अलग चित्त हो उद्योजन (= उद्योग) सम्यग्धी वातको ही करनेवाले होते हैं। इसलिये आनन्द ! यदि मिश्रु आध्यात्मिक शून्यताके साथ विहरना चाहे, तो, आनन्द ! उस मिश्रुको अध्यात्ममें (= अपने भीतर) ही चित्तको संस्थापित = सन्निसारित, एकाग्र = समाहित करना चाहिये। आनन्द ! किस प्रकार मिश्रु अध्यात्ममें ही चित्तको संस्थापित करता है ?—यहाँ आनन्द ! मिश्रु धामांसि विरहित ०^१ प्रथमध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० द्वितीयध्यान ०^१ । ० तृतीयध्यान ०^१ । ० चतुर्थध्यान ०^१ । इस प्रकार, आनन्द ! मिश्रु अध्यात्ममें ही चित्तको संस्थापित करता है। वह अध्यात्म शून्यताको मनमें करता है। अध्यात्म शून्यताको मनमें करते हुये, उसका चित्त शून्यतामें ० नहीं ठहरता ०। ऐसा होते, “मिश्रु ऐसे जानता है—‘अध्यात्म शून्यताको मनमें करते मेरा चित्त अध्यात्मशून्यतामें ० नहीं ठहरता ०—इस प्रकार वहाँ समझनेवाला होता है। वह याद शून्यताको मनमें करता है ०। वह आर्निज्य (= चित्तकी अ-सञ्चलता) को मनमें करता है। ० आर्निज्यको मनमें करते हुये, उसका चित्त आर्निज्यमें नहीं ठहरता ०। ० ऐसे जानता है—आर्निज्यको ० नहीं ठहरता ०— ० समझनेवाला होता है।

आनन्द ! उस मिश्रुको उस पहिले वाले समाधि-निमित्त (= ० लक्ष्य) में, अपने भीतर ही चित्तको ० संस्थापित ० करना चाहिये। (तय) वह अध्यात्म शून्यताको मनमें करता है। ०।— ० समझनेवाला होता है।

“आनन्द ! इस विहारसे विहरते हुये उस मिश्रुका चित्त यदि चञ्चल (= टटलने) को चाहता है; (तो) वह टटलता है—‘इस प्रकार टटलते हुये मेरे (चित्तमें) अभिध्या (= लोभ), दोर्मनस्य (= बुरा मन होना), (यह) पाप = अकुशल धर्म (= बुराहर्ष्या) नहीं ध्या च्युंगी’—इस प्रकार वह समझनेवाला होता है।

“आनन्द ! इस विहारसे विहरते हुये, उस मिश्रुका चित्त यदि खड़ा होना चाहता है; (तो) वह खड़ा होता है। ‘इस प्रकार खड़े हुये मेरे (चित्तमें) अभिध्या, दोर्मनस्य पाप ० नहीं ध्या च्युंगी’—इस प्रकार वह समझनेवाला होता है।

“आनन्द ! इस विहारसे विहरते हुये, उस मिश्रुका चित्त यदि बैठनेको चाहता है; (तो) वह बैठता है। ‘इस प्रकार बैठे हुये ०।

“ ० यदि लेटने को चाहता है; (तो) वह लेटता है। ‘इस प्रकार लेटे हुये ०।

“ ० यदि कथा (= वात) करनेको चाहता है; (तो) वह, जो यह कथायें हीन, प्राग्य, पृथग्जनीय (= अज्ञोकी), अनायीकी, अनर्थ-युक्त निर्वेद-विराग-निरोध-वे-अनुपयोगी, उपराम-अभिज्ञा-सम्योध-निर्वाण-के-अयोग्य हैं; जैसे कि राज-कथा ०^२ ऐसी इन् प्रकारकी कथामेंको नहीं कहूंगा’—इस प्रकार यहाँ जाननेवाला होता है। और आनन्द ! जो यह कथा अमि-सं-लेख (= मानस तप) वाली, चित्तसंयम-सहायक, सर्वथा निर्वेद-विराग-निरोध-उपयोगी, उपराम-अभिज्ञा-

सम्बोध-निर्वाणके योग्य है; जैसे कि अल्पेच्छ (= निलोम) -कथा, सन्तोष-कथा, प्रविवेक-कथा, अ-संसर्ग-कथा, वीर्यारम्भ (= उद्योग) -कथा, शील-कथा, समाधि-कथा, प्रज्ञाकथा, विमुक्ति-कथा, विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-कथा—ऐसी इस प्रकारकी कथाओंको कहूँगा—इस प्रकार वहाँ जाननेवाला होता है।

“० यदि वितर्क करनेको चाहता है; तो जो वह वितर्क हीन, ग्राम्य ० निर्वाणके अ-योग्य हैं; जैसे कि काम-वितर्क, व्यापाद-वितर्क, विहिंसा-वितर्क, ऐसे इस प्रकार के वितर्कोंको नहीं वितर्कन करूँगा—इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्त (= जाननेवाला) होता है। और आनन्द! जो यह वितर्क आर्य, नैर्याणिक = वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःखके क्षयकी ओर ले जानेवाले हैं; जैसे कि—निष्कामता-वितर्क, अ-न्यापाद-वितर्क, अ-विहिंसा (= अ-हिंसा) -वितर्क, ऐसे इस प्रकारके वितर्कोंका वितर्कन करूँगा—इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्त होता है।

“आनन्द! यह पाँच काम-गुण हैं। कौन से पाँच?—इष्ट ०^१ प्रिय ०^१ चक्षु द्वारा विज्ञेय रूप, ०^१ श्रोत्र-विज्ञेय शब्द ०^१, घ्राण-विज्ञेय गंध, ०^१ जिह्वा-विज्ञेय रस, ०^१ काय-विज्ञेय स्पष्टव्य आनन्द! यह पाँच कामगुण हैं; जिनसे भिक्षुको...निरंतर अपने चित्तोंको प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—क्या इन पाँच कामगुणोंमेंसे किसी एकमें भी, या किसी एक आयतनमें चित्तका संपर्क होता है?” यदि आनन्द! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते यह जानता है—इन पाँच काम-गुणोंमेंसे किसी एकमें, या किसी एक आयतनमें मेरे चित्तका संपर्क (= समुदाचार) उत्पन्न होता है—वह भिक्षु...ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच कामगुणोंमें जो छन्द = राग है, सो मेरा प्रहीण (= नष्ट) नहीं हुआ—इस प्रकार वह समझने वाला होता है। यदि, आनन्द! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते यह जानता है—इन पाँच कामगुणोंमें किसी एकमें ० मेरे चित्तका समुदाचार उत्पन्न नहीं होता, वह भिक्षु...ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच काम-गुणोंमें जो छन्द = राग है, सो मेरा प्रहीण है—इस प्रकार वह समझनेवाला होता है।

“आनन्द! यह पाँच उपादान-स्कंध हैं; जिनमें भिक्षुको उदय-व्यय (= उत्पत्ति-विनाश) देखते हुये विहरना चाहिये—इस प्रकार रूप है, इस प्रकार रूपका समुदय (= उत्पत्ति) होता है, इस प्रकार रूपका अस्तगमन (= नाश) होता है। इस प्रकार वेदना है ०। इस प्रकार संज्ञा ०। इस प्रकार संस्कार ०। इस प्रकार विज्ञान ०। इस प्रकार इन पाँच उपादान-स्कंधोंमें उदयव्यय देखते हुये विहरते, उन पाँच उपादान-स्कंधोंमें अस्मि-मान (= यह मैं हूँ, यह क्या) नष्ट हो जाता है। वह भिक्षु ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच स्कंधोंमें जो अस्मिमान है, सो मेरा प्रहीण (= नष्ट) हो गया—इस प्रकार वह समझनेवाला होता है। आनन्द! यह धर्म हैं एकान्त-कुशल (= चित्कुल अच्छे) से आये, आर्य, लोकोत्तर, पाप्मा (= मार) की पहुँचसे बाहर।

“तो क्या मानते हो, आनन्द! कि श्रावक (= शिष्य)को मतलब (= अर्थ) देखकर मगाये जाने पर भी शास्ताका अनुसरण करना चाहिये?”

“मन्ते! भगवान् हमारे धर्मके मूल हैं, भगवान् नेता हैं, भगवान् प्रतिशरण (= अवलंब) हैं। अच्छा हो, मन्ते! भगवान् ही इस वचन का अर्थ कहें। भगवान्से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे।”

“आनन्द! सूत्र, गेय, व्याकरण (भेदवाले उपदेशों)के लिये शिष्यको शास्ता (=

^१ देखो पृष्ठ ९३, ७५।

गुरु) का अनुसरण नहीं करना चाहिये। सो किस हेतु ?—दीर्घकाल के हितके लिये, आनन्द ! धर्म सुने, धारण किये जाते हैं, वचनसे परिचित् मनसे अनुपेक्षित (= विचारित), दृष्टिसे सुप्रति-विद्ध (= तह तक पहुँचकर समझे गये) होते हैं। आनन्द ! जो यह कथा (= यात) अन्ति-संलेखवाली ० विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-कथा है; आनन्द ! इस प्रकारकी कथाके लिये शिष्यकी ० शास्त्राका अनुसरण करना चाहिये।

“ऐसा होनेपर, आनन्द ! आचार्य-उपद्रव होता है, ० अन्तेवासी-उपद्रव ०, ० ब्रह्मचारी-उपद्रव होता है। आनन्द ! कैसे आचार्य-उपद्रव होता है ?—यहाँ, आनन्द ! कोई शास्त्रा (= गुरु) अरण्य, वृक्ष-छाया, पर्वत-कन्दरा, गिरि-गुहा, झमझान, वनप्रस्थ, सुले-भँदान, पुआलके गंज—ऐसे एकान्त शयनासनको सेवन करता है। ऐसे एकान्तमें विहरते हुये उनका, नैगम (= नागरिक) और जानपद (= दीहाती), ब्राह्मण-गृहपति अनुगमन करते हैं। ० ब्राह्मण-गृहपतियों द्वारा अनु-गमन किये जानेपर वह प्रश्नका इच्छुक होता है, लोभ (= गंध)को प्राप्त होता है, यटोरु होने लगता है। आनन्द ! यह है आचार्य-उपद्रव। आचार्य-उपद्रवके कारण, संक्लेशिक (= मटिन करने-वाले) पौनर्भविक (= आवागमन देनेवाले), भयावह, दुःख-परिणामी, भविष्यमें-जन्म-जरा-मरण-द देनेवाले, पापक=अकृश्ल-धर्मों (= दुराइयों)ने उसे मार दिया। आनन्द ! इस प्रकार आचार्य-उपद्रव होता है। और कैसे, आनन्द ! अन्तेवासी-उपद्रव होता है ?—आनन्द ! उसी शास्त्राका शिष्य, अपने शास्त्राके विवेक (= एकान्त-चिन्तन)का अनुकरण करते अरण्य ० ऐसे एकान्त शयनासनको सेवन करता है। ० यटोरु होने लगता है। आनन्द ! यह है अन्तेवासी-उपद्रव। ०। आनन्द ! इस प्रकार अन्तेवासी-उपद्रव होता है। और कैसे, आनन्द ! ब्रह्मचारी-उपद्रव होता है ? आनन्द ! यहाँ लोकमें तथागत अर्हत्-सम्यक्-संबुद्ध विद्या-चरण-युक्त, सुगत, लोफविद्ध, पुरपोंके अनुपम चाबुक सवार, देवताओं और मनुष्योंके उपदेशा भगवान् बुद्ध उत्पन्न होते हैं। यह अरण्य ० ऐसे एकान्त शयनासन (= निवास)को सेवन करते हैं। ऐसे एकान्तमें विहरते उनका नैगम, जानपद ब्राह्मण-गृहपति अनुगमन करते हैं। ० ब्राह्मण-गृहपतियों द्वारा अनुगमन किये जानेपर (भी) वह प्रश्न (= पुछार)के इच्छुक नहीं होते, लोभको प्राप्त नहीं होते, यटोरु नहीं बन जाते। आनन्द ! उसी शास्त्राका श्रावक, अपने शास्त्राके विवेकका अनुकरण करते अरण्य ० यटोरु होने लगता है। आनन्द ! यह है ब्रह्मचारी-उपद्रव। ०। आनन्द ! इस प्रकार ब्रह्मचारी-उपद्रव होता है।

“वहाँ, आनन्द ! जो यह आचार्य-उपद्रव है, और जो अन्तेवासी-उपद्रव है, इन (दोनों)-से ब्रह्मचारी-उपद्रव ही अधिक दुःख विपाकवाला, अधिक कटु-विपाकवाला है; और पतनकी ओर ले जानेवाला है। इसलिये, आनन्द ! सुझे मित्रवत् यनाओं, दाशुयत् नहीं। यह तुम्हारे लिये दीर्घ-कालतक हित-सुखके लिये होगा। आनन्द ! किस प्रकार शिष्य शास्त्राको दाशुयत् यनाते हैं, मित्र-वत् नहीं ?—यहाँ, आनन्द ! अनुकम्पक, हितैषी शास्त्रा, अनुकम्पा करके शिष्योंको धर्म उपदेशते हैं—यह तुम्हारे हितके लिये है, यह तुम्हारे सुखके लिये है। (विन्तु) श्रावक उसको सुनना नहीं चाहते, कान नहीं देते, दूसरी ओरसे (हटाकर) चित्तको (यहाँ) नहीं ग्यापते; शास्त्राके प्रामन (= उपदेश)को अतिक्रमण कर वर्तते हैं। इस प्रकार, आनन्द ! शिष्य शास्त्राको दाशुयत् व्यपहार करते हैं, मित्रवत् नहीं। कैसे आनन्द ! शिष्य शास्त्राको मित्रवत् यनाते हैं, दाशुयत् नहीं ?—यहाँ, आनन्द ! ० शास्त्रा ० धर्म उपदेशते हैं—०। और श्रावक उसको सुनना चाहते हैं, ध्यान देने हैं।

दूसरी ओरसे (हटाकर) चित्तको (वहाँ) स्थापते हैं; शास्ताके शासनको अतिक्रमण कर नहीं वर्तते । इस प्रकार, आनन्द ! ० शत्रुवत् नहीं । इसलिये, आनन्द ! मुझे भिन्नवत् बनाओ, शत्रुवत् नहीं । यह तुम्हारे लिये दीर्घकाल तक हित-सुखके लिये होगा । आनन्द ! मैं उस प्रकार पराक्रम नहीं करता, जैसे कुम्हार कच्चे, कच्चे मात्र (वर्तनों)में । आनन्द ! निग्रह कर करके मैं व्याख्यान करता हूँ ; प्रग्रह कर करके व्याख्यान करता हूँ; जो सार है, वह ठहरेगा ।”

भगवान् ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान् के भाषणको अभिनन्दित किया ।



१२३—अच्छरिय-धम्म-सुत्तन्त (३।३।३)

बुद्ध कहाँ और कैसे उत्पन्न होते हैं ?

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें, अनाथपिण्डिकके आराय जेतवनमें विहार करने में ।

तब भिक्षाले निवृत्त हो भोजनोपरान्त उपस्थान शालामें एकत्र बैठे, बहुतसे भिक्षुओंकी आपसमें यह बात उठी—

“आश्चर्य है आबुसो ! अद्भुत है !! आबुसो ! तथागतकी महान्तद्विमत्ता = महानु-
मावताको; जो कि तथागत, छिन्न-प्रपंच = छिन्न-वर्त = परादिस्त्वह, सर्व दुःख-निवृत्त निर्वाण
प्राप्त अतीतकालके बुद्धोंको स्मरण करते हैं, जानते हैं—नह भगवान् अर्हत् ह्य जातिके थे—यह
भी । इस नाम ० । इस गोत्र ० । ० शील ० । ० धर्म ० । ० प्रज्ञा ० । ० विहार ० । ०
विमुक्ति ० ।”

ऐसा कहने पर आयुष्मान् आनन्दने उन भिक्षुओंमें यह कहा—

“आबुसो ! तथागत आश्चर्य हैं, और आश्चर्य (-कर) धर्मोंसे युक्त हैं । तथागत अद्भुत
हैं, और अद्भुत धर्मोंसे युक्त हैं ।”

यह उस समय उन भिक्षुओंकी आपसमें क्या हो रही थी । तब भगवान् सायंपाल ध्यान-
से उठकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये । जाकर पिछे आपनपर बैठे । बैठ पर भगवान्ने
भिक्षुओंको सन्वोधित किया—

“भिक्षुओ ! इस समय क्या बात लेकर तुम बैठे थे, तुम्हारी आपसमें क्या बात हो
रही थी ?”

“भन्ते ! भोजनोपरान्त... यहाँ उपस्थान-शालामें बैठे हम लोगोंकी आपसमें यह बात सुन-
हुई—‘आश्चर्य है आबुसो ! ० । ० विमुक्ति ० ।’ ऐसा कहने पर, भन्ते ! आयुष्मान् आनन्दने
हमें यह कहा—‘आबुसो ! तथागत ० अद्भुत धर्मोंसे युक्त हैं ।’ भन्ते ! हमारी आपसमें यह बात
हो रही थी, कि भगवान् आ गये ।”

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको सन्वोधित किया—

“तो, आनन्द ! तू और भी प्रसन्नता पूर्वक तथागतके आदर्श अद्भुत धर्मोंको जान ।”

“भन्ते ! भगवान्के मुखसे मैंने इसे सुना, भगवान्के मुखसे मैंने इसे प्रत्यक्ष
‘आनन्द ! बोधिसत्त्व स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त तुषित लोकमें उत्पन्न होते हैं’ । जो दि भन्ते !
बोधिसत्त्व स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त तुषित लोकमें उत्पन्न होते हैं—इसे मैंने सुना । भगवान्
का आश्चर्य अद्भुत धर्म समझता हूँ । भन्ते ! भगवान्के मुखसे मैंने सुना ०—आनन्द ! बोधिसत्त्व
स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त (हो) तुषित लोकमें ठहरे—इसे मैंने सुना ० । ०—आनन्द ! बोधिसत्त्व गारी

आयु भर तुपित लोकमें स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त रहे'—० । ०—'आनन्द ! बोधिसत्त्व तुपित लोकसे च्युत हो माताके गर्भमें स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त प्रविष्ट हुये'—० । ०—'आनन्द ! जिस समय बोधिसत्त्व तुपित लोकसे च्युत हो माताके गर्भमें प्रविष्ट होते हैं; तो देव-मार ब्रह्मा सहित (सारे) लोकमें श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य सहित (सारी) प्रजामें; देवताओंके तेजको भी मात करनेवाला, अप्रमाण, उदार (= महान्) प्रकाश लोकमें प्रकट होता है; जो वह घने अंधकारसे पूर्ण तमसावृत दूसरे लोक हैं; जहाँ पर कि इतने तेजस्वी = इतने महानुभाव यह सूर्य-चंद्र भी प्रकाश नहीं पहुँचा सकते; वहाँ पर भी ० उदार प्रकाश प्रकट होता है । उस लोकमें जो प्राणी उत्पन्न हैं, वह भी उस प्रकाशसे एक दूसरेको पहिचानते हैं—'और भी...प्राणी यहाँ उत्पन्न हैं' । और यह दस-साहस्री लोक-धातु कंपित = प्रकंपित, = संग्र-नेपित होती है । ० उदार प्रकाश प्रकट होता है । जो कि, भन्ते ! ० । ०—'आनन्द ! जब बोधिसत्त्व माताके गर्भमें रहता है, तो चार देव पुत्र आकर चारों दिशाओंमें रक्षा करते हैं—(जिसमें कि) बोधिसत्त्व या बोधिसत्त्व-माताको कोई मनुष्य या अ-मनुष्य हानि न पहुँचा सके' । जो कि, भन्ते ! ० । ०—'आनन्द ! जब बोधिसत्त्व माताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसत्त्व-माता स्वभावतः शीलवती होती है—वह हिंसा-चोरी-व्यभिचार-झूठ-सुरापान आदिसे विरत होती है' । जो कि भन्ते ! ० । ०—'आनन्द ! जब बोधिसत्त्व माताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसत्त्व माताका चित्त भोगकी इच्छासे किसी पुरुषमें नहीं जाता । किसी रागयुक्त पुरुषसे बोधिसत्त्व-माता अतिक्रमणीय नहीं होती । जो कि, भन्ते ! ० । ०—'आनन्द ! जब बोधिसत्त्व-माताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसत्त्व-माता पाँच कामगुणों (= भोगों) को पानेवाली होती है । वह पाँच कामगुणोंसे समर्पित = युक्त हो परिचारित होती है' । जो कि, भन्ते ! ० । ०—'आनन्द ! जब बोधिसत्त्व-माताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसत्त्व-माताको कोई रोग नहीं होता, बोधिसत्त्व-माता सुखी अ-क्लान्त-काया होती है । जो कि, भन्ते ० । ० और बोधिसत्त्व-माता...आड़में गर्भके भीतर रहते बोधिसत्त्वको इन्द्रिय अंग-प्रत्यंग-सहित देखती है; जैसे आनन्द ! शुभ्र, उत्तम जातिकी, अठकोणी पालिशकी हुई वैदुर्यमणि (= हीरा) हो; उसके भीतर नीला, पीला, लाल, श्वेत, या नारंगी (= पांडु)-रंगका सूत पिरोया हो । उसे हाथमें लेकर आँखवाला पुरुष देखे—यह ० वैदुर्यमणि है, इसके भीतर नीला ० सूत पिरोया है । इसी प्रकार, आनन्द ! बोधिसत्त्व-माता आड़में ०' । जो कि, भन्ते ! ० । ०—'आनन्द ! बोधिसत्त्वको जन्मे सप्ताह होने पर, बोधिसत्त्व-माता मृत्युको प्राप्त हो, तुपित-लोकमें उत्पन्न होती है' । जो कि, भन्ते ! ० । ०—'आनन्द ! जैसे अन्य स्त्रियाँ नौ या दस मास गर्भको कुक्षिमें रख, प्रसव करती हैं, इस प्रकार बोधिसत्त्व-माता प्रसव नहीं करती । बोधिसत्त्व-माता (पूरे) दस मास ही बोधिसत्त्वको कुक्षिमें धारणकर प्रसव करती है' । जो कि, भन्ते ! ० । ०—'आनन्द ! जैसे अन्य स्त्रियाँ वैठी या लेठी प्रसव करती हैं, इस प्रकार बोधिसत्त्व-माता प्रसव नहीं करती । बोधिसत्त्वमाता खड़े रह बोधिसत्त्वको जनती हैं । जो कि, भन्ते ! ० । ०—'आनन्द ! जब बोधिसत्त्व माताकी कुक्षिसे निकलता है; पहिले उसे देवता ग्रहण करते हैं, पीछे मनुष्य' । जो कि, भन्ते ! ० । ०—'आनन्द ! जब बोधिसत्त्व-माताकी कुक्षिसे निकलता है, तो बोधिसत्त्व अभी पृथिवीको 'नहीं' प्राप्त होता, कि चार देव-पुत्र उसे ग्रहणकर माताके सामने रख देते हैं—'देवि ! प्रसन्न होओ; महाप्रतापी (= महेशक्त्व) पुत्र तुम्हें उत्पन्न हुआ' । जो कि, भन्ते ! ० । ०—'आनन्द ! जब बोधिसत्त्व-माताकी कुक्षिसे निकलता है, तो उद-इलेप्प-रुधिर-पीय आदि किसी अ-शुचि (पदार्थ)से अलिप्त हो शुद्ध = विशद ही (उत्पन्न होता है); जैसे आनन्द ! मणि-रत्न काशीके वस्त्रमें रक्खा हो, न उसे काशिक वस्त्र लिप्त करता है, न वह काशिक वस्त्रको लिप्त करता है । सो किस हेतु ?—दोनोंके शुद्ध होनेसे । ऐसे ही,

आनंद ! जय योधिसत्त्व ०' । जो कि, भन्ते ! ० । ०—'आनंद ! जय योधिसत्त्व माताकी कुक्षिसे निकलता है, तो आकाशसे एक शीतल दूसरी गर्म—दो जल धारायें प्रकट होती हैं; जिनमें कि योधिसत्त्व और योधिसत्त्व-माताका उदककृत्य (= स्नान, प्रक्षालन आदि) किया जाता है । जो कि, भन्ते ! ० ।—'आनंद ! सद्यः उत्पन्न योधिसत्त्व पैरको समथर रख, पृथिवी पर खड़ा हो, उत्तरा-भिसुख सात कदम चलता है; इत्रेत्-छन्न-धारित हो सारी दिशाओंको विलोकन करता है । और आर्पणी (= महती) वाणीकी बोलता है—मैं लोकमें अग्र हूँ, ० ज्येष्ठ हूँ, ० श्रेष्ठ हूँ, यह अन्तिम जन्म है, अथ पुनर्भव (= आवागमन) नहीं, जो कि, भन्ते ! ० । ०—आनंद ! जय योधिसत्त्व-माताकी कुक्षिसे निकलता है; तो देव-मार-ब्रह्मा-सहित (सारे) ०' प्रकाश लोकमें प्रकट होता है ०' दश-साहस्री-लोकधातु कंपित ०' होती है ।...। जो कि भन्ते ! ० ।"

"तो, आनन्द ! इसे भी तथागतका आश्रय = अद्भुत धर्म धारणकर—यहाँ तथागतको वेदनायें (= अनुभव) विदित हो उत्पन्न होती हैं, ० स्थित होती हैं । ० धम्म होनी हैं, ० संज्ञायें ० । ० वितर्क ० इसे भी तू आनंद तथागत ० धारणकर ।"

"जो कि, भन्ते ! भगवान्को वेदनायें ०, ० संज्ञायें ०, ० वितर्क विदित हो उत्पन्न होते हैं, ० स्थित होते हैं, ० अस्त होते हैं,—इसे भी भन्ते ! मैं भगवान्का आश्रय = अद्भुत धर्म धारण करता हूँ ।"

आयुष्मान् आनंदने यह कहा, शाल्ता उससे सहमत हुये; और उन भिक्षुओंमें मन्नुष्ट हो आयुष्मान् आनंदके भाषणको अभिनंदित किया ।

१२४—वक्कुल-सुत्तन्त (३।३।४)

वक्कुलका त्यागमय भिक्षु-जीवन

ऐसा मैंने सुना—

एक समय आयुष्मान् वक्कुल राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् वक्कुलका पहिले गृही होते वक्का भिन्न अचेल (= नग्न) काश्यप, जहाँ आयुष्मान् वक्कुल थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्मान् वक्कुलके साथ^१ संमोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे अचेल काश्यपने आयुष्मान् वक्कुलसे यह कहा—

“आवुस वक्कुल ! प्रब्रजित (संन्यासी) हुये कितना समय हुआ ?”

“आवुस ! मुझे प्रब्रजित हुये अस्सी वर्ष होगये ।”

“आवुस ! प्रब्रजित हुये इन अस्सी वर्षोंमें कितनी बार तुमने मैथुन सेवन किया ?”

“आवुस काश्यप ! मुझे इस तरह नहीं पूछना चाहिये—‘० कितनी बार तुमने मैथुन सेवन किया ?’ आवुस काश्यप ! मुझसे इस प्रकार पूछना चाहिये—‘० कितनी बार काम-संज्ञा (= काम का ख्याल) उत्पन्न हुई ?’—आवुस काश्यप ! (एक बार भी) काम-संज्ञा उत्पन्न होना मैं नहीं जानता ।”

“जो कि (आप) आयुष्मान् वक्कुल प्रब्रजित हुये इन अस्सी वर्षोंमें काम-संज्ञाका उत्पन्न होना भी नहीं जानते; इसे हम आयुष्मान् वक्कुलका आश्चर्य = अद्भुत धर्म धारण करते (= समझते) हैं ।”

“आवुस ! अपने प्रब्रजित हुये इन अस्सी वर्षोंमें व्यापाद (= द्वेष) संज्ञा उत्पन्न होनेको नहीं जानता ।”

“० इसे भी हम आयुष्मान् वक्कुलका आश्चर्य-अद्भुत धर्म समझते हैं ।”

“० विहिंसा (= हिंसा)-संज्ञा ० नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।”

“० काम-वितर्क (= काम संबंधी विचार) ० नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।”

“० व्यापाद-वितर्क ० नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।”

“० विहिंसा-वितर्क ० नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।”

“० गृहपति-चीवर^१ सेवन किया नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।”

“० शख (= कैंची आदि)से चीवरका काटना नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।”

“० सूईसे चीवरका सीना नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।”

^१ गृहस्थोंका दिया नया वस्त्र । यह हमेशा फेंके चीथड़ोंका वस्त्र बनाते थे ।

- “० कठिन चीवर^१ का सीना नहीं जानता ।” — “इसे भी ० ।”
- “० सत्रहचारियोंके चीवर धनानेको नहीं जानता ।” — “इसे भी ० ।”
- “० निमंत्रण खाना नहीं जानता ।” — “इसे भी ० ।”
- “० अहो ! मुझे कोई निमंत्रित करे, इस प्रकार चित्तका उत्पन्न होना भी नहीं जानता ।” — “इसे भी ० ।”
- “० अन्तर-घर (= गृहस्थके घर)में बैठनेको नहीं जानता ।” — “इसे भी ० ।”
- “० अन्तर-घरमें भोजन करनेको नहीं जानता ।” — “इसे भी ० ।”
- “० मातृ-ग्राम (= स्त्रियों)के आकार प्रकारको ब्यालमें लानेको नहीं जानता ।” — “इसे भी ० ।”
- “० मातृग्रामको चार पदकी गाथा तक उपदेश धर्मको नहीं जानता ।” — “इसे भी ० ।”
- “० मिश्रुणियोंके निवास (= उपश्रय)में जानेको भी नहीं जानता ।” — “इसे भी ० ।”
- “० मिश्रुणियोंको धर्म उपदेशनेको ० ।” — “इसे भी ० ।”
- “० शिक्षमाणा^२को धर्म उपदेशनेको ० ।” — “इसे भी ।”
- “० श्रामणेरीको धर्म उपदेशनेको ० ।” — “इसे भी ० ।”
- “० (किल्लीको) प्रव्रज्या दी ० ।” — “इसे भी ० ।”
- “० उपसम्पदा दी ० ।” — “इसे भी ० ।”
- “० निःश्रय (= गुरु बनना) देनेको ० ।” — “इसे भी ० ।”
- “० श्रामणेरसे सेवा लेनेको ० ।” — “इसे भी ० ।”
- “० जन्ताघर (= स्नानगृह)में नहानेको ० ।” — “इसे भी ० ।”
- “० (स्नानीय-) चूर्णसे नहानेको ० ।” — “इसे भी ० ।”
- “० सत्रहचारियोंसे देह मलवानेको ० ।” — “इसे भी ० ।”
- “० क्षण भरके लिये भी धीमारीकी उत्पत्तिको ० ।” — “इसे भी ० ।”
- “० हरेकें टुकड़े भर भी औपघके खानेको ० ।” — “इसे भी ० ।”
- “० अपश्रयण (= खाट) पिछानेको ० ।” — “इसे भी ० ।”
- “० शय्यापर सोनेको ० ।” — “यह भी ० ।”
- “० वर्षामें गाँवके भीतर निवासको ० ।” — “यह भी ० ।”
- “आवुस ! सप्ताह भर ही मैंने स-रण (= चित्त-मल युक्त = अन्-अर्हत्) हो राष्ट्र-पितृ खाया, फिर आठवें दिन आज्ञा (= अर्हत्व) उत्पन्न हुई ।” — “यह भी ० ।”
- “आवुस वक्कुल ! इस धर्म-विनय (= धर्म)में मैं प्रव्रज्या पाऊँ, ० उपसंपदा पाऊँ ।”
- अचेल काश्यपने इस धर्ममें प्रव्रज्या पाई, उपसंपदा पाई । आयुष्मान् काश्यप उपसंपदा पानेके थोड़े ही समय याद, एकाकी ०^३ और कुछ यहाँ करनेको नहीं रहा^३—यह जान गये । आयुष्मान् काश्यप अर्हतामेंसे एक हुये ।
- तब पीछे एक समय आयुष्मान् वक्कुल कुंजी (= अपावृण) ले (एक) विहारमें (दूसरे) विहारमें जा कहते थे—“निकलो आयुष्मानो ! निकलो, आयुष्मानो ! आज मेरा परिनिर्वाण होगा ।”

^१ वर्षान्तमें संवदारा दिया जानेवाला चीवर (= मिश्रु-वस्त्र) ।

^२ जो मिश्रुणी बननेके लिये तैयारी कर रही है ।

^३ देखो पृष्ठ २३६ ।

जो कि आयुप्मान् वक्कुल कुंजी ले विहारसे विहारमें जा कहते थे—‘निकलो ० परिनिर्वाण होगा’—यह भी हम आयुप्मान् वक्कुलका आइचर्य अद्भुत धर्म समझते हैं । आयुप्मान् वक्कुल मिश्रु-संघ के बीच में बैठे बैठे परिनिर्वाणको प्राप्त हुये । यह भी हम आयुप्मान् वक्कुलका आइचर्य अद्भुत धर्म समझते हैं ।

१२५—दन्त-भूमि-सुत्तन्त (३।३।५)

चित्तकी एकाग्रता, संयमकी शिक्षा

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे ।

उस समय अचिरवत श्रमणोद्देश जंगलकी कुटियामें विहरता था । तब जयसेन^१ राज-कुमार जंघा-विहारके लिये दहलते धूमते हुये, जहाँ अचिरवत श्रमणोद्देश था, वहाँ गया । तब अचिरवत श्रमणोद्देश (= समगुहेल)के साथ "संमोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे जय-सेन राजकुमारने अचिरवत श्रमणोद्देशसे यह कहा—

"अग्निवेश^२ ! मैंने यह सुना है, कि मिथु प्रमाद-रहित, उद्योगी, संयमी हो विहरते चित्त की एकाग्रताको प्राप्त होता है ।"

"ऐसा ही है, राजकुमार ! ऐसा ही है, राजकुमार ! मिथु प्रमादरहित ० विरले ० ।"

"अच्छा, आप अग्निवेश, (अपने) सुने और समझे अनुसार धर्मका उपदेश करें ।"

"राजकुमार ! मैं तुम्हें सुने-समझे अनुसार धर्म नहीं उपदेश करता । राजकुमार ! मैं तुम्हें सुने-समझे अनुसार धर्म उपदेशूँ, और तुम मेरे भाषणका अर्थ न समझो, तो वह मेरे लिये (माहक की) परेशानी, पीडा होगी ।"

"उपदेशों आप अग्निवेश ! मुझे सुने-समझे अनुसार धर्मको; क्या जाने, आप भगिनोद्देशे भाषणका अर्थ मैं समझ पाऊँ ।"

"राजकुमार ! मैं तुम्हें ० धर्म उपदेशूँगा; यदि तुम मेरे भाषणका अर्थ समझ पाये, तो अच्छा; यदि तुम मेरे भाषणका अर्थ न समझ पाये, तो अपने (मत)के अनुसार स्थित रहना; वहाँ फिर आगेकी (बात) मुझसे न पूछना ।"

"उपदेशों आप अग्निवेश ०; यदि मैंने आप अग्निवेशके भाषणका अर्थ समझ पाया ० फिर आगेकी (बात) आपसे न पूछूँगा ।"

तब अचिरवत श्रमणोद्देशने जयसेन राजकुमारके लिये (अपने) सुने-समझे अनुसार धर्मको उपदेशा । उपदेशनेके बाद जयसेन राजकुमारने अचिरवत श्रमणोद्देशसे यह कहा—

"मो अग्निवेश ! इसके लिये स्थान (= कारण) नहीं, अवकाश नहीं, कि मिथु प्रमाद-रहित ० विहरते चित्तकी एकाग्रताको प्राप्त होता है ।"

^१ विवसारका पुत्र (अट्टकथा) ।
समय गोत्र नामका ही प्रयोग होता था ।

^२ यह अचिरवतका गोत्र था, बादरके नाम बुद्धनेमि का

तव जयसेन राजकुमार अचिरवत श्रमणोद्देशको स्थान नहीं, 'अवकाश नहीं'—यतला, आसनसे उठकर चला गया ।

जयसेन राजकुमारके जानेके थोड़े समय बाद अचिरवत श्रमणोद्देश, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ अचिरवत श्रमणोद्देशने जो कुछ कथा-संलाप जयसेन राजकुमारके साथ हुआ था, (उसे) भगवान्से कह सुनाया । ऐसा कहनेपर भगवान्ने अचिरवत श्रमणोद्देशसे यह कहा—

“अग्निवेश ! वह यहाँ कैसे मिल सकता है; जो वह निष्कामतासे ज्ञातव्य (= जाना जा सकता है) ० दृष्टव्य है, ० प्राप्तव्य है, ० साक्षात्कर्तव्य है, उसे, कामों (= भोगों)के मध्य वसता, कामोंको भोगता, काम-वितकोंसे खाया जाता, काम-दाहसे दग्ध किया जाता, कामोंकी पर्येषणा (= फिक्क)में चिन्तापन्न जयसेन राजकुमार जानेगा, देखेगा, साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं; अवकाश नहीं । जैसे, अग्निवेश ! सुशिक्षित (= सुदान्त) = सुविनीत दो दम्य हाथी, ० घोड़े, या ० बैल हों और अदान्त = अविनीत दो दम्य हाथी, ० घोड़े, या ० बैल हों । तो क्या मानते हो, अग्निवेश ! जो वह सुशिक्षित ० दो दम्य हाथी ० हैं; क्या शिक्षित होते वह शिक्षित क्रियाको समझ जायेंगे ? वह दान्त (= शिक्षित) दान्त-भूमि (= शिक्षित-अवस्था)को प्राप्त होंगे ?”

“हाँ, भन्ते !”

“और जो वह, अग्निवेश ! अदान्त = अविनीत दो हाथी ० हैं; क्या वह अदान्त होते शिक्षित-क्रियाको समझ जायेंगे, वह अदान्त दान्त-भूमिको प्राप्त होंगे ? जैसेकि वह दान्त = विनीत दो हाथी ?”

“नहीं, भन्ते !”

“इसी प्रकार, अग्निवेश ! जो वह निष्कामतासे ज्ञातव्य ०^१ उसे ० जयसेन राजकुमार ० साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं । जैसे, अग्निवेश ! ग्राम या निगमके पास महापर्वत हो । तब दो मित्र उस गाँव या निगमसे निकलकर, जहाँ वह पर्वत है, वहाँ जायें । जाकर एक मित्र नीचे पर्वतकी जड़में खड़ा रहे; दूसरा मित्र पर्वतके ऊपर चढ़ जाये । तब नीचे खड़ा मित्र ऊपर पर्वतपर स्थित मित्रसे यह कहे—

‘सौम्य ! ऊपर पर्वतपर खड़े तुम क्या देख रहे हो ?’

“वह यह कहे—‘सौम्य ! मैं ऊपर पर्वतपर खड़ा आराम-रमणीयता, वन ०, भूमि ०, पुष्करिणी-रमणीयताको देख रहा हूँ ।’

“वह यह कहे—सौम्य ! इसके लिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं; कि तुम ऊपर पर्वतपर खड़े आराम-रमणीयता ० को देखो ।

“तब वह ऊपर पर्वतपर स्थित मित्र नीचे पर्वत-पादपर उतर, उस मित्रका हाथ पकड़, (फिर) पर्वतके ऊपर चढ़, थोड़ी देर सुस्ता लेनेपर यह कहे—

‘सौम्य ! ऊपर पर्वतपर खड़े तुम क्या देख रहे हो ?’

“वह यह कहे—सौम्य ! मैं ० आराम-रमणीयता ० को देख रहा हूँ ।”

“वह (दूसरा) यह कहे—‘सौम्य ! अमी अभी तुमने कहा—हम ऐसा जानते हैं—इसके लिये स्थान नहीं ० आराम-रमणीयता को देखो ।’ और अमी तुम कह रहे हो—हम ऐसा जानते हैं—सौम्य ! मैं ० आराम-रमणीयता ० को देख रहा हूँ ।”

^१ देखो ऊपर ।

“वह ऐसा कहे—‘सौम्य ! मैं इस महापर्वतसे इस प्रकार छिया हुआ या, कि इसके नहीं देख सकता था’ ।”

“अग्निवेश ! जयसेन राजकुमार इस (महापर्वत)से भी यड़े अ-विद्या-स्रंघने आच्छादित = निव्यूह = अवस्कुट, परियद्ध है; वह, जोकि वह निष्कामतासे ज्ञातव्य ० ! उमे ० ! ताज्ञा-त्कार करेगा, इसके लिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं । यदि अग्निवेश ! तू जयसेन राजकुमारको इन दो उपमाओं (= दृष्टान्तों)को सुझाता, आश्चर्य नहीं, जयसेन राजकुमार प्रसन्न (= मन्तुष्ट) होता; प्रसन्न हो प्रसन्नाकार (क्रिया) तेरे लिये करता ।”

“किन्तु, भन्ते ! कहाँसे मैं जयसेन राजकुमारको अश्रुतपूर्व दो उपमायें सुनाता; जैसे कि भगवान्ने (सुझाया) ?”

“जैसे, अग्निवेश ! मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा नागवनिक (= हाथीके जंगलके रक्षक)को संयोधित करे—‘आओ, सौम्य नागवनिक ! राजकीय नागपर आरूढ़ हो, नागवनमें प्रवेश कर, नागराजके गलेमें बंधन डाल दो ।’ ‘अच्छा, देव !’ —(कह) अग्निवेश ! नागवनिक ० राजाको उत्तर दे; राजकीय नागपर आरूढ़ हो नागवनमें प्रवेश कर, जंगली नाग (= हाथी)को देर उमे राजकीय नागके गलेमें बाँध दे । फिर उसे राजकीय नाग खुली जगहमें ले जाये । जय अग्निवेश ! आरण्यक नाग खुली जगहमें चला जाये । अग्निवेश ! आरण्यक नागको नागवन प्रिय (= गेधा-वहि) होता है । तय नागवनिक...राजासे जाकर कहे—‘देव ! आपका नाग खुली जगहमें (लाया गया) है’ । तय...० राजा हस्ति-दमक (= हाथीको सिललानेवाले)को संयोधित करे—‘आओ, तुम सौम्य ! हस्ति-दमक ! आरण्यक नागके जंगली आदतों ० । जंगली स्वर-संस्कारों ०, जंगली द्रव्य = किलमथ (= उत्पीडा) ० - परिदाहों ० के हटानेके लिये, गाँवमें अभिरमण करनेके लिये, मनुष्योंको पसन्द होनेवाली आदतोंको यतानेके लिये, शिक्षा दो ।’ ‘अच्छा, देव !’ (कह) ० राजाको उत्तर दे, वह हस्ति-दमक भूमिमें महास्तम्भको गाढ कर, उससे आरण्यक नागके गलेको बाँध दे । और जंगली आदतों ०, ०, मनुष्योंको पसन्द आदतोंको यतलानेके लिये; उमे यह हस्ति-दमक, कोमल कर्ण-प्रिय, प्रेमणीय = हृदयंगम, पौरी, बहुजन-कान्त = बहुजनमनाप (= ० प्रिय) वाणीका प्रयोग करे । जय अग्निवेश ! आरण्यक नाग, हस्ति-दमकके घैसे घघनामे समुदाचरित (= प्रेरित) हो (उसे) सुनना चाहे, उधर कान लगाये, चित्तको अन्धप्रसे (रटा) वहाँ स्थापित करे; तय हस्तिदमक उसे आगे तृण-भोजन-जल प्रदान करे । जय, अग्निवेश ! आरण्यक नाग हस्ति-दमकके तृण-घास-जलको ग्रहण करने लगे; तय हस्ति-दमकको ऐसा हो—‘अय आरण्यक नाग जियेगा’ । तय हस्ति-दमक उससे आगेके करण (= शिखा)को फगने—‘पकड़ो हो’, ‘छोड़ो हो’ । जय, अग्निवेश ! नागराज, पकड़ने, छोड़नेमें हस्ति-दमकको धानरा करनेवाला होवे, शिक्षाको आचरण करनेवाला होवे; तय उमे हस्ति-दमक आगेका करण करावे—‘चलो हो’, ‘लोटो हो’ । ० ; तय ० आगेका करण करावे—‘उठो हो’, ‘थैठो हो’ । ० ; तय आगेका आर्नेज नामक करण करावे—उसके सूँठमें यड़ी डाल (= फट्ट) बाँधे; भाला (= तोमर) हाथमें लिये पुरुष उसको गर्दनपर बैठा रहे । चारों ओर भी तोमर हाथमें लिये पुरुष घेर कर खड़े हों । हस्ति-दमक लम्बी तोमर-यष्टीको (हाथमें) लिये मामने खण गे । वह आर्नेज-करणको करावे न अगले पैरके पास जाये, न पिछले पैर ०, न शरीरके अगले भाग को ०, न शरीरके पिछले भागको ०, न शिरको ०, न कर्णको ०, न टाँग्यो ०, न पँड्यो ०,

न सूँढको ० । (तब) वह राजाका नाग शक्ति (= शस्त्र)के प्रहारोंका, तलवारकी चोटोंका, ह्नु-प्रहारोंका, शर-पन्न-प्रहारोंका सहनेवाला होये । भेरी-पणव-वंश-शंख-डिडिमके कोलाहलका सहनेवाला हो । सारी कुटिलता, और दौपोंसे रहित, कपायसे मुक्त हो वह राजाहँ = राजभोग्य, राजाका अंग ही कहा जायेगा ।

“इसी प्रकार, अग्निवेश ! यहाँ लोकमें तथागत ०^१ घरसे वेघर हो प्रव्रजित होता है । अग्निवेश ! इतनेसे आर्यश्रावक (आरण्यक नागकी भाँति) खुली जगहमें प्राप्त होता है । ...देव मनुष्य इन पाँच काम-गुणोंमें आसक्त होते हैं । तब उसे तथागत विनयन (= शिक्षण, लेजाना) कहते हैं—आ तू भिक्षु ! शीलवान् बन । प्रातिमोक्ष संवरसे संवृत (= रक्षित) हो विहर । आचार-नोचरसे युक्त हो, अणु मात्र पाप (= वध)में भी भयदर्शी हो, स्वीकृत कर शिक्षापदों (= भिक्षु नियमों)का अभ्यास कर । जब अग्निवेश ! आर्यश्रावक शीलवान् होता है, प्रातिमोक्ष संवरसे संवृत हो विहरता है । आचार-नोचरसे युक्त ० शिक्षापदोंका अभ्यास करता है । तब उसे तथागत आगेको विनयन करते हैं—आ, तू भिक्षु ! इन्द्रियोंमें गुसद्वार (= संयम-युक्त) बन—आँखसे रूपको देख कर ०^२ वह हटा, प्रज्ञाकी दुर्बल करनेवाले चित्तके उपक्लेश (= कालुष्य) इन पाँच नीचरणोंको ० कायामें कायानुपश्यी^३ हो विहरता है । ०^३ वेदनाओंमें वेदना-नुपश्यी ० । ०^३ चित्तमें चित्तानुपश्यी ० । ० धर्ममें धर्मानुपश्यी ० । जिस प्रकार, अग्निवेश ! हस्ति-दम्बक महास्तम्भको पृथिवीमें गाड़कर, आरण्यक नागके गलेमें बाँधता है, और जंगली आदतों ०, मनुष्योंको पसन्द आदतों को बतलाने के लिये, ऐसे ही, अग्निवेश ! आर्यश्रावकके लिये यह चार स्मृति-प्रस्थान, चित्तके बंधन होते हैं; गेहमें बँधे शीलोंके हटानेके लिये, ० स्वरसंकल्पोंके ०, ० दरथ-क्लमथ ०, न्याय (= निर्वाण)की प्राप्तिके लिये, निर्वाणके साक्षात्कारके लिये । तब उसे तथागत आगेको विनयन करते हैं—आ, तू भिक्षु ! कायामें कायानुपश्यी हो विहर, और मत काम-सम्बन्धी वितर्कोंका वितर्कन कर । वेदनाओंमें ० । चित्तमें ० । धर्ममें धर्मानुपश्यी हो विहर, और मत काम सम्बन्धी वितर्कोंका वितर्कन कर । वह वितर्क और विचारके शान्त होनेपर ०^४ द्वितीय ध्यान ० । ०^४ तृतीय ध्यान ०^४ । ०^४ चतुर्थ ध्यान ०^४ । वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०^४ पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है ०^४ । ०^४ प्राणियोंके च्युति और उत्पत्तिके ज्ञानके लिये ०^४ स्वर्गलोकको प्राप्त हुये हैं । ० आस्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये ०^४ अब यहाँ (करने)के लिये कुछ (शेष) नहीं है—इसे जानता है । अग्निवेश ! वह भिक्षु शीत-उष्ण, भूख-प्यासके प्रतिघात, दंश-मशक-वायु-आतप-सरीसृपोंको स्पर्श, दुरूक्त, दुरागत वचनोंका सहनेवाला उत्पन्न दुःख, तीव्र, खर, कटुक, असात = अमनाप (= अप्रिय), प्राणहर वेदनाओंको अधिवासन (= सहर्ष स्वीकार) करनेवाला होता है । सारे राग-द्वेष-मोह (रूपी) कपायसे विरहित = निघ्नित हो, (वह) आहुणेय = पाहुणेय, दक्षिणेय, अंजलिकरणीय, लोकके लिये पुण्य (देने)का अनुपम क्षेत्र होता है ।

“अग्निवेश ! राजकीय नाग चाहे वृद्ध भी हो, (किन्तु) यदि वह अदान्त = अ-विनीत मरता है; तो कहा जाता है,—‘राजकीय नाग वृद्ध अदान्त = अविनीत ही मरा’ । ० मध्यम-वयस्क भी ० । ० अल्पवयस्क भी ० । इसी प्रकार, अग्निवेश ! यदि स्थविर भिक्षु भी, क्षीणास्रव (= अर्हत्) हुये बिना मरता है; तो कहा जाता है—स्थविर भिक्षुने अदान्त हो मरण पाया । ०

^१ देखो पृष्ठ २४-२५ ।

^२ देखो पृष्ठ १५८ ।

^३ देखो पृष्ठ ३५-४० ।

^४ देखो पृष्ठ १५ ।

^५ देखो पृष्ठ १६ ।

मध्यम वयस्क भिक्षु भी ० । ० नया भिक्षु भी ० । अग्निवेश ! यदि राजाका नाग वृद्ध भी, दान्त = विनीत हो भरता है; तो कहा जाता है—‘राजाका नाग वृद्ध भी दान्त = विनीत भरा है । ० मध्यम वयस्क ० । ० अल्प वयस्क ० । इसी प्रकार अग्निवेश ! स्वविर भिक्षु भी यदि क्षीणास्त्रव (= अर्हत्) हो भरता है; तो कहा जाता है—स्वविर भिक्षुने दान्त हो भरण पाया । ० मध्यम-वयस्क भिक्षु भी ० । ० नया भिक्षु भी ० ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्मुष्ट हो अचिरवत श्रमणोद्देशने भगवान्के भाषणको अभिर्नन्दित किया ।



१२६—भूमिज-सुत्तन्त (३।३।६)

उचित रीतिसे पालन किया ब्रह्मचर्य ही फलदायक होता है

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलंदक-निवापमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् भूमिज^१ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले जहाँ जयसेन राजकुमारका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । तब जयसेन राजकुमार जहाँ आयुष्मान् भूमिज थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् भूमिजके साथ संमोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर आयुष्मान् भूमिजसे यह बोला—

“भो भूमिज ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वाद = इस दृष्टिवाले हैं—‘आशाकरके भी यदि ब्रह्मचर्यवास करते हैं, (तो) भी वह फल पानेके अयोग्य हैं । आशा न करके भी यदि ० । आशा और अन्-आशा करके भी यदि ० । न-आशा-न-अनाशा करके भी यदि ० । यहाँ, आप भूमिजके शास्ता किस वाद = किस दृष्टिवाले, क्या कहनेवाले हैं ?”

“राजकुमार ! मैंने भगवान्के मुखसे यह नहीं सुना है, मुखसे न ग्रहण किया है; (किन्तु) सम्भव है, कि भगवान् इस प्रकार व्याख्यान करें—‘आशा करके भी यदि अ-योनिशः (= कार्य-कारणका मनमें ध्यान न रख) ब्रह्मचर्य वास करते हैं, (तो) वह फल पानेके अयोग्य हैं । आशा करके भी यदि योनिशः ० । आशा और अनाशा करके भी ० । न-आशा-न-अनाशा करके भी यदि ० । आशा करके भी यदि योनिशः ब्रह्मचर्य-वास करते हैं, (तो) वह फल पानेके योग्य हैं । अनाशा करके भी ० । आशा-अनाशा करके भी ० । न-आशा-न-अनाशा करके भी ० । राज-कुमार ! मैंने भगवान्के मुखसे यह नहीं सुना है ० ।”

“यदि आप भूमिजके शास्ता इस वाद = दृष्टि = व्याख्यानवाले हैं; तो मैं समझता हूँ, वह सारे ही दूसरे श्रमण-ब्राह्मण, बुद्धोंको मातकर स्थित हैं ।”

तब जयसेन राजकुमारने आयुष्मान् भूमिजको अपने स्थालीपाक (= भोजन)से परोसा । तब आयुष्मान् भूमिज भिक्षासे निवृत्त हो भोजनोपरांत जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् भूमिजने भगवान्से यह कहा—

“मन्ते ! (आज) मैं पूर्वाह्न समय पहिनकर ०^१ जहाँ जयसेन राजकुमारका घर था, वहाँ गया ०^१ तो मैं समझता हूँ, वह सारे ही दूसरे श्रमण-ब्राह्मण-बुद्धोंको मातकर स्थित हैं । क्या मन्ते ! वैया पूछनेपर यह उत्तर दे मैं भगवान्के लिये युक्त कहनेवाला हूँ; भगवान्पर असत्यका

^१ आयुष्मान् भूमिज जयसेन राजकुमारके मामा थे (अ. क.) ।

आरोप तो नहीं करता ? धर्मके अनुसार कहनेवाला हूँ न; कोई धर्मांतकारी वाद = अनुवाद (मेरे इस कथनसे) निन्दित तो नहीं होता ?”

“हाँ, भूमिज ! वैसे पूछनेपर यह उत्तर दे दू मेरे लिये युक्त कहनेवाला है । कोई धर्मांतकारी वाद = अनुवाद निन्दित नहीं होता । भूमिज ! जो भ्रमण या ब्राह्मण मिथ्या-दृष्टि, मिथ्या-संकल्प, मिथ्या-वचन, मिथ्या-कर्मान्त, मिथ्या-आजीव, मिथ्या-व्यायाम, मिथ्या-सृष्टि, मिथ्या-समाधि (वाले) हैं, (वही कहते हैं)—‘आशाकरके भी यदि ब्रह्मचर्यवाच करते हैं, (तो) भी वह फल पानेके अयोग्य है । ० । न-आशा-न-अनाशाकरके भी ०, सो किस हेतु ? अ-योनिदाः होनेसे, भूमिज ! वह फल पानेके अयोग्य है ।

“जैसे भूमिज ! पुरुष तेल-अर्थी = तेल-गवेपी, तेलकी खोज करते, द्रोणीमें घाल डालकर पानीका छँटा दे दे पेंले (= पीडित करे) । यदि आशाकरके भी घाल डालकर, पानीका छँटा दे दे पेंले; तो (वह) तेल पानेके योग्य नहीं है । यदि अनाशा करके भी ० । यदि आशा-अनाशा करके भी ० । यदि न-आशा-न-अनाशा करके भी ० । सो किस हेतु ?—भूमिज ! वह तेल पानेका (प्रयत्न) अयोनिदाः (= कार्य-कारणका क्याल किये विना) है । इन्ही प्रकार भूमिज ! जो कोई भ्रमण ब्राह्मण मिथ्या दृष्टि (= झूठी धारणा वाले) ० मिथ्या समाधि (वाले) हैं; यदि वह आशा करके भी ब्रह्मचर्य-वास करें, तो भी वह फल पानेके अयोग्य हैं । ० । न-आशा-न-अनाशा करके भी ० । सो किस हेतु ?—भूमिज ! वह फल पानेका (प्रयत्न) अयोनिदाः है ।

“जैसे, भूमिज ! पुरुष क्षीर-अर्थी = क्षीर-गवेपी क्षीरकी खोज करते, तरण-वल्ता (= धेनु) गायको सींगसे पकड़कर आर्विजन (= दूहन) करे; (तां) वह क्षीर पानेके अयोग्य है । अनाशा-करके भी ० । आशा-अनाशा करके भी ० । न-आशा-न-अनाशा करके भी ० । सो किस हेतु ?—भूमिज ! वह दूध पानेका (प्रयत्न) अयोनिदाः है । ऐसे ही भूमिज ! जो कोई भ्रमण ब्राह्मण मिथ्या दृष्टि ० ।

“जैसे, भूमिज ! पुरुष नवनीत (= मक्खन)-अर्थी, नवनीत-गवेपी, नवनीतकी खोज करते, कलशमें पानी डालकर भयानीसे भये; (तो वह) नवनीत पानेके योग्य नहीं है । आशा करके भी ० । ० । सो किस हेतु ?—० अयोनिदाः है । ऐसेही भूमिज ! जो भ्रमण-ब्राह्मण ० ।

“जैसे, भूमिज ! पुरुष अग्नि-अर्थी, अग्नि-गवेपी, अग्निका खोज करते हरे गीले काटकी से उत्तरारणीसे मंथन करे । आशा करके भी ० । ० । ० ।

“जैसे, भूमिज ! पुरुष तेल-अर्थी ० द्रोणीमें तिल-पिष्टको डालकर पानी का छँटा दे दे पेंले, यदि आशा करके तिल-पिष्ट (= तिलकी लुगदी) द्रोणीमें डाल पानी का छँटा दे दे पेंले; (तो वह) तेलके पानेके योग्य है । अन्-आशा करके ० । आशा-अनाशा करके ० । न-आशा-न-अनाशा करके ० । सो किस हेतु ?—भूमिज ! तेलके पानेका (वह प्रयत्न) योनिदाः है । ऐसेही, भूमिज ! जो कोई भ्रमण या ब्राह्मण सम्यग्-दृष्टि (= ठीक धारणा वाले), सम्यक्-संकल्प, सम्यग्-वचन, सम्यक्-कर्मान्त, सम्यग्-आजीव, सम्यग्-व्यायाम, सम्यक्-सृष्टि, सम्यक्-समाधि (वाले) हैं । वह यदि आशा करके भी ब्रह्मचर्य-वास करते हैं, फल पानेके योग्य हैं । ० । न-आशा-न-अनाशा करके भी ० । सो किस हेतु ?—भूमिज ! फलके पाने का (वह प्रयत्न) योनिदाः है ।

“जैसे, भूमिज ! पुरुष क्षीर-अर्थी ० तरण-वल्ता गायको स्तनसे दूध ० । ० ।

“जैसे, भूमिज ! पुरुष नवनीत-अर्थी ० कलशमें दधि डाल कर भयानीसे भये ० । ० ।

“जैसे, भूमिज ! पुरुष अग्नि-अर्थी ० सूते कड़े काटकी से उत्तरारणीसे मंथन करे । आशा करके भी ० । ० ।

“भूमिज ! यदि तू जयसेन राजकुमारको यह चार उपमायें बतलाता, आश्चर्य नहीं जयसेन राजकुमार प्रसन्न होता; और प्रसन्न हो प्रसन्नाकार क्रिया तेरे लिये करता ।”

“कहाँसे, मन्ते ! मैं जयसेन राजकुमारको अश्रुतपूर्ण ये चार उपमायें बतलाता, जैसे कि भगवान् ने बतलाया ?”

भगवान् ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् भूमिजने भगवान् के भाषणको अभिनन्दित किया ।

१२७—अनुरद्ध-सुत्तन्त (३।३।७)

भावना-योग (अप्रमाणा चेतो-विमुक्ति)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जैनवनमें विहार करने थे । तब पंचकांग स्थपितने एक पुरुषमे कहा—

“आओ, हे पुरुष ! तुम जहाँ आयुष्मान् अनुरद्ध हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे मन्त्रमें आयुष्मान् आनन्दके चरणोंमें शिरसे वन्दना करो—‘मन्ते ! पंचकांग स्थपित आयुष्मान् अनुरद्धके चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है’ । और यह भी कहना—मन्ते ! आयुष्मान् अनुरद्ध अपने रत्नर चारका, कलके लिये पंचकांग स्थपितका भोजन स्वीकार करें, और मन्ते ! आयुष्मान् अनुरद्ध नन्दी ही आयें । पंचकांग स्थपति राजकीय कार्यमें बहुकृत्य = बहुकरणीय है ।”

“अच्छा, मन्ते !”—(कह) वह पुरुष पंचकांग स्थपतिको उत्तर दे, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् अनुरद्धको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया, एक ओर बैठे, उस पुरुषने आयुष्मान् आनन्दसे यह कहा—मन्ते ! पंचकांग स्थपति आयुष्मान्के चरणोंमें • बहुकरणीय है ।”

आयुष्मान् अनुरद्धने मीनमे स्वीकार किया ।

तब आयुष्मान् अनुरद्ध उस रातके बीतनेपर पूर्वाह्नके समय पटिनकर पात्र-धीर ले, उहाँ पंचकांग स्थपतिका घर था, वहाँ गये । जाकर घिटे आसनपर बैठे । तब पंचकांग स्थपतिने आयुष्मान् अनुरद्धको उत्तम खाद्य-भोज्यसे अपने हाथमे मन्त्रपित = मन्त्रप्रसारित किया । तब आयुष्मान् अनुरद्धके भोजनकर पात्रसे हाथ धोकर लेनेपर, पंचकांग स्थपति एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गया ।

एक ओर बैठे पंचकांग स्थपतिने आयुष्मान् अनुरद्धसे यह कहा—

“मन्ते ! मेरे पास स्थविर भिक्षुओंने साकर यह कहा—‘गृहपति ! अ-प्रमाणा (= निर्माणा) चेतोविमुक्तिकी भावना करनी चाहिये’ । किन्हीं किन्हीं स्थविरोंने यह कहा—‘गृहपति ! महाप्रमाणा (= महती) चेतोविमुक्तिकी भावना करना चाहिये’ । मन्ते ! जो यह अ-प्रमाणा चेतोविमुक्ति है, और जो यह महाप्रमाणा चेतोविमुक्ति है, क्या मन्ते ! यह दो धर्म (= धर्म) भिन्न अर्थवाले और भिन्न-व्यंजन (= नाम)वाले हैं; या एक अर्थवाले हैं, किन्हीं व्यंजन ही माना है ?”

“तो गृहपति ! तू ही यह, यहाँ तेरा (कहना) अ-वर्ण (= द्विधा-वर्णित) होगा ।”

“मन्ते मुझे ऐसा होता है—जो यह अ-प्रमाणा चेतोविमुक्ति है, और जो यह महाप्रमाणा चेतोविमुक्ति है, यह धर्म एक अर्थवाले हैं, किन्हीं व्यंजन ही माना है ।”

“गृहपति ! जो यह अ-प्रमाणा चेतोविमुक्ति है, और जो यह महाप्रमाणा चेतोविमुक्ति है,

यह धर्म नाना-अर्थवाले हैं, और नाना व्यंजनवाले भी । गृहपति ! इसे इस बातसे भी जानना चाहिये, कि कैसे यह धर्म नानार्थ हैं, और नाना व्यंजन भी । गृहपति ! क्या है, अप्रमाणा चेतो-विमुक्ति ?—यहाँ गृहपति ! भिक्षु मैत्रीभावयुक्त चित्तसे ०^१ सारे लोकको पूर्ण कर विहरता है । करुणाभावपूर्ण चित्तसे ०^१ । मुदिताभावयुक्त चित्तसे ०^१ । उपेक्षाभावयुक्त चित्तसे ०^१ । गृहपति ! यह कही जाती है, अप्रमाणा-चेतोविमुक्ति । क्या है, गृहपति ! महद्गता चेतो-विमुक्ति ?—यहाँ गृहपति ! भिक्षु एक वृक्ष-छायाके बराबर महद्गत (= बड़े)को व्याप्त कर = अधिमुक्त कर विहरता है । गृहपति ! यह कही जाती है, महद्गता चेतोविमुक्ति । और यहाँ गृह-पति ! भिक्षु दो या तीन वृक्ष छायाके बराबर महद्गतको व्याप्त ० कर विहरता है । गृहपति ! यह कही जाती है, महद्गता चेतोविमुक्ति । ० एक ग्राम-क्षेत्र ० महद्गतको ० । ० दो या तीन ग्राम-क्षेत्र ० महद्गतको ० । ० एक महाराज्य ० महद्गतको ० । ० दो या तीन महाराज्य ० महद्गतको ० । ० महा समुद्रपर्यन्त एक महापृथिवीके बराबर महद्गतको ० । ० महासमुद्रपर्यन्त दो या तीन महापृथिवी ० । गृहपति ! यह कही जाती है, महद्गता चेतोविमुक्ति । गृहपति ! इस बातसे भी जानना चाहिये, कि यह धर्म नानार्थ हैं, और नाना व्यंजन भी ।

“गृहपति ! यह चार भाव-उत्पत्तियाँ (= लोकमें उत्पत्तियाँ) हैं । कौनसी चार ?— (१) यहाँ गृहपति ! कोई (पुरुष) परीक्षाभको व्याप्त कर = अधिमुक्त कर विहरता है; वह काया छोड़ मरनेके बाद परीक्षाभ देवताओंकी स-हृद्यता (= समानता)में उत्पन्न होता है । (२) ० अप्रमाणाभको व्याप्त कर ० विहरता है; वह ० मरनेके बाद अप्रमाणाभ देवताओंकी स-हृद्यतामें उत्पन्न होता है । (३) ० संक्लिष्टाभ देवताओंकी स-हृद्यतामें उत्पन्न होता है । ० (४) परि-शुद्धाभ देवताओंकी स-हृद्यतामें उत्पन्न होता है । गृहपति ! यह चार भाव-उत्पत्तियाँ हैं । गृहपति ! ऐसा समय होता है, जब वह देवता एक जगहपर जमा होते हैं । इकट्ठा होनेपर उनके वर्णोंका नानापन नहीं जान पड़ता, न आमा (= प्रकाश)का नानापन (= फर्क) ही । गृहपति ! ऐसा समय होता है, जब वह देवता बाहर जाते हैं; बाहर जाते हुये उन देवताओंके वर्णका नानापन जान पड़ता है, और आमाका नानापन भी । जैसे, गृहपति ! कोई पुरुष बहुतसे तेलके दीपकोंको एक घरमें प्रविष्ट करे; तो एक घरमें प्रविष्ट उनकी अर्ची (= लौ)का नानापन तो मालूम होता है, किन्तु आमाका नानापन नहीं मालूम होता । ऐसे ही, गृहपति ! वह समय होता है, जब वह देवता एक जगहपर जमा होते हैं ० । जैसे गृहपति ! (कोई) पुरुष उन अनेक तेल दीपोंको उस घरसे बाहर करे; तो बाहर किये जाते उन तैलदीपोंकी अर्चीका नानापन भी जान पड़ता है, और आमाका नानापन भी (जान पड़ता है) । ऐसे ही, गृहपति ! ० बाहर जाते हैं ० ।

“गृहपति ! उन देवताओंको ऐसा नहीं होता—‘यह हम लोगोंका (रूप) नित्य, ध्रुव या शाश्वत है; वल्कि जहाँ जहाँ वह देवता अभिनिवेश (= चाह) करते हैं, वहाँ वहाँ ही, वह देवता अभिरमण करते हैं’ । जैसे, गृहपति ! बहूंगी (= काज) टोकरी (= पिटक)में ले जाई जाती मक्खियोंको ऐसा नहीं होता—यह हमारा नित्य, ध्रुव या शाश्वत है, वल्कि जहाँ जहाँ वह मक्खियाँ जाती हैं, वहीं वहीं वह अभिरमण करती हैं । इसी प्रकार, गृहपति ! उन देवताओंको ऐसा नहीं ० ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् सभ्य कात्यायन (= समिय काञ्चायन)ने आयुष्मान् अनुरुद्ध से यह कहा—

“साधु, भन्ते अनुसूद्ध ! यहाँ मुझे कुछ आगे (की यात)को पूछना है—‘भन्ते ! जो वर आमा देवता है, क्या सभी परीक्ष-आम (= अल्प-प्रकाश) हैं, या कोई कोई देवता अ-प्रमाण-आम भी हैं ?”

“उस अंगसे, आधुस कात्यायन ! कोई कोई देवता परीक्षाम हैं, कोई कोई देवता अ-प्रमाणाम हैं ।”

“भन्ते अनुसूद्ध ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है जिससे कि, एक देव-निवाय (= देव-समुदाय, देव योनि)में उत्पन्न होनेपर भी उन देवताओंमें कोई कोई देवता परीक्षाम हैं, और कोई कोई देवता अ-प्रमाणाम हैं ?”

“तो, आधुस कात्यायन ! तुम्हें ही यहाँ पूछना हूँ; जैसा तुम्हें ठीक जँचे, घेमा उत्तर दो, तो क्या मानते हो, आधुस कात्यायन ! जो वह भिक्षु एक वृक्ष मूल (= वृक्ष-दाया)के परावर महद्गत (= वड़े स्थान)को व्याप्त कर = अधिमुक्त कर विहरता है; और जो वह भिक्षु दो या तीन वृक्ष मूलके परावर महद्गतको व्याप्त कर = अधिमुक्त कर विहरता है; इन दोनों ही पिणरी भावनाओंमें कौन चित्त-भावना महद्गततरा (= विशालतर) है ?”

“जो यह, भन्ते ! भिक्षु दो या तीन वृक्ष मूलके परावर ० ।”

“तो क्या मानते हो, आधुस कात्यायन ! जो यह ० दो या तीन वृक्ष मूलों ०; और जो वह भिक्षु एक ग्राम-क्षेत्रके परावर महद्गत ० ।”

“ ० जो यह, ० ग्राम-क्षेत्रके परावर महद्गत ० ।”

“ ० ग्राम-क्षेत्रके परावर महद्गत ०; और जो ० दो या तीन ग्राम-क्षेत्र ० ?”

“जो यह, ० दो या तीन ग्राम-क्षेत्र ० ।”

“ ० दो या तीन ग्राम-क्षेत्र ०; और जो ० एक महाराज्य ० ?”

“जो यह, ० एक महाराज्य ० ।”

“ ० एक महाराज्य ०; और जो ० दो या तीन महाराज्य ० ?”

“जो यह, ० दो या तीन महाराज्य ० ।”

“ ० दो या तीन महाराज्य ०; और जो ० महासमुद्र पर्यन्त एक महापृथिवी ० ?”

“जो यह, ० महासमुद्र पर्यन्त एक महापृथिवी ० ।

“ ० महासमुद्र पर्यन्त एक महापृथिवी ०; और जो ० महासमुद्र पर्यन्त दो या तीन महापृथिवी ० ?”

“जो यह, ० महासमुद्र पर्यन्त दो या तीन महापृथिवी ० ।”

“आधुस कात्यायन ! यह हेतु है = यह प्रत्यय है, जिससे एक देव-निवायमें उत्पन्न होनेपर भी, उन देवताओंमें कोई कोई देवता परीक्षाम हैं, और कोई कोई देवता अ-प्रमाणाम हैं ।”

“साधु, भन्ते अनुसूद्ध ! यहाँ, मुझे कुछ आगे (की यात)को पूछना है—‘भन्ते ! जो वह आमा देवता है, क्या सभी उनमें क्लिष्ट (= मल-युक्त)-आम हैं, या कोई कोई परिशुद्धाम भी हैं ?”

“उस अंगसे, आधुस कात्यायन ! कोई कोई देवता क्लिष्टाम हैं । कोई कोई देवता हैं परिशुद्धाम ।”

“भन्ते अनुसूद्ध ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि देव-निवायमें उत्पन्न होनेपर भी उन देवताओंमें कोई कोई देवता क्लिष्टाम हैं, कोई परिशुद्धाम हैं ?”

“तो आवुस कात्यायन ! उपमा (= दृष्टांत) तुम्हें कहता हूँ; उपमासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष मापणका अर्थ समझ जाते हैं। जैसे, आवुस कात्यायन ! जलते तेल-प्रदीपमें तेल भी अ-परिशुद्ध (= अशुद्ध, मलिन) हो, वत्ती भी अ-परिशुद्ध हो। वह तेलकी अपरिशुद्धतासे, वत्ती की भी अपरिशुद्धतासे अंधला-धुँधला सा जलता हो; ऐसे ही आवुस कात्यायन ! कोई भिक्षु संक्लिष्ट (= मलिन) -आभाको व्याप्त कर = अधिमुक्त कर विहरता है। उसका कायिक दौस्थ्य (= व्यतिक्रम) भी अच्छी तरह शान्त (= सुप्रती प्रश्रव्य) नहीं हुआ रहता, स्त्यान-मृद्ध (= आलस्य) भी अच्छी तरह नष्ट नहीं हुआ रहता; औद्धत्य-कौकृत्य (= उद्धतपना, हिचकिचाहट) भी अच्छी तरह हटाया नहीं गया रहता। वह कायिक दौस्थ्यके अच्छी तरह शान्त न होनेसे, स्त्यान-मृद्धके अच्छी तरह नष्ट न होनेसे, औद्धत्य-कौकृत्यके अच्छी तरह न हटाये गये होनेसे, अंधला-धुँधलासा ध्यान करता है। वह काया छोड़ मरनेके बाद संक्लिष्टाभ देवताओंकी सहव्यतामें उत्पन्न होता है।

“जैसे, आवुस कात्यायन ! जलते तेल-प्रदीपमें तेल भी परिशुद्ध हो, वत्ती भी परिशुद्ध हो; वह तेलकी परिशुद्धतासे, वत्तीकी भी परिशुद्धतासे अँधला-धुँधला न जलता हो; ऐसे ही, आवुस कात्यायन ! यहाँ कोई भिक्षु परिशुद्धाभको व्याप्त कर = अधिमुक्त कर विहरता है। उसका कायिक दौस्थ्य भी अच्छी तरह शांत हुआ रहता है, स्त्यान-मृद्ध भी अच्छी तरह नष्ट हुआ रहता है; औद्धत्य-कौकृत्य भी अच्छी तरह हटाया गया रहता है। वह ० औद्धत्य-कौकृत्यके अच्छी तरह हटाये गये होनेसे अँधला-धुँधलासा नहीं ध्यान करता। वह काया छोड़ मरनेके बाद परिशुद्धाभ देवताओं की सहव्यतामें उत्पन्न होता है। आवुस कात्यायन ! यह हेतु = यह प्रत्यय है ०।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् सभ्य कात्यायनने आयुष्मान् अनुरुद्धसे यह कहा—

“साधु, भन्ते अनुरुद्ध ! भन्ते ! आयुष्मान् अनुरुद्धने यह नहीं कहा—‘ऐसा मैंने सुना’ या ‘ऐसा होना चाहिये’; वत्कि आयुष्मान् अनुरुद्ध यह कहते हैं—‘ऐसे वह देवता’, ‘इस प्रकारके वह देवता’, (यह सोचकर) भन्ते ! ऐसा होता है—जरूर पहिले आयुष्मान् अनुरुद्ध उन देवताओंके साथ रहे हैं, संलाप किये हैं, साक्षात्कार किये हैं।”

“जरूर, आवुस कात्यायन ! जानकर मैंने वह बात कही और वत्कि मैं तुमसे कहता हूँ— पहिले आवुस कात्यायन ! दीर्घ काल तक मैं देवताओंके साथ रहा हूँ, संलाप किये हूँ, साक्षात्कार किये हूँ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् सभ्य कात्यायनने पंचकांग गृहपतिसे यह कहा—

“गृहपति ! लाभ है तुम्हें, सुलाभ मिला तुम्हें; जो कि तुम अपनी संशयको मिटा सके, और सुक्षे भी यह धर्म-पर्याय (= धर्मोपदेश) सुननेको मिला।”

१२८—उपकिलेस-सुत्तन्त (३।३।८)

कलहका कारण, और चिकित्सा । योग-शुद्धि

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् 'कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे । उस समय कौशाम्बीमें मिश्रु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुष (रूपी) शक्ति (= हृदियार) से बंधते फिरते थे । तब कोई मिश्रु, जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर भगवान्को अभिरादन कर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये उस मिश्रुने भगवान्में यों कहा—“यहाँ कौशाम्बीमें भन्ते ! मिश्रु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुषशक्तिसे बंधते फिरते हैं । धम्मा हो यदि भन्ते ! भगवान्, जहाँ वह मिश्रु हैं, वहाँ चले ।”

भगवान्ने भौनसे उसे स्वीकार किया । तब भगवान् जहाँ वह मिश्रु थे, वहाँ गये । जाकर उन मिश्रुओंसे बोले—

“यस मिश्रुओ ! भंडन, कलह, विग्रह, विवाद (मत) करो ।”

ऐसा कहनेपर एक मिश्रुने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! भगवान् ! धर्मे-स्वामी ! रहने दें । परग्राह मत करें । भन्ते ! भगवान् ! धर्म-स्वामी ! दृष्ट-धर्म (इसी जन्म)के सुखके साथ विहार करें । हम इन भंडन, कलह, विग्रह, विवादने (स्वयं निपट लेंगे) ।”

दूसरी पार भी भगवान्ने उन मिश्रुओंमें कहा—“यस मिश्रुओ ० ! ०” । ० । तीसरी पार भी भगवान् ० । ० ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय (वख) पहनकर पात्र-चीवरले कौशाम्बीमें निजाधार कर, भोजन कर, पिंड-पातमें उठ, आसन समेत, पात्र चीवर ले, लड़े ही लड़े इन गाथाको पढ़ें ।

“यदे शब्द करनेवाले एक समान (यह) जन कोई भी अपनेको बाल (= धम्मा) नहीं मानते;

संघके भंग होने (और) मेरे लिये मनमें नहीं करते ॥

मूढ़, पंडितसे दिखलाते, जीभपर भाई बातको बोलनेवाले ;

मन-चाहा सुख फैलाना चाहते हैं; जिस (कलह)में (अयोग्य मार्गपर)

ले जाये गये हैं, उमे नहीं जानते ॥

‘मुझे निन्दा’, ‘मुझे मारा’, ‘मुझे जीता’, ‘मुझे त्यागा’ ।

(इस तरह) जो उसको (मनमें) बाँधते (= उपनहन) हैं, उनका धर्म ज्ञान नहीं होता ॥

१ कोत्तन्, जिला इलाहाबाद ।

‘मुझे निन्दा’, ‘मुझे मारा’, ‘मुझे जीता’, ‘मुझे त्यागा’ ।
(इस तरह) जो उसको नहीं बर्बादते, उनका वैर शांत हो जाता है ॥
वैरसे वैर यहाँ कभी शांत नहीं होता ।

अ-वैरसे (ही) शांत होता है, यही सनातन-धर्म है ॥
दूसरे (= अपंडित) नहीं जानते, कि हम यहाँ मृत्युको प्राप्त होंगे ।

जो वहाँ (मृत्युके पास) जाना जानते हैं, वे (पंडित) बुद्धिगत (कलहोंको) शमन करते हैं ॥

हड्डी तोड़नेवालों, प्राण हरनेवालों, गाय-घोड़ा-धन-हरनेवालों ।
राष्ट्रको विनाश करनेवालों (तक)का भी मेल होता है ॥

यदि नम्र-साधु-विहारी धीर (पुरुष) सहचर=सहायक (= साथी) मिले ।
तो सब क्षणोंको छोड़, प्रसन्न हो, बुद्धिमान् उसके साथ विचरे ॥

यदि नम्र साधु-विहारी धीर सहचर सहायक न मिले ।

तो राजाकी भाँति विजित राष्ट्रको छोड़, उत्तम मातंग-राजकी भाँति अकेला विचरे ॥

अकेला विचरना अच्छा है, बालसे मित्रता नहीं (अच्छी) ।

वे-पर्वाह हो उत्तम मातंग- (= नाग) राजकी भाँति अकेला विचरे, और पाप न करे ।”

तब भगवान् खड़े खड़े इन गाथाओंको कहकर, जहाँ बालक-लणकार ग्राम था, वहाँ गये । उस समय आयुष्मान् भृगु बालक-लणकार ग्राममें वास करते थे । आयुष्मान् मृगुने दूर से ही भगवान्को आते देखा । देखकर आसन विछाया, पैर धोनेको पानी भी (रक्खा) । भगवान् विछाये आसनपर बैठे । बैठ कर चरण धोये । आयुष्मान् भृगु भी भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् मृगुसे भगवान्ने यों कहा—
“भिक्षु ! क्या खमनीय (= ठीक) तो है, क्या यापनीय (= अच्छी गुजरती) तो है ? पिंड (= भिक्षा)के लिये तो तुम तकलीफ नहीं पाते ?”

“खमनीय है भगवान् ! यापनीय है भगवान् ! मैं पिंडके लिये तकलीफ नहीं पाता ।”

तब भगवान् आयुष्मान् भृगुको धार्मिक कथासे ० समुत्तेजित कर०, आसनसे उठकर, जहाँ प्राचीन-वंश-दाव है, वहाँ गये । उस समय आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिय और आयुष्मान् किम्बिल प्राचीन-वंश-दावमें विहार करते थे । दाव-पालक (= वन-पाल)ने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देखकर भगवान्से कहा—

“महाश्रमण ! इस दावमें प्रवेश मत करो । यहाँपर तीन कुल-पुत्र यथाकाम (= मौज से) विहर रहे हैं । उनको तकलीफ मत दो ।”

आयुष्मान् अनुरुद्धने दाव-पालको भगवान्के साथ बात करते सुना । सुनकर दाव-पालसे यह कहा—

“आवुस ! दाव-पाल ! भगवान्को मत मना करो । हमारे शास्ता भगवान् आये हैं ।”

तब आयुष्मान् अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान् नन्दिय और आयु. ० किम्बिल थे वहाँ गये । जाकर बोले—

“आयुष्मानो ! चलो आयुष्मानो ! हमारे शास्ता भगवान् आ गये ।”

तब आ. अनुरुद्ध, आ. नन्दिय, आ. किम्बिल भगवान्की अगवाणी कर, एकने पात्र-चीवर ग्रहण किया, एकने आसन विछाया, एकने पादोदक रक्खा । भगवान्ने विछाये आसनपर बैठ पैर धोये । वे भी आयुष्मान् भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् अनुरुद्धसे भगवान्ने कहा—

“अलुब्धो! खमनीय तो है? यापनीय तो है? पिंडके लिये तो तुम लोग स्कलोक नहीं पाते?”

“खमनीय है, भगवान् ।०”

“अलुब्धो! क्या एकत्रित, परस्पर मोद-रहित, दूध-पानी हुये, परस्पर प्रिय-रहिते देखते, विहरते हो?”

“हाँ भन्ते! हम एकत्रित० ।”

“तो कैसे अलुब्धो! तुम एकत्रित० ।”

“भन्ते! मुझे, यह विचार होता है—‘मेरे लिये लाम है! मेरे लिये सुनाम प्राप्त हुआ है, जो ऐमे स-ब्रह्मचारियों (= गुरु भाइयों)के साथ विहरता हूँ’। भन्ते! इन आयुष्मानोंमें मेरा कायिक-कर्म अन्दर और याहरसे मित्रतापूर्ण होता है; वाचिक-कर्म अन्दर और याहरसे मित्रतापूर्ण होता है; मानसिक-कर्म अन्दर और याहर० । तय भन्ते! मुझे यह होता है—यद्यो न मैं अपना मन हटा कर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तके अनुसार चूँ। नो भन्ते! मैं अपने चित्तको हटा-कर इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तोंका अनुवर्तन करता हूँ। भन्ते! हमारे शरीर नाना हैं, किन्तु चित्त एक...।”

आयुष्मान् नन्दीने भी कहा—“भन्ते! मुझे यह होता है० ।”

आयुष्मान् किम्बिलने भी कहा—भन्ते! मुझे यह० ।

“साधु, साधु, अलुब्धो! अलुब्धो! क्या तुम प्रमाद-रहित, आलस्य-रहित, संयमी हो, विहरते हो?”

“भन्ते! हाँ! हम प्रमाद-रहित० ।”

“अलुब्धो! तुम कैसे प्रमाद-रहित० ?”

“भन्ते! हमारेमें जो पहिले ग्रामसे निष्ठाचार करके लौटता है, वह आसन लगाता है, पीनेका पानी रखता है, कुड़ेकी थाली रखता है। जो पीछे गाँवमें पिंढपार करके लौटता है, (वह) भोजन (मेंसे जो) ढँचा रहता है, यदि चाहता है, खाता है, (यदि) नहीं पाहता है, तो (ऐमे) स्थानमें, जहाँ हरियाली न हो, छोड़ देता है, या जोय-रहित पानीमें छोड़ देता है। आसनोंको समेटता है। पीनेके पानीको समेटता है। कुड़ेकी थालीको धोकर समेटता है। खानेकी जगहपर झाड़ू देता है। पानीके घड़े, पीनेके घड़े, या पापानेके घड़ेमें जिसे थाली देखता है; उसे (भर कर) रख देता है। यदि वह उनके होने लायक नहीं होता तो हाथके इशारेसे, हाथके संकेत (= हल्प-विलंघक)से दूरतोंको बुलाकर, पानीके घड़े, या पीनेके घड़ेको (भर कर) रखवाता है। भन्ते! हम उनके लिये पाग्-मुद नहीं बनते। भन्ते! हम पाँचवें दिन सारी रात धर्म-सम्यन्थी कया करते बैठते हैं। हम प्रवार भन्ते! हम प्रमाद-रहित० ।”

“साधु, साधु, अलुब्धो! अलुब्धो! इस प्रकार प्रमाद-रहित, निरालस, संयमी हो विहरते, क्या तुम्हें उत्तर-अनुप्य-धर्म अलमार्य-ज्ञान-दर्शन-विशेष अलुब्ध-विहार प्राप्त है?”

“भन्ते! हम प्रमाद-रहित० विहार करते, अवभास और रूपोंके दर्शनको लगते हैं। किन्तु वह अवभास, और रूपोंके दर्शन हम लोगोंको जल्द ही अन्तर्धान होजाते हैं। हम हमका कारण नहीं जान पाते ।”

“अलुब्धो! तुम्हें वह कारण जान लेना चाहिये। मैं भी मन्त्रोपिमे पुरं, २ बुद हुआ, षोधि-सरव होते (समय) अवभास और रूपोंके दर्शनको जानता था। मेरा वह

अवभास और रूपोंका दर्शन जल्द ही अन्तर्धान होजाता था । तब मुझे, अनुरुद्धो ! यह हुआ—क्या है हेतु (= कारण), क्या है प्रत्यय (= कार्य), जिससे मेरा अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान होजाता है । तब मुझे अनुरुद्धो ! यह हुआ—(१) विचिकित्सा (= शंका, सन्देह) मुझे उत्पन्न हुई, विचिकित्साके कारण मेरी समाधि च्युत हो गई । समाधिके च्युत होनेपर अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान होता है । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर विचिकित्सा न उत्पन्न हो । सो मैं अनुरुद्धो ! प्रमाद-रहित० विहार करते, अवभास (= प्रकाश) और रूपोंका दर्शन देखने लगा । (किंतु) वह अवभास और रूपोंका दर्शन जल्द ही (फिर) अन्तर्धान हो जाता था । तब मुझे अनुरुद्धो ! यह हुआ—क्या है हेतु० । तब मुझे अनुरुद्धो ! हुआ—(२) अमनसिकार (= मनमें न दृढ़ करना), मुझे उत्पन्न हुआ । अ-मनसिकारके कारण मेरी समाधि च्युत हुई० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा न अ-मनसिकार उत्पन्न हो । सो मैं ० । ० (३) थीन-मिद्ध (= स्त्यान-मिद्ध) ० । ० न विचिकित्सा न अमनसिकार, न थीन-मिद्ध उत्पन्न हो । सो मैं ० । ० (४) स्तम्भितत्त्व (= स्तम्भितत्त्व) ० । स्तम्भितत्त्व (= जड़ता)के कारण मेरी समाधि च्युत हुई । समाधिके च्युत होनेपर, अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान हुआ । अनुरुद्धो ! जैसे पुरुष (अंधेरी रातमें) रास्तेमें जा रहा हो, उसके दोनों ओर घट्टे उड़ जायँ । उसके कारण उसको स्तम्भितत्त्व उत्पन्न हो । ऐसे ही अनुरुद्धो ! मुझे स्तम्भितत्त्व उत्पन्न हुआ । स्तम्भितत्त्वके कारण० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो, न अ-मनसिकार, न स्त्यान-मिद्ध, न स्तम्भितत्त्व । सो मैं अनुरुद्धो ० । (५) ० उत्पीडा (= उव्यिच्छ = उत्पीडा = विह्वलता) ० । अनुरुद्धो ! पुरुष एक निधि (= खजाना) को ढूँढता, एक ही बार पाँच निधियोंके मुखको पा जाय, जिसके कारण उसे उत्पीडा उत्पन्न हो । ऐसे ही अनुरुद्धो ! उत्पीडा उत्पन्न हुई । उत्पीडाके कारण मेरी समाधि च्युत हुई० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो ० न उत्पीडा । सो मैं अनुरुद्धो ! ० । ० (६) दुःस्थौल्य (= दुःस्थौल्य) ० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे न विचिकित्सा उत्पन्न हो ०, न दुःस्थौल्य । सो मैं ० । तब मुझे अनुरुद्धो ! यह हुआ—(७) अति-आरब्ध-वीर्य (= अच्चारब्ध-वीर्य, अत्यधिक अभ्यास) मुझे उत्पन्न हुआ० । जैसे अनुरुद्धो ! पुरुष दोनों हाथोंसे घटेरको जोरसे पकड़े, वह वहीं मर जाय । ऐसे ही मुझे अनुरुद्धो ! ० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे ० अत्यारब्ध-वीर्य० । (८) अति-लीन-वीर्य (= अतिलीनवीर्य) ० । जैसे अनुरुद्धो ! पुरुष घटेरको ढीला पकड़े, वह उसके हाथसे उड़ जाय ० । सो मैं ० अति-लीन-वीर्य ० । ० (९) अभिजप्प (= अभिजल्प) ० । सो मैं ० अभिजप्प ० । ० (१०) नानास्व-प्रज्ञा (= नानास्व-प्रज्ञा) ० ।

“सो मैं ० नानास्व-प्रज्ञा ० । ० (११) अतिनिध्यायितत्त्व (= अतिनिज्झायितत्त्व) रूपोंका मुझे उत्पन्न हुआ । अतिनिध्यायितत्त्वके कारण मेरी रूपोंकी समाधि-च्युत हुई । समाधिके च्युत होनेसे अवभास, और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान हुआ । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे फिर न (१) विचिकित्सा उत्पन्न हो, न (२) अ-मनसिकार, न (३) स्त्यान-मिद्ध, न (४) स्तम्भितत्त्व, न (५) उत्पीडा, न (६) दुःस्थौल्य, न (७) अत्यारब्ध-वीर्य, न (८) अति-लीन-वीर्य, न (९) अभि-जल्प, न (१०) नानास्व-प्रज्ञा, न (११) रूपोंका अति-निध्यायितत्त्व । सो मैंने अनुरुद्धो ! ‘विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश (= मल) है’ जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साको छोड़ दिया; ‘अ-मनसिकार चित्तका उप-क्लेश है’ जानकर, चित्तके उप-क्लेश अ-मनसिकारको छोड़ दिया; ० स्त्यान-मिद्ध ०; ० स्तम्भितत्त्व ०; ० उत्पीडा ०;

० दुःस्वौल्य ०; ० अत्यारब्ध-वीर्य ० अति-लीन-वीर्य ०; ० अमि-जल्प ०; ० नानात्व-प्रज्ञा ०;
० रूपोंका अति-नि-ध्यायितत्व चित्तका उप-क्लेश है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश रूपोंके अति-
नि-ध्यायितत्वको छोड़ दिया। सो मैं अनुरद्धो! प्रमाद-रहित निरालम्ब, मंमयी हो विहरने
अवभासको जानता, और रूपोंको नहीं देखता; रूपोंको देखता, और अवभासको नहीं पहिचानता
(कि) 'केवल रात (है, था) केवल दिन, या केवल रात-दिन' ।

"तब मुझे अनुरद्धो! यह हुआ—क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, (कि) मैं अभावको
जानता हूँ ० ? तब मुझे अनुरद्धो! यह हुआ—जिस समय मैं रूपके निमित्त (= विरोधता)
को मनमें न कर, अवभासके निमित्तहीको मनमें करता हूँ, उस समय अवभासको पहिचानता
हूँ, और रूपों को नहीं देखता। जिस समय मैं अवभासके निमित्तको मनमें न कर, रूपोंके
निमित्तको मनमें करता हूँ, उस समय रूपोंको देखता हूँ, 'केवल रात है, केवल दिन है, केवल
रात-दिन है' इस अवभासको नहीं पहिचानता। सो मैं अनुरद्धो! प्रमाद-रहित ० गिरने,
अल्प (= परित्र) अवभासको भी पहिचानता, अल्प रूपको भी देखता; अ-प्रमाण (= महान)
अवभासको भी पहिचानता, अ-प्रमाण रूपोंको भी देखता—'केवल रात है, केवल दिन है,
केवल रात-दिन है'। तब मुझे अनुरद्धो! ऐसा हुआ—क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो मैं
अल्प अवभासको भी पहिचानता ० ? तब अनुरद्धो! मुझे यह हुआ—जिस समय ममाधि
अल्प होती है, उस समय मेरा चक्षु अल्प होता है; सो मैं अल्प चक्षुसे परिचित (= अल्प)
ही अवभासको जानता हूँ, परिच्छिन्न ही रूपोंको देखता हूँ । जिस समय अप्रमाण ममाधि होती
है, उस समय मेरा चक्षु अप्रमाण होता है; सो मैं अप्रमाण चक्षुसे अ-प्रमाण अवभासको जानता;
अप्रमाण रूपों—केवल दिन, केवल रात, केवल रात-दिनको देखता। क्योंकि अनुरद्धो! मैंने
'विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साको छोड़ दिया था।
'अमनसिकार ० । स्थानमृद्ध ० । स्तम्भितत्व ० । उत्पीडा ० । दुःस्वौल्य ० । अत्यारब्ध-वीर्य ० ।
अति-लीन वीर्य ० । अमि-जल्प ० । नानार्थ-संज्ञा ० । 'रूपोंका अति-निध्यायितत्व चित्तका
उपक्लेश है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश अतिनिध्यायितत्वको छोड़ दिया था ।

"तब मुझे अनुरद्धो! ऐसा हुआ—जो मेरे चित्तके उप-क्लेश थे, वह हट गये। हाँ
तो, अब मैं तीन प्रकारसे समाधि भावना करूँ। सो मैं अनुरद्धो! वितर्क-रहित भी ममाधिही
भावना करता। वितर्क-रहित विचार भावनावाली समाधिकी भावना करता। वितर्क-रहित ममाधिही
भी भावना करता। प्रीति (= स-प्रीतिक) समाधिकी भी ०, प्रीति दिनागली (= नि.प्रीतिर)
समाधि ० । सात (= सुख)-संयुक्त समाधि ० । उपेक्षा-युक्त समाधि ० । क्योंकि, अनुरद्धो!
मैंने स-वितर्क स-विचार समाधिकी भी भावना की थी; अवितर्क विचारभावाली समाधि ० ।
अवितर्क अविचार समाधि ० । स-प्रीतिक ० । निःप्रीतिक ० । सात-सह-मद ० । मेरे निरे ज्ञान-
दर्शन होगया। मेरी चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति) अटल होगई। यह अस्मिन् जन्म है। अब
पुनर्भव (= आवागमन) नहीं ।"

मगवान् ! (इस प्रकार बोले); आयुष्मान् अनुरद्धने सगुण हो भगवान्के भावनाको
अभिनन्दित किया ।

१२६—बाल-पंडित-सुत्तन्त (३।३।६)

नरक । पापी मूर्ख कर्म । स्वर्ग । चक्रवर्ती राजा

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! यह तीन बाल (= अज्ञ)के लक्षण, = निमित्त, पदान हैं । कौनसे तीन ?—यहाँ, भिक्षुओं ! (१) बाल दुश्चित्य (= चिन्ता न करने लायक) की चिन्ता करनेवाला होता है, (२) दुर्वचनका बोलनेवाला होता है, (३) दुष्कृत कर्मका करनेवाला होता है । यदि, भिक्षुओ ! बाल दुश्चिन्ता-चिन्ती, दुर्वचन-भाषी, दुष्कृत कर्मकारी न होवे; तो पंडित उसे न समझे—‘यह आप बाल, अ-सत्पुरुष हैं’ । चूँकि भिक्षुओ ! बाल दुश्चित्य-चिन्ती ० होता है; इसलिये पंडित इसे जानते हैं—‘यह आप बाल, अ-सत्पुरुष हैं’ ।

“भिक्षुओ ! वह बाल (= मूर्ख) इसी जन्ममें तीन प्रकारके दुःख = दौर्मनस्यको अनुभव करता है ।—(१) भिक्षुओ ! यदि बाल सभामें बैठा रहता है, रथ्या (= सड़क)में ०, या चौरस्ते (= शृङ्गाटक)में बैठा रहता है ; वहाँ लोक उसके संबन्धकी, उसके अनुरूप बात चलाते हैं यदि भिक्षुओ ! (वह) बाल हिंसक, चोर व्यभिचारी, झूठा, शराबी (= सुरा-भैरेय-मद्य-प्रमाद स्थायी) होता है ;—‘वहाँ बालको ऐसा होता है । लोग उस संबन्धकी, उसके अनुरूप जो बात चलाते हैं, वह धर्म (= दुरुगुण) सुझमें हैं ही, मैं उन धर्मोंमें फँसा हूँ’ । भिक्षुओ ! बाल इसी जन्ममें इस प्रथम दुःख, दौर्मनस्यको अनुभव करता है ।

“(२) और फिर भिक्षुओ ! बाल देखता है—राजा (लोग) चोर, आग लगानेवालेको पकड़ कर अनेक प्रकारके दंड (= कम्भकरणा) देते हैं—चाबुकसे भी पिटवाते हैं ०^१ तलवारसे शीश कटवाते हैं । भिक्षुओ ! बाल इसी जन्ममें इस द्वितीय दुःख दौर्मनस्यको अनुभव करता है ।

“(३) और फिर भिक्षुओ ! बाल पीठपर आसीन, संचपर बैठे (= आसीन)-या धरतीपर बैठे, जो इसने पहिले पाप-कर्म किये हैं—कायाके दुश्चरित, वाणीके दुश्चरित, मनके दुश्चरित—वह उस समय उससे लटकते (= अवलम्बित होते) हैं, अधि-अवलंबित = अभि-प्र-लंबित होते हैं । जैसे, भिक्षुओ ! पर्वतके महाकूटोंकी छाया सायंकाल, पृथिवी पर अवलंबती, अप्यबलंबती, अभि प्रलंबती है; ऐसे ही भिक्षुओ ! बाल पीठपर ० । वहाँ भिक्षुओ बालको ऐसा होता है—‘हाय, मैंने कल्याण, कुशल, हिरुत्ताण (= सलज्ज कर्म) नहीं किया ! मैंने पाप-रुद्र (-कर्म), किविप

^१ देखो पृष्ठ ५२-५५ ।

क्रिया है। जो कुछ गति है, कल्याण-कुशल-हिरचाण न किये की, पाप-रुद्र-किल्बिष किये की; उन गतिकों में प्राप्त होकेगा—वह यह शोक करता है, कलपता है, क्रंदन करता है, छाती पीटकर रोता है, मूर्च्छित होता है। भिक्षुओ! बाल इसी जन्ममें इस वृत्तीय दुःख-दौर्मनस्यको अनुभव करता है।

“भिक्षुओ! वह बाल काया और वचन में दुश्चरित (= पाप) करके, काया छोड़ मरनेके बाद अपाय = दुर्गति, विनिपात, नर्कमें उत्पन्न होता है। जिसके लिये कि भिक्षुओ! होकरने करने पर कहे—सर्वाशतः अनिष्ट, सर्वाशतः अकान्त, सर्वाशतः अननाप (= अ-प्रिय) है; तो यह ठीकसे कहने पर नर्कको ही कहना चाहिये”। नर्कमें जितना दुःख है, भिक्षुओ! उतनी उपमा देने भी सुकर नहीं है।”

ऐसा कहने पर एक भिक्षुने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते! उपमा दी जा सकती है ?

भगवान्ने कहा—“दी जा सकती है, भिक्षु! जैसे, भिक्षु! चोर, आग लगानेवालेको पकड़कर राजाको दिखलावे—‘देव! यह चोर, आग लगानेवाला है, हमें देव! जो चाहे वह दंड प्रदान करें।’ उसको राजा यह कहे—‘जाओ, भो! हम पुरुषको पूर्वाह्न-समय एक सौ शक्ति (= कौड़े) मारो।’ तब उसे पूर्वाह्न समय एक सौ शक्ति मारें। राजा मर्यादाके सम्यक् पूछे—‘कहो, वह पुरुष कैसे है?’। ‘वैसे ही, देव! जो रहा है।’ तब उसको राजा यह कहे—‘जाओ, भो! उसे मध्याह्न समय एक सौ शक्ति मारो।’ ०। ०—‘जाओ, भो! उसे सायंकाल एक सौ शक्ति मारो।’ तब उसे सायंकाल भी एक सौ शक्ति मारें। तो क्या मानते हो, भिक्षुओ! क्या वह पुरुष तीन सौ शक्तियोंसे मारा जाकर, उसके कारण दुःख-दौर्मनस्य अनुभव करेगा ?

“भन्ते! एक शक्तिसे भी मारे जानेपर वह पुरुष, उसके कारण दुःख-दौर्मनस्य अनुभव करेगा; तीन सौ शक्तियोंकी तो यात ही क्या करनी ?”

तब भगवान्ने हाथके धराधरके एक छोटे पत्थरको हाथमें ले भिक्षुओंको संबोधित किया—

“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ! कौन अधिक घड़ा है, वह जो हाथके धराधरका छोटा पत्थर मैंने हाथमें लिया है; या हिमवान् (= हिमालय) पर्वतराज ?”

“भन्ते! भगवान्ने जो यह हाथके धराधरका छोटा पत्थर (? डेला) हाथमें लिया है, वह अति छोटा है; हिमवान् पर्वतराजके मुकाबिलेमें हमकी गिनती भी नहीं हो सकती, बाल-भगवान् भी (यह) नहीं पा सकता, निम्न (श्रेणी)के पास भी नहीं पहुँच सकता।”

“ऐसे ही, भिक्षुओ! जो वह पुरुष तीन सौ शक्ति मारे जानेपर, उसके कारण दुःख-दौर्मनस्य अनुभव करेगा; नर्कके दुःखके मुकाबिलेमें उसकी गिनती भी नहीं हो सकती ०।

“भिक्षुओ! निरयपाल (= नरकपाल) उनका पंच-विध-बंधन नामक दंड होंगे हैं—गर्भ लोहेकी कीलको हाथमें ठोकते हैं; गर्भ लोहेकी कील दूसरे हाथमें ठोकते हैं। ० पैरों में बने हैं, ० दूसरे पैरों में ठोकते हैं ० छातीके बीचमें ठोकते हैं। यह यहाँ दुःखा, गीमा, मरी, कष्टका संख्या अनुभव करता है; किन्तु तब तक नहीं मरता, जब तक कि उसके पाप दमनका क्षम नहीं हो जाय।

“तब, भिक्षुओ! निरयपाल उसे घैठाकर हल्कादेमे बाटते हैं। यह यहाँ दुःखा ०।

“० उसे ऊपर पैर और नीचे निर रखकर दसूलेमे बाटते हैं। यह यहाँ दुःखा ०।

“० उसे रथमें जोतकर आदीप्त, सं-प्रवृत्त, दहकती मृत्तिमें से जाते हैं, से जाते हैं। यह यहाँ दुःखा ०।

“उसे आदीप्त = सं-प्रज्वलित, दहकते अंगारके वड़े पर्वत पर चढ़ाते हैं, उतारते हैं। वह वहाँ दुःखा ० ।

“० उसे ऊपर पैर नीचे शिर पकड़ कर आदीप्त ० तस लोह-कुम्भीमें डालते हैं; वह वहाँ पेणुहेहकं (= गाज फँकता) पकता है। वह वहाँ पेणुहेहकं पकता हुआ एक बार ऊपर आता है, एक बार नीचे जाता है, एक बार तिछें जाता है। वह वहाँ ० ।

“तव, भिक्षुओ! निरयपाल उसे पुनःपुनः महानिरय (= महानरक)में डालते हैं। भिक्षुओ! वह महानिरय (ऐसा) है—

‘चार कोनोंवाला, चार द्वारोंवाला,
और खंड खंडमें नाप कर बँटा हुआ।
लोहेके प्राकारसे परिवेष्टित,
और लोहासे प्रतिकुब्जित (= गठित)।
उसकी लोह (= अयः)-मयी भूमि,
तेजसे युक्त जलती हुई,
चारों ओर एक सौ योजन (विस्तृत)
(आगसे) व्याप्त हो सर्वदा स्थित रहती है।’

“भिक्षुओ! नाना प्रकारसे यदि मैं निरय (= नरक)की कथा कहता रहूँ, तो भी... उसके दुःखका पूरा वर्णन करना सुकर नहीं है।

“भिक्षुओ! तिर्यग् (= पशु-)योनिमें तृणभक्षी प्राणी हैं। वह हरे तृणोंको भी सूखे तृणोंको भी दाँतसे चाटकर खाते हैं। कौन हैं, भिक्षुओ! तृणभक्षी तिर्यग्-योनिके प्राणी?—हाथी, घोडा, गाय, गदहा, बकरी, मृग; और जो कोई और भी तृणभक्षी तिर्यग्योनिके प्राणी। सो वह बाल, भिक्षुओ! पहिले रस-भक्षी, यहाँ पाप कर्मोंको करके, काया छोड़ मरनेके बाद उन तृणभक्षी प्राणियोंकी सहव्यता (= योनि)में उत्पन्न होता है।

“भिक्षुओ! तिर्यग्योनिमें गूथ (= विष्टा)-भक्षी प्राणी हैं। वह दूरसे ही गूथ-गंधको सूँघकर धावते हैं—‘यहाँ खायेंगे’, ‘यहाँ खायेंगे’; जैसे कि ब्राह्मण आहुति-गन्धसे धावते हैं—‘यहाँ खायेंगे’, ‘यहाँ खायेंगे’।... भिक्षुओ! कौन हैं, गूथ-भक्षी तिर्यग्योनिके प्राणी?—कुक्कुट, शूकर, कुत्ता, स्यार; और जो कोई और भी ०। सो वह बाल, भिक्षुओ! पहिले रसभक्षी ० उन गूथ-भक्षी प्राणियोंकी सहव्यतामें उत्पन्न होता।

“० तिर्यग्योनिमें प्राणी हैं, जो अंधकारमें जन्मते हैं, अंधकारमें बड़े होते हैं, और अंधकार हीमें मरते हैं, ० कीट, पतंग, गंड (= फोड़े)से उत्पन्न ०। ०।

“० तिर्यग्योनिमें प्राणी हैं, जो जलमें जन्मते, बड़े होते, मरते हैं। ० मत्स्य, कच्छप, शिशुमार (= मगर) ०। ०।

“० तिर्यग्योनिमें प्राणी हैं, जो अशुचि (= गन्द)में जन्मते, बड़े होते, मरते हैं। ० जो वह प्राणी सड़ी मछली, सड़े मृत शरीर, या सड़े अन्न (= कुल्माष), चन्दनिका (= गड़हा) या ओलिंगल्ल (= गड़ही)में जन्मते हैं ०। ०।

“भिक्षुओ! नाना प्रकारसे भी यदि मैं तिर्यग्योनिकी कथा कहता रहूँ, तो भी उसके दुःखका पूरा वर्णन करना सुकर नहीं है। जैसे, भिक्षुओ! कोई पुरुष एक छिगलके जोड़ेको महा-समुद्रमें फँक दे। उसे पुरवा हवा पच्छिमकी ओर घहावे, पछवाँ हवा पूर्वकी ओर ०। उत्तरहिया हवा दक्षिणकी ओर ०, दखिनहिया हवा उत्तरकी ओर घहावे। वहाँ एक काना कछुवा हो, (जो

कि) सौं सौं वर्ष याद एक बार उतराता हो। तो क्या मानते हो, भिक्षुओ! क्या वह काना कछुवा इस एक टिगल-जोड़ेमें अपनी गर्दनको घुसायेगा?"

"नहीं, भन्ते! शायद कभी किसी समय दीर्घकालके याद।"

"भिक्षुओ! वह काल शीघ्रही होगा जब कि वह काना कछुवा उस ० में अपनी गर्दनको घुसायेगा, (लेकिन) भिक्षुओ! एक बार पतित हुये बालके लिये (फिर) मनुष्यत्वकी प्राप्तिको मैं (उससे) दुर्लभतर कहता हूँ। सो किस हेतु?—भिक्षुओ! यहाँ (तिर्यग्योनिमें) धर्मचर्या (= धर्माचरण) = समचर्या, कुशल-क्रिया (= पुण्यकर्म), पुण्यक्रिया (संभव) है। यहाँ भिक्षुओ! एक दूसरेके खानेवाले दुर्बलोंको खानेवाले रहते हैं। वह बाल... कदाचित् कभी, दीर्घकालके याद मनुष्यत्वको प्राप्त होता; (तो वह) जो कि वह नीचकुल है—चांडालकुल, निपादकुल, धर्मोर (= वेतुकार)कुल, रथकारकुल, या पुक्कसकुल—ऐसे द्रविड, अल्प-अन्न-पान-भोजन, कृच्छ्र-मृत्ति पृथ्वीमें जन्मता है। जहाँ सुदिक्रलसे उसे पाना-ऋषदा (= घास-भाच्छादन) मिलता है। (और यहाँ भी) वह दुर्वर्ण (= कुरूप), दुर्दर्शन, घुसी गर्दनवाला, यहुरोगी, काना, लला, रुयदा, पक्षाघात घाल, होता है। अन्न-पान-वस्त्र-पान-माला-गन्ध-विलेपनोंका, शय्या-निवासस्थान (= आश्रय) -प्रदीपोंका लामी नहीं होता। वह काया वचन और मनसे दुश्चरित (= दुष्कर्म) करता है। यह काय-वचन-मनसे दुश्चरित करके, काया छोड़ मरनेके याद अपाय, दुर्गति, विनिपात, नरकमें उत्पन्न होता है। जैसे, भिक्षुओ! जुआरी पहिले ही दाव (= कलिप्रद) में पुत्रको हार जाये, फिर स्त्रीको भी, फिर सारी सम्पत्तिको, और फिर वन्धनमें चला जाये। भिक्षुओ! यह कलिप्रद (= दाव) स्वल्पमात्र है; जो कि वह जुआरी पहिले ही दावमें ०। उससे कहीं घटा कलिप्रद यह है, जो कि यह बाल काय-वचन-मनसे दुश्चरित करके ०।

"भिक्षुओ! यह केवल परिपूर्ण बालभूमि है।

"भिक्षुओ! यह तीन पंडितके लक्षण = निमित्त, पदान हैं। कौनसे तीन?—यहाँ भिक्षुओ! पंडित (१) सुचिंतित-चिन्ती होता है, (२) सुभाषित-भाषी होता है, और (३) सुगत धर्मकारी होता है। १। भिक्षुओ! वह पंडित काय-वचन-मनसे सुचरित करके, पाया पीत मरनेके याद सुगति स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होता है। जिनके लिये कि भिक्षुओ! ठीकसे बहने पर षट्—सर्वांशतः दृष्ट, सर्वांशतः कान्त, सर्वांशतः भनाप है; तो यह ठीकसे बहनेपर स्वर्ग ही बहना चाहिये... स्वर्गमें जितना सुख है भिक्षुओ! उसकी उपमा देनी भी सुकर नहीं है।"

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते! उपमा दी जा सकती है।"

भगवान्ने कहा— "दी जा सकती है। भिक्षु! जैसे चक्रवर्ती राजा मत्त राजों कीर पार क्रद्धियोंसे युक्त हो, उनके कारण सुख और सौमनस्यको प्राप्त हो। किन् मत्त रमोमं ?

(१) "यहाँ भिक्षुओ! पूर्णिमाके उपोसथके दिन शिरसे गहाये उपोसथ-प्रती हो मत्तये उपर स्थित मूर्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजाके लिये, नेमि-नाभि-युक्त मवांग-परिपूर्ण म्हाय-अरोयाता दिग्ग-चक्र-रत्न प्रकट होता है। उसको देखकर ० क्षत्रिय राजाको यह होता है—मैंने यह सुना है, 'मिन् ० क्षत्रिय राजाके लिये ० चक्ररत्न प्रकट होता है; यह चक्रवर्ती राजा होता है'। क्या मैं चक्रवर्ती राजा हूँ? तब भिक्षुओ! ० क्षत्रिय राजा यायें हाथमें सोनेकी सारी (= मृगार) से, दाहिने हाथमें चक्र-

रत्नपर छोटता है—‘चलें आप चक्ररत्न विजय करें आप चक्ररत्न’। तब भिक्षुओ ! चक्ररत्न पूर्व दिशाको चलता है। चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ अनुगमन करता है। ‘जिस प्रदेशमें चक्ररत्न स्थित होता है; वहीं चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ वास करता है। भिक्षुओ ! पूर्व दिशाके जो प्रतिराजा (= अधीन राजा) हैं, वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर कहते हैं—‘आइये, महाराज ! स्वागत है आपका, महाराज ! (यह सब कुछ आपका) अपना है, अनुशासन कीजिये, महाराज !’ चक्रवर्ती राजा यह कहता है—‘प्राण नहीं मारना चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिये, व्यभिचार नहीं करना चाहिये, झूठ नहीं बोलना चाहिये, शराय नहीं पीनी चाहिये; जैसे (आज तक राज्यको) भोगे, वैसे ही भोगो ।’ भिक्षुओ ! (तब) जितने पूर्व दिशामें प्रतिराजा थे, सभी चक्रवर्ती राजाके अनुगामी हो गये। तब, भिक्षुओ ! चक्ररत्न पूर्वोत्तर-समुद्रको पारकर... दक्षिण दिशामें चलता है। ०।० दक्षिण-समुद्रको पार कर...पश्चिम दिशामें चलता है। ०।० पश्चिम समुद्रको पार कर उत्तर दिशामें चलता है। चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ अनुगमन करता है। ० (तब) जितने उत्तर दिशामें प्रतिराजा थे, सभी चक्रवर्ती राजाके अनुगामी हो गये। तब भिक्षुओ ! चक्ररत्न समुद्रपर्यन्त पृथिवीको जीतकर, राजधानीमें लौट चक्रवर्ती राजाके अन्तःपुर (= भीतरी दुर्ग)के द्वारपर, ० अन्तःपुर-द्वारकी शोभा बढ़ाते, अक्ष (= धुरे)में लगा जैसा स्थित होता है। भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाको इस प्रकारका चक्ररत्न प्रकट होता है।

(२) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाका, सत्वप्रतिष्ठ (= वहादुर), ऋद्धिमान्, आकाश-गामी, उपोसथ नागराज नामक सर्वश्रेष्ठ हस्तिरत्न उत्पन्न होता है। उसको देखकर चक्रवर्ती राजाका चित्त प्रसन्न होता है—‘भो ! (यह) हस्ति-यान (= ० सवारी) बढ़िया (= भद्रक) है, यदि शिक्षा ग्रहण कर लेता !’ तब भिक्षुओ ! वह हस्तिरत्न, अच्छी जातिका हाथी जैसे दीर्घ-कालसे शिक्षित हो, वैसे शिक्षाको ग्रहण कर लेता है। उस भूतकालमें भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाने उसी हस्तिरत्नकी परीक्षाके लिये पूर्वाह्न समयमें आरूढ़ हो समुद्र पर्यन्त पृथिवीका अनुसंयान (= निरीक्षण) कर अपनी राजधानीमें लौटकर प्रातराश (= नास्ता) किया। भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाको इस प्रकारका हस्तिरत्न प्रकट होता है।

(३) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाको (जो कि) सर्वश्रेष्ठ, काक-शीर्ष, सुंज-केश, ऋद्धिमान्, आकाशगामी, अश्वराज वलाहक नामक अश्वरत्न प्रकट होता है। ०^१ लौटकर प्रातराश किया। भिक्षुओ ! ० इस प्रकारका अश्वरत्न प्रकट होता है।

(४) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाको मणिरत्न प्रकट होता है। वह होता है, वैदूर्यमणि (= हीरा), शुभ्र, अच्छी जातिकी, अठकोणी, सुपरिकर्मकृत (= पालिश की) होती है। भिक्षुओ ! उस मणिरत्नका प्रकाश चारों ओर योजन मर तक भर जाता है। पहिले समय, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाने इस मणिरत्नकी परीक्षाके लिये, चतुरंगिनी सेनाको तय्यार कर, मणिको ध्वजाके ऊपर लगा रातके घोर अंधकारमें यात्रा की। भिक्षुओ ! जो चारो ओर गाँव थे; (वहाँके लोग) दिन समझ, मणिके प्रकाशमें काम करने लगे। भिक्षुओ ! ० इस प्रकारका मणिरत्न प्रकट होता है।

(५) “और फिर भिक्षुओ ! ० स्त्रीरत्न प्रकट होता है। (वह स्त्री) अमिरूपा = दर्शनीया = प्रासादिका, परम वर्ण-पुष्कलतासे युक्त, नातिदीर्घा, नातिहस्ता, नातिकृशा, नातिस्थूला (= न बहुत मोटी), न-बहुत काली, न-बहुत सफेद, मनुष्यवर्णको पारकर तथा

^१ ऊपर बँसे ही (हस्तीकी जगह अश्व रखकर)।

दिव्यवर्णमे कृच्छ्र घटकर होती है ।... उस खीररत्नके कायाका स्पर्श होता है, दूधके फाँटे, या पत्रानके फाँटे जैसा ।... उस खीररत्नका रात्र शीतकालमें उष्ण और उष्णकालमें शीत होता है । इस ० के कायासे चंदनकी गंध आती है, मुखसे कमलकी गंध आती है ।... वह खीररत्न चक्रवर्ती राजाकी पूर्वोत्थायिनी (= पहिले जागनेवाली), पश्चाच्चिपातिनी (= पीछे सोनेवाली), 'क्या-करना है'—सुनानेवाली, प्रिय-चारिणी, प्रियवादिनी होती है । वह... खीररत्न मनने भी चक्रवर्ती राजाकी अतिचारिणी नहीं होती, कायासे तो क्या । मिथुनो ! ० इस प्रकारका खीररत्न ० ।

(६) "और फिर, मिथुनो ! ० गृहपति (= वैश्य)-रत्न प्रकट होता है । (पूर्व-) कर्मके विपाकसे उसे दिव्यचक्षु उत्पन्न होती है; जिससे मालिक-श्रेणालिखाले (जमीनके गद्दे) खजानोंको वह देखता है । वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह कहता है—'देव ! आप बेफिक्र रहिये; आपके धनवाले कार्यको मैं करूँगा' । मिथुनो ! पहिले समयमें चक्रवर्ती राजा उस गृहपति-रत्नकी परीक्षाके लिये, नावमें चंद्र गंगानदीकी मध्यधारमें जा गृहपतिरत्नमे पर धोला—'गृहपति ! मुझे सोने-अशार्फ़ी (= हिरण्य-सुवर्ण)की जरूरत है' । 'तो महाराज ! इस वा उस खीररत्न पर' । 'गृहपति ! यहीं मुझे हिरण्य-सुवर्णकी जरूरत है' । तब मिथुनो ! गृहपतिरत्न दोनों हाथोंमें पानीको छूकर हिरण्य-सुवर्णसे भरे घड़े निकालकर चक्रवर्ती राजाको दे यह धोला—'इतना ही यस, महाराज ! इतना ही पर्याप्त महाराज ! पुज गया (= पूजित) महाराज ! इननेमे' । चक्रवर्ती राजाने कहा—'इतना ही यस, गृहपति ! ० पुजगया गृहपति ! इतनेमे' । मिथुनो ! इस प्रकारका गृहपति-रत्न ० ।

(७) "और फिर मिथुनो ! ० परिणायक-रत्न प्रकट होता है; (जो कि होता है) पंडित-व्यक्त, मेधावी । चक्रवर्ती राजाके पानेकी चीजको प्राप्त करानेमें, इतानेकी चीजको दूर परानेमें, रख छोड़ने लायक चीजको रख छोड़नेमें समर्थ होता है । वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह धोला है—'देव ! आप बेफिक्र रहिये, मैं अनुशासन (= शासन) करूँगा' । मिथुनो ! ० इस प्रकारका परिणायक-रत्न प्रकट होता है ।

"मिथुनो ! चक्रवर्ती राजा इन सात रत्नोंमे युक्त होता है ।

"किन चार ऋद्धियोंसे (युक्त होता है) ?—(१) मिथुनो ! चक्रवर्ती राजा अभिरूप = दर्शनीय = प्रासादिक, अन्य मनुष्योंसे अत्यंत परमवर्ण-पुष्करता (= परम सौंदर्य)में युक्त—चक्रवर्ती राजा इस प्रथम ऋद्धिसे युक्त होता है ।

(२) "और फिर, मिथुनो ! चक्रवर्ती राजा अन्य मनुष्योंमें अत्यंत अधिक दीर्घायु विरा-स्थितिक होता है । ० इस द्वितीय ऋद्धिसे युक्त होता है ।

(३) "और फिर, मिथुनो ! चक्रवर्ती राजा नीरोग = निरातंभ होता है; अन्य मनुष्योंकी अपेक्षा अत्यधिक नमपाचनवाली, न-अति-शीत, न-अति-उष्ण पाचनशक्ति (= प्राणी)में युक्त होता है ० इस तृतीय ऋद्धिसे युक्त होता है ।

(४) "और फिर मिथुनो ! चक्रवर्ती राजा ब्राह्मण गृहपतिदोंको प्रिय होता है, अर्थात् मिथुनो ! पिता पुत्रोंको प्रिय = मनाप होता है । इन्ही प्रकार ० । ० राजाको ब्राह्मण गृहपति प्रिय होते हैं; जैसेकि पुत्र पिताके प्रिय = मनाप होते हैं ।... पहिले समयमें, मिथुनो ! चक्रवर्ती राजा चतुरंगिनी सेनाके साथ उद्यान भूमिमें जा रहा था । तब मिथुनो ! ब्राह्मण गृहपति ० राजाके पास आकर बोले—'देव ! धीरे धीरे जाइये, जिनमें कि हम अतिब देरगह (जापकी) देकर सकें' । (तब) मिथुनो ! ० राजाने भी सात्थीमे कहा—'नारथि ! धीरे धीरे ले चलो, जिनमें कि ब्राह्मण गृहपति मुसे देरतक देख सकें । मिथुनो ! चक्रवर्ती राजा इस चतुर्थ ऋद्धिसे युक्त होता है ।

“भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा इन चार ऋद्धियोंसे युक्त होता है ।

“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या चक्रवर्ती राजा इन सात रत्नों^१, इन चार ऋद्धियोंसे युक्त होनेके कारण सुख सौमनस्य अनुभव करेगा ?”

“मन्ते ! ० एक एक रत्नसे युक्त होनेके कारण भी सुख-सौमनस्य अनुभव करेगा; सातों रत्नों और चारों ऋद्धियोंकी तो बात ही क्या कहनी ?”

तब भगवान्ने हाथ भरके एक छोटे पत्थरको हाथमें ले भिक्षुओंको संबोधित किया—

“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! ०^१ या हिमवान् पर्वतराज ?”

“मन्ते ! ०^१ कला भागको भी (यह) नहीं पहुँच सकता ० ।”

ऐसेही भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा (अपने) सात रत्नों और चार ऋद्धियोंसे युक्त होनेके कारण जो सुख सौमनस्य अनुभव करता है; दिव्य-सुखके मुकाबिलेमें उसकी गिनती भी नहीं हो सकती ०^१ ।

“(तब) वह पंडित भिक्षुओ ! कदाचित, कभी दीर्घ कालके बाद जब मनुष्य योनिमें आता है; तो जो वह आढ्य, महाधनी, महाभोग, बहुत सोने चाँदी बहुत-वित्त-उपकरणवाले, बहुत धन धान्यवाले ऊँचे कुल हैं—क्षत्रिय महाशालकुल । ब्राह्मण ०, या गृहपति (= वैश्य)-महाशालकुल, वैसे कुलोंमें उत्पन्न होता है । और वह अभिरूप = दर्शनीय प्रासादिक ०^२ होता है । अन्न-पान वस्त्र-यानका ०^३ लामी होता है । ०^३

“जैसे, भिक्षुओ ! जुआरी पहिलेही दावमें महान् मोग-स्कंध (= धनराशि)को पाजाये । भिक्षुओ ! यह कलिग्रह (= दाव, पाशा) स्वल्प-मात्र हैं;^१; उससे कहीं बड़ा कलिग्रह यह है, जो कि यह पंडित काय-वचन-मनसे सुचरित (= सुकर्म) करके, काया छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न होता है ।

“भिक्षुओ ! यह केवल परिपूर्ण पंडित-भूमि है ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

^१ देखो पृष्ठ ५३३ ।

^२ पृष्ठ ५३७ ।

^३ देखो पृष्ठ ५३५ उलट कर ।

१३०—देवदूत-सुत्तन्त (३३।१०)

नरक वर्णन

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—

“जैसे, भिक्षुओ ! (आसने-सामने) जुड़े दो घर हों; उनके बीचमें एका अर्धरात्राला पुरुष मनुष्योंको घरमें प्रवेश करते भी, निकलते भी, टहलते भी, विचरते भी, देखे । इन्ही प्रकार भिक्षुओ ! मैं भमानुप विगुद्ध दिव्य-चक्षुसे ०^१ नरकमें उत्पन्न हुये हूँ । उसे भिक्षुओ ! निरयपाल (= नरकपाल) अनेक याहोंसे पकडकर यमराजको दिखलाते हैं । तब यमराज प्रथम देवदूतके धारमें समनुयोग = सम्-अनुग्रहण समनुभाषण (= भाषण) करते हैं—‘हे पुरुष ! मनुष्योंमें क्या तूने प्रथम देवदूतको प्रकट हुआ नहीं देखा ?’—‘नहीं देखा, भन्ते !’ तब उमे भिक्षुओ ! यमराज यह कहते हैं—‘हे पुरुष ! क्या मनुष्योंमें तूने उतान (ही)सो सक्नेवाले, अपने मल-मूत्रमें लिपटे सोये, धयोध छोटे यच्चेको नहीं देखा ?’ वह ऐसा योलता है—‘देखा, भन्ते !’ तब भिक्षुओ ! उमे यमराज यह कहते हैं—‘हे पुरुष ! जानकार, वृद्ध होते हुये तुझे तब क्या यह नहीं हुआ—मैं भी जातिधर्मा (= जन्मनेके स्वभाववाला) हूँ’ जन्मनेसे परे नहीं हूँ । हन्त ! मैं काय-वचन-मनसे कल्याण (= अच्छा) कर्म करूँ ?’ वह ऐसा योलता है—‘नहीं कर सका भन्ते ! मैंने प्रमाद (= भूल) किया भन्ते !’ तब, भिक्षुओ ! उसे यमराज यह करते हैं—‘हे पुरुष ! प्रमादी होकर तूने काय-वचन-मनसे कल्याण कर्म नहीं किया; तो हे पुरुष ! तूने कैसा किया, कैसा प्रमाद किया । सो वह कर्म न माताने किया, न पिताने किया, न भाईने ० । न भगिनोने ०, न मित्र-भ्रमात्योने ०, न जात-यिरादरीवालोने ०, न श्रमण-ब्राह्मणोने, न देवताओंने किया; तूने ही इस पाप कर्मको किया; तूही उसके विपाकको भोगेगा ।’

‘तब, भिक्षुओ ! यमराज उसे प्रथम देवदूतके धारमें ० भाषण करके द्वितीय देवदूतके धारमें ० भाषण करते हैं—‘हे पुरुष ! मनुष्योंमें तूने द्वितीय देवदूतको प्रकट हुआ नहीं देखा ?’—‘नहीं देखा, भन्ते !’ तब उसे भिक्षुओ ! यमराज यह कहते हैं—‘हे पुरुष ! क्या तूने मनुष्योंमें नहीं देखा—टेंडे हों गये, दंड लेकर चलते, काँपते हुये चलते, आतुर, गत-शयन, टूटे दाँत, नपेद दाँत, इधर उधर हिलते-डुलते शिरवाले, धुरी पड़े, काले दाग (= तिलक) दगे शरीरवाले, टाँटे (=

^१ देखो पृष्ठ १५-१६ ।

गोपानसी)से वरु जीर्ण स्त्री या पुरुषको ? ० वह ऐसा बोलता है—‘देखा, भन्ते !’ तब उसे, भिक्षुओ ! यमराज यह कहते हैं—‘हे पुरुष ! तब जानकार वृद्ध होते हुये, तुझे क्या यह नहीं हुआ—मैं भी जरा-धर्मा (= बूढ़ा होनेवाला हूँ) जरासे परेका नहीं हूँ ।’ हन्त ! ० तू ही उसके विपाकको भोगेगा ।’

‘तब, भिक्षुओ ! यमराज उसे ० तृतीय देवदूतके द्वारमें ० भाषण करते हैं—‘हे पुरुष ! मनुष्योंमें तूने तृतीय देवदूतको प्रकट हुआ नहीं देखा ?’—‘नहीं देखा, भन्ते !’ तब उसे भिक्षुओ ! यमराज यह कहते हैं—‘हे पुरुष ! क्या तूने मनुष्योंमें नहीं देखा—अपने मल-मूत्रमें लिपटे सोये, दूसरों द्वारा उाठये जाते, दूसरों द्वारा सेवा किये जाते, बहुतही घीमार दुःखी स्त्री या पुरुषको ?’ ० । ‘हे पुरुष ! तब जानकर वृद्ध होते हुये तुझे क्या यह नहीं हुआ—मैं भी व्याधि-धर्मा हूँ, व्याधिसे परे नहीं हूँ ?’ हन्त ! ० तू ही उसके विपाकको भोगेगा ।

‘० चतुर्थ देवदूतके द्वारमें ० भाषण करते हैं—०।—‘हे पुरुष ! क्या तूने मनुष्योंमें नहीं देखा—राजा लोग चोर, आगलगानेवालेको पकड़कर नाना प्रकारके दंड (= कर्मकारणा) देते हैं—चाबुकसे भी मरवाते हैं ० । तलवारसे शीश कटवाते हैं ?’ ० । ० तुझे क्या यह नहीं हुआ—जो पाप कर्म करते हैं, वह इसी जन्ममें इस प्रकारसे नाना दंडोंको भोगते हैं ?’ हन्त ! ० तू ही उसके विपाकको भोगेगा ।

‘० पंचम देवदूतके द्वारमें ० भाषण करते हैं—० ‘हे पुरुष ! क्या तूने मनुष्योंमें नहीं देखा^१ फूले नीला पड़े या पीवभरे हो गये एक दिन दो दिन तीन दिनके मुर्देको ?’ ० । ० तुझे क्या यह नहीं हुआ—मैं भी मरण-धर्मा हूँ, मरणसे परे नहीं हूँ ?’ हन्त ! ० तू ही उसके विपाकको भोगेगा ।

‘तब, भिक्षुओ ! यमराज उस (पुरुष)से पंचम देवदूतके द्वारमें ० भाषणकर पुप हो गये । तब...उसे लेजाकर निरयपाल, पंच-विध-बंधननामक दंड (= कर्मकारणा) करते हैं—०^२ (आगसे) व्याप्त हो सर्वदा स्थित रहती है । भिक्षुओ ! उस महानिरय (= महानरक)के पूर्व दीवारसे उठी लौ (= अर्चि) पच्छिमकी दीवारसे टकराती है । पच्छिम दीवारसे उठी लौ पूर्वकी दीवारसे टकराती है । उत्तरी दीवारसे उठी लौ दक्खिनकी दीवारसे टकराती है; दक्खिनकी दीवारसे उठी लौ उत्तरकी दीवारसे टकराती है । नीचेसे उठी लौ ऊपरको टकराती है, ऊपरसे उठी लौ नीचेको टकराती है । वह वहाँ दुःखा, तीव्रा, खरा, कटुका, वेदना अनुभव करता है; किन्तु तब तक नहीं मरता, जब तक कि उसके पाप कर्मका अन्त नहीं हो जाता ।

‘भिक्षुओ ! ऐसा समय होता है, जब कदाचित् कभी दीर्घकालके बाद उस महानिरय^३ का पूर्वद्वार खुलता है, वह (प्राणी) उस ओर शीघ्र वेगसे दौड़ता है । शीघ्रसे दौड़ते वक्त उसकी छवि (= ऊपरी चमड़ा) भी दग्ध होती है, चर्म भी ०, मांस भी ०, स्नायु भी ०, अस्थि भी धुआँ देती है । ऐसेही वह (वहाँ) रहता है । जब भिक्षुओ ! उसे वहाँ प्राप्त हुये बहुत (काल) हो जाता है; तब वह द्वार बंद हो जाता है । वह वहाँ दुःखा ० ।

‘भिक्षुओ ! ऐसा समय होता है ० पश्चिमद्वार ० । ० उत्तरद्वार ० । ० दक्षिणद्वार ० ।

‘भिक्षुओ ऐसा समय होता है, जब (अन्तमें) कदाचित् ० उस महानिरयका पूर्वद्वार खुलता है, वह उस ओर शीघ्र वेगसे दौड़ता है । ० अस्थि भी धुआँ देती है । ऐसे ही वह (वहाँ) रहता है । (तब) वह उस द्वारसे निकलता है । भिक्षुओ ! उस महाद्वारके बाद, लगे हुये महान्

^१ देखो पृष्ठ ५४-५५ । ^२ देखो पृष्ठ ५३३ । ^३ इस नरकका नाम अ-चीचि भी है (अ.क.)

गूथ-निरय (= विद्याका नरक) है। वह वहाँ गिरता है। मिथुओ ! उस गूथनिरयमें सूची-मुख (= सुई जैसे तेज नोकके सुँहवाले) प्राणी (उसकी) छवि छेदते हैं, छविको छेदकर चर्मको छेदते हैं, ० मांसको ०, ० स्नायुको ०, ० अस्थिको ०, ० अस्थिमज्जाको ० । वह वहाँ दुःखा ० ।

“मिथुओ ! उस गूथ-निरयके पास लगा हुआ कुक्कुल-निरय है; वह वहाँ गिरता है। वह वहाँ दुःखा ० ।

“मिथुओ ! उस कुक्कुल-निरयके पास लगा हुआ, योजन भर ऊँचा महान् सिञ्चलि-वन है। वहाँ आदीस = ज्वलित आग हो गये दस अंगुल लम्बे काँटे हैं, उनपर (उसे) चढ़ते उतारते हैं। वह वहाँ दुःखा ० ।

“मिथुओ ! उस सिञ्चलि-वनके पास लगा हुआ, महान् असिपत्र-वन है। वह वहाँ प्रविष्ट होता है। हवासे प्रेरित पत्ते गिरकर हाथको भी काटते हैं, पैरको भी ०, हाथ-पैरको भी ०, कानको भी ०, नाकको भी ०, कान-नाकको भी ० । वह वहाँ दुःखा ० ।

“मिथुओ ! उस असिपत्रवनके पास लगी हुई क्षारोदका नदी (= खारे जलकी नदी) है। वह उसमें गिरता है। वहाँ वह धारकी ओर (= अनुसोत) भी यहता, उल्टी धार भी यहता है। वह वहाँ दुःखा, तीव्रा, खरा, कटुका, वेदना अनुभव करता है; किन्तु तप तक नहीं मरता, जब तक कि उसके पाप कर्मका अन्त नहीं हो जाता।

“तब, मिथुओ ! उसे निरय-पाल निकाल कर स्थलपर रख यह कहते हैं—‘हे पुरुष ! तू क्या चाहता है ?’ वह यह कहता है—‘भन्ते ! मैं मूखा हूँ’। तब उसे, मिथुओ ! निरयपाल आदीस ० तस लोहेके छड़ (= शंकु)से सुँहको फाड़कर, आदीस = प्रज्वलित = सज्योतिर्भूत आदीस ०, तस लोहकृतको सुँहमें डालते हैं। वह उसके ओठको भी दहता है, कंठको भी ०, उरको भी ०, अँतको भी ०, अँतडी (= अंतगुण)को भी लेते हुये अधोभागसे निकल जाता है। वह वहाँ दुःखा ० ।

“तब उसे मिथुओ ! निरयपाल (= यमदूत) यह कहते हैं—‘हे पुरुष ! तू क्या चाहता है ?’ वह यह कहता है—‘भन्ते ! मैं प्यासा हूँ’। तब उसे मिथुओ ! निरयपाल आदीस ० तस लोहेके छड़से सुँहको फाड़कर, आदीस ० तपे ताँबे (= ताम्रलोह)को सींचते हैं। ० अँतडीको लेते हुये अधोभागसे निकल जाता है। वह वहाँ दुःखा ० ।

“तब उसे, मिथुओ ! निरयपाल फिर महानिरयमें डालते हैं ।

“मिथुओ ! भूतपूर्व (= पूर्वकाल)में यमराजको ऐसा हुआ—‘लोकमें जो पाप = अकुशल कर्म करते हैं, वह इस प्रकारकी नाना यातनायें (= कर्मकारणा) पाते हैं। अहोयत ! मैं मनुष्यत्व-को प्राप्त होऊँ, और लोकमें तथागत अर्हत् सम्म्यक्-संशुद्ध उत्पन्न होवें, उन भगवान्का मैं सत्पंग (= पर्युपासन) करूँ, और वह भगवान् मुझे धर्मापदेश करें। उन भगवान्के धर्मको मैं समझूँ’। मिथुओ ! यह मैं किली दूसरे श्रमण ब्राह्मणसे सुनकर नहीं कह रहा हूँ; यत्कि जो मुझे स्वयं ज्ञात = दृष्ट = विदित है, उसीको कहता हूँ ।”

भगवान्ने यह कहा, यह कह कर सुगत, शास्ताने यह भी कहा—

“देवदूतसे प्रेरित होकर (भी)जो मनुष्य प्रमाद करते हैं ।

वह नर नीची योनि^१ में प्राप्त हो, दीर्घकाल तक शोक करेवे हैं ।

^१ काय = योनि ।

जो सन्त = सत्पुरुष यहाँ पर देवदूत द्वारा,
प्रेरित हो, आर्यधर्ममें कभी प्रमाद नहीं करते ।

जन्म-मरणके भव (सागर)में, और उपादानमें भय देख जन्म-मरणके क्षयसे उपादान
रहित हो विमुक्त होते हैं ।

वह क्षेमको प्राप्त, सुखी, इसी जन्ममें निर्वाण-प्राप्त,
सारे वैर और भयसे पार, सारे दुःखको पार हो गये ।

(१३-इति सुब्बता-वग्ग ३।३)

१३१—भद्रदेकरत्त-सुत्तन्त (३।४।१)

भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें लगे

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथर्षिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! ! तुम्हें भद्रैकरत्त (= अकेले अच्छेमें अनुरक्त)के उद्देश (= नाम-कथन), और विभंग (= विभाग)को उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा, मन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—

“अतीतका अनुगमन न करे, न भविष्यकी चिन्तामें पड़े ।

जो अतीत है, वह तो नष्ट हो गया, और भविष्य अभी आ नहीं पाया । (१) ।

वर्तमान जो धर्म (= बात है), (उसीको) तहाँ तहाँ देखे ।

जो असंहारी, असंकोपी^१ है, उसे विद्वान् यदावे ॥ (२) ॥

आज ही कर्त्तव्यमें जुड़ना चाहिये, कौन जानता है, कल मरण हो ।

महासेन मृत्युसे युद्ध करते हमारा (कोई निश्चय) नहीं है ॥ (३) ॥

रात दिन निरालस, उद्योगी हो इस प्रकार विहरनेवालेको ही ,

शान्त मुनि (जन) भद्रैक-रत्त कहते हैं ॥ (४) ॥

“कैसे, भिक्षुओ ! अतीतका अनुगमन करता है ?—‘अतीतकालमें मैं इस प्रकारके रूप-वाला था’—(सोच) उसमें नन्दी (= राग) लाता है । ‘० वेदनावाला ० । ‘० संज्ञा ० । ‘० संस्कार ० । ‘० विज्ञान ० । इस प्रकार, भिक्षुओ ! अतीतका अनुगमन करता है । कैसे, भिक्षुओ ! अतीतका अनुगमन नहीं करता ?—‘अतीतकालमें मैं इस प्रकारके रूपवाला था’—(सोच) उसमें नन्दी नहीं लाता । ‘० वेदनावाला ० । ‘० संज्ञा ० । ‘० संस्कार ० । ‘० विज्ञान ० । इस प्रकार, भिक्षुओ ! अतीतका अनुगमन नहीं करता ।

“कैसे भिक्षुओ ! भविष्य (= अनागत)की चिन्ता नहीं करता ?—‘भविष्यमें हम प्रकारके रूपवाला होऊँगा’—(सोच) उसमें नन्दी करता है । ‘० वेदना ० । ‘० संज्ञा ० । ‘० संस्कार ० । ‘० विज्ञान ० ! इस प्रकार भिक्षुओ ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता ।

^१ न दरनेवाला ।

“कैसे, भिक्षुओ ! प्रत्युत्पन्न (= वर्तमान, विद्यमान) धर्मोंमें आसक्त होता है ?—
यहाँ, भिक्षुओ ! आर्योंके दर्शनसे वंचित ०^१ अश्रुतवान्, पृथग्जन (= अनाड़ी), रूप
(= Matter)को आत्माके तौरपर या आत्माको रूपवान् (Material), आत्मामें रूपको
या रूपमें आत्माको देखता (= समझता) है। वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । ० विज्ञानको आत्माके
तौर पर, ० । इस प्रकार भिक्षुओ ! प्रत्युत्पन्न धर्मोंमें आसक्त होता है (= संहिरति) । कैसे, भिक्षुओ !
प्रत्युत्पन्न धर्मोंमें नहीं आसक्त होता ?—यहाँ भिक्षुओ ! आर्योंके दर्शनको प्राप्त ०^२ यहुश्रुत आर्य-
श्रावक, रूपको आत्माके तौरपर, या आत्माको रूपवान्, आत्मामें रूपको, या रूपमें आत्माको
नहीं देखता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । ० । विज्ञानको आत्माके तौरपर, या आत्माको
विज्ञानवान्; आत्मामें विज्ञानको, या रूपमें विज्ञानको नहीं देखता । इस प्रकार, भिक्षुओ !
प्रत्युत्पन्न धर्मोंमें नहीं आसक्त होता—

“अतीतका अनुगमन न करे ०^३

शान्त, मुनि (जन) भद्रैकरक्त कहते हैं ।

“भिक्षुओ ! जो मैंने कहा—“भिक्षुओ ! तुम्हें ० मद्देकरक्तके उद्देश और विभंगको उपदेशता
हूँ”; वह इसीके लिये कहा ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।

^१ देखो पृष्ठ ३ ।

^२ देखो पृष्ठ ७ ।

^३ देखो पृष्ठ ५४३ ।

१३२—आनन्द-भद्रैकरत्त-सुत्तन्त (३।४।२)

भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें लगे

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवत्तमें विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान् आनन्द, उपस्थान-शालामें भिक्षुओंको धार्मिक कथाद्वारा संदर्शित (= सुझाना) = समादरित, समुत्तेजित = संप्रहर्षित करते थे । भद्रैकरत्तके उद्देश और विभंगको कहते थे । तब भगवान् सायंकाल, ध्यानसे उठकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये । जाकर पिछे आसनपर बैठे । बैठकर भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! किसने (आज) उपस्थान-शालामें भिक्षुओंको धार्मिक कथा द्वारा ० समुत्तेजित किया । भद्रैकरत्तके उद्देश और विभंगको कहा ?”

“भन्ते ! आयुष्मान् आनन्दने उपस्थान-शालामें ० ।”

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

“कैसे, आनन्द ! तूने भिक्षुओंको ० समुत्तेजित ० किया, भद्रैकरत्तके उद्देश्य और विभंग को कहा—

भन्ते ! इस प्रकार मैंने भिक्षुओंको ० उद्देश और विभंगको कहा—

‘अतीतका अनुगमन न करे ०’

शान्त, मुनि (जन) भद्रैकरत्त कहते हैं ।

‘कैसे आबुसो ! अतीतका अनुगमन करता है ०’ भिक्षुओ ! प्रत्युत्पन्न धर्मोंमें नहीं आसक्त होता ।

‘अतीतका अनुगमन न करे ०’

शान्त, मुनि (जन) भद्रैकरत्त कहते हैं ।

‘इस प्रकार, भन्ते ! मैंने भिक्षुओंको ० समुत्तेजित ० किया । भद्रैकरत्तके उद्देश और विभंगको कहा ।’

‘साधु, साधु, आनन्द ! ठीक ही तूने, आनन्द ! भिक्षुओंको ० भद्रैकरत्तके उद्देश और विभंगको कहा ।—

‘अतीतका अनुगमन न करे ०’

शान्त, मुनि (जन) भद्रैकरत्त कहते हैं ।

०’ प्रत्युत्पन्न धर्मोंमें नहीं आसक्त होता । ‘अतीतका अनुगमन ०’ ।”

भगवान्ने यह कहा, संतुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान्के मापणको अभिनन्दित किया ।

१ देखो पृष्ठ ५४१ ।

२ देखो पृष्ठ ५४३-४४ ।

१३३—महाकचायन-भदेकरत्त-सुत्तन्त (३।४।३)

भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़, वर्तमानमें लगे (सविस्तर)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें तपोदाराममें^१ विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् समिद्धि रातको भिनसारमें उठकर जहाँ तपोदा थी, वहाँ स्नानके लिये गये । तपोदामें शरीरको पारिसिंचितकर निकलकर गात्रको सुखाते हुए, एक वस्त्र पहिने खड़े हुये । तब प्रकाशयुक्त रात्रिमें सारी तपोदाको प्रकाशित करता, कोई प्रकाशमान देवता जहाँ आयुष्मान् समिद्धि थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े उस देवताने आयुष्मान् समिद्धिको यह कहा—

“भिक्षु ! भदेकरत्तके उद्देश और विभंगको तुम धारण करते (= याद किये) हो ?”

“नहीं, आवुस ! मुझे याद (नहीं) है; भदेकरत्तके उद्देश और विभंग । और क्या, आवुस ! तुमको याद हैं ० ?”

“मुझे भी, भिक्षु ! याद नहीं हैं ० । क्या तुम्हें, भिक्षु ! भदेकरत्त की गाययें याद हैं ?”

“नहीं, आवुस ! मुझे याद (नहीं) हैं ०, क्या, आवुस ! तुमको याद हैं ० ?”

“मुझे भी, भिक्षु याद नहीं हैं ० । भिक्षु ! भदेकरत्तके उद्देश और विभंगको सीखो, ० पूरा करो, ० याद करो । भिक्षु ! भदेकरत्तके उद्देश और विभंग सार्थक हैं, आदि ब्रह्मचर्यक (= शुद्ध ब्रह्मचर्योपयोगी) हैं ।”

उस देवताने यह कहा । यह कह कर वहीं अन्तर्धान हो गया ।

तब आयुष्मान् समिद्धि उस रातके वीतनेपर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् समिद्धिने भगवान्से यह कहा—

“(आज), भन्ते ! मैं रातको भिनसारमें उठकर ०^२ यह कह कर वहीं अन्तर्धान हो गया । अच्छा हो, भन्ते ! भगवान् मुझे भदेकरत्तके उद्देश और विभंगका उपदेश करें ।”

“तो, भिक्षु ! सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भन्ते !” (कह) आयुष्मान् समिद्धिने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“०^३ अतीतका अनुगमन न करे ०^४ शान्त मुनि (जन) भदेकरत्त कहते हैं ।”

भगवान्ने यह कहा; यह कहकर सुगत आसनसे उठकर विहारमें चले गये । तब भगवान्के

^१ वैमारगिरिपर्वतके नीचे गर्म पानी (अ.क.) । ^२ ऊपरकी आवृत्ति । ^३ भूतकालके पीछे न दौड़े ।
^४ देखो पृष्ठ ५४३-४४ ।

चले जानेके थोड़े ही समय याद उन भिक्षुओंको यह हुआ—

“आबुसो ! भगवान् जो यह हमें संक्षेपसे उद्देश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना ही, आसनसे उठकर विहारमें चले गये—‘अतीतका ०’। कौन है, आबुसो ! जो भगवान्के इस संक्षेपसे उद्देश किये विस्तारसे न विभाजित कियेका विस्तारसे अर्थ-विभाग करे !”

तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—“यह आयुष्मान् महाकात्यायन शास्ता (= बुद्ध)से भी प्रशंसित, और विज्ञ सन्नद्धचारियोंसे भी संभावित हैं। आयुष्मान् महाकात्यायन भगवान्के इस ० विस्तारसे न विभाजित कियेका विस्तारसे अर्थ-विभाग कर सकते हैं। क्यों न हम, आबुसो ! जहाँ आयुष्मान् महाकात्यायन हैं, वहाँ चलकर आयुष्मान् महाकात्यायनसे इसका अर्थ पूछें !”

तब वह भिक्षु, जहाँ आयुष्मान् महाकात्यायन थे वहाँ गये; जाकर आयुष्मान् महाकात्यायनके साथ “संमोदनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने आयुष्मान् महाकात्यायनसे यह कहा—

“आबुस कात्यायन ! भगवान् यह संक्षेपसे उद्देश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना ही, आसनसे उठकर विहारमें चले गये—‘अतीतका ०’। ०। तब हमको यह हुआ—‘यह आयुष्मान् महाकात्यायन ० इसका अर्थ पूछें। विभाग करें आयुष्मान् महाकात्यायन !”

“जैसे, आबुसो ! (कोई) सार-अर्थी = सार-भैवेपी पुरुष सारको खोजते हुये, खड़े महान् सारवान् वृक्षके मूल और स्कंधको छोड़, शाखा और पत्रमें सार (= साल, लकड़ोका हीरा) दूँदना पसंद करे। इसी प्रकार इस समय शास्ताके संमुखीभूत (= विद्यमान) होते, उन भगवान्को छोड़, आयुष्मान् हमलोगोंको यह बात पूछना चाहते हैं। आबुसो ! वह भगवान् जानकार जानते हैं, देखनहार देखते (= समझते) हैं; चक्षुभूत (= आँख-समान), ज्ञानभूत, धर्मभूत, प्रज्ञभूत हैं; वक्ता, प्रवक्ता, अर्थके निर्णेत, अमृतके दाता, धर्म-स्वामी तथागत हैं। अथ यही काल था, कि उन भगवान्से ही यह बात पूछी जाये। जैसा भगवान् आपको यतलायें, वैसा इसे धारण (= याद) करना।”

“ठीक, आबुस कात्यायन ! भगवान् जानकार जानते हैं ० भगवान्से ही यह बात पूछी जाये। ० वैसा हम इसे धारण करें। किन्तु, आयुष्मान् महाकात्यायन भी शास्तासे प्रशंसित ० १ विस्तारसे अर्थ विभाग कर सकते हैं। भार न मानकर विभाग (= व्याख्यान), करें आयुष्मान् महाकात्यायन !”

“तो, आबुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ !”

“अच्छा, आबुस !” —(कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् महाकात्यायनको उच्चर दिया।

आयुष्मान्-महाकात्यायनने यह कहा—“आबुसो ! जो हमें भगवान्ने यह संक्षेपसे ० १ उठकर विहारमें चले गये—‘अतीतका ०’। आबुसो ! विस्तारसे अ-विभाजित भगवान्के इस संक्षेप भाषणका अर्थ मैं इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ—‘कैसे, आबुसो ! अतीतका अनुगमन करता है ?’—‘अतीत कालमें मेरा चक्षु इस प्रकारका था, रूप इस प्रकारका था’—यह (सोच) उसमें विज्ञान छन्द = राग प्रतिषद्ध होता है। विज्ञान (= चित्त)के छन्द = राग प्रतिषद्ध होनेसे, उसे अभिर्नदित (= स्वागत) करता है। उसका अभिर्नदन करते अतीतका अनुगमन करता है, ‘० मेरा श्रोत्र इस प्रकारका था, शब्द इस प्रकारका था’—०। ‘० मेरा प्राण ०, गंध ०’—०। ‘० मेरी जिह्वा ०, रस ०’—०। ‘० मेरी काया ०, स्पष्टव्य ०’—०। ‘० मेरा मन ०, धर्म ०’—०।

इस प्रकार, आवुसो ! अतीतका अनुगमन करता है । कैसे, आवुसो ! अतीतका अनुगमन नहीं करता ?—‘अतीत कालमें मेरा चक्षु इस प्रकारका था, रूप इस प्रकारका था’—यह (सोच) उसमें विज्ञान (= चित्त, मन) छन्द = रागसे प्रतिबद्ध नहीं होता । विज्ञानके ० प्रतिबद्ध न होनेसे, उसे अभिनंदित नहीं करता । उसका अभिनंदन न करनेसे अतीतका अनुगमन नहीं करता । ‘० श्रोत्र ०, शब्द ०—० । ० । ‘० मन ०, धर्म ०’—० । इस प्रकार आवुसो ! अतीतका अनुगमन नहीं करता ।

‘कैसे, आवुसो ! अनागतकी चिन्ता करता है ?—‘अनागत कालमें मेरा चक्षु इस प्रकारका हो, रूप इस प्रकारका’—यह (सोच) अ-प्राप्तकी प्राप्तिके लिये चित्तमें प्रणिधान (= आग्रह) करता है । चित्तके प्रणिधान द्वारा उसे अभिनंदित करता है । उसका अभिनंदन करते, अनागतकी चिन्ता करता है । ‘० श्रोत्र ०, शब्द ०’—० । ‘० घ्राण ०, गंध ०’—० । ‘० जिह्वा ०, रस ०’—० । ‘० काय ०, स्पृष्टव्य ०’—० । ‘० मन ०, धर्म ०’—० । इस प्रकार, आवुसो ! अनागतकी चिन्ता करता है । कैसे, आवुसो ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता ?—‘अनागत कालमें मेरा चक्षु इस प्रकारका हो, रूप इस प्रकारका’—यह (सोच) अ-प्राप्तकी प्राप्तिके लिये चित्तमें प्रणिधान नहीं करता । चित्तके प्रणिधानके न होनेसे उसे अभिनंदित नहीं करता । उसको अभिनंदन न करते, अनागतकी चिन्ता नहीं करता । ‘० श्रोत्र ०, शब्द ०’—० । ‘० घ्राण ०, गंध ०’—० । ‘० जिह्वा ०, रस ०’—० । ‘० काय ०, स्पृष्टव्य ०’—० । ‘० मन ०, धर्म’—० । इस प्रकार, आवुसो ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता ।

‘कैसे, आवुसो ! प्रत्युत्पन्न (= वर्तमान)-धर्मों (= पदार्थों)में आसक्त होता है ?—आवुसो ! जो चक्षु है, और जो रूप है, दोनों ही यह वर्तमान हैं । यदि उस वर्तमान (= विद्यमान) में विज्ञान (= चित्त) छन्द = रागसे प्रतिबद्ध होता है । विज्ञानके छन्द = राग प्रतिबद्ध होनेसे, उसे (= विद्यमान वस्तु को) अभिनंदित करता है । उसका अभिनंदन करते प्रत्युत्पन्न धर्मों (= पदार्थों)में आसक्त होता है । जो श्रोत्र है, और जो शब्द है ० । ० घ्राण ०, ० गंध ० । ० जिह्वा ०, ० रस ० । ० काय ०, ० स्पृष्टव्य ० । ० मन ०, ० धर्म ० । इस प्रकार, आवुसो ! प्रत्युत्पन्न धर्मोंमें आसक्त होता है । कैसे, आवुसो ! प्रत्युत्पन्न धर्मोंमें आसक्त नहीं होता ?—आवुसो ! जो चक्षु है, और जो रूप है, दोनों ही यह प्रत्युत्पन्न (= विद्यमान) हैं । यदि उस वर्तमानमें विज्ञान छन्द = रागसे प्रतिबद्ध नहीं होता । विज्ञानके छन्द = राग प्रतिबद्ध न होनेसे, उसे अभिनंदित नहीं करता । उसका अभिनंदन न करते प्रत्युत्पन्न धर्मोंमें आसक्त नहीं होता । ० श्रोत्र ०, ० शब्द ० । ० घ्राण ०, ० गंध ० । ० जिह्वा ०, ० रस ० । ० काय ०, ० स्पृष्टव्य ० । ० मन ०, ० धर्म ० । आवुसो ! इस प्रकार प्रत्युत्पन्न धर्मोंमें आसक्त नहीं होता ।

‘आवुसो ! जो हमें भगवान् ने यह संक्षेपसे ० ^१ उठकर विहारमें चले गये—‘अतीतका ०’ । आवुसो ! भगवान् के इस संक्षिप्त भाषणका अर्थ मैं इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ । इच्छा हो, तो तुम आयुष्मानो ! भगवान् के पास भी जाकर इस अर्थ (= यात)को पूछो; जैसा ! तुम्हें भगवान् बतलावें, वैसा धारण करो ।”

तब वह भिक्षु आयुष्मान् महाकात्यायनके भाषणको अभिनंदित = अनुमोदित कर, आसनसे उठ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने भगवान् से यह कहा—

“मन्ते ! भगवान् जो यह हमें ० विस्तारसे विभाग किये बिना ही आसनमे उठकर विदारने चले गये—‘अतीतका ०’ । तब भगवान्के चले जानेके थोड़ेही समय बाद हमें यह हुआ—०^१, तब हमको यह हुआ—०^१ । ० जहाँ आयुष्मान् महाकात्यायन थे, वहाँ गये । जाकर हमने आयुष्मान् महाकात्यायनसे इस अर्थ को पूछा । तब हमें आयुष्मान् महाकात्यायनने इस आकारसे, इन पदों (= वाक्यों)से, इन व्यंजनोंसे अर्थको विभाजित किया ।”

“मिश्रुओ ! महाकात्यायन पंडित है । मिश्रुओ ! महाकात्यायन महाप्रज्ञ है । मुझे भी, मिश्रुओ ! यदि तुम इस बातको पृच्छते; तो मैं भी इसका इसी प्रकार व्याख्यान करता, जैसा कि इसका महाकात्यायनने व्याख्यान किया । यही इसका अर्थ है, इसी प्रकार इन्ने धारण करना ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिश्रुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

१३४—लोमसकंगिय-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३।४।४)

भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़, वर्तमानमें लगे

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान् लोमसकंगिय (= लोमसक-अंगिक) शाक्य (देश)में, कपिल-वस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे । तब प्रकाशयुक्त रात्रिमें, सारे न्यग्रोधारामको प्रकाशित करता, प्रकाशमानवर्णवाला चन्दन देवपुत्र जहाँ आयुष्मान् लोमसकंगिय थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े चन्दन देवपुत्रने आयुष्मान् लोमसकंगियसे यह कहा—

“मिश्रु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग तुम्हें याद हैं ?”

“नहीं, आवुस ०^१ । क्या, आवुस ! तुमको याद हैं ० ?”

“मुझे भी, मिश्रु ! याद नहीं है ० । क्या तुम्हें, मिश्रु ! भद्देकरत्तकी गायार्थें याद हैं ?”

“नहीं, आवुस ! मुझे याद (नहीं) है ० । क्या, आवुस ! तुमको याद हैं ० ?

“हाँ, मिश्रु ! मुझे भद्देकरत्तकी गायार्थें याद हैं ।”

“कैसे, आवुस ! तुमने भद्देकरत्तकी गायार्थें याद कीं ?”

“मिश्रु ! एक समय भगवान् त्रयस्त्रिंश देव (लोक)में पारिच्छन्नक (वृक्ष)के नीचे पांडुकम्बल (= लाल दुशाले नामकी)-शिलापर विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने त्रायस्त्रिंश देवों को भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग कहे—‘अतीतका ०^२ भद्देकरत्त कहते हैं’ । मिश्रु ! इस प्रकार मैंने भद्देकरत्तकी गायार्थोंको याद किया । मिश्रु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगको सीखो ०^३ आदि-ब्रह्मचर्यक हैं ।”

चन्दन देवपुत्र यह कह कर वहीं अन्तर्धान हो गया ।

तब आयुष्मान् लोमसकंगिय उस रातके वीतनेपर, शयन-आसन सँभाल, पात्र-चीवरले, जिघर श्रावस्ती है, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते, जहाँ श्रावस्ती थी, जहाँ अनाथपिंडिकका आराम जेतवन था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् लोमसकंगियने भगवान्से यह कहा—

“मन्ते ! एक समय मैं शाक्य (देश)में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करता था । तब ० कोई देवपुत्र जहाँ मैं था वहाँ आया । आकर एक ओर खड़ा हुआ ०^४ मुझे यह बोला— ‘मिश्रु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग तुम्हें याद हैं ? ०^४ मिश्रु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग को सीखो ०^४ आदि-ब्रह्मचर्यक हैं ।’ ० मन्ते ! उस देवपुत्रने यह कहा, यह कहकर वहीं अन्तर्धान

^१ देखो पृष्ठ ५४७

^२ देखो पृष्ठ ५४३-४४ ।

^३ देखो पृष्ठ ५४६ ।

^४ देखो ऊपर ।

हो गया । अच्छा हो, भन्ते ! भगवान् मुझे भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगका उपदेश करें ।”

“क्या नू, भिक्षु ! उस देवपुत्रको जानता है ?”

“नहीं, भन्ते ! मैं उस देवपुत्रको (नहीं) जानता ।”

“भिक्षु ! वह चन्दन नामक देवपुत्र है । भिक्षु ! चन्दन देवपुत्र मन लगा कर सयको चित्त से समन्वाहरण (= ठीक) कर, कान लगा धर्मको सुनता है । तो, भिक्षु ! सुन अच्छी तरह मन में कर, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भन्ते !”—(कह) आयुष्मान् लोमसकंगियने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—

“अतीतका ०^१ भद्देकरत्त कहते हैं’ ।

“कैसे, भिक्षु ! अतीतका अनुगमन करता है ?—०^१ इस प्रकार, भिक्षु ! मृत्युत्पन्न धर्म में आसक्त नहीं होता ।—‘अतीतका ०^१ भद्देकरत्त कहते हैं’ ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् लोमसकंगियने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।



१३५—चूल-कम्मविभंग-सुत्तन्त (३।४।५)

कर्माका फल

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब तोदेव्यपुत्त शुभ माणव, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्के साथ...संमो-
दन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे ० शुभ माणवने भगवान्से यह कहा—

“भो गौतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है—मनुष्य ही होते, मनुष्य-रूपियोंमें हीनता, और प्रणीतता (= उच्चता, उत्तमता) दिखाई पड़ती है ? भो गौतम ! यहाँ मनुष्य अल्पायु देखनेमें आते हैं; दीर्घायु ०, बहु रोगी ०, अल्प रोगी (= अरोगी) ०, दुर्घर्ण (= कुरूप) ०, वर्णवान् ०, अ-समर्थ (= अल्पेशास्य) ०, महोशास्य (= महासमर्थी) ०, अल्प-भोग ० (= दरिद्र) ०, महा-भोग ०, नीचकुलीन ०, उच्चकुलीन ०, दुष्प्रज्ञ (= निर्धुद्धि) ०, प्रज्ञावान् ०, भो गौतम ! क्या हेतु है ० प्रणीतता दिखाई पड़ती है ?”

“माणव ! प्राणी कर्म-स्वक (= कर्म ही धन है, जिनका) हैं, कर्म-दायाद, कर्म-योनि, कर्म-वन्धु, कर्म-प्रतिशरण (= कर्म ही रक्षक है, जिनका) हैं । कर्म प्राणियोंको इस (हीन-प्रणीततामें) विभक्त करता है ।”

“इस आप गौतमके संक्षिप्तसे कही, विस्तारसे विमाजित न की गई दातका अर्थ में नहीं समझता । अच्छा हो, आप गौतम इस प्रकार धर्म-उपदेश करें, जिसमें कि आपकी इस संक्षिप्तसे कही ० दातका मैं विस्तारसे अर्थ जान जाऊँ ।”

“तो, माणव ! सुनो अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भो !”—(कह) ० शुभ माणवने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष प्राणातिपाती, रुद्र, लोहितपाणि (= खून रंगे हाथवाला), मार काटमें रत, सारे प्राणि = भूतोंके विषयमें अ-दयापन्न होता है । इस प्रकार गृहीत = इस प्रकार समादत्त उस कर्मसे काया छोड़ मरनेके बाद, अपाय = दुर्गति, त्रिनिपात, नरकमें उत्पन्न होता है । यदि मनुष्यत्व (= मनुष्य योनि) में आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है, अल्पायु होता है । माणव ! ० प्राणातिपाती (= हिंसक) हो निर्दयी हो विहरता—यह प्रतिपदा (= मार्ग) अल्पायुताकी ओर ले जानेवाली है । और यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष दंडरहित, शस्त्ररहित ०^१ दयापन्न प्राणातिपात छोड़, प्राणाति-पातसे विरत होता है, सर्वत्र सारे प्राणि = भूतोंका हित = अनुकम्पक हो विहरता है । वह

^१ देखो पृष्ठ १६९-७० ।

इस प्रकार गृहीत = इस प्रकार समाप्त उस कर्मसे काया छोड़ मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनिमें आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है, दीर्घायु होता है। माणव ! • प्राणातिपातसे विरत होना • दयापन्न होना—यह प्रतिपदा दीर्घायुताकी ओर ले जानेवाली है।

“यहाँ माणव ! कोई स्त्री या पुरुष हाय-डले-डंडे या शस्त्रसे प्राणियोंका मारनेवाला होता है, वह • उस कर्मसे काया छोड़ मरनेके बाद • नरकमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनिमें आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है; यदुरोगी होता है। माणव ! • • प्राणियोंका मारनेवाला होना—यह प्रतिपदा यदुरोगिताकी ओर ले जानेवाली है। और माणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष • प्राणियोंको मारनेवाला नहीं होता; वह • उस कर्मसे • स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य-योनिमें आता है, तो • निरोग (= अल्पाबाध) होता है। • यह प्रतिपदा अल्पाबाधताकी ओर ले जानेवाली है।

“यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष क्रोधो बहुत परेशान रहनेवाला (= उपायास-बहुल) होता, है—थोड़ा भी कहनेपर बुरा मान लेता है, कुपित होता है, द्रोह कर लेता है, कोप = द्वेष = अ-प्रत्यय प्रकट करता है। वह • उस कर्मसे • नरकमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनिमें आता है, तो • दुर्वर्ण (= कुरूप) होता है। •—यह प्रतिपदा दुर्वर्णताकी ओर •। किन्तु, माणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष • न क्रोधो है, न बहुत परेशान रहनेवाला—बहुत भी कहनेपर बुरा कहीं मानता, कुपित नहीं होता, द्रोह नहीं कर लेता, कोप • नहीं प्रकट करता। वह • उस कर्मसे • स्वर्गमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्ययोनिमें आता है, तो • प्रासादिक (= सुन्दर) होता है। •—यह प्रतिपदा प्रासादिकताकी ओर •।

“यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष ढाह करनेवाला होता है, दूसरेके लाभ, सत्कार, गुरु-कार, मानन = बंदन, पूजनमें, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या यौघता है। वह • इस कर्मसे • नरकमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य-योनिमें आता है, तो अल्पशाख्य होता है। •—यह प्रतिपदा अल्पशाख्यताकी ओर •। और, माणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष ढाह करनेवाला नहीं होता; दूसरेके लाभ • में ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं यौघता है। वह • इस कर्मसे • स्वर्गमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य-योनि में आता है, तो • महेशाख्य होता है। •—यह प्रतिपदा महेशाख्यकी ओर •।

“यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष श्रमण या ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला-गंध-विलेपन, शय्या, निवास स्थान, प्रदीप (आदि)का देनेवाला नहीं होता। वह • इस कर्मसे • नरकमें उत्पन्न होता है, यदि मनुष्य-योनि में आता है, तो • अल्प-भोग (= दरिद्र) होता है। •—यह प्रतिपदा अल्प-भोगताकी ओर •। और माणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष श्रमण या ब्राह्मणको अन्न-पान • का देनेवाला होता है। वह • इस कर्मसे • स्वर्गमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनिमें आता है, तो • महा-भोग (= धनी) होता है। •—यह प्रतिपदा महा-भोगता की ओर •।

“यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष स्तब्ध, अभिमानी होता है, अनिवादनीयको अभि-वादन नहीं करता, प्रत्युत्थातव्यका प्रत्युत्थान नहीं करता, आसनार्हको आसन नहीं देता, मार्गार्हके लिये मार्गको नहीं (छोड़) देता, सत्कर्तव्यका सत्कार नहीं करता, गुरुकर्तव्यका गुरुकार (= पूजा) नहीं करता, माननीयका मान नहीं करता, पूजनीयकी पूजा नहीं करता। वह • इस कर्मसे • नरकमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य-योनिमें आता है, तो • नीचकुलीन होता है।

०—यह प्रतिपदा भी नीचकुलीनताकी ओर ० । और, माणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष अ-सन्ध, अन्-अभिमानी होता है; अभिवादनीयको अभिवादन करता है, ० प्रत्युत्थान करता है, ० आसन देता है, ० मार्ग देता है, ० सत्कार करता है, ० गुरुकार करता है, ० मान करता है, ० पूजा करता है । वह ० इस कर्मसे ० स्वर्गमें उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य-योनिमें आता है, तो ० उच्चकुलीन होता है । ०—यह प्रतिपदा उच्चकुलीनताकी ओर ० ।

“यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष श्रमण या ब्राह्मणके पास जाकर नहीं पूछनेवाला होता—भन्ते ! क्या कुशल (= अच्छा) है, क्या अकुशल है ? क्या सावद्य (= स-दोष) है, क्या निरवद्य (= निर्दोष) ? क्या सेवितव्य है, क्या नहीं सेवितव्य है ? क्या मेरा करना दीर्घकाल तक अहित = दुःखके लिये होगा; और क्या मेरा करना दीर्घकाल तक हित = सुखके लिये होगा ? वह ० इस कर्मसे ० नरकमें उत्पन्न होता है, यदि मनुष्य-योनिमें आता है, तो ० दुष्प्रज्ञ होता है । ०—यह प्रतिपदा दुष्प्रज्ञताकी ओर ० । और, माणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष श्रमण या ब्राह्मणके पास जाकर पूछनेवाला होता है—भन्ते ! क्या कुशल है ० दीर्घकाल तक हित = सुखके लिये होगा ? वह ० इस कर्म से ० स्वर्गमें उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य-योनिमें आता है, तो महाप्रज्ञ होता है । ०—यह प्रतिपदा महाप्रज्ञताकी ओर ० ।

“इस प्रकार, माणव ! अल्पायुताकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (= मार्ग) अल्पायु-त्वमें पहुँचती है । दीर्घायुता ० । बह्वायाधता (= यहुरोगीपन) ० । अल्पायाधता ० । दुर्बर्णता ० । प्रासादिकता ० । अल्पेशाख्यता ० । महेशाख्यता ० । अल्पभोगता ० । महा-भोगता ० । नीच-कुलीनता ० । उच्चकुलीनता ० । दुष्प्रज्ञता ० । महाप्रज्ञता ० ।

“माणव ! प्राणी कर्मस्वक हैं ० । कर्म प्राणियोंको इस हीन-प्रणीततामें विभक्त करता है ।”

ऐसा कहनेपर तोदेय्यपुत्र शुभ (= सुभ) माणवने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे औधेको सीधा करदे ०^१ आप गौतम आजसे मुझे अंजलिवद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार (= धारण) करें ।”

१३६—महा-कम्म-विभंग-सुत्तन्त (३।४।६)

कर्मोका फल

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान् समिद्धि (= समृद्धि) जंगलकी कुटियामें विहार करते थे । तब पोटलि-पुत्र परिव्राजक जंघाविहार (= टहलने) के लिये टहलते विचरते, जहाँ आयुष्मान् समिद्धि थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् समिद्धिके साथ ‘‘संनोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे पोटलि-पुत्र परिव्राजकने आयुष्मान् समिद्धिसे यह कहा—

‘‘आवुस समिद्धि ! मैंने इसे श्रमण गौतमके सुखने सुना है, सुखसे ग्रहण किया है—‘भोघ (= निष्फल) है कायिक कर्म, भोघ है वाचिक-कर्म, मानस कर्म ही सब है । क्या ऐसी (कोइ) समापत्ति (= समाधि) है, जिस समापत्तिको प्राप्त कर कुछ नहीं वेदन (= अनुभव) करता ।’’

‘‘आवुस पोटलिपुत्त ! मत ऐसा कहो, आवुस पोटलिपुत्त ! मत ऐसा कहो । मत भगवान्-पर झूठ लगाओ (= अभ्याख्यान करो), भगवान्-पर झूठ लगाना अच्छा नहीं । भगवान् ऐसा नहीं कह सकते—‘भोघ है कायिक कर्म ० मानसकर्म ही सब है ।’ और आवुस ! है ऐसी समापत्ति, जिस समापत्तिको प्राप्त कर कुछ नहीं वेदन करता ।’’

‘‘आवुस समिद्धि ! कितने चिरसे प्रव्रजित हुये ?’’

‘‘कुछ चिर नहीं, आवुस ! तीन वर्ष (हुये) ।’’

‘‘यहाँ, हम स्थविर (= वृद्ध) भिक्षुओको क्या कहेंगे, जय कि (एक) नया भिक्षु इस प्रकार (अपने) शास्ता (= गुरु) परि-रक्षा करनेको तैयार है । आवुस समिद्धि ! जानते हुये काय-वचन-मनसे कर्म करके क्या संवेदन करता है ?’’

‘‘आवुस पोटलिपुत्त ! जानते हुये काय-वचन-मनसे कर्म करके वह दुःख संवेदन करता है ।’’

तब पोटलिपुत्त परिव्राजकने आयुष्मान् समिद्धिके भाषणको न अभिनन्दित किया, न प्रतिक्रोशित (= निन्दित) किया । बिना अभिनन्दित-प्रतिक्रोशित किये आसनसे उठकर चला गया ।

तब आयुष्मान् समिद्धि, पोटलि-पुत्त परिव्राजकके चले जानेके थोड़ीही देर बाद, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दके साथ ‘‘संनोदन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् समिद्धिने जो कुछ पोटलिपुत्त परिव्राजकके साथ क्यासंलाप हुआ था, वह सब आयुष्मान् आनन्दको कह सुनाया । ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने आयुष्मान् समिद्धिसे यह कहा—

‘‘आवुस समिद्धि ! भगवान्के दर्शनके लिये यह क्या (रूपी) मठ है, चलो आयुष समिद्धि ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ चलें । चल कर इस अर्थ (= यात)को भगवान्से पढ़ेंगे, जैसे

हमें भगवान् घतलायेंगे, वैसा उसे धारण करेंगे ।”

“अच्छा, आवुस !” (कह) आयुष्मान् समिद्धिने आयुष्मान् आनंदको उत्तर दिया ।

तय आयुष्मान् आनंद और आयुष्मान् समिद्धि जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनंदने जो कुछ आयुष्मान् समिद्धिका पोतलिपुत्त परिव्राजकके साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब भगवान्को कह सुनाया, ऐसा कहनेपर भगवान्ने आयुष्मान् आनंदसे यह कहा—

“आनन्द ! पोतलिपुत्त परिव्राजकको देखनेकी भी बात मुझे मालूम नहीं है, कहाँसे इस तरहका कथा संलाप होगा ? आनन्द ! इस मोघपुरूप समिद्धिने पोतलिपुत्त परिव्राजकको विभाग करके उत्तर देने लायक प्रश्नका एकादशसे उत्तर दिया ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् उदायीने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! आयुष्मान् समिद्धिने क्या ख्याल करके यह कहा—जो कुछ वेदन (= अनुभव) है, वह दुःख-विषयक है ?”

तय भगवान्ने आयुष्मान् आनंदको सम्बोधित किया—“आनन्द ! देख रहे हो, तुम इस मोघ पुरूप उदायीके उर्मंगको । आनंद ! मैंने इसी वक्त जान लिया कि यह मोघपुरूप उदायी डुयकी लगाते हुये अयोनिशः (= मूलपर बिना ध्यान दिये) डुयकी लगायेगा । आनन्द ! आराममें ही पोतलिपुत्त परिव्राजकने तीन वेदनायें पूँछी; और आनन्द ! इस मोघपुरूप समिद्धिको पोतलिपुत्त परिव्राजकके वैसा पूछनेपर ऐसा उत्तर देना चाहिये था—‘आवुस पोतलिपुत्त ! जानते हुये काय-वचन-मनसे कर्म करके सुखवेदनीय (= जिसका अनुभव सुखमय है) सुखको वह अनुभव करेगा । आवुस ! पोतलिपुत्त ! जानते हुये काय-वचन-मनसे कर्म करके दुःखवेदनीय दुःखको वह अनुभव करेगा । ० कर्म करके अदुःख-असुख-वेदनीय अदुःख-असुखको वह अनुभव करेगा । आनन्द ! इस प्रकार पोतलिपुत्त परिव्राजकको उत्तर देकर मोघपुरूप समिद्धि ठीकसे उत्तर देता । और आनन्द ! कोई कोई अन्यतीर्थिक परिव्राजक वाल (= अज्ञ) = अ-व्यक्त हैं, कोई कोई तथागतके महाकर्म-विभंग^१को जानेंगे । क्या, आनन्द ! तुम सुनोगे, तथागतको महाकर्मविभंग विभाजित करते ?”

“इसीका भगवान् काल है, इसीका सुगत काल है; कि भगवान् महाकर्मविभंग विभाजित करें । भगवान्से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।”

“तो, आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भन्ते !” (कह) आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“आनन्द ! लोकमें चार (प्रकारके) पुद्गल (= पुरूप) विद्यमान हैं । कौनसे चार ?—यहाँ, आनन्द ! कोई पुद्गल हिंसक होता है, चोर, व्यभिचारी, झूठा, चुगुलखोर, कटुभापी, प्रलापी, अभिघ्यालु (= लोभी), व्यापाद (= द्रोह)-युक्त-चित्तवाला, निव्या-दृष्टि होता है; वह काया छोड़ सरनेके याद अपाय = दुर्गति, विनिपात, नरकमें उत्पन्न होता है । और यहाँ आनन्द ! कोई पुद्गल हिंसक ०^१ मिध्यादृष्टि होता है; (किन्तु) वह काया छोड़ सरनेके याद सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है । और यहाँ आनन्द ! कोई पुद्गल अहिंसक, अ-चोर, अ-व्यभिचारी, झूठा नहीं, चुगुलखोर-नहीं, कटुभापी-नहीं, प्रलापी-नहीं, अन्-अभिघ्यालु, अ-व्यापद-चित्त, सन्यग्-दृष्टि होता है; वह काया छोड़ सरनेके याद सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता

^१ देखो चूड-कम्मविभंग सुत्तन्त भी (५५२-५४ पृष्ठ)

है । और यहाँ आनन्द ! कोई पुद्गल अ-हिंसक ० सम्यग्-दृष्टि होता है; (किन्तु) वह काया छोड़ मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है ।

(१) “यहाँ, आनन्द ! कोई श्रमण या ब्राह्मण आतप्य = उद्योग, अप्रसाद (= गफलत-वगैर), और अच्छी तरह मनमें करनेसे युक्त हो, इस प्रकारकी चेतः समाधि (= चित्तकी एकाग्रता)को प्राप्त होता है; कि जिस चित्तकी समाधिके कारण अमानुष विग्रह दिव्य चक्षुसे उस पुद्गलको देखता है ।—वह देखता है—यह पुद्गल हिंसक ० मिथ्या दृष्टि था, वह (भय) काया छोड़ मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न हुआ है । वह (समाधि-प्राप्त पुरुष) ऐसे कहता है—पाप कर्म हैं, दुश्चरित (= पाप कर्म)का विपाक भी है । और हमने (ऐसे) पुद्गलको देखा है—कोई पुरुष यहाँ हिंसक ० मिथ्या-दृष्टि था, वह काया छोड़ मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न हुआ । वह यह (भी) कहता है—जो कोई हिंसक ० मिथ्या-दृष्टि होता है, वह सारे ही ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होते हैं । जो ऐसे जानते हैं, वही ठीक जानते हैं । जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या है । इस प्रकार उसे जो स्वयं ज्ञान, स्वयं दृष्ट, स्वयं विदित है, उसे वह दृढ़तासे पकड़ कर, आग्रह करके आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है—यही सच है, और सय मिथ्या (= भोग) है ।

(२) “और यहाँ, आनन्द ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ० उद्योग ० से युक्त हो ० चित्तकी समाधिके कारण ० दिव्य-चक्षुसे ० देखता है—यह पुद्गल हिंसक ० मिथ्या दृष्टि था, वह भय ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है—‘नहीं है पापकर्म, नहीं है दुश्चरित का विपाक’; हमने ऐसे पुद्गलको देखा है—स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है—जो (कोई) हिंसक ० मिथ्या-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है । जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं ० और सय मिथ्या है ।

(३) “और यहाँ, आनन्द ! ० दिव्य-चक्षुसे ० देखता है—यह पुद्गल अ-हिंसक ० सम्यग्-दृष्टि था, वह (भय) ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है—है पुण्य-कर्म, है सुचरितका विपाक; हमने ऐसे पुद्गल को देखा है—० स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है वह ऐसा कहता है—जो (कोई) अ-हिंसक ० सम्यग्-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है । जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं ० और सय मिथ्या है ।

(४) “और यहाँ, आनन्द ! ० दिव्य-चक्षुसे ० देखता है—यह पुद्गल अ-हिंसक ० सम्यग्-दृष्टि था; वह (भय) ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है—नहीं है पुण्य-कर्म, नहीं है सुचरितका विपाक; हमने ऐसे पुद्गलको देखा है—० नरकमें उत्पन्न हुआ है—यह ऐसा कहता है—जो (कोई) अ-हिंसक ० सम्यग्-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं ० और सय मिथ्या है ।

(५) “वहाँ, आनन्द ! जो श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है—‘पाप कर्म हैं, दुश्चरितका विपाक है’—उसकी इस यातसे मैं सहमत हूँ । और जो कि वह यह कहता है—‘मैंने ऐसा पुद्गल देखा है; ० हिंसक ० मिथ्या दृष्टि था, वह (भय) स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ । ०—जो ० मिथ्यादृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है’—उसकी इस यातसे मैं सहमत नहीं हूँ । और जो वह यह कहता है—‘जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या है’—उसकी इस यातसे भी मैं सहमत नहीं । और जो कि—‘जो उसे स्वयं ज्ञात ० वह ० आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है—यही सच है, और सय मिथ्या’—उसकी इस यातसे भी मैं सहमत नहीं । सो किस हेतु ?—आनन्द ! महाकर्म-विभंग

(= कर्मके फलोंके विभाजन करने)के विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह है ।

(२) “वहाँ, आनन्द ! जो वह श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है—‘नहीं है पाप कर्म ०, नहीं है दुःखचरितका विपाक’—उसकी इस बातसे मैं सहमत नहीं । और जो कि वह यह कहता है—‘हमने ऐसे पुद्गलको देखा है ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है’—० मैं सहमत नहीं । ०—जो ० मिथ्यादृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है’—० सहमत नहीं । और जो कि वह यह कहता है—‘जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या है’—० मैं सहमत नहीं । और जो कि—‘जो उसे स्वयं ज्ञात ० वह आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है—‘यही सच है, और सब मिथ्या’—उसकी इस बात से भी मैं सहमत नहीं । सो किस हेतु ?—आनन्द ! महाकर्म-विभंगके विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह होता है ।

(३) “वहाँ, आनन्द ! जो वह श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है—‘हैं पुण्य कर्म, है सुचरित का विपाक’—उसकी इस बातसे मैं सहमत हूँ । और जो कि वह यह कहता है—‘हमने ऐसे पुद्गल को देखा है ० स्वर्गलोक में उत्पन्न हुआ है’—० मैं सहमत हूँ । ०—जो ० सम्यग्-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है’—० मैं सहमत हूँ । जो कि वह यह कहता है—‘जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या है’—० मैं सहमत नहीं । और जो कि—‘जो उसे स्वयं ज्ञात ० वह आग्रह के साथ उसका व्यवहार करता है—‘यही सच है, और सब मिथ्या’—उसकी इस बातसे भी मैं सहमत नहीं । सो किस हेतु ?—आनन्द ! महाकर्म-विभंगके विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह है ।

(४) “वहाँ, आनन्द ! जो वह श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है—‘नहीं हैं पुण्य कर्म, नहीं है सुचरितका विपाक’—० मैं सहमत नहीं हूँ । ०—‘हमने ऐसे पुद्गलको देखा है ० नरक में उत्पन्न हुआ है’—० मैं सहमत नहीं हूँ । ०—जो ० सम्यग्-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है’—० मैं सहमत नहीं । ०—‘जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या है’—० मैं सहमत नहीं । और जो कि—‘जो उसे स्वयं ज्ञात ० वह आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है—‘यही सच है, और सब मिथ्या’—० मैं सहमत नहीं । सो किस हेतु ?—आनन्द ! महाकर्म-विभंगके विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह है ।

(१) “आनन्द ! जो वह पुद्गल हिंसक ० मिथ्यादृष्टि होता है, ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है; तो उस दुःखवेदनीय (= जिसका अनुभव दुःखमय होगा) पाप कर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है; या ० पीछे कर लिया होता है; या मरणकालमें उसने मिथ्यादृष्टि ग्रहण = समादिन्न की होती है; इसलिये वह ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । और जो कि वह यहाँ हिंसक ० मिथ्यादृष्टि होता है, उसका विपाक वह (या तो) इसी जन्ममें भोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार ।

(२) “आनन्द ! जो वह पुद्गल हिंसक ० मिथ्यादृष्टि होता है, ० मरनेके बाद ० स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न होता है; तो उस सुखवेदनीय पुण्यकर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है, या ० पीछे कर लिया होता है; या मरणकालमें उसने सम्यग्-दृष्टि ग्रहण ० की होती है; इसलिये ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है । और जो कि वह यहाँ हिंसक ० मिथ्यादृष्टि होता है, उसका विपाक वह (या तो) इसी जन्ममें भोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार भोगेगा ।

(३) “आनंद ! जो वह पुद्गल अहिंसक ० सम्यग्-दृष्टि होता है, ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है; तो ० पुण्यकर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है, या ० पीछे कर लिया होता है, या मरणकालमें उसने सम्यग् दृष्टि ग्रहण ० की होती है; इसलिये ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है । और जो कि वह यहाँ अ-हिंसक ० सम्यग्-दृष्टि होता है, उसका विपाक वह (या तो) इसी जन्ममें भोगता है, या उत्पन्न होकर दूसरी धार ।

(४) “आनंद ! जो वह पुद्गल अहिंसक ० सम्यग्-दृष्टि होता है, ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है; तो ० पापकर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है, या ० पीछे कर लिया होता है; या मरणकालमें उसने मिथ्यादृष्टि ग्रहण ० की होती है; इसलिये ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । और जो कि वह यहाँ अ-हिंसक ० सम्यग्-दृष्टि होता है, उसका विपाक वह (या तो) इसी जन्ममें भोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी धार ।

“इस प्रकार, आनंद ! (१) अ-भव्य-आभास (बुरेकी तरह दिखाई पड़नेवाले) अ-भव्य (= बुरे, पाप) कर्म हैं; (२) भव्याभास भी अ-भव्य कर्म हैं; (३) भव्याभास भी भव्य कर्म हैं; (४) अ-भव्याभास भी भव्यकर्म हैं ।”

भगवान् ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनंदने भगवान् के भाषणको अभिनन्दित किया ।

१३७—सळायतन-विभंग-सुत्तन्त (३।४।७)

छः आयतन । कामना और निष्कामना । स्मृति-प्रस्थान

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनार्थपिंडिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे ।

वहाँ, भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” कह उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! तुम्हें सळायतन-विभंग (= छः आयतनोंका विभाग) उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा, मन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! छः आध्यात्मिक (शरीरके भीतरके) आयतनोंको जानना चाहिये, छः बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये । छः विज्ञान-कार्योंको जानना चाहिये । छः स्पर्श^१-कार्योंको जानना चाहिये । अठारह मनोपविचारों (= मन-उपविचारों)को जानना चाहिये । छत्तीस सप्तपदोंको जानना चाहिये । वहाँ—‘इसके द्वारा इसे छोड़ो’ । तीन स्मृति-प्रस्थान, जिन्हें आर्य ० (मुक्त, मोक्षमागी पुरुष) सेवन करते हैं; जिन्हें सेवन करते आर्य शास्ता, गण (= अनुयायि-समुदाय)को अनुशासन (= उपदेश) कर सकता है । वह (ऐसा शास्ता) युग्याचार्यों^२में अनुपम पुरुष-दस्य-सारथी (पुरुषोंको विनय सिखलानेवाला चाबुक-सवार) कहा जाता है ।

“यह पढायतन-विभंगका उद्देश (प्रतिपाद्य विषयोंका नाम गिनना) है ।

“जो यह कहा—‘छः आध्यात्मिक आयतनों (= इन्द्रियोंको) जानना चाहिये’—यह किसके वारेमें कहा ?—(१) चक्षु-आयतन, (२) श्रोत्र-आयतन, (३) घ्राण-आयतन, (४) जिह्वा-आयतन, (५) काय-आयतन, और (६) मन-आयतन, ० वह इन्हींके वारेमें कहा । जो यह कहा—‘छः बाह्य आयतनों (= विषयों)को जानना चाहिये’—यह किसके वारेमें कहा ?—(१) रूप आयतन, (२) शब्द ०, (३) गंध ०, (४) रस ०, (५) स्प्रष्टव्य ०, और (६) धर्म-आयतन । ० वह इन्हींके वारेमें कहा । जो यह कहा—‘छः विज्ञान (= इन्द्रिय-विषय के योगसे प्राप्त ज्ञान) कार्योंको जानना चाहिये’—यह किसके वारेमें कहा ?—(१) चक्षु-विज्ञान, (२) श्रोत्र ०, (३) घ्राण ०, (४) जिह्वा ०, (५) काय ०, और (६) मनो-विज्ञान । ० वह इन्हींके वारेमें कहा । जो यह कहा—‘छः स्पर्श-कार्योंको जानना

^१ इन्द्रिय और विषयके संपर्कको स्पर्श या संस्पर्श कहते हैं ।

^२ वादनोंको चलानेमें पादित ।

चाहिये'—यह किसके दारमें कहा ?—(१) चक्षुः-संस्पर्श, (२) श्रोत्र ०, (३) घ्राण ०, (४) जिह्वा ०, (५) काय ०, और (६) मनः-संस्पर्श । ० वह इन्हींके दारमें कहा । जो यह कहा—'अठारह मनोप विचारों'को जानना चाहिये'—यह किसके दारमें कहा ?—(१) चक्षुसे रूपको देखकर रूपको सौमनस्य-स्थानीय^१ उपविचारता (= विचारता) है; (२) दौर्मनस्य^२ स्थानीय उपविचारता है; (३) उपेक्षा^३ स्थानीय उपविचारता है । (४-६) श्रोत्रसे शब्दको सुनकर ० । (७-९) घ्राणसे गंधको सूँघ कर ० । (१०-१२) जिह्वासे रसको चखकर ० । (१३-१५) काया से स्प्रष्टव्यको छू कर ० । (१६-१८) मनसे धर्मको जानकर ० । इस प्रकार छः सौमनस्यके उप-विचार, छः दौर्मनस्यके उपविचार, और छः उपेक्षाके उपविचार—इन अठारह मनोपविचारोंको जानना चाहिये—यह जो कहा, वह इन्हींके दारमें कहा । "जो यह कहा—'छत्तीस सप्तपदोंको जानना चाहिये'—यह किसके दारमें कहा ? (१-६) गेध (लोम) सम्यन्धी सौमनस्य, (७-१२) निष्कामता संयन्धी सौमनस्य, (१३-१८) छः गेध-सम्यन्धी दौर्मनस्य, (१९-२४) छः निष्कामता संयन्धी-दौर्मनस्य, (२५-३०) छः गेध-संबंधी उपेक्षा, (३१-३६) छः निष्कामता-संबंधी उपेक्षा ।

"कौन हैं गेध-संबंधी सौमनस्य ?—(१) इष्ट = फान्त = मनाप = मनोरम लोकाभिप (= लौकिक भोग)से संयद्ध चक्षु (- द्वारा) विज्ञेय रूपोंके लाभको लाभके तौरपर समझने; या अतीत = निरुद्ध (= नष्ट), विपरिणत (= विकार-प्राप्त) (० रूपोंके) पहिले प्राप्त लाभको; लाभके तौरपर स्मरण करते । सौमनस्य उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका सौमनस्य है; वह गेध-संबंधी (= गेह-सित, गेध-संयद्ध) सौमनस्य कहा जाता है । (२) ० श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंके लाभको ० । (३) ० घ्राण-विज्ञेय गंधोंके लाभको ० । (४) ० जिह्वा-विज्ञेय रसोंके लाभको ० । (५) ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्योंके लाभको ० । (६) ० मनो-विज्ञेय धर्मोंके लाभको ० यह कहा जाता है गेध-संबंधी (गेह-सित) सौमनस्य । यह छः गेध-संबंधी सौमनस्य हैं ।

"क्या हैं छः निष्कामता संबंधी सौमनस्य ?—(७) रूपोंकी अनित्यता, विपरिणाम, निरोध, विरागको जानकर—(जो) पूर्व (काल)के रूप थे, और जो इस समय हैं, वह मनी रूप अनित्य, दुःख, विपरिणाम धर्मा (= विकृत होनेवाले) हैं—इस प्रकार इसे अच्छी तरह प्रशाने देखते सौमनस्य उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका सौमनस्य है; वह निष्कामता-संबंधी (= नेस्तरम्म-सित) सौमनस्य कहा जाता है । (८) शब्दोंकी अनित्यता ० (९) गंधोंकी अनित्यता ० । (१०) रसोंकी अनित्यता ० । (११) स्प्रष्टव्योंकी अनित्यता ० । (१२) धर्मोंकी अनित्यता ० यह कहा जाता है, निष्कामता-संबंधी सौमनस्य ।—यह छः निष्कामता-संबंधी सौमनस्य हैं ।

"क्या हैं, छः गेध-संबंधी दौर्मनस्य ?—(१३) इष्ट ० रूपोंके अलाभको अलाभके तौरपर समझते, या अतीत ० (० रूपोंके) पहिले अलाभको अ-लाभके तौरपर स्मरण करते दौर्मनस्य (= खेद) उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका दौर्मनस्य है; वह गेध-संबंधी दौर्मनस्य कहा जाता है । (१४) इष्ट ० शब्दोंके अलाभको ० । (१५) इष्ट ० गंधोंके अलाभको ० । (१६) इष्ट ० रसोंके अलाभको ० । (१७) इष्ट ० स्प्रष्टव्योंके अ-लाभको ० । (१८) इष्ट ० धर्मोंके अ-लाभको ० । यह कहा जाता है, गेध-संबंधी दौर्मनस्य ।—यह छः गेध-संबंधी दौर्मनस्य हैं ।

^१ सौमनस्य आदि लानेवाले अनुभवपर मनकी क्रिया ।

^२ जिस स्थानसे सौमनस्य (= आनंदसे निश्चित मनकी अवस्था) प्राप्त होता है ।

^३ दुःखमय अनुभवसे मनकी अवस्था ।

^४ न. दुःखमय न सुखमय अनुभवसे मनकी अवस्था ।

“क्या हैं, छः निष्कामता-संबंधी दौर्मनस्य ?—(१९) रूपोंकी अ-नित्यता ० को जान कर ० अच्छी तरह प्रज्ञासे देख, अनुपम विमोक्षोंमें स्पृहा उपस्थापित करता है—‘अहो ! कब मैं उस अवस्थाको (= आयतन)को प्राप्त हो विहरूँगा, जिस आयतनको प्राप्त कर आज आर्य (लोग) विहर रहे हैं’—इस प्रकार अनुपम विमोक्षोंमें स्पृहा उपस्थापित करते, स्पृहाके कारण दौर्मनस्य (= चेद) उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका दौर्मनस्य है, यह कहा जाता है, निष्कामता संबंधी दौर्मनस्य । (२०) शब्दोंकी अनित्यता ० । (२१) गंधोंकी अनित्यता ० । (२२) रसोंकी अनित्यता ० । (२३) स्प्रष्टव्योंकी अ-नित्यता ० । (२४) धर्मोंकी अ-नित्यता ० । यह कहा जाता है, निष्कामता-संबंधी दौर्मनस्य ।—यह छः निष्कामता-संबंधी दौर्मनस्य हैं ।

“क्या हैं, छः गोध-संबद्ध उपेक्षायें ?—(२५) मूढ़, मन्द, पृथग्जन (= अनाडी), वद, (कर्म-) विपाकको-न-जीते, दुष्परिणाम-अ-दर्शी, अज्ञ, अनाडी=वालको चक्षुसे रूप देख कर उपेक्षा उत्पन्न होती है । जो इस प्रकारकी उपेक्षा है, वह रूपको (कालान्तरमें) अतिक्रमण नहीं कर सकती; इस लिये यह उपेक्षा गोध-संबद्ध कही जाती है । (२६) ० श्रोत्रसे शब्द ० । (२७) ० घ्राणसे गंध ० । (२८) ० जिह्वासे रस ० । (२९) ० कायासे स्प्रष्टव्य ० । (३०) ० मनसे धर्म ० इस लिये यह उपेक्षा गोध-संबद्ध कही जाती है । यह छः गोध-संबद्ध उपेक्षायें हैं ।

“क्या हैं, छः निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें ?—(३१) रूपोंकी अ-नित्यता ० को जान कर ० अच्छी तरह प्रज्ञासे देखते उपेक्षा उत्पन्न होती है । जो इस प्रकारकी उपेक्षा है, वह (निष्कामता -) धर्मको अतिक्रमण नहीं करती; इस लिये यह उपेक्षा निष्कामता-संबद्ध कही जाती है । (३२) शब्दोंकी ० । (३३) गंधोंकी ० । (३४) रसोंकी ० । (३५) स्प्रष्टव्योंकी ० । (३६) धर्मोंकी ० । यह छः निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें हैं ।

“यह जो कहा—‘छत्तीस सप्तपदोंको जानना चाहिये’—वह इन्हींके लिये कहा ।

“यह जो कहा—‘इसके द्वारा इसे छोड़ो’ यह किसके द्वारेमें कहा ?—वहाँ भिक्षुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध सौमनस्य हैं, उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छः गोध-संबद्ध सौमनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो । इस प्रकार उनका प्रहाण होता है, इस प्रकार उनका अतिक्रमण होता है । वहाँ, भिक्षुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध दौर्मनस्य हैं, उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छः गोध-संबद्ध दौर्मनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो । ० । वहाँ, भिक्षुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें हैं, उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छः गोध-संबद्ध उपेक्षायें हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो । ० । वहाँ भिक्षुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध सौमनस्य हैं; उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छः निष्कामता-संबद्ध दौर्मनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो । ० । वहाँ, भिक्षुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें हैं, उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छः निष्कामता-संबद्ध सौमनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो । ० । भिक्षुओ ! उपेक्षा नानार्थ है, नाना अर्थोंसे संबद्ध है । उपेक्षा एकार्था है । एक अर्थसे संबद्ध है । कौन है, भिक्षुओ ! उपेक्षा नानार्था, नाना अर्थोंसे संबद्ध ?—हे भिक्षुओ ! उपेक्षा रूपोंमें, है शब्दोंमें, है गन्धोंमें, है रसोंमें, है स्प्रष्टव्योंमें । भिक्षुओ ! यह उपेक्षा नानार्था है, नाना अर्थोंसे संबद्ध है । कौन है, भिक्षुओ ! उपेक्षा एकार्था, एक अर्थसे संबद्ध ?—हे भिक्षुओ ! उपेक्षा आकाशानन्त्यायतनसे सम्बद्ध; ० त्रिज्ञानानन्त्यायतन ०; ० आर्किचन्यायतन ०; ० नैव-संज्ञा-नासंज्ञायतनसे संबद्ध । भिक्षुओ ! यह उपेक्षा एकार्था है, एक अर्थसे संबद्ध । वहाँ, भिक्षुओ ! जो उपेक्षा एकार्था ० है, उसके द्वारा उसको लेकर; जो वह उपेक्षा नानार्था ० है, उसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रकार इसका प्रहाण होता है, इस प्रकार इसका अतिक्रमण होता है । अ-तन्मयताके द्वारा, अ-तन्मयताको लेकर,

मिश्रुओ! जो यह एकायां ० उपेक्षा है, उसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो। इस प्रकार इसका प्रहाण ० अतिक्रमण होता है। मिश्रुओ! यह जो कहा—'इसके द्वारा इसे छोड़ो'—वह इन्दीके वारेंमें कहा।

“यह जो कहा—‘तीन स्मृति-प्रस्थान, जिन्हें आर्य सेवन करते हैं; जिन्हें सेवन करते आर्य शास्त्रा गणका अनुशासन कर सकता है’—यह किसके वारेंमें (किस लिये) कहा ?— (१) यहाँ मिश्रुओ ! अनुकम्पक, द्वितीय शास्त्रा अनुकम्पा करके श्रावकों (= दिप्यों)को धर्म उपदेशते हैं—‘यह तुम्हारे हितके लिये है, यह तुम्हारे सुखके लिये है’। उने श्रावक नहीं सुनना चाहते, नहीं कान देते, अन्यत्रसे (हटाकर) चित्तको (उसमें) उपस्थित नहीं करते, और शास्त्राके शासन (= उपदेश)को अतिक्रमण कर वर्तते हैं। वहाँ मिश्रुओ ! तथागत अमनुष्ट नहीं होते, न असन्तोषको अनुभव करते हैं। स्मृति-सम्प्रजन्यके साथ अनासक्त हो विहरते (= रहते) हैं। मिश्रुओ ! यह प्रथम स्मृति-प्रस्थान कहा जाता है, जिसे कि आर्य सेवन करते हैं ० अनुशासन कर सकता है। (२) और फिर, मिश्रुओ ! ० शास्त्रा ० उपदेशते हैं—०। कोई कोई श्रावक उसे नहीं सुनना चाहते हैं ० शास्त्राके शासनको अतिक्रमण कर वर्तते हैं। कोई कोई श्रावक उसे सुनना चाहते हैं ० शास्त्राके शासनको अतिक्रमण नहीं करते। वहाँ, मिश्रुओ ! तथागत न अ-सन्तोष होते हैं, न असन्तोषको अनुभव करते हैं; और नहीं तथागत मुग्न होते हैं, गुणी अनुभव करते हैं। उन दोनों (सन्तोष अ-सन्तोष)को छोड़ कर, तथागत उपेक्षक हो स्मृति-सम्प्रजन्यके साथ विहरते हैं। मिश्रुओ ! यह द्वितीय स्मृति प्रस्थान कहा जाता है, जिसे कि आर्य सेवन करते हैं ० अनुशासन करते हैं। (३) और फिर, मिश्रुओ ! ० शास्त्रा ० उपदेशते हैं—०। श्रावक उसे सुनना चाहते हैं ० शास्त्राके शासनको अतिक्रमण नहीं करते। वहाँ, तथागत मनुष्ट होते हैं, सन्तोष अनुभव करते हैं, स्मृति-सम्प्रजन्यके साथ अनासक्त हो विहरते हैं ! मिश्रुओ ! यह तृतीय स्मृति प्रस्थान कहा जाता है; जिसे कि आर्य सेवन करते हैं ० अनुशासन कर सकता है। ‘तीन स्मृति-प्रस्थान ०’—यह जो कहा, सो इन्दीके लिये कहा।

“यह जो कहा—‘वह युग्माचार्योंमें अनुपम पुरुष-दम्य-सारथी कहा जाता है’—यह किसके वारेंमें (किसलिये) कहा ?—मिश्रुओ ! हस्ति दम्यक (= महावत) द्वारा चलाया सीखा हाथी एक ही दिशाकी ओर धावता है—पूर्व या पश्चिम, या उत्तर या दक्षिण। मिश्रुओ ! सप्तदम्य (= सवार)से चलाया सीखा अश्व एक ही दिशाको धावता है ०। मिश्रुओ ! गोटम्यकमें चलाया सीखा बैल एक ही दिशाको धावता है ०। मिश्रुओ ! तथागत अर्हत् सन्दक-संयुद्ध द्वारा चलाया पुरुष-दम्य (= सीखा पुरुष) आठों दिशाओंमें धावता है—(१) रूपी रूपोंको देखता है यह प्रथम दिशा है (२) भीतर (= अप्यात्म) अ-रूप-संज्ञी (= रूपका क्याल न रत्नेशाल) बाहर रूपोंको देखता है, यह दूसरी दिशा है। (३) शुभ (= अनुश्रु)से ही अधिगुण (= मुक्त) होता है, यह तीसरी दिशा है। (४) रूपसंज्ञाके सर्वथा छोड़नेसे ०^१ आकाशा-नन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है; यह चौथी दिशा है। (५) ०^१ विज्ञानानन्त्यायतनको ०। (६) ०^१ आर्किचन्यायतनको ०। (७) ० नैवसंज्ञानान्ज्ञायतनको ०। (८) नैवसंज्ञानान्ज्ञायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर संज्ञा-वैदित निरोधको प्राप्त हो विहरता है; यह आठवीं दिशा है। मिश्रुओ ! तथागत ० द्वारा चलाया पुरुष-दम्य आठों दिशाको धावता है। यह जो कहा—‘वह युग्माचार्योंमें अनुपम पुरुष-दम्य-सारथी कहा जाता है’—यह इन्दीलिये कहा।”

भगवान्ने यह कहा, सन्नुष्ट हो उन मिश्रुओने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया।

१३८—उद्देश-विभंग-सुत्तन्त (३।४।८)

इन्द्रिय-संयम । ध्यान । अ-परिग्रह

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! उद्देश-विभंग (= उद्देश-विभंग = व्याख्येय विषयोंके नामोंके विभाग)को तुम्हें उपदेशता हूँ; उसे सुनो अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! भिक्षुको वैसे वैसे उपपरीक्षण कहना चाहिये; जैसे जैसे उपपरीक्षण करनेसे उसका विज्ञान (= चित्त) बाहर विकसित = विवृष्ट न हो, और भीतर (= अर्थात्म) भी अ-संस्थित होने के कारण परित्रसित न हो । भिक्षुओ ! विज्ञानके बाहर विकसित = विवृष्ट न होने से, और अपने भीतर अ-संस्थित होने तथा उपादान (= ग्रहण), न करनेके कारण परित्रसित न होने से, उसके लिये, आगे जन्म-जरा मरण (रूपी) दुःखका हेतु नहीं रह जाता ।”

भगवान्ने यह कहा; यह कहकर सुगत आसनसे उठकर विहारमें चले गये । तब भगवान्के चले जानेके थोड़े ही समय बाद उन भिक्षुओंको यह हुआ—“०^१ आवुस कात्यायन ! ०^१ भगवान् यह संक्षेपसे उद्देश कहकर ०^१ विहारमें चले गये—“वैसे वैसे उपपरीक्षण करना चाहिये ० दुःखका हेतु नहीं रह जाता ।” तब हमको यह हुआ—०^१ विभाग करें आयुष्मान् महाकात्यायन ।”

“जैसे, आवुसो ! ०^१”

“अच्छा आवुस”—कह उन भिक्षुओंने आयुष्मान् महाकात्यायनको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् महाकात्यायनने यह कहा—“आवुसो ! जो भगवान् यह संक्षेपसे उद्देश कहकर ०^१ विहारमें चले गये—“वैसे वैसे उपपरीक्षण करना चाहिये ० दुःखका हेतु (= समुदय) नहीं रह जाता । आवुसो ! विस्तारसे अविमाजित भगवान्के इस संक्षिप्त भाषणका अर्थ मैं इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ । आवुसो ! कैसे विज्ञानको बाहर विकसित = विवृष्ट कहा जाता है ?—यहाँ, आवुसो ! चक्षुसे रूप देखकर भिक्षु का विज्ञान (= चित्त) रूपके निमित्त (= र्छिग, रंग आदि) का अनुस्मरण करनेवाला होता है । रूपके निमित्तके स्वादमें प्रथित, ० दग्ध, ० संयोजनसे

^१ देखो पृष्ठ ५४६-४७ ।

(= बंधनसे) संयोजित विज्ञान 'बाहर विक्षिप्त = विच्छेद कहा जाता है । श्रोत्रसे शब्द सुनकर
० । घ्राणसे गंध सूँघकर ० । जिह्वासे रस चखकर ० । कायसे स्पर्शव्य दृष्टकर ० । मनसे धर्म
जानकर ० ।—इस प्रकार, आबुसो ! विज्ञानको बाहर विक्षिप्त = विच्छेद कहा जाता है ।

“आबुसो ! कैसे विज्ञानको बाहर अ-विक्षिप्त = अ-विच्छेद कहा जाता है ?—यहाँ, आबुसो !
चक्षुसे रूप देखकर भिक्षुका विज्ञान रूपके निमित्तका अनुस्मरण करनेवाला नहीं होता । रूप-निमित्त
के स्वादमें अप्रियत ०, ० अ-यद्, ० संयोजनसे अ-संयोजित विज्ञान 'बाहर' अ-विक्षिप्त = अ-विच्छेद
कहा जाता है । श्रोत्र ० । घ्राण ० । जिह्वा ० । काय ० । मनसे धर्म जानकर ० अनुस्मरण करने
वाला नहीं होता ०, ० असंयोजित विज्ञान 'बाहर' अ-विक्षिप्त = अ-विच्छेद कहा जाता है ।—इस
प्रकार, आबुसो ! विज्ञानको बाहर अ-विक्षिप्त = अ-विच्छेद कहा जाता है ।

“आबुसो ! कैसे (विज्ञान) 'अपने भीतर (= अप्यात्म) संस्थित' कहा जाता है ? यहाँ,
आबुसो ! भिक्षु कामसे विरहित ०^१ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । (उस समय) उसका
विज्ञान विवेकज प्रीत-सुखको अनुस्मरण करनेवाला, विवेकज प्रीत-सुखके आस्वादसे प्रथित, ०
यद्, ०-संयोजनसे संयोजित चित्त 'अपने भीतर (= अप्यात्म) संस्थित (स्थित)' कहा जाता है ।
और फिर आबुसो ! भिक्षु वितर्क और विचारके श्रांत होनेपर ०^१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता
है । (उस समय) उसका विज्ञान समाधि-ज प्रीत-सुखको अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे
संयोजित चित्त 'अपने भीतर संस्थित' कहा जाता है । और फिर, आबुसो ! भिक्षु प्रीतिसे विरक्त हो,
०^१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । (उस समय) उसका विज्ञान उपेक्षाका अनुस्मरण करने
वाला, उपेक्षा-सुखके आस्वादसे प्रथित, ०, ० संयोजनसे संयोजित चित्त 'अपने भीतर संस्थित'
कहा जाता है । और फिर, आबुसो ! भिक्षु सुख और दुःखके परित्याग से ०^१ चतुर्थ-ध्यानको
प्राप्त हो विहरता है । (उस समय) उसका विज्ञान अदुःख-असुखका अनुस्मरण करनेवाला, अदुःख
असुखके आस्वादसे प्रथित, ०, ०-संयोजनसे संयोजित चित्त 'अपने भीतर संस्थित' कहा जाता है ।
इस प्रकार आबुसो ! (विज्ञान) 'अपने भीतर संस्थित' कहा जाता है ।

“आबुसो ! कैसे (विज्ञानको) 'अपने भीतर अ-संस्थित' कहा जाता है ?—यहाँ,
आबुसो ! भिक्षु ०^१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है; (किन्तु) उसका विज्ञान विवेकज प्रीत-
सुखको न अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं होता । (ऐसा) चित्त 'अपने
भीतर अ-संस्थित' कहा जाता है । और फिर ०^१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । (किन्तु)
उसका विज्ञान समाधि-ज प्रीत-सुखको न अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं
होता । (ऐसा) चित्त 'अपने भीतर अ-संस्थित' कहा जाता है । और फिर ०, ०^१ तृतीय-ध्यानको
प्राप्त हो विहरता है । (किन्तु) उसका विज्ञान उपेक्षाका न अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०—संयोज-
नसे संयोजित नहीं होता । ० । और फिर ०, ०^१ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ।
(किन्तु) ० अदुःख-असुखका न अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं होता ।
(ऐसा) चित्त 'अपने भीतर अ-संस्थित' कहा जाता है । इस प्रकार, आबुसो ! (विज्ञान) 'अपने
भीतर अ-संस्थित'—कहा जाता है ।

“आबुसो ! कैसे 'उपादान (= रागयुक्त ग्रहण) न करनेसे परिश्रान्त नहीं होता' ?—यहाँ
आबुसो ! आर्योंके दर्शनसे वंचित ०^१ अध्रुतवान् (= अज्ञ) पृथग्जन (= अनादी) रूपको आत्मा-
के तौरपर मानता है, या आत्माको रूपवान्, आत्मामें रूपको, या रूपमें आत्माको (मानता है),

उसका (माना) वह रूप विकृत होता है = अन्यथा होता है । उसके रूपके विपरिणाम (= विकार) = अन्यथाभावसे, विज्ञान भी परिवर्तित होता है । (फिर) उसे रूपके विपरिणाम = परिवर्तनसे उत्पन्न परित्रास धर्मकी उत्पत्तिसे चित्तको पकड़ कर ठहरते हैं । चित्तको पकड़नेसे (विज्ञान) त्रासयुक्त, विघात (= प्रतिहिंसा) युक्त, अपेक्षावान् होता है । अनुपादान (= अस्वीकार) परित्रासको प्राप्त होता है । वेदनाको ० । संज्ञाको ० । संस्कारको ० । विज्ञानको ० परित्रासको प्राप्त होता है ।—इस प्रकार, आवुसो ! अनुपादान करनेसे परित्रास होता है ।

“कैसे, आवुसो ! अनुपादान (अ-परिग्रह) करनेसे परित्रासको नहीं प्राप्त होता ?— यहाँ, आवुसो ! आर्योके दर्शनको प्राप्त ०^१ बहुश्रुत आर्य श्रावक, रूपको आत्माके तौरपर नहीं मानता, या आत्माको रूपवान्, आत्मामें रूपको, या रूपमें आत्माको नहीं मानता । उसका वह रूप विपरिणत (= विकृत) होता है = अन्यथा भावको प्राप्त होता है । उस रूपके विपरिणाम = अन्यथा भावसे विज्ञान रूप विपरिणामी = परिवर्तन शील नहीं होता । तब उसे रूपके विपरिणाम = परिवर्तनसे उत्पन्न परित्रास धर्मकी उत्पत्तिसे चित्तके परिपादान (= पकड़ने) से (विज्ञान) न त्रासयुक्त, विघातयुक्त, अपेक्षावान् (होता है), अनुपादानसे परित्रासको नहीं प्राप्त होता । वेदनाको ० संज्ञाको ० । संस्कारको ० । विज्ञानको ० परित्रास नहीं प्राप्त होता ।—इस प्रकार, आवुसो ! अनुपादान करनेसे परित्रास नहीं होता ।

“आवुसो ! जो भगवान् यह संक्षेपसे उद्देश कर ०^२ विहारमें चले गये—‘वैसे वैसे उपपरीक्षण करना चाहिये ० दुःखका हेतु नहीं रह जाता । आवुसो ! विस्तारसे अविभाजित भगवान्के इस संक्षिप्त भाषणका अर्थ मैं इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ । इच्छा हो, तो तुम आयुष्मानो ! भगवान्के पास भी जा कर इस अर्थको पूछो ०^३ भिक्षुओंने भगवान्से यह कहा—

“मन्ते ! भगवान् जो यह हमें ० विस्तारसे विभाग किये बिना ही आसनसे उठ कर विहार में चले गये—‘वैसे वैसे उपपरीक्षण करना चाहिये ०’ ०^४ हसने आयुष्मान् महाकात्यायनसे इस अर्थको पूछा ०^५ इन व्यंजनोंसे अर्थको विभाजित किया ०^६ इसे धारण करना ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।

^१ देखो पृष्ठ ३ ।

^२ देखो पृष्ठ ५४६-४७ ।

^३ देखो पृष्ठ ५६४-६६ ।

^४ देखो पृष्ठ ५४६-४७ ।

१३६—अरण-विभंग-सुत्तन्त (३।४।६)

सुसुक्ष्मी चर्या

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“मदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! अरण-विभंग तुम्हें उपदेशता हूँ, उमे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा, भन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“(१) हीन (= निकृष्ट) = द्राम्य, पृथग्जनिक (= अनादियोंके), अनार्य, अनर्थ-युक्त कामके सुखमें अनुयुक्त (= लग्न) न होना चाहिये; और नहीं दुःख, अनार्य, अनर्थयुक्त आत्म-पीढामें अनुयुक्त होना चाहिये । (२) भिक्षुओ ! इन दोनों अन्तों (= अतियों)को न ले, तथागतने मध्यम मार्गको खोज निकाला है, (जो कि) भाँस देनेवाला, ज्ञान करनेवाला, उपशम-अभिज्ञ-संयोज-निर्वाणके लिये है । (३) उत्सादनको भी जाने, अय-सादनको भी जाने । उत्सादनको जान और अ-प्रसादनको जानकर, न उत्सादन करे, न अ-प्रसादन करे; धर्म हीका उपदेश करे । (४) सुख-विनिश्चयको जाने । सुख-विनिश्चयको जानकर, अपने भीतरके सुखमें अनुयुक्त होवे । (५) एकान्तमें यात (= अग्रवाद) नहीं करे । सुँहपर बहुत धोसा न बोले । (६) जल्दी बिना बोले, जल्दी जल्दी न (बोले) । (७) देशोंकी भाषा (= जनपद-निरुक्ति)को न घुसाने, ‘संज्ञाओंके पीछे न अतिघावन करे’—यह अरण-विभंगका उद्देश है ।

(१) “यह जो कहा—‘० कामके सुखमें अनुयुक्त न होना चाहिये, और नहीं ० आत्म-पीढामें अनुयुक्त होना चाहिये’—सो कित्तलिये कहा ?—जो काम (= त्रिपयभोग)के संबंधसे सुखी होनेवालेका तौमनस्यके साथ लग्न होता है, (वह) हीन ० अनर्थयुक्त है । यह धर्म (= कामसुख) दुःख; उपघात-उपायास (= ईरानी परेशानी) दाहसे युक्त है, (यह) मिथ्या-प्रतिपदा (= झूठा मार्ग) है । जो कामके संबंधसे सुखी होनेके तौमनस्यके अनुयोग (= संपर्क)-का अनुयोग न होना है, (वह है) हीन ० अनर्थ-युक्त । यह धर्म दुःख-उपघात-उपायास दाहसे रहित है, तम्यक्-प्रतिपदा (= ठीकमार्ग) है । जो आत्म-पीढामें लगना है, (यह धर्म) दुःख, अनार्य, अनर्थ-युक्त है । यह धर्म दुःख-उपघात-उपायास-दाहने युक्त है; यह मिथ्या प्रतिपदा है । जो आत्म-पीढाके उद्योगमें योग न देना, दुःख-अनार्य, अनर्थयुक्त है । यह धर्म दुःख-उपघात-उपायास-दाहसे रहित, सन्यक् प्रतिपदा है । यह जो कहा—‘० कामके सुखमें अनुयुक्त

नहीं होना चाहिये, और नहीं ० आत्मपीड़ामें अनुयुक्त होना चाहा—वह इसीलिये कहा ।

(२) “यह जो कहा—‘इन दोनों अन्तोंको न ले, तथागतने मध्यममार्ग खोज निकाला है ०’—सो किसलिये कहा ?—यही (वही) आर्य-अष्टांगिक-मार्ग है; जैसेकि—सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वचन, सम्यक्-कर्मान्त, सम्यग्-आजीव, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति, (और) सम्यक्-समाधि । यह जो कहा—उन दोनों अन्तों (= अतियों)को न ले तथागतने मध्यम-मार्ग खोज निकाला है ०’—सो इसीलिये कहा ।

(३) “उत्सादनकोभी जाने, अ-प्रसादनको भी जाने ० धर्महीका उपदेश करे’—सो किस-लिये कहा ?—कैसे, भिक्षुओ ! उत्सादना, और अ-प्रसादना होती है, किन्तु धर्मदेशना (= धर्मका-उपदेश) नहीं होती ?—‘जो कामके संबंधसे सुखी होने वालेका सौमनस्य ०^१ परिदाहसे युक्त है, वह मिथ्याप्रतिपन्न है—(= झूठे मार्गपर आरूढ़) हैं’—इस प्रकार कोई कोई दूसरेको अ-प्रसादित (= नाराज) करते हैं । जो कामके संबंधसे सुखी होनेवालेके सौमनस्यके अनुयोगका अनुयोग न होना ०^१ सम्यक्-प्रतिपदा है—इस प्रकार (कह) कोई कोई दूसरेको उत्सादित (= प्रसन्न) करते हैं । जो (पुरुष) दुःख, अनार्य, अनर्थयुक्त आत्मपीड़ाके व्यापारमें लगे हुये हैं; वह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, वह मिथ्या मार्गपर आरूढ़ (= मिथ्या-प्रतिपन्न) हैं’—इस प्रकार (कह) कोई कोई दूसरेको अ-प्रसादित (= नाराज) करते हैं । जो ० आत्मपीड़ाके व्यापारमें लगे नहीं हैं, वह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त नहीं हैं, वह ठीक मार्गपर आरूढ़ हैं—इस प्रकार (कह) कोई कोई दूसरेको प्रसादित (= सुखी) करते हैं । जिस कित्तीका भव-संयोजन (= भवबंधन) प्रहीण (= नष्ट) नहीं हुआ, वह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं । वह मिथ्या मार्गपर आरूढ़ हैं—इस प्रकार (कह) कोई कोई दूसरेको अ-प्रसादित करते हैं । वह जिस कित्तीका भवसंयोजन प्रहीण हो गया है, वह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे रहित हैं । ठीक मार्गपर आरूढ़ है—इस प्रकार (कह) कोई कोई दूसरेको उत्सादित (= प्रसन्न) करते हैं ।—इस प्रकार भिक्षुओ ! उत्सादना और अ-प्रसादना (= नाराज करना) होती है, किन्तु धर्मदेशना नहीं होती ।

“कैसे भिक्षुओ ! उत्सादना और अ-प्रसादना नहीं होती, (चल्कि) धर्मदेशना (= उपदेश) (= उपाय) है ?—जो कामके संबंधसे सुखी होनेवाले का सौमनस्य^१ परिदाहसे युक्त है, वह मिथ्या मार्गपर आरूढ़ है’—यह नहीं कहता । यह अनुयोग दुःख है दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त है, मिथ्या मार्ग है—इस प्रकार (कह) दूसरेको धर्महीको उपदेशता है । जो कामके सम्बन्धसे सुखी, हीन ० अनर्थयुक्त सौमनस्यके अनुयोगमें अनुयुक्त नहीं हैं, वह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे रहित हैं, ठीक मार्गपर आरूढ़ हैं—यह नहीं कहता । ‘अन्-अनुयोग अ-दुःख है । अन्-अनुयोग और यह धर्म उपघात-उपायास-परिदाहसे रहित है, ठीक मार्ग है—इस प्रकार (कह) दूसरेको धर्महीको उपदेशता है । ‘जो दुःख, अनार्य, अनर्थयुक्त आत्म-पीड़ाके व्यापारमें अनुयुक्त (लग्न) हैं; वह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, मिथ्या-मार्ग पर आरूढ़ हैं—यह नहीं कहता । (चल्कि) अनुयोग सदुःख है, यह धर्म उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त है, मिथ्या मार्ग है—इस प्रकार दूसरेको धर्मको ही उपदेशता है । जो दुःख, अनार्य, अनर्थयुक्त आत्मपीड़ाके व्यापारमें अनुयुक्त (= लग्न) नहीं हैं; वह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाह-रहित हैं, ठीक मार्ग पर आरूढ़ हैं’—यह नहीं कहता । (चल्कि कहता है)—अनुयोग न करना दुःख ० रहित है, ठीक

^१ देखो पृष्ठ ५६७ ।

मार्ग है—इस प्रकार दूसरेको धर्म ही उपदेशता है। 'जिन किन्हींका भव-संयोजन (= भव-यन्वन) नष्ट नहीं हुआ, वह सभी दुःख ०—सहित हैं, मिथ्या मार्गपर आरुढ़ हैं'—यह नहीं कहता। (यत्कि कहता है)—'भव-संयोजनके नष्ट न होनेपर भव (= जन्म मरण) भी नष्ट नहीं होता है'—इस प्रकार ० धर्महीको उपदेशता है। 'जिन किन्हींका भव-संयोजन नष्ट हो गया, वह सभी दुःख-० रहित हैं, ठीक मार्गपर आरुढ़ हैं'—यह नहीं कहता। (यत्कि कहता है)—'भव-संयोजनके नष्ट होनेपर भव भी नष्ट हो जाता है'—इस प्रकार ० धर्महीको उप-देशता है।—इस प्रकार, मिश्रुओ! न उत्सादना होती है, न अ-प्रसादना, (यत्कि) धर्म-देशना होती है। यह जो कहा—'उत्सादनको भी जाने ०' धर्म हीका उपदेश करे'—सो इसी-लिये कहा।

(४) "जो यह कहा—'सुख-विनिश्चयको जाने। सुख विनिश्चयको जानकर, अपने भीतर सुखमें धन्युक होवे'—सो किस लिये कहा?—मिश्रुओ! यह पाँच काम-गुण हैं। कौनमें पाँच?—(१) इष्ट ०^२ चक्षुद्वारा विज्ञेयरूप। ०^२ काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्य। मिश्रुओ! यह पाँच कामगुण हैं। मिश्रुओ! इन पाँच कामगुणोंके द्वारा जो कुछ सुख, सामनस्य उत्पन्न होता है, वह कहा जाता है काम-सुख, भीदसुख, पृथग्जनोंका सुख = अनार्य-सुख। (वह) न-नैवितव्य = न भावयितव्य = न यहूलीकर्तव्य, इत सुखसे भय खाना चाहिये—मैं यह कहता हूँ। यहाँ, मिश्रुओ! मिश्रु कामोंसे विरहित ०^३ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०^३ द्वितीय-ध्यान को ०। ०^३ तृतीय ध्यानको ०। ०^३ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह कहा जाना है, निष्कामता-सुख, प्रविवेक-सुख, उपशम-सुख, संबोधि-सुख। यह सेवितव्य = भावयितव्य, यहूली-कर्तव्य है, इस सुखसे भय नहीं खाना चाहिये—मैं यह कहता हूँ। जो यह कहा—'सुखविनिश्चय को जाने ०'—सो इसीलिये कहा।

(५) "यह जो कहा—'एकान्तमें यात नहीं कहे, सुँहपर बहुत धीमा न घोले'—सो किस लिये कहा?—वहाँ मिश्रुओ! जिस एकान्त-वादको अ-भूत = अ-तथ्य (= अ-मत्य), अनर्थयुक्त को प्राप्त जाने, उस एकान्तवादको न कहे। और जिस एकान्तवादको भूत = तथ्य (किन्तु) अनर्थ-युक्त जाने, उस ० को भी न कहना, मिश्रुओ! सीखे। और जिस रहोवाद (= एकान्तमें कहेकी यात) को भूत = तथ्य, सार्थक समझे, तो उस रहोवादके कथनके लिये कालज्ञ (= यात देर पर कहनेवाला) होना चाहिये। वहाँ मिश्रुओ! जिस तस्म्युके क्षीणवाद (= धीमें घोलनेकी यात) को अ-भूत = अ-तथ्य, अनर्थ-युक्त समझे, तो उस ० को न कहे। जिस ० को भूत = तथ्य (किन्तु) अनर्थ-युक्त जाने, उस ० को भी न कहे। जिस ० को भूत = तथ्य (और) सार्थक जाने, उस ० के कथनके लिये कालज्ञ होना चाहिये। यह जो कहा—'एकान्तमें न कहे, सुँहपर बहुत धीमा न घोले'—सो इसीलिये कहा।

(६) "जो यह कहा—'जल्दी घिना घोले, जल्दी जल्दी न घोले'—सो किसलिये कहा?—वहाँ, मिश्रुओ! जल्दी घोलनेवालेके शरीरको भी कष्ट होता है, चित्त भी पीड़ित होता है, स्वर भी विकृत होता है, कण्ठ भी आतुर होता है, अ-वित्पष्ट (= साफ नहीं) भी होता है, जल्दी घोलनेवालेकी यात (दूसरोंको) अ-विज्ञेय होती है। वहाँ, मिश्रुओ! जल्दी जल्दी न घोलनेवालेके शरीरको भी कष्ट नहीं होता, चित्त भी पीड़ित नहीं होता, स्वर भी विकृत नहीं होता, कण्ठ भी आतुर नहीं होता, वित्पष्ट भी होता है, जल्दी जल्दी न घोलनेवालेकी यात (दूसरोंको) विज्ञेय

(= सुगम) होती है । जो यह कहा—‘जल्दी बिना बोले ०’—सो इसी लिये कहा ।

(७) “जो यह कहा—‘देशोंकी भाषाका आग्रह न करे, न संज्ञाओंके पीछे धावन करे’—सो किस लिये कहा ?—कैसे भिक्षुओ ! दीहाती भाषासे अभिनिवेश (= आग्रह) होता है ?; और संज्ञासे अतिसार (= बहुत धावना) ? यहाँ भिक्षुओ ! वही (वस्तु) किन्हीं किन्हीं जनपदोंमें पाती भी पुकारी जाती (= संज्ञा) है, पत्त भी ०, वित्त भी ०, शराव भी ०, धारोप भी ०, पोण भी ०, पिसीलव भी ० । इस प्रकार जैसे जैसे उन उन जनपदोंमें पुकारते हैं, वैसे वैसे दृढ़तासे ग्रहण कर, जिद् (= अभिनिवेश)के साथ व्यवहार करता है—‘यही सत्य है, और सव मिथ्या’ । इस प्रकार भिक्षुओ ! जनपद-भाषामें अभिनिवेश (= जिद्) होती है, और संज्ञासे अतिसार (= विलगाव) होता है । कैसे, भिक्षुओ ! जनपद भाषामें अभिनिवेश नहीं होता, और संज्ञासे अतिसार नहीं होता ?—यहाँ, भिक्षुओ ! वही (वस्तु) किन्हीं किन्हीं जनपदमें पाती पुकारी जाती है, ०, पिसीलव भी ० । इस प्रकार जैसे जैसे इसे उन उन जनपदोंमें पुकारते हैं, ‘वह आयुष्मान् इसके धारमें (वह शब्द) व्यवहृत करते हैं’—यह (सोच) वैसे ही वैसे व्यवहार करता है, (किन्तु) आग्रह ० बिना । इस प्रकार, भिक्षुओ ! देशोंकी भाषाओंका आग्रह नहीं होता, और न संज्ञाओंके पीछे धावन होता है । जो यह कहा—‘देशोंकी भाषाका आग्रह न करे, न संज्ञाओंके पीछे अतिधावन करे’—सो इसीलिये कहा ।

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो काम सम्यन्धसे सुखीके हीन ० अनर्थयुक्त सौमनस्यका अनुयोग (= सम्यन्ध) है, वह स-दुःख है । यह धर्म उपघात-उपायास-परिदाह-युक्त है, (वह) मिथ्या मार्ग है । इसलिये यह धर्म स-रण है । वहाँ, भिक्षुओ ! जो ० हीन ० अनर्थ युक्त सौमनस्यके अनुयोगमें अनुयोग (= सम्यन्ध) न करता है, वह दुःख-रहित है; यह धर्म उपघात-उपायास-परिदाह-रहित है, ठीक मार्ग है । इसलिये यह धर्म अ-रण (= दुख रहित) है । वहाँ, भिक्षुओ ! जो दुःख, अनार्य, अनर्थयुक्त आत्म-पीडा है, वह दुःख सहित; यह धर्म उपघात-उपायास-परिदाह-युक्त है, मिथ्या मार्ग है । इसलिये स-रण है । वहाँ, भिक्षुओ ! जो दुःख ० अनर्थयुक्त आत्म-पीडाके अनुयोगमें अनुयोग न करना है, वह दुःख-रहित है, ० ठीक मार्ग है । इसलिये यह धर्म अ-रण है ।

“वहाँ, भिक्षुओ ! जिस आँख देनेवाले ० मध्यम मार्ग (= मज्झिमा पटिपदा)को तथागतने खोज निकाला, यह धर्म दुःख रहित है, उपघात-उपायास-परिदाह-सहित है, ठीक मार्ग है । इसलिये यह धर्म अ-रण है ।

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह उत्सादन (= खुश करना) अ-प्रसादन (= नाराज करना), और धर्म देशना हैं, यह धर्म दुःख-सहित है, ० मिथ्यामार्ग है । इसलिये यह धर्म स-रण है ।

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह उत्सादन बिना, अ-प्रसादन बिना धर्म देशना है; यह धर्म दुःख-रहित है, ० ठीक मार्ग है । इसलिये ० अ-रण है ।

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह काम-सुख, मृद्-सुख, पृथग्जनका सुख-अनार्यका सुख है; यह धर्म दुःख-सहित है, ० झग मार्ग है । इसलिये ० स-रण है ।

“ ० जो निष्कामता-सुख ० संबोधि-सुख है । यह धर्म अ-दुःख है, ० ठीक मार्ग है ० अ-रण है ।

“ ० जो रहोवाद अ-भूत = अ-तथ्य, अनर्थ युक्त है, यह धर्म दुःख-सहित है, ० मिथ्या-मार्ग है । ० स-रण है ।

“ ० जो रहोवाद भूत = तथ्य, अनर्थयुक्त है । यह धर्म दुःख-सहित है, ० मिथ्यामार्ग है । ० स-रण है ।

“ ० जो रहोवाद भूत = तथ्य, सार्थक है । यह धर्म दुःख-रहित है, ० ठीक मार्ग है । ० अ-रण है ।

“ ० जो संमुखमें क्षीण-वाद अभूत = अ-तथ्य, अनर्थयुक्त है । ० दुःख-सहित है, ० मिथ्या-मार्ग है । स-रण है ।

“ ० जो संमुखमें क्षीण-वाद भूत = तथ्य, अनर्थयुक्त है । ० दुःख-सहित है, ० मिथ्यामार्ग है । ० स-रण है ।

“ ० जो संमुखमें क्षीण-वाद भूत = तथ्य और सार्थक है । ० दुःख-रहित है, सचामार्ग है । ० अ-रण है ।

“ ० जो यह जल्दी करनेवालेका योलना है ! ० दुःख-सहित है, ० मिथ्यामार्ग है । ० स-रण है ।

“ ० जो यह जल्दी न करनेवालेका योलना है । ० दुःख-रहित है, ० ठीक मार्ग है । ० अ-रण है ।

“ ० जो यह, जनपदभाषामें अभिनिवेश (= दुराग्रह), और संज्ञामें अतिसार (= धावना) है । ० दुःख-सहित है । ० मिथ्यामार्ग है । ० है ।

“ ० जो यह जनपद-भाषामें अभिनिवेश (नहीं) और संज्ञामें अतिसार नहीं । ० दुःख-रहित है, ० ठीक मार्ग है । ० अ-रण है ।

“इसलिये, भिक्षुओ ! स-रण और अ-रण धर्मोंको जानो । स-रण धर्मको जानकर, अ-रण धर्मको जानकर, ‘हम अ-रण (= दुःख-रहित) प्रतिपदा (= मार्ग) पर आरूढ़ होंगे’—इस प्रकार तुम्हें सीखना चाहिये ।

“भिक्षुओ ! सुभूति कुल-पुत्र अ-रण प्रतिपदापर आरूढ़ हो ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।



१४०—धातु-विभंग-सुत्तन्त (३।४।१०)

धातु-विभाग । मनकी साथना

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् मगध (देश)में चारिका करते, जहाँ राजगृह है, वहाँ पहुँचे । (और) जहाँ भार्गव कुंभकार था, वहाँ गये । जाकर भार्गव कुंभकारसे यह बोले—

“यदि, भार्गव ! तुम्हें भारी न हो, तो मैं एक रात (इस) घरमें विहार (= वास) करूँ ।”

“भन्ते ! भारी नहीं है, किन्तु यहाँ पहिलेसे आकर ठहरा एक प्रव्रजित है, यदि वह अनुमति दे, तो भन्ते ! सुखपूर्वक विहार कीजिये ।”

उस समय पुक्कुसाति^१ नामक कुल-पुत्र भगवान्के नामपर घरसे बेघर (= अनागारिक) हो प्रव्रजित हुआ था । वह उस कुंभकार-निवेशनमें पहिलेहीसे आकर ठहरा हुआ था । तब भगवान् जहाँ आयुष्मान् पुक्कुसाति थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान् पुक्कुसातिसे यह बोले—

“यदि, भिक्षु ! तुम्हें भारी (= गुरु) न हो तो, मैं एक रात (इस) घरमें विहार करूँ ।”

“आवुस ! कुंभकार-निवेश सुला है, आयुष्मान् सुख-पूर्वक विहार करें ।”

तब भगवान् कुंभकार-निवेशनमें प्रवेश कर, एक ओर तृणका आसन बिछा, आसन मार, कायाको सीधा कर, स्मृति को सन्मुख उपस्थित रख बैठे । तब भगवान्ने बहुत रात बैठे-बैठे धिता दी आयुष्मान् पुक्कुसातिने भी बहुत रात बैठे-बैठे धिता दी । तब भगवान्को यह हुआ—‘इस कुल-पुत्रकी चाल-ढाल बहुत अच्छी है ; क्यों न मैं इससे पूछूँ ।’ तब भगवान्ने आयुष्मान् पुक्कुसातिसे यह कहा—

“भिक्षु ? किसके नामपर तू प्रव्रजित हुआ है ? कौन तुम्हारा शास्ता (= गुरु) है । किसके धर्मको तू मानता है ?”

“आवुस ! शाक्य कुलसे प्रव्रजित शाक्य पुत्र श्रमण गौतम हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल कीर्तिशब्द फैला हुआ है—०^२ । उन भगवान्के धर्मको मैं मानता हूँ ।”

“भिक्षु ! वह भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्ध इस समय कहाँ विहरते हैं ?”

“आवुस ! उत्तरके देशोंमें श्रावस्ती नामक नगर है । वहाँ वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध इस वक्त विहरते हैं ।

^१ पहिले तशशिलाके राजा थे । (जातिके पुत्रकुस) । विवसारके पत्रसे बुद्धके बारेमें जान कर भिक्षु हो गये । (अ. क.) ^२ देखो पृष्ठ १५८ ।

“मिथु ! क्या तूने उन भगवान्‌को पहिले (कमी) देखा है ? देखकर पहिचान सकता है ?”

“आतुस ! नहीं, मैंने उन भगवान्‌को पहिले नहीं देखा है । देखकर मैं पहिचान नहीं सकता । तब भगवान्‌को यह हुआ—‘मेरे ही नामपर यह कुछ-पुत्र प्रजनित हुआ है; क्यों न मैं इसे धर्मोपदेश करूँ ।

तब भगवान्‌ने आयुष्मान् पुक्कुसातिको संबोधित किया—

“मिथु ! तुझे धर्म उपदेशता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।”

“अच्छा, आतुस !”—(कह) आयुष्मान् पुक्कुसातिने भगवान्‌को उत्तर दिया ।

भगवान्‌ने यह कहा—“मिथु ! यह पुरुष (१) छः धातुओं, (२) छः स्पर्शायतनों, (३) अठारह मनोपविचार, (४) चार अधिष्ठानों वाला है, (५) जहाँ स्थित (इसके) मान और उत्सव नहीं प्रवृत्त होते । मान और उत्सवके न प्रवृत्त होनेपर—(वह) शान्त मुनि कहा जाता है । (६) प्रज्ञासे प्रमाद न करे, सत्य की रक्षा करे, त्यागको यदावे, उपशम (= शांतिका) ही वह अभ्यास करे—यह धातु-विभंगका उद्देश है ।

(१) “मिथु ! यह जो कहा—‘यह पुरुष छः धातुओंवाला है’—सो किस लिये कहा ?—मिथु ! यह छः धातु हैं ?—पृथिवी-धातु, आप ०, तेज ०, वायु ०, आकाश ०, विज्ञान-धातु । यह जो कहा—‘यह पुरुष छः धातुओंवाला है’—सो इसी लिये कहा ।

(२) “मिथु ! यह जो कहा—‘यह पुरुष छः स्पर्शायतन है’—सो किस लिये कहा ?—चक्षु-संस्पर्शायतन, श्रोत्र ०, घ्राण ०, जिह्वा ०, काय ०, मन : संस्पर्शायतन । ० ।

(३) “मिथु ! यह जो कहा—‘यह पुरुष अठारह मनोपविचारों वाला है’—सो किस लिये कहा ?—चक्षुसे रूपको देखकर रूपको सौमनस्य स्थानीय उपविचारता है ०^१ और छः उदोद्गारे उपविचार हैं । ० ।

(४) “मिथु ! यह जो कहा—‘यह पुरुष चतुरधिष्ठान है’—सो किस लिये कहा ?—प्रज्ञाअधिष्ठान, सत्य ०, त्याग ०, उपशम-अधिष्ठान । ० ।

(६) “ ०—‘प्रज्ञासे प्रमाद न करे ० उपशम (= शांति) का ही वह अभ्यास करे’—सो किस लिये कहा ?—कैसे मिथुओ ! मिथु प्रज्ञासे प्रमाद नहीं करता ?—मिथुओ ! यह छः धातुयें हैं—पृथिवी धातु, ०, विज्ञान-धातु । क्या है मिथु पृथिवी धातु ?—पृथिवी धातु (दो प्रकारकी) है—आप्यात्मिक और वाह्य । क्या है, मिथु ! आप्यात्मिक पृथिवी धातु ? शरीरके भीतर (= अष्यात्म), प्रति शरीरमें (= प्रत्यात्म) कर्कश खर्चरा लिये हुये हैं; जैसे कि देन, लोम ०^२ पेटके भीतरका मल; और जो कुछ और भी प्रति शरीरमें कर्कश ० लिये हुये हैं । मिथु ! यह कही जाती है, आप्यात्मिक पृथिवी धातु । जो आप्यात्मिक पृथिवी धातु है, और जो वाह्य पृथिवी धातु है; यह (दोनों) पृथिवी धातु ही है । ‘वह न मेरा है’ ‘न यह मैं हूँ’, और ‘न पर मेरा आत्मा है’ । इस प्रकार इसे यथार्थसे भली प्रकार प्रज्ञासे देखना चाहिये । ऐसे इसे यथार्थत-अच्छी प्रकार देखनेसे पृथिवी धातुसे निर्वेद (= उदासीनता)को प्राप्त होता है; पृथिवी धातुसे चित्तको विरक्त करता है । क्या है, मिथु ! आपोधातु ?—(दो प्रकारकी है) आप्यात्मिक और वाह्य । क्या है, मिथु ! आप्यात्मिक आप-धातु ? जो कुछ अष्यात्ममें=प्रति शरीरमें आप (= जल) या आप संबंधी लिया गया है; जैसे कि पित्त, श्लेष्म (= कफ), पीप, खून, स्वेद, मेद, अश्रु, वना,

^१ देखो पृष्ठ ५६१ ।

^२ देखो पृष्ठ ११७-१९ ।

खेल (= खवार) कान-नाकका मल, मूत्र; और जो और भी अध्यात्ममें ० आप या आप-संबंधी लिया गया है। यह भिक्षुओ! आध्यात्मिक आप धातु कही जाती है। जो आध्यात्मिक आप-धातु है ० और जो वाह्य आप-धातु है; यह (दोनों) पृथिवी धातु ही है। 'वह न मेरा है', ०। ऐसे इसे यथार्थतः अच्छी प्रकार देखनेसे आप-धातुसे निर्वेदको प्राप्त होता है; आप-धातुसे चित्तको विरक्त करता है। क्या है, भिक्षु! तेज-धातु?—(दो प्रकारकी) आध्यात्मिक और वाह्य। क्या है भिक्षु आध्यात्मिक तेज-धातु?—जो कुछ अध्यात्ममें=प्रति शरीरमें तेज या तेज संबंधी (वस्तु) ली गई है; जैसे कि—जिससे (शरीरसे) ताप=दाह होता, जीर्ण होता है; जिससे कि अशित=खाया पिया अच्छी तरह पचता है; और भी ० आप संबंधी लिया गया है। यह भिक्षु! आध्यात्मिक तेज धातु कही जाती है। जो आध्यात्मिक तेज-धातु है, और जो वाह्य तेज-धातु है; यह (दोनों) तेज-धातु ही है। 'वह न मेरा है' ०। ० तेज धातुसे चित्तको विरक्त करता है। क्या है, भिक्षु! वायु-धातु?— ०। ०—जो अध्यात्ममें=प्रति शरीरमें वायु या वायु-संबंधी (वस्तु) ली गई है; जैसे कि—ऊर्ध्वगामी वायु, अधोगामी वायु, पेटमें रहने वाले वायु, अंग अंगमें रहनेवाले वायु, आश्वास-प्रश्वास; और जो और भी ० वायु-संबंधी लिया गया है। यह भिक्षु! आध्यात्मिक वायु-धातु है। ० यह (दोनों) वायु धातु ही है। 'वह न मेरा है' ०। ० वायु धातुसे चित्तको विरक्त करता है। क्या है, भिक्षु! आकाश-धातु?— ०। ०—जो अध्यात्ममें = प्रति शरीरमें आकाश या आकाश सम्बन्धी है। जैसे कि—कर्ण-छिद्र, नासिका-छिद्र, मुख-द्वार जिससे कि...खाया पिया निगला जाता है, जहाँ...खाया पिया ठहरता है; जहाँसे जिससे कि...खाया पिया अधोभागसे निकलता है। और जो और भी ० आकाश सम्बन्धी है। ०। ० यह (दोनों) आकाशधातु ही हैं। 'वह न मेरा है' ०। ० आकाशधातुसे चित्तको विरक्त करता है। तब फिर परिशुद्ध = पर्यवदात विज्ञान-धातु ही शेष रहता है। उस विज्ञानसे जानता है? 'सुख है'—जानता है; 'दुःख है'—जानता है; 'अदुःख-असुख है'—जानता है। भिक्षु! सुख-वेदनीय (= जिससे सुखात्मक अनुभव मिले) स्पर्श (= विषय-इन्द्रिय संयोग) के कारण (= प्रतीत्य) सुखा वेदना उत्पन्न होती है। वह सुखा वेदनाको अनुभव करते 'सुखा वेदनाको अनुभव कर रहा हूँ'—जानता है। 'उसी सुख-वेदनीय स्पर्शके निरोध (= लुप्त) हो जानेसे, उससे उत्पन्न अनुभव (= वेदयित) —सुखवेदनीय स्पर्शके द्वारा उत्पन्न सुखा वेदना—वह निरुद्ध होती है = वह उपशांत होती है'—जानता है। भिक्षु! दुःख-वेदनीय स्पर्शके कारण दुःखा वेदना उत्पन्न होती है। ० वह उपशांत होती है—जानता है। भिक्षु! अदुःख-असुख-वेदनीय स्पर्शके कारण अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है। ० वह उपशांत होती है'—जानता है।

“जैसे, भिक्षु! दो काष्ठोंके संघर्षणसे रगइसे उष्मा (= गर्मी) पैदा होती है, आग प्रकट होती है। उन्हीं दोनों काष्ठोंके अलग होनेसे, विक्षेप होनेसे जो उससे उत्पन्न उष्मा है, वह निरुद्ध = उपशांत हो जाती है; ऐसे ही भिक्षु! सुख-वेदनीय स्पर्शके कारण सुखा वेदना उत्पन्न होती है। ० उपशांत होती है'—जानता है। दुःख वेदनीय स्पर्शके कारण दुःखा वेदना उत्पन्न होती है। ० उपशांत होती है'—जानता है अदुःख-असुख वेदनीय स्पर्शके कारण अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है। ० उपशांत होती है'—जानता है। तब फिर परिशुद्ध = पर्यवदात, मृदु, कर्मण्य, प्रभास्वर उपेक्षा ही याकी रहती है। जैसे, भिक्षु! चतुर सोनार या सोनारका शागिंद (= अन्तेवाली) उल्का (= अंगीठी) याँधे, उल्काको याँध कर उल्कामुख (= अंगीठी)को लीपे (= जोड़े)। उल्कामुखको लीपकर संदसी (= संदास)से सोनेको पकड़ कर उल्का-मुखमें डाले। उसे समय समय पर धँके, समय समय पर पानीसे छीटा दे, समय समय पर

(चुप चाप) छोड़ रखे । (तब) वह सोना, मृदु, कर्मण्य (= कामके लायक), प्रमात्सर, शुद्ध, निर्मल, निहत (= धुला), कर्मायुक्त होता है । तब जिस जिस आनूपण...को चाहे—चाहे पट्टिका, चाहे कुंडल, चाहे प्रवैयक (= कंठ), चाहे सुवर्णमाला—उसी चीज (= अर्थ) अनुभव कर सकता है । ऐसे ही भिक्षु ! तब फिर ० उपेक्षा ही वाकी रहती है । वह इस प्रकार जानता है—'ऐसी परिशुद्ध = पर्यवदात, इस उपेक्षासे मैं आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहर्लूँ, उसके धर्मानुसार चित्तको भावित (= अभ्यस्त) करूँ; इस प्रकार मेरी यह उपेक्षा उस (आकाशानन्त्यायतन)में आश्रित हो, उसे उपादान बना चिर = दीर्घकाल तक ठहरेगी । यदि मैं ऐसी परिशुद्ध = पर्यवदात इस उपेक्षासे विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहर्लूँ, ० दीर्घकाल तक ठहरेगी । यदि मैं ऐसी परिशुद्ध = पर्यवदात इस उपेक्षासे आर्किचन्यायतनको प्राप्त हो विहर्लूँ, ० दीर्घकाल तक ठहरेगी । ० नैवसंज्ञानासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहर्लूँ, ० दीर्घकाल तक ठहरेगी । वह ऐसा जानता है—यदि ऐसा परिशुद्ध = पर्यवदात इस उपेक्षासे आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहर्लूँ, उसके धर्मानुसार चित्तको भावित करूँ; (तो) भी यह संस्कृत (= कृत) है । ० विज्ञानानन्त्यायतन ० । ० आर्किचन्यायतन ० । ० नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को प्राप्त हो विहर्लूँ, उसके धर्मानुसार चित्तको भावित करूँ; (तो) भी यह संस्कृत है' ।—(यह सोच) वह न उसके भव (= उत्पत्ति) या विभव (= विनाश)के लिये न अभिसंस्कार (= धनाना) करता है, न अभिसंचेतन (= प्याल) करता है । वह भव ० अभिसंचेतन न करते लोकमें किसी (वस्तु)का उपादान (= संग्रह) नहीं करता; उपादान न करनेसे प्राप्तको नहीं प्राप्त होता । परित्रास न पाते वह इसी शरीर (= प्रत्यात्म) निर्वाणको प्राप्त होता है । जन्म (= आवागमन) खतम होगया ० १ इसे जानता है । वह यदि सुखा वेदनाको अनुभव करता है, (तो भी) 'वह अनिल है'—जानता है 'अन्-अभ्यवसित (= अ-निश्चित) है'—जानता है । 'अन्-अभिनंदित है'—जानता है । यदि दुःख वेदनाको अनुभव करता है ० । यदि अ-दुःख-असुखा वेदनाको अनुभव करता है । वह यदि सुखा वेदनाको वेदन (= अनुभव) करता है, तो वि-संयुक्त (= वियुक्त) हो उसे नहीं वेदन करता । यदि दुःखा वेदनाको ० । यदि अदुःख-असुखा वेदनाको ० । वह काया पर्यन्तकी वेदनाको वेदन करते हुये—'काय-पर्यन्त वेदनाको वेदन करता हूँ'—जानता है । जीवित (= जीवन)-पर्यन्त वेदनाको वेदन करते हुये— ० । 'काया छोड़ मरनेके बाद जीवन खतम होने (= पर्यादान)के पश्चात् यहीं सारे अनुभव (= वेदयित), अन्-अभिनंदित हो ठंडे हो जायेंगे'—जानता है । जैसे, भिक्षुओ ! तेल और घनी के सहारे तेल-प्रदीप जलता है । उसकी तेल और घनीके खतम होने पर और दूसरेके न मिलने पर (= अनुपादानात्) निराहार हो बुझ जाता है । (= निव्यायति) निर्वाणको प्राप्त होता है, इसी प्रकार, भिक्षु ! काय-पर्यन्तकी वेदनाको वेदन करते हुये—० ठंडे हो जायेंगे—जानता है । इसलिये इस प्रकार ऐसे (गुणोंसे) युक्त भिक्षु, इस परम प्रज्ञा-अधिष्ठानसे संयुक्त होता है । भिक्षु ! यही परम आर्य प्रज्ञा है, जो कि यह सारे दुःखोंके क्षयका ज्ञान ? उसकी वह विमुक्ति (= मुक्ति) मत्त्व में स्थित, अ-क्रोप्य (= चल) होती है । भिक्षु ! वह मृषा (= असत्य) है, जो कि नाश-मान (= मोपधर्मा) है, जो मोपधर्मा नहीं है, वह निर्वाण है । इसलिये ऐसे (गुणोंसे) युक्त भिक्षु इस परम-सत्य अधिष्ठानसे युक्त होता है । भिक्षु ! यही परम आर्य-सत्य है, जो कि यह अ-मोपधर्मा निर्वाण है ।

“पहिले अ-ज्ञान होते समय उसने ही उपधियाँ (= स्कंध, काय, क्लेश, कर्म) ग्रहणकी = समादिन्न होती हैं; (अय) वह उसकी प्रभिन्न = उच्छिन्न-मूल, कटे शिर वाले ताड़ जैसी, अभाव-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न होनेके अयोग्य होती है । इसलिये ऐसे (गुणोंसे) युक्त भिक्षु इस परम त्याग-अधिष्ठान से संयुक्त होता है । भिक्षु ! यही परम आर्य-त्याग है, जो कि सारी उपधियोंका परित्याग ।

“० अज्ञान होते समय उसे अभिघ्या (= लोभ) छन्द, राग होता है; (अय) वह ० उच्छिन्न मूल ० होते हैं । ० अज्ञान होते समय, उसे आघात व्यापाद संब्र-द्वेष होते हैं; ० । ० अज्ञान होते समय अविद्या, सम्मोह होता है; ० । इसलिये ऐसे (गुणोंसे) युक्त भिक्षु इस परम उपशम-अधिष्ठानसे युक्त होता है । भिक्षु ! यही परम आर्य उपशम है, जो कि यह राग, द्वेष और मोहका उपशम (= शमन, शांत होना) ।

“यह जो कहा—‘प्रज्ञासे प्रमाद न करे, सत्यकी रक्षा कर, त्यागको बढ़ावे, उपशमका ही अभ्यास करे’—वह इसीलिये कहा ।

(५) “यह जो कहा—‘जहाँ स्थित (इसके) मान और उत्सव नहीं प्रवृत्त होते । मान और उत्सवके न प्रवृत्त होनेपर—(वह) शान्त मुनि कहा जाता है’—सो किस लिये कहा ? भिक्षु ! ‘मैं हूँ’—यह मान (= मन्यता) है । ‘यह मैं हूँ’—यह मान है । ‘हूँगा’—यह मान है । ‘नहीं होऊँगा’—यह मान है । ‘अ-रूपी होऊँगा’—० । ‘संज्ञी होऊँगा’—० । ‘अ-संज्ञी होऊँगा’—० । ‘नैवसंज्ञी-नासंज्ञी होऊँगा’—० । भिक्षु ! मान (= मान्यता) रोग है, ० गंड (= फोटा) है, मान शाल्य है । भिक्षु ! सारे मानोंका अतिक्रमण कर शान्त मुनि कहा जाता है । भिक्षु ! शान्त मुनि जन्म-जरा-मरणको नहीं प्राप्त होता, न कुपित होता है, न सृष्टा करता है । वही उसके पास नहीं है, जिस जन्मतासे न जन्मा क्या जराको प्राप्त होगा ? न जराको प्राप्त क्या कोपेगा ? न कुपित हुआ क्या सृष्टा करेगा । यह जो कहा—‘जहाँ स्थित ०’—सो इसलिये कहा ।

“भिक्षु ! मेरे संक्षेपसे कहे इन छः धातुओंको धारण कर ।”

तव आयुष्मान् पुक्कुसाति—‘अहो, शास्ता मुझे मिल गये, सुगत ०’ सम्यक्-संबुद्ध मुझे मिल गये’—(सोच); आसनसे उठ उत्तरासंग (= उपरने)को एक (धार्य) कंधेपर कर, भगवान्के पैरोंमें शिरसे पढ़कर भगवान्से यह बोले—

“भन्ते ! बाल = मूढ़ = अकुशलकी तरह (मेरे) अपराधको क्षमा करें; जो कि मैंने भगवान्को ‘आवुस’^१ कह कर पुकारा । भन्ते ! उस मेरे अपराधको, आगे संयम करनेके लिये भगवान् बोतेके तौरपर स्वीकार करें ।”

“भिक्षु ! जो तूने बाल ० की तरह अपराध किया । जो कि तूने मुझे ‘आवुस’ कह कर पुकारा । चूँकि, भिक्षु ! तू अत्यय (= अपराध)को अत्ययके तौर पर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करता है; (इसलिये) उसे हम स्वीकार करते हैं । भिक्षु ! आर्य-विनय (सत्पुरुषोंकी रीति)में यह वृद्धि (= लाम) ही है, जो कि अपराधको अपराधके तौरपर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करता है, भविष्यमें संवर (= संयम) रखता है ।”

“मिले भन्ते ! मुझे भगवान्के पाससे उपसंपदा ।”

“भिक्षु ! क्या तेरे पास पात्र-चीवर^२ पूरे हैं ?”

^१ आवुस मित्र या भाईके अर्थमें बराबरवालेके लिये प्रयुक्त होता था ।

^२ तीन चीवर हैं—अन्तरवासक (= डुंगी), उत्तरासंग (= इकहरी ऊपर लेनेकी चादर), संवादी (= दुसरा उत्तरासंग सड़ीके लिये) और एक मिश्रापात्र एक भिक्षुके लिये जरूरी है ।

“मन्ते ! मेरे पास पात्र-चीवर पूरे नहीं हैं ।”

“भिष्णु ! तथागत अ-परिपूर्ण पात्र-चीवर वालेको उपसंपादित (= भिक्षुकी दीक्षासे दीक्षित) नहीं करते ।”

तय आयुष्मान् पुक्कुसाति भगवान्के मापणको अभिनंदित = अनुमोदित कर, आसनसे उठ कर, भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, पात्र-चीवरकी खोजमें चल पड़े । तय पात्र-चीवर की खोजमें फिरते आयुष्मान् पुक्कुसातिको एक पागल गायने सार ढाला । तय बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने भगवान्से यह कहा—

“मन्ते ! जो वह पुक्कुसाति नामक कुल-पुत्र; जिसे कि भगवान्ने संक्षेपने उपदेश किया; वह काल कर गया । उसकी क्या गति होगी = क्या अभियंपराय (= परलोक) होगी ?”

“भिष्णुओ ! पुक्कुसाति कुलपुत्र पंडित, सत्यवादी धर्मानुसार (चलनेवाला) था, उसने मुझे धर्मसे कोई पीड़ा नहीं दी । भिक्षुओ ! पुक्कुसाति कुलपुत्र पाँचों अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षयसे औपपातिक (= अयोजित देव) हो वहाँ (देवलोकमें) निर्वाण पानेवाला है, उन लोकसे न लौटनेवाला है ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के मापणको अभिनंदित किया ।

१४१—सच्च-विभंग-सुत्तन्त (३।४।११)

चार आर्य-सत्य

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् वाराणसीमें ऋषिपतन-भृगदाव^१में विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संघोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् सम्यक्-संबुद्धने वाराणसी ऋषिपतन-भृगदावमें अनुपम धर्म-चक्रको प्रवर्तित किया (= धुमाया), (जोकि) श्रमण-ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा या लोकमें किसीसे भी उल्टाया नहीं जा सकता । जोकि यह चार आर्य-सत्त्योंका आख्यान = देशना = प्रज्ञापन = प्रस्थापन = विवरण = विभाजन = उत्तानीकरण (= स्पष्टीकरण) करना है । किन चारोंका ?—दुःख-आर्य-सत्यका आख्यान ० । दुःख-समुदय-आर्य-सत्यका ० । दुःख निरोध-आर्य-सत्यका ० । दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपदा-आर्य-सत्यका ० । भिक्षुओ ! तथागत ० ने ० धर्म-चक्रको प्रवर्तित किया, (जोकि) ० ।

“भिक्षुओ ! सारिपुत्र, और मौद्गल्यायनको सेवन करो, ० मजन करो । भिक्षुओ ! सारि-पुत्र, मौद्गल्यायन पंडित हैं, सब्रह्मचारियोंके अनुग्राहक हैं । भिक्षुओ ! जन्मदाता (= पिता)की तरह सारिपुत्र हैं; जन्मेको पोपनेवालेकी तरह मौद्गल्यायन है । भिक्षुओ ! सारिपुत्र (अधिकारीको) स्रोत-आपत्तिकालमें प्रास कराता है; और मौद्गल्यायन उत्तम-अर्थ (= पदार्थ = निर्वाण) में ! भिक्षुओ ! सारिपुत्र चार आर्य-सत्त्योंका विस्तारपूर्वक आख्यान ० उत्तानीकरण कर सकता है ।”

भगवान्ने यह कहा, यह कह सुगत आसनसे उठ विहारमें चले गये ।

तब भगवान्के चले जानेके थोड़े ही समय बाद आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको संघोधित किया—“आवुस भिक्षुओ !”

“आवुस !”—(कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—“आवुसो ! तथागत ० ने वाराणसी ० में अनुपम धर्म चक्रको प्रवर्तित किया ० दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा आर्य-सत्यका ० उत्तानीकरण किया । क्या है आवुसो ! दुःख आर्य-सत्य ?—०^२

“यह कही जाती है, आवुसो ! दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा आर्य-सत्य । आवुसो ! तथागत ० ने ० धर्मचक्रको प्रवर्तित किया । ० दुःख निरोधगामिनी आर्य-सत्यका ० उत्तानीकरण किया ।”

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रके मापणको अभिनंदित किया ।

^१ नारनाथ ।

^२ देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ १२३-२७ ।

१४२—दक्खिणा-विभंग-सुत्तन्त (३।४।१२)

संघ व्यक्ति ऊपर है

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् शाक्यों (के देश)में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे । तब महाप्रजापती गौतमी नये दुस्स (= दुस्से)के जोड़ेको लेकर, जहाँ भगवान् थे वहाँ आई । आकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठी, महाप्रजापती गौतमीने भगवान्को यों कहा—“भन्ते ! यह अपना ही काता, अपना ही दुना, मेरा यह नया धुल्ला-जोड़ा भगवान्को (अर्पण है) । भन्ते ! भगवान् अजुकम्पा (= कृपा) कर, इसे स्वीकार करें ।”

ऐसा कहनेपर भगवान्ने महाप्रजापती गौतमीसे कहा—

“गौतमी ! (इसे) संघको देदे । संघको देनेसे मैं भी पूजित हूँगा, और संघ भी ।”

दूसरी बार भी ० कहा—“भन्ते यह ०” । ...“गौतमी ! संघको दे ०” । तीसरी बार भी ० ।

यह कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यों कहा—

“भन्ते ! भगवान् महाप्रजापती गौतमीके धुल्ला-जोड़ेको स्वीकार करें । भन्ते ! आपादिका (= अभिमाविका), पोपिका, क्षीर-दायिका (होनेसे), भगवान्की मौसी महाप्रजापती गौतमी बहुत उपकार करनेवाली है । इसने जननीके मरनेपर भगवान्को दूध पिलाया । भगवान् भी महाप्रजापती गौतमीके सहोपकारक हैं । भन्ते ! भगवान्के कारण महाप्रजापती ० इन्द्रकी शरण आई, धर्मकी शरण आई, संघकी शरण आई । भगवान्के कारण भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी प्राणातिपात (= हिंसा)में विरत हुई । अदत्तादान (= धिना दिये लेना = चोरीसे) विरत हुई । काम-मिथ्याचारसे ० मृपावादसे (= झूठ बोलना)से ० । सुरा-मेरय (= पत्नी शराय)-मद्य-प्रमादस्थान (= प्रमाद करनेकी जगह)से ० । भगवान्के कारण भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा (= प्रसाद) युक्त, धर्ममें अत्यन्त प्रसाद-युक्त, संघमें अत्यन्त प्रसाद-युक्त (हुई); आर्य (= उत्तम) कांत (= कमनीय = सुन्दर) शीलोंने युक्त (हुई) । भगवान्के ही कारण भन्ते ! ० दुःखसे वेपिक्र हुई, दुःख-समुदयसे ०, दुःख-निरोधसे ०, दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपदसे ० । भगवान् भी भन्ते ! महाप्रजापती गौतमीके महाउपकारक हैं ।”

“आनन्द ! यह ऐसा ही है, पुद्गल (= व्यक्ति = प्राणी) पुद्गलके सहारे बुद्धका शरणागन होता है, धर्मका ०, संघका ० । लेकिन आनन्द ! जो यह अभिवादन, प्रत्युपरदान (= सेवा), अञ्जलि जोड़ना = समीची करना, चीवर, पिंड-पात, शयनासन, ग्लान (= रोगी)को पद-औषध देना है, (इसे) मैं इस पुद्गलका उस पुद्गलके प्रति सुप्रतिकार (= प्रत्युपकार) नहीं कहता । जो (कि यह) पुद्गल (दूसरे) पुद्गलके सहारे प्राणातिपात ०, अदत्तादान ०,

काम-मिथ्याचार ०, मृपावाद ०, सुरा-भेरय-मद्य-प्रमाद-स्थानसे विरत होता है ! आनन्द ! जो यह अभिवादन ० । जो यह आनन्द ! पुद्गल पुद्गलके सहारे दुःखसे वेफिक होता है ० ।

आनन्द ! यह चौदह प्राति-पुद्गलिक (= व्यक्तिगत) दक्षिणायें (= दान) हैं । कौनसी चौदह ? तथागत अर्हत्-सम्यक्-संबुद्धको दान देता है; यह पहिली प्राति-पुद्गलिक दक्षिणा है । प्रत्येक संबुद्धको दक्षिणा देता है; यह दूसरी ० । तथागतके श्रावक (= शिष्य) अर्हत्को ० तीसरी ० । अर्हत्-फलके साक्षात् करनेमें लगे हुयेको ० चौथी ० । अनागामीको ० पाँचवीं ० । अनागामि-फल साक्षात् करनेमें लगे हुयेको ० छठीं ० । सकृदागामीको ० सातवीं ० । सकृदागामि-फल साक्षात् करनेमें लगेको ० आठवीं ० । सोतापन्नको ० नवीं ० । सोतापत्ति (= स्रोत आपत्ति)-फल साक्षात् करनेमें लगेको ० दसवीं ० । गाँवके घाहरके वीत-रागको ० ग्यारहवीं ० । शीलवान् पृथग्जन (स्रोत आपत्ति आदिको न प्राप्त)को ० बारहवीं ० । दुःशील पृथग्जनको ० तेरहवीं ० । तिर्यग्योनिगत (= पशु पक्षी आदि)को ० चौदहवीं ० । वहाँ आनन्द ! तिर्यग्योनि-गतको दान देनेमें साँगुनी दक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये । दुःशील पृथग्जनमें ० हजार गुनी ० । शील-वान् पृथग्जनमें ० सौ हजार ० । ० सौ हजार करोड़ ० । स्रोत आपत्ति फल साक्षात् करनेमें लगेको दान दे ० असंख्य (= अनगिनत) अप्रमेय (= प्रमाण रहित) दक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये । फिर स्रोतआपन्नकी बात क्या कहनी है ? फिर सकृदागामी ० ? फिर अनागामी ० ? फिर अर्हत् ० ? फिर प्रत्येक-बुद्ध ० ? फिर तथागत अर्हत् सम्यक् संबुद्ध ० ?

“आनन्द ! यह सात संघ-गत (= संघमेंकी) दक्षिणायें हैं । कौनसी सात ? बुद्ध प्रमुख दोनों संघोंको दान देता है; यह पहिली संघ-गत दक्षिणा है । तथागतके परिनिर्वाणपर १दोनों संघोंको ० दूसरी ० । भिक्षु-संघको ० तीसरी ० । भिक्षुणी-संघको ० चौथी ० । मुझे संघ इतने भिक्षु भिक्षुणी उद्देश करें (= दान देनेके लिये दे), ऐसे दान देता है ० वह पाँचवीं ० । मुझे संघमेंसे इतने भिक्षु ० छठीं ० । मुझे संघमेंसे इतनी भिक्षुणियाँ ०, सातवीं ० ।

“आनन्द ! भविष्यकालमें भिक्षु-नाम-धारी (= गोत्रभू), कापाय-मात्र-धारी (= कापाय-कंठ) दुःशील, पाप-धर्मा (= पापी) (भिक्षु) होंगे । (लोग) संघके (नामपर) उन दुःशीलोंको दान देंगे । उस वक्तभी आनन्द ! मैं संघ-विषयक दक्षिणाको असंख्येय, अपरिमित (फलवाली) कहता हूँ । आनन्द ! किसी तरह भी संघ-विषयक दक्षिणासे प्राति-पुद्गलिक (= व्यक्तिगत) दक्षिणाको अधिक फल-दायक मैं नहीं मानता ।

“आनन्द ! यह चार दक्षिणा (= दान)की विशुद्धियाँ (= शुद्धियाँ) हैं । कौनसी चार ? आनन्द ! (कोई कोई) दक्षिणा तो दायकसे परि-शुद्ध होती है, प्रतिग्राहकसे नहीं । (कोई) दक्षिणा प्रति-ग्राहकसे परिशुद्ध होती है, दायकसे नहीं । आनन्द ! (कोई) दक्षिणा न दायकसे शुद्ध होती है, न प्रति-ग्राहकसे । (कोई) दक्षिणा दायकसे भी शुद्ध होती है प्रतिग्राहकसे भी... आनन्द ! दक्षिणा कैसे दायकसे शुद्ध होती है, ...प्रतिग्राहकसे नहीं...? आनन्द ! जय दायक शीलवान् (= सदाचारी) और कल्याणधर्मा (= पुण्यात्मा) हो, और प्रति-ग्राहक हो दुःशील (= दुराचारी) पाप-धर्मा (= पापी); तो आनन्द ! दक्षिणा दायकसे शुद्ध होती है, प्रतिग्राहकसे नहीं । आनन्द ! कैसे दक्षिणा प्रति-ग्राहकसे शुद्ध होती है, दायकसे नहीं ? आनन्द ! जय प्रतिग्राहक शीलवान् और कल्याण-धर्मा हो, (और) दायक हो दुःशील, पाप-धर्मा ० । आनन्द ! कैसे दक्षिणा न दायकसे शुद्ध होती है, न प्रति-ग्राहकसे ? आनन्द ! जय

१ भिक्षु और भिक्षुणीके संघ ।

दायक दुःशील, पाप-धर्मा हो, और प्रतिग्राहक भी दुःशील पाप-धर्मा हो । आनन्द ! कैसे दक्षिणा दायकसे भी शुद्ध होती है, और प्रतिग्राहकसे भी ? आनन्द ! (जब) दायक शीलवान् कल्याण-धर्मा हो (और) प्रतिग्राहक भी शीलवान् कल्याण-धर्मा हो, तो ० । आनन्द ! यह चार दक्षिणा की विशुद्धियाँ हैं ।”

(१४-इति विभंग-ब्रह्म ३।४)

१४३—अनाथपिंडिकोवाद-सुत्तन्त (३।५।१)

अनाथपिंडिको मृत्यु । अनासक्ति योग ।

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय अनाथपिंडिक गृहपति बहुत अधिक रुग्ण, दुःखित, बीमार था । तब अनाथपिंडिक गृहपतिने एक आदमीसे कहा—“हे पुरुष ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ; जाकर मेरे वचनसे भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करो; और यह भी कहो—‘भन्ते ! अनाथपिंडिक गृहपति ० बीमार है; वह भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है’ । (फिर) जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र हैं, वहाँ जाओ; जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान् सारिपुत्रके चरणोंमें शिरसे वन्दना करो; और यह भी कहो—‘भन्ते ! अनाथपिंडिक गृहपति ० बीमार है; वह आयुष्मान् सारिपुत्रके चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है; और यह भी कहो—‘अच्छा हो भन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ अनाथपिंडिक गृहपतिका घर है, कृपा कर वहाँ चलें’ ।”

“अच्छा, भन्ते !”—(कह) उस पुरुषने अनाथपिंडिक गृहपतिसे कह, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादिता कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे, उस पुरुषने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! अनाथपिंडिक गृहपति ० बीमार है; ० वन्दना करता है ।”

(फिर) जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे, उस पुरुषने आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह कहा—

“भन्ते ! अनाथपिंडिक गृहपति ० बीमार है; ० वन्दना करता है । और यह भी कहता है—‘अच्छा हो, भन्ते ! ० कृपा कर वहाँ चलें ।”

आयुष्मान् सारिपुत्रने मौनसे स्वीकार किया ।

तब आयुष्मान् सारिपुत्र पहिनकर, पात्र-चीवर ले, आयुष्मान् आनन्दको अनुगामी श्रमण बना, जहाँ अनाथपिंडिकका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठकर आयुष्मान् सारिपुत्रने अनाथपिंडिक गृहपतिसे यह कहा—

“गृहपति ! ठीक तो है ? (काल-)यापन तो हो रहा है ? दुःखा वेदना हट तो रही है, लौट तो नहीं रही है ? (व्याधिका) हटना तो मालूम हो रहा है; लौटना तो नहीं मालूम हो रहा है ?”

“भन्ते सारिपुत्र ! सुझे ठीक नहीं है; ०^१ अत्यधिक दाह हो रहा है । भन्ते सारिपुत्र ! सुझे ठीक नहीं है ० ।”

^१ देखो पृष्ठ ४०६ ।

“तो ऐसा गृहपति ! अभ्यास करो (= शिक्षितव्य)—‘चक्षुका उपादान न करूँगा, और मेरा विज्ञान (= चित्त) चक्षुमें निश्चित (= आश्रित, आसक्त) न होगा’। ऐसा गृहपति ! अभ्यास करो । तो ० श्रोत्र ० । ० घ्राण ० । ० जिह्वा ० । ० मन ० । ० रूप ० । ० शब्द ० । ० गंध ० । ० रस ० । ० स्प्रष्टव्य ० । ० धर्म ० । ० चक्षुर्विज्ञान ० । ० श्रोत्र-विज्ञान ० । ० घ्राण-विज्ञान ० । ० जिह्वा-विज्ञान ० । ० काय-विज्ञान ० । ० मनो-विज्ञान ० । ० चक्षु-संस्पर्श १ ० । ० श्रोत्र-संस्पर्श ० । ० घ्राण-संस्पर्श ० । ० जिह्वा-संस्पर्श ० । ० काय-संस्पर्श ० । ० मन-संस्पर्श ० । ० चक्षु-संस्पर्शजा वेदना २ ० । ० श्रोत्र-संस्पर्शजा वेदना ० । ० घ्राण-संस्पर्शजा वेदना ० । ० जिह्वा-संस्पर्शजा वेदना ० । ० काय-संस्पर्शजा वेदना ० । ० मनःसंस्पर्शजा वेदना ० । ० पृथिवी-धातु ३ ० । ० आप-धातु ० । ० तेज-धातु ० । ० वायु-धातु ० । ० आकाशधातु ० । ० विज्ञान-धातु ० । ० रूप ० । ० वेदना ० । ० संज्ञा ० । ० संस्कार ० । ० विज्ञान ० । ० आकाशानन्त्यायतन ० । ० विज्ञानानन्त्यायतन ० । ० आर्किचन्यायतन ० । ० नैव संज्ञा-नासंज्ञायतन ० । ० इस लोक ० । तो ऐसा, गृहपति ! अभ्यास करो—‘परलोकका उपादान न करूँगा, और मेरा विज्ञान परलोकमें निश्चित न होगा’—ऐसे गृहपति तुम अभ्यास करो । तो ऐसा, गृहपति ! अभ्यास करो, कि जो कुछ भी तुम्हारा दृष्ट, श्रुत, स्मृत, विज्ञान, प्राप्त, पर्येपित (= खोज किया), अनु-पर्येपित, मन द्वारा अनुचरित है; उसका भी उपादान न करूँगा; और मेरा विज्ञान उसमें निश्चित न होगा—ऐसे गृहपति तुम अभ्यास करो ।”

ऐसा कहनेपर अनाथर्षिडिक गृहपति रो पड़ा, आँसू गिराने लगा । तब आयुष्मान् आनंदने अनाथर्षिडिक गृहपतिसे यह कहा—

“गृहपति ! क्या घबरा रहे हो, दिल छोटा कर रहे हो ?”

“भन्ते आनंद ! मैं घबरा नहीं रहा हूँ, दिल छोटा नहीं कर रहा हूँ; यल्कि भन्ते ! मैंने दीर्घकालसे शास्ताकी उपासना (= सत्संग) की और मनोभावनीय (= भावनामें तत्पर) मिथु भी; किन्तु मैंने ऐसी धार्मिक कथा पहिले नहीं सुननेको पाई ।”

“गृहपति ! श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थोंको ऐसी धार्मिक कथा नहीं समझमें आती; प्रमदजितको, गृहपति ! ऐसी धार्मिक कथा समझमें आती है ।”

“तो, भन्ते सारिपुत्र ! ० गृहस्थोंको भी ऐसी धार्मिक कथा समझनेको मिले । भन्ते ! भत्प मतवाले भी कुलपुत्र हैं; धर्मके न श्रवणसे वह परिहीन (= वंचित) होंगे । (वह) धर्मके जाननेवाले होंगे ।”

तब आयुष्मान् सारिपुत्र और आयुष्मान् आनंद, अनाथर्षिडिक गृहपतिको इन अवसर (= उपदेश)से उपदेश कर, आसनसे उठकर चले गये । आयुष्मान् सारिपुत्र और आयुष्मान् आनंद के चले जानेके थोड़े ही समय याद अनाथर्षिडिक गृहपतिने काल किया । (और) तृपिन-याय (= तृपित देव-लोक)में वह उत्पन्न हुआ ।

तब प्रकाश युक्त रात्रिको ० ४ प्रकाशमान वर्णवाला अनाथर्षिडिक देवपुत्र, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अमिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर गद्दे अनाथ-र्षिडिक देवपुत्रने भगवान्से गाथाओंमें कहा—

१ इन्द्रिय और विषयके समागमको संस्पर्श कहते हैं । २ इन्द्रिय और विषयके मंगरना होनेपर जो मनकी दुःखमय, सुखमय या अदुःख-असुखमय अवस्था होती है, उसे वेदना कहते हैं । ३ जो पदार्थ वस्तुको धारण करते हैं, या उसके उपादान कारण होते हैं । ४ देखो पृष्ठ ५५० ।

“ऋषि-संघसे सेवित ।

धर्मराज^१ का वास रह चुका यह जेतवन मुझे प्रीति^२दायक है ॥ (१) ॥

कर्म, विद्या, धर्म, शील और उत्तम जीवत;

इनसे मनुष्य शुद्ध होते हैं, गोत्र और धनसे नहीं ॥ (२) ॥

इसलिये पंडित पुरुष अपने हितको देखते,

योनिशः^३ धर्मका चयन करे, ऐसे (वह) वहाँ शुद्ध होता है ॥ (३) ॥

प्रज्ञा, शील और उपशममें सारिपुत्रसा देवपुत्र,

पारंगत, जो भिक्षु (हो वह) भी इतना ही महान् होगा ।”

अनाथ-पिंडिक देवपुत्रने यह कहा, (जिससे) शास्ता सहमत हुये । तब अनाथपिंडिक ‘शास्ता सहमत है’—(सोच) भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वहाँ अन्तर्धान होगया ।

तब भगवान्ने उस रातके वीत जानेपर भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! आज रातको ०^४ एक देवपुत्र, जहाँ मैं था, वहाँ आया । आकर मुझे अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े उस देवपुत्रने मुझे गाथाओंमें कहा—

‘ऋषिसंघसे सेवित ०^५ इतना ही महान् होगा’ ।

“उस देवपुत्रने, भिक्षुओ ! यह कहा । ‘शास्ता सहमत है’—(सोच) मुझे अभिवादन कर ० वहाँ अन्तर्धान होगया ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनंदने भगवान्से यह कहा—

“वह, भन्ते ! जरूर अनाथपिंडिक देवपुत्र होगा । भन्ते ! अनाथपिंडिक गृहपति आयुष्मान् सारिपुत्रमें अभिप्रसन्न (= अतिश्रद्धावान्) था ।

“साधु, साधु, आनंद ! जितना कुछ आनंद ! तर्कसे पाया जा सकता है, वह तूने पा लिया है । आनंद ! वह देवपुत्र अनाथपिंडिक था ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनंदने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

^१ बुद्ध ।

^२ खुशी ।

^३ कार्य कारणका खूब ख्याल बतके ।

^४ देखो पृष्ठ ५८३, ५५० ।

^५ देखो ऊपर ।

१४४—छन्नोवाद-सुत्तन्त (३।५।२)

अनात्म-वाद, छन्नको आत्म-हत्या

ऐसा मैंने सुना—

एक समय मगवान् राजगृहमें वैष्णवन् कलंदकनिवापमें विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र, आयुष्मान् महाचुन्द, और, आयुष्मान् महाछन्न, गृध्रद्व पर्वतपर विहार करते थे । उस समय आयुष्मान् छन्न बहुत अधिक रुग्ण, दुःखी^१ बीमार थे । तब आयुष्मान् सारिपुत्र साथकाल, ध्यानसे उठ जहाँ आयुष्मान् महाचुन्द थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् महाचुन्दसे यह कहा—

“बलो, आवुस चुन्द ! बीमारी पूछनेको जहाँ आयुष्मान् छन्न हैं, वहाँ चलो ।”

“अच्छा, आवुस !” — (कह) आयुष्मान् महाचुन्दने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया । तब आयुष्मान् सारिपुत्र और आयुष्मान् महाचुन्द जहाँ आयुष्मान् छन्न थे वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् छन्नके साथ “संभोदनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रने आयुष्मान् छन्नसे यह कहा—

“आवुस छन्न ! ठीक तो है ? (काल-) थापन तो हो रहा है ? ० ^१ लौटना तो नहीं मालूम हो रहा है ?”

“आवुस सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है; ० ^२ अत्यधिक दाह हो रहा है । आवुस सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है ० ^२ । आवुस सारिपुत्र ! शस्त्रमार (आत्महत्या) करूँगा; मैं जीना नहीं चाहता ।”

“मत आयुष्मान् छन्न ! शस्त्रमार (आत्महत्या) करे । गुजार दे, आयुष्मान् छन्न ! हम आयुष्मान् छन्नको गुजारते (देखना) चाहते हैं । यदि आयुष्मान् छन्नको अनुकूल (= सम्पाय) भोजन नहीं (प्राप्त) हैं, (तो) मैं ० खोज लाऊँगा । यदि आयुष्मान् छन्नको धनुरल औषध नहीं (प्राप्त) हैं, (तो) मैं आयुष्मान् छन्नको अनुकूल औषध खोज लाऊँगा । यदि आयुष्मान् छन्नको योग्य (= प्रतिरूप) उपस्थाक (= सेवा करनेवाला) नहीं है, तो मैं आयुष्मान् छन्नका उपस्थान (= सेवा) करूँगा । मत आयुष्मान् छन्न शस्त्र-मार आत्महत्या करे ० गुजारते (देखना) चाहते हैं ।”

“आवुस सारिपुत्र ! मुझे अनुकूल भोजनका अभाव नहीं है । मुझे अनुकूल औषधका अभाव नहीं है । मुझे योग्य उपस्थाकका अभाव नहीं है । वल्लि, आवुस सारिपुत्र ! मैंने शिरकात तक प्रेमके साथ शास्ता (= बुद्ध)का परिचरण (= सेवन) किया, अ-प्रेम (= अ-मनाप)में

^१ देखो पृष्ठ ५८२ ।

^२ देखो पृष्ठ ४०६ ।

नहीं । आवुस सारिपुत्र ! श्रावकके लिये यही योग्य है, जो कि वह शास्ताका प्रेमसे परिचरण करे, अ-प्रेमसे नहीं । 'छन्न भिक्षु पुनर्जन्म-रहित हो शस्त्रमार (आत्महत्या) करेंगे—ऐसा ही, आवुस सारिपुत्र ! तुम धारण करो ।”

“हम आयुष्मान् छन्नसे कुछ पूछें, यदि आयुष्मान् छन्न प्रश्नका उत्तर देनेका अवकाश करें ।”

“पूछो, आवुस सारिपुत्र ! सुनकर समझूँगा ।”

“आवुस छन्न ! चक्षु, चक्षुर्विज्ञान, और चक्षुर्विज्ञान द्वारा (= विज्ञातव्य) जानने योग्य धर्मोंको—‘यह मेरा है’, ‘यह मैं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा है’—समझते हो ? श्रोत्र ० ? घ्राण ० ? जिह्वा ० ? काय ० ? मन ० ?”

“आवुस सारिपुत्र ! चक्षु, चक्षुर्विज्ञान, और चक्षुर्विज्ञान द्वारा विज्ञातव्य धर्मों (= पदार्थों)को—‘यह मेरा नहीं है’ ‘यह मैं नहीं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा नहीं है’—मैं समझता हूँ । श्रोत्र ० । घ्राण ० । जिह्वा ० । काय ० । मन ० ।”

“आवुस छन्न ! चक्षुमें, चक्षुर्विज्ञानमें, चक्षुर्विज्ञान द्वारा विज्ञातव्य धर्मोंमें क्या देख, क्या जान, चक्षु, चक्षुर्विज्ञान, चक्षुर्विज्ञान द्वारा विज्ञातव्य धर्मोंको—‘यह मेरा नहीं है’—समझते हो ? श्रोत्र ० ? घ्राण ० ? जिह्वा ० ? काय ० ? मन ० ?”

“आवुस सारिपुत्र ! चक्षुमें ० धर्मोंमें निरोध (= विनश्वरता)को देख, निरोधको जान; चक्षु ० धर्मोंको—‘यह मेरा नहीं है’ ०—समझता हूँ । श्रोत्र ० । घ्राण ० । जिह्वा ० । काय ० । मन ० ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् महाचुन्दने आयुष्मान् छन्नसे यह कहा—

“तो, आवुस छन्न ! उन भगवान्के इस सनातन (= नित्यकल्प) शासन (= उपदेश) को भी मनमें करना चाहिये—‘ (तृष्णामें) निश्चित (= बद्ध)का (चित्त) चलित होता है, अ-निश्चितका चलित नहीं होता । चलित (रागादिके पर्युत्थान) न होनेपर प्रश्रब्धि (= एकाग्रता), प्रश्रब्धि होनेपर नति (= तृष्णा) नहीं होती; नतिके न होनेपर आगति-गति (= आवागमन) नहीं होती । आगति-गतिके न होनेपर च्युति (= मृत्यु) उपपाद (= उत्पत्ति) नहीं होती । च्युति-उपपाद न होनेपर न यहाँ (= इस लोकमें) न वहाँ (= परलोकमें) न दोनोंमें होता है । यही दुःखका अंत है ।”

तब आयुष्मान् सारिपुत्र और आयुष्मान् चुन्द इस अववाद (= उपदेश)से आयुष्मान् छन्नको उपदेश कर आसनसे उठकर चले गये । तब आयुष्मान् सारिपुत्र और आयुष्मान् चुन्दके चले जानेके थोड़ेही समय बाद, आयुष्मान् छन्नने शस्त्रमार (आत्महत्या) करली । तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! आयुष्मान् छन्नने शस्त्रमार (आत्महत्या) करली । उनकी क्या गति, क्या अभिसंपराय (= परलोक) होगा ?”

“क्यों, सारिपुत्र ! छन्न भिक्षुने तेरे सामने ही पुनर्जन्म-रहित होनेका व्याकरण (= कथन) किया था ।”

“भन्ते ! वज्जी^१ (देश)में पञ्चजित-द्वित गाँव है; वहाँ भन्ते ! आयुष्मान् छन्नके मित्र-कुल, सुहृद्-कुल उपगतव्य (= जिनके पास जाया जाये) कुल हैं (रहते हैं) ।”

^१ मुजफ्फरपुर, चम्पारनके जिले तथा कुछ आसपासके प्रदेश ।

“सारिपुत्र ! मैं इतनेसे ‘उपग्रज्य’ (= जाने आनेके संसर्गवाला) नहीं कहता । सारिपुत्र ! जो इस कायाको छोड़ता है, और दूसरी कायाको ग्रहण करता है उसे मैं ‘उप-ग्रज्य’ कहता हूँ । वह छन्न मिथुको नहीं था । ‘अन्-उप-ग्रज्य (= पुनर्जन्मरहित) हो छन्न मिथुने शस्त्रमार (आत्म-हत्या) की’—इस प्रकार इसे सारिपुत्र ! समझो (= धारण करो) ।”

भगवान् ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान् के भाषणको अभिनन्दित किया ।

१४५—पुराणोवाद-सुत्तन्त (३।५।३)^१

धर्म प्रचारककी सहिष्णुता और त्याग

ऐसा मैंने सुना—०

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथर्षिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् पूर्ण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् पूर्णने भगवान्से कहा—

“अच्छा हो, भन्ते ! भगवान् मुझे संक्षिप्तसे धर्म-उपदेश करें, जिस धर्मको भगवान्से सुनकर मैं एकाकी, एकान्ती, अप्रमादी, उद्योगी, संयमी हो विहार करूँ ।”

“पूर्ण ! चक्षुसे विज्ञेय रूप इष्ट = कान्त = मनाप, प्रियरूप = कामोपसंहित, रंजनीय होते हैं । जब भिक्षु उनका अभिनन्दन करता = स्वागत करता, अध्यवसाय करता है । अभिनन्दन करते, ० अध्यवसाय करते हुये उसको, नन्दी (= तृष्णा) उत्पन्न होती है । पूर्ण ! नन्दीकी उत्पत्ति (= समुदय)से दुःखका समुदय कहता हूँ । पूर्ण ! जिह्वासे विज्ञेय रस इष्ट ० । पूर्ण ! चक्षुसे विज्ञेय रूप इष्ट ० हैं । यदि भिक्षु उन्हें अभिनन्दन ० नहीं करता । ० । उसकी नन्दी (= तृष्णा) निरुद्ध (= विलीन) हो जाती है । पूर्ण ! नन्दीके निरोधसे दुःखका निरोध कहता हूँ । ० । पूर्ण ! मनसे विज्ञेय (= ज्ञातव्य) धर्म इष्ट ० हैं । ० । पूर्ण मेरे इस संक्षिप्तमें कथित अववाद (= उपदेश)से उपदिष्ट हो, कौनसे जनपदमें तू विहार करेगा ?”

“भन्ते ! सूनापरान्त नामक जनपद है, मैं वहाँ विहार करूँगा ।”—“पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य चण्ड हैं, ० परुष (= कठोर) हैं । जो पूर्ण ! तुझे सूनापरान्तके मनुष्य आक्रोशन = परिभाषण (= कुवाच्य) करेंगे, तो……तुझे क्या होगा ?”

“यदि भन्ते ! सूनापरान्तके मनुष्य मुझे आक्रोशन = परिभाषण करेंगे, तो मुझे ऐसा होगा—‘सूनापरान्तके मनुष्य मद्र हैं ०, सुमद्र हैं; जो कि यह मुझपर हाथसे प्रहार नहीं करते’—मुझे भगवान् ! (ऐसा) होगा, सुगत ! ऐसा होगा ।”

“यदि, पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझपर हाथसे प्रहार करें, तो पूर्ण ! तुझे क्या होगा ?”

“ ० भन्ते ! मुझे ऐसा होगा—‘यह सूनापरान्तके मनुष्य मद्र हैं, ० सुमद्र हैं; जो कि यह मुझे हँडेसे नहीं मारते ० ।’”

० । ० हँडेसे नहीं मारते । ० ० । ० शस्त्रसे नहीं मारते । ० ० । ० शस्त्रसे मेरे प्राण नहीं ले लेते । ०

^१ संयुक्त-निकाय (३।५।३) में भी ।

“यदि पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझे तीक्ष्ण दृष्टसे मार डालें। तो पूर्ण ! तुझे क्या होगा ?”

“० मुझे, मन्ते ! ऐसा होगा—‘उन भगवान्के कोई कोई श्रावक (गिष्य) हैं, जो जिन्दगीसे तंग आकर, ऊब कर घृणा कर, (आत्म-हत्यार्थ) शस्त्र-हारक (= शस्त्र लगा लेना) खोजते हैं। सो मुझे यह शस्त्र-हारक बिना खोजे ही मिल गया।’ भगवान् ! मुझे ऐसा होगा। सुगत ! मुझे ऐसा होगा।”

“साधु ! साधु !! पूर्ण !!! साधु पूर्ण ! तू इस प्रकारके शम, दमसे युक्त ही, सूनापरान्त जनपदमें वास कर सकता है। जिसका तू काल समझे (बैसा कर)।”

तय आयुष्मान् पूर्ण भगवान्के वचनको अभिनन्दन कर अनुमोदन कर, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन सँभाल, पात्र-चीवर ले, जिधर सूनापरान्त जनपद था, उधर चारिकाको चल पड़े। क्रमशः चारिका धरते जहाँ सूनापरान्त जनपद था, यहाँ पहुँचे। आयुष्मान् पूर्ण सूनापरान्त जनपदमें विहार करते थे।

तय वहाँ आयुष्मान् पूर्णने उसी वर्षाके भीतर पाँच सौ उपासकोंको ज्ञान कराया। उसी वर्षाके भीतर पाँच सौ उपासिकाओंको ज्ञान कराया, उसी वर्षाके भीतर उन्होंने (स्वयं) भी तीनों विद्याओंका साक्षात्कार किया। तय आयुष्मान् पूर्ण दूसरे समय परिनिर्वाणको प्राप्त हुये।

तय बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे वहाँ, “जाकर भगवान्को अभिवादनकर, ... एक ओर बैठे हुये यह बोले—

“मन्ते ! वह पुण्ण (= पूर्ण) नामक कुलपुत्र था, जिसे कि भगवान्ने संक्षेपसे उपदेश दिया था, वह काल कर गया; उसकी क्या गति है, क्या अभिर्मपराय होगा ?”

“भिक्षुओ ! पुण्ण कुलपुत्र, पंडित, सत्यवादी, धर्मानुसार (चलनेवाला) था। उसने धर्म से मुझे कोई पीड़ा नहीं दी। भिक्षुओ ! पूर्ण कुलपुत्र परिनिर्वाणको प्राप्त हुआ।”

भगवान्ने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिर्नदित किया।

१४६—नन्दकोवाद-सुत्तन्त (३।५।४)

अनात्म-वाद । बोध्यं

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब महाप्रजापती गौतमी पाँच सौ भिक्षुणियोंके साथ, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गईं; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर खड़ी हुई । एक ओर खड़ी महाप्रजापती गौतमीने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! भगवान् भिक्षुणियोंको उपदेश दें । भन्ते ! भगवान् भिक्षुणियोंको अनुशासन करें । भन्ते ! भगवान् भिक्षुणियोंको धार्मिक कथा कहें ।”

उस समय स्वविर भिक्षु वारी वारी (= पर्याय)से भिक्षुणियोंको उपदेश किया करते थे । आयुष्मान् नन्दक (अपनी) वारीमें भिक्षुणियोंको उपदेश देना नहीं चाहते थे ।

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको संवोधित किया—

“आनन्द ! वारी वारीसे भिक्षुणियोंको उपदेश करनेमें, आज किसकी उपदेश करनेकी वारी है ?”

“भन्ते ! यह आयुष्मान् नन्दक वारीमें भिक्षुणियोंको उपदेश देना नहीं चाहते ।”

तब भगवान्ने आयुष्मान् नन्दकको संवोधित किया—

“नन्दक ! भिक्षुणियोंको उपदेश दे । नन्दक ! भिक्षुणियोंको अनुशासन कर । ब्राह्मण ! तू भिक्षुणियोंको धार्मिक कथा कह ।”

“अच्छा, भन्ते !”—(कह) भगवान्को उत्तर दे, आयुष्मान् नन्दक पूर्वाह्न समय पहिन कर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें भिक्षाटन कर भोजनोपरान्त भिक्षासे निवृत्त हो, एक भिक्षुके साथ (= आत्मद्वितीय) जहाँ राजकाराम ^१ था, वहाँ गये । उन भिक्षुणियोंने दूरसे ही आयुष्मान् नन्दकको आते देखा । देखकर आसन बिछा दिया, और पैरोंको (धोनेके लिये) पानी भी (रख दिया) । आयुष्मान् नन्दक बिछे आसनपर बैठ गये; बैठकर पावोंको पखारा, वह भिक्षुणियाँ भी आयुष्मान् नन्दकको अभिवादनकर एक ओर बैठ गईं । एक ओर बैठी उन भिक्षुणियोंसे आयुष्मान् नन्दकने यह कहा—

“मगिनियो ! प्रतिपृच्छ (= पूछ पूछकर) कथा होगी, सो जो जानती है, उन्हें ‘जानती हूँ’—कहना चाहिये; जो नहीं जानती, उन्हें ‘नहीं जानती हूँ’—कहना चाहिये । और जिसका काक्षा (= संदेह) या विमति (= भ्रम) हो, (उन्हें) मुझे ही पूछना चाहिये—‘यह भन्ते !

^१ श्रावस्ती नगरके भीतर यह भिक्षुणियोंका विहार था ।

कैसे, इसका क्या अर्थ है' ।”

“मन्ते ! आर्य नन्दकके हतने (कहने)से भी हम सन्तुष्ट, = अभिरुद्धा हैं; जोकि आर्य (= अथ्य) नन्दक हमें प्रवारित (= तुष्ट) करते हैं ।”

“तो क्या मानती हो, भगिनियो ! चक्षु नित्य है या अनित्य ?”

“अ-नित्य है, मन्ते !”

“जो (पदार्थ) अनित्य है, वह दुःख है या सुख ?

“दुःख, मन्ते !”

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणामधर्मा (= परिवर्तन शील) है, क्या उसे—‘यह मैं हूँ’, ‘यह मेरा है’, ‘यह मेरा आत्मा है’—ऐसा समझना युक्त (= कल्प) है ?”

“नहीं, मन्ते !”

“तो क्या मानती हो, भगिनियो ! श्रोत्र ० । ० घ्राण ० । ० जिह्वा ० । ० काय ० ।”

“तो क्या मानती हो, भगिनियो ! मन नित्य है या अनित्य ?”

“ ० ऐसा समझना युक्त है ?”

“नहीं मन्ते !”

“तो किस हेतु ?”

“मन्ते ! पूर्व ही हमने इसको यथार्थ कह ठीकसे प्रज्ञा द्वारा सुदेखा था—‘यह मेरे आप्यात्मिक आयतन अ-नित्य हैं’ ।”

“साधु, साधु, भगिनियो ! आर्यश्रावकको इसे यथार्थतः ठीकसे प्रज्ञाद्वारा देखनेपर ऐसा होता है ।”

“तो क्या मानती हो, भगिनियो ! रूप नित्य है या अ-नित्य ?”

“अनित्य है, मन्ते !” ० ।

“ ० शब्द ० ?” “ ० अ-नित्य ० !” ० ।

“ ० गन्ध ० ?” “ ० अ-नित्य ० !” ० ।

“ ० रस ० ?” “ ० अनित्य ० !” ० ।

“ ० स्प्रष्टव्य ० ?” “ ० अनित्य ० !” ० ।

“ ० धर्म ० ?” “ ० अ-नित्य ० !” ० ।

“तो किस हेतु ?” “मन्ते ! पूर्व ही ०’ ।”

“साधु, साधु, भगिनियो ! ० ।

“तो क्या मानती हो, भगिनियो ! चक्षु-विज्ञान नित्य है या अनित्य ?”

“अ-नित्य, मन्ते !” ० ।

“ ० श्रोत्र-विज्ञान ० ?” “ ० अ-नित्य ० !” ० ।

“ ० घ्राण-विज्ञान ० ?” “ ० अ-नित्य ० !” ० ।

“ ० जिह्वा-विज्ञान ० ?” “ ० अ-नित्य ० !” ० ।

“ ० काय-विज्ञान ० ?” “ ० अ-नित्य ० !” ० ।

“ ० मनो-विज्ञान ० ?” “ ० अ-नित्य ० !” ० ।

“तो किस हेतु ?” “मन्ते ! पूर्व ही ०’ ।”

“साधु, साधु, भगिनियो ! ० ।

“जैसे, भगिनियो ! जलते तेल-प्रदीपका तेल भी अ-नित्य है = विपरिणाम-धर्मा है, वही:

मी अ-नित्य = विपरिणाम-धर्मा है, अर्चि (= लौ) भी अ-नित्य = विपरिणाम-धर्मा है, आमा (= प्रकाश) भी ० । भगिनियो ! जो ऐसा कहे—इस जलते तेल-प्रदीपका तेल भी अ-नित्य है ०, घत्ती भी ०, अर्चि भी ०, किन्तु जो इसकी आमा (= प्रकाश) है, वह नित्य = ध्रुव = शाश्वत = अ-विपरिणाम-धर्मा है । भगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगा ?”

“नहीं, मन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“मन्ते ! इस जलते तेल-प्रदीपका तेल भी अनित्य है, घत्ती भी ०, अर्चि भी ०, तो आमा तो पहिले ही अ-नित्य = विपरिणाम-धर्मा हो गई !”

“ऐसे ही, भगिनियो ! जो यह कहे—‘मेरे छः आध्यात्मिक आयतन^१ तो अ-नित्य हैं; किन्तु छः आयतनोंको लेकर (= प्रतीत्य) जो अनुभव (= प्रतिसंवेदन होता है—सुख, दुःख, या अ-दुःख-अ-सुख, वह नित्य = ध्रुव = शाश्वत = अ-विपरिणाम धर्मा है । भगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगा ?”

“नहीं, मन्ते !”

“सो, किस हेतु ?”

“मन्ते ! उस उस प्रत्यय (= कारण)को लेकर वह वेदना उत्पन्न होती है; उस उस प्रत्ययके निरोधसे वह वह वेदना निरुद्ध होती है ।”

“साधु, साधु, भगिनियो ! ० ।

“जैसे, भगिनियो ! (एक) खड़े सारवान् महावृक्षका मूल भी अनित्य है = विपरिणाम धर्मा है, स्कंध भी ०, शाखा-पत्र भी ०, छाया भी ० । भगिनियो ! जो यह कहे—इस ० महावृक्ष का मूल भी ०, स्कंध भी ०, शाखा-पत्र भी अनित्य = विपरिणाम-धर्मा है, किन्तु जो इसकी छाया है, वह नित्य ० है । भगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेंगे ?”

“नहीं, मन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“मन्ते ! इस ० महावृक्षका मूल भी ०, ० शाखा-पत्र भी अनित्य ० है; तो छाया तो पहिले ही, अ-नित्य ० हुई ।”

“ऐसे ही भगिनियो ! जो यह कहे—‘मेरे छः बाह्य आयतन तो अ-नित्य हैं, किन्तु छः बाह्य-आयतनोंको लेकर जो अनुभव (= वेदना) सुख, दुःख या अ-दुःख-अ-सुख होता है, वह नित्य = ध्रुव ० है । भगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगा ?”

“नहीं मन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“मन्ते ! उस उस प्रत्ययको लेकर ० निरुद्ध होती है ।”

“साधु, साधु, भगिनियो ! ० ।

“जैसे, भगिनियो ! चतुर गोघातक या गोघातकका शागिर्द (= अन्तेवासी) गायको मारकर, तेज गाय काटनेके छुरेसे गायके भीतरी नांस और बाहरी चमड़ेको नुकसान पहुँचाये बिना (= अनुपहत्य) गायको काटे—जो जो वहाँ भीतर विलिप्त, स्नायु (= नस), बंधन हैं, उस तेज ० छुरेसे छिदन करे, फाटे...। छिदनकर काटकर... बाहरी चमड़ेको झाड़ फटकार कर, उसी चमड़ेमें उस गायको ढाँक कर यह कहे—‘यह गाय वैसे (= पहिलेकी तरह) ही इस चर्मसे युक्त है’ । भगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगा ?”

“नहीं मन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“उसे मन्ते ! चतुर गोघातकने ० इस चर्मसे युक्त हैं, लेकिन वह गाय उन चर्मसे युक्त नहीं है ।”

“मगिनियो ! अर्थको समझानेके लिये मैंने यह उपमा (= इष्टांत) कही । यह यहाँ अर्थ है—मीतरी मांस-काय (= ० समुदाय) यह छः आप्यात्मिक आयतनोंका नाम है । घाहरी चर्मकाय यह छः बाह्य आयतनोंका नाम है । मीतरी विलिप्त, मीतरो स्नायु मीतरी वंधन, यह मगिनियो ! नन्दी = रागका नाम है । तीक्ष्ण गोविकर्त्तन (= गाय काटनेका छुरा) यह आर्य प्रज्ञाका नाम है; जो यह आर्य प्रज्ञा मीतर क्लेश (= मल), मीतरी संयोजन = मीतरी वंधनको छेदन करती है, काटती है” ।

“मगिनियो ! यह सात बोध्यंग हैं, जिनकी भावना = बहुलीकरण (= अन्यास) करनेसे, मिश्रु इसी जन्ममें आस्रबोके क्षयसे आस्रव-रहित (= अनास्रव) चेतो-विमुक्ति प्रशामुक्ति-को स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता है । कौनसे सात ?—यहाँ, मगिनियो ! मिश्रु विवेक-निश्चित (= एकान्त चिन्तनसे संयद्ध), विराग-निश्चित, निरोध-निश्चित व्यवसर्ग (= त्याग) परिणामवाले स्मृति-संबोध्यंगकी भावना करता । ० धर्म-विचय-संबोध्यंग ० । ० वीर्य-संबोध्यंग ० । ० प्रीति-संबोध्यंग ० । ० प्रश्रब्धि-संबोध्यंग ० । ० समाधि-संबोध्यंग ० । ० उपेक्षा-संबोध्यंग ० । ० मगिनियो ! यह सात बोध्यंग हैं, जिनकी भावना ० करनेमें ० इसी जन्ममें ० प्रज्ञा विद्युक्तिको ० प्राप्त कर विहरता है ।”

तब आयुष्मान् नन्दकने मिश्रुणियोंको इस अववाद (= उपदेश)में उपदेश कर प्रेरित किया—

“जाओ, मगिनियो ! (जानेका) काल है ।”

तब वह मिश्रुणियाँ आयुष्मान् नन्दकके मापणको अभिनन्दित = अनुमोदित कर, आयनने उठ, आयुष्मान् नन्दकको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, जहाँ भगवान् थे वहाँ गईं । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर खड़ी हो गईं । एक ओर खड़ी उन मिश्रुणियोंसे भगवान्ने यह कहा—

“जाओ, मिश्रुणियो ! (यह जानेका) काल है ।”

तब वह मिश्रुणियाँ भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, चली गईं । तब उन मिश्रुणियोंके चले जानेके थोड़े ही समय बाद भगवान्ने मिश्रुओंको संबोधित किया—

“जैसे, मिश्रुओ ! उसी दिन चतुर्दशी (= अमावास्या)के उपोसथके दिन बहुत लोगोंको कांक्षा या विमति (= संशय) नहीं होती—‘क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, या पूर्ण है’, क्योंकि चन्द्रमा क्षीण ही होता है । इसी प्रकार, मिश्रुओ ! वह मिश्रुणियाँ नन्दककी धर्म-देवतामें मनुए हुई हैं, किन्तु परिपूर्ण-संकल्प नहीं हुई ।”

तब भगवान्ने आयुष्मान् नन्दकको संबोधित किया—

“तो नन्दक ! तू कल भी उसी मिश्रुणियोंको उस अज्ञातसे उपदेश कर ।”

“अच्छा, मन्ते !”—(वह) आयुष्मान् नन्दकने भगवान्को उत्तर दिया ।

तब आयुष्मान् नन्दक उस रातके बीतनेपर, पूर्वाह्न समय परिन कर, पात्र-घोरर हे ध्रावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये । ध्रावस्तीमें भिक्षाटन कर, भिक्षासे निवृत्त (= निष्ठ) हो भोजनोपरान्त, जहाँ राजकाराम था, वहाँ गये । उन मिश्रुणियोंने दूरनेरी आयुष्मान् नन्दकको

आते देखा । देख कर आसन बिछा दिया; और पैरोंको (धोनेके लिये) पानी भी (रख-
दिया) । ०^१ एक ओर बैठी उन भिक्षुणियोंसे आयुष्मान् नन्दकने यह कहा—

“भगिनियो ! प्रतिपृच्छ कथा होगी ० ^२ भिक्षुणियोंसे भगवान्ने यह कहा—

“जाओ, भिक्षुणियो ! (यह जानेका) काल है ।”

० उन भिक्षुणियोंके चले जानेके थोड़े ही समय बाद भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“जैसे भिक्षुओ ! उसी दिन पंचदशी (= पूर्णिमा)के उपोसथको बहुत (= सारे)
लोगोंको कांक्षा या विमति (= संशय) नहीं होती—‘क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, या पूर्ण है’—
क्योंकि चन्द्र पूर्ण होता है; इसी प्रकार, भिक्षुओ ! वह भिक्षुणियाँ नन्दककी धर्म-देशनासे संतुष्ट
हुई हैं, और परिपूर्ण संकल्प भी हुई हैं । भिक्षुओ ! उन पाँच सौ भिक्षुणियोंमें जो (सबसे)
पिछली हैं, वह भिक्षुणियाँ भी स्रोतआपन्न हैं, (निर्वाण-मार्गसे)न पतित होनेवाली, (निर्वाण-
प्राप्तिमें) नियत, संबोधि-परायण हैं ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।

—

^१ देखो पृष्ठ ५९० ।

^२ देखो पृष्ठ ५९०-९३ ।

१४७—चूल-राहुलोवाद-सुत्तन्त (३।५।५)

अनात्म-वाद

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तब एकान्तमें ध्यानावस्थित भगवान्को यह हुआ—

“राहुलको विमुक्ति (= मुक्ति)के लिये परिपाक होने लायक घर्म (= विचार) परिपक्व हो गये हैं; क्यों न मैं राहुलको आगे आसनों (= चित्त-मलों)के क्षयकी ओर ले चलूँ ।”

“तब भगवान् पूर्वाह्न-समय पहिन कर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिंड (= मिष्ठा)के लिये प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें मिक्षाटनकर भोजनोपरान्त, भिक्षासे निवृत्त कर आयुष्मान् राहुलको संयोधित किया—

“राहुल ! आसन (= निपीदन)को लो, दिनके विहारके लिये जहाँ अन्धवन है, उहाँ चलेंगे ।”

“अच्छा, मन्ते !” (कह) आयुष्मान् राहुलने भगवान्को उत्तर दे, आसन ले भगवान्के पीछे पीछे चले ।

उस समय अनेक शत-सहस्र (= लाख) देवता भगवान्का—‘आज भगवान् आयुष्मान् राहुलको आगे आसनोंके क्षयकी ओर ले चलेंगे’—(सोच) भगवान्का अनुगमन कर रहे थे ।

तब भगवान् अन्धवनमें प्रविष्ट हो एक वृक्षके नीचे बिछे आसनपर बैठे । आयुष्मान् राहुल भी भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् राहुलसे भगवान्ने यह कहा—

“तो क्या मानता है, राहुल ! चक्षु (= आँख) नित्य है, या अ-नित्य ?”

“अ-नित्य है, मन्ते !”

“जो, अनित्य है, वह दुःख है या सुख ?”

“दुःख, मन्ते !”

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मा है, क्या उसे—‘यह मैं हूँ’, ‘यह मेरा है’, ‘यह मेरा आत्मा है’—ऐसा समझना युक्त है ?”

“नहीं, मन्ते !”

० रूप ० । ० चक्षुर्विज्ञान ० । ० चक्षु-संस्पर्श^१ ० । ० जो चक्षु-संस्पर्शे कारण उत्पन्न वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक (ज्ञान) ० ।

^१ विषय और इन्द्रियके समागमको संस्पर्श कहते हैं ।

० श्रोत्र ० । ० इत शब्द ० । ० श्रोत्र-विज्ञान ० । ० श्रोत्र-संस्पर्श ० । ० जो श्रोत्र संस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना ० ।

० घ्राण ० । ० गंध ० । ० घ्राण-विज्ञान ० । ० घ्राण-संस्पर्श ० । ० जो घ्राण-संस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना ० ।

० जिह्वा ० । ० रस ० । ० जिह्वा-विज्ञान ० । ० जिह्वा-संस्पर्श ० । ० जो जिह्वा-संस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना ० ।

० काय ० । ० स्प्रष्टव्य ० । ० काय-विज्ञान ० । ० काय-संस्पर्श ० । ० जो काय-संस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना ० ।

० मन ० । ० धर्म ० । ० मनो-विज्ञान ० । ० मनः-संस्पर्श ० । ० जो मनः-संस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान-विषयक (ज्ञान) ० ।

“राहुल ! इस प्रकार देखते श्रुतवान् (= बहुश्रुत) आर्य-श्रावक चक्षुर्निर्वेद (= उदासीनता)को प्राप्त होता है । रूप ० । चक्षु-विज्ञान ० । चक्षुःसंस्पर्श ० । चक्षुःसंस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक (ज्ञान)से निर्वेदको प्राप्त होता है ;

० श्रोत्र ० । शब्द ० । श्रोत्र-विज्ञान ० । श्रोत्र-संस्पर्श ० । श्रोत्र-संस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक (ज्ञान) ० ।

० घ्राण ० गंध ० । घ्राण-विज्ञान ० । घ्राण-संस्पर्श ० । जो घ्राण-संस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना ० ० ।

० जिह्वा ० । रस ० । जिह्वा-विज्ञान ० । जिह्वा-संस्पर्श ० । जिह्वा-संस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना ० ० ।

० काय ० । स्प्रष्टव्य ० । काय-विज्ञान ० । काय-संस्पर्श ० । काय-संस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना ० ० ।

० मन ० । धर्म ० । मनो-विज्ञान ० । मनःसंस्पर्श ० । मनःसंस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक (ज्ञान)से निर्वेदको प्राप्त होता है । निर्वेदको प्राप्त हो विरक्त होता है । विराग होनेसे विमुक्त होता है । विमुक्त (= मुक्त) होनेपर ‘विमुक्त हूँ’—ज्ञान होता है; (फिर) ‘जन्म (= आवागमन) नष्ट होगया, ब्रह्मचर्यवास खतम होगया, करणीय किया जा चुका; और अब यहाँ करनेको (शेष) नहीं’—यह जानता है ।”

मगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् राहुलने मगवान्के मापणको अभिनंदित किया ।

इस व्याकरण (= उपदेश)के कहे जाते समय आयुष्मान् राहुलका चित्त, उपादान (= ग्रहण) न कर, आस्रवों (= जन्म मरणके कारण भूत चित्त-मल)से युक्त होगया । और उन अनेक शत-सहस्र देवताओंको विरज = निर्मल धर्म चक्षु—‘जो कुछ उत्पन्न होता है, वह नाश होता है’—उत्पन्न हुआ ।

१४८—छ-छक्क-सुत्तन्त (३।५।६)

इन्द्रिय, विषय, विज्ञान और तीनोंका समागम । अनात्म-वाद (विस्तार-पूर्वक)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।”

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! तुम्हें आदि कल्याण, मध्य-कल्याण पर्यत्पान (= अन्त) कल्याण, सार्थक = स-न्वयजन धर्मको कहता हूँ ; केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करता हूँ ; जो कि यह छःछक्क हैं, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कृता हूँ ।”

“अच्छा, भन्ते !”—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“ (१) छ आप्यात्मिक आयतनोंको जानना चाहिये । (२) छ बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये । (३) छ विज्ञान-कार्योंको जानना चाहिये । (४) छ स्पर्श-कार्योंको जानना चाहिये । (५) छ वेदना-कार्योंको जानना चाहिये । (६) छ नृप्या-कार्योंको जानना चाहिये ।

(१) “यह जो कहा—‘छ आप्यात्मिक आयतनोंको जानना चाहिये’—मो किसके लिये कहा ?—(१) चक्षु-आयतन, (२) श्रोत्र ०, (३) घ्राण ०, (४) जिह्वा ०, (५) वाय ०, (६) मन-आयतन...इन्हींके लिये कहा । यह प्रथम छक्क है ।

(२) “यह जो कहा—‘छ बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये’—सो किस लिये कहा ?—(१) रूप-आयतन, (२) शब्द ०, (३) गंध ०, (४) रस ०, (५) स्पर्श ०, (६) धर्म-आयतन;...इन्हींके लिये कहा । यह द्वितीय छक्क है ।

(३) “ ०—‘छ विज्ञान-काय ०’ ० ?—(१) चक्षुद्वारा रूपमें चक्षुर्विज्ञान उत्पन्न होता है; (२) श्रोत्र ०, (३) घ्राण ०, (४) जिह्वा ०, (५) वाय ०, (६) मनो-विज्ञान । ...इन्हींके लिये कहा । वह तृतीय छक्क है ।

(४) “ ०—‘छ स्पर्श-काय ०’ ० ?—(१) चक्षुद्वारा रूपमें चक्षुर्विज्ञान उत्पन्न होता है; (चक्षु, रूप और चक्षुर्विज्ञान) इन तीनोंका संगम (चक्षु-स्पर्श) है । (२) श्रोत्र ० । (३) घ्राण ० । (४) जिह्वा ० । (५) वाय ० । मनः ० ।...इन्हींके लिये कहा । यह चतुर्थ छक्क है ।

(५) “ ०—‘छ वेदना-काय ०’ ० ?—(१) चक्षुद्वारा रूपमें चक्षुर्विज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श है; स्पर्शके कारण वेदना होती है । (२) श्रोत्र ० । (३) घ्राण ० ।

^१ काय = निकाय = समुदाय ।

^२ आदतन = इन्द्रिय ।

(४) जिह्वा ० । (५) काय ० । (६) मन ० । ... इन्हींके लिये कहा । यह पंचम छक्क (= षट्क) हैं ।

(६) “ ०—‘छ तृष्णाकायोंको जानना चाहिये’—० ?—(१) चक्षुद्वारा रूपमें चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श है; स्पर्शके कारण वेदना होती है । (२) श्रोत्र ० । (३) घ्राण ० । (४) जिह्वा ० । (५) काय ० । (६) मनद्वारा धर्ममें मनोविज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श है; स्पर्शके कारण वेदना होती है; वेदनाके कारण तृष्णा होती है । यह जो कहा—‘छ तृष्णा-कायोंको जानना चाहिये’—सो इसीलिये कहा । यह षष्ठ छक्क हैं ।

(इन्द्रिय आत्मा नहीं)

(१) “जो कहे—‘चक्षु आत्मा है’, उसे (ख्याल) नहीं पैदा होता, चक्षुकी उत्पत्ति या विनाश (= व्यय) भी दिखाई देता है । किन्तु जिसे उत्पत्ति भी, विनाश भी दिखाई देता है—‘मेरा आत्मा उत्पन्न होता है, नाश होता है’—ऐसा उसे (ख्याल) आता है; इसलिये उसे (यह ख्याल) नहीं उत्पन्न होता । जो कहे—‘चक्षु आत्मा है’; (सो नहीं) चक्षु अनात्मा (= नहीं आत्मा) है । (२) ० रूप ० । रूप अनात्मा है । इस प्रकार चक्षु अनात्मा है, रूप अनात्मा है । (३) ० चक्षु-विज्ञान ०; चक्षुविज्ञान अनात्मा है । इस प्रकार चक्षु अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है । (४) ० चक्षु-संस्पर्श ०; चक्षु-संस्पर्श अनात्मा है । इस प्रकार चक्षु अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है, चक्षु-संस्पर्श अनात्मा है । (५) ० वेदना ०; वेदना अनात्मा है । इस प्रकार चक्षु अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है, चक्षु-संस्पर्श अनात्मा है, वेदना अनात्मा है । (६) ० तृष्णा ०; तृष्णा अनात्मा है । इस प्रकार चक्षु-अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है, चक्षु-संस्पर्श अनात्मा है, वेदना अनात्मा है, तृष्णा अनात्मा है ।

(२) “जो कहे—‘श्रोत्र आत्मा है’, ० । ० । इस प्रकार श्रोत्र-अनात्मा है, शब्द ०, श्रोत्र-विज्ञान ०, श्रोत्र-संस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा अनात्मा है ।

(३) “ ०—‘घ्राण आत्मा है’, ० । ० । ० ।

(४) “ ०—‘जिह्वा आत्मा है’, ० । ० । ० ।

(५) “ ०—‘काय आत्मा है’, ० । ० । ० ।

(६) “ ०—‘मन आत्मा है’, ० । ० । इस प्रकार मन अनात्मा है, धर्म अनात्मा है, मनोविज्ञान अनात्मा है, मन-संस्पर्श अनात्मा है, वेदना अनात्मा है, तृष्णा अनात्मा है ।

(सत्काय-वाद)

(१) “मिक्षुओ ! यह सत्काय-(= आत्म-नित्यतावाद)के समुदय (= उत्पत्ति)की ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (= मार्ग) है—

“चक्षुको समझता है—‘यह मेरा है’, ‘यह (= चक्षु) मैं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा है’ । रूपको ० । चक्षुविज्ञानको ० । चक्षु-संस्पर्शको ० । वेदनाको ० । तृष्णाको ० ।

(२) “श्रोत्रको ० । ० । ०, ‘यह मेरा आत्मा है’ ।

(३) “घ्राणको ० । ० । ०, ‘यह मेरा आत्मा है’ ।

(४) “जिह्वाको ० । ० । ०, ‘यह मेरा आत्मा है’ ।

(५) “कायको ० । ० । ०, ‘यह मेरा आत्मा है’ ।

(६) “मनको समझता है—‘यह (मन) मेरा है’, ‘यह मैं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा है’ । धर्मको ० । मनो विज्ञानको ० । मन-संस्पर्शको ० । वेदनाको ० । तृष्णाको ० ।

निस्सरणको यथार्थसे जानता है। उसे अ-विद्या-अनुशय नहीं चिपटता। वह सुखा वेदनावाले राग-अनुशयको छोड़, दुःखा वेदनावाले प्रतिघानुशय को हटा, अदुःख-असुखा वेदनावाले अविद्या-नुशयको मार, अ-विद्याको छोड़, विद्याको उत्पादित कर, इसी जन्ममें दुःखका अन्त करनेवाला होगा; यह स्थान (= संभव) है।

(२) “ ० श्रोत्र ० । ० । ० ; यह स्थान है ।

(३) “ ० घ्राण ० । ० । ० ; यह स्थान है ।

(४) “ ० जिह्वा ० । ० । ० ; यह स्थान है ।

(५) “ ० काय ० । ० । ० ; यह स्थान है ।

(६) “ ० मन ० । ० । ० ; यह स्थान है ।

(निर्वाण-प्राप्ति)

“भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते, श्रुतवान् आर्यश्रावक चक्षुमें निर्वेद (= उदासीनता)को प्राप्त होता है, रूप ० । चक्षुर्विज्ञान ०, चक्षुसंस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा ० । श्रोत्र ०, शब्द ०, श्रोत्र-विज्ञान ०, श्रोत्रसंस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा ० । घ्राण ०, गंध ०, घ्राणविज्ञान ०, घ्राण-संस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा ० । जिह्वा ०, रस ०, जिह्वा विज्ञान ०, जिह्वा-संस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा ० । काय ०, स्पृष्टव्य ०, काय-विज्ञान ०, काय-संस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा ० । मन ०, धर्म ०, मनो-विज्ञानने ०, मनःसंस्पर्श ०, वेदना, तृष्णामें निर्वेदको प्राप्त होता है। निर्वेदको प्राप्त हो विरक्त होता है। ०^१ ; और कुछ करनेको यहाँ (शेष) नहीं’—यह जानता है।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया।

इस व्याकरण (= उपदेश)के कहे जाते समय साठ भिक्षुओंका उपादान न कर, आस्रवासे चित्त मुक्त हो गया।

१४६—महा-संख्यतन-सुत्तन्त (३।५।७)

तृष्णा और दुःख

ऐसा मैंने सुना—

एक ममय भगवान्ने श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान् मिश्रुओंको संबोधित किया—“मिश्रुओ !”

“मदंत !”—(कह) उन मिश्रुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—“मिश्रुओ ! महा-संख्यतन (= ० छ आयतन) तुम्हें उपदेशना हूँ, सुनो अच्छी तरह मनमें करो । कहता हूँ ।”

“अच्छा, भन्ते !”—(कह) उन मिश्रुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—(१) “मिश्रुओ ! चक्षुको यथार्थतया न जाने, न देखे, रूपोंको ०, चक्षुर्विज्ञानको ०, चक्षुःसंस्पर्शको ०, और चक्षुःसंस्पर्शसे जो सुखा, दुःखा, अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है, उसे भी यथार्थतया न जाने, न देखे, चक्षुमें रक्त होता है, रूपमें ०, चक्षुर्विज्ञानमें ०, चक्षुःसंस्पर्शमें ०, और चक्षुःसंस्पर्शसे जो सुखा, दुःखा, अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है, उममें रक्त होता है । रक्त, संयुक्त, संमूढ़ (= मोह प्राप्त), आत्माद देखनेवाले हों विहरते उम (पुनरुत्पत्ति) लिये, भविष्यमें पाँच उपादान-स्कंध संचित हो जाते हैं । और वहाँ वहाँ अभिनंदन करतेजागी, राग-युक्त, पुनर्जन्म देनेवाली उसकी नन्दनी = तृष्णा बढ़ती है । उसके कायिक दरय (= हर, गेद) भी बढ़ते हैं, चेतसिक (= मानस) दरय भी बढ़ते हैं, कायिक सन्ताप भी ०, केमनिक सन्ताप ०, कायिक परिदाह (= जलन) भी ०, चेतसिक परिदाह भी ०, । वह कायिक दुःखको भी, चेतसिक दुःखको भी अनुभव करता है ।

(२) “ ० श्रोत्रको ० । ० । ०, चेतसिक दुःखको अनुभव करता है ।

(३) “ ० घ्राणको ० । ० । ०, ० ।

(४) “ ० जिह्वाको ० । ० । ०, ० ।

(५) “ ० काय ० । ० । ०, ० ।

(६) “ ० मन ० । ० । ०, ० ।

(७) “मिश्रुओ ! चक्षुको यथार्थतया जानते देखते, ०^१ चक्षुमें रक्त नहीं होता । ० रक्त हो ० विहरते, उसके लिये भविष्यमें पाँच उपादान-स्कंध अप-चित्त (विलग) होते हैं । तभी ० तृष्णा नष्ट होती है । उसके कायिक दरय भी नष्ट होते हैं, ० । वह कायिक सुखको भी, चेतसिक सुखको भी अनुभव करता है ।

^१ देखो ऊपर ।

“ऐसेकी जो दृष्टि होती है, वह इसकी (१) सम्यक्दृष्टि होती है। ऐसेका जो संकल्प होता है, वह इसका (२) सम्यक्-संकल्प होता है। (३) सम्यग्-व्यायाम ० । ० (४) सम्यक्-स्मृति ० । ० (५) सम्यक्-समाधि होती है। पहिले ही इसका (६) काय-कर्म, (७) वचन-कर्म, (८) आजीव (= जीवका) सुपरिशुद्ध होती है। इस प्रकार उसके आर्य अष्टांगिक मार्ग भावनाद्वारा परिपूर्ण हुये होते हैं। उसके इस प्रकार आर्य-अष्टांगिक-मार्गकी भावना करते चारों स्मृति प्रस्थान भावना द्वारा परिपूर्ण होते हैं। ० चारों सम्यक्-प्रधान ० । ० चारों ० । ऋद्धिपाद ० । ० पाँचों इन्द्रियाँ ० । ० पाँचों बल ० । ० सातों बौध्यंग ० । उसके यह दोनों धर्म-शमथ (= समाधि) और विपश्यना (= प्रज्ञा युगबद्ध (जुड़े) रहते हैं) वह अभिज्ञा द्वारा जानने लायक धर्मोंको अभिज्ञासे जानता है; जो धर्म अभिज्ञा द्वारा त्याज्य (= प्रहातव्य) हैं, उन्हें अभिज्ञासे त्यागता है; ० भावना करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्ञासे भावना करता है; जो धर्म अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करता है।

“भिक्षुओ ! कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा परिज्ञेय (= जानने योग्य) हैं ?—पाँच उपादान स्कंध कहने चाहिये; जैसे कि रूप-उपादान-स्कंध, वेदना ० । संज्ञा, संस्कार ० विज्ञान स्कंध ।”

“ ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा प्रहातव्य हैं ?—अ-विद्या, और भव-तृष्णा = लोकतरमें आवागमनका लोभ ।”

“ ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा भावना करने योग्य हैं ?—शमथ, और विपश्यना ।”

“ ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं ?—विद्या और विमुक्ति ।”

(२) “भिक्षुओ ! श्रोत्रको ० । ० । ०, ० ।

(३) “ ० घ्राणको ० । ० । ०, ० ।

(४) “ ० जिह्वाको ० । ० । ०, ० ।

(५) “ ० कायको ० । ० । ०, ० ।

(६) “ ० मनको ० । ० । ०—विद्या और विमुक्ति यह धर्म अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।

१५०—नगर-विदेय्य-सुत्तन्त (३।५।८)

सत्कारके पात्र

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् महान् भिक्षुसंघके साथ, कोसल (देश)में चारिका करते, जहाँ नगर-विदेय्य नामक कोसलोंका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे ।

नगर विदेय्यके रहनेवाले ब्राह्मण गृहपतियोंने सुना—शाक्यकुलसे प्रव्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम महान् भिक्षु-संघके साथ चारिका करते नगर विदेय्यमें आ पहुँचे हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल-कीर्तिशब्द उठा हुआ है—‘वह भगवान् अर्हत् हैं ०^१ ऐसे अर्हतोंका दर्शन अच्छा होता है’ ।

तब नगर विदेय्य-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; ०^२ चुपचाप एक ओर बैठ गये ।

एक ओर बैठे नगर विदेय्य-निवासी ब्राह्मण-गृहपतियोंसे भगवान्ने यह कहा—

“यदि, गृहपतियो ! तुम्हें अन्य मतवाले (= अन्य तीर्थिक) परिव्राजक यह पूछें—‘गृह-पतियो ! कैसे श्रमण ब्राह्मणोंका सत्कार = गुरुकार, मानन = पूजन नहीं करना चाहिये ?’ ऐसा पूछनेपर, गृहपतियो ! तुम उन अन्यतीर्थिक परिव्राजकोंको यह कहना—‘ जो श्रमण-ब्राह्मण चक्षु- (द्वारा) विज्ञेय रूपोंमें अ-वीत-राग, अ-वीत-द्वेष, अ-वीत-मोह, भीतर जिनका चित्त ज्ञात नहीं हुआ है, जो काय-वचन-मनसे सम-विषम (= बुरा-भला) आचरण करते हैं । ऐसे श्रमण-ब्राह्मणोंका सत्कार ० नहीं करना चाहिये । सो किस हेतु ?—हम भी चक्षुर्विज्ञेय रूपोंमें अ-वीत-राग ० हममें भी काय-वचन-मनसे सम-विषम आचरण करते हैं । उन्हें हम आगे धर्माचरण करते नहीं देखते हैं, इसलिये उन श्रमण ब्राह्मणोंका सत्कार ० नहीं करना चाहिये’ ।

“जो श्रमण ब्राह्मण श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंमें अ-वीतराग ० । ० घ्राण-विज्ञेय गंधों ० । ० जिह्वा-विज्ञेय रसोंमें ० । ० काय-विज्ञेय द्रष्टव्योंमें ० । ० मनो-विज्ञेय धर्मोंमें, अ-वीतराग ० । ० सत्कार ० नहीं करना चाहिये ।”

“यदि, गृहपतियो ! अन्यतीर्थिक परिव्राजक यह पूछें—‘गृहपतियो ! कैसे श्रमण-ब्राह्मणों का सत्कार ० करना चाहिये ?’—ऐसा पूछनेपर गृहपतियो ! तुम उन ० को यह कहना—‘जो श्रमण-ब्राह्मण चक्षुर्विज्ञेय रूपोंमें वीत-राग, वीत-द्वेष, वीत-मोह हैं; भीतर जिनका चित्त ज्ञात है; जो काय-वचन-मनसे सम-वर्था (= धर्माचरण) करते हैं, ऐसे श्रमण-ब्राह्मणोंका सत्कार ० करना चाहिये । सो किस हेतु ?—हम चक्षुर्विज्ञेय रूपोंमें अ-वीतराग ०^३, उन्हें हम आगे यह धर्माचरण

^१ देखो पृष्ठ १४, १५८ ।

^२ देखो पृष्ठ १६८ ।

^३ देखो ऊपर ।

करते देखते हैं । इसलिये उन आप श्रमण-ब्राह्मणोंका सत्कार ० करना चाहिये' ।

“जो श्रमण ब्राह्मण श्रोत विज्ञेय शब्दोंमें वीतराग ० । ० प्राण-विज्ञेय गंधोंमें ० । ० जिह्वा-विज्ञेय रसोंमें ० । ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्योंमें ० । ० मनोविज्ञेय धर्मोंमें वीतराग ० । ० सत्कार ० करना चाहिये ।.....”

“यदि, गृहपतियो ! अन्यतीर्थिक परिव्राजक यह पूछें—‘गृहपतियो ! (उन) आयुष्मानों के क्या आकार हैं, क्या अन्वय हैं ; जिससे कि तुम आयुष्मान् ऐसा कह रहे हो ? (कैसे) जरूर ही वह आयुष्मान् वीतराग हैं या राग हटाने में लग्न हैं, वीतद्वेष हैं, या द्वेष हटानेमें लग्न हैं ; वीत-मोह हैं, या मोह हटाने में तत्पर हैं’ ऐसा पूछनेपर, गृहपतियो ! तुम उन ० को यह कहना— ‘क्योंकि वह आयुष्मान् अरण्य = वनप्रस्थमें एकान्त शयन-भासनका सेवन करते हैं । वहाँ जैसे चक्षु-विज्ञेय रूप तो नहीं, जिन्हें देख देख वह अभिरमण करें । वहाँ जैसे श्रोतविज्ञेय शब्द तो नहीं हैं, जिन्हें श्रमण कर कर वह अभिरमण करें । ० प्राण-विज्ञेय गंध ० ; जिन्हें सूँघ सूँघ कर ० । ० जिह्वा-विज्ञेय रस ० ; जिन्हें चख चख कर ० । ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्य ०, जिन्हें छू छू कर ० । आयुषो ! यह आकार हैं = यह अन्वय हैं; जिससे हम यह कहते हैं—जरूर ही वह आयुष्मान् वीत-राग ० या मोह हटानेमें तत्पर हैं । ऐसा पूछनेपर गृहपतियो ! तुम उन अन्यतीर्थिक परिव्राजकोंको ऐसा कहना’ ।”

ऐसा कहनेपर नगर-विदेय्य-निवासी ब्राह्मण गृहपतियोंने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा कर दे ०^१ यह हम भगवान् गौतमकी शरण जाते हैं, धर्म और मिश्रु-संघकी भी । आजसे आप गौतम हमें अंजलियद्द शरणागत उपासक धारण करें ।

^१ देखो दृष्ट १६ ।

१५१—पिंडपात-पारिसुद्धि-सुत्तन्त (३।५।६)

विषयोंका त्याग । स्मृति-प्रस्थान आदिकी भावना

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन्न-कलंदक-निवापमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् सारिपुत्र सायंकाल ध्यानसे उठ, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रसे भगवान् ने यह कहा—

“सारिपुत्र ! तेरी इन्द्रियाँ (= शरीर) विप्रसन्न हैं, छवि-वर्ण (= शरीरके चमड़ेका रंग) परिशुद्ध = पर्यवदात है । सारिपुत्र ! आजकल किस विहारमें अधिकतर विहार करता है ?”

“मन्ते ! आजकल मैं अधिकतर शून्यता-विहारसे विहरता हूँ ।”

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! महापुरुष-विहारसे ही, सारिपुत्र ! तू आजकल अधिकतर विहार रहा है । सारिपुत्र ! यह शून्यता^१ महापुरुष विहार है । इसलिये सारिपुत्र ! जो भिक्षु भी आकांक्षा करे, शून्यता विहारसे मैं अधिकतर विहरूँ; उस भिक्षुको, सारिपुत्र ! यह सोचना चाहिये—‘जिस मार्गसे मैं भिक्षुके लिये गाँवमें प्रविष्ट हुआ, जिस प्रदेशमें पिंडके लिये घूना, और जिस मार्गसे पिंड (ले) गाँवसे याहर हुआ । क्या, वहाँ चक्षुर्विज्ञेय रूपोंमें मेरे मनका छन्द = राग, द्वेष, मोह या प्रतिषेध (= प्रतिहिंसा) है या नहीं !’ यदि, सारिपुत्र ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण (= परीक्षण) करते ऐसा जाने—‘जिस मार्गसे मैं ० प्रविष्ट हुआ, ० याहर हुआ; वहाँ चक्षुर्विज्ञेय रूपोंमें मेरे चित्तका ० राग ० प्रतिषेध है’ तो सारिपुत्र ! उस भिक्षुको उन्हीं पापों=अकृशाल धर्मोंके प्रहाण (= नाश) के लिये उद्योग करना चाहिये । यदि, सारिपुत्र ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने—‘० चक्षुर्विज्ञेय रूपोंमें मेरे चित्तका ० राग ० प्रतिषेध नहीं है’ । तो सारिपुत्र ! उस भिक्षुको उसी प्रीति = प्रामोदके साथ, रात-दिन कृशाल-धर्मों (= अच्छे कर्मों)का परिशीलन करते, विहार करना चाहिये ।

“और फिर, सारिपुत्र ! भिक्षुको यह सोचना चाहिये—‘जिस मार्गसे ० गाँवसे याहर हुआ ? क्या वहाँ श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंमें ० । ० घ्राण-विज्ञेय गन्धोंमें ० । ० जिह्वा-विज्ञेय रसोंमें ० । ० काय-विज्ञेय रूपदृश्योंमें ० । ० मनो-विज्ञेय धर्मोंमें ० रात-दिन कृशाल-धर्मोंका परिशीलन करते विहार करना चाहिये ।

“और फिर, सारिपुत्र ! भिक्षुको यह सोचना चाहिये—‘मेरे पाँच काम-गुण (= विषय-भोग) प्रहीण हो गये हैं न ?’ यदि, सारिपुत्र ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने—‘मेरे पाँच काम-गुण प्रहीण (= नष्ट) नहीं हुयें तो, सारिपुत्र ! उस भिक्षुको पाँच काम-गुणोंके प्रहाणके लिये उद्योग करना चाहिये । यदि सारिपुत्र ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने—‘मेरे पाँच काम-

^१ देखो सुव्यता-सुत्त ५०१-८ ।

गुण प्रहीण हो गये'। तो, सारिपुत्र ! उस मिथुको उसी प्रीति = प्रामोदके साथ रात-दिन कुशल-धर्मोंका परिशीलन करते, विहार करना चाहिये ।

“और फिर, सारिपुत्र ! मिथुको यह सोचना चाहिये—‘मेरे पाँच नीवरण प्रहीण हो गये हैं न ?’ ०^१ ।

“०—‘मैंने पाँच उपादान-स्कन्धोंको परिज्ञात (= ज्ञात) कर लिया न ? ० ।

“०—‘मैंने चार स्मृति-प्रस्थानोंकी भावना की है न ? ०^१ ।

“०—‘मैंने चार सम्यक्-प्रधानोंकी भावना की है न ? ०^१ ।

“०—‘मैंने चार ऋद्धि-पादोंकी भावना की है न ? ०^१ ।

“०—‘मैंने पाँच इन्द्रियों^२की भावना की है न ? ०^१ ।

“०—‘मैंने पाँच बलोंकी भावना की है न ? ०^१ ।

“०—‘मैंने सात योध्यंगोंकी भावना की है न ? ०^१ ।

“०—‘मैंने आर्य अष्टांगिक मार्गकी भावना की है न ? ०^१ ।

“०—‘मैंने शमथ (= समाधि) और विपश्यना (= प्रज्ञा)की भावना की है न ? ० ।

“०—‘मैंने विद्या और त्रिमुक्तिका साक्षात्कार किया है न ? ० ।

“सारिपुत्र ! जो कोई श्रमण-ब्राह्मणोंने अतीतकालमें पिंडपात-परिशुद्धि (= भिक्षात्रकी शुद्धि) की; उन सभीने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण (= परीक्षण) कर करके पिंडपातको परिशोधित किया । सारिपुत्र ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण भविष्यकालमें पिंडपात-परिशुद्धि करेंगे; वह सभी इसी प्रकार ० । जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस समय पिंडपात-परिशुद्धि करते हैं, वह सभी इसी प्रकार पिंडपातको परिशोधित करते हैं । इसलिये, सारिपुत्र ! प्रत्यवेक्षण कर करके पिंडपातको परिशोधित करूँगा’—ऐसे सारिपुत्र ! सीखना चाहिये ।”

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया ।

^१ ऊपर जैसा ही, निरक कामगुणके स्थानपर यह शब्द रख दिया जाये । ^२ इन्द्रिय = श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा ।

१५२—इन्द्रिय-भावना-सुत्तन्त (३।५।१०)

इन्द्रिय-संयम

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् कज्जंगलामें सुखेणुवन (= 'सुखेलुवन')में विहार करते थे।

तब पारासिवियका अन्तेवासी (= शिष्य) उत्तर-माणवक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ संभोदन कर...एक ओर बैठ गया। एक ओर धँडे पारासिवियके अन्तेवासी उत्तर माणवकको भगवान्ने कहा—

“उत्तर ! क्या पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावना (सम्यन्धी) उपदेश करता है ?”

“भो गौतम ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय भावनाका उपदेश करता है।”

“तो उत्तर ! कैसे ० इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ?”

“भो गौतम ! आँखसे रूप नहीं देखना, कानसे शब्द नहीं सुनना। इस प्रकार भो गौतम ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है।”

“जैसा पारासिविय ब्राह्मणका वचन है, वैसा होनेपर, उत्तर ! अन्धा इन्द्रिय-भावना करनेवाला (= भावितेन्द्रिय) होगा, यधिर भावितेन्द्रिय होगा। क्योंकि उत्तर ! अन्धा आँखसे रूप नहीं देखता, यधिरा कानसे शब्द नहीं सुनता।”

ऐसा कहनेपर पारासिवियका अन्तेवासी उत्तर माणवक चुप, मूक, गर्दन झुकाये, अधोमुख, सोचता, प्रतिभाहीन, हो बैठा। तब भगवान्ने ० उत्तर माणवकको चुप ० जानकर आयुप्मान् आनन्दको संवोधित किया—

“आनन्द ! पारासिविय ब्राह्मण श्रावकों (= शिष्यों)को दूसरी तरह (= अन्यथा) इन्द्रिय-भावना उपदेश करता है, और आर्योंके विनयमें दूसरी तरह अनुत्तर (= सर्वोत्कृष्ट) भावना होती है।”

“भगवान् इसीका काल है, सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान् आर्य-विनय (= धर्म)के अनुत्तर इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करें। भगवान्से सुन कर भिक्षु धारण करेंगे।”

“तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।” “अच्छा भन्ते !”...

भगवान्ने यह कहा—

“कैसे आनन्द ! आर्य-विनयमें अनुत्तर इन्द्रिय-भावना होती है ? यहाँ आनन्द ! घञ्जु (= आँख)से रूपको देख कर भिक्षुको मनाप (= पसन्द मालूम) होता है, अ-मनाप होता है,

१ 'बेलुवन', 'सुखेलुवन' भी पाठ है।

मनाप-अमनाप होता है। वह ऐसा जानता है—‘यह मुझे मनाप उत्पन्न हुआ, अ-मनाप ०, मनाप-अमनाप ०। किन्तु यह संस्कृत (= कृत, कृत्रिम) = औदारिक = प्रतीत्य-समुत्पन्न (= हेतु-जनित) है। यही शान्त, यही प्रणीत (उत्तम) है, जो कि यह (रूप आदिसे) उपेक्षा। (तय) उसका वह उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-मनाप, ० मनाप-अमनाप निरुद्ध (= नष्ट) हो जाता है। उपेक्षा ठहरती है। जैसे आनन्द! आँखवाला पुरुष पलक चड़ा कर गिरा दे, पलक गिरा कर चड़ा दे; इसी तरह आनन्द! जिस किसीको इतना शीघ्र, इतनी जल्दी, इतनी आसानीसे, उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-मनाप, उत्पन्न मनाप-अमनाप दूर हो जाते हैं, उपेक्षा ठहरती है। यह आनन्द! आर्य-विनयमें चक्षुसे जाने जानेवाले (= चक्षुर्विज्ञेय) रूपोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना कही जाती है। और फिर आनन्द! श्रोत्रसे शब्दको सुनकर ०। ० उपेक्षा ठहरती है। जैसे कि आनन्द! बलवान् पुरुष अप्रयास चुटकी बजावे; ऐसे ही आनन्द! जिस किसीको इतना शीघ्र ०। यह आनन्द! आर्य-विनय में श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना कही जाती है। और फिर आनन्द! घ्राणसे गंधको सूँघ कर ०। ० उपेक्षा ठहरती है। जैसे कि आनन्द! पन्न-पत्रमें थोड़ीसी हवासे पानीके बुलबुले उठते हैं, ठहरते नहीं; ऐसे ही आनन्द! ०। ० यह ० घ्राण-विज्ञेय गन्धोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है। और फिर आनन्द! जिह्वासे रस चख कर ०। ० उपेक्षा ठहरती है। जैसे कि आनन्द! बलवान् पुरुष जिह्वाके नोकपर खेल-पिंड (= यूक-कफ) जमा कर, अप्रयास ही फेंक दे; ऐसे ही आनन्द! ०। यह ० जिह्वा-विज्ञेय रसोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है। और फिर आनन्द! काया (= त्वक्)से स्प्रष्टव्यके स्पर्शसे ०। ० उपेक्षा ठहरती है। जैसे कि आनन्द! बलवान् पुरुष समेटी चाँहको फँलावे, फँलाइँ चाँहको समेटे; ऐसे ही आनन्द! ०। यह ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्योंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है। और फिर आनन्द! मनसे धर्मको जानकर ०। ० उपेक्षा ठहरती है। जैसे कि आनन्द! बलवान् पुरुष दिनमें तपे लोहेके कड़ाहपर दो-तीन पानीकी बूँद डाले; ... आनन्द! पानीकी बूँद पड़कर ... तुरन्त ही ... क्षयको प्राप्त हो जाये। ऐसे ही आनन्द! ०। यह मन-विज्ञेय धर्मोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है।

“यहाँ आनन्द! चक्षुसे रूपको देखकर, भिक्षुको मनाप (= प्रिय) उत्पन्न होता है, अ-मनाप उत्पन्न होता है, मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है। वह उस उत्पन्न मनाप, ० अमनाप, मनाप-अमनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घिना करता है। श्रोत्रसे शब्द सुनकर ०। घ्राणसे गंध सूँघकर ०। जिह्वासे रस चखकर ०। कायासे स्प्रष्टव्य छूकर ०। मनसे धर्म जानकर, भिक्षुको मनाप ०, अमनाप ०, मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है। वह उस उत्पन्न मनाप, अ-मनाप, मनाप-अमनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घृणा करता है। इस प्रकार आनन्द! शैक्ष्य (= जिसको अभी सीखना है, सेख) -प्रतिपद् (= पटिपदा) होती है।

“कैसे आनन्द! भावित्तन्द्रिय हो, आर्य (अहंत्, अशैक्ष्य = अ-सेख) होता है? यहाँ आनन्द! चक्षुसे रूपको देखकर ० श्रोत्रसे ०, घ्राणसे ०, जिह्वासे ०, कायासे ०, मनसे धर्म जानकर, मनाप ०, ० अ-मनाप, ० मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है। वह यदि चाहता है, कि प्रतिक्लममें अ-प्रतिकूल जान विहार करूँ, अ-प्रतिकूल जानते ही वहाँ विहार करता है। यदि चाहता है, कि अ-प्रतिकूलमें प्रतिक्लम जान विहार करूँ; प्रतिक्लम जानते ही वहाँ विहार करता है। यदि चाहता है,—प्रतिकूल, अ-प्रतिकूल दोनों वर्जित कर, स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहार करूँ; वह स्मृति सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहरता है। इस प्रकार आनन्द! भावित्तन्द्रिय आर्य (= मुक्त) होता है।

“इस प्रकार आनन्द ! मैंने आर्य-विनयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना उपदेश कर दी; शैश्य-प्रतिपद भी उपदेश कर दी; मावितेन्द्रिय आर्य भी उपदेश कर दिया । हितैषी, अनुकम्पक शास्ता (= गुरु) को अनुकम्पा (= दया) श्रावकोके लिये जैसे करना चाहिये, वैसा मैंने तुम लोगोंके लिये कर दिया । आनन्द ! यह वृक्षमूल (= वृक्षके नीचेकी मृमि) हैं, यह शून्य घर हैं, प्यान करो आनन्द ! मत प्रमाद करो; पीछे अफसोस मत करना । यह तुम्हारे लिये हमारे अनु-शासन हैं ।”

भगवान्ने यह कहा, आयुष्मान् आनन्दने सन्तुष्ट हो, भगवान्के भाषणको अनुमोदित किया ।

(१५—इति सव्यायतन-व्रग ३।५)

इति उपरि-पण्णासक ३।

समाप्त

१-उपमा (= दृष्टांत) अनुक्रमणी

अक्षि-हारक । १२८	लौका कच्चा । ३४९
अग्नि । ३८८	ऊँटका पैर । ३४५
अग्निका उपादान । ४१८	ऊर्मि-भय । २६९
अग्निकी संज्ञा । १५३	ऋण । १६२
अग्निके नाम आश्रयसे । ४०२	ओपधि तारा । ३२०
अंगारका । ८४, २१७	कवरी छाया । ४७
अंगारोंका ढेर । ४७	कंसपाती । १७, १८, १९, २०
अचिरवती और पर्वतपर वृष्टि । ३६३	काष्ठ-खंड । ४९६
अंडकोश-हारक । १२८	काष्ठ, गोला । ३४६, ३४७
अन्ध-वेणि-परंपरा । ४१६	काष्ठ, नीरस । ३४७
अमावास्याका चंद्रमा । ५९३	काष्ठ-सवर्षण । ५७४
अलगद्द (= सर्प)-नावेपी । ८६	कान्तार-मार्ग । १६३
अश्वतर । ३८८	कालानुसारिक मूलगंध । ४५४
अश्व-शिक्षा । २६१	कुक्कुटी-अंड (देखो सुर्गके अंडे) ।
असित देवल । ३८९	कुदाल-हस्त पुरुष । ८२
असि-सूना । ८४, ९३, २१६	कुम्भीर-भय । २६९
आकाश । ११९	कुल । ८६, ८७,
आकाशमें चित्रकारी । ८२	कुप्रसे मुक्तको जवर्दस्ती आगपर तपाना । २९४
आगार । २०९	कुप्रसे मुक्तकी धावसेंकनेकी अनिच्छा । २९४
आपानीय कांस्य । १८८	कूर्म । ९३
आवखोरा । १८८	कूपि । ४१५
आमने सामनेके घरोंके बीचमें मनुष्य । ५३९	केकड़ा (= कर्कट) । १४१
आवर्त-भय । २६९	कोढको आगपर तपाना । २९५
आशीविष (= साँप) ४४८	क्रकचोपम । ८३, ११८
आसीतिककी गाँठ । ३४८	गंगा नदी । काक-पेया—२५५
उत्तरारणी । ५२१	गंगा-नदी (समुद्र-निज्ञा) । २८६
उत्पलिनी और जल । १०६, ३१०, ४९५	गोला काष्ठ । १४६
उदक-हृद् (पर्वतसे घिरा) । ३१३	गोवातक । ३४८, ४०६, ५९२
उदकहृद् । ३१०, ४९५	गोवातकका सूना । २१६
उदपानमें तारा । ३४८	गोपानसी (जोलुगा-विलुगा) । ३४८

गोपालक । १३३-३५, १३६
 गोमूत्र । १८८
 ग्रामसे ग्रामान्तर-गमन । ३१२
 ग्रामसे प्रवासो । ४४६
 घटिकार । ३२५
 घक्रवर्तीके सात रत्न । ५३५
 चंगवार । ९३
 चौरस्तेपर रथ । ४९७
 जनपद-कल्याणीका चाहनेवाला । ३१९, ३२३
 जनपद-भाषा (में पाती) । ५७०
 जन्मान्व । ४१६
 जन्मांधकी नेत्र-चिकित्सा । २९६
 जन्मान्वको रंगसे वंचित करना । २९६
 जुआरीका दाव । ५३८
 जुगनू । ३१९
 तप्त कड़ाह पर जल-विन्दु । २६५
 तिलपिष्टसे तेल । ५२१
 तृण-उल्का । ८४, २१७
 तृण-उल्कासे गंगाका संतप्त करना । ८२
 तेल-प्रदीप । ३२०
 तेल-प्रदीप । मलिन—५२६
 तेलप्रदीप । शुद्ध—५२६
 तेलप्रदीपका सब अनित्य । ५९१
 तेल और वत्तीसे प्रदीप । ५७५
 दन्तकार । ३११
 दरिद्रकी ममता । २६४
 दरिद्रके लिये चाँटी । ४००
 दहर स्त्री-पुरुष और पुष्पमाला । ६४
 दहीसे मक्खन । ५२१
 दही-मधु-घी-खाँड । १८८
 दास । १६३
 दीपोंका एक प्रकार । ५२४
 देवदूत । ५३९
 देवोंकी मानव-भोगमें अनिच्छा । २९४
 नाग । ९३
 नाग-वनिक । ५१७
 नापित । ४९५
 निवि-सुख । २०९
 निवाप । ९८

पानोसे मक्खन । ५२१
 पाश-राशि । १०९, ११२
 पिटारीसे साँप । ३११
 पीला पत्ता (दूटा) । ४४६
 पुष्करिणी । ४८, १६६
 पुष्करिणी । चौकोर—४९७
 पुष्पमाला । २३०
 पूर्णिमाका चंद्रमा । ५९४
 पृथिवीके आश्रयसे प्राणि और भूत । १३९
 प्रसाद । ४८
 बन्धनागार । १६३
 बलवान्का हाथ समेटना । १०६
 बलवान् और दुर्बल । ४०६
 बलवान् और भेड़ । १३८
 बलवान् और शिखरसे शिर टकराना । ४०६
 बलवान् और शौंडिका-किलंज । १३९
 बालूसे तेल । ५२१
 बिल्लीकी खालका खर्खरा करना । ८३
 बीज । तरुण—२६८
 बूढ़ा । अस्ती-वर्षका । ५०
 मटका खाली । ४९६, ४९७
 मटज-आयुध । १६५
 मधु-पिंड । ७३
 मर्कट-शावक । २२९
 महाधनीका त्याग । २६४
 महावनमें पल्लव । ७६
 मालुवा लता । १८४
 मांस-पेशी । ८४, ९३, २१७
 मुर्गीके अंडे । ६७, २१२
 मूँजसे साँक । ३११
 मूर्धाभिपिक्त राजा । ३६५
 मृतमाता । पगली—३५९
 म्यानसे तलवार । ३११
 याचितकूपम । २१७
 याचितकोपम । ८४
 रथके अंग-प्रत्यंगमें चतुर । २३५
 रथ-विनीत (= डाक) । ९६
 रोग । १६२

ललुट्टिका (= गौरव्या) । २६३
 लौका कड़वा । १८८
 बज्जी-मल्लके संघ । १४०
 वत्स । तरुण—२६८
 वम्मिक । ९३
 वल्लपर रंग । २४
 वल्लसे शिर ढँका । ४१६
 वाणिज्य । ४१५
 वृक्षका सव अनित्य । ५९२
 वृक्ष-फल । ८४
 वृक्षफलोपम । २१८
 वैदुर्य-मणि (= हीरा) । ३११, ३१९, ३२३
 वैदेहिका और काली । ८०
 व्याधा । ३३४
 शक्ति-शूल । ८४
 शंख-धमक । ३११
 शंख वजाने वाला । ४१९
 शरदूका सूर्य । ३२०
 शल्य-विद्ध और वैद्य । ४४७, ४४८
 शाल-वृक्ष (सार-मात्र) । २८३

शिला, न जुड़नेवाली । ४४६
 शुष्क काष्ठ । १४६
 सुमान-द्वारवाले दो घर । ३१२
 समुद्र ४९६
 सर्प-शिर । ८४
 सारगनेपी । १२१, १२२, १०४, १४१
 सार-गवेपी पुरुष । ७१
 सींगसे दूध । ५२१
 सुवर्णकार । ३११
 सुशिक्षित हाथी आदि । ५१६
 सुसुका-भय । २७०
 सूअोंकी पाँती । ३४८
 सूर्य । शरदू— १८८
 सोनार और सोना । ५७४
 त्तनसे दूध । ५२१
 लान-चूण । ३१०
 स्वप्न । ८४, २१७
 हस्तिपद । १११, ११६, ११७
 हस्ती । हरिस-दन्त राज— २४६, २६३

२-नाम-अनुक्रमणी

- अ-कनिष्ठ ४९९ (देव) ।
 अ-कनिष्ठक । १७० (देवता) ।
 अग्निवेश । १३८ (वैशालीके सञ्चकका गोत्र) ।
 अग्निवेश । ५१५ (अचिरवत श्रमणोद्देशका गोत्र) ।
 अग्निवेश । २८७ (दीर्घनख परिव्राजकका गोत्र) ।
 अंग । (में अक्षपुर) १६१, १६५ ।
 अंग । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 अंगुत्तराप देश । (में आपण), २१४, २६२, ३८१ ।
 अंगुलिमाल । ३५३ (ढाकू, प्रसेनजित्के राज्यमें) । ३५४ (हुद्धका शिष्य), ३५५ (मैत्रायणी-पुत्र गार्ग्य), ३५६ (की सिद्धार्ह), ३५७ (मुक्त) ।
 अचिरवत । ५१५ (श्रमणोद्देश, राजगृहमें, गोप्रसे अभिवेश) ।
 अचिरवती । २१४ टि० (= रापती), ३६३ (पर्वतसे आई नदी, श्रावस्तीमें) ।
 अच्युत । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 अच्युतांग । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 अजातशत्रु । १४० (मगध-राज वैदेही-पुत्र); (-मागध वैदेही-पुत्र राजा प्रसेनजित्को भेजा वाहीतिक वस्त्र);
 अजातशत्रु । ४५५ (मगधराज, वैदेहिपुत्र, बुद्ध निर्वाणके थोड़े ही समय याद राजा प्रद्योतके मयसे नगरको सुरक्षित कर रहा था) ।
 अजित केश-कम्बली । १२४, (तीर्थंकर), १४७, (क्रोधी), ३०० (उच्छेदवादी) ।
 अट्टक । ३९६ (ब्राह्मणोंके पूर्वज मंत्रकर्ता ऋषि) ।
 अट्टक नागर । (देखो दसम गृहपति) ।
 अ-तप्य । ४९९ (देव) ।
 अनवतप्तदह । २१४ ।
 अनाथपिंडिक । ५८२ (श्रावस्तीमें, यीमार,), ५८३ (मृत्यु, देवपुत्र,), ५८४ ।
 अनाथ-पिंडिकका आराम । (देखो श्रावस्ती) ।
 अनासव । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 अनिघ । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 अनुगार वरचर । ३०५ (राजगृहमें अभिजात परिव्राजक) ।
 अनुरुद्ध । १२७, १३०, १३१ (का युकाय); २७१ (नलकयानमें); ४९० (श्रावस्तीमें); ५२३ (श्रावस्तीमें); ५३१ ।
 अनोमनिष्कम । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 अन्धवन । ९२, ५९५ (श्रावस्तीमें) ।
 अपराजित । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 अ-प्रमाण-शुभ । ४९९ (देव) ।
 अप्रमाणाभ । (देवता), १७०, ४९९ ।
 अभय राजकुमार । २३४-३६ (राजगृहमें बुद्धसे संवाद, निर्गठ नात-पुस्तका भूतपूर्व शिष्य) ।
 अभिभू । ३ (देवता) ।
 अम्बलट्टिक । २४५ (राजगृहमें) ।
 अरिद्ध । गंधवाधि-पुत्र्य—८४ (की धुरी धारणा) ।
 अरिष्ट । (देखो अरिद्ध) ।
 अरिष्ट । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 अवन्तिपुत्र । माथुर—३४० (मथुराका राजा), ३४३ (बुद्धनिर्वाणके याद याँद हुआ) ।
 अवरपुर-वन-संघ । ४४ (वैशालीमें) ।

अ-विभ । (देवता) १७०, ४९९ ।
 अश्वजित् । १३८ (आयुष्मान्);
 अश्वजित् । २७५ (कीटागिरिमें),
 अश्वपुर । १६१, १६५ (अंगदेशमें) ।
 अष्टम । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 असित । (देखो देवल भी) ।
 असित । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 असेय्य । ४८४ (प्रत्येक बुद्ध) ।
 आकाश-गोत्र । (देखो संजय) ।
 आकाशानन्यायतन । (देवता) ३, १७०, ४९९ ।
 आर्किचन्यायतन । (देवता) ३, १७०, ४९९ ।
 आजीवक । १०७ (-संप्रदायके तीन आचार्य)
 २८०, ३०३ (-संप्रदायके मार्गदर्शक
 थे—नन्द-वात्स्य, कृश साकृत्य और मक्खलि
 गोसाल) ।
 आतप्य । १७० (देवता) ।
 आनन्द । (आयुष्मान्) ७३, १०२,
 १३० (भगवान्के उपस्थाकका झुकाव),
 २०८ (का वैशालीमें उपदेश), २१०
 (का उपदेश, बुद्धकी आज्ञासे), २५४-५६,
 २७१ (नलकपानमें), २९९, ३०४, (का
 सन्दकको उपदेश), ३२५-२९, ३३८-३९
 (को उपदेश), ३६१-६३ (का प्रसेनजित्-
 को उपदेश) ३७० (का विह्वडभ सेनापतिसे
 संलाप), ३७१ (की प्रसेनजित् द्वारा
 प्रशंसा), ४४१ (सामगाममें), ४५५
 (निर्वाणके बाद राजगृहमें), ४९०, ५०१;
 ५०४ (कपिलवस्तुमें) ५०९, ५२३, ५४५,
 ५५५, ५७९ (कपिल वस्तुमें), ५८२ (की
 प्रजापतीके लिये वकालत); ६०९ (कजं-
 गलामें) ।
 आनन्द । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 आपण । २१४ (अंगुत्तरापदेशमें कल्या),
 २१४, २६२, ३८१ ।
 आभ । (देवता) १७०, ४९९ ।
 आभास्वर । (देवता) ३, १७०, १९५,
 १९६, ४९९ ।
 आमलकोवन । २६७ (चातुर्मामें) ।

आलार कालाम । १०४ (के पास सिद्धार्थका
 जाना), १०७, ३४५, ४२२ ।
 आश्वलायन । ३८६ (श्रावन्ती-निवासी विद्वान्
 मुंडित तरुण ब्राह्मण), ३८७-९० (बुद्धके
 साथ संलाप) ।
 इच्छानंगल । ४०९ (में, वंकि, तारुत्त,
 जानुस्सोणि, तोदेय्य, वाशिष्ठ, भारद्वाज) ।
 इन्द्र । (देखो शक्र) ।
 इसिगिणि । ४८३ (= ऋषिगिरि, राजगृहमें) ।
 उक्कट्टा । (में सुभगवन) ३, १९४ ।
 उक्काचेल । १३६ (वज्जीदेशमें, संभवतः वर्त-
 मान सोनपुर या हाजीपुर, विहार) ।
 उगगहमाण । (देखो समण माहिका-पुत्त) ।
 उच्चांगमय । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 उजुका । (= उजुब्बा = उरब्बा) । ३६८
 (राष्ट्र और नगरमें प्रमेनजित् रानियों
 सहित, में गणतन्त्रलक मृगदाघ) ।
 उज्जय । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 उत्तर । ३७३ (मिथिलामें मल्लायु ब्राह्मणका
 शिष्य), ३७४-७५ (द्वारा बुद्धकी परीक्षा),
 ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 उत्तर भाणवक । ६०७ (पारासविय ब्राह्मणका
 शिष्य कजंगलामें) ।
 उत्पल । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 उदायी । २३७ (आयुष्मान्), २६२-६६ (को
 उपदेश) । ३९१ (आयुष्मान्का चारणमीमें
 घोटमुख ब्राह्मणको उपदेश), ५५६
 (राजगृहमें) ।
 उदायी । सकुल - ३०५-१३ (राजगृहमें परि-
 ब्राजक), ३१८, ३२२ (- परिभाजकको,
 राजगृहमें उपदेश), ३२२ (को बुद्धका
 शिष्य होनेमें याथा) ।
 उद्दक रामपुत्त । ३४६ (सिद्धार्थका गुरु),
 ४२२ ।
 उद्दक रामपुत्र । १०५, १०७ ।
 उप-अरिष्ट । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 उप-ऋषभ । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 उपक आजीवक । १०७ (बुद्धने मुलाकात) ।

उपकाल । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 उपतिप्य । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 उपनन्द । ४५७ (मगधका सेनापति) ।
 उपनन्द । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 उपनीत । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 उपनेमिप । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 उपशिखी । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 उपालि । २२३ (यालक-लौणकार निवासी
 गृहपति), २२४-२७ (का बुद्धसे संवाद) ।
 उपासभ । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 उपोसथ । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 उरुवेला । १०५ (= बोधगया सेनानी निगम),
 १४६ (में सेनानी निगम, मगधमें),
 ३४६ (मगधदेशमें सेनानी निगम) ।
 ऋपिगिरि । ५९ (राजगृहमें) ४८३ (= इसि-
 गिलि, राजगृहमें) ।
 ऋपिदत्त । ३६६ (बुद्ध-भक्त, तथा राजा
 प्रसेनजित्का नौकर) ।
 ऋपिपतन । १०७, १०८ (वाराणसीमें),
 ३२६ (में काश्यप बुद्ध), १०७, ५७८ ।
 एकपुंडरीक । १४८ (इन्द्रका उद्यान) ।
 एकपुंडरीक । ३६१ (राजा प्रसेनजित्का हाथी) ।
 औपसाद् । ३९४ (कोसलमें ब्राह्मणग्राम,
 जिसके उत्तरमें देववनका स्वामी चंकि
 ब्राह्मण) ।
 औपमन्यव पौष्करसाति । ४१६ (सुभगवन-
 निवासी) ।
 ककुत्संध (देखो प्रकृच्छन्द) ।
 कजंगला । ६०७ (में सुवेणुवन) ।
 करणत्यलक । ३६८ (बज्रुकामें) ।
 करणमुंड-द्दह । २१४ टि० ।
 कन्द्रक । २०५ (चम्पामें पट्टिाजक) ।
 कपिलवन्तु । [५७, ७० (शाक्यदेशमें, जहाँ
 न्यप्रोचाराम था)], २१० (में न्यप्रोधा-
 राम, में संख्यामार), ५०४, ५५० (शाक्य-
 देशमें, न्यप्रोचाराम), ५७९ ।

कप्पिन । महा—४९० (श्रावस्तीमें) ।
 कम्बोज । ३८७ (देशमें आर्य और दास दो
 ही वर्ण) ।
 कम्मासदम्म ३५ (कुरुदेशमें निगम, देखो
 बुद्धचर्या, पृष्ठ ११८), २९२, ४४९ (कुरु-
 देशमें कल्या) ।
 कलन्दक-निवाप । ९४ (राजगृहमें), (देखो
 राजगृह वेणुवन) ।
 कलार जनक । ३३९ (मिथिलाका राजा) ।
 कलिगारण्य । २२६ ।
 कल्माषदम्य । (देखो कम्मासदम्म) ।
 कात्यायन । (देखो वेखणल) ।
 कात्यायन । प्रकृध—(देखो प्रकृध) ।
 कात्यायन । महा—७१ (बुद्धद्वारा प्रशंसित),
 ३४० (का उपदेश अवन्तिपुत्रको), ४९०
 (श्रावस्तीमें), ५४७ (राजगृह तपोदाराम-
 में), ५६४-६६ (का उपदेश श्रावस्तीमें) ।
 कात्यायन । सभ्य—५२४, ५२६ (आयुष्मान्,
 श्रावस्तीमें) ।
 कापथिक । ३९६ (माणवक, चंकि ब्राह्मणका
 विद्वान् शिष्य, गोत्रसे भारद्वाज), ३९९
 (बुद्धोपासक) ।
 कारायण । दीर्घ—३६४ (प्रसेनजित्का अमात्य) ।
 काल । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 काल-कूट । २१४ टि० ।
 काल-शिला । ५९ (राजगृहमें, ऋपिगिरिके
 पास) ।
 कालाम । (देखो आलार) ।
 काली । ८० (वैदेहिका गृहपत्नीकी दासी,
 श्रावस्ती-वासिनी), १९८ (दूसीमारकी
 यहिन) ।
 काशी । २७५ (में कीटागिरि),
 ३२६ (- में वाराणसी), ३६० (देशका
 राजा प्रसेनजित्) ।
 काश्यप । ३२६-२९ (बुद्ध) ।
 काश्यप । अचेल—५१२ (राजगृहमें) ।
 काश्यप । कुमार—९२ (मिथु) ।
 काश्यप । पूर्ण—(देखो पूर्ण काश्यप) ।

- काश्यप । महा—१३०, १३१ (का विचार),
४९० (श्रावस्तीमें) ।
- किंकि । ३२६-२७ (काशिराज, काश्यप बुद्धका
सेवक) ।
- किन्विल । १२७, २७१ (नलकपानमें) ।
- कीटागिरि । २७५ (काशीदेशमें) ।
- कैण्णिय जटिल । ३८१ (आपण-निवासी) ।
- केतुमान् । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
- केतुम्पराग । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
- केवट्ट-पुत्त । साति (देखो साति) ।
- केशकम्बली । अजित—(देखो अजित) ।
- कुक्कुटाराम । २०८ (पाटलिपुत्रमें) ।
- कुणाल-दह । २१४ टि० ।
- कुण्डधान । २७१ (नलकपानमें) ।
- कुरु । ३५, २९२ (-देशमें कम्मासदम्म कल्या),
३३० (-देशमें शुल्लकोट्टित कल्या, यही-
राजधानी), ४४९ (देशमें कम्मासदम्म) ।
- कुसीनारा । ४३८ (में बलिहरण वन) ।
- कृश सांकृत्त्य । १०७ टि० ३०३ (आजीवकों-
का आचार्य); १४४ (अचेलक) ।
- कृष्ण । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।
- कैलाश-कूट । २१४ टि० ।
- कोकनद-प्रासाद । ३४४ (सुसुमारनिरिमें
वोधि राजकुमारका) ।
- कोट्टित । महा—(देखो कोट्टिल), ४९० ।
- कोलि । २३१ (-देशमें हलिहवसन कल्या) ।
- कोलिय-पुत्त । (देखो पूर्ण) ।
- कोट्टिल । महा—१७३ (= महा कोट्टित)
१७८ ।
- कोसम्ब्री । (देखो कौशाम्बी) ।
- कोसल । (-देशकी राजनीतिक अवस्थाके लिये
देखो प्रसेनजित् मी) । ९६ (-देशमें
श्रावस्ती, साकेत); १६८, २३९ (मेंशाला
ब्राह्मण ग्राम), २७१ (में नलक-पान),
३२५, ३६० (देशका राजा प्रसेनजित्),
३९४ (-देशमें ओपसाद ब्राह्मण-ग्राम,
जिसके उत्तरमें देववन), ४१६ (-देशके
महाशाल ब्राह्मण—चंकि, तारुण, पौष्कर-
- साति, जानुश्रोणि, तांदेव्य), ४२१ (-देश
में मंडलकप्प), ६०३ (में नगरविन्देव्य
ब्राह्मण-ग्राम) ।
- कोसो । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।
- कौरव्य । ३३४ (कुल्ल-देशका राजा) ।
- कौशाम्बी (कौसग्यो) १९१, (में घोषिता-
राम), २९९ (में घोषिताराम और इन्द्र-
गुहा और देवकट-सोव्म), ३५२ (के
घोषिताराममें वोधि राजकुमारके गर्भमें
रहते समय माताका बुद्धको अभिषादन
करना), ४२७ ।
- कौशिक । १४९ (= इन्द्र) ।
- कौसल्य ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
- क्रकुच्छन्द (= ककुसंध) । (बुद्ध), १९८
१९९, २०० ।
- क्षेम्ब्याभिरत्त । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)
- खेमिय-अम्भवन ३९१ (चारणमीमें), ।
- गगारा । २०५ (चम्पामें पुष्करिणी) ।
- गंगानदी । ८२, २१४ टि०; २८६ (ससुन्द-
निम्ना) ।
- गणक मोग्गलान । ४५२ (धारणीमें) ।
- गंधवाधि-पुच्च अरिट्ट । (देखो भरिट्ट) ।
- गंधमादन-कूट । २१४ टि० ।
- गंधार । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
- गया । १०७ ।
- गार्ग्य । (देखो अंगुलिमार) ।
- गिजकावसथ । १२७ (नादिकामें, व-जीमें) ।
- गुंदवन । ३४० (मधुरामें) ।
- गुप्तजित् । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
- गुलिस्सानि । २७३ (राजगृहमें आरण्यक
मिष्ठु) ।
- गुध्रकूट । ५९ (राजगृहमें), २८९ (पर
शुकर-खाता), (राजगृहमें पर्यंत), ४८३,
४८५ ।
- गोपक मोग्गलान । ४५७ (राजगृहमें) ।
- गोत्रतिक । २३१ (देखो फालिन्द-सुत्त पूर्ण) ।
- गोसिंग सालवन । १२७, १३० (नादिकामें) ।
- गीतम । (= बुद्ध), १३, १६, ४४, ५३, १३९-

४३. १६८, १९६ (देवता), २८३ ३२३,
 (देखो बुद्धमी) ।
 गौतमी । (देखो प्रजापती)
 घटाय । ५०४ (-शाक्यका विहार कपिलवस्तुमें) ।
 घटिकार । ३२५ (कुम्भकार वेहर्लिंगमें काश्यप
 बुद्धका सेवक) ।
 घोटमुख ३९१ । (ब्राह्मणका वाराणसीमें उदायी
 से संवाद), ३९३ (निर्वाण-प्राप्त बुद्धका
 शरणागत, का पाटलिपुत्रके कुक्कुटाराममें
 घोटमुखी उपस्थान-शाला बनवाना) ।
 घोटमुखी । ३९३ (बुद्धनिर्वाणके याद, पाटलि-
 पुत्रके कुक्कुटाराममें घोटमुख ब्राह्मण द्वारा
 बनवाई उपस्थान-शाला) ।
 घोपिताराम । (कौशाम्बीमें), १९१, २९९,
 ५२७ ।
 चंकि । (कोसल देशका ब्राह्मण महाशाल),
 ३९४ (- ब्राह्मण, प्रसेनजित्द्वारा प्रदत्त
 ओपसाद-ब्राह्मण-ग्रामका स्वामी), ३९६
 (का शिष्य कापथिक माणवक); ४०९
 (इच्छानंगलमें, ब्राह्मण) ।
 चन्दन । ५५० (देव-पुत्र) ।
 चम्पा । २०५ (में गंगारा पुष्करिणी) ।
 चातुमा । २६७ (में आमलकीवन, शाक्योंका
 गणतंत्र) ।
 चातुर्महाराज । ४६ (एक देवता-समुदाय) ।
 चातुर्महाराजिक । १७० (देवता), ४९८ ।
 चित्रकूट । २१४ टि०
 चुन्द । महा—२७, २९, ४९० (श्रावस्तीमें),
 ५८५ (राजगृहमें) ।
 चुन्द समणुद्देश । ४४१ टि० (साविपुत्रका
 भाई, सामगाममें) ।
 छहन्त-दह । २१४ टि० ।
 छत्र । महा—५८५ (राजगृहमें), ५८६
 (की आत्महत्या) ।
 जनक । (देखो कलार) ।
 जन्यद्वीप । २१४ टि० (विस्तार से) ।
 जयन्त । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 जयसेन । ५१५ (विंयसारका पुत्र, राजगृहमें),

५२० (राजकुमार, राजगृहमें) ।
 जागुस्सोणि । १११ (= जानुश्रोणि ब्राह्मण,
 श्रावस्तीका) ।
 जानुश्रोणि । १३ (श्रावस्तीका ब्राह्मण); १६
 (उपासक), ४१६ (कोसल देशका ब्राह्मण
 महाशाल), ४२० (श्रावस्तीमें बढवा
 रखपर), ४०९ (इच्छानंगलमें ब्राह्मण) ।
 जाली । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 जित् । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 जीवक कौमारभृत्य । २२० (राजगृहमें) ।
 जेत । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 जेतवन । (देखो श्रावस्ती) । ५८४ (की
 महिमा, अनार्थपिण्डिक देवपुत्र द्वारा) ।
 जोतिपाल । ३२५ (कश्यप बुद्धका शिष्य) ।
 तगरसिखी । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 तत । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 तपोदाराम । ५४६ (राजगृहमें) ।
 तारुक्ख । ४०९ (इच्छानंगलमें ब्राह्मण) ।
 तारुक्ख । ४१६ (कोसल-देशका ब्राह्मण-
 महाशाल) ।
 तिन्दुकाचोर । ३१४ (श्रावस्तीमें) ।
 तिप्य । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 तुपित । १७० (देवता) ४९८ ।
 तोदेय्य । (देखो ताँदेय्य मी), ४०९ (इच्छा-
 नंगलमें ब्राह्मण) ।
 तोदेय्यपुत्त । (देखो शुभ), ५५२ (शुभ
 माणव) ।
 तौदेय्य । ४१७ (कोसलके ब्राह्मण महाशाल,
 का पुत्र शुभ माणवक), ४२० (भारद्वाज-
 गोत्री) ।
 त्रयस्त्रिंश । ४६ (देव-समुदाय), १४८ (देव-
 लोक), १७० (देवता, ३३८ में सुधर्मा
 -समा), ४९८, ५५० (में पांडु-कर्म्यल-
 शिला) ।
 थुल्लकोट्टित । ३३० (कुरुदेशकी राजधानी, यहीं
 के राष्ट्रपाल), ३३२, ३३४ (में राजा
 कौरव्य, में भिगा-चीर दधान) ।
 दक्षिणागिरि । ४०४ (राजगृहके पास) ।
 दण्डकारण्य । २२६ ।

दण्डपाणि शाक्य । ७० (कपिलवस्तुका शाक्य) ।

दर्विल । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।

दसम गृहपति । २०८-९ (अट्टक नागर) ।

दीर्घकारायण । (देखो कारायण) ।

दीर्घतपस्वी । २२२ (निगंठ नात-पुत्तका शिष्य), २२७ ।

दीर्घतख । २८९-९१ (राजगृहमें परिभ्राजक, अग्निवेश गोत्रीको उपदेश) ।

दीर्घपरजन । १२९ (यक्ष = देवता वज्रीमें) ।

दुरन्वय । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।

दुर्मुख लिच्छवि-पुत्र । १४१ (वैशालीका) ।

दूसी । १८९ (-ब्रह्माकी बहिन काली) १९९, २०० ।

देवकट सोम्भ । २९९ (कौशाम्यीमें) ।

देवदत्त । २२१ (-का निकल जाना) ।

देवदह । ४२७ (शाक्यदेशमें कस्या), ४२७ टि० (के पासमें लुम्बिनीवन) ।

देवल । असित—३८९-९० ।

देववन । ३९४ (ओपसाद ब्राह्मण-ग्रामके उत्तर ओर शालवन) ।

देवासुर-सग्राम । १४९ (में देव विजयी) ।

धम्मदिन्ना । १७९-८३ (-मिथुणीका उपदेश), १८३ (की बुद्ध-मुखसे प्रशंसा) ।

धानंजानि । ४०४ (राजगृहमें ब्राह्मण), ४०८ (की मृत्यु) ।

नगरक । ३६४ (श्रावस्तीके पास, जहाँ राजा प्रसेनजित्का उद्यान था और जहाँसे मेल-लक्ष कस्या ३ योजनपर था) ।

नगर विंदेय्य । ६०३ (कोसलमें ब्राह्मण-ग्राम) ।

नन्द । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।

नन्दक । ५९०, ९४ (आयुष्मान्, मिथुणियों को उपदेश) ।

नन्द वात्स्य । १०७, (आजीवकोंका आचार्य), १४४ (अचेलक), ३०३ (आजीवकोंका नायक) ।

नन्दिय । १२७, २७१ (नलकपानमें) ।

नलकपान । ३७१ (कोसलमें-यहाँ पलासवन) ।

नलकारगाम । ४१९ (श्रावस्तीके समीप) ।

नागसमाल । (आयुष्मान्) ५२ ।

नात-पुत्त । २२२ (जैनतीर्थंकर), ३१८ (सर्वज्ञ, सर्वदर्शी) ।

नाथ-पुत्त निगंठ । ५९ (= जैनतीर्थंकर महा-वीरका माहात्म्य, (देखो नात-पुत्त भी)) ।

नादिका । १२७ (वज्रीदेशमें नमवतः चर्ममान जेयरडीह, मसरख, जि० सारन, में गिज-कावसथ) ।

नालन्दा । २२२ (में प्रावारिक-आश्रयन) ।

नालीजंब । ३५९ (ब्राह्मण, महिकादेवी का संदेश-वाहक) ।

निगंठ नात-पुत्त । (देखो नात-पुत्त), १२४ (जैनतीर्थंकर), १२८, १४० (कृपित), २३४ (का अमयरज कुमारको बुद्धसे शास्त्रार्थ करनेके लिये भेजना), ३०१ (अकृत विधवादी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी), ४२८ (सर्वज्ञ), ४४१ (जो मृत्यु पात्रामें) ।

निमि । ३३८ (मिथिलाका राजा) ।

निर्माणरति । १७० (देवता) ४९८ ।

नीथ । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।

नेमिप । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।

नैवसंज्ञानासंज्ञायतन । (देवता) ३, १७१, ४९९ ।

न्यग्रोधाराम । (देखो कपिलवस्तु भी) ५७, ७०, २१०, ५०४ (कपिलवस्तु में) ।

पंगुपुत्त आजीवक । २० ।

पंचकांग स्थपति । ३१४-१७ (जो धाम्नीमें उपदेश), २३७ (श्रावस्तीमें) ।

पंचवर्गीय । (मिथु) १०७, १०८, ३५० (- मिथुजोंको उपदेश) ।

पद्म । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।

पद्मोत्तर । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।

पव्वजितट्टित । ५८६ (वज्जीमें गौर) ।

परनिमित्तवशवर्ती । (देवता) १७०, ४९८ ।

परीत्तशुभ । ४९९ (देवता) ।

परीत्ताभ । (देवता) १७०, ४९९ ।

पर्वत । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।

पलासवन । २७१ (नलकपानमें) ।
 पश्यो । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 पार्तालपुत्र । २०८ (में कुक्कुटाराम), ३९३
 (के कुक्कुटाराममें घोटमुखी उपस्थान-
 शाला, जो बुद्ध-निर्वाणके याद यनी) ।
 पांडव-पर्वत । ४८३ (राजगृहमें पर्वत) ।
 पांडुकम्बल-शिला । ५५० (त्रायस्त्रिंश देव-
 लोकमें) ।
 पारासविय । ५०७ (ब्राह्मणका शिष्य उत्तर
 माणवकका याद) ।
 पावा । ४४१ (में निगण्ठ नातपुत्तकी मृत्यु) ।
 पिंगलकोच्छ । १२४ (श्रावस्तीका ब्राह्मण)
 १२६ ।
 पिंडोल । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 पिलोतिक । १११ (परिव्राजक, वात्स्यायन) ।
 पुक्कुसाति । ५७२ टि० (मिथु, पहिले तक्ष-
 शिलाका राजा), ५७७ (की गायसे मृत्यु) ।
 पुनर्वसु । २७५ (कीटागिरिमें) ।
 पुराण स्थपति । ३६६ (बुद्ध-भक्त तथा राजा
 प्रसेनजित्का नौकर) ।
 पूर्ण । ५८८-८९ (को उपदेश, का सूनापरान्त-
 गमन) ।
 पूर्ण काश्यप । १२४ (तीर्थंकर), १४७ (कोप) ।
 ३०० (अक्रियावादी) ।
 पूर्ण कोलिय-पुत्त । २३१ (गोद्रतिक) ।
 पूर्ण मैत्रायणी-पुत्र । ९४-५५-९६ = प्रशंसा,
 का सारिपुत्रसे संवाद) ।
 पूर्णिका । ४१६ (दासी, सुभगवनिक औपमन्यव
 पाष्करसाति ब्राह्मणकी) ।
 पूर्वकोष्ठक । १०२ (श्रावस्तीमें) ।
 पूर्वाराम । (देखो मृगारमाता-प्रासाद भी),
 १०२ (श्रावस्तीमें मृगारमाताका प्रासाद),
 १०२, ३६१, ४५२, ४६०, ४६३, ५०१,
 (हाथी-गाय आदिने शून्य) ।
 पेत्स । २०५ (चम्पा-निवासी); २०६ (महा
 प्राज्ञ, बुद्ध-सुपमे) ।
 पोतलि-पुत्त । ५५५ (-परिव्राजक, राजगृहमें) ।
 पोनलिय । २१४ (आपणमें गृहपति उपासक) ।

पौष्करसाति । ३९५ (-ब्राह्मणके पूज्य बुद्ध),
 ४१६ (कोसल देशका ब्राह्मण महाशाल),
 ४१६ (औपमन्यव, सुभगवन-निवासी,
 की दासी पूर्णिका),
 प्रक्रुध कात्यायन । १२४ (तीर्थंकर), १४७
 (कुपित) ।
 प्रजापति । (देवता), ३, १९६ ।
 प्रजापती । महा—५७९ (गौतमी, वस्त्रदान),
 ५९० (श्रावस्तीमें) ।
 प्रद्योत । ४५५ (राजा, बुद्ध-निर्वाणके थोड़ेही
 समय याद, राजगृहपर हमला करना चाहता
 था) ।
 प्रयाग । २६ (सरस्वतीके पास) ।
 प्रवक्ता । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 प्रावारिक-अम्रवन । २२२ (नालंदामें) ।
 प्रसेनजित् । ९६ (कोसल-राजकी श्रावस्तीसे
 साकेतकी यात्रा), १४० (कोमल-राज),
 ३५३ (के राज्यमें अंगुलिमाल डाकू),
 ३५४ (के पडोसी मागध विषसार और
 वैशालीके लिच्छवि), ३५८ (की रानी
 मल्लिका), ३५९ (का मल्लिकाको ताना,
 की एकलौती पुत्री वजिरी), ३६० (की
 प्रिया रानी वासभ खत्तिया, का प्रिय
 पुत्र विहूदम, की प्रिया मल्लिका, के प्रिय
 काशी-कोसल, की मगवान्में श्रद्धा),
 ३६१ (-कोसलका एकपुडरीक हाथी),
 ३६२ (को अज्ञातशत्रुका भेजा वाहीतिक
 वस्त्र), ३६४ (शाक्योंके मैतल्लप नगरमें
 गया), ३६५ (मूर्धाभिषिक्त राजा),
 ३६६ (के नौकर ऋषिदत्त और पुराण,
 स्थपति), ३६६ (-के बुद्धके साथी ऋषि-
 दत्त और पुराण, कोसलक अस्पी वर्षका),
 ३६७ टि. (की राजगृहके द्वारपर मृत्यु),
 ३६८ (के राज्यमें उजुका), ३९४
 (-कोसलने चंकि ब्राह्मणको औपमाद ग्राम
 प्रदान किया था), ३९५ (के पूज्य बुद्ध),
 ४२० ।
 प्रियदर्शी । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।

सचगुहा । २९९ (कौशाम्बीमें) ।
फग्गुण । मोलिय । ७९ (का मिथुणियोंके
साथ संसर्ग) ।

फल्गु । २६ (पवित्र नदी) ।

फामुकारि । ४०० (श्रावस्ती-निवासी ब्राह्मण),
४०१-३ ।

वन्धुमान् । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।

वलिहरण । ४३८ (कुसीनारामें वनपण्ड) ।

वालक-लोणकार । २२३ (गाँवका उपाली
गृहपति नालन्दामें) ।

वाहुका । २६ (सुपवित्र नदी) ।

वाहुमती । २६ (पवित्र नदी) ।

वाहुलिका । २६ (पवित्र नदी) ।

विंसार । ६० (मगध-राज), ३५४ (माराध,
प्रसेनजित्का पडोसी राजा) ।

बुद्ध । १३ (बोधिसत्व-जीवन), ४८-५१ (की
तपस्यायें), १३-१६ (बोधिके पहिले भय-
मूल, और बोधि), ७४ (बोधसे पहिले
चित्तकी अवस्था) ९० (पर वैतयिक =
उच्छेदवादी Materialist होनेका दोष,
देखो गाँतम मी), ४जीवनी, ४४ (-गुण),
४८ (-तपस्या), ४९-५१ (-रूक्षाचार,-
अनुकम्पा,-प्रविवेक, आदि), ९० (के
विषयमें सम्मति), १०३-१० (तत्त्वकी
खोज, आलार कालाम, और उदक राम-
पुत्तकी शिष्यता, बुद्धत्व-प्राप्ति, और धर्म-
चक्र-प्रवर्तन), १०४ (आलार कालामके
पास जाना), १०५ (उद्रक रामपुत्रके
पास जाना), १४६-४७ (-तप), ३४३
(-निर्वाणके वाद), ३४९ (वाल्य कालमें
शुद्धोदनके खेतपर जामुनके नीचे समाधि-
प्राप्ति), २३४-३६ (राजगृहमें अमय
राजकुमारसे संवाद), ३४५-५१ (का
संन्यास-जीवन, धर्मचक्र-प्रवर्तन तक),
३४५ (का पाँवडेपर चलनेसे इन्कार),
३६६ (बुद्धकी प्रज्ञा), ३७५-७६ (का
रूप, गमन, धरम प्रवेदा, और भोजनका

३०६-९ (के गुण), ३६९ (का मन—
एकही वार सर्वत्र जाँहें नहीं हों सकता),
३८६ (चानुर्वर्णा शुद्धि माननेवाले), ३९५
(के गुण, प्रमेनजित्के पूज्य, ब्राह्मण पीण्डर-
सातिके पूज्य), ४१४ (विमज्जवादी),
४२२ (-जीवनी, गृहत्याग, आलार कालाम
और उदक राम-पुत्तके पास),

बेहत्फल । (देवता), १७०, १९५, ४९९ ।

बोधि । १०७ (= बोधगया) ।

बोधि । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।

बोधि राजकुमार । ३४४-५२ (को उपदेन),
३४४ (का मर्गदेशके सुंसुमारगिरिमें
कोकनद-प्राग्वाद्), ३५२ (की गर्भवती
मातानेही पुत्रको बुद्धका शरणागत करारा;
सुंसुमारगिरिमें इसकी धारुने मी शरणागत
कराया, तीसरी वार स्वयं शरणागत) ।

ब्रह्मकायिक । १७० (देवता) ।

ब्रह्मा । (देवता) ४६, १७०, १९६, २०१
(की लभा, सुधर्मा), ४९८ (साहस्र),
४९९ (द्विसाहस्र, चतुःसाहस्र; पंच-साहस्र,
दश-साहस्र, शत-साहस्र) ।

ब्रह्मा । वक्—१९४, १९६ ।

ब्रह्मा । सहापति-१०६ (की बुद्धमें प्रार्थना) ।

ब्रह्मायु । २७३ (मिथिलाका वृद्ध विद्वान्
ब्राह्मण), ३७७-८० (का पुत्रमें मंलाप
और बुद्धधर्म-स्वीकार) ।

भट्टालि । २५७-६१ (को उपदेन) ।

भर्ग (= भग्ग) । (-देशकी गीमा, में सुंसु-
मारगिरि) ६१, १९८, ३४४ (-ने सुंसुमार
गिरिमें उदयन-पुत्र बोधि राजकुमारका
मरल) ।

भारद्वाज । (देखो पापयिक मी), ४२२
(देखो मंगारज), ४०९-१३ (इच्छानंगरमें,
तारुख ब्राह्मण का शिष्य) ।

भारद्वाज । (प्रत्येकबुद्ध), ४८४, ४८५ ।

भारद्वाज-भोत्र । २९२ (ब्राह्मण, कुर्में) ।

भारद्वाज । सुन्दरिक—२६ (की प्रमन्या और

भार्गव । ५७२ (राजगृहमें कुम्भकार) ।

भावितात्मा (= भावितत्ता) । ४८४ (प्रत्येक बुद्ध) ।

भिग । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।

भिग । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।

भूमिज । ५२० (आयुष्मान्, राजगृहमें, यह राजकुमार जयसेनके मामा थे) ।

भृगु । २७१ (नलकपानमें) ।

भैसकलावन । (देखो सुंसुमारगिरि), ६१ (सुंसुमारगिरि = चुनार में), २०१ (में महामौद्गल्यायनका मारको डाँटना) ।

मक्खलिगोसाल । १०७ टि० (आजीवकोंका आचार्य), १२४ (तीर्थंकर), १४४, (अचे-लक), १४७ (कुपित), ३०१ (संनार-शुद्धि-वादी), ३०३ (आजीवकोंका नायक) ।

मखादेव । ३३८ (मिथिलाका राजा) ।

मखादेव-आम्रवन । ३३८ (मिथिलामें) ।

मगध । १०६ (में मलिन धर्म), १४६, १३६ (से गंगापार विदेह), ३४६ (- देशमें उल्लेख), ४५७ (का सेनापति उपनन्द), ५७२ (में राजगृह) ।

मगध-महामात्त्य । ४५५ (वत्सकार) ।

मंगल । (प्रत्येकबुद्ध) ।

मंडलकप्प । ४२१ (कोसलमें गाँव, जहाँ बुद्ध-भक्त धानंजानी ब्राह्मणी रहती थी) ।

मतुल । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।

मथुरा । ३४० (= मथुरामें गुंदवन) ।

मनोमय । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।

मन्दाकिनी । २१४ टि० ।

मल्ल । १४० (नोंका संघ = प्रजातंत्र) ।

मल्लिकाराम । ३१४ (श्रावस्तीमें तिन्दुका-चीरमें) ।

मल्लिका देवी । ३५८ (प्रसेनजित्की रानी), ३५९ (बुद्धोपासिकाकी पुत्री वजिरी) ।

महानाम । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।

महानाम शाक्य । ५७ (कपिलवस्तु-निवासी) २१०-१३ ।

महावन । ७० (कपिलवस्तुमें) ।

महावन कूटागारशाला । (वैशालीमें), १३८, १४४, २७९, ४४५, ४५८ ।

मही । २१४ टि० (= गंडक) ।

मागन्दिप । २९२-९८ (परिव्राजकको उपदेश कम्मासदम्भमें), २९८ (अर्हत्) ।

मातंग । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।

मातङ्गारण्य । २२६ ।

माथुर । (देखो अवन्तिपुत्र) ।

मानच्छित् । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।

मानसाध्य । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।

मार । ४६ (देवता, जिसका स्थान ब्रह्मापे नीचे और त्रायस्त्रिंश देवगणसे ऊपर है), ७६ (= वुराह्याँ), १९६, १९७, १९८ ।

मालुङ्क्य-पुत्त । २५१-५३ (को उपदेश) ।

मिथिला । ३३८ (में मत्वादेव आम्रवन), ३७३ (विदेह देशमें), ३७७ (में बुद्ध) ।

मृगदाव । (देखो ऋषिपतन, गोर्सिग, फण्ण-त्यलक) ।

मृगार-माताका प्रासाद (= पूर्वाराम, श्रावस्ती में) १०२, १४८, २०१, (देखो पूर्वाराम) ।

मेतलुम्प । (देखो मेतल्ल) ।

मेतल्ल । ३६४ (शाक्य देशमें निगम, नगरकसे तीन योजनपर)

मेध्यारण्य । (= मेज्जारल्ल) ।

मेरु । महा—२०१ ।

मैत्रायणी-पुत्र । (देखो अंगुलिमाल) ।

मैत्रायणी-पुत्र । पूर्ण—(देखो पूर्ण) ।

मोग्गलान । (देखो मौद्गल्यायन) ।

मोग्गलान । गणक—४५२ (श्रावस्तीमें) ।

मोग्गलान । गोपक—४५५ (राजगृहमें) ।

मोग्गलान । महा—(देखो मौद्गल्यायन) ।

मोरनिवाप । ३०५ (राजगृहमें परिव्राजका-राम) ।

मोलिय । (देखो फग्गु) ।

मौद्गल्यायन । महा—१७, २० (श्यायान), १३०, १३१ (का झुकाव), १४८-५० (शक्रको चमत्कार प्रदर्शन, वैजयन्त प्रा-

सादका कंपाना), १९८ (मारतर्जन चमत्कार), २०१ (के चमत्कार, मृगार-भाताके प्रासादको हिलाना, वैजयन्त-प्रासाद-को हिलाना, सुधर्मा-सभामें ब्रह्मासे प्रश्न, मेरु-शिखरको छूना, पूर्व त्रिदेहके पुरुषोंका छूना), २६७ (को हटाना), २७४, ४९० (श्रावस्तीमें), ५७८ ।

यमुना । २१४ टि० ।

यवन । ३८७ (-देशमें आर्य और दास दो ही वर्ण) ।

यशस्वी । ४८४ (प्रत्येकदुद्ध) ।

याम । ४९८ (देव) ।

रक्षित । ४८५ (प्रत्येकदुद्ध) ।

रक्त-पाणि । २२४ ।

रथकार-दह । २१४ टि० ।

रम्यक ब्राह्मणका आराम । १०२ (श्रावस्ती में) ।

राजकाराम । ५९० (श्रावस्ती नगरके भीतर मिश्रुणियोंका आराम), ५९३ ।

राजगृह । ५९ (में गृधकूट; में ऋषिगिरि काल-शिला), ९४ (में कलन्दक-निवाप वेणु-वन) ९८, १७९, २२०, २३४, २४५, ३७३, ३०५, ३१८, ४०४, ४५५, ५१२, ५१५, ५२०, ५५३, ५८५, ६०५, (में गृधकूट पर्वत), २८९, ५८५; ३०५ (में मोरनिवाप), ४५३ (श्रावस्ती से जानेवाला मार्ग), ४८३ (में ऋषिगिरि पर्वत, पांडव-पर्वत, वैपुल्य-पर्वत, गृधकूट पर्वत), ५४६ (में तपोदाराम), ५७२ (मगधमें),

राम । (देखो उद्भक रामपुत्र) ।

रामपुत्र । (देखो उद्भक) ।

राष्ट्रपाल । ३३०-३७ (कुरु देशकी राजधानी धुल्लकोट्टिके निवासीकी प्रमज्या आदि) ।

राहुल । २४८-५० (को श्रावस्तीमें उपदेश), २४५-४७ (को उपदेश) । ५९५ (को अन्धवनमें उपदेश), ५९६ (अर्हत्त्व) ।

रेवत । १३०, १३१ (का सुकाव), २७१

(नलकपानमें), ४९० (श्रावस्तीमें) ।
लिच्छवि । १३८- (वैशालीके प्रजातंत्री),
३५४ (प्रपेनजित्के पड़ोसी) ।
लुम्बिनीवन । ४२७ टि० (शाक्यदेशमें, देवदह कल्याके पास) ।

लोमसकंगिय । ५५० (आयुष्मान् शाक्यदेशमें) ।
लोमहर्ष । ४८४ (प्रत्येकदुद्ध) ।

वक ब्रह्मा । (देखो ब्रह्मा) ।

वकुल । ५१२ (राजगृहमें) ।

वंग । ४८४ (प्रत्येकदुद्ध) ।

वजिरी । ३६० (प्रसेनजित्की एकलौती बेटा) ।

वज्जी । १२९ (की नादिकामे दीर्घपरजन यश),
१३६ (में उफाचेल), १४० (मंघ = प्रजातत्र) ५८६ (देशमें पञ्चजितद्विन गाँव) ।

वज्रपाणि । १४० (यक्ष = देवता) ।

वत्स-गोत्र । २७९ (परिभाजक वैशालीमें),
२८१ (श्रावस्तीमें), २८४ (राजगृहमें),
२८६ (भिक्षु), २८७ (अर्हत्त्व),
२८८ (भ्रंविद्य) ।

वर्षकार । ४५५ (देखो घम्यकार) ४७८ ।

वस्सकार । ४५५ (मगध-महामात्य) ।

वात्स्य । नन्द- (देखो नन्द वात्स्य) ।

वात्स्यायन । १११ (विलोतिक परिभाजकया गोत्र) ।

वामक । ३९६ (मंत्रकर्ता ऋषि) ।

वाराणसी । १०९ (में ऋषिपतन), १००,
१०८, ५७८ ; ३०९ (का यश), ३०६
(-का राजा किकि, काश्यप पुद्गला मय्य),
३९१ (में संमिय-भग्यजन) ।

वाशिष्ठ । ४०९-१२ (इच्छानगलमें, पौर-रसातिका शिष्य) ।

वासभ क्षत्रिया । ३६० (प्रसेनजित्की प्रिया रानी) ।

वाहीत । ३६२ (-देवाका यश) ।

विजित । ४८४ (प्रत्येकदुद्ध) ।

विज्ञानानन्त्यायतन । (देवता) ३, १३०,
४९९ ।

विह्वडम । (सेनापति, प्रसेनजित्का पुत्र),
 ३६०, ३७०, ३६९ (प्रसेनजित्के साथ
 उजुक्कामें) ३७१ (का आनंदसे संलाप) ।
 विदेह । १३६ (देश, मगधसे गंगा पार),
 ३७३ (देशमें मिथिला), ३७४ ।
 विदेह । पूर्व— २०१ ।
 विधुर । १९८ (ऋच्छन्द बुद्धके शिष्य) ।
 विमल । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 विमुक्त । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 विरज । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 विशाख । १७९-८३ (उपासक) ।
 वेखण्णस । (वैखानस) । ३२३ (-परिघ्राजकको
 श्रावस्तीमें उपदेश) ।
 वेणुवन (देखो राजगृह) । १७९, २३४,
 २४५, २७३, ४५५ ।
 वेरंजक । १७२ (वेरंजाके ब्राह्मण) ।
 वेलट्टि-पुत्त संजय । (देखो संजय) ।
 वेहल्लिग । ३२५ । (कोसलमें) ।
 वैजयन्त । १४९ (असुरोके विजयके याद
 हृन्दने यनवाया,—की शोभा, को महा
 मांदगत्यायनने कॅपा दिया), २०१ (देव-
 प्रासाद) ।
 वैदेहिका । ८० (श्रावस्ती-वासिनी गृहपत्नीकी
 दासी काली) ।
 वैपुल्य । ४८३ (राजगृहमें पर्वत) ।
 वैशाली । ४४ (में अन्नपुर-वन-पंड), १३८
 (में महावन), १४४, २०८ (में बेलुव-
 गामक), (में महावन कूटागार-शाला),
 २०९, ४४५, ४५८, ३५४ (के लिच्छवि
 प्रसेनजित्के पडोसी) ।
 वैश्रवण । १४९ (-महाराज, देवता) ।
 च्यामांग । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 शक्र । (देवोंका इन्द्र), १४८, १४९, २०१
 (ने असुरोंके विजयके याद वैजयन्त प्रासाद
 यनवाया) ।
 शाक्य (देश) । (में कपिलवस्तु) ५७,७०,
 २१०, ५०४, ५५०, ५७९; ३६७ (का गण
 वंश चातुर्मा), ३६४ (-देशमें मेलत्स्य

कस्या, में वेखटके कोशलराज प्रसेनजित्का
 रथपर जाना), ४२७ (-देशमें देवदह
 कस्या), ४४१ (देशमें सामगाम) ।
 शाक्यपुत्र । १९६ (देवता), ३७७ (= बुद्ध) ।
 शाला । १६८ (ब्राह्मण-ग्राम कोसलदेशमें),
 १७१, १६८, २३९, २४४ ।
 शास्ता । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 शिखरी । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 शिखी । १८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 शुद्धावास । ५१ (देवता) ।
 शुद्धोदन शाक्य । ३४९ (बुद्धके पिता) ।
 शुभ । १७० (देवता) । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 ५५२, ४१४-२० । ५५२ (तोदेव्यपुत्त,
 जेतवनमें) । ४२० (भारद्वाज-गोत्र) ।
 शुभ । अप्रमाण—१७० (देवता) ।
 शुभ । परीत्त—१७० (देवता) ।
 शुभकृत्स्न (सुभकिण्ह) । (देवता), ३,
 १७०, १९५, ४९९ ।
 शुभगवन । (देखो सुभगवन),
 शुम्भ । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 शूकर-खाता । २८९ (राजगृहके गृध्रकूटपर्वत
 पर) ।
 शैल । (देखो सेल) ।
 शोभित । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 श्रद्ध । १८४ (प्रत्येकबुद्ध), ६, १०, १३ ।
 श्रावस्ती (जेतवन) । १७, २०, २४, २७, ३०,
 ४१, ५३, ६५, ६८, ७४, ७७, ७९, ८४, ९२, ९४,
 ९८, १०२, १११, ११७, १२४, १३३, १५१,
 १७२, १७३, १८४, १८६, १८९, १९४, २३७,
 २४८, २५१, २५४, २५७, २७५, २८१,
 २१४, ३१४, ३२३, ३३२, ३५३, ३५८, ३५९,
 ३६१, ३८६, ४००, ४१४, ४३३, ४६६, ४६९,
 ४७१, ४७५, ४७९, ४८६, ४९४, ४९८, ५०९,
 ५३२, ५३९, ५४३, ५४५, ५५०, ५५२,
 ५६०, ५६४, ५६९, ५८२, ५८८, ५९०,
 ५९५, ५९७, ६०१; २५८, ८० (में वैदे-
 हिका और काली); ९२ (में अंधवन),
 (में पूर्वाराम) १०२, १४८, (में

रम्यक ब्राह्मणका आराम), १०२ (में पूर्वकोष्ठक), ३१४ (में तिन्दुकाचीर मल्लिकाराम), (पूर्वाराम) ४५२, ४६०, ४६३, ४९०, ५०१ ।
 श्रीवर्द्ध । (देखो सिरिवड्ड) ।
 श्रुतवान् । ४५४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 सकुल-उदायी । (देखो उदायी) ।
 संगारव । ४२१ (कोसलके मंदलकम्पका रहने वाला विद्वान् ब्राह्मण तरुण, भारद्वाज गोत्री) ।
 संघ । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 सच्चक निगंठ-पुत्त । १३८, १४३ (लिच्छवियों का आचार्य, वैशाली-निवासी, अग्निवेश-गोत्री), १४४-१४७ (से विवाद) ।
 संजय आकाश-गोत्र । ३६९ (प्रसेनजित्का दवारी), ३७१ ।
 सजय वेलट्टि-पुत्त । १३४ (तीर्थंकर), १४७ (कृपित) ।
 संजिका-पुत्र । ३४४ (माणवक, सुंसुमारगिरि में बोधिराजकुमारका मित्र) ।
 संजीव । १९८ (ऋक्षुच्छन्दके शिष्य), १९९ ।
 सत्य । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 सनत्कुमार । २१३ (ब्रह्मा) ।
 सन्दक । २९९-३०४ (पद्मिनाजकको कौशाम्बी-में उपदेश) ।
 समंग । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 सभ्य कात्यायन । ५२४, ५२६ (श्रावस्तीमें) ।
 समण-मंडिका-पुत्त । ३१४ (श्रावस्तीमें परि-ब्राजक) ।
 समयप्रवादक तिन्दुकाचीर । (देखो तिन्दुका-चीर) ।
 समिद्धि । (= समृद्धि) । (आयुष्मान्, राज-गृहमें), ५४६, ५५५ ।
 सरभू । २१४ टि० (शरपू, घाघरा) ।
 सरस्वती । २६ (पवित्र नदी) ।
 सहापति ब्रह्मा । १०६, १०७ ।
 साकेत । ९६ (कोसल देशमें नगर, जो श्रावस्तीसे

७ पडावपर था, वर्तमान जयोंग्या) ।
 सांक्रत्य । कुश—(देखो हून) ।
 साति केवट्ट-पुत्त । १५१-५२ (जौतुरीघारणा) ।
 सामगाम । ४४१ (शाक्य देजनें) ।
 सामिति यानकारपुत्त । २० ।
 सारिपुत्र । (उपदेश) १७-२०, ३४, ४४-५२, २७३-७४, ४७५-७८, ३०, ९४-९६, ११७, १७१-७२, १७३-७८, ९४-९६ (का पूर्णमे संवाद), ९७ (का नाम उपतिष्य) १३०, १३१ (का झुकाव) । २६७ (को हयाना), ४०४ (दक्षिणा गिरिमें), ४६६ (पंडित महाप्रज्ञ), ४९०, ५७८, ५८२, ५८५, ५८७, ६०५-६ ।
 साला । (देखो शाला) ।
 सारिवड्ड । ३६१ (= श्री वर्द्ध, प्रमेनजित्का महामाल्य) ।
 सिंहप्पातक । २१४ टि० ।
 सुकुला । ३६८ (प्रसेनजित्की रानी, सुतो-पासिका, सोमाकी वहिन) ।
 सुदर्श । ४९९ (देव) ।
 सुदर्शन । १७० (देवता), ४८४ (प्रत्येक-बुद्ध) ।
 सुदर्शन कूट । २१४ टि० ।
 सुदर्शी । (देवता), १७०, ४९९ ।
 सुदाठ । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 सुधर्मा । २०१ (ब्रह्माकी सभा), ३३८ (प्राय-स्त्रिदा देवोंकी सभा) ।
 सुनक्खत्त-लिच्छवि-पुत्त । ४४ (गृह्य हो गया लिच्छवि), ४४५-४८ (वैशाली-निवासीको उपदेश) ।
 सुनच्च । (देखो सुनक्खत्त) ।
 सुन्दर । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 सुन्दरिक भारद्वाज । (देखो भारद्वाज) ।
 सुन्दरिका । २६ (पवित्र नदी) ।
 सुप्रतिष्ठित । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 सुवाहु । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
 सुभगवन । ३ (उच्छ्राम्भे), १९४ (में नाम-

- राज), ४१६ (का औपमन्यव पाँक्करसाति
ब्राह्मण) ।
- सुभूति । ५७१ (अरण-प्रतिपदापर आरुद्) ।
- सुमंगल । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
- सुमेध । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
- सुवेणुवन । ६०७ (कजंगलामें) ।
- सुसुमारगिरि । (= चुनार, मर्गदेशमें, जहाँ
भेसकलावन मृगदाव था) ६१, १९८; ३४४
(में उदयन-पुत्र योधि राजकुमारका कोक-
नद-प्रासाद), ३५२ (के भेसकलावनमें
धार्इका शिशु योधि राजकुमारको गोदमें ले
मगवान्के पास जाना) ।
- सूनापरान्त । ५८८ (में पूर्णका जाना) ।
- सेनानी निगम । (मगधके उत्खेलामें),
१०५, १४६, ३४६ ।
- सेनिय । कुक्कुर व्रतिक अचेल—१३१ (हलि-
द्वसनमें) ।
- सेल । ३८२ (आपण-निवासी ब्राह्मण), ३८४
(की प्रम्रज्या और अर्हत्त्व) ।
- सौरत । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।
- सोमा । ३६८ (प्रसेनजित्की रानी, बुद्धोपा-
सिका, सुकुलाकी यहिन) ।
- स्थपति । पंचकांग—५२३ (श्रावस्तीमें) ।
- हिमवान् । २१४ टि० ।
- हरिद्रवसन । (देखो हलिद्वसन) ।
- हलिद्वसन । २३१ (कोलियदेशमें करवा) ।

३-शब्द-अनुक्रमणी

- अ-कनिष्ठ । ४९९ ।
 अ-कालिक । २५ (= कालान्तरमें नहीं, सद्यः
 फलप्रद), २२२ ।
 अ-किंचित् । १७५ (= कुछ नहीं है) ।
 अ-किंचिन । १७७ (= कुछ नहीं है) ।
 अ-कुशल । ४२७ (= बुरे) ।
 अ-कुशल धर्म । १५,७१ (= बुराईयाँ) ।
 अ-कृच्छ्र-त्तापी । ४५७ (= बिना कठिनाई
 के प्राप्त) ।
 अ-कृतविध । ३०१ (= अकृत) ।
 आकृत्यकारी । ४०१ (= पापकारी) ।
 अ-क्रियवाद । ४८९ ।
 अक्षरप्रभेद । ३७३ (= शिक्षा-निरक्त);
 ३८६, ४२१ ।
 अक्षि । २२८ (= आँख) ।
 अक्षिकूप । ५० (= आँखका गड्ढा) ।
 अग्नि-परिचर्या । ५१ (= हवन) ।
 अग्नि-स्कंध । ३२० (= आगका ढेर) ।
 अग्निहोत्र । ३८४ ।
 अग्र । ३७७ (= श्रेष्ठ) ।
 अग्र-पिंड । १९ (= प्रथम परोसा) ।
 अंग । ४८६ (= घात) ।
 अंगण । १७ (= चित्त-मल) १८ (= राग,
 द्वेष, मोह), ४७० ।
 अंगगत । ३३ (= वयः प्राप्त) ।
 अंगारका । २१७ (= भडर, अग्निपूर्ण) ।
 अचेल । ५१२ (= नग्न) ।
 अचेलक । ४८ (= नग्न, के दृत्), १६५
 (= वस्त्र-रहित) ।
 अजपददंड । ८६ (= सर्प पददनेका डंडा) ।
 अजिन । ४९ (= मृग चर्म) ।
 अजिन-क्षिप । ४९ (= मृगचर्मका गंड) ।
 अंजन-नाली । ३३४ ।
 अंजलि-कर्म । ३६९ (= हाथ जोड़ना) ।
 अञ्जा । २७८ (= आज्ञा) ।
 अद्वित । ४२२ (= उत्तम) ।
 अंड । २२८ (= अंडकोश) ।
 अंडज-योनि । ४६ ।
 अन्तप्य । ४९९ ।
 अतिकाल । २७३ (= अतिप्रातः) ।
 अतिदिवा । २७३ (= बहुत पहिले ही) ।
 अतिमानी । ६२ (= अभिमानी) ।
 अतिमुक्तक । २१ (= मोंगरा फूट) ।
 अति-स्नान-वीर्य । ५३० (= अतिलीनयोरिय) ।
 अतिसार । ५७० (= धाजना, पिलगात्र) ।
 अत्यथ । ५७६ (= अपराध) ।
 अदत्तादान । ३२० (= बिना दिया लेना) ।
 अदत्तादायी । ४०१ (= चोर) ।
 अदिन्नादायी । १६८ (= चोर) ।
 अद्भुतधर्म । ८६ (सुदोषदेव) ।
 अधिकरण । ५४ (= रिष्य), ५८ (लगन),
 ७९ (= लघ के नामने अभियोग) ।
 अधिमुक्त । ४४६ (= अनुरागी), ५६३
 (= मुक्त) ।
 अधिमुक्ति । ४५ (= स्वभाव) ।
 अधिमोक्ष । ४६६ (= सुखात्र) ।
 अधिवासन । ६ (= स्त्रीपार) ।
 अधोभाव । २९ (= अरोगनि) ।

अध्ययन । ४५६ (= पाठ) ।
 अध्यवकाशिक । ३०७ (सदा चौड़ेमें रहनेवाले) ।
 अध्यवसान । २८९ (= ग्रहण) ।
 अव्येपणा । १९५ (= प्रार्थना) ।
 अध्यात्म । ११४ (= जपनेमें), २४८ (शरीर
 के भीतर) ।
 अव्यायक । ३८९ ।
 अध्वगत । ५१ (= वृद्ध) ।
 अनपायिनी । ३७४ (= न छोड़ने वाली) ।
 अनय । १०९ (= बुराई) ।
 अनवय । ३८८ (= निपुण) ।
 अनागामी । ४९१ (उस लोकसे यहाँ न आने
 वाले) ।
 अनागारिक । ३४२ (= वेवर) ।
 अनात्मा । १३८ (= आत्मा नहीं), २९०,
 ४६२ ।
 अनार्य-सुख । ५६९ ।
 अनावृत्तिधर्मा । ९१ (= अनागामी) ।
 अनुग्रह । १५४ (= सहायता) ।
 अनुचक्रमण । १३८ (= अनुविचरण) ।
 अनुजात । ३८३ (= पीछे उत्पन्न) ।
 अनुज्ञा । ३३१ (= स्वीकृत) ।
 अनुत्तर । १०३ (= सर्वोत्तम), १४६७ (= अद्वि-
 तीय = अनुपम) ।
 अनुत्तरीय । १४२ (= अनुपम पदार्थ) ।
 अनुधर्म । ४६९ (= नियम, प्रकृति) ।
 अनुनय । १२० (= आलय = रुचि) ।
 अनुपदधम्मविसेस । ४६६ (= अनुपद-धर्म-
 विशेष) ।
 अनुपादान । ५६६ (= अपरिग्रह), ४३६
 (= आग्रह-रहित) ।
 अनुपश्यी । ३८ (= अनुभव करनेवाला) ।
 अनुपहार । २८३ (= न मिलने) ।
 अनुपेक्षित । ५०७ (= विचारित) ।
 अनुबुद्ध । १९६ (= ज्ञानी) ।
 अनुबोध । ३९७ (= बोध) ।
 अनुभव । ४१८ (= उपभोग), ४९१
 (= संबन्ध) ।

अनुभाव । ३६० (= वरकृत) ।
 अनुभूत । १९६ (= प्राप्त) ।
 अनुमान । ६३ (= समझना) ।
 अनुमोदन । ७२ (= अभिनन्दन), ३७६
 (= भोजन सम्बन्धी अनुमोदन) ।
 अनुयुक्त । ५६८ (= लग्न) ।
 अनुयोग । ५७ (= सम्बन्ध) ।
 अनुरुद्ध । ४२ (= प्रतिविरुद्ध) ।
 अनुवाद । ४२९ (= वाद) ।
 अनुवाद-अधिकरण । ४४३ ।
 अनुविचार । ७४ (= विचार) ।
 अनुव्यंजन । १६९ (= चिन्ह), १३४
 (= पहिचान), ४५८ ।
 अनुशय । ८८ (= मल), १३० (= चित्तमल),
 १८२, २५४ (= संस्कार), २२८ (= चित्त-
 दोषों) ।
 अनुशयोंका विनाश, दुःखका विनाश । ५९९ ।
 अनुशयोंकी उत्पत्ति । ५९९ ।
 अनुशासन । २९ (= उपदेश), ५३७ (=
 शासन) ।
 अनुश्रव । (= श्रुति) ३९७, ४२८, ४३५ ।
 अनुसंयान । ५३६ (= निरीक्षण) ।
 अनुसोतं । ५४१ (= धार की ओर) ।
 अनुस्मृति । २५ टि० (= स्मरण) ।
 अनेक-विध । ३१७ (= नाना प्रकार) ।
 अन्-अध्यवसित । ५७५ (= अ-निश्चित) ।
 अन्-अभिरत । ३६५, (= वेमन) ।
 अन्-आख्यात । ४५५ (= न-कहा) ।
 अन्-आत्म । २४४ ।
 अन्-आविल । ३१२ (= स्वच्छ) ।
 अन्-उपनाही । ४३९ (= कीना न-रखने
 वाला) ।
 अन्-उप-त्रय्य । ५८७ (= पुनर्जन्म रहित) ।
 अन्त । ५६७ (= अति) ५६७, ५६८ ।
 अंतगुण । ५४१ (= अंतही) ।
 अन्तःपुर । ९६ (= राजमहल वाला भीतरी
 दुर्ग) ।
 अन्तराय । ८४ (= विघ्न) ।

अन्तरायिक । ८४ (= विघ्नकारक) ।
 अन्तराष्ट्रक । ५० (= माघके अन्तकी चार,
 और फागुनके आरम्भ की चार रातें) ।
 अन्तर-धर । ३७६ (= गृहस्थका घर) ।
 अन्तर्धान । २८२ (= छुप्त) ।
 अन्तान्तिक-वाद । ४३५ ।
 अन्धवेगु-परंपरा । ३९७ (= अंधोंके लकड़ीका
 ताँता), ४१६ (= लगातार अंधोंकी पाँती) ।
 अन्य-तीर्थिक । २९६ (= दूसरे मतवाले) ।
 अन्यथात्व । ३५८ (= त्वरायी) ।
 अन्वय । १९० (= प्रकार) ।
 अन्वयता । २९० (= संबन्धी भाव) ।
 अप-गत । ३५७ (= दुरागत) ।
 अपचित । ३९५ (= पूजित) ।
 अपत्रपा । २६२ (संकोच) ।
 अपत्रपी । २११ (= संकोची) ।
 अपदान । ६२ (= साथ छोडना) ।
 अपर-अन्त । १५६ (= छोर = आगे आनेवाला
 समय), ३१८ (= दूसरे छोर) ।
 अपरान्त । ४३३ (= मरनेके बाद) ।
 अपरान्त-कपिलक । ४३५ (= अपरान्तानुदष्टि),
 ४३३ (= मरनेके बादकी अवस्था) ।
 अपरान्त-दृष्टि । ४३३ ।
 अपरिशेष । ५९ (= सारा) ।
 अपर्णक । २३९ (= अपण्णक), २३९ (=
 दुविधा-रहित), ५२३
 अपश्रयण । ५१३ (= खाट) ।
 अपसादित । ३७६ (= गिराना) ।
 अपहत । ७५ (= शिथिल) ।
 अपापुरण । ५१३ (= कुंजी) ।
 अपाय । ४७ (= दुर्गति) ।
 अप्रत्यय । ६२ (= नाराज़गी), २५९ (=
 असन्तोष) ।
 अप्रमत्त । ३५९ (= उद्योगी), ४०४ (=
 प्रसाद-रहित) ।
 अप्रमाण । ३०९ (= बहुत भारी), ४३४
 (= अतिविद्याल) ।
 अप्रमाणभ । १७०, ४९९, ५२४ ।

अप्रमाण-शुभ । ४९९ ।
 अप्रमाणा-चेतोविमुक्ति । ५२४ ।
 अप्रमाद । ५५७ (= गफलन-वर्ग) ।
 अप्रमेय । ५८० (= प्रमाण-रहित) ।
 अप्रसादन । ५६८, ५७० (= नाराज करना) ।
 अप्भोकास । २५८ (= मुली जगह) ।
 अप्भोकासिक । ३०७ (= मदा चीड़में रहने-
 वाले) ।
 अप-भव्य-आभास । ५५९ (= उरेकी तरह
 दिखाई पडनेवाला) ।
 अभिक्रान्त । ३०७ (= सुन्दर) ।
 अभिक्रांततर । ३१९ (= चमकीला), २९४
 (= उत्तम) ।
 अभिक्रान्तवर्ण । १२ (= प्रकाशनय) ।
 अभिधम्म । (= अभिधम्म), ४३९, १३९
 (= धम्मसंबंधी), २७४ (= धम्ममें,
 बुद्धोपदेशमें), ४३८ (= धर्मके विषयमें),
 ४३९ (= अभिधम्म शब्द, धर्म-विषय
 (= सूत्र-विषयक) ।
 अभिधर्मापिटक । ४३९ (= सूत्रोंमें ही अपने
 गंभीर संक्षिप्त दार्शनिक वाचनार्थलोकोंको
 लेकर ईसा पूर्व तीसरी प्रताडवीण पाठ
 यना) ।
 अभिजाति । २४२ (= जन्म), ३०१, ५०९,
 ४३२ ।
 अभिज्ञा । १०५ (= दिव्य ज्ञान), २५३
 (= लोकोत्तर ज्ञान), २८७, ५०५, ३४६
 (= दिव्य शक्ति) ।
 अभिज्ञात । १४ (= समानित), ४९०
 (= प्रसिद्ध) ।
 अभिज्ञा-परायण । ४१३ ।
 अभिध्या । ११४ (= लोभ) ।
 अभिध्या-रहित । १७० (= निर्लोभी) ।
 अभिध्यालु । (= लोभी) ।
 अभिध्यालुता । अन्— १४ (= निर्लोभिता) ।
 अभिनन्दन । ५३ (= अनुमोदन), २४३
 (लिप्य), २६८ (= अभिवादन—स्वी-
 कार) ।

अभिर्नन्दित । ५४०, १७५, २४७ (= स्वागत) ।
 अभिनिवेश । ८४ (= आग्रह), १४८ (= राग), ४६९ (= ममता), ५२४ (= चाह), ५७० (= जिद्), ५७१ (= दुराग्रह) ।
 अभिनील-नेत्र । ३७५ (= अतसी पुष्प जैसी नीली आँखों वाले) ।
 अभिप्रसन्न । ४२१ (= श्रद्धालु) ।
 अभिभूत । ४३० (= पीडित), ४४९ (= वशमें) ।
 अभिरुद्धा । (= सन्तुष्ट) ।
 अभिरूप । ३९५ (= दर्शनीय) ।
 अभिलक्षित । ९४ (संमानित) ।
 अभिवन्दित । ४५१ (अभिनन्दित) ।
 अभिविनय । २७४ (= विनयमें भिक्षु नियम) ।
 अभिपंग । ६१ (= ढाह) ।
 अभिसम्पराय । २३१ (= जन्मान्तर फल), ३७९ (= गति) ।
 अभिसंबुद्ध । ५ (बुद्ध) ।
 अभिसंलेख । ५०५ (= मानस तप) ।
 अभिसमय । ९ (= दर्शन) ।
 अभिसंस्कार । १७७ (= संस्कार) ।
 अभिहृत् । ४८ (= अपने लिये घनाई गई शिक्षा) ।
 अभूत । २७९ (= अ-सत्य) ।
 अभ्याख्यान । ८४ (= झूठ लगाना), २२० (= इल्जाम) । २७९ (= निन्दा) ।
 अभ्यास । २३१ (= भावना) ।
 अभिनसिकार । (= मनमें न हड़ करना) ५३० ।
 अमर । ४३५ ।
 अ-मन्द-दृष्टि । ४३९ (= समझदार) ।
 अ-मूढ-विनय । ४४३ ।
 अमृत । २५६ (= निर्वाण), २९५ ।
 अमृत-दुन्दुभि । ४८२ ।
 अ-न्योनिशः । ५२० (= कार्य) ।
 अयोनिशो मनसिकार । ६ (= वे ठीकने मन में धारण करना) ।

अय्या । १७९ (= कार्य), ३५२ (= कार्य) ।
 अ-रण । ५७०, ५७१ (= दुख-रहित) ।
 अरण-विभंग । ५६७ ।
 अरति । २७१ (= असंतोष) ।
 अरूप-संज्ञी । ५६३ (= रूपका ख्याल न रखने वाला) ।
 अरोग । ३१९ (= अ-विनाशी) ।
 अर्क । २५२ (= मदार) ।
 अगोल । १९८ (= किवाड़), १२० (= जंजीर),
 अर्चिमान् । ३८८ (= लौवाला) ।
 अर्थ । २७४ (= वस्तु), ४४८ (= यात) ।
 अर्थ-युक्त । अन-—२३५ (= व्यर्थ) ।
 अर्थ-वेद । २५ (= अर्थ-ज्ञान), २९३ ।
 अर्हत् । १५८, १६४, ९३ (= क्षीणाश्रव), २७७, ३०३ (= मुक्त) ।
 अलं-आर्य-दर्शन-विशेष । २५८ (= लोकोत्तर-ज्ञात, दिव्य शक्ति) ।
 अलगद् । २६ (साँप) ।
 अलमार्य-ज्ञान-दर्शन । ५१ (= उत्तम दर्शनकी पराकाष्ठा) ।
 अलात । ४३१ (= अंगारा) ।
 अलावू । ५० (= लौका) ।
 अल्प-आतङ्की । ३५१ (= अल्प रोगी) ।
 अल्प-उत्सुकता । १०६ (= उदासीनता) ।
 अल्प-फल । ४१५ (= अ-फल) ।
 अल्प-भोग । ५५३ (= दरिद्र) ।
 अल्पमात्रक । ४४२ (= छोटा) ।
 अल्प-श्रुत । ४६३ (= अज्ञ) ।
 अल्पातङ्क । ३७७ ।
 अल्पावाधा । ३६८ (= आरोग्य) ।
 अल्पेच्छ-कथा । ९४ (= निर्लोभीपनके उपदेश) ।
 अवकाश । ४६३ (= गुंजाइश) ।
 अवदात । १८९ (= शुद्ध), ४९६ (= श्वेत) ।
 अवदातवसन । २८५ (= श्वेत बख्तारी) ।
 अवव । अ-—३६० (= नदीप) ।
 अवनायन । ३७५ (= नवाना) ।

अवभास । ५३० (= प्रकाश) ।
 अवरभागीय । २०८ (= ओरभागीय) ।
 अवर-भागीय-संयोजन । २३, ९०, १३७, ३८० ।
 अववाद । ४५३ (= उपदेश), ५८६, ५६७
 (= वात) ।
 अववादक । ९४ (= उपदेशक) ।
 अवलम्ब-विलम्ब । ५० (= खिलकी, अलगा-
 यिलगी) ।
 अवस्रव । ४२७ (= विपाक) ।
 अवहित-भार । ४ (भारको फेंक चुका पुरुष) ।
 अ-विद्या । ३४, ४३, १५५ ।
 अविद्या-अनुशय । ५९९ ।
 अविद्या-आस्रव । ७ (= अज्ञान रूपी मल),
 १६ ।
 अविभ । १७०, ४९९ ।
 अ-शाश्वत । ४३५ (= सादि) ।
 अशुचि । ५३४ (= गन्द) ।
 अ-शुभ । २४९ (= सभी भोग बुरे हैं) ।
 अश्रुतवान् । ५६५ (= अज्ञ) ।
 अश्वतर । ३८८ (= खच्चर) ।
 अश्वरत्न । ३६२ (= श्रेष्ठ घोड़ा), ४३६ ।
 अष्टांगिक मार्ग । ३१, ३२, १८० (= कृत),
 २९५, ३०९, ४३८, ४४२, ४९१ ।
 असंज्ञी । ४३३ (= अचेतन) ।
 असंज्ञीवादी । ४३४ ।
 असंप्रज्ञान । ४५४ (= अचेत) ।
 असि-चम्म । ५८ (= ढाल-तलवार) ।
 असिचर्म । ५४ (= ढाल-तलवार), २५३ ।
 असित । २३० (= शुद्ध) ।
 असिपत्र-चन । ५४१ ।
 असिसूना । ९२ (= पशु नारनेका पीड़ा),
 २१६ (= हड्डी) ।
 अस्तगमन । ५९९ (= विनाश) ।
 अस्थान । ४८१ (= असंभव) ।
 अस्मिमान । २४९ (= अहंकार), ५०६ (=
 यह मैं हूँ, यह ख्याल) ।
 अस्सासेन्तो । ३४९ (= सहराते) ।

अहेतुवाद । ४८९ ।
 आकल्प । २३१ (= तारतरीका) ।
 आकार । २७९ (= शरीर आकृति आदि) ।
 आकार । ३१२ (= आकृति) ।
 आकार-परिवितर्क । ४२८, ४३५ ।
 आकारवती । ३२० (= सविन्दर) ।
 आकाश-च्छदन । ३२८ (= आकाश हो
 जिसकी छत है) ।
 आकाश-धातु । ५७४ ।
 आकाशानन्त्यायतन । ३ (= अनन्त आकाश-
 वाला स्थान), १७०, ४६७, ४७३, ६९९,
 ५०२, ५६२, ५७५; २७८ (= सात-
 विहार) ।
 आकाशिक । ५० (= तारा) ।
 आकिंचन्य । ४३४, (= नहीं-रुद्ध-पन) ४३४,
 ४६७, ५०२ ।
 आकिंचन्य-आयतन । १०५ (= दिव्यस्थान),
 १७१, ४४६, ४५०, ४७४, ४९९, ५७५ ।
 आक्रोशन । ५८८ (= निन्दा) ।
 आगति-गति । ५८६ (= आगमन) ।
 आघात । ४४० (= दुरामाव) ।
 आचाम । ४९ (= माँट) ।
 आचार-गोचर । २२ (= धर्माचरण), ४५२
 (= सदाचार) ।
 आचार्यक । १०४ (= विनयेपत्ता), २९७
 (= धर्म), २७२, ३१९ (= मत) ।
 आचार्य-वन । २०९ (= आचार्यको देनेगयात्
 पूजा द्रव्य) ।
 आचिण्ण । २२२ (= फायदा) ।
 आजानीय । २१८ (= परिशुद्ध, शुद्ध ज्ञानिया) ।
 आजानुवाहु । ३७४ (= गये, बिना रुके
 दोनो जाँघेंदो अपने हाथके तलरोने रुमें
 चाला) ।
 आजानेय । ४९७ (= अच्छी जानिका) ।
 आजोव । ४४२ (= जीवित) ।
 आजोवक । २८० ।
 आज्ञा । ४० (= अहंत्व), ४५ (= मोक्ष),

४६९ (= अर्हत्व-पद-प्राप्ति), २८४ (= परमज्ञान), २६० (= उत्तम ज्ञान), ४४४, ५१३ ।
 आणापान-सति । २४८ (= प्राणायाम) ।
 आणी । ७७ ।
 आतप । ४३६ (= धूप) ।
 आतप्य । ६५ (= तीव्र उद्योग) ।
 आतापी । ७४ (= उद्योगी) ।
 आत्मंतप । ३९२ ।
 आत्मंतप-अपरंतप । ३९२ ।
 आत्मभाव । ४७५ (शरीर) ।
 आत्मवाद । ४३ (= आत्मा कोई नित्य वस्तु है, यह सिद्धान्त) ।
 आत्म-व्यावाधा । ७५ (= आत्म-पीडा) ।
 आत्मा । ७ (के नित्यत्व आदिका खंडन), १८०, ४३३, ४७०, ५६६ ।
 आत्मोत्कर्ष । २४० (= उत्कर्ष) ।
 आत्मोत्कर्षक । ६१ (= अपनी उन्नति या प्रशंसा का चाहनेवाला) ।
 आदर्श । ६४ (= दर्पण) ।
 आदि । ३६७ (= शुद्ध) ।
 आदिनव । ७७ (कारण, दुष्परिणाम), २८२ (= बुराई) ।
 आदि-ब्रह्मचर्य । ४२२ (= शुद्ध-ब्रह्मचर्य) ।
 आर्य-सत्य । ३९ टि० (चार) ।
 आदीप्त । ५४१ (= ज्वलित) ।
 आधानग्राही । ६२ (= हठी) ।
 आध्यात्मिक । ५०५ (= भीतरी), ११९ (= शरीरमेंकी) ।
 आनंज-संज्ञा । ४५० (= आनंजपदका व्याल) ।
 आनापान-सति । २९१ (= प्राणायाम) ।
 आनिज्य । ४४६ (= सुख-दुःखसे परेकी समाधि), ५०५ (= चित्तकी एकग्रता) ।
 आनिसद् । ३४८ (= कृष्ण) ।
 आनुश्रविक । ३०२, ४२८ (= अनुश्रवको माननेवाला) ।
 आनुशाधिक । ३३६ (= साथ रहनेवाला) ।
 आनृशंस्य । ७५ (= सुपरिणाम), २४०

(= गुण), ४९७ (= लाम) ।
 आनंज-सत्प्राय । ४४९ (आनंज-रूपपाप-आनंज) ।
 आनंज्य । ४३४ (= निश्चल) ।
 आपण । १९ (= दूकान) ।
 आपत्ति । (= क्लृप्त), ४४३ (= दोष), ४५६ (= पाप) ।
 आपत्ति-अधिकरण । ४४३ ।
 आपानीय कांस्य । ४४८ (= आवखोरा) ।
 आपायिक । २३, ४ (= दुर्गतिमें जानेवाला) ।
 आपोधातु । ५७३ ।
 आवाधा । २५५ (= पीडा), २९० (= बीसारी) ।
 आभ । ४९९, (= आभा । १७०, ५९२ (= प्रकाश) ।
 आभास्वर । १७०, १९५, १९६, ४९९ ।
 आभिचेतसिक । २१२ (= शुद्ध चित्तवाले), ४५७ (= चित्तसम्यन्धी) ।
 आमिष । २१६ (= विषय), २७८ (= धन, भोग) ।
 आमिषगुरु । २७८ (= धन, भोगमें बढ़ा) ।
 आमिष-दायाद । ४६७ (धनका दायाद) ।
 आयतन । ३३ (= इन्द्रिय), ३८ टि० (छः) १८२ (= स्थान), २८६ (= आश्रय), ३०३ (= जगह), ४४९ (= स्थान), ४७०, ४७९, ४९७ (= स्थान), ५०२ (= अधिकरण), ५६० (= इन्द्रिय), ५६२ (= अवस्थान), ५९२, ४९७ ।
 अयत-पाणिर्ण । ३७४ (= चाँदी घुट्टी वाले) ।
 आयु । १७६ ।
 आयुध । १६५ (= हथियार) ।
 आरचारी । १५९ (= दूर रहनेवाला) ।
 आरामिक । ३०६ (= आराम सेवक) ।
 आरण्यक । ३०७ (= मद्रा अरण्यमें रहने वाला), ४७२ (= वनवासी) ।
 आरन्धवीर्य । ४६४ (= उद्योगी) ।
 आरम्भण ४९६, ८२ (= लक्ष्य, आर्लय) ।
 आराधित ८० (प्रसन्न) ।

आराम । १९ (= आश्रम) ।
 आरूप्य । २४२ (= रूपरहित देवताओंके लोक) ।
 आर्य । १५९ (= निर्दोष), १६४, १९२ (= निर्मल), ३८७, ५७९ (= उत्तम), ६९८ (= मुक्त) ।
 आर्य-अष्टांगिक-मार्ग । ५६८ (देखो अष्टांगिक मार्ग भी) ।
 आर्य-प्रज्ञा । ९३ (= उत्तम ज्ञान), ५१ ।
 आर्य-विनय । २७ (= आर्यधर्म), १४५ (= बुद्ध-धर्म), १४५, २५८, ५७६ (= सत्पुरुषोंकी रीति) ।
 आर्य-विमोक्ष । ४५१ ।
 आर्य-शील । ११४ (= निर्दोष सदाचारकी) ।
 आर्यश्रावक । ७ (= सन्मार्गपर आरूढ़ पुत्र), १९२ (= सत्पुरुष शिष्य) ।
 आर्यसत्त्व । १६ (चार), ५७८ ।
 आर्या । ८० (= अग्या, सामिनी) ।
 आर्योंके दर्शनसे अभिज्ञ । २५५ ।
 आर्षभ । ४५ (= उच्च) ।
 आर्षभी । ५११ (= महती) ।
 आलय । ३२ (= लीन होना), १०६ (= काम-वृष्णा), १२० (= रुचि), ४१२ (= वृष्णा) ।
 आली । ४९७ (= बाँध) ।
 आलोक-संज्ञा । १६० (= रोशन ख्याल) ।
 आवर्त । २६९ (= भँवर) ।
 आवर्तनी माया । २२७ ।
 आवसथ । ३६७ (= सराय), ५३५ (= निवास स्थान) ।
 आवास । ४४३ (= मठ) ।
 आवाससे शुद्धि । ५१ ।
 आविजन । ५२१ (= दूहन) ।
 आवुस । ११ (= स्नेह-सूचक संबोधन जो पहिले घडे के लिये भी प्रयुक्त किया जाता था, किन्तु बुद्ध-निर्वाणके बाद छोटेके लिये ही रह गया) ।
 आवेश । २०० (= मरमाया) ।

आशीविप । १४२ (= नर्प), ४४८ (= नर्प) ।
 आश्रव । ४७४ (= चित्तमल) ।
 आश्वास । ३८७ (= दल), ४९१ (= ज्ञान लेना), २५० (= मान छोटना) ।
 आश्वास-प्रश्वास । १८१ (= लान लेना छोटना) ।
 आश्वासिक । अन्—३०२ (= मनको संतोष न देनेवाला) ।
 आसन । ५९५ (= निपीदन) ।
 आसन-कुराल । २७३ (= चतुर) ।
 आसाटिक । ३३३, १३३ (= काली नन्दिनी) ।
 आसीतिक । ५० (= अग्यी वर्षका वृष्टि), ३४८ (= वनरूपति विरोध) ।
 आस्तिकवादी । २४० ।
 आस्रव । ६ (= मल), ३३ (= चित्त-मल) ३, ३३, ५९, ६८, १७१, १९७, २७७, ३९१, २०८, २५६, २६०, ३०३, ४३१, ४६०, ४६७, (= चित्त दोष) १६६, ३१५, २१८, ३८० (= राग द्वेष आदि), ५९६ (जन्म मरणके कारणभूत चित्त-मल) ।
 आस्रवका क्षय । २५९ ।
 आस्रवका नाश । ७, ९ (विम्लारने) ।
 आस्रव-क्षय-ज्ञान । १६ (वृतीय-त्रिय) ।
 आस्वाद । ४६१ (= स्वाद) ।
 आहार । ३१ (= आधार), ३१ (के भेद ४), १५३ (= स्थितिके आहार) ।
 आहार-शुद्धि । ५१ ।
 आहार-समुदय । ३१ (= आहारकी उत्पत्ति) ।
 आहुण्येय । ५१८ ।
 इतरजाति । ३२६ (= नीच कुल) ।
 इतिवृत्तक । ८६ (पुद्गोपदेश) ।
 इन्द्रिय । १५१ (= शरीर), २६५ (= मन का अनुभव), ३२४ (= ज्ञान), ३५८ (= चेष्टा), ४३८, ४४०, ४९१ ।
 इन्द्रिय आत्मा नहीं । ५९८ ।
 इन्द्रिय-परिपाक । ३२ (= इन्द्रिय-स्विकार) ।
 इभ्य । ३९९ (= नीच) ।
 इपुकार । ४३१ (= बाण घनानेवाला लोहार) ।

ईर्या । ५१ (= आचार) ।
 ईर्यापथ । ३६ टि०, ७८ (= शारीरिक गति),
 ३७४ (= चाल ढाल) ।
 ईश्वर । ४२९, ४३२ ।
 ईश्वर-निर्माण । ४३१ ।
 ईश्वर-निर्माण-हेतु । ४२९ (= ईश्वरके बनाने
 के कारण) ।
 उक्कृटिप्पयान । ३०० (= उकड़ूँ तप) ।
 उग्र । ११७ (= श्रेष्ठ) ।
 उग्रशब्द । ३२१ (= कोलाहल) ।
 उच्चार । ३६ (= पारवाना) ।
 उच्चावच । १९३ (= छोटे बड़े) ।
 उच्छ्रंग । २१८ (= उत्संग = खोंड़छा) ।
 उच्छेद । ११ (= निवाश = विभव), ४३३ ।
 उच्छ्रवत । ३०७ (= दाना चीन कर खानेवाला) ।
 उट्टान । १८१ (= उठना), १९३ ।
 उत्कर्ष । २८९ (= प्रशंसा), ३९३ (= तारीफ) ।
 उत्तिष्ठ-परिघ । ९० (= ज्येसे मुक्त) ।
 उत्तम-अंग । २१ (= शिर) ।
 उत्तम-अर्थ । ५७८ (= ० पदार्थ = निर्वाण) ।
 उत्तर । अन्-२३ (= अनुपम) ।
 उत्तर । स-२३ (= जिससे बढ़कर भी कोई
 हो) ।
 उत्तरच्छद । ४८ (= ऊपरले ढाँकने की चदर) ।
 उत्तर-मनुष्यधर्म । (= दिव्य शक्ति), ४४,
 ५१, १०८, ११८, २७४ (= लोकोत्तर
 शक्ति), २५८ (= मानव स्वभावसे परे),
 ४१६ (अलौकिक शक्ति), ४१६ (अलमार्य
 ज्ञान-दर्शन-विशेष) ।
 उत्तरारणी । ३४६, ३८८, ५२१ ।
 उत्तरासंग । २२९ (= चदर), २६८ (= ऊपर
 की चदर), ३६० (= चदर), (= उपरना)
 ४२०, ४७६ ।
 उत्तान । ९१ (= विवृत = प्रकाशित), २०६
 (= झुला, सरल) ।
 उत्तानीकरण । ५७८ (= स्पष्टीकरण) ।
 उत्थान । ३९८ (= उद्योग) ।
 उत्पनि । ५८८ (= समुद्र) ।

उत्पल । १०७ (= नीलकमल) ।
 उत्पलिनी । ३१० (= उत्पल-समूह), ४९५ ।
 उत्सद । २०० (= एक उपनरक) ।
 उत्सद । सप्त-३७५ (= सातों अंगोंमें पूर्ण
 आकारवाले) ।
 उत्सादन । ९३ (= हटाना), ५७० (= खुदा
 करना) ।
 उत्सादित । ५६८ (= प्रसन्न) ।
 उत्सोद्धि । ६७ (= उत्साह) ।
 उदककृत्य । ५११ (= प्रक्षालन, स्नान आदि) ।
 उदक-तारा । ३४८ (= पानीका तारा) ।
 उदकहृद । ३१० (= दह), ३१३
 (= जलाशय), ४९५ (= जल कुण्ड) ।
 उदकावरोहक । १६५ (= जलवासी) ।
 उदयान । (= जलाशय), २६, ५० ।
 उदय-व्यय । ५०६ (= उत्पत्ति-विनाश) ।
 उदान । ८६ (बुद्धोपदेश), ११२, (= आनं-
 दोल्लासमें निकली वाक्यावली), ३२३,
 ३७७, ४२० ।
 उदार । (= बड़ा) १११, ३०३, ५१० (=
 महान्) ।
 उद्देश । (= नाम) २१८, २७९, ३१२,
 ५४३ ।
 उन्नत । २० (= अमिमानी) ।
 उन्नामन । ३७५ (= ऊपर उठाना) ।
 उपकारी । (= प्राकारों = शहर-पनाह) ५४,
 ५८ ।
 उपकुञ्ज । ३४९ (= भहरा कर) ।
 उपक्रम । ४२८ (= साधना) ।
 उपक्लेश । ५७ (= नल), ११५ (अंगण =
 मल), ३०३ (= चित्त-मल), (= मल)
 ३२२, ४७०; ११४ ।
 उपक्लिष्ट । ३९५ (= निन्दित) ।
 उपधि । २६४ (= भोग इच्छा, भोग संग्रह),
 २७८ (= गुरु), (= विषय-संग्रह), ४८६,
 ५७६ (= स्कन्ध, काय, क्लेश, कर्म) ।
 उपनयन । १९७ (= धर्म-मार्गपर ले जाना) ।
 उपनाह । (= पासण्ड) १२, २४, ६१

- (= ढोंग) ।
 उपनाही । ४४२ (= पाखण्डी) ।
 उपनिषद् । ४८६ (= रहस्य) ।
 उपनील । ३३५ (= ले जाया जा रहा), ३८९
 (= उपनयन द्वारा गुल्फे पास प्राप्त), १५७
 (= पहुँचाया) ।
 उपपरीक्षा । २५९ (= जाँच), ३९९ (= अर्थका
 परीक्षण) ।
 उपपाद् । ५८६ (= उत्पत्ति) ।
 उपब्रज्य । ५८७ (जाने-आनेके संसर्गवाला) ।
 उपपील । ५३० (= उद्विग्न = उत्पीडा =
 विह्वलता) ।
 उपमा । (= दृष्टान्त), २० ।
 उपवाद । २४९ (= शिक्षा) ।
 उपवादक । ११५ (= निन्दक) ११५, ३१२ ।
 उपविचार । ५६१ (= विचार) ।
 उपशम । (= शांति) १६६, २८१, ३४६,
 ५०४ (= समाधि), ५७६ (= शमन,
 शान्त होना) ।
 उपशम-संवर्तनिक । ४२ (= शांतिको प्राप्त
 करानेवाला), ४४१ (= शान्ति-गामी) ।
 उपशांत । २९३ (= शांत) ।
 उपश्रय । ५१३ (= निवास) ।
 उपसम्पदा । ५१३ ।
 उपसंपद्य । ३४५ (= प्राप्तकर)
 उपसम्पन्न । (= मिश्र) २८६, ३२६,
 ३३२ (= मिश्र होना) ।
 उपस्थाक । ३२५ (= सेवक), ५८५ ।
 उपस्थान । ५८५ (= सेवा) ।
 उपस्थान-शाला । ३९३ (= सभा-गृह) ।
 उपस्थित-स्मृति । २७३ (= होश रखनेवाला),
 ४६४ (= याहोश) ।
 उपहर्ता । २६२ (= लानेवाले) ।
 उपहार । ३६५, (= समान) ।
 उपादान । ४२ (= आग्रह, ग्रहणचार)
 ४२, ४३ (चार, = पकटना), ९६
 (= परिग्रह), १४८ (= रागयुक्त ग्रहण)
 १५५ (= ग्रहण या ग्रहण करनेकी इच्छा),
 १६० (= रागयुक्त ग्रहण), २१६
 (= ग्रहण, स्वीकार), २१७ (= ग्रहण),
 (= आग्रह, दुराग्रह), ४३६, ४३७, ४५१
 (= ग्रहणकी इच्छा, आसक्ति), ४८०,
 (= ग्रहण) ५९३, ५९६ ।
 उपादान । स-४१ (= घटोरनेवाला) ।
 उपादान-स्क्रंध । ३१ (= विषयके नीचेपर ग्रहण
 करने योग्य स्क्रंध), ११७ (पाँच), १००,
 १७९, १८०, ४६०, ४६९ ।
 उपाधि । १०३ (= भोग-पदार्थ), २०५
 (= विषय) ।
 उपाय । ४६९ (= उपादान) ।
 उपायास । ३१ (= परेशानी) ।
 उपायास-बहुल । ५५३ (= परेशान रहने
 वाला) ।
 उपारम्भ । ८६ (= धनलान), ८६ (= महा-
 यता), ३६१ (= निन्दित) ।
 उपासना । ३३४, (= तत्पंग) ३६४, ५८२ ।
 उपेक्षा । १६६, १७७, २१२, २४९ (= शत्रुकी
 शत्रुताकी उपेक्षा), ५२४ ।
 उपेक्षा-भावना । २५, ४९१ ।
 उपेक्षा-संवोध्द्यंग । ५९३ ।
 उ-पोसथ । ३३८ (= उपवान मन), ४५६
 (= अमावास्या), ५३६ ।
 उरुभट्टक । ४९ (= ठेकेरी) १६५ (= मरदा
 रखे रहनेवाले) ।
 उभतोभाग-विमुक्ति । २५८ (= भर्त्स) ।
 उमंग । ५५६ ।
 उरुस्तंभ । १४४ (= जाचोका कठिया जाला) ।
 उल्का । ८२ (= लुहारी), २१७ (= मनाफ,
 लुकारी), ५७४ (= जंगोठी) ।
 उल्कामुख । २५ (= भट्टीकी घड़िया), ४२९
 (= भट्टी), ५७४ (= जंगोठी) ।
 उल्गीपशीर्ष । ३७५ (= पगटी जैसे चारो ओर
 नमानाकार शिरवाले), ५७४ (= गर्मी),
 १७६ (= उरुगता, शरीर की गर्मी) ।
 उत्सीकृत । ८५ (= छूटक गया),
 १५२ (= कवगाहन पर पया) ।

उत्संसंखपाद । ३७४ (= गुल्फ ऊपर अवस्थित है, जिस पादमें) ।

ऊर्णा । ३७५ (= रोम-राजी) ।

ऊर्ध्वान्नलोमा । ३७४ (= उनके अंजन समान नीले तथा प्रदक्षिणासे धार्यसे दहिनी ओर) ।

ऊर्ध्वविरेचन । २९७ (= उल्टी आनेकी द्रव) ।

ऊर्ध्वसर । ४३५ (= धागेकी लोकयात्राको अनुसरण करनेवाला) ।

ऊर्मि । २६९ (= लहर) ।

ऊर्मि-भय । २६९ ।

ऋजु-प्रतिपन्न । २५ (= सरल मार्ग पर आरूढ़) ।

ऋजु-प्रत्यनीक । २३९ (= विरुद्ध) ।

ऋद्धि । ३२५ (= समृद्ध) ।

ऋद्धिपाद । ६६, ६७, ३०८, ४३८, ४४२, ४९१ ।

ऋद्धिमान् । ९९ (= होशियार), ५३६ ।

ऋद्धिविध । ३११ (= योग चमत्कार) ।

ऋद्धयनुभाव । १८ (= चमत्कार) ।

ऋपभ । ४१३ (= श्रेष्ठ) ।

एक-चारिका । ७६ (= जाल) ।

एकागारिक । ४९ (= एक ही घरमें शिक्षा करनेवाला), ५४ (= चोरी), ५८ (= चोरी = एक घरको घेर कर चुराना) ।

एकान्त-सुख । ३२० (= सुख-मय) ।

एकायन मार्ग । ४७ (= एक मात्र मार्ग) ।

एकांश । २३५ (= सर्वथा=बिना अपवादके), ३९७ (= सोलहो आना) ।

एकांशवादी । ५१४ (= विभाग करके अच्छेको अच्छा, दुरेको दुरा कहनेवाला ; न कि एक ही लाठीसे सबको हाँकनेवाला) ।

एकाहिक । ४९ (= एक दिनमें एक घार) ।

एङ्मूक । ४५४ (भेड़ और गूँगे जैसा) ।

एणीजंघ । ३७४ (= मृग जैसा पेंडुली वाला भाग जिसका हो) ।

एक-वार्तिका । ५५, ५९ (= दंड) ।

एपणा । ५० (= इच्छा) ।

एहिपग्रियक । २५ (= यहीं दिखाई देने

वाला) ।

ऐरोयक । ५५, ५९, (दंड) ।

ओज । ८० (= रस) ।

ओदन । ३७५ (= मात) ।

ओदन-कुल्माष । २९० (= दाल भात) ।

ओलिगल्ल । २६३ (= गड़ही), ९ (= गंदी गड़ही), ५३४ ।

ओलुग-विलुगगा । ३४८ (= अँहण, यँहण = अलगा-विलगी) ।

ओपधि-तारा । ३२० (= शुक्रतारा) ३१० ।

ओद्धत्त्य-कौकृत्य । (= उद्धतपना-हिच-किचाहट), १६०, १७५, १९२, ४१७, ४५८, २७१ (= उच्छृंगलता), ३८ (= उद्धत्त्व कुक्कुच्च), (उद्देग, रेद), ५२६ (= उद्धतपना) ।

ओपनयिक । २५ (= निर्वाणके पास ले जाने वाला) ।

ओपपातिक । २३ (दिव्ययोनिमें उत्पन्न), (= आयोनिज देव), ९१, १३६, २०८, २५६, २८५; ३८० (= देवता); ३२८ ।

ओपपातिक-योनि । ४६ ।

ओपपातिक सत्व । १६९ (अयोनिज प्राणी = देवता लोग) ।

ओरभ्रिक । २०७ (= भेड़ मारनेवाला) ।

ओरस । ४६८ (= हृदय या मनसे उत्पन्न) ।

कर । ४९ (= एक प्रकारका तृण) ।

कठला । ९३ (ठीकरा), ८३, १४१ ।

कठिन चीवर । ५१३ ।

कण । ४९ (= खेतमें छूटा दाना) ।

कथा । ५०७ (= घात) ।

कथावस्तु । २२३ (= घात, विवादका विषय), ३५८ (= चर्चा), ३६९ (= घात), ६७१ ।

कथं-कथी । १५७ (= कहने-सुननेवाला) ।

कमनीय । १५८ (= कान्त) ।

कम्मकरण । ५४ (= दंड), ५९, ५३२ ।

करका । ३२२ (= मटकी) ।
 करण । ५१७ (= शिक्षा) ।
 करवीर पत्र । २५२ (= करेरुके पत्रकी भाँति नोकवाला) ।
 करीष । ११७ (= उदरका मल) ।
 करुणा । १६६, १७७, ५२४ ।
 करुणा-भावना । २५, ४९१ ।
 कर्म । ५०४ (= मिश्र ब्रह्मकी सिलाई) ।
 कर्म-कारणा । ५४० (= ढँड) ।
 कर्म-स्थान । ४१४ (= कर्म पेशा) ।
 कर्मान्त । १३ (कायिक कर्म), २८, १३९ (= काम), १६२ (= खेती), ४०५ (= पेशा), ४५५ (= कारखाना) ।
 कर्मारपुत्र । ४९९ (= सुनार) ।
 कलिग्रह । ५३५ (= दाव), ५३८ (= दाव, पाशा) ।
 कलोपी । ३२८ (= वर्तन) ।
 कलिगर । २६३ (= पशुओंके गलेमें बाँधनेका काष्ठ) ।
 कल्प । ११५, ३७३ (= केटुम), ३८६ (= निघटु-केटुम), ५९१ (= युक्त) ।
 कल्पस्थ । २३४ (= कल्प मर नरकमें रहने-वाला) ।
 कल्पित कर । ३६५ (= धनदा) ।
 कल्प्य । अ-२२१ (= अनुचित अ-विहित) ।
 कल्प्य । २२१ (= उचित, विहित) ३६२, ३९३ ।
 कल्याण-कीर्ति । २३४ (= सुयज्ञ) ।
 कल्याण-धर्मा । (= पुण्यात्मा) ३४२, ५९० ।
 कल्याण-मित्र । २७७ (= सुमित्र) ।
 कवलिकार । ३१ (प्राप्त करके खाया जाने वाला) ।
 कवलीकार । १५४ (= कवल, कवल करके खाने योग्य) ।
 कष्टकारी । ८७ (= दुःख उठानेवाला) ।
 कसट । २०६ (= मैल) ।
 काकपेया । २५५ (= करारपर बैठे बैठे झींयेके पीने योग्य), ४९६ (= जिसके ऊपर

कौशा बैठे आसानीसे) ।
 काज । ५२४ (यहाँगी) ।
 काण्ड । २५२ (= शर) ।
 कादलिमृग । ४८ (= समूरी चर्म) ।
 कान्त । ३२७ (= सुन्दर) ।
 कान्तार । १६३ (= रेगिस्तान) ।
 काम । ३१ (= इंद्रिय-संभोग), ४०, ५३ (= भोग), ५७, ८४, १३३ (= भोग-वासना), १६०, १६३, १६९ (= स्त्री-संभोग), १८९, १९०, २८४ (= स्त्री-प्रसंग), २९३ (= विषय भोग), २९४, ३३७, ४४९, ४८० (= विषय), ५६७ ।
 काम-अन्न । ३२४ (श्रेष्ठ भोग) ।
 काम-आस्रव । ६, १६ (= काम-व्यापना-रूपी आस्रव), ५०२ (= मतेच्छा मन्त्रन्वी चित्त कालुष्य) ।
 कामगुण । १०९ (= काम भोग), ९३, ९९, १५१, २६९, २९४, (= विषय भोग) २६५, २९५, ३२४, ४१७, ४४५, ५१० ।
 कामच्छन्द । ३७ (= वामुक्तता), ९३ (= भोगोंसे राग), १७५, २५४, २५५, ४१७ ।
 कामभोगी । २८५ (= उचित विषय भोगी) ।
 काममिथ्याचारी । १८७, ३२० (= ध्यमिचारी) ।
 काम-मूर्छा । ३४७ (= काम विषया का म-रचि = कामत्नेर) ।
 कामराग । १९२ (= भोग इच्छा), ४५८ (= विषय कामना) ।
 काम-वितर्क । ९ (= वामवासना-मन्त्रन्वी-संकल्प-विकल्प), ५१२ (= वाम मन्त्रन्वी विचार) ।
 काम-संज्ञा । ५१२ (= कामदा ग्याह) ।
 काम-संयोजन । ४३६ (= विषय धन्य) ।
 काय । ३२ (= समुदाय), ३३, १९९ (= योनि), ५९७ (= निद्राय) ।
 कायगता-सति । ४९४ (= कायगत सति) ।
 काय-दण्ड । २२२ ।
 काय-दुश्चरित । २३९ (= कापित्त दुष्कर्म) ।

कायवल । ३७५ (= शरीर फँकना) ।
 काय-सान्नी । २५८ ।
 काय-संस्कार । १८१, १७६ (= कायिक क्रियायें), १७६ (शारीरिक गति) ।
 काया । ३९ (= टंडा-गर्म जाननेकी शक्ति) ।
 कायानुपश्यना । ३५-३७ (चौदह) ।
 कायानुपश्यी । ४९२ ।
 कायिक-अधर्माचरण । १६८ ।
 कायिक धर्म । १८१ (= क्रियायें) ।
 कारण । २६० (= कसूर वेकसूरका निर्णय), २६१ (= शिक्षा), ५३० (= हेतु) ।
 कार्पाणक । ५५, ५९ (दंड) ।
 काल-क्रिया । ३२ (= मरण) ।
 कालज्ञ ५६९ (= काल देखकर कहनेवाला) ।
 काल-वादी । ११३ (= समय देखकर बोलनेवाला) ।
 कापाय-कंठ । ५८० (= कापाय-मात्र-धारी) ।
 काष्ठहारक । ४९ (= लकड़हारा) ।
 कांचा । ५९० (= संदेह) ।
 कांचा-वितरण-विशुद्धयर्थ । ९५ (= सन्देह दूर करनेके लिये) ।
 किन्ति । ४३९ (= क्या) ।
 किलख । १३९ (= छत्रा) ।
 किशोर । ३८८ (= यछड़ा) ।
 किंकुशल । १०४ (= क्या उत्तम है) ।
 किंकुशल-गवेषी । ३४५ (= क्या अच्छा है कि गवेषणा करनेवाला) ।
 कीर्तिशब्द । ३४० (= यश) ।
 कुक्कुट-पोतक । ६७ (= चूजे) ।
 कुक्कूल निरय । ५४१ (नरक) ।
 कुत्ति । ३४८ (= पेट) ।
 कुड्य । २८६ (= अन्तर्धान हो भीतके पार चला जाना) ।
 कुमार । २२९ (= यच्चे) ।
 कुम्भी । ४९ (= घडा), ३२८ (= हँडिया भात पकानेके बड़े यर्तन का नाम है) ।
 कुम्भौर । २६९ (= मगरका) ।
 कुम्भौर-भय । २६९ ।

कुल्माप । ३३२ (= दाल), ३२८ (= कुलथी), ३४९ (= मात-दाल), ५३४ (= बख) ।
 कुल्लूपम । ८७ (= वेदके समान) ।
 कुशल । ३० (= भलाई), १०, ४६, ११४ (= उत्तम), ३४६, ३१७, ३५६, ४१५, ४४२ ।
 कुशल । अ-३० (= बुराई), १०, १३६ (= नावाकिफ़) २८४ (= बुराई, पाप) ।
 कुशल-अकुशल । २८४ (भलाई बुराई) ।
 कुशल-धर्म । अ- २९ (= बुरेकाम) ।
 कुशल धर्म । ३१६ (= भलाई), ४०२ (= निर्वाण) ।
 कुशल-मूल । ३०, ३१ (तीन) ।
 कुशल मूल । अ- ३० (तीन) ।
 कुशल-संयुक्त । ११८ (= निर्मल) ।
 कुशल-स्थान । २४१ (= भले काम) ।
 कुसीती । २० (= आलसी) ।
 कुसीदी । ४५४ (= आलसी) ।
 कुहना । ४८८ (= पाखंड द्वारा यंचना) ।
 कूट । १९१ (= शिखर) ।
 कूटागार । ४८ (= ऊपरी तलका मकान), ३०७ (= कोठी), ४७९ (= महल) ।
 कूर्म । ९२ (= कछुवा) ।
 कृतकर्म । २६३ (= अपना काम जिसने कर लिया है) ।
 कृत-परप्रवाद । ३६६, (= प्रौढ़ शास्त्रार्थी) ।
 कृत्न । ४३४ ।
 कृत्नायतन । ३१० ।
 कृषि । ४१५ ।
 कृष्ण । २३२ (= बुरा) ।
 केटुभी । २० (= पाखंडी), ९९ ; ३८२ (= कल्प), ४२१ ।
 केवल । ६० (= एकांत), १२२, १५५ (= खालिस) ।
 केवली । ३७८ (= जन्म-मरण जिनका नष्ट हो गया, ब्रह्मचर्य) ।
 कैटुभी । ४५४ ।
 कोदण्ड । २५२ ।

कोष्य । ५७५ (= चल) ।
 कोपाच्छादित । ३७८ ।
 कोसक । ३०७ (= पुरवा) ।
 कौकृत्य । ७० (= लन्देह), २५७ (= चिन्ता) ।
 कौमुदी । ४९० (= चाँदनी; पूर्णिमा) ।
 कौमुदी चातुर्मासी । ४९० (= कार्तिक
 पूर्णिमा) ।
 कंसपाती । १७ (= थाली) ।
 क्रकचोपम । ८३ (आरंके इष्टांतवाले), ११८
 (= आरंके छमान) ।
 क्रिया । २४१ ।
 क्रियावादी । २८० (= कर्मवादी) ।
 क्रोशित । ५५५ (= निन्दित) ।
 क्लिष्ट । ५२५ (= मल-युक्त) ।
 क्लेश । उप—२४ (= मल) ।
 क्लेश । २७२ (= मल) ।
 क्षत्ता । ३९४ (= माहात्म्य) ।
 क्षत्रिय । १२९ ।
 क्षत्रिय-ब्राह्मण-वैश्य-शूद्र । ३८८ ।
 क्षम । ६२ (= समर्थ) ।
 क्षम-धर्मा । २९० (= क्षम स्वभाववाला) ।
 क्षान्तिक ३२४ (= रुचिक) ।
 क्षारोदका नदी । ५४१ (= खारे पानीवाली
 नदी) ।
 क्षीणवाद । ५६९ (= धीमे बोलनेकी बात) ।
 क्षीणाम्रव । ४ (= राग आदिसे मुक्त), ४६
 (= अर्हव), १७७ (= चित्तमलों (से
 मुक्त) अर्हव), ४१३ (= रोगादि-रहित),
 ५१९ (= अर्हव) ।
 क्षीर-पर्णी । २५२ (= दुधिया जडी) ।
 क्षेम । २९५ (= मंगल) ।
 खमता । ३९१ (= रुचता) ।
 खर्मात । २८९ (= पसन्द) ।
 खमनीय । ५२८ (= ठीक) ।
 खलोपी । ४९ (= पथरी) ।
 खारापनच्छिद्रक । ५५, ५९ (दंढ) ।
 खांडित्य । ३२ (= दाँत टूटना) ।
 खिलजात । ६५, ६६ (काँटेमा) ।

खुरकाय । २६१ (= निःशब्दगति) ।
 खेलपिंड । ६०८ (= युद्ध-कक्ष) ।
 गण । १०४ (= सन्धासिधौकी जमात),
 १०५ (= भिक्षुओंकी जमायत), ५०४
 (= जमात) ।
 गणना । ५४ ।
 गणी । ३०५ (= संव पति) ।
 गति । ४७ (= पाँच), ४१३ (= पहुँच) ।
 गर्हणीय । ३६९ (= निर्दनीय) ।
 गर्हा । २७९ (= निर्दा) ।
 गहनता । २०५ (= दुस्वह) ।
 गाथा । ८६ (बुद्धोपदेश) ।
 गीता । सु— (= उचित कथन) २१३ ।
 गुप्त-द्वार । २७३ (= संयमी), ४५८ (= संयम-
 इन्द्रिय), १८ (= संयम-युक्त) ।
 गुप्ति । ३४२ (= रक्षा, धरण) ।
 गुरुक । ४४३ (= यती) ।
 गुरुकार । १९, ५५३ (= पूजा) ।
 गुरुकृत । ३९५ (= मानित) ।
 गुल्फ । ३०५ (= घुट्टी) ।
 गूथ-निरय । ५४१ (= घिटाका नरक) ।
 गृहलोभ । अ- २१५ (= निर्लोभ) ।
 गृहपति । ५३७ (= वैश्य), ४९८; ११२, २९७
 (= गृहस्थ) ।
 गृहपति-चौवर । ५१२ ।
 गृही-प्रतिसंयुक्त । ४४४ (= गृह्य-संयमी) ।
 गेघ । ५६१ (= लोम) ।
 गेघ-संवन्धी । ५६१ ।
 गेय । ८६ (बुद्ध-उपदेश) । ५०६ ।
 गोघातक । ३६ ।
 गो-घातक सूना । २१६ (= मांस फाटनेके पीढ़े) ।
 गोचर । १७६ (= त्रिपय), १९०, ० (=
 चिचरण-स्थान), ४४९ (= एयर), ३३
 (= चरणाह) ।
 गोचरग्राम । ३४६ ।
 गोत्रभू । ५८० (= नाम-धारी) ।
 गोपन । ५४ (= रक्षा) ।
 गो-पद्म । ३७५ (= गाव जैसी पलरवाले) ।

गोपानसी । ५३९, ३४८ (= टोढ़े = कड़ियाँ) ।
 गोपालक । ४९ (= म्वाला) ।
 गोपालन । ५४ ।
 गोमय । ४०२ (= उपले), १५३ (= फंडे) ।
 गोमंडल । ५० (चर्वाहा) ।
 गोरक्ष्य । ४०१ (= गोपालन) ।
 गो-विकर्त्तन । २६३, ३४८ (= छुरा) ।
 गोष्ट । ४०४ (= यथान) ।
 गंड । ४३४ (= फोड़ा) ।
 गंधकुट्टी । ३२८ ।
 गंधर्व । ३८९ (= उत्पन्न होनेवाला सत्त्व) ।
 ग्रहणी । ३५१ (= प्रकृति), ५३७ (= पाचन-
 शक्ति) ।
 ग्राम्य । ५६७ (= निकृष्ट) ।
 ग्रीष्मक । २९३ ।
 ग्लान । ५७९ (= रोगी) ।
 ग्लान-प्रत्यय । ३४२ (= पथ्य) ।
 ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य । ६८ (= रोगीके पथ्य-
 औषध) ।
 ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कार । २२ (= रोगी
 के पथ्य और औषधकी चीजें) ।
 घटिक । १५७ (= घडिया) ।
 घट्टित । ९९ (= रगड़), ३७५ (= रगड़ता) ।
 घडौंकी । ४९६ ।
 घाम । ४७ (= धूप) ।
 घास-आच्छादन । ५३५ (= खाना कपड़ा) ।
 घोप । ३४१ (= हल्ला), ३८२ (= भावाज्ञ) ।
 घ्राण । ३९ (= सूँघनेकी शक्ति) ।
 चक्रवर्ती । ५३५ ।
 चक्षुर्विज्ञान । ४७० (= चक्षु द्वारा मिलनेवाले
 ज्ञान) ।
 चतुरधिष्ठान । ५७३ ।
 चतुः परिवर्त । ४८२ ।
 चतुर्दशी । १४ (= अमावास्या), ३३८, ५९३ ।
 चन्दनिका । ९ (= गढ़हा), २६३, ५३४ ।
 चरण । २१२ (= पद या आचरण) ।
 चरण-सम्पन्न । २१३ ।
 चाण्डाल । ३८८, ५३५ ।

चातुर्वर्ण्यणी शुद्धि । ३८६ (= चारों वर्णोंकी
 शुद्धि) ।
 चातुर्महाभूतिक । ३०० (= चार भूतोंका
 यना) ।
 चातुर्महाराजिक । ११९, १२९, १७०, १९८ ।
 चातुर्याम-संवर । २२५ ।
 चातुर्वर्णी शुद्धि । ३७१ (= चारों वर्णोंकी शुद्धि),
 ३८६, (केवल ब्राह्मणोंको नहीं, चारों
 वर्णोंकी ध्यान आदिसे पाप-शुद्धि) ।
 चारिका । ९४ (= रामत), १०७, १०८
 (= यात्रा), २५७ (= पर्यटन) ।
 चिगुलक । १५८ (= चिंगुली) ।
 चितान्तरास । ३७५ (= दोनों कन्धोंका विचला
 भाग जिसका चित = पूर्ण है) ।
 चित्त । ७५ (= ब्याल), ४६९ (= मन) ।
 चित्त-उत्पाद । ४७५ (= चित्त या विचारोंकी
 उत्पत्ति) ।
 चित्त-विमुक्ति । २१२ (= मुक्ति) ।
 चित्त-विशुद्धि । ९५ ।
 चित्त-संस्कार । १७६, १८१ ।
 चित्तानुपश्यना । ३७ टि० ।
 चित्तानुपश्यी । ४९२, ५१८ ।
 चीरक-वासिका । (दंड) ५५, ५९ ।
 चीवर । ८ (= वस्त्र), २२, १९९, २०९
 (= मिश्रके तीन वस्त्र—सद्दाटी, उत्तरारंग,
 अन्तर्वास), ४३८; ५७६ (= अन्तर
 वासक = लँगो, उत्तरासङ्ग) (= इकहरी
 ऊपर लेनेकी चादर, सद्दाटी) (= दुहरा
 उत्तरासङ्ग सदीके लिये और एक मिश्रा पात्र
 एक मिश्रके लिये जरूरी है) ।
 चीवर-कर्म । २५७ (= वस्त्र सीना) ।
 चूर्णक । ३३४ (= पौदर) ।
 चैतक । ७३ (= होशियार) ।
 चैतना । ३३ (= संज्ञाके अनन्तर मनकी
 अवस्था), २३३ (मानस कर्म), ४६६
 (= चिंतना) ।
 चैतना । सं—३१ (= ब्याल) ।
 चैतसिक । ६०१ (= मानस) ।

चेतसिक धर्म । १८१ ।
 चेतसोविनिबंध । ६५ (= चित्त-बन्धन), ६६ ।
 चेतः समाधि । ५०२ ।
 चेतोखिल । ६५ (= चित्तके क्रील) ।
 चेतो विमुक्ति । १७५, २५६ (= झूटे चित्त-
 मलों); ४१९ (= भावना) ५०४ ५२३,
 ५९३ ।
 चेतो विमुक्ति अक्रोप्या । १७८ ।
 चेतोविमुक्ति-अप्रमाणा १७७ ।
 चेतोविमुक्ति आर्किचन्या । १७७ १७८ ।
 चेतोविमुक्ति-आनिमित्ता । १७७, १७८ ।
 चेतोविमुक्ति-शून्यता । १७७ ।
 चेतो-विमुक्ति समाप्ति । १७७ ।
 चैलण्डुक । ९७ (= अंगोछा) ।
 चैत्य । १४ टि० (= देवताओं और मूर्तियोंके
 चौर) ।
 चैलपंक्ति । ३४५ (= पाँवड़े) ।
 चोदना । ५३९ (= अभियोग) ।
 चोर । ३५३ (= डाकू) ।
 चोर-घातक । २०७ ।
 चंक्रम । ३९१ (= टहलनेके चवूतरे), ५०५
 (= टहलना) ।
 चंगवार । ९२ (= चंगौरा = टोकरा) ।
 च्युत । ३१२ (= नृत) ।
 च्युति । १५ (= मृत्यु) ५८६ ।
 च्युति-उत्पाद-ज्ञान । १५ (= प्राणियोंके जन्म-
 मरणका ज्ञान), ११५ ।
 छन्द । २९० (= राग), ४३०, ३९८ (= रुचि),
 ४६० ।
 छम्भितत्त । ५३० (= स्तम्भितत्व) ।
 छवि । ५४० (= ऊपरी चमड़ा) ।
 छविवर्ण । १०७ (= कांति), १४६ (= चमड़े
 का रंग) ।
 छिद्र । १६१ (= दोष) ।
 जटिलक । १६६ ।
 जनपद । २२९ (= देश), ३३८ (दीहात) ।
 जनपद-कल्याणी । ३१९ (= सुन्दरियोंकी
 रानी), ३२३ (देशकी सुन्दरतम स्त्री) ।

जनपद-भाषा । ५७१ ।
 जन्ताघर । (= स्नान-घर) ।
 जन्म । ४४५, (= आवागमन), ४६२, ५९६ ।
 जरा । ३२ (= बुढ़ापा) ।
 जराधर्मा । १०३ (= बुढ़ापा होना) ।
 जरायुज-योनि । ४६ ।
 जात । १५७ (= सन्तान) ।
 जातक । ८६ (बुद्धोपदेश) ।
 जातरूप । २१५ (= सोना) ।
 जाल-हस्त-पाद । ३७४ (= अंगुलियोंके बीच
 यत्तकके पंजेकी भाँति चमड़ा) ।
 जाति । ३१ (= जन्म), १५५, १६०, २६९,
 २७९, २९७, ३३२ ।
 जातिधर्मा । १०३ (= जन्मनेके स्वभाववाला) ।
 जातिभूमि । ९४ (= कपिल-वस्तु) ।
 जाति-संकार । ९० (= जन्म दिलानेवाले पूर्व-
 कृत कर्मोंके चित्त-प्रवाहपर पड़े नस्कार) ।
 जानपद । ५०७ (= विहाती) ।
 जायिका । २६४ (मेहरिया) ।
 जालिनी । ४८५ (= नृणा) ।
 जीवित । ५७५ (= जीवन) ।
 जुगुप्सु । ४८ (= अनुकंपा रखनेवाला), ४९
 (= ब्रह्मचर्यका अंग) ।
 जंघाविहार । ७०, १४४ (= टहलना), २१४
 (= चहल-कदमी), ३८२ ।
 ज्या । २५२ ।
 ज्योतिर्मालिका । ५५ (= दंड), ५९ ।
 ज्ञाति । ३३५ (= जाति) ।
 ज्ञाति-दासी । ३३२ (= जातिवालोंकी दासी) ।
 ज्ञाति-सलोहित । ४०५ (= जाति-भाइयों) ।
 ज्ञान । ७० (= संप्रिया) ।
 ज्ञानदर्शन । २७९ (= ज्ञानके माझात्कार
 करने) । ३०७ (= ज्ञानका मनसे प्रत्यक्ष
 करना) ।
 तरहुपादिगण । ११८ (= नृणामें फँसा) ।
 तत्पापीयसिका । ४४३ (= तत्प पापीयसिका) ।
 तथागत । ५ (= जैसे अन्य बुद्ध संनारमें धाने,
 आते हैं, या आदोंगे, वैसे ही जो आया),

- १५८, २५३ (= सुक्त पुरुष), १८९ (=
 लोकगुरु) ।
 तथागत-उत्पत्ति । ११३ ।
 तथागत-त्रल । ४४ (दश) ।
 तथाभूत । २३२ (= मृत = जैसे) ।
 तन्दी । २९१ (= आलस्य) ।
 तप । ४१५ ।
 तपस्वी । ४८-४९ । (ब्रह्मचर्यका अंग) ।
 तरुण । ५० (= बहुत छोटा) ।
 तरुणवत्सा । ५२१ (= धेनु) ।
 तर्कावचर । अ-३९८ (= तर्कसे अप्राप्य) ।
 तल । १४९ (= आसन) ।
 तस्स पापीयसिका । ४४४ (= उसकी और
 भी कड़ी आपत्ति) ।
 तात्कालिकी । ५०४ (= सामयिक) ।
 ताम्रलोह । ५४१ (= ताँबे) ।
 तिणवत्यारक । ४४३, ४४४ (= घाससे ढाकने
 जैसा) ।
 तिरच्छ्राण-कथा । ३१८ (= व्यर्थ कथा) ।
 तिरः प्राकार । २८६ (= अन्तर्धान हो प्राकार
 के पार हो जाना) ।
 तिरोट । ४९ (= एक घृक्षकी छाल) ।
 तिरोभाव । २८६ (= अन्तर्धान होना) ।
 तिर्यग् । ४७ (= पशु पक्षी आदि), २३१,
 (= पशु), ४०६, ४६४, ५३४ ।
 तिलक । ५३९ (= दाग) ।
 तिल-पिष्ट । ५२१ (= तिलकी लुगदी) ।
 तीर्ण-विचिकित्स । ४७९ (= संग्रह-रहित) ।
 तीर्थ । २९ (= नदीका घाट), २०९ (= मत),-
 २५८, १३३ (= नदीका उतार) ।
 तीर्थायतन । २८० (= पंथ) ।
 तीर्थिक । ५०५ ।
 तीर्थिक । अन्य-२३८ (= पंथाई) ।
 तुष । १५३ (= भूसी) ।
 तुषित । १७०, ५०९ ।
 तुषित-काय (तुषित देवता) । १२९, ४९८,
 ५८३ (= तुषित-देव-लोक) ।
 तुषोदक । ४९ (= घावकी शराय) ।
 तृण-उल्का-समान । ८४ ।
 तृणहारक । ४९ (= घसियारा) ।
 तृष्णा । ३१ (तीन), ४३, १५४ ।
 तृष्णा-क्षय-विमुक्ति । १५० ।
 तृष्णा-संक्षय-विमुक्ति । १६० (= तृष्णाके
 विनाशसे होनेवाली मुक्ति) ।
 तेज । ३७० (= मुक्ति) ।
 तेजन । ४३१ (= वाणफल) ।
 तैथिक । ४१ (= दूसरे मतवाले), २२४, २२६
 (= पंथाई) ।
 तोमर । ५१७ (= भाला) ।
 त्रयस्त्रिंश । ४९८, ५५० ।
 त्रायस्त्रिंश । १७०, २९४ ।
 त्रैचीवरिक । १३१ (= सिर्फ तीन बखोंको
 पासमें रखनेवाला) ।
 त्रैविद्य । २७९, २८८, ३७८ (= तीन विद्याओं
 का जाननेवाला), १२९ ४०९,
 ३२८ (= तीनों वेदोंका अनुयायी) ।
 तत्पापीयसिका । ४४३ ।
 त्वक् । ३६ (= चमड़ा) ।
 थम्भ । १२ (= जडता) ।
 थीन-मिद्ध । (देखो स्थान-मृद्ध) ।
 दक्षिणोय । २५ (= दान देने योग्य) ।
 दत्तो । ४९ (= कलछी) ।
 दद्दुल । ४९ (= कोठों) ।
 दन्तकार ३११ (हाथीके दाँतका काम करनेवाला) ।
 दन्तप । ३८३ (नाग) ।
 दन्त-विकृति । ३११ (= दाँतकी घनी चीजें) ।
 दंथा । २६५ (= धीरे-धीरे) ।
 दरथ । ६०१ (= दर, खेद) ।
 दर्भजातिक । ७३ (= कुशाग्र-त्रुटि) ।
 दर्विग्राहक । ३९० (= रसोईदार) ।
 दर्शन । ६ (= विचार), १०६ (साक्षात्कार),
 ४२८ (= ज्ञान) ।
 दव । १६२ (= मस्ती), ४४४ (= सहसा) ।
 दह । ४२७ (= पुष्करिणी) ।
 दहर । ५१ (= तरुण), ६४ (= कमसिन),
 २२९ (= नव-त्रयस्का), ३२५ (= नव-

- यस्क) ।
दान्त । २९३, (= संयत), ५१६ (= विनीत),
५१६ (= शिक्षित) ।
दान्त । अ-२९ (= मनके संयमसे रहित) ।
दान्त-भूमि । ५१६ (= शिक्षित-अवस्था) ।
दायाद । ३३२ (= वारिस) ।
दावपालक । १२७ (= वनपाल), ५२८ ।
दास । १६३ ।
द्विट्टिनिष्मानकख । ३९७ (= दृष्टि निष्मानाक्ष) ।
दिन्नादान । अ-११३ (चोरी) ।
दिन्नादायी । १५९ (= दियेका लेनेवाला) ।
दिवा । २६२ (= मध्याह्न) ।
दिव्य-चन्द्र । १५ (द्वितीय विद्या) २५९, २८७,
४३१, ४५७ ।
दिव्य-श्रोत्र । २९२, ३११, ४५७ ।
दिव्य-श्रोत्र-धातु । २९६ (= कान) ।
दीर्घ-रात्र । ५७ (= बहुत समय), २६९
(= चिरकाल) ।
दुःख । ३१, ३७९ ।
दुःख-निरोध ८ (= दुःखका विनाश) ।
दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् । ४०, (दुःख-
स्पर्ध) १२१ (= दुःख पुंज), १५५ ।
दुःख-विपाक । ७७, ३६२ (= अंतमें दुःख
देनेवाला) ।
दुट्ठुल्ल । ५३० (= दुःस्थौल्य) ।
दुःख-समुदय । ८ (= दुःखका कारण),
१७३ ।
दुःख-स्पर्ध । ५८ (= दुःखोंका पुंज), २९७ ।
दुःख-स्पर्श । २९४ (= दुःखके साथ छूने
लायक) ।
दुरू-अनु-बोध । २८२ (= दुर्ज्ञेय) ।
दुर्गत । १९० (= कुमार्गारूढ़) ।
दुराख्यात । ४२ (ठीकसे नहीं व्याख्यात
किया गया) ।
दुर्गुहीत । ४३८ (= उल्टा समझा हुआ) ।
दुर्दृश । ३९ (दुर्वोध) ।
दुर्भावना । १०९ (= पाप) ।
दुर्मनस्कता । १२१ (= दुःख) ।
दुर्वर्ण । ५५२ (= कुरूप) ।
दुश्चरित । ५५ (= पाप), ५३३ ।
दुःश्रुत । ४०४ (= न सुनने योग्य) ।
दुष्कर-कारक । २३१ (= मुश्किल करने
वाला) ।
दुष्कर-कारिका । ५१ (= तपस्या), ४२८ ।
दुष्कर-क्रिया । ५९ (= तपस्या) ।
दुष्प्रज्ञ । ५५२ (= निर्बुद्धि) ।
दुष्प्रतिनिस्सर्गी । ४३९ (= मुश्किलसे छोड़ने
वाला) ।
दुष्प्रति-मंत्र्य । २८६ (= वाद करनेमें
दुष्कर) ।
दुष्प्रवेदित । ४२ (ठीकसे न जाना गया),
४४१ (= ठीकसे न साक्षात्कार किये
गये) ।
दुस्स-युग । २०९ (= धूसेका जोड़ा, धान
जोड़ा) ।
दृष्ट । ३ (= देखा), १५४ (= दर्शन, ज्ञान) ।
दृष्ट । सु-१५४ (= भच्छा दर्शन) ।
दृष्ट-धर्म । २६८ (= इसी जन्ममें) २९१
(= जिसने धर्मको देख लिया), ४३३
(इसी शरीरमें) ।
दृष्ट-धर्म-अभिज्ञान-व्यवसाय-पारमो-प्राप्त । ४२८
(= इसी शरीरमें जानकर, निर्वाणको
प्राप्त) ।
दृष्ट धर्म-सुखविहार । २७ (= इसी जन्ममें
सुखपूर्वक विहार करना) ।
दृष्ट-वादिता । ४६९ (= देखा हुआ कहना) ।
दृष्टि । ७ (= वाद, मतके छः भेद), २७
(= दर्शन, मत), ३८ टि. (= धारणा,
मत), ४२ (= धारणा), ८७, ८८, १००,
१८४, ४६४, २११ (= दर्शन), ३००
(= वाद), ४३६, ५२०, ४४४ (= सिद्धान्त),
२८१ (= मत) ।
दृष्टिक । ३२४ (= मत रखने वाला) ।
दृष्टि-कान्तार । ७ (= दृष्टिकी मरनूमि), २८१
(= मतका रेंगिस्तान) ।
दृष्टि-वाद । ७ (= मत-वाद), १११ (= धारणा

में स्थित नख), २८१ (= दृष्टि), २८२ ।
 दृष्टि-गहन । ७ (= दृष्टिका घना जंगल),
 दृष्टि-निधाय-ज्ञान्ति । ४२८, ४३५ ।
 दृष्टि-निश्रय । ८९ (= धारणाके विषय) ।
 दृष्टि-प्राप्त । २५८, ४८० (= सच्चे दर्शन) ।
 दृष्टि-मान । ३१ (= धारणाका अभिमान) ।
 दृष्टि-विशुद्धि । ९५ (सिद्धान्त ठीक करने) ।
 दृष्टि-विशूक । ७ (= दृष्टिका काँटा), २८१
 (= ० काँटा) ।
 दृष्टि-विसृपन्दिता । २८१ (= ० की चंच-
 लता) ।
 दृष्टि-सम्पन्न । १९३ (= आर्य दर्शन युक्त) ।
 दृष्टि-संयोजन । ७ (= दृष्टिका फंदा), २८१
 (= मतका बंधन) ।
 दृष्टि-स्थान । ८९ ।
 देव । १६३ (= वृष्टि), ४०७ ।
 देवता । ३ (देव, प्रजापति, ब्रह्मा, आभास्कर,
 गुम कृत्स्न, वृहत्फल, अभिभू, काकाराना-
 नन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आर्कि-
 चन्यायतन, नैव संज्ञाना संज्ञायतन),
 १६० (- भेद) ।
 देवदूत । ५३९ ।
 देवनिकाय । ६६, ५२५ (= देवसमुदाय, देव-
 योनि) ।
 देशना । १०७ (= उपदेश), ३७९, १९३
 (= अपराध निवेदन) ।
 देशता । ४८३ (= यतलाता) ।
 दौर्मनस्य । १५ (= चित्त-सन्ताप), ३१, ५४
 (= दुःख), १७७ (= चित्त-संताप),
 १८३ (= चित्त-संताप), ४३६ (= चित्त-
 स्नेह), ५०५ (= दुरा मन होना), ५६१
 (= स्नेह) ।
 द्रौण्डुल्य । २५५ (= चंचलता) ।
 दौस्थ्यूल्य । ५२६ ।
 द्वारकोष्ठक । १०२ (= फाटक), ३४४
 (= नौयतपाना) ।
 द्वारशाला । २२८ (= दालान) ।

द्वेषा । ७४ (= दोहक) ।
 द्वयहिक । ४९ (= दो दिनमें एक बार) ।
 धनुकलाप । ४०१ (= शस्त्र-शिल्प) ।
 धनुक । १५८ (= धनुही) ।
 धनुप-कलाप । ५८ (= धनुप-लकड़ी) ।
 धम्मकोस । ३०६ (= धिम्कार) ।
 धर्म । ६, ३९; १२५; १३८; १४८; १३९; १७४;
 १७५; (= पदार्थ); ९ (= विचार);
 ११; ५७; ६१; (= यात), ३२ (= मन
 इन्द्रियका विषय); ३७; ३९; (= स्वभाव);
 ३९ (= मनका विषय); ८४ (= कार्य);
 ८६; (= उपदेश); १७६; १८१; १८६;
 (= पदार्थ), १८९ (= पुण्य), १८१
 ३४५; २७८; ३९७; ४८६; ५४३; ५२३
 (= यात), २११; ४५७; (= उपदेश);
 २५४ (= मानसिक विचार); २६०
 (= काम); २२४ (= पदार्थ); २९०
 (= स्वभाव); ४३९; ४४० (= वात,
 दोष); ४५५ (= गुवार); ४६७ (= चित्त-
 प्रवाहका एक रूप); ४७०; ५३२ (-
 दुर्गुण); ५४८; ५९५ ६०३ (= विचार) ।
 धर्म-कुशल । १८९, (= पुण्य आचरण) ।
 धर्मका अनुस्मरण । २५ ।
 धर्म-अन्वय । ३६५, (= धर्म-दर्शन), ३६५,
 (= धर्म-सम्बन्ध) ।
 धर्म-कथिक । ४७२ (= व्याख्याता) ।
 धर्म-चक्र । ४६८ (= धर्म) ।
 धर्म-चक्रु । ५९६ ।
 धर्म-चर्या । ५३५ (= धर्माचरण) ।
 धर्मता । १९० (तथ्य), १९३ (= स्वभाव,
 गुण) ।
 धर्मदायाद । १० (= धर्मकी वरासत पानेवाला),
 ४६७ (= धर्मका वारिष्) ।
 धर्मदेशना । ५६८ (= धर्मका उपदेश) ।
 धर्म-वर । १३४ ।
 धर्मधातु । २३६ (मनका विषय) ।
 धर्मनिध्यानात् । ३९९ ।
 धर्मनेत्री । ४४३ (= धर्म रूपी स्त्री) ।

धर्मपर्याय । ५२ (= धर्मोपदेश); ७३, ४७५,
५२६ ।
धर्म-विचय । ९ टि० (= धर्म-अन्वेषण), ३९
४८६, ५९३ ।
धर्म-विचय-संबोध्यग । ४९२ ।
धर्म-विनय । ४२ (= मत), ६५, (= बुद्ध-
धर्म), १०४, (धर्म), १३३, (= बुद्ध-
धर्म), १५२, ४४१ (= धर्म), १९३,
२३३, ४०२; ४२८, ४५२ ।
धर्म-वेद । (= धर्म-ज्ञान), ४१९ ।
धर्मसमादान । १८४ (= ४ धर्मकी स्वीकृतियाँ),
१८५, १८६, १८७ ।
धर्मादर्श । ४८२ ।
धर्मानुपशयना । ३७ टि० ।
धर्मानुपशयी । ४९२, ५१८ ।
धर्मानुसारी । २५८ ।
धातो । ३५२ (= धाई) ।
धातु । ३६ (= भूत), ४५ (= ब्रह्मांड),
२५६ (= पद), ४५७ (= इन्द्रिय),
४७०, ४७९, ५७३, ४८० (= लोक),
४८० (= चित्त), ५७३ ।
धातु-विसंग । ५७३ ।
धारोप । ५७० ।
धुरा । २० (= जुआ) ।
ध्याते । १९९ (= ध्यान लगाते हैं) ।
ध्यान । ३२५, २५६, २५९, २६५, ३१०,
३९२, ४३१, ४५३, ४५८, ४६६, ४७३,
४९५, ५६५ ।
ध्यान । अ-रूप—३, २७-२८ ।
ध्यान । चतुर्थ ७५, १६३ ।
ध्यान । तृतीय—७५, १६३ ।
ध्यान । द्वितीय—७५, १६३ ।
ध्यान-प्रथम । ७५, १६३, १७५ (पाँच अंगोसे) ।
ध्यान । रूप— १६ ।
ध्यायी । ४५८ (= ध्यानशाल) ।
ध्रुव । ३३४ (स्थिर) ।
धीर । ३३७ (= पंडित) ।
न-एहिमदन्तिक । ४८ (= डुलाई भिक्षाका

त्यागी ।
नंगुट्ट । २६ (= पूँछ) ।
नति । (= तृष्णा) ।
न-तिष्ठ भदन्तिक । ४८ (= ठहरिये—हू ही
गई भिक्षाका त्यागी) ।
नन्दी । ५ (= तृष्णा), १५८, १६०, १९६,
५८८, ६०१, ९३ (= राग), ४११
(= क्रोध) ।
नल । ४७९ (= नरकट) ।
नवनीत । ५२१ (= सक्खन) ।
नसंज्ञी-नासंज्ञी । ४३४ (= नचेतन-नाचेतन) ।
नहापक । (नहलानेवाला), ४९५ (= नापित) ।
नहापति । ३१० (= नापित, नहलानेवाला) ।
नहारु । ११७ (= स्नायु), २५२ (= तौत) ।
नाग । ३६१ (= हाथी), २५३ (= हाथीका
पट्टा), ३८५ (= पाप-रहित) ।
नाग-वनिक । १११ (= हाथीके जंगलका
आदमी) ।
नाग । महा—१२ (महावीर) ।
नागवनिक । ५१७ (= हाथीके जंगलके रक्षक) ।
नानाकरण । ५३ (= अन्तर), ३७०
(= भेद) ।
नानात्व । ४ (अनेकपन), ३७० (= भेद) ।
नाम । ३३ (= विज्ञान, Mind) ।
नामरूप । ४३, १५५, ४६१, ४८० ।
नाराच । २५२ (= बड़के दाँतकी तरह) ।
नास्तिकवाद । ४८९ ।
नास्तिकवादी । २४० ।
निकाय । ५९७ (= समुदाय) ।
निक्षिप्त-धुर । अ-२१२ (= जूला न जगार
फँकनेवाला) ।
निक्षेप । ३२ (= पत्तन) ।
निखिल-ज्ञान-दर्शन-ज्ञाता । ३१८ ।
निगम । ८ (कल्या), २२९, २१४, ३३०,
३६४, ३८१ ।
निघंटु । ४२१ ।
नित्यकल्प । ५८६ (= सनातन) ।
निदर्शाण । अ-८० (अ-दर्शन) ।

निदर्शन । अ- (= चक्षुका अविषय) १९६ ।
 निदान । ४३ (= कारण), ५४ ।
 निधि-सुख । २०९ (= खजानेका सुँह) ।
 निध्यायन । १९१ (= लमझाना), २७८ (= निद्रिष्यासन) ।
 निध्यापितत्व ५३० ।
 निष्पेसिकता । ४८८ (= जादूगरी) ।
 निःप्रीतिक । ५३१ (= घिना प्रीतिवाली) ।
 निमित्त । १५९ (= आकृति आदि), १३४, १८० (= चिह्न), २१५ (= लिङ्ग), ४५२, ४७० (= आकृति आदि), ४६१ (= लिंग-आकार आदि), ५३१ (= विशेषता), ५०२ (= लिंग आदि), ५०५ (= लिंग, आकृति आदि), ५३२ (= लक्षण), ५६४ (= लिंग, रंग आदि) ।
 निमित्त । ७७ (= आकार) ।
 निम्न । ४९ (= खड्डु) ।
 निरय । १५ (= नरक), ४७, ५५, ५३४ ।
 निरयपाल । ५३३ (= नरकपाल), ५४१ (= यम-दूत) ।
 निरवद्य । ५५४ (= निर्दोष) ।
 निरांतक । ५३७ (= निरोग) ।
 निरामिष । ४३६ (= निर्विषय) ।
 निरुद्ध । (= नष्ट) १५३ ; ३१५ ।
 निरोग । ३७९, ४३३ (= नित्य) ।
 निरोध । ८८ (= राग आदिका नाश), १०६ (= दुःख-निरोध); १४८ (= नाश), २५० (= विनाश), ४८० (= नाश), ५८९ (= विनश्वरता) ।
 निरोध-धर्म । ३७९ (= नाशनान) ।
 निघात । ८१ (= निष्कलह) ।
 निगेन्थ । २२२ (= जैन साधु), २२५ (= जैन साधु) ।
 निर्जीण । ४२८ (= नष्ट) ।
 निर्नाडी । ३७६ (= खनखन) ।
 निर्भेद । २१२ (= तह तक पहुँचने) ।
 निर्माणरति । (देवता) १७०, ४९८, १२९ ।

निर्याता । ३०३ (= मार्ग, प्र-दर्शक) ।
 निर्यूह । १४९ (= खंड) ।
 निर्वाण । ४, १९६, २३० (= ब्रह्म), २९५, २९६ ।
 निर्वाण-निम्न । २८६ (= निर्वाणकी ओर जानेवाली) ।
 निर्वाण-प्राप्ति । ६०० ।
 निर्विण्ण । ४४१ (= विरक्त) ।
 निर्वृत । ४३६ (= निर्वाण-प्राप्त) ।
 निर्वृति । १९२ (= सुख) ।
 निर्वेद । ६७ (= वैराग्य), ९० (= उदासीनता), २४३ (= वैराग्य) ।
 निवेधिक । २१२ (= वस्तुके तह तक पहुँचने वाली), ४६६ (= तह तक पहुँचने वाला) ।
 निर्व्यूढ । ५१७ (= आच्छादित) ।
 निवाता । ८० (= निष्कलह) ।
 निवासन । २१४ (= पोशाक) ।
 निवृत्त । ४१७ (= ढँका), ५९३ (= निवट) ।
 निवृत्ति । ५९३ (= निवट) ।
 निवेसन । ३४४ (= घर) ।
 निःशब्द । ३१४ (= अल्पशब्द), ३८३ (= अल्पशब्द) ।
 निःश्रय । ५१३ (= गुरु वनना) ।
 निश्चित । ४५१ (= लिप्त), ५९६ (= यद्ध) ।
 निपाद । ३८८, ५३५ ।
 निषीदन ४९५ (= आसन) ।
 निष्क । २६४ (= अशर्किर्षाँ) ।
 निष्काम । ७४ (= काम-रहित) ।
 निष्कामता-संवंधी । ५६१ (= नेकख-म्मलित) ।
 निष्ठा । ३९६ (= श्रद्धा) ।
 निसभ । २३० (= उत्तम) ।
 निस्तार । २६ (= पार जाना) ।
 निस्सरण । ५२ (= निकाल), २९३ (= निकलनेके उपाय), ५९९ (= निकलनेका राम्ना) ।
 निस्सर्गी । दुष्प्रति ६३ (= न त्यागनेवाला) ।
 नीत । ७ (= प्राप्त) ।

नीवरण । ३७ टि० (पाँच), ९३ (= आव-
रण), १६३, (ढक्कन), १७५, २१५,
४१७, ४५३ ।

नीवार । ४९ (= तिन्नी) ।

नेमि । ३७४ (= पुट्टी) ।

नैमित्तिकता । ४८८ (= ज्योतिषीका पेशा) ।

नैरयिक । २३४ (= नरकगामी) ।

नैर्याणिक । ४२ (= पार करानेवाला) ४४४
(= उसके अनुसार करनेवाले को दुःख-
क्षयको ले जानेवाला) ।

नैवसंज्ञानासंज्ञा । ४३४ (= नचेतन-नाचेतन) ।

नैवसंज्ञानासंज्ञायतन । (शांत विहार), २८,
१७१, ४४६, ४५१, ४६७, ४७४, ४९९,
५०२, ५७५ ।

नैवापिक । ९८ (= धहेलिया) ।

नैष्काम्य । ३१७ (= कामना-रहित होना) ।

न्यग्रोध-परिमंडल । ३७५ (= जितनी काया
उसके अनुसार व्यायाम = जितनी चाँडाई
उतनी काया) ।

न्याय । ४० (= सत्य), ३०० (निर्वाण);
४३१ (= धर्म), ५१८ ।

पक्खलेत्त्वा । ४२१ (= पकड़ कर) ।

पञ्चाजात । ६० (= नीच कुल) ।

पंचदशी । १४ (= पूर्णमासी), ४६०
(= पूर्णिमा) ।

पंच-विध-बंधन । ५३३, ५४० ।

पटलिक । ४८ (= विडौना) ।

पटिक । ४८ (= गलीचा) ।

पण । २७८ (= बाजी) ।

पणाव । ५१८ ।

पणामना । २६७, २६८ (= निकालना) ।

पंडित-त्रेदनीय । २८२ (= पंडितों द्वारा जानने
लायक) ।

पंडुमुटिक । ३२९ ।

पत्ति । ३३७ (= पैदल) ।

पत्रयान । ४१० ।

पद् । ३०० (= चिन्ह), ५४९ (= वाक्य) ।

पदक । २३० (= वक्त्र), ३८६ ।

पदज्ञ । ४२१ ।

पदहन । ३९८ (= पराक्रम) ।

पदान । ५३२ ।

पन्त-ध्वज । ९० (= जिसकी राग आदि रूपी
ध्वजा गिर गई है) ।

पन्त-भार । ९० (= जिसका भार गिर गया
है) ।

पन्थन्त । ११९ (महानार्ग) ।

पमुट । ३०१ (= गोंठ) ।

परत्त्व-अपरत्त्व । ४५ (= प्रचलता-दुर्बलता) ।

परद-वृत्ति । २६३ (= दूसरोंके दिये ने वृत्ति
करनेवाला) ।

परनिर्मित । १७० ।

परनिर्मितवशवर्ती । ४९८, ३२९, ४९८ ।

परंतप । ३९२ ।

परम । ३२३ (= उत्तम) ।

परम-वर्ण । ३१९ ।

परमवर्ण-पुष्कलता । ५३७ (= परममौन्दर्य) ।

परि-अवदात । ३४९ (= सफेद, गोरा) ।

परि-उत्थान । १९२ (= चंचलता) ।

परि-उपासन । ३९८ (= सेवन) ।

परिचीण । ६८ (= नष्ट) ।

परिचीण-भवसंयोजन । ९१ (= जिनके भय-
सागर में डालनेवाले बंधन नष्ट हो गये हैं) ।

परिग्रह । ८८ (= ग्रहण करनेकी वस्तु) ।

परिग्रहण । ८८ (= ग्रहण) ।

परिघ । ४११ (= जूए) ।

परिघ-परिवर्तिक । ५५, ५९ (दड) ।

परिचरण । ४००, ५८५ (= सेवा) ।

परिचरणीय । ४०० (= मेवनीय) ।

परिच्छिन्न । ५३१ (= अल्प) ।

परिज्ञा । (= त्याग) ४२, १८४ ।

परिज्ञात । ६०६ (= ज्ञात) ।

परिज्ञेय । १७४ (= ज्ञेय), ६०० (= जानने
योग्य) ।

परिणायक । ५३७ ।

परित्रास । ३७५ (= चंचलता) ।

परिदाह । ६०१ (= जलन) ।
 पन्दित्र । ३१ (= रौनो-कॉदना), ८८ (कल्प-
 कर रौना), ५९९ (= विलाप) ।
 परिधारण । २६८ (= देखरेख) ।
 परिनिर्वाण । १४२ (= निर्वाण), १४८
 (= दुःखका सर्वथा अभाव) ।
 परिनिर्वायी । ४५० (निर्वाण प्राप्त करनेवाला) ।
 परिनिर्वृत । २९ (= निर्वाणको प्राप्त) ।
 परिपन्थ । ५४, ५८ (= रहज़नी) ।
 परिपूर्णकारिता । ४१ (= पूरा करनेवाला
 होना) ।
 परित्राजिका । १८४ (= साधुनी स्त्री) ।
 परिभाषण । ४२१ (= निर्दिष्ट), ५८८
 (कृवाच्य) ।
 परिभाषते । ९० (= निन्दते) ।
 परियोग । ३२८ (= दाल आदि सूप पकाने
 लायक घर्तन) ।
 परिवास । २८६ ।
 परिशुद्धाभ । ५२६ ।
 परिपद् । ४६ (आठ), ३९२ (= संदल) ।
 परिष्कार । ४८६ (= सहायक सामग्री) ।
 परिस्फरण । ३१० (परिपूरण) ।
 परोत्त । ५३१ (= अल्प) ।
 परोत्तशुभ । १७०, ४९९ ।
 परोत्ताभ । ५२४, ५२५ ।
 पर्याकुटी । ३८९ ।
 पर्यवनद्ध । ४१७ (= चारों ओरसे बंधा) ।
 पर्यवदात । १५ (= शुद्ध), १४६ (= सफेद
 = गोरा) ।
 पर्यवसान । ५९७ (= अन्त) ।
 पर्यादान । २८३ (= खतम कर लेने) ।
 पर्याय । १७७ (= मतलब), ३१ (= प्रकार),
 ५९० (= दारी), ४२२ (= कथन),
 ४७९ (= विकल्प) ।
 पर्याय-भक्तिक । १६५ (= बीच बीचमें निरा-
 हार रह, भोजन करनेवाले) ।
 पर्युत्थान । ८८ (उठना, उपजना) ।
 पर्युत्थित । ४५८ (= च्याह) ।

पर्युपासन । ५४१ (= सत्संग) ।
 पर्येषण । १०३ (= खोज), ५१६ (= फिर) ।
 पर्येषित । ८७ (= खोजा) ।
 पर्व । ५० (= पोर) ।
 पलगण्ड । ७७ (= राज, मेमार) ।
 पलाल-पीठक । ५५, ५९ (दंड) ।
 पलासी । ४४२ ।
 पल्लोम । १३ (= उत्साह) ।
 पल्वल । ७६ (= जलाशय) ।
 पश्चान्निपातिनी । ५३७ (= पीछे सोनेवाली) ।
 पस्साव । ३६ (= पेशाव) ।
 पहितत्ता । ७४ (= आत्म-संयमी) ।
 पांडु । ५१० (= नारंगी का रंग) ।
 पांडु-कंचल । (= लाल-दोशाला) ३१९, ४९९ ।
 पाती । ५७० ।
 पात्र । ४४ (= मिक्षा-पात्र) ।
 पात्र-आढक । १५८ (= तराजूका खिलौना) ।
 पादकठलिका । १०८ (= पैर रगड़नेकी लकड़ी) ।
 पादपीठ । १०८ (पैरका पीड़ा) ।
 पादोदर । ४१० ।
 पानीयकांस्य । १८८ (भाव बोरा) ।
 पापक । १८, २० (= बुराई) ।
 पापदृष्टि । २८९ (= बुरी धारणा) ।
 पापधर्मा । ३८९ (= पापी) ।
 पापिका । ६१ (= बुरी) ।
 पापेच्छु । १६५ (= बदनीयत) ।
 पाप्मा । ७६ (= मार = बुराईयाँ) ।
 पाराजिक-समान । ४४३ ।
 पालित्य । ३२ (= बाल पकना) ।
 पांसुकूल । ४९ (= फेंका कपड़ा) ।
 पांसुकूलिक । (= फेंके चियड़ोंको पहननेवाला) ।
 पांसु-पिशाचक । ३१९ (= चुड़ैल) ।
 पाश-राशि । १०९ (= जालका ढेर) ।
 पाहुण्येय । ५१८ (पहनाई) ३८९, ५१८ ।
 पिटक । ३९६ (= बचन समूह), ५२४
 (= टोकरी) ।
 पिटकसंग्रदाय । ३०२ (= ग्रंथ-प्रमाण) ।
 पिंड । २२७ (= मिक्षा), १०२ (= मिक्षा-

चार), २६२ (= मधूकरी माँगना) ।

पिंडपात । १६५ (= शिक्षा) ।

पिंडपातिक । १३१ (मधूकरी माँगनेवाला) ।

पिण्याक । ४९ (= खली) ।

पिलोतिकच्छिन्न । ९१ (= आवरण-रहित) ।

पिशाच । २६३ ।

पुक्स । ५३५ ।

पुटोली । ३६ (= डेहरी) ।

पुंडरीक । १०७ (= ज्योतकमल) ।

पुत्रक । ३५८ (= पुतवा) ।

पुद्गल । १३९ (= पुरुष), २४३ (चार),

४७८ (= व्यक्ति) ।

पुद्गल । अ-प्रति—२३० (= अतुलनीय) ।

पुनर्भव । १७५ (= पुनर्जन्म), ५११ (= आवा-
गमन) ।

पुरुष-पुद्गल । आठ—२५ (= स्त्री-पुरुष भेदसे
स्रोत आपन्न आदि आठ) ।

पुरुष-युगल । २५ (स्रोत आपन्न, सकृदागामी,
अनागामी, अर्हत्) ।

पुरुष-दम्प्य । ५६३ (= सीखा पुरुष) ।

पूग । १६९ (= पंचायत) ।

पूजा । १३३ (= योजनादि प्रदान) ।

पूति । २६३ (= पोष), ।

पूतिक । २६३ (= सदा) ।

पूतिमुत्त । १८८ (= गोमूत्र), १८८
(= गोमूत्र) ।

पूर्व-अन्त । ३१८ (= आरम्भ),

पूर्व-उत्थायी-पश्चात्-निपाती ३४०, (= मालिक
के लो जानेके बाद सोनेवाला नौकर) ।

पूर्वकोष्ठक । १०२ ।

पूर्व-निवास । (= पूर्वजन्म) २३, २१२, २७९,

२८७, ३१२, ३१९, ३५०, ४३१, ४५७, ।

पूर्वनिवासानुस्मृति । १५ (= पूर्व जन्मोंकी
स्मृति, प्रथम-विद्या), ७५, ११५ ।

पूर्वान्त । ३२४ (= आरम्भका छोर) ।

पूर्वोत्थायिनी । ५३७ (= पहले जागनेवाली) ।

पृथग्जन । ३ (= अनाड़ी), ३, १८०, ९६
(= निर्वाणका अनधिकारी), २३४ (=

अज्ञसंसारी जीव), २६५, २९६, ४८०,
५६५ ।

पृथिवी-धातु । ३६ (= पृथिवी महानूत),
२४९, ५६३ ।

पोरिसा । ४७ (= पुरुष भर), ११९ (पुरुष-
परिमाण) ।

पौनर्भविक । ५०७ (= आवागमन देनेवाला) ।

पौर । ११३ (= नागरिक, सग्य) ।

प्रजा । ४७८ (= जनता) ।

प्रजातंत्र । १४० (= संघ) ।

प्रजानन । १७५ (= अच्छी तरह जानना) ।

प्रजापति । १९६ ।

प्रज्ञा । १७४, ५७५, ६०२ ।

प्रज्ञानिरोधक । ७४ (= ज्ञानका नाशक) ।

प्रज्ञापन । ४६१ (= जतलाना) ।

प्रज्ञा-विमुक्ति । १७५, २५८ ।

प्रज्ञा-त्रेदित-निरोध । ३०९, (= पञ्जावेदयित-
निरोध) ।

प्रज्ञा-स्कन्ध । ३०८ (= उत्तम ज्ञान समुदाय) ।

प्रणिधान । ६६ (= दृढ़ कामना), ५४८
(= आग्रह) ।

प्रणीततर । ३१९ (= उत्तमतर) ।

प्रतिक्रोश । ५३ (= प्रतिवाद) ।

प्रतिक्रोशन । ४६९ (= निन्दन) ।

प्रतिक्षिप्त । २५१ (= जिनका उत्तर रोक दिया
गया) ।

प्रतिग्रहण । ११३ (= लेना) ।

प्रतिघ । ३८ टि० (प्रतिहिंसा), १८२ ।

प्रतिज्ञा । १६५ (= दावा) ।

प्रतिज्ञात-करण । ४४३ (= स्वीकार = Con-
fession) ।

प्रतिदेशना । ४४३ (= निवेदन) ।

प्रतिनिस्सर्ग । २९० (= त्याग) ।

प्रतिपत्ति । ४१४ (= दिशाम), ४७१ ।

प्रतिपदा । ५९८ (मार्ग) ।

प्रतिपद् । ३२० (= मार्ग) ।

प्रतिपत्र । २०५ (= घनादा), ३१६
(= मार्गाहृद्), ४५० (= नमनार्थ) ।

वाळा) , ४४९ (= संलग्न) ।
 प्रतिपृच्छ । ५९० (= पूछ पूछकर) ।
 प्रतिविद्ध । २११ (अवगाहित) ।
 प्रतिवेध । २८६ (= तह तक पहुँचना) ।
 प्रतिभाग । १८३ (= विपक्षी) ।
 प्रतिमंत्र । २३० (= वाद-दक्ष) ।
 प्रतिमान । ३५७ (= ज्ञान) ।
 प्रतिराज । ५३६ (= भाषीन राजा) ।
 प्रतिरूप । ५८५ (= योग्य) ।
 प्रतिवाण-रूप । ४४१ ।
 प्रतिवेदित । ४६७ (= अनुभव-गम्य) ।
 प्रतिशरण । ५०६ (= अवलम्ब), १७६
 (आश्रय) ।
 प्रतिसंख्यान । ८ (= ठीकसे जानना), ४१७
 (= सोच समझ) ।
 प्रतिसंल्लयन । १७३ (= एकान्त चिन्तन,
 ध्यान), २६२, २५१ (विचार-मग्न होना) ।
 प्रतिसंवेदन । ३७५ (= अनुभव) ।
 प्रतिसेवन । ६ (= सेवन) ।
 प्रतिस्फरण । ६१, ६२ (= प्रतिहिंसा) ।
 प्रतीत्य-समुत्पाद् । १२० (= कार्य कारण से
 समी चीजों की उत्पत्ति), १५१ (= कार्य
 कारणसे उत्पन्न), ४१३, ४७९, ४८० ।
 प्रत्यय । ४६१ (= कारण) निमित्त, १५१
 (= हेतु), १७६ (= आश्रय) ।
 प्रत्यवेक्षण । १५१ (= परीक्षण), ३४६ (=
 विचार), ३४६ (= देखभाल), ४९९
 (= निहार) ।
 प्रत्यस्तरण । ४८ (= लिहाफ) ।
 प्रत्यात्म । २४८ (= प्रति शरीर में), ५७५
 (= इसी शरीर में) ।
 प्रत्युत्पन्न । ५४८ (= वर्तमान) ।
 प्रश्न । ५०७ (= पुछार) ।
 प्रश्न्य । ४९३ (= शांत) ।
 प्रश्न्यि । ९ टि० (= शांति), ३९ टि०
 (= शांति), ५८६ (= एकाग्रता) ।
 प्रश्न्यि-संबोध्यंग । ५९३ ।
 प्रश्न्य । ४९ (= स्नाट) ।

प्रश्वास । २५० (= साँस लेना), ४९१ (=
 श्वास छोड़ना) ।
 प्रसन्न । १७६ (= निर्मल), ३८१ (= श्रद्धालु) ।
 प्रसन्नता । ११५ (= चित्तकी एकाग्रता) ।
 प्रसाद । ४१ (= श्रद्धा) ।
 प्रसादनीय । ४५७ (= श्रद्धा उत्पादन करने
 वाला) ।
 प्रहाण । ५६ (= त्याग), ६४ (= नाश) ।
 प्रहातव्य । ६ (= त्यागने योग्य) ।
 प्रहीण । १५१ (= नष्ट), १७५ (= छूट
 गया) ।
 प्राग्भार । १८१ (= पहाड़), ५०५ (=
 विवेक) ।
 प्राणातिपात । १८७ (= हिंसा) ।
 प्राणातिपाती । ५५२ (= हिंसक) ।
 प्राणायाम । ३५ टि० ।
 प्राति-पुद्गलिक । ५८० (= व्यक्तिगत) ।
 प्रातिमोक्ष-उद्देश । ३०७ (= अपराध-स्वीकार),
 ४३९, ४४२ (= मिश्र-नियम), ४४२, ४५८,
 ४५६ ।
 प्रातिमोक्ष-संवर । ४५७ (= मिश्र-नियम
 संयम) ।
 प्रान्तशयनासन । ३०७ (= यस्तीसे दूर कुटी-
 वाले) ।
 प्रामोद्य । २५ (= प्रमोद), ६३ (= सुखी) ।
 प्रासादिक ५५३ (= सुन्दर) ।
 प्राशु-विहार । ८०, ३७७ (= सुखपूर्वक
 विहरना) ।
 प्रियजातिक । ३५८ (= प्रिय-उत्पन्न) ।
 प्रीति । २५ (= संतोष), २४६ (= प्रमोद),
 ४१८ (= ध्यानन्द), ४६६ (= हर्षका
 सारे शरीर और चित्त पर प्रभाव) ।
 प्रीति-संबोध्यंग । ५९३ ।
 प्रीतिसुख । ३२८ (= प्रसन्नताका सुख) ।
 प्रेत्य-विषय । ४७ (= प्रेत) ।
 प्रेमणीय । ५१७ (= हृदयंगम) ।
 प्रदक्षिण-ग्राही । ६१ (= उत्साही) ।
 प्रदाश (= पलास) । १२, २४ (= निष्पूरता) ।

प्रदाशी । ६२ (= निष्ठुर) ।
 प्रधान । ६५ (= दृढ़ उद्योग), १४६ (= साधन),
 २७८ (= समाधि), ३४६, ३५१ (=
 निर्वाण साधन), ३९८ (= प्रयत्न),
 ४२२ (= ध्यान तत्परता), ४२८ ।
 प्रधानात्म । २७८ (= समाहित-चित्त) ।
 प्रपात । १९५ (= खण्ड) ।
 प्रव्रजित । ३४२ (= संन्यासी) ।
 प्रव्रज्या । २३३ (= संन्यास) ।
 प्रभव । ४३ (= उत्पत्ति) ।
 प्रभूत-जिह्व । ३७५ (= लम्बी जीभवाले) ।
 प्रमाण । अ—१७८ ।
 प्रमाद । २७७ (= आलस्य, भूल), ४५१ (=
 गुफ्रलत) ।
 प्रमादस्थान । ३२७ (= नशीली चीज़) ।
 प्रमोद । १३४ (= खुशी) ।
 प्रलाप । ४९० (= शौर-गुल) ।
 प्रलोक । २५५ (= नाशमान) ।
 प्रवण । १८१ (= झुका) ।
 प्रवाद । १८८ (= मत) ।
 प्रविचयन । ४९२ (= मीमांसन) ।
 प्रवेदित । ४४१ (= जाना गया) ।
 प्रवक्ता । ४१५ (= अध्यापक) ।
 प्रवचन । २८३ (= उपदेश) ।
 प्रवण । ५०५ (= विवेक) ।
 प्रवाद । ४१ (= मत) ।
 प्रवारित । ५९१ (= तुष्ट) ।
 प्रविविक्त । ९४ (= एकान्त-चिन्तन-शील) ।
 प्रविवेक । ४९ (= एकांतसेवन, ब्रह्मचर्यका
 अंग); (देखो विवेक भी) ।
 प्रवेदित । ४६६ (= अनुभव गम्य), ४२
 (= जाना गया) ।
 फरति । ४३६ (= पकड़ती है, पंजाबी फटना) ।
 फलंग । ८० (= सघनता) ।
 फल्गु । १२१ (= हीर और छिलकेके बीचका
 काष्ठ, गुहा) ।
 फाणित । १८८ (= खाँड) ।
 फेगु । २५५ (= गुहा) ।

वडिसमंसिका । ५५, ५९ (= दंड) ।
 वध्य । अ—३०१ (= कृतस्य) ।
 वन्धनागार । १६३ ।
 वन्धनागारिक । २०७ (= जेलर) ।
 वंधुजीवक । ३१० (= अँडहुलका फूल) ।
 वन्धुक-रोग । ३६५, (= कुल-रोग) ।
 वम्भन । २४० (= निन्दा) ।
 वल । ३०९ (पाँच), ४११, ४४२, ४९१ ।
 वलता । १९३ (= सामर्थ्य) ।
 वलाहक । ५३६ ।
 वलि । ५०१ (= शिकन) ।
 वलि-त्वकृता । ३२ (= झुरी पडना) ।
 बहुकरणीय । ३५५ (= बहुत कामवाला) ।
 बहुकार । ३९८ (= उपकारी) ।
 बहुधातुक । ४८२ ।
 बहुलीकरण । ४९१ (= भावना), ५९३
 (= अभ्यास) ।
 बहुश्रुत । २६०, ४७२ ।
 वाल । ३३७ (= मूर्ख), ५२७ (= अज्ञ) ।
 वालधर्म । ८९ (= घन्चोकी सी घात) ।
 वालभूमि । ५३५ ।
 वाहुलिक । १०८ (बहुत जमा करनेवाले) ।
 विनयधर । ४७२ (= मिश्रभोंके नियमोंका
 जानकार) ।
 विव । ३३३ (= आकार) ।
 विलंग-यालिक । (राजदंड) ५४, ५९ ।
 वीज । २६८ ।
 बुद्ध । २४ (= ज्ञानी), ३७८ (= सारे धर्मोंका
 पारंगत) ।
 बुद्धका अनुस्मरण । २४ ।
 वृजमूल । ६०९ (= वृक्षके नीचेसी भूमि) ।
 वृहत्फल । १७०, ४९९ ।
 बोधि । २११, २५१ (= परम ज्ञान), ३६९
 (= बुद्धज्ञान) ।
 बोधि । सं—२३ (= परमज्ञान) ।
 बोधि पाथिक । ४३८ ।
 बोधिसत्त्व । १३ टि०, (= जागे चक्कर घुट
 होनेवाला) ।

योध्यंग । (देवो सन्प्रोध्यंग भी), ३९ टि०,
 (ग्रात), ३०९, ४३८, ४४२, ४९१, ४९२ ।
 ब्रह्मकायिक देवता । ११९, १७० ।
 ब्रह्मचक्र । ४५ (= धर्मचक्र) ।
 ब्रह्मचर्य । ४८ (के चतुरंग), ३०० (= साधु-
 पन) ।
 ब्रह्मचर्य-वास । ३०० (= संन्यास), ३०२
 (= पंथ), ४१५ ।
 ब्रह्मचर्यका अन्त । २६ (= निर्वाण) ।
 ब्रह्मचर्य-वास । २५१ (= शिष्यता) ।
 ब्रह्मभूत । ७१, २०६ (= विशुद्ध), ३८४ ।
 ब्रह्मा । १९४ (= ईश्वर, अभिभू = विजेता,
 कर्ता, निर्माता, भूत-मव्य प्राणियोंके पिता),
 ४९९ ।
 ब्राह्म-ऋजु-भात्र । ३७५ (= लम्बे अकुटिल
 शरीरवाले) ।
 ब्राह्मण । २४७ (= सन्त), १६४, ३२३,
 ३७८ ।
 ब्रीहि । ३६ (= धान) ।
 भद्देकरत्त । ५४३ (= अकेले अच्छेमें अनुरक्त) ।
 भद्र । ३६४, (= सुन्दर) ।
 भद्रक । ५३६ (= बढ़िया) ।
 भद्रमुख । ४२१ ।
 भद्रैक-रक्त । ५४३ ।
 भञ्ज । ४८९ (= भण्य) ।
 भंडन । ४४१ (= कलह) ।
 भन्ते । ३२९ (= स्वामी), ४०६ ।
 भय । २६८ (= खतरा) ।
 भय-भेरव । १३ (= भय और भीषणता, भूत-
 प्रेत) ।
 भय-भोग । ६८ (= मयपूर्ण भोग) ।
 भव । ३१ (= जन्म), ४२ (= संसार), १७५
 (= लोक), १७९ (= जन्म-तृष्णा),
 २४३ (= जन्मघरण), ५७५ (=
 उत्पत्ति) ।
 भव-श्रावण । ७ (= जन्मनेकी इच्छारूपी
 मल), १६, ५०२ ।
 भवनिरोध । २४३ (= जन्म मरणका अन्त) ।

भव-राग । ३८ (= आवागमन-प्रेम) ।
 भव-समुदित । १९६ (= भवसे उत्पन्न) ।
 भव-संयोजन । २७७, ५६९ (= भवबन्धन) ।
 भवती । २२९ (= आप) ।
 भव्य-चित्त । ३७९ (= मृदु-चित्त) ।
 भव्वा । ८३ (= खाल) ।
 भावना । ९ (= चिन्तन, ध्यान), २४८
 (= ध्यान), २८६ (= सेवन), ४८६,
 (= अभ्यास), ३१६, ४८६ ।
 भावित-काय । १४५ (= शरीरकी साधना
 जिसने की है) ।
 भावित-चित्त । १४५ (= चित्तकी साधना
 जिसने की है) ।
 भिन्न । ११३ (= फूटे) ।
 भुन-भू । २९२ ।
 भूत । २३२-३ (= भूत-प्रेत), ३१ (= प्राणी),
 ११३ (= यथार्थ), २३५ (= सच =
 तथ्य) ।
 भूत । अ—२७९ (= असत्य) ।
 भूत । अ—(= असत्य) २३५, २७९ ।
 भूत । महा—१३३ (= पृथ्वी, वायु, जल, तेज) ।
 भूत-ग्राम । १३९ (= प्राणि-समुदाय) ।
 भूमि वासी देवता । १२९ ।
 भूरि । २३० (= बहुत) ।
 भृङ्गार । ५३५ (= क्षारी) ।
 भेद । ३२ (= वियोग) ।
 भेरी । ५१८ ।
 भैषज्य । २९४ (= चिकित्सा), ३४२ (=
 दवा) ।
 भो । ३५३ (= जी) ।
 भोग । ८६ (= देह), ४७१ ।
 भोगवान् । १६३ ।
 भोज राजा । ३८३ (= सांडलिक राजा) ।
 भ्रमकार । ३५ (= खरादकार) ।
 सर्जिक्त्मा पटिपदा ५७० (= मध्यम मार्ग) ।
 मणिका । ४९६ (= मटका) ।
 मत्सरी । ४४२ ।
 मत्स्य-घातक । २०७ ।

मधु-पिंड । ७३ (= लड्डू) ।
 मध्यमा प्रतिपद् । १२ (= बीचका मार्ग,
 विस्तार पूर्वक) ।
 मन दण्ड । २२२ ।
 मनस्कार । १७५ (= मूलपर विचार करना) ।
 मनः-संचेतना । १५४ (= मनसे विषयका ब्याल
 करके वृत्ति लाम करना) ।
 मनसिकार । ३३ (= मनपर संस्कार) ।
 मनसिकार । प्रतिकूल—३६ टि० ।
 मनसिकार धातु । ३६ टि० ।
 मनसिकरणीय । ६ (= मनमें धारण करने
 योग्य) ।
 मनाप । ३३१ (= प्रिय) ।
 मनापचारी । ३४० (= मनके अनुकूल करने
 वाला) ।
 मनोपविचार । ५६० (= मन-उपविचार),
 ५७३ ।
 मनोपदोष । ३८१ (= मानसिक दुर्भाव) ।
 मनोभावनीय । ५८३ (= भावनामें तत्पर) ।
 मन्द-दृष्टि । ४३९ (= मन्दबुद्धि) ।
 मंत्र । (= वेद) ३२२, ४२५ ।
 मंत्र-अध्यायक । १६६ (= वेद-पाठी) ।
 मंत्रणा । २२६ (= वाद) ।
 मंत्र-पद् । ३९६ (= वेद), ४१५ (= वेद-
 वचन) ।
 मरनेके वादकी कल्पना करनेवाला । ४३५ ।
 मर्षा । १६५ (= आनर्प = अमरख), ४४२ ।
 मलिनधर्म । १८९ (= पाप) ।
 महद्गत । २३ (= विशाल), ३७ (= महा
 परिमाण) ।
 महद् गता चेतोविमुक्ति । ५२४ ।
 महर्द्धिक । ३११ (= तेजस्वी), २८८ (= महा-
 बुभाव), २८८ (= ऋद्धि-प्राप्त) ।
 महर्द्धिकता । ३७९ (= दिव्य शक्ति) ।
 महल्लक । ३७७ (= वृद्ध) ।
 महा-श्लोघ । ३५६ (= यडी याद) ।
 महानिरय । ५३४ (= महानरक), ५४० ।
 महापुरुष । ३७८ ।

महापुरुष-लक्षण । ३२३, ३७३ (= सामुद्रिक
 शास्त्र) । ३७४, ३८२ (= सामुद्रिक
 शास्त्र), ३८६, ४२१ ।
 महाभूत । ४६१ (पृथ्वी+जल+तेज+वायु) ।
 महामात्य । ४५८ (= महामंत्री) ।
 महानृशंस । २२ (= महाफल) ।
 महाशब्द । ३२१, ३५४ (= कोलाहल) ।
 महाशाल । ४९८ (= महाधनी) ।
 महिषी । २०७ (= पटरानी) ।
 महेशास्त्र्य । ५५३ ।
 महेशक्त्व । ५१० (= महाप्रतापी) ।
 माणव । ४२१ (= तरुण ब्राह्मण पंडित) ।
 माणविका । २२९ (= तरुण ब्राह्मणी) ।
 मातंग । ५२८ (= नाग) ।
 मानृ-ग्राम । ५१३ (= स्त्रियाँ) ।
 मात्रशः । २७८ (= कुछ मात्रामें) ।
 मात्रा । २७३ (= परिमाण), ४५३ (परि-
 माण) ।
 मात्रिका । ४३९ ।
 मात्रिका-धर । १३४ ।
 मात्सर्य । (= कंजूसी) १२, २४ ।
 मान । ३९ टि० (= अभिमान), ५७६
 (मन्यता), १५९ (= मन, सेर जादि
 तौला) ।
 मानसिक । ४६९ (= मनमें करना) ।
 मानाऽभिसमय । ९ (= अभिमानका दर्शन) ।
 माया । १२ (= घोखा देना), २४ (= चंचला) ।
 मार । ५३ (= प्रजापति देवता), १३६, १३७,
 १९० (= पापी), ३८४ (= रागादि
 शत्रु), ४७८ (= प्रजापति), ५३, १९०,
 ४८१ ।
 मारुव । २५२ (= सरुवा) ।
 मार्ग । ३७९ ।
 मार्ग-अमार्ग-ज्ञानका दर्शन । ९५ (= समस्त,
 साक्षात्कार) ।
 मार्गविक । २०७ (नृग मारनेवाला) ।
 मार्गाख्यायी । ४५४ (= मार्ग पतलानेवाला) ।
 मार्ष । १९४ ।

मालुव । १८४ (= लता) ।
 मांसपेशी । ८४, ९२ (= मांसका टुकड़ा) ।
 मित्र । ३३१ (= सहायक) ।
 मित्र-श्रामात्य । ४०५ (= यार दोस्त) ।
 मिथ्या । २८४ (= झूठी धारणा) ।
 मिथ्या-आजीव । २८ (= अनुचित रीतिसे
 रोजी कमानेवाला) ।
 मिथ्याकर्मान्त । ४८७ (= अनुचित कर्म) ।
 मिथ्याचार । ३४१ (= दुराचार) ।
 मिथ्या-दृष्टि । १५ (= मिथ्या मत रखने-
 वाले) । १६९, १८७ (= झूठी धारणा-
 वाला), २३१, ४०१ ।
 मिथ्या-प्रतिपदा । ५६८ (= झूठा मार्ग) ।
 मिथ्या प्रतिपन्न । ५६८ (= मिथ्या मार्गपर
 आरुढ़) ।
 मिथ्या-मार्ग । ७६ ।
 मिथ्यावादी । १६९ ।
 मीढ-सुख । २६५ (= काम-सुख), २६५ (=
 विषय सुख) ।
 मीमांसक । ३०२ (= तार्किक) ।
 मुक्ताचार । ४८ (= सरसंग) ।
 मुख । ३८४ (= मुख्य) ।
 मुखाधान । २६१ (= लगाम लगाना आदि) ।
 मुढोली । ३६ (= डेहरी) ।
 मुदिता । १६६, १७७, २२१, २४९ (= सुखी
 देख प्रसन्न होना), ५२४ ।
 मुदिता-भावना । २५, ४९१ ।
 मुद्रा । ५४ ।
 मुनि । ३७८, (= जो पूर्व जन्मको जानता है,
 स्वर्ग-नरकको जानता है, और जो जन्मके
 क्षयको प्राप्त है) ।
 मुपित-स्मृति । ४६३ (= वेहोश) ।
 मुहूर्त । ३६१ (= मिनट) ।
 मूढ़ । ४४३ (= वेहोश) ।
 मूत्रकरीप । ५० (= मूल) ।
 मूर्च्छित । १०० (= बेसुध), १०९ (गर्क),
 ४३० (= हया), ४१७ (= वेहोश) ।
 मूर्धा । ३४८ (= शिर) ।

मूर्धाभिषिक्त । ५१ ।
 मूलगंध । ४५४ (= जड़ोंमें होनेवाले सुगन्धित
 द्रव्य) ।
 मृग-दाव । १०७ ।
 मृद्ध । १४ (= मानसिक आलस्य) ६६ ।
 मेरय । ४९ (= कच्ची शराब) ।
 मैत्री । १६६, १७७, २४९ (= सधको मित्र
 समझना) ५२४ ।
 मैत्रीभावना । २५, ४९१ ।
 मैत्रीविहारी । २२० (सदा सत्रको मित्र भावसे
 देखनेवाला) ।
 मोक्खचिक । १५७ (= सुँहका लड्डू) ।
 मोघ । ५५५ (= निष्फल) ।
 मोघपुरुष । ४४ (= फजूलका आदमी) ४४,
 २५२, ४६२, ८५ (= मोघिया), २७८
 (= नालायक) ।
 मोमुह । ३०२ (= अतिमूढ़) ।
 मोपधर्मा । ५७५ (= नाशमान) ।
 मोह । ४७१ ।
 मौलि । १८४ (जूड़ा) ।
 म्रत् । (= अमरत्व) । १२, २४ ।
 यत् । १२९ (देवता), २३० (= पूजनीय) ।
 यजन । ३८४ (= पूजा) ।
 यज्ञ । १४८ (= देव) ।
 यज्ञसे शुद्धि । ५१ ।
 यथाकाम । १२७ (= मांजसे), ५२८ ।
 यथाभूत । ३१ (= जैसा है वैसा), ५५
 (= उसके स्वरूपको यथार्थसे), १९२
 (= यथार्थ) ।
 यद्भूयसिक । ४४३ ।
 याचितक्रोपम । ८४ (= मंगनीके आभूषणके
 समान) ।
 यातना । ५४१ (= कर्म-कारणा) ।
 यान । ५३६ (= सवारी) ।
 यापनीय । ५२८ (= अच्छी गुजरती) ।
 याम देवता । १२९, ४९८ ।
 युगमात्र । ३७५ (= चार हाथ) ।
 युगाधान । २६१ (= शुभा खींचना) ।

युग्याचार्य । ४९७ (= रथवान)
 योग । २८२ (संबंध) ।
 योग-क्षेम । ४ (= कल्याणकारी पद), ६२
 (= निर्वाण), १०३ २०८, २१२, २७७,
 ४५३, (= मंगलमय), १४८ (= कल्याण),
 ४५३ (= चित्त-मल-विमुक्त) ।
 योनि । ४६ (= चार), ३०१ ।
 योनिशः । ५२१ (= कार्य-कारणका प्याल
 करके) ।
 योनिशः मनसिकार । ६ (= ठीकसे मनमें
 धारण करना) ।
 रक्तज्ञ । १३३ (= अनुरक्त) ।
 रज । ६४ (= मैल) ।
 रजक-पुत्र । २२९ (= रंगरेजका पुत्र) ।
 रजत । २१५ (= चाँदी) ।
 रजोजल्लिक । १६५ (= कीचडवासी साधु) ।
 रति । अ-२२ (= उचाट) ।
 रत्न । ५३५ ।
 रथक । १२८ (= खिलौनेकी गाडी) ।
 रथकार । ५३५, ३२८ ।
 रथ-विनीत । ९७ (= डाक), (= रथकी
 डाक) ।
 रथ्या । ५३२ (= सड़क) ।
 रम्यक । १०२ (= रम्यक) ।
 रम्मक ब्राह्मण । १०२ ।
 रव । ४४४ (= प्रमाद) ।
 रवार्थ । २६१ (= हिनहिनानेकी शिक्षा) ।
 रस । ४१६ ।
 रसग-सगगी । ३७५ (= सुन्दर शिराओं
 वाले) ।
 राजगुण । २६१ (= एकांगिता) ।
 राजन्य । ३८८ (= राजसंतान) ।
 राज-पोरिस । ५४ (= राजाकी नौकरी), ५८
 (= नौकरी) ।
 राजवंश वशिष्ठ्य । २६१ (= एक गीत) ।
 रात्रिभाव । २६० (= चिरकालसे अवस्थिति) ।
 राहुमुख । ५५ (दंड), ५९१ ।
 राष्ट्रपण्ड । ५१३ ।

रिक्त । १९६ (= खाली, निरर्थक), २५८
 (= तुच्छ), ३२४ ।
 रुचाचार । ४९ (ब्रह्मचर्यका ङग) ।
 रुचाचारी । ४८, ४९ (ब्रह्मचर्यका ङग) ।
 रुचि । ३८३ (= कान्ति), ४२८ ।
 रुद्र । ६० (= भयंकर) ।
 रूप । (= Matter) ३३, ८७, ४६७, ५४४,
 ८२ (= चित्र), ११९ (= मूर्ति = नारी),
 २९७, ४६०, ४६१ (= पृथिवी + जल +
 तेज + वायु), ५०४ (= पदार्थ) ।
 रूपवान् । ५४४ (= Material) ।
 रूपसंज्ञा । २८३ (= रूपके नामसे) ।
 रूपसंज्ञी । ३०९ (= रूपके प्यालवाला) ।
 रूपी । ४३३ ।
 लक्षण । १३३ (= चिह्न), १३३ (= कारण) ।
 लघु-उत्थान । ३४४ (= शरीरकी कार्यक्षमता),
 ३६८ (= कुर्ती) ।
 लडुकिा । २६३ (= गौरव्या) ।
 लपना । ४८८ (= घात बनाना) ।
 लय । (= निरुद्ध) ।
 लयन । १४० (= आध्रय-ग्रहण) ।
 लसिका । ११८ (= कर्ण-मल) ।
 लाभो । २२०, २२१ (= पानेवाला) ।
 लोक । ३३५ (= संपार) ।
 लोक-धातु ४८१ (= लोक) ५११ ।
 लोकामिप । ५६१ (लौकिक भोग) ।
 लोकायत । ३८६ ।
 लोकायत-शास्त्र । ४२१, ३७३ (= सामुद्रिक
 शास्त्र), ४२१ ।
 लोमहर्षण-पर्याय । ५२ ।
 लोह । ५३४ (= अयः) ।
 लोह-कुम्भी । ५३४ ।
 लोहित । २४, ३१० (= लाल), १५७ (= रक्त) ।
 लोहित-पाणि । १६८, ३५७, ४७५, ५५२ (=
 खून रंगे हाथोवाला) ।
 वचन-दण्ड । २२२ ।
 वचन-पथ । ८२ (= वचन कहनेके मार्ग) ।
 वचन-संस्कार । १८३ ।

वदनावली । ५० (= रस्सीकी छँठन), ३४८
(= पॉती) ।

वत्स-दन्त । २५२ (= घड़ड़ेके दाँतकी तरह) ।

वद्य । ४५२ (= दोष) ।

वन-कर्मिक । ४९ (= वनमें काम करनेवाला) ।

वनपत्थ-परियाय । ६८ (= नामक उपदेश) ।

वनप्रस्थ । ६८ (= जंगल) ।

वपित । ३८६ (= मुण्डित) ।

वयः प्राप्त । ५१ (= वृद्ध) ।

वर्ण । २३० (= गुण), १३३ (= रूप),
३१९ (= रङ्ग), ३२० (= तारीफ),
३६२ (प्रशंसा) ।

वर्णवान् । ४४८ (सुन्दरवर्ण), ९८ (= सुन्दर) ।

वर्णित । ४५८ (प्रशंसित) ।

वर्त्म । ३३८ (= मार्ग) ।

वर्षाकालिक । २९३ ।

वर्षिका । ४५४ (= जूही) ।

वशवर्ती । १७० ।

वशित्व-प्राप्त । ४६७ (= अधिकार प्राप्त) ।

वसा । ३६, ११८ (= चर्षी) ।

वस्तिगुहा । ३७८ ।

वस्त्रा । ४११ (= वृष्णा रूपी रस्सी) ।

वस्स । ४८९ (= चर्ष) ।

वाचिक अथर्माचरण । १६९ ।

वाण-अस्त्र । ५४ ।

वाणिज्य । ५४, ४१५ ।

वाद । ५० (= मत), १११ (= शास्त्रार्थ),
१९० (= सिद्धान्त), ३०० (= दृष्टि),
३००, ४२९, ४५४ (= मत) ।

वाद-प्रतिहार । ४२८ (= उत्तर) ।

वादानुवाद । ३६९ (= कथन) ।

वामको । ११२ (= बँवनी) ।

वायु-धातु । ५७४ ।

वायणसी । १०७ ।

वाहूलिक । ४५४ (= घटोरू) ।

विकाल । ११३, १५९ (= रातको उपरत
= विकाल = मध्याह्नोत्तर), २६२
(= अपराह्न) ।

विज्ञेयिकवाद । ४३५ ।

विघात । ५३ (= रोष), २१६, २८१ (= पीडा),
५६६ (= प्रतिहिंसा) ।

विघातगर्भा । ३५५ (= मरे गर्भवती) ।

विघातपक्षिक । ७४ (= हानिके पक्षका) ।

विचार । १७५, ४६६ (= सूक्ष्मावस्था) ।

विचिकित्स । ४५४ (= संशयात्मा) ।

विचिकित्सा । (= शंसय, सन्देह), ८, ३८,
९३, ११४, १६०, १७५, १९२, २५४, २७१,
४१७, ४५८, ५३०, ६६ (= ८ काक्षा) ।

विचिकित्सी । १४ (= संशयालु) ।

विचीर्ण । अ— ३०६ (= न किया) ।

विजनघात । ४५८ (= आदिभियोंकी) ।

विजित । ४२० (= राज्य) ।

विज्ञ । ३४५ (= जानकार) ।

विज्ञात । ३, ४ (= जाना गया) ।

विज्ञातव्य । ५८६ (= जानने योग्य) ।

विज्ञान । ४३, १५५, १७३, १७४, २९७, ४६० (=
चेतना), १५१, १५४, ३०९, ३११, ४५०
(= जीवन), ४५१ (= चित्त-प्रवाह),
५४७, ५४८, ५६४, ५८३ (= चित्त) ।

विज्ञान-आनन्त्य-आयतन । ४६७, ४७३ ।

विज्ञान-काय । ३३ (छः), ५९७ ।

विज्ञान-कृत्स्न । ३१० (= चेतनामय) ।

विज्ञान-धातु । ५७४ ।

विज्ञान-संस्करण । १५१ (= जन्म-मरणमें
जाना) ।

विज्ञानस्कन्ध । ४६१ ।

विज्ञानानन्त्यायतन । ३ (= अनन्त विज्ञान-
वाला स्थान), २८ (शान्तविहार), १७०,
४९९, ५०२ (= अन्त-रहित-विज्ञानके आय
तन), ५६२, ५७५ ।

विज्ञापन । ७६ (समझाना) ।

विज्ञेय । ५८ (= जानने योग्य) ।

वितर्क । ९, ७७-७९ (= ख्याल), १७५, ४६६
(= चित्तकी स्थूलावस्था) ।

वित्त । ५७० ।

वित्त-उपकरण । १६९ (= धन सामान) ।

- विद्या । १५, १६, ११५, २१२, ३५० (तीन),
४१३ ।
- विद्सु । ४२ (= ज्ञानी) ।
- विद्सु । अ-४२ (= अ-ज्ञानी) ।
- विधुर । १९८ (= अ-समान) ।
- विनय । ४३९ ।
- विनय । अ-(= अनीति) ।
- विनय । घर-१३४ ।
- विनयन । ५१८ (= शिक्षण) ।
- विनामन । ३७५ (= हिलाना) ।
- विनायक । ३५१ (= नेता) ।
- विनाश । ११३ (= समारम्भ) ।
- विनिपात । ४७ (= दुर्गति), ५९, १८४, ४८१
(= निरय = नर्क), २४० (= पत्तन),
४६ (= नीचे गिरनेवाले) ।
- विनिपातिक । २३३ (= नीचे योनिके प्राणी) ।
- विनीत । अ-३, १८० (= न पहुँचे), ३३६,
(= विनय-युक्त) ।
- विनोदन । ६, ९ (= हटाना) ।
- विन्दु । ३७६ (= सारयुक्त) ।
- विपरिणत । ५६१ (= विकार-प्राप्त), ५६६
(= विकृत) ।
- विपरिणाम । ५६, ५६६ (= विकार) ।
- विपरिणामधर्मा । ७, ८९, ४६२ (= परिवर्तन-
शील) ।
- विपरिणामधर्मा । अ-८७ (= निर्विकार) ।
- विपश्यना २२ (= प्रज्ञा), १३१ (= साक्षात्-
कार करना), १७५ (= अन्तर-ज्ञान),
२८६ (= ज्ञान), २८६-६०६ (= प्रज्ञा),
६०२ ।
- विपाक । २२५ (फल), २३२ (= बुरे परि-
णाम), ३४६ (= भोग) ।
- विप्रतिपन्न । २७८ (= अमार्गारूढ़) ।
- विप्रतिसार । २५७ (= उदासी) ।
- विभज्यवादो । ४१४ (= विभज्यवाद) ।
- विभव । ३१ (= घन), ४२ (= अ-संसार),
५७५ (= विनाश) ।
- विभाजन । ५७८ (= विवरण) ।
- विभंग । ५४३ (= विभाग) ।
- विमति । ५९३, ५९० (= अम) ।
- विमर्ष । ४४ (= चिंतन) ।
- विमर्शक । ३०२ (= तार्किक), ४७९ (=
पण्डित), ४७९ (= मीमांसक), ४२२
(= तार्किक) ।
- विमल । ५९२ ।
- विमुक्ति । २३, ९०, १००, १४२, १५८, २०८ (=
मुक्ति), २८० (= जदी), ३१६ (=
चेतो), (= प्रज्ञा), ४५७ (= मुक्ति),
(देखो मुक्ति) ।
- विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-सम्पन्न । ९४ (= मुक्तिके
ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर लिया) ।
- विमोच । २२ (= मुक्ति), ४५, ३०९ (आठ),
२०१ (= ध्यान), ४३७ (= मोक्ष, मुक्ति)
५६२ ।
- विरक्त । १९५ (व्यक्त) ।
- विरज । ५९६ (= निर्मल धर्म-चक्षु), ५९६,
(= निर्मल) ।
- विराग । ४६९ (रागके अयोग्य) ।
- विरूढ़ि । ४३४ (= वृद्धि) ।
- विलिप्त । ५९२ ।
- विलेपन । ३६० (= उचटन) ।
- विवर । ३०१ (= खाली जगह) ।
- विवरण । १६३ (= प्रकट करना, उत्तानीकरण
करता है) ।
- विवर्त । ११५ (= सृष्टी) ।
- विवर्त-कल्प । १५, ३१२ (सृष्टि-कल्प) ।
- विवाद-अधिकरण । ४४२ ।
- विवृत । १३४ (= खोला) ।
- विवेक । ११-१६३ (= एकान्त-चिन्तन),
५०५ (एकाम्रता) ।
- विवेक । प्र-१३ (= एकान्त-रमण) ।
- विवेकज । ३४९ (= एकान्तसे उत्पन्न) ।
- विशाल । ८२ (= अप्रमाण) ।
- विशुद्धि । ९७ ।
- विशेष । ५३ (= भेद), ३५१ (= निर्वाणपर) ।

विषयना ४६६ (= दिल्ली आँखसे देखना) ।
 विषम । ४७ (= प्रतिकूल) ।
 विसक्तिक । (= धनासक्त) ।
 विसारि । अ-३७६ (= अ-कटु) ।
 विसृष्ट (= विक्षिप्त) ।
 वि-संयुक्त । ९० (= राग आदिसे वियुक्त),
 ५७५ (= वियुक्त) ।
 विहार । ११ (= कुटी), ७१ (= कोठरी),
 १३९ (= ध्यान प्रकार), १९८ (=
 कोठरी), २०९ (= रहनेकी कोठरियाँ),
 २३१ (= निवास), ३५१ (= कोठरी),
 ३९३ (= निवास-स्थान) ।
 विहिंसा । ७४ (= हिंसा), २४९ (= पर-
 पीडा-करण-दृच्छा) ।
 विहिंसा-वितर्क । ९ (= हिंसाका ख्याल) ।
 वीथी । १३३ (= ढगर) ।
 वीर । १०४ (= उद्योग) ।
 वीर्य । (= उद्योग) ९, १५, ११८, १४६, ३४८,
 ४६६, ३७० ।
 वीर्यारम्भ । १७, ३१६ (= उद्योग) ।
 वृक्ष फल समान । ८४ ।
 वृक्षमूल । ५२५ (= वृक्ष छाया) ।
 वृक्षमूलिक । १६५, ३०७, ४७२ (= सदा वृक्ष
 के नीचे रहनेवाले) ।
 वृषभ । १३३, १३६ (= साँड़) ।
 वृषल । ३८९ (= शूद्र) ।
 वृहत्फल । १९५ ।
 वेत्तणस । ३२३ (= वैखानस) ।
 वेणु । ३८८ (= बसोर) ।
 वेणुकार । ५३५ ।
 वेदगू । १६४, ३७८ ।
 वेदन । ७२, १७४, ५५५ (= अनुभव) ।
 वेदन-काय । ५९७ ।
 वेदना । ८ (= पीडा), ३२ (= अनुभव,
 महसूस करना, एहसास), ३३ (= इन्द्रिय
 और विषयके संयोगसे उत्पन्न मनपर
 प्रथम प्रभाव) । ३५ टि० (तीन), ४७
 (= यातना), १५४, १६२ (= भोग),

१७४, १८१, १८२, २११, २३७, २९०
 (= अनुभव), ३७६ (= भोग), २९७,
 ४६०, ४६६ (= स्पर्शके बाद विषयके
 संबन्धका जो सुख, दुख आदि रूपसे
 अनुभव), ५०६, ५११ (= अनुभव),
 ५७४, ५८३ (= इन्द्रिय और विषयके
 संलपश होनेपर जो मनकी दुःखमय,
 सुखमय या अदुःख-असुखमय अवस्था होती
 है, कहते हैं) ५९२ ।

वेदना-काय । ५९७ ।

वेदानुपश्यना । ३७ टि० ।

वेदनीय । १७६ (= अनुभवका विषय), ४२९
 (= भोगा जानेवाला), ४२९ (= भोगाने
 वाला) ।

वेदानुपश्यी । ४९२ ।

वेदित-निरोध । १७६ ।

वेदी । २०७ । (= वर्हिष) ।

वेस्स । २५२ (= वैश्य) ।

वैदल्य । ८६ (बुद्धोपदेश) ।

वैदूर्यमणि । ३११, ४९९, ५१० (= हीरा) ।

वैनयिक । ९० (= बिना या 'नहीं' के बाद
 को माननेवाला) ।

वैपुल्य । ४३४ ।

वैमत्य । ४६० (= वैमत्तता) ।

वैयाकरण । ३८६, ४२१ ।

वैशारद्य । ४५, ४६ (= विशारदपना,
 चार) ।

वैशारद्य-प्राप्त । २९१ (= मर्मज्ञ), ३७९
 (= निपुण) ।

वैश्य । ३२३ ।

वंकक । १५७ (= वंका) ।

वंचक । १६५ (= मायावी) ।

व्रण । १३३, ४२८ (= घाव) ।

व्रण-मुख । ४४७ (= घाव) ।

व्रत । ५४, ५५ ।

व्रतोंके भेद । १९ ।

व्यक्त । ३४०, ५३७ (= पंडित) ।

व्यक्त । अ—३६२ (= मूर्ख) ।
 व्यक्तता । ४२० (= प्रज्ञा) ।
 व्यंजन । ३२७, ३९५ (= तियन) ।
 ३०७ (= तरकारी), ४५७ ।
 व्यतिक्रम । ४५६ (= क्रम) ५२६ ।
 व्यय । ३६, ३८ (= खर्च, विनाश) ।
 व्यर्पणा । ४८७ (= तन्मयता) ।
 व्यवकीर्ण । ३२१ (= मिश्रित) ।
 व्यवदान । ४५ (= निर्मल करना) ।
 व्यवदानपत्र । २४० (= शुद्धता) ।
 व्यवसर्ग । ४९३ (= त्याग) ।
 व्यवहार । २१५ (= व्यापार, वाणिज्य) ।
 व्यवहार-उच्छेद । २१५ ।
 व्यसन । ४३४ (= क्षय) ।
 व्याकरण । ८६ (= बुद्धोपदेश), ५०६,
 ५९६, ६०० (= उपदेश) ।
 व्याकृत । २५३ (= कथित; कथनके विषय) ।
 व्याकृत । अ—२५१ (= अकथनीय), २५३
 (= वचनके अविषय) ।
 व्याख्यान । ५४७ (= विभाग) ।
 व्यापन्न । २८ (= हिंसक) ।
 व्यापन्न । अ—१७० ।
 व्यापन्नचित्त । १६५, १६९, १८७, ४७६
 (= द्वेषी) ।
 व्यापाद । ३०, १९९ (= प्रतिहिंसा), ३८,
 ११४, १६०, १६५, १७५, १९२, २४८
 (= द्रोह), ९३ (= पर पीड़ा करण),
 १३३, २३२ (= परपीडा), २४९, ३१६,
 ४०२, ४१६, ४३१, ४३७, ४४९, ४५८,
 ४७७, ५१२, ५५६ (= द्वेष), २५४
 (= उत्पीडनेच्छा), २८४ (= पीडा),
 ४७६ ।
 व्यापादवान् । २२१ (= द्वेषी, उत्पीडक) ।
 व्यापाद-वितर्क । ९ (द्रोहका ख्याल) ।
 व्यापादी । अ—८२ (= द्रोहरहित) ।
 व्यापाद्य । स—३६२ (= हिंसायुक्त) ।
 व्यावाधा । ५५ (= पीडा पहुँचाना) ।
 व्यायाम । २८, ४८७ (= प्रयत्न) ।

शकलिका । ४०२ (= चैली) ।
 शक्ति । २३८, ५१८, ५२७ (= हृदियार), ५३३
 (= क्रोडा) ।
 शक्तिशाली । १९५ (= महत्सक्त) ।
 शकुनि । ३११ (= पक्षी) ।
 शंकु । ५४१ (= शंकु) ।
 शंख । ५१८ ।
 शंखधमक । ३११ (शंख यजानेवाला) ।
 शंखमुंडिका । ५५, (= ढंड) ।
 शंखमूर्धिका । ५९ ।
 शंखलिखित । ३३० (= छिले शंखकी तरह
 निर्मल ज्वेत) ।
 शठ । ३२४, ३६९ (= मायावी) ।
 शवल । ४४४ (= कल्प) ।
 शब्द । ४१७ ।
 शमथ । १७५, २८६, ६०६ (= नमाधि), १९२
 (= शान्ति), ४४३ (= उपमान),
 ६०२ ।
 शमन । १६४ (= समन = श्रमण) ।
 शयनासन । ८ (= निवास गेह), १३
 (= कुटिया), १४, २२ (= वास्तुमान),
 २५९, ५०७ (= निवास) ।
 शरणा-नामन । १६ ।
 शरणागत । ३९३ ।
 शराव । ५७० ।
 शल्य । २५२, ४४७ (= वाणका फल), २९०,
 २९७ (= फर, काँटा) ।
 श्लोक । १२१ (= प्रशंसा) ।
 शस्यहार । ५८७ (आत्म-रक्षा) ।
 शस्त्रहारक । ५८५, ५८९ (आत्महत्या करने-
 वाला) ।
 शिक्षापद । ५१८ (= मिश्रु नियम) ।
 शाकुन्तिक । २०७ ।
 शाक्य । १२ (= दाठता) ।
 शान्त । २५९ (= तै), २७१ (सुप्त) ।
 शांतविहार । २७, २८ (अल्प-ध्यान) ।
 शान्ति । (= उपदेश) ।
 शाल । ८०, १८४, २८३, ३७० (= लाव) ।

शाली । ३२९ ।
 शाश्वत । २८१ (= नित्य) ४३५ (= अनादि) ।
 शाश्वत । अ— २८१ (= अनित्य) ।
 शाश्वतवाद । ४३५ ।
 शासन । ९७, ११८, २२४, ५६३ (= उपदेश),
 १४२, ३८४, (= धर्म), २७८ (= धन),
 २९१ (= बुद्धधर्म), ५०७ (= आदेश) ।
 शासनकर । ८३, १४२ (= उपदेशानुसार
 चलनेवाला), २८५ (= अववाद प्रतिकर),
 २८५ (= धर्मानुसार चलनेवाला) ।
 शास्ता । ५, १०, १९, २४, ९७, १५२, १५७, १९०,
 २१३, ३८४ (= उपदेष्टा, बुद्ध), ११, १०७,
 १५०, १९८, २२३, २७८, ४४२, ४५१, ५७२
 (= गुरु), ६५ (= आचार्य), ३००
 (गुरु, पंथ चलानेवाला) ।
 शास्ता-के-शासन । २५७ (बुद्ध धर्म) ।
 शिक्तमाणा । ५१३ ।
 शिक्ता । २५८, २६१ (= करण), ४४२,
 ४५४ (मिश्र-नियम) ।
 शिक्ता-पद । ४५२, २६० (= मिश्र-नियम),
 ४५६ (= नियम), १२२ (= आचार-
 नियम), २११ (= सदाचार-नियम),
 २६०, ५१७ ।
 शिरकटा ताड़ । २८३ ।
 शिल्प । ५४, ३५० (= कला) ।
 शिशुमार । ५३४ (मगर) ।
 शील । (= सदाचार) १२१, १७५, १९२, २११,
 २५४, ४०१, ४४४ (= आचार), ४६७ ।
 शीलवान् । (= सदाचारी) १२२, १९९, ३४२ ।
 शीलविशुद्धि । ९५ (= आचार-शुद्धि) ।
 शील-व्रत-परामर्श । (= शील और व्रतका
 स्थाल) ८, ३८, ३९, ३५४ ।
 शील-समय । ३१६ (शीलाभिमानि) ।
 शील-सम्पन्न । ४५, ९४ (= सदाचारी) ।
 शील-सूक्तम् । ३०७ (= आचार समुदाय),
 १५९ (= सदाचार-समूह) ।
 शुचि । २४९ (= पवित्र वस्तु) ।
 शुद्धावास । ५१ (देवता) ।

शुभ । ११७ ।
 शुभकीर्ण । १९५ ।
 शुभकृत्स्न । ४९९ (शुभकृत्स्न देवता), २३२ ।
 शुभनिमित्त । १८ (= वस्तुके एक तरफा सौंदर्य
 की ओर अधिक झुकाव) ।
 शुक्त । २३१ (= अच्छा) ।
 शूकरिक । २०७ ।
 शूद्र । ३९९ (= ब्रह्माके पैरसे उत्पन्न) ।
 शूद्री । ३२३ ।
 शृंगाटक । २३४ (बंसी) ।
 शौक्य । ४ टि०, ४ (= जिसको अभी सीखनेको
 बाकी है), २८६ (= अन् अर्हत्),
 (= किन्तु निर्वाण-मार्गपर दृढ़ आरुढ़) ।
 शौक्य । अ— ४९, ३१७ (= अर्हत्) ।
 शौण्डिका । १३९ (= मट्टी) ।
 शौण्डिका-किलंज । २२४ (= मट्टीके छन्ने) ।
 शौण्डिक-कर्मकर । २२४ (= शराय बनाने
 वाला) ।
 श्मशान । ३७ टि० ।
 श्मशानिक । ४७३ (= श्मशानमें रहनेवाला) ।
 श्यामाक । १०० (= सर्वा) ।
 श्रद्धानुसारी । २५८ ।
 श्रद्धावान् । २३२, ३८२ (= प्रसन्न) ।
 श्रद्धाविमुक्त । २५८ ।
 श्रमण । ४१, १५७, २३६ (= संन्यासी),
 महात्मा), ११२ (= प्रव्रजित), १६४,
 २४७ (= मिश्र), ४४६ ।
 श्रमण-प्रसाद । २१९ (= श्रमणोंके प्रति
 प्रसन्नता) ।
 श्रमण-भाव । २४५ (= साधुता), २६४
 (= संन्यास होना) ।
 श्रमण-सामीची प्रतिपदा । १६५ । (= श्रमण
 को सच करनेवाले मार्ग) ।
 श्रमणोद्देश । ५१५ (= समणुद्देश) ।
 श्रेय । ४०० (= हित), ४०५ (= अच्छा) ।
 श्रवण-समीची-प्रतिपद । १६६ ।
 श्रामण्य । २० (= संन्यासका आदर्श), १६५
 (= श्रमणता), १६५ (= साधुपन),

३००, ३०१ (= संन्यास), ३३७ (भिक्षु-
पन), ४५४ (= भिक्षुके कर्तव्य) ।
आत्मगेरी । ५१३ ।
आवक । १०, १९०, १९८, २२६, २७८, ३३६,
४४१ (= शिष्य) ।
आवक-युगल । १९८ (= शिष्योंकी जोड़ी) ।
आवक-संघ । २५ (= शिष्य-संघ) ।
आविका । २८५ (= शिष्या) ।
श्रुत । ३ (= सुना), १७५ (= धर्मोपदेश
श्रवण), ४०१ (= ज्ञान), ४९८ (= विद्या) ।
श्रुतधर । ४५७ (= ढबेको धारण करनेवाला) ।
श्रुतवान् । ८७ (= ज्ञानी), २९० (= बहुश्रुत) ।
श्रुतवान् । अ—३ (= अज्ञ) ।
श्रुतसंचयी । १३० (= सुनी शिक्षाओंका संचय
करनेवाला) ।
श्रोत्र-अवधान । ३९९ (= कान लगाना) ।
श्रोत्रिय । १६४, ३७८ ।
श्लेष्मा । ११८ (= कफ) ।
श्वभ्र । २९९ (= अगमकूप) ।
श्वस-रहित-ध्यान । १४६ ।
षड् आयतन । ३३ (= चक्षु, श्रोत्र, घ्राण,
जिह्वा, काय और मन—यह छः इन्द्रिय),
४३, ४८०, १५५ ।
सकणिकांग । ३१२ (= सदोप अंग) ।
सकृदागामी । २३ (तीन संयोजनोंके क्षयसे) ।
९१ (= सकृद् = एक बार), १३७, ४९१ ।
सकृद् एव । ३६९ (= एक बार) ।
सकट । ३६० (= विपरिणाम) ।
संकल्प । २६४, २४० (= कल्पना) ।
संकार । १५३ (= कूड़ा) ।
संकित्ती । ४९ (= चंदा लगाकर बनाई) ।
संकीर्ण-परिख । ९० (खार्ई पार) ।
संक्षिप्त । अ—१०४ (= निर्मल) ।
संक्षिप्तप्राम । ५२४ ।
संक्लेश । ४५ (= मल), १०३, ७५ (= मैल),
१०६, २४० (= पाप, मल), ३०१
(= चित्तमालिन्य) ।
संक्लेशिक । १४७, ५०७ (= मलिन करनेवाला) ।

संचिप्त । (= एकाग्र) २३, २८७ ।
संखति । २६३ (= सुन्दर पात्र) ।
संख्यान । ५४, ४५२ (= गणना) (Ac-
count) ।
संख्या-समुदाचरण-प्रवृत्ति । ७२ (= ज्ञानके
उपचारका जानना) ।
संगणिका । ५०४ (= जमात-बंदी) ।
संगति । ४२९ (= मात्री) ।
संग्रह । १९२ (= मेल) ।
संघ । २६४ ।
संघ-अनुस्मरण । २५ ।
संघ-भेद । ४८१ (= संघमें फूट) ।
संघाट । १२८ (= जाल) ।
संघाटी । १६५ (= मिथु-यन्त्र), २१०
(= भिक्षुकी ऊपरी दोहरी चदर), ३०७
(= भिक्षुका ऊपरका दोहरा यन्त्र) ।
संघातक । १९२ (= समूह प्रधान) ।
सच-वज्ज । ३०१ (= सच्चापन) ।
संजानन । १७४ (= पहिचान) ।
सजीवित । १९९ (= जीवित) ।
संज्ञा । ३ (= होश), २७ (= विचार), ३३
(= वेदनाके अनन्तर मनकी अवस्था), ७०
(= सोच) १७४, १८१; (= रयाल) २०९,
२१०, २९७, ३१६, ४३४, ४६७, ४५०,
(= होश), ४६० ४६६, (= संजानना,
समझना), ५०६, २९५ (धारणा) ।
संज्ञावेदित-निरोध । ११०, १२५, १७६ (=
ध्यान), १८१, १९९ (समाधि), २६६,
४६७ (= जित समाधिमें संज्ञा और वेदना
का अभाव होता है), ४७४, ५६३ ।
संज्ञी । ४३३ (= धाहोश), ४३४ (= चंतन) ।
सञ्जयतन । ६०१ (= छः आयतन) ।
सत्काय । १७९, २५४ (= आत्म-वाद) ४५१,
४३५ (= नित्य आत्म मानना) ।
सत्काय-दृष्टि । ८ (= कायाके भीतर पुरु नित्य
आत्माकी सत्ताको मानना), ४६१
(= नित्य आत्माकी धारणा) ।
सत्काय-निरोध । १७९ (= आत्माके रयालका

नाश) ।
 सत्काय-निरोध-नामिनी प्रतिपद । १८० ।
 सत्काय-वाद । ५९८ ।
 सत्काय-वाद-खंडन । ५९९ ।
 सत्य । ५७५, ३२७, ५७५ ।
 सत्यान-मृद्ध । १९२ (= कायिक मानसिक-
 धालस्य) ।
 सत्यानुपत्ति । ३९८ (= सत्य प्राप्ति) ।
 सत्यानुरक्षा । ३९७ (= सत्यकी रक्षा) ।
 सत्त्व । (= प्राणी) ७, ४५, ५२, ३३६ (=
 व्यक्ति), १५७, ११५ (= जीव), ९०,
 ११५, ४३५ (= चेतन-सन्तति) ।
 सत्वप्रतिष्ठ । ५३९ (= महादुर) ।
 संतुष्ट । ४९० (= लोमत्त) ।
 सदर । २७२ (= समय) ।
 सद्-अर्थ । ४५३ (= निर्वाण) ।
 सद्धर्म । २११ (सात) ।
 संदर्शित । २१० (= समादपित), ५४५ (=
 सुज्ञाना) ।
 संधावन । १५१ ।
 सन्नामन । ३७५ (= धुमाना) ।
 सन्निपात । १२० (= समवाय), ५०१ (=
 जमावड़ा) ।
 संदान । ४११ (= ६२ प्रकारके मतरूपी पगहे) ।
 सपदान-चारी । ३०९ (= निरन्तर चलते रह,
 भीख माँगनेवाले) ।
 सप्पाय । ४३७ (= अनुकूल), ४३७, ५८५,
 ४४७ (= पथ्य) ।
 संपन्न । २४ (परिपूर्ण) ।
 संपराय । ४२९ (= दूसरा जन्म) ।
 संपुटित । (= चिचुका) ५०, ३४८ ।
 संप्रजन्य । ३६ टि०, ११४ (= जानकर करना)
 ११४, १५९, १६० (= होश) १६२, ४५३ ।
 संप्रज्ञान । १४ (= सूझ) ।
 संप्रलाप । २८४ (= वक्त्रवाद) ।
 संप्रवारित । ३७९ (= संतर्पित) ।
 संप्रवेपित । १४९ (संप्रकम्पित = संकम्पित =
 कम्पित) ।

संप्रसाद । ४५०, ४६६ (= विषयमें चित्तका
 अलेप होना) ।
 संप्रसादन । ३४९ (= प्रसन्नता = चित्तकी
 एकाग्रता) ।
 सन्वासव । ६, ९ (= सारे भास्त्रव) ।
 सन्नहचारी । ९ (= एक जैसे व्रतपर आरुढ़,
 गुरुमाई), १९ (= एकद्वतके व्रती),
 १२२, १२७, १५०; २४६ (= गुरु भाई),
 १९१ (= सधर्मी) ।
 संवुद्ध । सम्यक्- २४ (= परमज्ञानी) ।
 संवोध । ७४ (= बुद्धत्व-प्राप्ति), २१२ (परम-
 ज्ञान) ।
 संवोधि । १३ (= परमज्ञान), ३३९ (= बुद्ध-
 ज्ञान) ।
 संवोध्यंग । ९ (टिप्पणी भी देखो) ।
 संभव । ४४९ (= जगह) ।
 संभावना । ४६२ (= स्थान) ।
 समग्र । ११३ (एकता), ३६५ (= एकराय) ।
 समंगीभूत । ३३६ (= युक्त) ।
 समचर्या । ६०३ (= धर्माचरण) ।
 समनुमार्जन । ४४३ (= परीक्षण) ।
 समन्वाहार । ११९ (= मनसिकार-पूर्वक विषय-
 ज्ञान) ।
 समन्वेपण । १८९ (तहक्कीकात), १९० (=
 अन्वेपण) ।
 समय । २५८ (= ख्याल) ।
 समवर्त-स्कंध । ३७५ (= समान परिमाणके
 कंधेवाले) ।
 सम-विषम । (= बुरा, भला) ।
 सम-सम । ३४१ (= वराधर) ।
 समाचार । ३६२ (= आचरण), ३९८, ४७५
 (= कर्म) ।
 समादपित । ५४५ (= सुज्ञाना) ।
 समाधि । ९ टि० (= चित्तकी एकाग्रता),
 ४६७, ६०२ ।
 समाधि-निमित्त । १४७ (= चित्त-एकाग्रताके
 आकार) ।
 समाधि-संवोध्यंग । ५९३ ।
 समापत्ति । ४६७, ५५५ (= समाधि) ।

समाहित । १ (= एकाग्र), १५, १६६, २७३ (= एकाग्र-चित्त), २८७ (= समाधि-प्राप्त) ।
 समुच्छिन्न । अ—६५ (= नकटे) ।
 समुदय । (= उत्पत्ति) ३१, ३६, ३८, ३९, २९३, २९७, ४३७, ५९८, ३९ (= कारण) ।
 समुदय-धर्म । ३७९ (= उत्पन्न होनेवाला) ।
 समुदाचार । ५०६ (= संपर्क) ।
 समुदाचारित । ५१७ (= प्रेरित) ।
 समुदाय । ३७९ ।
 समुद्रनिम्ना । २८६ (= समुद्र-प्रवण), २८६ (समुद्रकी ओर जानेवाली) ।
 समुद्रप्रवण । २८६ (= समुद्र प्रस्मारा) ।
 संमुख-विनय । ४४३ ।
 संमुखीभूत । ५४७ (= विद्यमान) ।
 समूह । १४६ (= मूह) ।
 संमोदन । २६७ (= कुशल प्रश्न पूछना), ३६५ (= एक दूसरेसे मुदित) ।
 संमोह । १४ (= Hypnotization), १४७ (= मूढ़ता), २८२ (= भ्रम) ।
 सम्पज्ञान । (देखो संप्रज्ञान) ।
 सम्पत् । ३२२ (= अवस्था) ।
 सम्पन्न । ४५२ (= युक्त) ।
 सम्प्रहर्षक । ९४ (= उत्साह देनेवाला) ।
 सम्प्रज्ञान । ४५४ (= सचेत) ।
 सम्प्रायण । अ—६२ (= अ-स्वीकार), सम्योष । १०३ (= बुद्ध-पद-प्राप्ति) ।
 सम्बोधि । ३४६ (= परमज्ञान) ।
 सम्भावित । ९४ (= प्रतिष्ठित) ।
 सम्मोदन । २३८ (= खुशी), ३८३ (= कुशल-प्रश्न) ।
 सम्मोप । अ—३०८ । (= न भूलना) ।
 सम्यक्-प्रतिपदा । ५६७ (= ठीकमार्ग) ।
 सम्यक्-प्रतिपत्त । ३०६ (= सत्य-आरूढ़) ।
 सम्यक्-प्रधान । ३०८, ४३८, ४४२, ४९१ ।
 सम्यक्-संबुद्ध । ५ (= यथार्थ ज्ञानी), १८९ ।
 सम्यक्-संबोधि । ५ (= यथार्थ परम-ज्ञान) ।
 सम्यक्-समाधिको । ४८६ ।
 सम्यग् । २६१ ।

सम्यग्गान्धाविमुक्त । ९१ (= यथार्थ ज्ञानमे-
 जिनकी मुक्ति हो गई है) ।
 सम्यग्गत । ४२, ४३ (= ठीक स्थानमें), ३००
 (= सत्यको प्राप्त) ।
 सम्यग्-दृष्टि । १५ (= सच्चे सिद्धान्तवाले),
 (= सम्मादिष्टि). ३० (= ठीक सिद्धान्त-
 वाला), १७०, ३४१ (= ठीक धारणा-
 वाला), १८० ।
 संयत । २११ (= गुप्त-द्वार) ।
 संयमी । ४११ (= दान्त) ।
 संयोजन । ८, ९ (= फंडा, बंधन), २३ (= मान-
 लिक बंधन), ३८ (दल), ३९ टि० (दग),
 २१५, २३०, २६६, २८०, ४७१ (= बंधन),
 २५४, ५६४ ।
 सरण । ५१३ (= चित्तमल) ।
 सरागता । अ—२४३ (= वैराग्य) ।
 सरीसृप । ८ (= सर्प-जिह्व) ।
 सर्व (= सारा) १९६ ।
 सर्वज्ञ । ३१८ ।
 सर्वज्ञ-सर्वदर्शी । ४२८ ।
 सर्वदर्शी । ५९ (= सर्वज्ञ), ३१८ ।
 सस्य । ७५ (= फलल) ।
 संवर्त-कल्प । १५ (= प्रलयकल्प) ।
 सञ्चयतन विभंग । ५६० (= छः आयतनों
 का विभाग) ।
 सलोहित । २९४ (= नार्ह-नेधु) ।
 सल्लोख । (= तप) ११, २७, २८ ।
 सल्लोख-परियाय । २९ ।
 स-विज्ञानक । ४७० (= जीवित) ।
 संवर । ६, १३४ (= रोक), ८ (= दौबना,
 संयम करना), ११४, १५३, २११, २५८
 (= रक्षा) ।
 संविभ्र । २९३ (= रोनाचित) ।
 संविस्त्यन्दन्ती । ३६३ (= भरकर यहाँ-तुट) ।
 संवृत । ५९ (= पाप), २२१ (= रक्षित),
 २२५, २९३, ५१८ (= गोपित, रक्षित),
 ४१७ (= लोक सम्मति) ।
 संवेग । ११८ (= उदात्ती) ।

संसार । ५१, ४१२ (= जन्म-मरण), ३३७
(= भवसागर) ।

संस्मृष्ट । १७४ (= मिले-जुले) ।

संस्मृष्ट । अ—९४ (= अनासक्त) ।

संस्कार । ३३, ३५ (= क्रिया, गति, तीन हैं),
४३, ८८ (= दिलपर प्रभाव), १३९ (=
गति), १५५, १८१, २८२, २९७, ४३४
(= क्रिया), ४३४ (= कृत, बना हुआ),
४६०, ४८० (= क्रिया, कृति), ५०६ ।

संस्कार-उत्पत्ति । ४९८ (संस्कारुत्पत्ति) ।

संस्कृत । २०८, २१०, ४८०, ५०२, ६०८ (=
कृत्य, कृत्रिम) ।

संस्कृत । अ—१८० ।

संस्कार-अवशेष । ४३५ (= संस्कारसे बची)

संस्थागार । १३८ (= प्रजातन्त्र भवन), २०७
(= यज्ञशाला), २१० (= गणसंस्थाका
आगार), २६७ (= प्रजातंत्र-भवन) ।

संस्थान । ७८ (= आकार) ।

सस्नेह । ३४६ (= भीगे) ।

संस्पर्श । ३२, ११८ (= स्पर्श, योग), ११८
(= सम्यन्ध), ५८३, ५९५ (= विषय और
इन्द्रियका समागम) ।

सह-धार्मिक । २७९ (= धर्मानुकूल) ।

सहव्य । ४१९ (= सरूपता), ५२४ (=
समानता), ५३४ (= योनि) ।

सहाय । ४६३ (= मित्र) ।

स-हेतुक । ४०५ (= फलदायक) ।

साक्षात्कार । १३० (= दृष्टि), १४२ (= दर्शन),
१७५ (भावना आदिकी प्रक्रियाके जानने
के लिये अभिज्ञसे वार्तालाप) ।

साक्षात्कृत । २८२ (= दृष्ट), ३२२ (= प्रत्यक्ष) ।

साक्षी । २८७ (= साक्षात्कार करनेवाला) ।

सातत्य । ६५ (= निरन्तर अम्यास) ।

साधु । २१३ (= शाय्याग), २८४ (= अच्छा),
४६९ (= ठीक) ।

सांपरायिक । ३६९ (= परलोक के सम्यन्धमें)

सान्नी । १९२, ४२४, ४५६ (= एकता) ।

सामीची । ५७९ (= अज्ञलि जोड़ना) ।

सामीची-कर्म । ३६९ (= हाय जोड़ना) ।

सामीची-प्रतिपन्न । २५ (= ठीक मार्गपर
आरूढ़) ।

साम्परायिक । ३७८ (= परलोक संबंधी) ।

सार । १२१ (= हीर), १४१, ५०८ ।

साराणीय । १९२, ४४४ ।

सारत्व । ३९२ (= धन आदि) ।

सारद्ध । अ—१५ (= अ-व्यग्र), ११८ (=
अ-चंचल) ।

सारम्भ । १२, २७ (= हिंसा), ४४९ (= पीड़ा) ।

सार्थक । ३०६ (= सहित) ।

सार्वकालिकी । ५०४ (= असामयिक) ।

सालोहित । ३३५ (= रक्त संबंधी) ।

सावद्य । ७७ (= दोष-मुक्त) ।

सावित्री । ३८४ ।

साहस्र । ४९८ ।

सांष्ट्रिक । २५ (= हृत्ती शरीरमें फल देने
वाला), ३८४ (= प्रत्यक्ष फलप्रद) ।

साहुल-चीवर । २९७ (= काली भेदके बालके
कपड़े) ।

साहस्री-लोकधातु । ४९८ (= एक हज़ार
ब्रह्मांड) ।

सिक्वलि-वन । ५४१ ।

सिंह-हनु । ३७५ (= सिंह समान पूर्ण ठोड़ी
वाले) ।

सुख-विनिश्चय । ५६९ ।

सुख-वेदना । १४५ (सुखका अनुभव) ।

सुख-वेदनीय । ४२९ (= सुख मोग करनेवाला) ।

सुगत । ७१ (= बुद्ध), १९० (= सन्मार्गा-
रूढ़), ११ (= बुद्ध), २४, ४१२ (=
सुंदर गतिको प्राप्त) ।

सुगृहीत । १४९ (= सु-मनसीकृत), ४३९
(= ठीक समझा हुआ) ।

सुचरित । १५ (= सदाचार), २९४, ५३८
(= सुकर्म) ।

सुजात । ३८३ (= सुन्दर जन्मवाले), ३९५
(= कुलीन) ।

सुणिसा । ११८ (= यहू) ।

सुत्त । २९२ (सूत्र, सूक्त) ।

सुह । २५२ (= सुहृ) ।

सुदर्शी । १७०, ४९९ ।

सुदर्शन । १७० ।

सुदान्त । ५१६ (= सुशिक्षित), ३७० (= अच्छी प्रकार लिखलाया) ।

सुपरिकर्म । ३११ (= पालिश) ।

सुपरिकर्मकृत । ५३६ (= पालिश की) ।

सुप्रति-निस्सर्गी । ४३९ (आसानीसे त्यागने-वाला) ।

सुप्रतिपन्न । १११ (= सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर लगा), २५, ३६५ (= सुमार्गाहृद्) ।

सुप्रति-प्रश्रवध । (= अच्छी तरह शात) ।

सुप्रतिविद्ध । ४५७ (सुविदित), ५०७ (= तह तक पहुँच कर समाप्ता गया) ।

सुप्रतिष्ठित-पाद । ३७४ (= जिसका पैर जमीन पर बराबर बैठता हो) ।

सुप्रहीण । ३४७ (= अच्छी तरह छूट गया) ।

सुभरता । ११ (= सुगमता) ।

सु-भाषित । २९५ (= ठीक कहा), ३६२ (= सुन्दर-कथन) ।

सुभूमि । ८० (उद्यान) । ४९७ (= याग) ।

सुवच-न्तर । ४३८ (= अधिक मधुर भाषी, अधिक सुवक्ता) ।

सुवर्णमाला । ५७५ ।

सु-विनीत । ३७० (= अच्छी प्रकार लिख-लाया) ।

सुरा । ४९ (= अर्क उतारी शराय) ।

सुरा-भेरय । ५७९ (= कच्ची शराय) ।

सु-श्रुत । १४९ (= अच्छी प्रकार सुना), ३०२ (= ठीक सुना) ।

सुसंयत । ४४९ (= सु-भावित) ।

सुसुका । २६९ (= नरमझी मत्स्य) ।

सुसुका-भय । २७० ।

सूक्ष्म । २८२ (= निपुण) ।

सूक्ष्म-ह्रवि । ३७४ (= ह्रवि, ऊपरी चमड़ा) ।

सूची । ८२ (= यिलाई) ।

सूची-मुख । ५४१ (= सूई जैसे तेज़ सुँहवाला

प्राणी) ।

सूप । २० (= दाल आदि तिर्यँत) ३२८ ।

सूत्र । ८६, ५६१ ।

सेख । (देखो शब्द) ।

सेवितव्य । ४७५ (= सेवन-योग्य) ।

सोत्तिसिनाति । ३२५ (= ज्ञान-चूर्ण-पिठ), ४०२ ।

सौमनस्य । १५, ५६, ११७ (= चित्तोलान्), ५८ (= दिलकी खुशी), १६० (= चित्त-तुष्टि), २३८ (= सुप्त), ३५८ (= आनन्द) ।

सौरता । ८० (= सुरत) ।

सौवचस्यता । (= मृदुभाषिता) ।

स्क्रंघ । ३८ टि०, १७९ (पाँच), ११४ (= राशि) ।

स्तूप । ४४१ ।

स्तब्ध । ६२ (= जड़) ६३ ।

स्तम्भ । २४ (= जड़ता) ।

स्तम्भितत्व । ५३० (= जड़ता) ।

स्त्यान । (= यौन) १४ (= शारीरिक आलस्य) ।

स्त्यान-मृद्ध (= यौन-मिद्ध), ३८, ९३, ४१७, ४५८ (= शरीर और मनका आलस्य),

११४ (= मनके आलस्य), १६०, १७५, ५२६, (= आलस्य) ।

स्थपति । ३१४ (= यवई), ३६३, (= फीफ-वाद्) ।

स्थपति । (= यवई) २३७ (= राज, थपति) ।

स्थविर । १०४, २५८, ३७३ (= वृद्ध) ।

स्थविर वाद । ३७५ (= वृद्धोंका मिथ्यान्त) ।

स्थान । ४२ (= यात), २८७, ४८० (= संभव), ४२२, ४३४, ५१५ (कारण) ।

स्थान-अस्थान । ४८१ ।

स्थानशः । २३६ (= धन) ।

स्थापित । २५१ (= जिनका उत्तर रोक् दिया गया) ।

स्थाम । ३०१ (= हृत्ता) ।

स्थालीपाक । १४२ (= मीठा), ५७०

(= भोजन) ।
 स्थित । ३५३ (= लड़ा) ।
 स्थूल-वद्य । ४४४ (= बड़ा दोष) ।
 म्नात । २५ (= नहाया) ।
 म्नातक । १६४, ४१३ ।
 म्नायु । ५९२ (= नस) ।
 स्नेह । १६३ (= गीलापन, नमी) ।
 स्पर्श । ३२, ३३ (= इन्द्रिय और विप-
 यका, संयोग); ४३, ७२, १५४, (=
 आहार), २३२ (= कर्म-विपाक),
 ३३२ (= मोग), ४६६ (= इन्द्रिय-
 विषयका संपर्क), ४८०, ४९७ (= व्या-
 घात), ५९२, १८१ (= अनिमित्त),
 १८१ (= शून्यता) ।
 स्पर्श-आयतन । ४३७ (= चक्षु, श्रोत्र, घ्राण,
 जिह्वा, काय और मनके विषय) ।
 स्पर्श-काय । ५६०, ५९७ ।
 स्पर्शायतन । ५७३ ।
 स्पृष्ट । ३५७ (= लगा) ।
 स्पृष्टव्य । ३२ (= त्वक् इन्द्रियका विषय),
 ३९ (= ढंडा गर्म आदि), १५३ (= छूये
 जाने वाले विषय), ४१७ ।
 स्फोट । ३२५ (= समृद्ध) ।
 स्मित । ३२५ (= मुस्कराहट) ।
 स्मृत । ३ (= यादमें धाया) ।
 स्मृति । १५८, १६२, २६५, २६९, ३७६, ४६७
 (= होश), २१२ (= याद), ४५३ ।
 स्मृति पारिशुद्धि । २१८ (स्मरणको शुद्ध
 करनेवाली उपेक्षा) ।
 स्मृति-प्रस्थान । ३५, ५१, २०५, ३०८, ४३९,
 ४४२, ४९१, ५६०, ५६३, ४० (का
 महात्म्य) ।
 स्मृति-विनय । ४४३ ।
 स्मृति-संबोधयंग ५९३ ।
 स्मृति-संप्रजन्य । १५ (= होश और अनुभव),
 १४७, ४५३ (= होश-चेत), ४९२ ।

स्रोत आपत्ति । ५८० (= सोतापत्ति) ।
 स्रोत आपन्न । ४९१ ।
 स्वक । अ-३३६ (= अपना नहीं) ।
 स्वप्न समान । ८४ ।
 स्वर्गपरायण । ९१ (= स्वर्गगामी) ।
 स्वाख्यात । २५ (= सुन्दर रीतिसे कहा गया),
 ९१, १९० (= अच्छी तरह व्याख्यान किया),
 ३८४ ।
 स्वाख्यात-पन । ३५१ (= उत्तम वर्णन) ।
 स्वागत । २६५ (= स्वीकार) ।
 स्वेद । ११८ (= पसीना) ।
 स्वेदज-योनि । ४६ ।
 स्वस्ति । २०९, ३८८ (= मंगल) ।
 स्वैरी । २७३ (= स्वेच्छाचारी) ।
 हत्थत्थर । ३३४ (= गलीचे) ।
 हत्थ-विलंघक । ५२९ (= हाथका संकेत) ।
 हरीसिक। अव्यूढ—९० (= जो हलकी हरीस
 जैसे दुनियाके भारोंको नहीं उठाये हैं) ।
 हस्त-प्रज्योतिका । ५५ (= दंड), ५९ ।
 हस्ताऽपलेखन । ४८ (= हाथ-चट्टा) ।
 हस्ति-दमक । ५१७ (= हाथीको सिखाने
 वाले), ५६३ (= महावत) ।
 हस्ति-पद । १११, ११७ (= हाथीके पैर) ।
 हस्ति-पद-उपमा । १७२ ।
 हत्थि-पदोपम । ११६ ।
 हिरण्य । ३३३, ३३६, ५३७ (अशर्फी) ।
 हिरुत्ताण । ५३२ (= सलज्ज कर्म) ।
 हीन । ३४० (= नीच) ।
 हीन-वीर्य । ४५४ (= अनुद्योगी) ।
 हीना । १७ (= नीच) ।
 हेतु । १६८ ।
 हेतु-रूप । ३७० (= ठीक) ।
 हेमन्तिक । १२, ९३ ।
 ह्री । १६१, १६२ (= लज्जा-संकोच) ।
 ह्रीमान् । २११ (लज्जाशील) ।

